

वीर सेवा मन्दिर  
दिल्ली

★

क्रम संख्या

०६५२

काल न०

२२०.३

सण्ड

३५



## राम-कथा

# राम-कथा

(उत्पत्ति और विकास)

[ प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा डी० फ़िल० उपाधि के लिए स्वीकृत निबंध ]

लेखक

रेवरेंड फ़ावर कामिल बुत्के, एस० जे०, एम० ए०, डी० फ़िल०  
अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, सत जेवियर कॉलेज, रांची

१९६२

हिन्दी परिषद् प्रकाशन  
प्रयाग विश्वविद्यालय



द्वितीय संस्करण, नवंबर १९६२

मूल्य बीस रुपये

प्रकाशक : हिन्दी परिषद् प्रकाशन, प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग  
मुद्रक : अरुण कुमार राय, टेकनिकल प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, प्रयाग

जिनकी प्रतिभा ने राम-कथा को भारत तथा निकटवर्ती  
देशों के साहित्य में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण  
स्थान दिलाया और भारतीय संस्कृति  
का एक उज्ज्वल प्रतीक बना  
दिया, उन

## आदिकवि वाल्मीकि

को राम-कथा की दिग्विजय का प्रस्तुत विवरण सश्रद्धा समर्पित है ।  
त्वदीयं वस्तु वाल्मीके तुभ्यमेव समर्प्यते

## परिचय

प्राचीन भारत के समान ही आधुनिक यूरोप ज्ञान सम्बन्धी खोज के क्षेत्र में अग्रसर रहा है। यूरोपीय विद्वान ज्ञान तथा विज्ञान के रहस्यों के उद्घाटन में निरंतर यत्नशील रहे हैं। उनकी इस खोज का क्षेत्र यूरोप तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि संसार के समस्त भागों पर उनकी दृष्टि पड़ी। इस महत्त्वपूर्ण ग्रंथ के लेखक फ्रादर बुल्के को हम इन्हीं विद्याध्यसनी यूरोपीय अन्वेषकों की श्रेणी में रख सकते हैं। भारतीय विचार-धारा समझने के लिये इन्होंने संस्कृत तथा हिन्दी भाषा और साहित्य का पूर्ण परिश्रम के साथ अध्ययन किया। प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी में एम० ए० की परीक्षा पास करने के उपरान्त आप ने डी० फिल० के लिये 'राम-कथा का विकास' शीर्षक विषय चुना। प्रस्तुत ग्रंथ उनका थीमिस ही है जिस पर उन्हें प्रयाग विश्वविद्यालय से डी० फिल० की उपाधि मिली है।

सुयोग्य लेखक ने इस ग्रंथ की तैयारी में कितना परिश्रम किया है यह पुस्तक के अध्ययन में ही समझ में आ सकता है। राम-कथा से संबन्ध रखने वाली किसी भी सामग्री को आप ने छोड़ा नहीं है। ग्रंथ चार भागों में विभक्त है। प्रथम भाग में 'प्राचीन राम-कथा साहित्य' का विवेचन है। इसके अन्तर्गत पाँच अध्यायों में वैदिक साहित्य और राम-कथा, वाल्मीकिकृत रामायण, महाभारत की राम-कथा, बौद्ध राम-कथा तथा जैन राम-कथा संबंधी सामग्री की पूर्ण परीक्षा की गई है। द्वितीय भाग का सबंध राम-कथा की उत्पत्ति से है और इसके चार अध्यायों में दशरथ जातक की समस्या, राम-कथा के मूल स्रोत के सम्बन्ध में विद्वानों के मत, प्रचलित वाल्मीकीय रामायण के मुख्य प्रक्षेपों तथा राम-कथा के प्रारंभिक विकास पर विचार किया गया है। ग्रंथ के तृतीय भाग में 'अर्वाचीन राम-कथा साहित्य का सिंहावलोकन' है। इसमें भी चार अध्याय हैं। पहले और दूसरे अध्याय में संस्कृत के धार्मिक तथा ललित साहित्य में पाई जाने वाली राम-कथा संबंधी सामग्री की परीक्षा है। तीसरे अध्याय में आधुनिक भारतीय भाषाओं के राम-कथा संबंधी साहित्य का विवेचन है। इसमें हिंदी के अतिरिक्त तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड, बंगाली, काश्मीरी, सिन्धली आदि समस्त भाषाओं के साहित्य की छान-बीन की गई है। चौथे अध्याय में विदेश में पाये जाने वाले राम-कथा के रूप का सार दिया गया है और इस सबंध में तिब्बत, खोतान, हिंदेशिया, हिंदचीन, श्याम, ब्रह्मदेश आदि में उपलब्ध सामग्री का पूर्ण परिचय एक ही स्थान पर मिल जाता है। अंतिम तथा चतुर्थ भाग में राम-कथा सम्बन्धी एक

एक घटना को लेकर उसका पृथक्-पृथक् विकास दिखलाया गया है। घटनाएँ कांड-क्रम से ली गई हैं अतः यह भाग सात कांडों के अनुसार सात अध्यायों में विभक्त है। उपसंहार में राम-कथा की व्यापकता, विभिन्न राम-कथाओं की मौलिक एकता, प्रसिद्ध सामग्री की सामान्य विशेषताएँ, विविध प्रभाव तथा विकास का सिंहावलोकन है।

इस संक्षिप्त परिचय से ही स्पष्ट हो गया होगा कि यह ग्रंथ वास्तव में राम-कथा सबंधी समस्त सामग्री का विश्वकोष कहा जा सकता है। सामग्री के पूर्णता के अतिरिक्त विद्वान् लेखक ने अन्य विद्वानों के मत की यथास्थान परीक्षा की है तथा कथा के विकास के सबंध में अपना तर्कपूर्ण मत भी दिया है। वास्तव में यह खोजपूर्ण रचना अपने ढंग की पहली ही है और अनूठी भी है। हिन्दी क्या किसी भी यूरोपीय अथवा भारतीय भाषा में इस प्रकार का कोई दूमरा अध्ययन उपलब्ध नहीं है। अतः हिन्दी में इस लोकप्रिय विषय पर ऐसे वैज्ञानिक अन्वेषण के प्रस्तुत करने के लिये विद्वान् लेखक बधाई के पात्र है। आशा है कि भविष्य में उनकी लेखनी से इस प्रकार के अन्य खोजपूर्ण ग्रंथ प्रकाश में आवेंगे। प्रस्तुत अध्ययन का उत्तरार्ध 'राम-भक्ति का विकास' तो शीघ्र ही प्रकाशित होना चाहिए। प्रयाग विश्वविद्यालय हिन्दी परिषद् को इस बहुमूल्य कृति के प्रकाशन पर गर्व होना स्वाभाविक है।

नवम्बर, १९५०

धीरेन्द्र वर्मा

# निवेदन

## ( प्रथम संस्करण )

भारत तथा निकटवर्ती देशों के साहित्य में राम-कथा की अद्वितीय व्यापकता एशिया के सांस्कृतिक इतिहास का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। इस राम-कथा का अध्ययन अनेक दृष्टिकोणों से किया जा सकता है। प्रस्तुत निबन्ध में इसकी उत्पत्ति तथा कथावस्तु के विकास को रूपरेखा अंकित करने का प्रयत्न किया गया है। इस सीमित परिधि के दृष्टिकोण से प्राचीन तथा अर्वाचीन राम-कथा-साहित्य का निरूपण और विश्लेषण क्रमशः प्रथम तथा तृतीय भाग में किया गया है।

राम-कथा की उत्पत्ति तथा मूलस्रोत के मन्त्र में अनेक भ्रामक धारणाएँ विद्वन्मंडली में प्रचलित हो गई हैं। इनका निरूपण तथा खंडन द्वितीय भाग का विषय है। यद्यपि निबन्ध के इस भाग में किसी सर्वथा नवीन निष्कर्ष का प्रतिपादन नहीं है, किन्तु विवेच्य विषय से मन्त्र रखने वाली समस्त प्रकाशित सामग्री का मौलिक रूप से वर्गीकरण तथा स्पष्टीकरण किया गया है।

चतुर्थ भाग में वाल्मीकि रामायण की कथावस्तु के क्रमानुसार राम-कथा के विभिन्न कथा के विकास का अलग अलग वर्णन किया गया है। इसके लिए प्रथम तथा तृतीय भागों में निरूपित प्राचीन तथा अर्वाचीन राम-कथा-साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक था। यह साहित्य अत्यन्त विस्तृत है और इस प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन प्रायः सर्वथा मौलिक है, अतः इसमें त्रुटियाँ अवश्य रह गई होंगी। इनके लिए मैं विद्वानों में विनयपूर्वक क्षमाप्रार्थना करता हूँ।

राम-भक्ति के पल्लवित होने के साथ-साथ राम-कथा का विकास अपनी अंतिम परिणति पर पहुँच गया था। अतः पंद्रहवीं शताब्दी के बाद के संस्कृत साहित्य का पूरा निरूपण अनावश्यक था। इसी प्रकार आधुनिक आर्य-भाषाओं का राम-कथा साहित्य प्रस्तुत निबन्ध के दृष्टिकोण से अपेक्षाकृत कम महत्त्व रखता है। वास्तव में यह साहित्य प्रधानतया राम-कथा-साहित्य न होकर राम-भक्ति-साहित्य सिद्ध होता है। इसका (विशेषकर हिन्दी राम-साहित्य का) समुचित अध्ययन राम-भक्ति की उत्पत्ति और विकास के पूरे विश्लेषण के पश्चात् ही संभव हो सकेगा। आशा है कि एकादश वर्ष की खोज के बाद मैं 'रामभक्ति' (उत्पत्ति और विकास) नामक ग्रन्थ प्रकाशित कर सकूँगा। तत्पश्चात् हिन्दी साहित्य की राम-भक्ति-शास्त्रा की रचनाओं

का कथा तथा भक्ति दोनों दृष्टिकोणों से विस्तृत तुलनात्मक अध्ययन करने का मेरा विचार है।

प्रस्तुत निबन्ध प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा डी० फिल्० उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ है। परीक्षकों के मुझाव के अनुसार मैंने कई स्थलों पर भावों का किञ्चित् स्पष्टीकरण किया है तथा निरीक्षक के इच्छानुसार 'संहार' नामक अंतिम अध्याय पुनः लिखकर अधिक विस्तार में प्रस्तुत किया है :

निबन्ध के तृतीय भाग की सामग्री एकत्र करने में बहुत से भारतीय तथा विदेशी विद्वानों से सहायता मिली है। इसके सबध में निम्नलिखित विद्वान् विशेष रूप से मेरे घन्यवाद के पात्र हैं—डा० राजेंद्र हाजरा (पौराणिक साहित्य); श्री एम० तिरुमलैमामी आयगर (तमिल), रेक्लेण्ड टी० रायण और सी० सत्यनारायण (तेलुगु); डा० पी० के० नागयण पिन्लै (मलयालम), श्री एच० लोबो (कन्नड); श्री प्रह्लाद प्रधान (उडिया); श्री एन० के० भागवत (मराठी), श्री मनमुखलाल श्रावेरी (गुजराती), श्री एक० मारटिनी और सुथी एम० कापेलेज (टिद्चीन)।

मैं पूज्य डॉ० धीरेन्द्र वर्मा के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूँ, वे मुझे कई वर्षों में हिन्दी के अध्ययन में प्रोत्साहन देने आ रहे हैं। उनकी प्रेरणा से मैं राम-कथा की खोज में प्रवृत्त हुआ था और उनके विद्वत्तापूर्ण परामर्शों के फल-स्वरूप निबन्ध को प्रस्तुत रूप दे सका हूँ। अपने निरीक्षक डॉ० माता प्रसाद गुप्त के प्रति अपना आभार प्रदर्शन करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। उन्होंने मुझे अपना बहुमूल्य समय देने में कभी सकोच नहीं किया और निबन्ध के प्रत्येक अंश को यथासंभव परिपूर्ण बनाने के लिए समय-समय पर अनेक मुझाव दिये हैं।

डॉ० रघुवश का भी मैं अत्यन्त आभारी हूँ जिन्होंने ममस्त पाण्डुलिपि पढ़ने का कष्ट उठाया है। श्री रामसिंह तोमर ने प्रूफ देखने का भार स्वतः लेकर इस पुस्तक के शीघ्र प्रकाशन हाने में जो सहयोग दिया है उसके लिए मैं उनका सदा आभारी रहूँगा।

राँची

३०-६-१९५०

कामिल बुल्के

## (द्वितीय संस्करण)

'राम-कथा' के प्रकाशन के बाद बहुत से पाठकों ने पत्र लिखकर मुझे प्रोत्साहन दिया है और प्रश्न पूछ पूछ कर द्वितीय संस्करण की तैयारी में मेरा पथप्रदर्शन भी किया है। मैं उन सबों के प्रति आभार प्रकट करना अपना प्रथम कर्तव्य समझता हूँ।

द्वितीय संस्करण में निम्नलिखित परिवर्द्धन विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। आदिकवि वाल्मीकि विषयक समस्त सामग्री का निरूपण किया गया है। रावण तथा हनुमान् मन्थनी सभी वृत्तान्तों का अनुशीलन करने के पश्चात् दोनों के चरित का विक्रम अपेक्षाकृत विस्तारपूर्वक प्रस्तुत किया गया है। परशुराम, शबरी, त्रिजटा, मदीदरी, विभीषण, इंद्रजित्, शत्रुघ्न, आदि पात्रों से संबंध रखनेवाली सामग्री का भी संकलन किया गया है। राम-कथा साहित्य में अहल्या तथा सौदास की पौराणिक कथाओं का रामायणीय आधिकारिक कथावस्तु में संबंध स्थापित किया गया है, अतः मैंने इन दोनों कथाओं के विकास की रूपरेखा अंकित की है। प्रथम संस्करण में जैन राम-कथा का समुचित ध्यान नहीं रखा गया था, प्रस्तुत संस्करण में पद्मचरित्रों के कथानक के समस्त महत्त्वपूर्ण प्रसंगों का निरूपण दिया गया है। डॉ० दलमुख मालवणिया ने प्रकाशन के पूर्व ही पद्मचरित्रों की अपनी फाइल और डॉ० बी० एम० कुलकर्णी ने बंबई विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अपना अप्रकाशित शोध-प्रबंध (दिस्टोरी ऑव राम इन जैन लिटरेचर) मेरे पास भेज दिया है—इसके लिए मैं इन दोनों विद्वानों का आभारी हूँ। प्रथम संस्करण की अपेक्षा सेरीराम तथा रामकेति के विभिन्न प्रसंगों का अधिक ध्यान रखा गया है। डॉ० एफ० मार्टिनी (पेरिस) विशेष रूप से मेरे धन्यवाद के पात्र है—उन्होंने रामकेति के अविकल फ्रेंच अनुवाद की अपनी पाण्डुलिपि मुझे निरीक्षणार्थ प्रदान की है।

द्वितीय संस्करण के लिए पर्याप्त मात्रा में नितान्त नयी सामग्री भी मिल गई है। डॉ० बी० राघवन् (मद्रास) ने इस दिशा में मेरी सब से अधिक सहायता की है—तत्त्वसंग्रह रामायण, उदात्तराघव तथा अनेक अप्राप्य प्राचीन राम-नाटकों का परिचय उनके सीजन्य से प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित रचनाओं का प्रथम संस्करण में परिचय नहीं दिया गया था—धर्मसंघ, बृहत्कोशलसंघ, उल्लाघराघव, राघवोल्लास, गोविंद रामायण, रामायण मसीही और ब्रह्मचक्र।

वाल्मीकि रामायण से भिन्न विविध कथाओं की व्यापकता दिखलाने के उद्देश्य में क्षेत्रीय भाषाओं की सामग्री का अधिक ध्यान रखा गया है। बिहार राष्ट्रभाषा-परिषद् की अनुवाद-समिति के सदस्य की हैसियत से मैंने रंगनाथ रामायण तथा कंबारामायण

के हिन्दी अनुवाद का प्रस्ताव रखा था। फलस्वरूप इन दोनों रचनाओं का हिन्दी रूपान्तर तैयार हो सका। मैं डॉ० भुवनेश्वरनाथ मिश्र 'माधव' का आभारी हूँ जिन्होंने प्रकाशन के पूर्व ही कबरामायण के हिन्दी अनुवाद के निरीक्षण की मुझे अनुमति दी है। 'विद्यासंप्रहणेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्' के अनुसार मैंने क्षेत्रीय भाषाओं की सामग्री के सकलन की धुन में बहुत में भद्र लोगों को कष्ट दिया है, इसके लिए मैं यहाँ पर विनयपूर्वक क्षमा-याचना करता हूँ। मैं विशेष रूप से निम्नलिखित विद्वानों के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहता हूँ—श्री एन० वी० राजगोपालन्, एम० ए० (तमिल), रेव० पी० डेटियेन एस० जे० (बंगाली), श्री कृष्णचरण साहू, एम० ए० (उडिया), श्री गोपालकृष्ण भट्ट, एम० ए० (कन्नड), सुश्री दुर्गा भागवत (मराठी), डॉ० शैलजा करंदीकर (मराठी)।

श्री गधवप्रसाद पाण्डेय, एम० ए० ने पाण्डुलिपि पढ़ी है तथा भाषा को सुबोध-गम्य बनाने में अमूल्य योगदान दिया है। श्री उमाशंकर शुक्ल (हिन्दी विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय) के प्रति पूरा आभार प्रकट करने में अपने को असमर्थ पा रहा हूँ। आपने मेरे लिए प्रूफ देखने की मुविधा का प्रबंध किया और स्वयं भी प्रूफ-रीडिंग का कार्य विशेष सतर्कता से गपन्न किया। प्रस्तुत द्वितीय सम्करण के परिष्कृत रूप का ममत्न श्रेय उन्हीं को है। पुस्तक की सुन्दर रूप-सज्जा के लिए श्री बाल कृष्ण दूबे, एम० ए०, श्री सतीशचंद्र तथा टेकनिकल प्रेस के अन्य सभी कर्मचारी मेरे धन्यवाद के पात्र हैं।

रांची

१२-९-१९६२

कामिल बुल्के



# विषय-सूची

## प्रथम भाग

### प्राचीन राम-कथा-साहित्य

अध्याय	पृष्ठ
१. वैदिक साहित्य और राम-कथा	
क—वैदिक साहित्य में राम-कथा के पात्र:	... १
इ—इक्ष्वाकु, दशरथ, राम; अश्वपति, जनक	
ख—वैदिक साहित्य में सीता:	... ७
ग—सीता सावित्री, सीता कृषि की अधिष्ठात्री 'देवी'	
घ—वैदिक साहित्य में राम-कथा का अभाव	... २४
२. वाल्मीकिकृत रामायण	
क—वाल्मीकि रामायण के तीन पाठ	... २७
ख—रामायण का रचनाकाल	... ३२
ग—त्रादिकवि वाल्मीकि	... ३४
३. महाभारत की राम-कथा	
क—महाभारत और रामायण	... ४८
ख—महाभारत में राम-कथा	... ५०
(१) आरण्यपर्व; (२) द्रोणपर्व; (३) शांतिपर्व;	
(४) महाभारत में रामायण	
ग—रामोपाख्यान	... ५३
(१) आधार; (२) रामोपाख्यान और रामायण की तुलना	
४. बौद्ध राम-कथा	... ५८
(१) दशरथ जातक; (२) अनामकं जातकम्;	
(३) दशरथ कथानम्; (४) अन्य बौद्ध साहित्य	
५. जैन राम-कथा	
क—जैन राम-कथा की सामान्य विशेषताएँ	... ६५

ख—विमल सूत्र की परम्परा	...	६७
ग—गुणमद्र की परम्परा	...	७७

## द्वितीय भाग

### राम-कथा की उत्पत्ति

#### ६. दशरथ-जातक की समस्या

क—पाली जातकटुवण्णना की प्रामाणिकता	...	८१
ख—दशरथ जातक की गाथाएँ	...	८२
ग—दशरथ जातक की राम-कथा (अ) डॉ० वेबर का मत; (आ) दशरथ जातक की अन्तरग समीक्षा	...	८८
घ—पाली त्रिपिटक और रामायण	...	९६
ङ—रामायण पर बौद्ध प्रभाव ?	...	१०४

#### ७. राम-कथा का मूलस्रोत

क—ए० वेबर का मत	...	१०६
ख—एच० याकोबी का मत	...	१०७
ग—दिनेशाचन्द्र मेन का मत	...	११३
घ—उपमहार	...	११५
परिशिष्ट (१) राम-कथा का ऐतिहासिक आधार	...	११७
(२) वानर और राक्षस	...	१२१
(३) राम-कथा का भूगोल	...	१२५

#### ८. प्रचलित वाल्मीकिकृत रामायण के मुख्य प्रक्षेप

क—उत्तरकाण्ड	...	१२६
ख—बालकाण्ड	...	१२८
ग—अवतारवाद (१) नामघोष का निरूपण, (२) तर्क	...	१२९

#### ९. राम-कथा का प्रारंभिक विकास

क—राम-कथा-मन्थी गाथाएँ और आख्यान-काव्य	...	१३८
ख—आदिरामायण की उत्पत्ति	...	१३९

विषय-सूची	१५
ग—आदिरामायण का विकास	... १४२
(१) प्रलेप; (२) बालकाण्ड तथा उत्तरकाण्ड;	
(३) अवतारवाद	
घ—राम-कथा का व्यापक प्रसार	... १५०

## तृतीय भाग

### अर्वाचीन राम-कथा-साहित्य का सिंहावलोकन

#### १०. संस्कृत धार्मिक साहित्य में राम-कथा

क—रामभक्ति की उत्पत्ति और विकास	... १५३
ख—पौराणिक साहित्य	... १५९
(१) हरिवंश; (२) महापुराण; (३) उपपुराण	
ग—साम्प्रदायिक रामायण	... १७०
(१) योगवासिष्ठ; (२) अध्यात्म रामायण,	
(३) अद्भुत रामायण, (४) आनन्द रामायण;	
(५) तत्त्वमयह रामायण; (६) कालनिर्णय रामायण;	
(७) गीण रामायण	
घ—अन्य धार्मिक साहित्य	... १८१
(१) जंमिनी भारत; (२) सत्योपाख्यान; (३) धर्मसूत्र;	
(३) हनुमत्सहिता; (४) बृहत्कोशल सूत्र	
परिशिष्ट । 'हिन्दुत्व' में उल्लिखित रामायण	

#### ११. संस्कृत ललित साहित्य में राम-कथा

क—महाकाव्य	... १९०
(१) रघुवंश, (२) रावणवह (सितुबंध),	
(३) भट्टिकाव्य; (४) जानकीहरण;	
(५) अभिनन्दकृत रामचरित; (६) रामायण-	
मंजरी तथा दशवतारचरित; (७) उदारराघव;	
(८) उत्तरकालीन महाकाव्य: जानकी परिणय;	
रामलिंगामृत; राघवोत्लास; रामरहस्य ।	

स—नाटक	...	२०२
(१) प्रतिमानाटक तथा अभिषेक नाटक;		
(२) महावीरचरित तथा उत्तररामचरित;		
(३) उदात्तराघव; (४) कुन्दमाला;		
(५) अनर्घराघव; (६) बालरामायण;		
(७) महानाटक, (८) आश्चर्यचूडामणि;		
(९) अप्राप्य प्राचीन नाटक; (१०) प्रसन्नराघव;		
(११) उल्लासराघव; (१२) गौण नाटक;		
(१३) उत्तरकालीन नाटक		
ग—स्फुट काव्य	...	२१५
(१) श्लेष-काव्य; (२) नीतिकाव्य, (३) विलोमकाव्य;		
(४) चित्रकाव्य; (५) शृंगारिक खडकाव्य,		
(६) अन्य स्फुट काव्य		
घ—कथासाहित्य	...	२१९
<b>१२. आधुनिक भारतीय भाषाओं में राम-कथा</b>		
क—द्राविड भाषाओं के साहित्य में राम-कथा	...	२२२
(१) तमिल, (२) तेलुगु; (३) मलयालम;		
(४) कन्नड़; (५) आदिवासी कथाएँ		
ख—आर्य भाषाओं के साहित्य में राम-कथा	...	२३३
(१) सिन्धी, (२) काश्मीरी; (३) असमीया;		
(४) बंगाली, (५) उड़िया; (६) हिन्दी;		
(७) मराठी; (८) गुजराती; (९) उर्दू-फारसी		
<b>१३. विदेश में राम-कथा</b>		
क—तिब्बत; सोतान	...	२६१
ख—हिंदेशिया	...	२६४
ग—हिंदचीन; श्याम; ब्रह्मदेश	...	२७३
घ—पाश्चात्य दृष्टान्त	...	२८१

## चतुर्थ भाग

### राम-कथा का विकास

#### १४ बालकाण्ड

- १—बाल्मीकि रामायण का बालकाण्ड ... २८७  
 (क) कथावस्तु, (ख) विश्लेषण तीनों पाठों में  
 विभिन्नता, बालकाण्ड की उत्पत्ति
- २—बालकाण्ड का विकास . २९१  
 (क) दशरथ की वशावली, (ख) दशरथ के विवाह,  
 (ग) दशरथ की मत्तनि, (घ) अहल्योद्धार, (ङ) परशुराम,  
 (च) नवीन मामग्री
- ३—अवतारवाद .. ३१९  
 (क) दशरथ-यज्ञ, (ख) अवतारवाद का विकास,  
 (ग) अवतार के कारण वर, शाप
- ४—राम का बालचरित .. ३३८  
 (क) जन्म, (ख) बाललीला (ग) प्रारम्भिक कृत्य
- ५—राम-सीता-विवाह ... ३४९  
 (क) धनुर्भंग, (ख) सीतास्वयंवर, (ग) विवाहोत्सव,  
 (घ) पूर्वानुराग, (ङ) एकपत्नीव्रत
- ६—सीता की जन्मकथा ... ३६५  
 (क) जनकात्मजा, (ख) भूमिजा, (ग) सीता और  
 लका—रावणात्मजा, पद्मजा, रक्तजा, अग्निजा, फल  
 अथवा वृक्ष से उत्पन्न, (घ) दशरथात्मजा

#### १५ अयोध्याकाण्ड

- १—बाल्मीकीय अयोध्याकाण्ड ... ३८३  
 (क) कथावस्तु, (ख) विश्लेषण. तीनों पाठों में विभिन्नता,  
 प्रक्षेप
- २—अयोध्याकाण्ड का विकास ... ३८८  
 (क) राम की चित्रकूट-यात्रा, (ख) अघमुनि-पुत्र-वध;  
 (ग) भरत की चित्रकूट-यात्रा, (घ) राम का चित्रकूट में  
 निवास

- ३—राम का निर्वासन ... ३९८  
 (क) वनवास के विविध कारण; (ख) कैकेयी की वरप्राप्ति;  
 (ग) कैकेयी का दोषनिवारण; (घ) मथरा
१६. अरण्यकाण्ड
- १—वाल्मीकीय अरण्यकाण्ड ... ४०८  
 (क) कथावस्तु; (ख) विश्लेषण: तीनों पाठों में विभिन्नता;  
 प्रक्षेप]
- २—अरण्यकाण्ड का विकास ... ४११  
 (क) दण्डकारण्य-प्रवेश; (ख) लक्ष्मण का संयम, (ग) शूर्प-  
 णखा; (घ) जटायु; (ङ) सीता की खोज; (च) शबरी
- ३—पीताहरण ... ४३९  
 (क) कारण, (ख) मूलरूप; (ग) कनकमृग, (घ) माया  
 सीता
१७. किष्किंधाकाण्ड
- १—वाल्मीकीय किष्किंधाकाण्ड ... ४६१  
 (क) कथावस्तु; (ख) विश्लेषण: तीनों पाठों में विभिन्नता;  
 प्रक्षेप
- २—किष्किंधाकाण्ड का विकास ... ४६५  
 (क) हनुमान्-सुग्रीव में भेट, (ख) वालि-सुग्रीव-चरित,  
 (ग) राम की बल-परीक्षा, (घ) वालिवध; (ङ) वर्षा-  
 कालीन याचना, (च) वानरो का प्रेषण
१८. सुन्दरकाण्ड
- १—वाल्मीकीय सुन्दरकाण्ड ... ४९४  
 (क) कथावस्तु; (ख) विश्लेषण: तीनों पाठों में विभिन्नता;  
 प्रक्षेप
- २—सुन्दरकाण्ड का विकास ... ४९८  
 (क) हनुमान् का लका-प्रवेश; (ख) सीता-रावण-संवाद;  
 (ग) त्रिजटा-चरित, (घ) सीता-हनुमान्-संवाद; [(ङ) लंका-  
 दहन; (च) हनुमान् का प्रत्यावर्तन

## १९. युद्धकाण्ड

- १—वाल्मीकीय युद्धकाण्ड ... ५२६  
 (क) कथावस्तु; (ख) विश्लेषण: तीनों पाठों में विभिन्नता;  
 प्रक्षेप
- २—युद्धकाण्ड का विकास ... ५३६  
 (क) सेना का अभियान; (ख) विभीषण की शरणागति;  
 (ग) सेतुबंध; (घ) लका का अवरोध; (ङ) नागपाश;  
 (च) रावण की विजययात्रा; (छ) अग्निपरीक्षा;  
 (ज) इंद्रजित्-चरित; (झ) रावण-वध; (ञ) अग्निपरीक्षा;  
 (ट) वापसी यात्रा; (ठ) नवीन सामग्री

## २०. उत्तरकाण्ड

- १—वाल्मीकि रामायण का उत्तरकाण्ड ... ६०३  
 (क) कथावस्तु; (ख) विश्लेषण: तीनों पाठों में विभिन्नता;  
 उत्तरकाण्ड की उत्पत्ति
- २—उत्तरकाण्ड का विकास ... ६०६  
 (क) शत्रुघ्नचरित; (ख) मीदाम की कथा; (ग) शम्बूक-  
 वध; (घ) राम का अश्वमेध; (ङ) नवीन सामग्री: राम  
 की यात्राएँ और बिहार; सीता द्वारा रावण-वध
- ३—रावण-चरित ... ६२८  
 (क) वंशावली; (ख) तपस्या, (ग) विवाह; (घ) विवाहो-  
 त्तर-चरित . विजययात्राएँ; शिवभक्ति; साप; पराजय
- ४—हनुमच्चरित ... ६५०  
 (क) जन्मकथा और बालचरित : वायुपुत्र; आंजनेय;  
 वृदावतार; राम के पुत्र; विष्णु के अंशावतार; (ख) चरित्र-  
 चित्रण का विकास : पराक्रम; बुद्धिमत्ता; चिरजीवत्व;  
 ब्रह्मचर्य; रामभक्ति; देवत्व
- ५—सीता-त्याग ... ६९१  
 (क) सीता-त्याग का अभाव; (ख) सीता-त्याग के विविध  
 कारण: लोकापवाद; घोषी; रावण का चित्र; परोक्ष कारण;  
 (ग) अवास्तविक सीता-त्याग

६—कुश-लव-चरित	...	७०५
(क) कुशलवचरित का विकास; (ख) कुश-लव की जन्म-कथा : यमल कुश-लव; वाल्मीकि द्वारा कुश की सृष्टि;		
(घ) कुश-लव-युद्ध		
७—राम-कथा का निर्वहण	...	७१३
(क) प्राचीन सुखात राम-कथा; (ख) दुःखान्त राम-कथा;		
(ग) अर्वाचीन सुखात राम-कथा		

### २१. उपसंहार

क—राम-कथा की व्यापकता	...	७२१
ख—विभिन्न राम-कथाओं की मौलिक एकता	...	७२५
ग—प्रक्षिप्त सामग्री की सामान्य विशेषताएँ	...	७३०
घ—त्रिविध प्रभाव	...	७३५
(१) जैन राम-कथाओं का प्रभाव, (२) ईव प्रभाव;		
(३) शाक्त प्रभाव, (४) कृष्ण-कथा का प्रभाव		
ङ—विकास का मिहावलोकन	...	७३९

### परिशिष्ट

क—अवशिष्ट सामग्री	...	७४५
ख—राम-कथा-साहित्य की तालिका	...	७४९
ग—सहायक ग्रंथ	...	७५६
घ—अनुक्रमणिका	...	७७३
ङ—शुद्धिपत्र	...	८१९



## संकेत-चिह्न

- रा० वाल्मीकि रामायण (दाक्षिणात्य पाठ)  
गौ० रा० वाल्मीकि रामायण का गौड़ीय पाठ  
दा० रा० वाल्मीकि रामायण का दाक्षिणात्य पाठ  
प० रा० वाल्मीकि रामायण का पश्चिमोत्तरीय पाठ  
अ० रा० अध्यात्म रामायण  
आ० रा० आनन्द रामायण  
इं० ए० इंडियन एन्टीक्वेरी  
इं० हि० श्वा० इंडियन हिस्टोरिकल क्वाटरली  
इन० रि० ए० इन्साइक्लोपीडिया ऑव रिलिजन एण्ड एथिक्स  
ज० अ० ऑ० सो० जर्नल अमेरिकन ऑरियेंटल सोसाइटी  
ज० ए० सो० बं० जर्नल एशियाटिक सोसाइटी ऑव बंगाल  
ज० ऑ० इं० जर्नल ऑव दि ऑरियेंटल इस्टिड्यूट (बड़ौदा)  
ज० ऑ० रि० जर्नल ऑव ऑरियेंटल रिसर्च (मद्रास)  
ज० रा० ए० सो० जर्नल रायल एशियाटिक सोसाइटी  
ना० प्र० प० नागरी प्रचारिणी पत्रिका  
बी० ई० एफ० ई० ओ० बुलटिन एकोल फ़सिस एक्सट्रेम ओरियन  
हि० इं० लि० हिस्ट्री ऑव इंडियन लिटरेचर (विंटरनिस्स)  
हि० सं० लि० हिस्ट्री ऑव सस्कृत लिटरेचर (कीथ)

प्रथम भाग  
प्राचीन राम-कथा-साहित्य

अध्याय

१. वैदिक साहित्य और राम-कथा
२. वाल्मीकिकृत रामायण
३. महाभारत की राम-कथा
४. बौद्ध राम-कथा
५. जैन राम-कथा

## अध्याय—१

# वैदिक साहित्य और राम-कथा

### क—वैदिक साहित्य में राम-कथा के पात्र

१. वैदिक साहित्य में राम-कथा के अनेक पात्रों के नामों का उल्लेख मिलता है। इसके आधार पर वैदिक काल में राम-कथा के प्रचलन का प्रश्न उठाया जा सकता है। इस समस्या का समाधान करने के पहले उन स्थलों का विश्लेषण करना उचित होगा जहाँ उपर्युक्त पात्रों का उल्लेख मिलता है। सीता-सम्बन्धी सामग्री सब से महत्वपूर्ण होने के कारण दूसरे परिच्छेद में अलग सकलित है। प्रस्तुत पहले परिच्छेद में रामायण के अन्य पात्रों के उल्लेख दिये जाते हैं।<sup>१</sup>

#### इक्ष्वाकु

२. ऋग्वेद में इक्ष्वाकु का एक बार उल्लेख हुआ है ( १०, ६०, ४ ), लेकिन उस सूक्त में इक्ष्वाकु का नाममात्र दिया गया है जिससे इतना ही प्रतीत होता है कि वह कोई राजा थे। यस्पेक्ष्वाकुरूप व्रते देवान् मराम्येषते (यस्य इक्ष्वाकुः उप व्रते देवान् मरामी एषते) —जिसकी सेवा में घनवान् और प्रतापवान् इक्ष्वाकु की बृद्धि होती है।

अथर्ववेद में भी एक बार इक्ष्वाकु का नाम आया है। उस मंत्र में उबर से छुटकारा पाने के लिए कुष्ठ पीषे से प्रार्थना की जाती है। इसके अंतर्गत यह वाक्य मिलता है :

त्वा वेव पूर्वं इक्ष्वाको यं ( १९, ३९, ९ )—तू, जिसको इक्ष्वाकु पूर्वकाल में जानता था। इससे इतना ही पता चलता है कि इस मंत्र के रचनाकाल में इक्ष्वाकु एक प्राचीन वीर माने जाते थे।

---

१. यहाँ रामायण की आधिकारिक कथावस्तु से सीधा संबंध रखने वाले पात्रों का अभिप्राय है। विश्वामित्र, अगस्त्य, बसिष्ठ और भरद्वाज ऋग्वेद के ऋषि हैं, बालकांड और उत्तरकांड की विविध अंतरकथाओं के पात्रों के नाम वैदिक साहित्य में मिलते हैं। उनका यहाँ पर उल्लेख नहीं होगा।

## दशरथ

३. वैदिक साहित्य में दशरथ का एक बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद की एक दानस्तुति में अन्य राजाओं के साथ-साथ दशरथ की भी प्रशंसा की गई है ( १, १२६, ४ ) :

दशरथोऽस्य शोणाः सहस्रस्याघ्रे भेषि नयन्ति ।

‘दशरथ के चालीस भूरे रंग के घोड़े, एक हजार घोड़ों के दल का नेतृत्व ले रहे हैं ।’

इक्वाकु से सबन्ध रखने वाले स्थलों के समान उपर्युक्त उद्धरण से भी राजा दशरथ का कोई विशेष परिचय नहीं मिलता ।

मध्यएशिया की एक आर्यजाति का नाम मितन्नि था । इनके एक राजा दशरथ का नाम सुरक्षित है जिसका शासनकाल १४०० ई० पूर्व के लगभग माना जाता है ।<sup>१</sup>

## राम

४. राम दशरथ, परशुराम और बलराम, इन तीनों का उल्लेख पहले पहल रामायण और महाभारत में हुआ है । फिर भी वैदिक साहित्य से अनेक राम नामक व्यक्तियों का परिचय मिलता है । इनका उल्लेख करने के पहले तैत्तिरीय आरण्यक ( ५, ८, १३ ) के एक स्थल का उद्धरण देना है । यहाँ ‘राम’ शब्द का प्रयोग ‘पुत्र’ के अर्थ में हुआ है । प्रवर्ग्य ( सोमयज्ञ के पहले की एक विधि विशेष ) का अनुष्ठान करने वाले के नियम यों दिए जाते हैं

संबत्सरं न मांसमश्नीयात् । न रामामुपेयात् । न मून्मयेन पिबेत् ।

नास्य राम उच्छिष्टं पिबेत् ।

तेज एव तत्संश्रयति ॥

‘वह एक वर्ष तक मांस का भक्षण न करे । स्त्री का भोग न करे । मिट्टी के वर्तन से पानी न पिए । उसका पुत्र उच्छिष्ट न पिए । इसी तरह उसका

१. दं० दिनेशचन्द्र सेन दि बंगाली रामायणस, पृ० ३९ ।

२. ‘रामा’ अर्थ यहाँ पत्नी हो सकता है । अन्य स्थलों पर वह वेश्या के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है ( तैत्ति० संहिता ५, ६, ८, ३; काठक० म० २२, ७; जैमिनि उपनिषद् बाह्यग ४, ११, ५, १० ) । अथर्ववेद ( १, २, ३, १ ), तैत्ति० बा० ( २, ४, ४, १ ) और कौशिक सूत्र ( २६, २२-२४ ) में ‘रामा’ एक पौधे का नाम भी है, जिस पर सायण की टीका यों है—‘भृंगराजास्या ओषधिः’ ।

( यजमान का ) तेज पुंजीभूत होता जाता है । सायण के अनुसार 'राम' का अर्थ यहाँ 'रमणीय पुत्र' होता है, जो संबंधा समीचीन प्रतीत होता है । कालक्रम के अनुसार वैदिक साहित्य के विभिन्न रामों का परिचय नीचे दिया जाता है ।

### ( १ ) राम, ऋष्येव का एक राजा

ऋष्येव में 'राम' का एक बार उल्लेख हुआ है । उसका नाम अन्य प्रतापी यजमानों के साथ प्रयुक्त होने के कारण प्रतीत होता है कि वह कोई राजा हुआ होगा :

प्र तह्ःशोमे पृथवाने वेने प्र रामे षोचमसुरे मघवस्तु ।

ये युक्त्वाय पञ्च शतास्मयु पथा विश्वाव्येषाम् ॥ ( १०, ९३, १४ )

'मैंने दुःशीम पृथवान, वेन और राम (असुर)' इन यजमानों के लिए यह ( सूक्त ) गाया है । इन्होंने पाँच सौ ( छोड़े अथवा रथ ) जुतवाए ( जिससे ) उनका मुँहपर अनुग्रह चारों ओर फैल गया है ।

### ( २ ) राम मार्गवेय, श्यापर्णय ब्राह्मण

ऐतरेय ब्राह्मण में ( ७, २७-३४ ) राम मार्गवेय और जनमेजय के विषय में एक कथा मिलती है, जिसमें इतना ही परिचय मिलता है कि वह श्यापर्ण कुल के ब्राह्मण और जनमेजय के समकालीन थे । उनका रामायण की कथा से कोई सम्बन्ध नितान्त असंभव है । सायण 'मार्गवेय' की व्युत्पत्ति 'मनु' से मानते हैं, वेबर इसका संबंध मार्गव ( मनु की एक जाति १०, १६ ) से जोड़ते हैं ।

### ( ३ ) राम औपतस्विनि

शतपथ ब्राह्मण में 'अंसुग्रह' नामक यज्ञ के तत्त्व पर विचार-विनिमय होने पर अन्य आचार्यों के मतों के साथ साथ राम औपतस्विनि के मत का भी उल्लेख होता है ( ४, ६, १, ७ ) । इससे यह पता चलता है कि वह उपतस्विन् के पुत्र और याज्ञवल्क्य के समकालीन थे ।

### ( ४ ) राम क्रातुजातेय

जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण के दो स्थलों पर राम क्रातुजातेय वैयाघ्रपथ का उल्लेख मिलता है । दोनों बार उसका नाम दार्शनिक शिक्षा देनेवालों की एक नामावली में दिया जाता है । दोनों स्थलों पर वह शंख शात्यायनि आश्रय का शिष्य है और शंख वाम्बव्य का शिक्षक ( जै० उप० ब्रा० ३, ७, ३, २; ४, ९, १, १ ) ।

१. 'असुर' यहाँ पर राम की उपाधि प्रतीत होता है । यह लुइविग का मत है । अन्य विद्वानों के अनुसार असुर का अलग उल्लेख होना चाहिये ।

इन विभिन्न रावों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्राचीनतम वैदिक काल से ही राबाओं और ब्राह्मणों दोनों में 'राम' नाम प्रचलित था।

### अश्वपति

५. शतपथ ब्राह्मण (१०, ६, १, २) और छांदोग्य उपनिषद् (५, ११, ४) में अश्वपति कैकेय का उल्लेख मिलता है। दोनों ग्रंथों में प्रसंग एक ही है—कई ब्राह्मण आत्मा और ब्रह्म के विषय में दार्शनिक विवेचन कर रहे हैं। 'वैश्वानर' के तत्त्व के संबंध में वे किसी निश्चय पर नहीं पहुँचते। उनमें से एक यह प्रस्ताव करते हैं, 'अश्वपति कैकेय वैश्वानर तत्त्वज्ञः जानते हैं। उनके यह चर्चें।' प्रस्ताव स्वीकृत होने पर वे वहाँ जाते हैं और अश्वपति उनको वैश्वानर के तत्त्व के सम्बन्ध में शिक्षा देते हैं।

अश्वपति कैकेय देश के राजा थे और इनने विद्वान् थे कि वह ब्राह्मणों को भी सिखलाते थे, इतना ही परिचय उपर्युक्त स्थलों से मिलता है। इस प्रसंग में रामायण के अ-य पात्रों से किसी सम्बन्ध की सूचना नहीं होती। फिर भी शतपथ ब्राह्मण और छांदोग्य उपनिषद् में जनक वंदेह का भी उल्लेख हुआ है जिससे सम्भवतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वे दोनों समकालीन विद्वान् राजा थे।

### जनक

६. कालक्रम के अनुसार जनक का पहला परिचय हमें कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीय ब्राह्मण में प्राप्त होता है। सावित्राग्नि-यज्ञ का फल बतलाने के लिए एक आख्यान दिया जाता है जिसमें जनक वंदेह देवताओं से मिलते हैं। देवता उपर्युक्त यज्ञ के अनेक परिणामों का वर्णन करते हैं (३, १०, ९)।

इससे विस्तृत परिचय नहीं मिलता, लेकिन आगे चलकर शतपथ ब्राह्मण में 'जनक वंदेह' का चार भिन्न प्रसंगों में उल्लेख हुआ है। जनक के साथ-साथ याज्ञवल्क्य का भी चारों स्थलों पर उल्लेख हुआ है। जनक इतने विद्वान्, तत्त्वज्ञ के रूप में सामने आते हैं कि वे याज्ञवल्क्य को भी शिक्षा देते हैं और स्वयं ब्राह्मण बन जाते हैं। बाद के बृहदारण्यक उपनिषद् में स्थिति बदल गई है। उसमें याज्ञवल्क्य ही जनक को शिक्षा देते हैं।

शतपथ ब्राह्मण का पहला प्रसंग (११, ३, १, २-४) अग्नि ब्राह्मण में भी मिलता है (१, १९)। इसमें जनक वंदेह अग्निहोत्र के विषय में याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछते हैं और उचित उत्तर पाने पर उनको १०० गायों का पुरस्कार देते हैं।

दूसरे प्रसंग में ( श० ब्रा० ११, ४, ३, २० ) मित्रविद यज्ञ का मोतम राष्ट्रयण के पास से जनक वेदेह के पास जाने का उल्लेख है । जनक अनेक वेदांग-विद् ब्राह्मणों में यह यज्ञ न पाकर उसे याज्ञवल्क्य में पाते हैं और उनको एक सहस्र गायों का पुरस्कार देते हैं ।

तीसरे प्रसंग में जनक के ब्राह्मण बनने की कथा है ( श० ब्रा० ११, ६, २, १-१० ) । जनक तीन ब्राह्मणों से मिलते हैं, जिनमें से एक याज्ञवल्क्य है । जनक तीनों से अग्निहोत्र की विधि पूछते हैं । तीनों में याज्ञवल्क्य का उत्तर सबसे अच्छा होने पर भी पूरा नहीं है, इसलिए जनक विस्तारपूर्वक अग्निहोत्र रहस्य समझाते हैं । अंत में याज्ञवल्क्य से एक बार पाकर जनक याज्ञवल्क्य से ययाशुचि प्रश्न पूछने का अधिकार चाहते हैं । 'इस समय से लेकर' यही परिच्छेद का अंतिम वाक्य है, 'जनक ब्राह्मण ही थे ।'

चौथा प्रसंग शतपथ ब्राह्मण को छोड़कर अन्यत्र भी पाया जाता है ( श० ब्रा० ११, ६, ३, १ आदि; जैमिनि ब्राह्मण २, ७६-७७; बृहदारण्यक उप० ३, १, १-२ ) । जनक याज्ञकों को बहुत दक्षिणा देकर एक यज्ञ का प्रबंध करते हैं और सब से विद्वान् ब्राह्मण को १००० गायों का पुरस्कार देने की प्रतिज्ञा करते हैं । इसपर शालक्य याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछते हैं और अधिक जिज्ञासा प्रकट करने के कारण मर जाते हैं । यह वृत्तान्त किंचित् परिवर्तन सहित जैमिनि ब्राह्मण और बृहदारण्यक उपनिषद् में भी मिलता है ।

इसी प्रसंग को छोड़कर बृहदारण्यक में जनक और याज्ञवल्क्य के संबंध में एक और विस्तृत वृत्तान्त मिलता है ( बृ० आ० उप० ४, १, १ से ४, ४, ७ तक ) जिसमें याज्ञवल्क्य ब्रह्म, परलोक और आत्मा के विषय में जनक को शिक्षा देते हैं । अंत में जनक याज्ञवल्क्य के प्रति अपने आपको तथा अपनी प्रजा को समर्पित करते हैं ।

बृहदारण्यक उपनिषद् में दो अन्य स्थलों पर भी जनक का उल्लेख हुआ है । एक स्थल में जनक गायत्री के विषय में बुद्धिल-आश्वतरास्वि से कुछ कहते हैं ( ५, १४, ८ ) । दूसरा स्थल अधिक महत्त्वपूर्ण है । इसमें गार्ग्य बालाकि और अजातशत्रु का वार्तालाप दिया जाता है जो बृहदारण्यक उपनिषद् ( २, १, १ ) के अतिरिक्त किंचित् परिवर्तित रूप में कौषीतकी उपनिषद् ( ४, १ ) और शांखायन आरण्यक ( ६, १ ) में भी मिलता है । गार्ग्य बालाकि अजातशत्रु काशी के राजा के यहाँ जाकर कहते हैं—'क्या मैं ब्रह्म

१. यह अजातशत्रु (काशी के राजा) मगध के राजा (४९१ ई० पू०) से निम्न है ।

के विषय में कथन कर्हें ?' अजातशत्रु के उत्तर में जनक से ईर्ष्या आभासित है : 'इस वचन के लिए मैं एक सहस्र दूंगा क्योंकि सब के सब "जनक (वैदेह) जनक (पिता, संरक्षक) ही है" कह कर उनके यही दौड़ कर जाते हैं।'

उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि रामायण के अन्य पात्रों की अपेक्षा जनक वैदेह का वैदिक साहित्य में कहीं अधिक उल्लेख होता है। अर्वाचीन राम-कथा साहित्य में वैदिक जनक तथा रामायण के जनक अभिन्न माने जाते हैं। वास्तव में दोनों की अभिन्नता सिद्ध करने के लिए प्रमाण नहीं दिए जा सकते हैं। स्वीकार करना पड़ता है कि वैदिक साहित्य में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं मिलता कि सीता जनक की पुत्री है अथवा राम उनके जामाता हैं।

प्रस्तुत प्रश्न एक अन्य कारण से और जटिल बन जाता है। वाल्मीकि रामायण में दो भिन्न राजाओं का उल्लेख है जिनका नाम जनक है—एक मिथि का पुत्र है तथा दूसरा ह्रस्वरोमा का पुत्र और सीता का पिता (रा० १, ७१)। जातको में भी अनेक जनक नामक राजाओं का उल्लेख है (दे० महाजनक जातक ५३९)। महाभारत में सीता जनक की पुत्री तो मानी जाती है लेकिन जहाँ-जहाँ जनक का स्वतंत्र उल्लेख होता है वहाँ राम-कथा से किसी सम्बन्ध का निर्देश मात्र भी नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त इसमें कई भिन्न जनक नामक राजाओं का उल्लेख होता है—जनक, इन्द्रधुम्न का पुत्र (३, १३३, ४); जनक देवराति (१२, २९८, ४); जनक धर्मध्वज (१२, ३०८, ४); जनक कराल (१२, २९१, ७)।

वाल्मीकि रामायण, महाभारत तथा पुराणों में 'जनक' मिथिला देश के राजवंश का नाम भी माना जाता है

जनकाना कुले जाता राघवाना कुले वधु (गी० रा० ५, ३६, २०)

सीतापि सत्कुले जाता जनकानां महात्मनाम् (रा० ७, ४५, ४)

इद धनुर्वर ब्रह्मञ्जनमिधिर्नाम कैरभिपूजितम् (रा० १, ६७, ८)

तस्य पुत्रो मिधिर्नाम जनको मिधिपुत्रक।

प्रथमो जनको राजा जनकादप्युदावसुः॥

(रा० १, ७१, ४)

भो भो राजन् जनकाना वरिष्ठ (महाभारत ३, १३३, १६)

वशो जनकानां (वायु पुराण ८९, २२)

अतः निष्कर्ष यह है कि मिथिला का कोई भी राजा जनक के नाम से पुकारा जा सकता है। वैदिक साहित्य के जनक तथा सीता के पिता, इन दोनों



की अभिन्नता असंभव तो नहीं है, लेकिन उपर्युक्त विश्लेषण पर ध्यान देने से यह अत्यन्त संदिग्ध प्रतीत होती है। विष्णु पुराण ( ४, ५, ३० ), वायुपुराण ( ८९, १५ ), ऋग्वेद पुराण ( ३, ६४, १५ ), पद्म पुराण ( पाताल खण्ड ५७, ५ ), आदि में सीता के पिता, जनक, का नाम सीरध्वज भी बताया जाता है। कुशध्वज, जनक के भ्राता का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में किया गया है ( दे० १, ७१, १३ )।

### ख—वैदिक साहित्य में सीता

७. वैदिक साहित्य से दो भिन्न-भिन्न सीताओं की सूचना मिलती है। पहली सीता ऋषि की एक अधिष्ठात्री देवी है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद से लेकर सारे वैदिक साहित्य में अनेक स्थलों पर होता रहा है। दूसरी सीता का परिचय हमें तैत्तिरीय ब्राह्मण से प्राप्त होता है, जहाँ सीता सावित्री, सूर्य की पुत्री, और सोम राजा का उपास्थान कुछ विस्तारपूर्वक दिया गया है। इस सीता का उल्लेख इस स्थान को छोड़कर वैदिक साहित्य में और कहीं नहीं मिलता। पहले इस उपास्थान का थोड़ा विश्लेषण करके सीता, ऋषि की अधिष्ठात्री देवी, से संबन्ध रखने वाली सामग्री पर विचार किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त 'सीता' शब्द ( अर्थात् लांगलपद्धति ) का वैदिक साहित्य में अनेक बार उल्लेख हुआ है। लेकिन उन स्थलों पर सीता में व्यक्तित्व का आरोप नहीं किया गया है। अतः प्रस्तुत विषय के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण न होने के कारण उन स्थलों का विश्लेषण अनावश्यक है।<sup>१</sup>

१. कल्पसूत्रो को छोड़कर निम्नलिखित स्थलों पर 'सीता' शब्द का उल्लेख हुआ।

( १ ) ऋग्वेद १, १४०, ४।

( २ ) अथर्ववेद ११, ३, १२।

( ३ ) यजुर्वेदीय संहिताओं में अश्वमेध वर्णन के अंतर्गत जहाँ क्षेत्र तैयार करने के लिए हल द्वारा सीताएँ खींची जाती हैं।

काठक स० २०, ३।

कपिष्ठल स० ३२, ५-६।

मंत्रायणी स० ३, २, ४-५।

तैत्तिरीय स० ५, २, ५, ५, १।

( ४ ) शतरथ ब्राह्मण १३, ८, २, ६-७ ( श्राद्ध के वर्णन में सीताएँ खींचन का उल्लेख )।

## सीता सावित्री

८ सीता सावित्री की कथा हमे ऋण्यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में मिलती है ( २, ३, १० ) । किसी काम्य प्रयोग का प्रभाव दिखलाने के उद्देश्य से सीता सावित्री और सोम राजा का उपाख्यान उद्धृत किया गया है । इनमें सीता और श्रद्धा दोनों प्रजापति की पुत्रियाँ मानी जाती हैं । सायण के अनुसार प्रजापति यहाँ पर सविता अर्थात् सूर्य का पर्यायवाची शब्द माना जाना चाहिए । प्रस्तुत उपाख्यान में सीता सोम राजा के प्रेम को स्थागर नामक अंगराग के द्वारा प्राप्त करती है, यद्यपि सोम पहले सीता की बहन श्रद्धा से प्रेम करते थे । इस कथा का मूल रूप ऋग्वेद के सूर्यास्त में विद्यमान है, ( १०, ८५ ) जहाँ सूर्या, सूर्य की पुत्री, का सोम के साथ विवाह वर्णित है । इस सूक्त में सोम से स्पष्टतया चंद्रमा का अभिप्राय है और अनेक विद्वानों के अनुसार सूर्या में उग्रा निर्दिष्ट है । ऋग्वेद की इस कथा का उल्लेख दोनों ऋग्वेदीय ब्राह्मणों में भी मिलता है—'प्रजापति ने सोम राजा को अपनी पुत्री सूर्या सावित्री को दे दिया' ( ऐत० ब्रा० ४, ७; कौ० ब्रा० १८, १ ) । इनके अतिरिक्त तैत्तिरीय संहिता ( २, ३, ५, ) तथा काठक ( ११, ३ ) और मंत्रायणी ( २, २, ७ ) संहिताओं के समानान्तर स्थलों पर प्रजापति की तैत्तमीय पुत्रियों का सोम राजा के साथ विवाह वर्णित है । इनमें से केवल रोहिणी का नाम दिया गया है । तैत्तिरीय ब्राह्मण में इस कथा का परिवर्तित रूप इस प्रकार है .

'प्रजापति ने सोम राजा की ओर इनके पश्चात् तीनों बेटों की सृष्टि की थी । सोम राजा ने इन ( बेटों ) को हस्तगत किया ।

सीता सावित्री सोम राजा को ( पतिस्वरूप ) चाहती थी (लेकिन) वह ( सोम राजा ) श्रद्धा ( सीता की बहन ) को चाहते थे ।

सीता ने अपने पिता प्रजापति के पास जाकर कहा, आपको नमस्कार, मैं आपके पास आई हूँ और आपकी शरण लेती हूँ ॥ १ ॥ मैं सोम राजा की ( पतिस्वरूप ) कामना करती हूँ । वह श्रद्धा को चाहते हैं ।

प्रजापति ने उनके लिए स्थागर ( नामक सुगंधित द्रव्य को पीतकर ) अलंकार ( अर्थात् अंगराग ) तैयार किया । पूर्व दिशा की ओर दशहोतु ( मंत्र ) पढ़कर, दक्षिण की ओर चतुर्होतु, पश्चिम की ओर पंचहोतु, उत्तर की ओर षडहोतु, और ऊपर की ओर से सप्तहोतु पढ़कर तथा संभार और

( देव ) पत्नीमंत्रों से ( उस अंगराग को अभिमंत्रित करके उन्होंने उससे सीता का ) मुख अलंकृत किया ॥ २ ॥

( इसके अनन्तर ) वह सोम राजा के पास गई । सीता को देख कर ( और प्रेम के बशीभूत होकर ) उन्होंने कहा, मेरे पास आइए । सीता ने कहा, मेरे साथ भोग कीजिए ( लेकिन पहले प्रतिज्ञा कीजिए कि ) सदा मेरे ही साथ भोग करेंगे और जो ( वस्तु ) आपके हाथ में है ( उसको मुझे दे दीजिए ) । सोम राजा ने सीता को तीनों वंद दे दिए । इसी तरह स्त्रियाँ भोग के कारण ( पुरुषों को ) पराजित करती हैं ।

यदि कोई ( पुरुष ) चाहता हो कि मैं प्रेमिका का प्रिय बन जाऊँ ॥ ३ ॥ अथवा यदि कोई ( स्त्री ) चाहती हो कि जिससे मैं प्रेम रखती हूँ वह मुझसे प्रेम करे ( तो वह निम्नलिखित प्रयोग करे )—इस स्वागर अलंकार को तैयार करके पूर्व दिशा की ओर दशहोतु ( मंत्र ) पढ़कर, दक्षिण की ओर चतुर्होतु, पश्चिम की ओर पंचहोतु, उत्तर की ओर षडहोतु, ऊपर की ओर से सप्तहोतु पढ़कर, तथा सभार और (देव) पत्नी मंत्रों से (इस अंगराग को अभिमंत्रित करके और इससे) अपने मुख को अलंकृत करके वह प्रियतम के पास जाए । वह अवश्य प्रेम करने लगेगा ॥४॥'

९. सीता सावित्री की इस कथा का वाल्मीकि रामायण से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता है । फिर भी सम्भव है कि अनसूया के अंगराग का वृत्तान्त इस उपाख्यान से प्रभावित हुआ हो । अत्रि की पत्नी सीता को माला, वस्त्र और आभूषणों के अतिरिक्त एक अनन्वर ( असंक्लिष्ट ) अंगराग भी प्रदान करती हैं, जिससे सीता का शरीर दिव्य सौन्दर्य को प्राप्त होता है ( रा० २, ११८ ) :

इदं दिव्यं वरं माल्यं वस्त्रभाभरणानि च ।  
 अंगरागं च चंद्रेहि महार्हमनुलेपनम् ॥१८॥  
 मया दत्तमिदं सीते तव शात्राणि शोभयेत् ।  
 अनुकूपमसंक्लिष्टं नित्यमेव भुविष्यति ॥१९॥  
 अंगरागेण दिव्येन लिप्तांगी जगत्सभजे ।  
 शोभयिष्यति भर्तारं यथा श्रीर्विष्णुमव्ययम् ॥२०॥

अध्यात्मरामायण में भी इस अंगराग का उल्लेख है ( २, ९ ):

अंगरागं च सीतार्यं ददौ दिव्यं शुभानना ।

न त्यक्त्यतेऽङ्गरागेण शोभा त्वां कमलानने ॥८९॥

रामचरितमानस में इसका उल्लेख नहीं है । गोस्वामी तुलसीदास संभवतः तैत्तिरीय ब्राह्मण के उपाख्यान से परिचित थे और उसे सीता की मर्यादा के विशुद्ध समझकर उन्होंने इस अंगराग के विषय में जानबूझकर कुछ नहीं कहा । वे लिखते हैं :

दिश्य वसन भूषण पहिराए ।

जे नित नूतन अमल सुहाए ॥ ( ३, ४, ३ )

१०. सीता सावित्री की कथा के एक दूसरे प्रभाव की कल्पना की जा सकती है । महाभारत और वाल्मीकि रामायण के समय से लेकर परशुराम और बलराम की कथाएँ भी प्रचलित थी । इसीलिए रामायण के नायक को निर्दिष्ट करने के लिए किमी विशेषण की आवश्यकता का अनुभव होने लगा था । पहले महाभारत तथा रामायण में 'राम दाशरथि' का प्रयोग हुआ । आगे चलकर रामभद्र के अतिरिक्त 'रामचन्द्र' नाम चल पड़ा । भवभूति के महावीरचरित ( 'चन्द्रमुह रामचन्द्र' दे० अंक २, २० ) तथा उत्तररामचरित ( ७, १८ ) में इस नाम का सबसे पहला उल्लेख मिलता है । बाद में पद्मपुराण आदि रचनाओं में रामचन्द्र सब से लोकप्रिय नाम बन गया है । राम दाशरथि को चन्द्र की यह उपाधि क्यों मिली है ? इस प्रश्न की मूलभूत के लिए डॉक्टर वेबर ने सीता सावित्री के वृत्तान्त का सहारा लिया है । यद्यपि डॉक्टर वेबर की कल्पना को निर्मूल सिद्ध करने का मैं साहस नहीं कर सकता लेकिन 'रामचन्द्र' नाम का कारण वाल्मीकि रामायण में डूँडना अधिक स्वाभाविक प्रतीत होता है ।

राम के सौंदर्य तथा लोकप्रियता की अभिव्यंजना के लिए वाल्मीकि ने बहुत से स्थलों पर चन्द्रमा से राम की तुलना की है .

( राम ) चंद्रमिबोदितम् ( २, ४४, २२ )

( राममूर्त्तं ) पूर्णचन्द्रमिबोदितम् ( ६, ३३, ३२ )

१. दे० ए० वेबर : आन वि रामायण पृ० २०, २१ ।

एम० मोनियेर विलियम्स : इंडियन विज्डम ( पृ० ३६० ) और ब्राह्मनिग्म ( पृ० ११० टिप्पणी ) ।

एच० याकोबी : इस रामायण, ( पृ० १३७ ) ।

- ( राम. ) पूर्णचन्द्राननः ( २, १, ४४ )  
 ( रामः ) सोमवत्प्रियदर्शनः ( १, १, १८ )  
 ( रामः ) लोककान्तः शशी यथा ( ५, ३४, २८ )  
 ( रामवदनं ) उदितपूर्णचन्द्रकान्तम् ( ६, ११४, ३५ )

ये उद्धरण सुगमता से बढ़ाये जा सकते हैं। अतः रामचन्द्र नाम का आधार बाल्मीकि रामायण को छोड़ कर किसी अन्य प्राचीन उपाख्यान में ढूँढ़ना अनावश्यक है। आदिकाव्य में राम के सौंदर्य, लोकप्रियता और सौम्यता की अभिव्यंजना के लिए, उनके कोमल और शांत स्वभाव के अंकन के लिए जो बार-बार चन्द्र की तुलना मिलती है वह 'रामचन्द्र' नाम की उत्पत्ति समझने के लिए पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त 'रामचन्द्र' का बाल्मीकि रामायण में एक ही बार प्रयोग हुआ है। राम-रावण-युद्ध के वर्णन में कहा गया है कि 'रामचन्द्र को रावण राहु से प्रस्त देलकर' देवता, वानर आदि घबड़ाते हैं :

रामचन्द्रभसं दृष्ट्वा प्रस्तं रावणराहुणा ( ६, १०२, ३२ )

यहाँ पर 'रामचन्द्र' तथा 'रावणराहु' स्पष्टतया रूपक मात्र है। आगे चलकर 'रामचन्द्र' रूपक न रहकर, साधारण व्यक्ति वाचक सजा के रूप में चल पड़ा और आज तक चला आ रहा है।

यदि प्रारंभ से ही राम के लिए 'रामचन्द्र' नाम का प्रयोग किया जाता तो हम सम्भवतः और आगे बढ़ सकते और यह कह सकते कि राम के शील और शान्त स्वभाव का कारण यह है कि मूलतः वह चन्द्रमा के देवता ही थे। तब सीता सावित्री और सोम राजा का उपाख्यान राम-कथा का बीज माना जा सकता तथा रामायण का अंगराम और तैत्तिरीय-ब्राह्मण का स्थागर अलकार मूलतः खेत की सीता अर्थात् लांगलपद्धति में पड़ी हुई ओस होता जिसमें चन्द्रमा प्रतिबिंबित है। इसी तरह सीता सावित्री और सीता, कृषि की अधिष्ठात्री देवी, दोनों का उद्गम एक होता। लेकिन प्रोफेसर वेबर, जिन्होंने यह कल्पना की है, स्वयं स्वीकार करते हैं कि यह कल्पना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि राम सोमवंशी न होकर सूर्यवंशी ही हैं, अतः उनका सोम से कोई प्राचीन संबन्ध बहुत संभव नहीं है।

## सीता, कृषि की अधिष्ठात्री देवी

११. प्रारंभिक वैदिक काल में जिन देवताओं का उल्लेख है वे अधिकतर प्रकृति के देवता हैं अर्थात् 'प्रभावशाली प्राकृतिक दृश्यों और शक्तियों में देवताओं की कल्पना कर ली गई है।' कार्यक्षेत्र के अनुसार वे तीन वर्गों में विभक्त हैं—द्युलोक, अतरिक्ष और पृथ्वी के देवता। ऋग्वेद में इन्द्र ( २५० सूक्त ), अग्नि ( २०० सूक्त ) और सोम अर्थात् सोम-लता के मादक रस का देवता ( १०० से अधिक सूक्त ) सर्वप्रधान हैं। फिर भी सूर्य, द्यौ, वायु, उषा, वरुण, मित्र, पर्जन्य आदि बहुत से देवताओं का उल्लेख हुआ है। इन सबका कार्यक्षेत्र विस्तृत था और आयों का कुशल-क्षेम इन्हीं पर निर्भर माना जाता था।

इनके अतिरिक्त एक दूसरे प्रकार के देवताओं की कल्पना की गई जिनका कार्य-क्षेत्र बहुत सीमित माना जाता था। इनमें क्षेत्रपति, वाम्तो-ष्पति ( घर का देवता ) सीता और उर्वरा ( उपजाऊ भूमि ) प्रधान हैं घासिक चेतना में इनका स्थान गौण था, क्योंकि आयों का कुशल-क्षेम पहले प्रकार के देवताओं पर निर्भर माना जाता था। सीता, क्षेत्रपति आदि कृषि-संबंधी देवताओं के कम महत्व का एक और कारण यह है कि प्रारम्भ में कृषि की अपेक्षा पशु-पालन प्रधान रहा होगा। ऋग्वेद के सबसे प्राचीन अंश में ( २-७ मंडल ) केवल एक ही सूक्त में कृषि-सम्बन्धी शब्दों का प्रयोग है और यह सूक्त दसवें मंडल के समय का माना जाता है। वह ऋग्वेद का एकमात्र स्थल है जहाँ सीता में व्यक्तित्व और देवत्व का आरोप किया गया है। इस सीता, कृषि की अधिष्ठात्री देवी, और सीता सावित्री का अन्तर यह है कि एक तो इसमें देवत्व का आरोप है और दूसरे इसका

१. दे० बेनीप्रसाद हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता, पृ ४१। जिस समय भारत-यूरोपीय जातियाँ साथ थी, इन देवताओं का रूप कौन सा था, इस पर यहाँ पर विचार नहीं किया जा सकता है। इतना ही निर्विवाद है कि वैदिक साहित्य में ये देवता अधिकतर प्रकृति के देवता हैं।
२. दे० ऋग्वेद ८, ५७। इसमें 'ममा' शब्द प्रयुक्त हुआ है जो १० वें मंडल की छोड़कर ऋग्वेद में और कहीं नहीं मिलता। दे० ज० अ० आ० सी० १७, पृ० ८५-६। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि सीता आदि देवताओं की कल्पना पुरानी नहीं है। इससे केवल यह सिद्ध होता है कि उनका स्थान अपेक्षाकृत गौण था। आगे दिखलाया जायगा कि उनका और विशेष करके सीता का महत्त्व धीरे-धीरे उत्तरोत्तर बढ़ता रहा।

उल्लेख आगे चल कर बराबर होता रहा । यद्यपि वैदिक साहित्य में उनसे सम्बन्ध रखनेवाली केवल दो भिन्न प्रार्थनाएँ मिलती हैं, फिर भी इनका प्रयोग कृषि-सम्बन्धी कार्यों के अतिरिक्त अग्निचयन और पितृभेष के अवसरों पर भी होने लगा । गृह्यसूत्रों में हमें सीता के प्रति दो नई प्रार्थनाएँ मिलती हैं । ऋग्वेद से लेकर गृह्यसूत्रों तक इन सब स्थलों का यहाँ पर उल्लेख होगा और महत्त्व के अनुसार इनपर न्यूनाधिक विचार किया जायगा ।

( १ ) ऋग्वेद का सूक्त ( ४, ५७ )

१२. ऋग्वेद के सूक्त प्रायः एक ही देवता से सम्बन्ध रखते हैं । लेकिन जिस सूक्त में सीता का उल्लेख है उसमें कृषि सम्बन्धी अनेक देवताओं से प्रार्थना की जाती है । बहुत सम्भव है कि ये प्रार्थनाएँ अनेक स्वतन्त्र मंत्रों के अवशेष हैं जो एक ही सूक्त में मकलित हो जाने पर बाद में चौथे मंडल के अन्तर्गत रखे गए । पहले तीन छंदों का देवता क्षेत्रपति है, चौथे छंद का देवता शुन ( एक देवता जिसके द्वारा कार्य सुखपूर्वक सम्पन्न होता है और जो अगले छंद के शुन से भिन्न है—शुनाष्टयो वाग्बिंशयोरन्यतमः सुखकृद्देवः सायण ) ; पाँचवें और आठवें छंदों के देवता शुनासोर हैं ( शीतल के अनुसार ये इन्द्र और वायु हैं लेकिन यास्क के अनुसार वायु और आदित्य सम्भन्धी चाहिये ), छठे और सातवें छंद की देवी सीता है । सारे सूक्त का भावा-नुवाद इस प्रकार है :—

हितकारी क्षेत्रपति के साथ हम गौ और अश्व के लिए पुष्टकारक (अन्न) प्राप्त करते हैं । वह ( क्षेत्रपति ) हम लोगों को उक्त प्रकार का (अन्न) प्रदान करे ॥१॥

हे क्षेत्रपति ! जिस तरह से धेनु दूध देती है, इसी तरह तू प्रचुर मात्रा में हम लोगों को मधुश्रावी और घृतसदृश जल प्रदान कर । ऋत के स्वामी ( उक्त प्रकार के दान से ) हम पर कृपा करें ॥२॥

खेत की ओषधियाँ हमारे लिए मधुयुक्त हों । द्युलोक, जल-समूह और अंतरिक्ष हम लोगों के लिए मधुयुक्त हो । क्षेत्रपति हमारे लिए मधुयुक्त हो । हम लोग ( शत्रुओं से ) भयरहित होकर ( क्षेत्रपति की ) शरण लेते रहें ॥३॥

( बेल आदि ) वाहन सुख से रहे । कृपक सुख से रहे । हल सुख से जोते । ( हल की ) रस्सियाँ सुख से बाँधी जाएँ । अंकुश को सुख से ऊपर उठा-उठा कर चलाओ ॥४॥

हे शुनासीर ! तुम दोनों हमारी इस स्तुति से प्रसन्न हो जाओ । जो जल तुम दोनों ने आकाश में बनाया है, उससे इसको ( भूमि को ) सींचते रहो ॥५॥

हे सौभाग्यवती ! ( कृपा दृष्टि से ) हमारी ओर अभिमुख हो । हे सीते ! तेरी हम बन्दना करते हैं जिससे तू हमारे लिये सुन्दर घन और फल देने वाली होवे ॥६॥

इन्द्र सीता को ग्रहण करे, पूषा ( सूर्य ) उसका संचालन करे । वह पानी से भरी ( सीता ) प्रत्येक वर्ष हमें ( धान्य ) प्रदान करती रहे ॥७॥

सुन्दर हल सुखपूर्वक हमारे लिए भूमि को जोते, कृषक बाहनों के पीछे-पीछे सुख में चलें। पञ्चम मधुर जल द्वारा ( पृथ्वी को सिक्त करे ) । हे शुनासीर ! हम लोगों को सुख प्रदान करो ॥८॥

प्रस्तुत विषय के दृष्टिकोण से इस सूक्त का महत्त्व यह है कि इसमें सीता के प्रति सब से प्राचीन प्रार्थना मुरक्षित है । सीता के प्रति जो दूसरी प्रार्थना वैदिक साहित्य में मिलती है उसकी अधिकांश सामग्री इस सूक्त से ली गई है । तीनों ऋग्वेदीय गृह्यसूत्रों में भी 'कृषिकर्माणि' परिच्छेद के अंतर्गत इस सूक्त का उल्लेख हुआ है ।

## (२) सीरा यंजति

१३. सीता के नाम जो दूसरी प्रार्थना वैदिक साहित्य में मिलती है वह 'सीरा युजति' मन्त्र का एक अंग है । यह मन्त्र यजुर्वेदीय संहिताओं में भी मिलता है और अथर्ववेद में भी । यजुर्वेद में इसका प्रयोग कृषि को छोड़कर एक दूसरे प्रसंग में हुआ है जो मौलिक नहीं प्रतीत होता । अतः पहले अथर्ववेद के प्रसंग का विश्लेषण किया जाता है ।

१ अवाचीं सुभगे भव सीने वंदामहे त्वा ।  
यथा नः सुभगासमि यथा नः सुफलासमि ॥६॥  
इद्र सीता नि गृह्णातु ता पूषातु यच्छतु  
सा न पयस्वती दुहामुत्तरामुत्तरा समाम् ॥७॥

सायण के अनुसार 'इद्र सीता...' का अर्थ है—'इद्र. सीतां सीताधारकाष्ठां निगृह्णातु' और 'सा न...' का अर्थ, 'यौ पयस्वत्युदकवती', जो चिन्त्य प्रतीत होता है ।

२. इस सूक्त के अनुवाद के लिए लूडविग, ग्रासमैन, विलसन और सायण के अतिरिक्त प० रामगोविन्द द्विवेदी के हिन्दी भाष्य में सहायता मिली है । ( वैदिक पुष्पमाला, १, भागलपुर ) ।



अथर्ववेद के मंत्र जीवन की मित्र-मित्र आवश्यकताओं के लिए लिखे गए हैं। उद्देश्य के अनुसार वे अनेक वर्गों में विभाजित किए जाते हैं, 'अथर्व्यानि' रोग से छुटकारा पाने के लिए, 'आयुष्याणि' रक्षास्व्य और दीर्घ आयु के लिए, 'पौष्टिकानि', व्यापार-कृषि-पशुपालन आदि में सफलता प्राप्त करने के लिए, 'अभिचारिकाणि' शत्रुओं और भूतों के नाश के लिए।

प्रस्तुत 'सीरा यंजति' मंत्र 'पौष्टिकानि' मंत्रों में से एक है (अथर्ववेद, ३, १७)। इसमें कृषि के विभिन्न कार्यों की सफलता के लिए अनेक देवताओं से प्रार्थना की जाती है। ढाई छंद को छोड़कर इस मंत्र की सारी सामग्री ऋग्वेद के दो सूक्तों से ली गई है।<sup>१</sup>

सीरा यंजति कविषो युगा वि तन्वते पृथक् । धीरा बेवेष् सुम्नयो ॥ १ ॥

'देवताओं से अनुग्रह प्राप्त करने की आशा में धीर चतुर (कृषक) हलों को जोड़ते हैं और जुओं को अलग-अलग करके दोनों ओर फैलाते हैं।'

युनक्त सीरा वि युगा तनोत कृते योनौ वपतेह बीजम् ।

बिराजः इनुष्टिः सभरा असन्नो नैवीय इत्सुयः पृथ्वमा यवन् ॥ २ ॥

'हलों को जोड़ो, जुओं को फैलाओ और बने हुए खेत में यहाँ पर बीज बोओ। अन्न की उपज हमारे लिए भरी पूरी होवे और धान्य हैसिए के लिए उत्तरोत्तर बढ़ता जाय।'

लांगलं पवीरवत्सुशीमं सोमसत्सह ।

उविद्वपतु गामवि प्रस्थावद्वववाहनं पीबरीं च प्रफर्ष्यम् ॥ ३ ॥

'अच्छा फाल वाला, बहुत सुख देने वाला चिकना मूठवाला हल, गौ, भेड़, शीघ्र-गामी रथ और हृष्टपुष्ट सुन्दरी उत्पन्न करे (अर्थात् कृषि के द्वारा हर प्रकार का सुख मिल जाय)।'

इन्द्रः सीतां नि गृह्णातु तां पूषाभि रक्षतु ।

सा नः पयस्वती बुहामुत्तरामुत्तरां समाम् ॥ ४ ॥

'इन्द्र सीता को ग्रहण करे (दबावे), पूषा (सूर्य) उसकी रक्षवाली करे। वह पानी से भरी (सीता) प्रत्येक वर्ष हमें (धान्य) प्रदान करती रहे।'

१. छंद ३, ९, ५ (उत्तराष्ट्रं)—नई सामग्री।

छन्द १ और २—ऋग्वेद १०, १०१। सूक्त के रचयिता ऋत्विजों को यज्ञ के लिए प्रोत्साहित करते हुए यज्ञ की तुलना कृषि के विभिन्न कार्यों से करते हैं (हल जोतना, बीज बोना, फसल छुनना)।

शेष छंद-ऋग्वेद ४, ५७।

शूनं सुकाला वि तुवन्तु भूमिं शूनं कीनाशा अनु धन्तु बाहाम् ।

शुनासीरा हविषा लोशमाना सुपिप्ला ओषधीःकर्तव्यम् ॥५॥

हे हवि से चूनेवाले शुनासीर ! ( फाल और हल )<sup>१</sup> इस मनुष्य के लिए सुन्दर फलवाली ( जौ आदि ) ओषधियाँ उत्पन्न करो ।'

शूनं बाहाः शूनं नरः शूनं कृषतु लांगलम् ।

शूनं वरत्रा बध्यतां शूनमष्ट्टामुविगय ॥६॥

'बाहन सुब मे रहे । कृषक सुब मे रहे । हल सुब से जोते । ( हल की ) रस्सियाँ सुब से बाँधी जाएँ । अक्रुण का सुव से ऊपर उठा उठा कर चलाओ ।'

शुनासीरेह स्म मे जुषेयाम् ।

यद्विषि चक्रदुः पयस्तेनेमामुप निचतम् ॥७॥

'हे शुनासीर ! ( वायु और आदित्य ) तुम दोनों यही पर मेरी विनय स्वीकार करो, जो जल तुम दोनों ने आकाश में बनाया है, उससे इस भूमि को सींचते रहो ।'

सीते वन्दामहे त्वार्धाची सुभगे भव ।

यथा नः सुमना असो यथा नः सुफला भुवः ॥८॥

'हे सीता ! तेरी हम वंदना करते हैं, हे सौभाग्यवती ! ( कृपादृष्टि से ) हमारी ओर अभिमुख हो; जिससे तू हमारे लिए हिताकाक्षिणी होवे और जिससे तू हमारे लिए सुन्दर फल देनेवाली होवे ।'

घृतेन सीता मधुना समक्ता विश्वं देवैरनुमता मधुभिः ।

सा नः सीते पयसाभ्याववृत्तबोर्जस्वती घृतवल्पिन्वमाना ॥९॥

'धी और मधु से सानी हुई सीता विश्वदेवताओं और मरुतों से अनुमोदित ( रक्षित ) होवे । हे सीता ! ओजस्विनी और धी से सींची हुई, तू जल ( दूध )

१. यास्क के अनुसार 'शुनासीरी' से वायु और आदित्य का अभिप्राय है जसे आगे ७ वें छंद में । तब अनुवाद इस प्रकार होगा:—'हे हवि से उत्तेजित शुना और सीर' ।

के साथ हमारे पास विद्यमान रहे ।”

मन्त्र के अंतिम छंदों से स्पष्ट है कि उच्चारण के साथ-साथ स्नेह की सीता में भी और मधु का सिंचन किया जाता था । काष्ठक मृदुस्त्र में जहाँ गीयज्ञ के अंत में इस ‘सीरा युजति’ मन्त्र का प्रयोग है, भाष्यकार इस सिंचन का स्पष्ट उल्लेख करते हैं :

कर्मणि समाप्ते घृतेन सीतेति चतुर्गुहीतेनावयस्य प्रदानम् ।  
अर्थात् कार्य समाप्त होने पर ‘घृतेन सीता’ आदि कहकर चार बार घी डाला जाता है ।

१४. यजुर्वेद । यजुर्वेद उन मंत्रों का सग्रह है जिन्हें अध्वर्यु और उसके सहायक विविध यज्ञों में पढ़ने थे । कृष्ण यजुर्वेद की चारों महिताओं में मन्त्रों के साथ कुछ गद्य भी मिलाया गया है । शुक्ल यजुर्वेद की एकमात्र बाजसनेयि संहिता में केवल मन्त्र दिए गये हैं और उनसे सम्बन्ध रखने वाला गद्य शतपथ ब्राह्मण में संकलित है । इन सब रचनाओं में ‘अग्नि-चयन’ के वर्णन के अंतर्गत उपर्युक्त ‘सीरा युजति’ मन्त्र किञ्चित् पाठभेद सहित उद्धृत है ।

‘अग्निचयन’ में हमें उन मंत्रों और कर्मों का विस्तृत वर्णन मिलता है जो अग्नि की वेदी के निर्माण के लिए आवश्यक समझे जाते थे । यह प्रसंग यजुर्वेद का सबसे से दार्शनिक अंश है । इसमें यज्ञ के तत्त्व और महत्त्व के सम्बन्ध में अनेक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है । वेदी के क्षेत्र को तैयार करने के लिए हल द्वारा विघोष युक्ति के अनुसार मीताएँ खींची जाती थी । उस समय ‘मीता युजति’ मन्त्र पढ़ा जाता था, जिसमें सीता के प्रति निम्न लिखित प्रार्थना मिलती है :

‘हे कामधेनु सीता ! मित्र, वरुण, इन्द्र, आश्विन, पूषण प्रजा और ओषधियाँ, ( इन सबों ) का मनोरथ पूरा कर ।

१. प० जयदेव जी शर्मा ( अजमेर, आर्य साहित्य मंडल ) का अनुवाद—‘हे सीते ! ( सा ) वह तू ( ऊर्जस्वनी ) पृष्टिकारक अन्न देनेहारी और घृतवत् दूध आदि पदार्थों से ( पिन्वमाना ) सब को तृप्त करती हुई ( पयसा ) पुष्टिकारक अन्न और जल सहित ( न अग्नि-आ-बवृत्स्व ) हमारे पाम विद्यमान रहे’ । सारे मन्त्र के अनुवाद के लिए छिटनी और वेबर के अतिरिक्त प० शंमकरणदास द्विवेदी ( अथर्ववेदभाष्यम्, लूकरगंज, प्रयाग ) की सहायता ली गई है ।

धी और मधु से सानी हुई सीता विश्वदेवताओं और महतों से अनुमोदित (रक्षित) होवे। हे सीता ! ओजस्विनी और धी से सीधी हुई, तू जल (दूध) के साथ हमारे पास विद्यमान रह।''

आगे चलकर श्रौत सूत्रों में 'अग्निचयन' का वर्णन तो मिलता है लेकिन एकाध सूत्रों को छोड़कर प्रस्तुत मंत्र का उल्लेख नहीं मिलता।

१५ तैत्तिरीय आरण्यक। कृष्णयजुर्वेद के तैत्तिरीय आरण्यक में हमें पहले पहल उपयुक्त सामग्री का पितृमंध के अवसर पर प्रयोग मिलता है। अंत्येष्टि के पश्चात् जलाई हुई हड्डियाँ एक घड़े (अस्थिकुम्भ) में रखी जाती थीं और उपयुक्त समय पर गाड़ी भी जाती थी। इस क्रिया के अनन्तर हल द्वारा उम स्थान पर (जिसे श्मशान कहते थे) अनेक सीताएँ खींची जाती थीं। साध-साध 'नीग यज्ञति' के मंत्र के छद्म पढ़े जाते थे। इस कार्य की समाप्ति पर सीताओं की ओर देखते हुए पुरोहित कहते थे :

'हे सीता ! तेरी हम वदना करते हैं, हे मौभाग्यवती ! (कृपादृष्टि में) हमारी ओर अभिमुख हो, जिससे तू हमारे लिए सुन्दर धन और फल देने वाली होवे'।

ऐसा प्रतीत होता है कि आगे चल कर यह प्रयोग सीमित रहा क्योंकि केवल दो गृह्यसूत्रों में पितृमंध के अंतर्गत इस प्रार्थना का उल्लेख है।

प्रस्तुत विषय समाप्त करने के पहले हम गृह्यसूत्रों की सामग्री पर भी दृष्टि डालेंगे। ये सूत्र श्रुति के अंग तो नहीं हैं, फिर भी इनका वैदिक साहित्य में घनिष्ठ सम्बन्ध है और इनका सूत्रपात वैदिक काल के अन्त में हुआ है।

### ( ३ ) गृह्य सूत्र

१६. वैदिक साहित्य की अपेक्षा गृह्यसूत्र में सीता से सम्बन्ध रखने वाली

१. दे० तैत्तिरीय सं०. ४, २, ५, ५-६; काठकसं०: १६, १२; मैत्रायणि सं०: २, ७, १२, कपिष्ठल सं०: २५, ३; शतपथ ब्रा०: ७, २, २।

२. दे० कात्यायन श्रौत सू०. १७, २, १० और बंशान सूत्र २८, २९।

३. दे० तैत्तिरीय आर०: ६, ६। शतपथ ब्राह्मण में भी इस क्रिया का वर्णन मिलता है ( १३, ८ ) लेकिन वहाँ किसी मंत्र का उल्लेख नहीं है।

४. धर्म और श्रुत्वसूत्रों में सीता का उल्लेख नहीं मिलता।

नामघी कहीं अधिक विस्तृत है।' इसे स्पष्ट है कि वैदिक काल के अन्त में कृषि का महत्त्व बढ़ने लगा था। यह सामघी प्रायः विविध कृषिकर्मों के वर्णन में मिलती है। इसका विश्लेषण करने के पहले उन स्थलों का उल्लेख करना है जहाँ कृषि को छोड़कर किसी दूसरे प्रसंग में सीता से सम्बन्ध रखने वाली सामघी मिलती है।

ऊपर कहा गया है कि तैत्तिरीय आरण्यक में पितृमेघ के अवसर पर सीता से प्रार्थना की जाती थी। कृष्णयजुर्वेद के आग्निवेद्य और बोधायन गृह्यसूत्रों में भी इसी प्रसंग में सीता से इस प्रार्थना का उल्लेख है।<sup>१</sup> इन दोनों सूत्रों में इस स्थल को छोड़कर सीता से सम्बन्ध रखनेवाली अन्य नामघी नहीं मिलती।

काठक गृह्यसूत्र में 'सौरा युजति' मंत्र का 'गोयज्ञ' के अवसर पर एक नया प्रयोग हुआ है। अन्य सूत्रों में इस गोयज्ञ का और पशुपालन से सम्बन्ध रखनेवाले अनेक कार्यों का वर्णन अवश्य मिलता है। लेकिन अन्यत्र इसी प्रसंग में सीता का उल्लेख नहीं मिलता। गोयज्ञ नहीं ब्याई गायों के स्वास्थ्य आदि के लिए किया जाता है। इसमें काठक गृह्यसूत्र के अनुसार दो सीताएँ खींची जाती हैं, 'सौरा युजति' मंत्र पढ़ा जाता और अन्त में सीता में घों डाला जाता है।<sup>२</sup>

१७. उक्त स्थलों को छोड़कर सीता का उल्लेख केवल कृषि कार्यों के वर्णन में हुआ है। इन कृषि सम्बन्धी कार्यों में सीता का स्थान समझने के लिए हमें स्मरण रखना चाहिए कि वह कृषि की एकमात्र अधिष्ठात्री देवी नहीं है। इन विविध यज्ञों और कार्यों में सीता के साथ-साथ अन्य देवताओं का भी बराबर उल्लेख होता है। इसके अतिरिक्त 'आप्रयण' (अथवा नवयज्ञ) के अवसर पर केवल इन्द्र, अग्नि, विदवदेवता और द्यौर्गृथिवी का उल्लेख हुआ है। फिर भी इसी एक यज्ञ को छोड़कर कृषि के अन्य यज्ञों में सीता से अवश्य प्रार्थना को जाती थी। अतः कृषि की एकमात्र अधिष्ठात्री देवी न होने पर भी सीता का

१. निम्नलिखित गृह्यसूत्रों में सीता, कृषि की अधिष्ठात्री देवी, का कोई उल्लेख नहीं है। सामवेद के खदिर और जैमिनि सूत्र और कृष्णयजुर्वेद के आपस्तम्ब, हिरण्यकेशिन, भारद्वाज, वैखानस और वाराह गृह्यसूत्र। जहाँ 'सीता' अर्थात् लागलपद्धति का शब्द मात्र आया है उन स्थलों का यहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया है।

२. ने० अग्नित्रेण्य ग० म०, ३, ८ (लोष्टविति) और बोधायन ग० सू०, पितृमेघ सूत्रम् १, १८ (इमशानकरणम्)।

३. दे० काठक गृह्यसूत्र. ७१, १-६ (दयानन्द महाविद्यालय संस्कृत ग्रन्थमाला ९)

स्नान प्रथम माना जाना उचित है। इन विविध कृत्तिकों का परिचय नीचे दिया जाता है।

‘लांगलयोजनम्’ का वर्णन चारों वेदों के गृह्यसूत्रों में मिलता है जिनमें से शुक्लयजुर्वेद का पारस्कर गृह्यसूत्र और अथर्ववेद का कौशिक सूत्र सब से अधिक विस्तार में जाते हैं। खेत ही पर अनेक देवताओं को स्थालीपाक आदि चढाया जाता है। हल द्वारा सीताएँ खींची जाती और साब-साब ‘सीरा युजति’ मत्र पढ़ा जाता है और अन्त में ब्राह्मणों को भोजन दिया जाता है।

‘सीतायज्ञ’ का उल्लेख तीन सूत्रों में मिलता है। पारस्कर गृह्यसूत्र में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। खेत के उत्तर या पूर्व में किसी जोते हुए शुद्ध स्थल पर ( या गाँव में ) आग जलाते हैं और स्थालीपाक तैयार करते हैं। घृत की आहुति करते समय इन्द्र, सीता और उर्वरा से प्रार्थना की जाती है। इनके अनन्तर सीता, यज्ञ ( यज्ञ की देवी ), समा ( भक्ति की देवी ) और भूमि ( धन की देवी ) को स्थालीपाक चढाया जाता है। अंत में सीता की रक्षा करने वाले भूतों को ( सीतागोप्तृ ) भी दर्भ की बलि चढाई जाती है। स्त्रियाँ भी बलि चढाती हैं और कार्य समाप्त होने पर ब्राह्मणों को भोजन दिया जाता है।

आहुति करते समय सीता से जो प्रार्थना की जाती है, उसका अर्थ यह है:

१. दे० ऋग्वेद के साखायन गृ० सू० ४, १३; कौषीतक; शाबव्यकृत: ३, १३ और आश्वलायन गृ० सू०: २, १०, ३-४  
सामवेद का गोभिल गृ० सू० ४, ४, २७-२९  
शुक्लयजुर्वेद का पारस्कर गृ० सू०: २, १३  
कृष्णयजुर्वेद का मानव गृ० सू०. २, १०, ७  
अथर्ववेद का कौशिक गृ० सू० २०  
मानव गृ० सू० में इस कर्म के दो भिन्न भाग माने जाते हैं, आयोजन ( कर्षणसामग्रीकरणम् ) और पर्ययन ( प्रथमं क्षेत्रगमनम् ) ।
२. पारस्कर गृ० सू० में ८ देवता, गोभिल गृ० सू० में ९ देवता और मानव गृ० सू० में १२ देवता हैं। इनके नाम प्रत्येक सूत्र में भिन्न हैं, लेकिन इन्द्र और सीता सर्वत्र पाये जाते हैं।
३. दे० पारस्कर गृ० सू० (२, १७), काठक गृ० सू० (७१, ७) और गोभिल गृ० सू० ( ४, ४, ३० ) ।

‘इन्द्रपत्नी’ सीता का मैं आह्वान करता हूँ, जिसके तत्त्व में वैदिक और लौकिक (दोनों प्रकार के) कार्यों की विभूति निहित है। वह (सीता) सब कार्यों में निरंतर मेरी सहायता किया करे। स्वाहा।’

इसके पश्चात् उर्वरा के प्रति यह प्रार्थना पढ़ते थे—‘अति प्रशंसित उर्वरा (उपजाऊ भूमि) का मैं इस यज्ञ में आह्वान करता हूँ, जो अश्व, गाय (आदि संपत्ति प्रदान करने) वाली है, जो प्राणियों का नित्य पालन करती है, जिसके चारों ओर खलियानों की माला (सुशोभित) है। वह स्थिर रहने वाली (उर्वरा) निरंतर मेरी सहायता किया करे। स्वाहा।’

काठक गृह्यसूत्र के अनुसार इस यज्ञ में केवल ‘सीरा युजति’ मंत्र की यह प्रार्थना पढ़ी जाती है—‘धी और मधु से सानी हुई सीता, विष्वदेवताओं और मरुतो से रक्षित होवे। हे सीता! ओजस्विनी और धी से सीधी हुई तू जल के साथ हमारे पास रह।’ भाष्यकार देवपाल लिखते हैं कि कार्तिक शुक्ल की द्वादशी में यह सीतायज्ञ आयों में प्रसिद्ध है, यत्र बीरवादिभ्यो सीता कुमारी देवता विरच्यते—‘जब खस आदि (सुगन्धित घास) से सीता कुमारी देवी की मूर्ति बनाई जाती है।’

‘लागलयोजनम्’ और ‘सीतायज्ञ’ के अतिरिक्त निम्नलिखित कृषिकर्मों का उल्लेख मात्र मिलता है—बीजवफनीय यज्ञ, प्रलम्बन (धान्य के लुनने पर), खलयज्ञ, तंत्रीयज्ञ (धान्य के सफा किए धान पर), पर्ययण (धान्य के घर पहुँचने पर)। इन सब अवसरों पर इन्द्र, सीता आदि अनेक देवताओं को बलि चढ़ाई जाती थी। मानव गृह्यसूत्र के अनुसार अन्य सब त्योहारों पर भी (सांबत्सरेषु वर्षसु) उन्ही देवताओं की पूजा होनी चाहिए। इससे हम अनुमान कर सकते हैं कि इन

१. कीय अनुमान करते हैं कि ‘इन्द्रपत्नी’ विशेषण का कारण यह है कि ऋग्वेद में (८, २१, ३) इन्द्र को ‘उर्वरापति’ कहते हैं।

२. दे० पारस्कर गृ० सू० : २, १७, ४—‘यस्या भावे वैदिकलौकिकाना भूतिर्भवति कर्मणाम्। इन्द्रपत्नीमुपह्वये सीतां सा मे त्वनपायिनी भूयात्कर्मणि कर्मणि स्वाहा।’

३. बीजवफनीय के लिए दे० काठक गृ० सू० (७१, ८), गोमिल गृ० सू० (४, ४, ३०) और मानव गृ० सू० (२, १०, ७)। शेष यज्ञों का उल्लेख केवल गोमिल (वही) और मानव गृ० सू० (वही) में मिलता है।

४. भाष्यकार देवपाल लिखते हैं कि यह पूजा कृषकों के लिए है—‘कृषवृत्तिजीवनैः’।

कृषि के अधिष्ठाता देवताओं का महत्त्व बराबर बढ़ता रहा और कृषको के धार्मिक जीवन में इनका स्थान उत्तरोत्तर व्यापक होता जा रहा था। इनमें से सीता को प्रधान सम्भन्धा चाहिए। यह प्रस्तुत विश्लेषण से संभवतः स्पष्ट हो जाता है।

१८. उपर्युक्त मामग्री के अतिरिक्त कौशिक सूत्र के तेरहवें अध्याय में सीता से जो विस्तृत प्रार्थना की गई है उसका उद्धरण हमने अन्त तक छोड़ रखा है। कौशिक सूत्र के इस अध्याय की मामग्री सामवेद के अद्भुत-ब्राह्मण से मिलती जुलती है। अनेक विलक्षण घटनाओं पर अपशकुन के निवारण आदि के लिए जो कर्मकांड आवश्यक सम्भ्रा जाता था उसका इस अद्भुताध्याय में वर्णन है। सीता सम्बन्धी सामग्री 'लागलो:संसर्गे' अर्थात् दो हलो के उलझ जाने के प्रसंग में आ गई है। ऐसे अवसर पर पुरोडाश तैयार करके पुरोहित को जंगल में पूर्व की ओर एक सीता खींचनी पड़ती थी और उसमें आग जलाकर आहुति करते समय उसे सीता से यह प्रार्थना करनी पड़ती थी :

वित्तिरसि पुष्टिरसि प्राजापत्यानां<sup>१</sup> त्वाहं मधि  
पुष्टिकामो जूहोमि स्वाहा ॥

कुमुदती पुष्करिणी सीता सर्वांगशोभनी ।

कृषिः सहस्रप्रकारा प्रत्यष्टा श्रीरियं मधि ॥

उर्ध्वो त्वाह्वमनुष्याः धियं त्वा मनवो विदुः ।

आशयेऽप्रस्य नो बहेहनमीवस्य शुष्मिणः ॥

पर्जन्यपत्नि<sup>२</sup> हरिष्यभिजितास्यभि नो वेद ।

कालनेत्रे हृषिषा नो जुषस्व तृप्ति नो बहेहि द्विपदे चतुष्पदे ॥

याभिर्देवा असुरानकल्पयन्त्यासून् गंधर्वान् राक्षसंसिधुः ।

ताभिर्नो अद्य सुमना उपागहि सहस्रापोषं भुमगे रराणा ॥

हिरष्यस्रक् पुष्करिणी श्यामा सर्वांगशोभिनी ।

कृषिहिरष्यप्रकारा प्रत्यष्टा श्रीरियं मधि ॥

अश्विन्या देवि सह संविद्वाना इन्द्रेण राघवेन

१. यह ए० बेवर का पाठ है। दे० अबर्हडलूंगन बर्लिनर एकाडेमी, १८५८, पृ० ३७०-७३। ब्लूमफील्ड के अनुसार 'प्राजापत्यानां' होना चाहिए। (दे० जर्नल अमेरिकन ओरियेंटल सोसाइटी भाग १४) ।

२. अथर्ववेद में पृथिवी को पर्जन्यपत्नी कहा गया है ( १२, १, ४२ ) ।



सह पुष्टया न आगहि ॥

विशस्त्वा रासन्तां प्रविशोऽनु सर्वाहोरात्रार्चमासमासा

आतंवा ऋतुभिः सह ॥

भर्त्रोर्वैवानामृत मर्त्यानां भर्त्रो प्रजानामृत मनुष्याणाम्

हस्तभित्तिरासंः क्षेत्रसाराधिभिः सह ॥

हिरण्यैरश्वैरा गोभिः प्रत्यष्टा श्रीरिय मयि ॥

‘(हे सीता) तू प्रजापति की सतति को घन और पुष्टि (देने वाली) है, मैं पुष्टि की कामना करके तुझको आहुति देता हूँ। स्वाहा।

हे कुमुदो और पुष्करो’ से सुसज्जित सर्वागशोभिनी सीता, इस सहस्र-प्रकाश कृषि की श्री निरतर मेरे साथ रह।

मनुष्य तुझको उर्ध्वी कहते हैं, बुद्धिमान् तुझको श्री मानते हैं, हमको स्वास्थ्यकर और शक्तिप्रद अन्न प्रचुर मात्रा में दे।

हे विजयिनी हिरण्यमयी पर्जन्यपत्नी ! हम पर कृपा कर। हे कालनेत्रे ! हवि से प्रसन्न हो जा और द्विपदो तथा चतुष्पदो के लिए हमको तृप्ति दे।

जिन (शक्तियों) से देवतागण असुरो, यानुओ, गधवों और राक्षसो का नियन्त्रण करते हैं इन (शक्तियों) के साथ आज प्रसन्न होकर हमारे पास आ और हमको सहस्रविध पुष्टि प्रदान कर।

हे श्यामा ! हिरण्यमयी माला धारण करने वाली, पुष्करो से सुसज्जित सर्वागशोभिनी इस हिरण्यमयी कृषि की श्री निरतर मेरे साथ रहे।

हे देवि ! त आश्विनो, इन्द्र, और राघ (नक्षत्र) के साथ सघबद्ध है, पुष्टि (कारक अन्न) के साथ हमारे पास आ।

सब दिशाओ में वीक्ष्य तेरी देख-रेख करते हैं। दिन, रात, अर्द्धमास, पूणमास और ऋतुएँ (सब तेरी देख रेख करती हैं)।

‘मनुष्यो और देवताओ, दोनों का तू पालन करती है। विविध आसन से युक्त हाथी, क्षेत्रमारधि, हिरण्य, अश्व, गोधन, यह (सारी) सम्पत्ति निरतर मेरे साथ रहे।’

इस प्रार्थना में सर्वागशोभिनी, हिरण्यमयी माला धारण करने वाली, कालनेत्रा, श्यामा, हिरण्यमयी पर्जन्यपत्नी सीता का मानवीकरण अत्यन्त स्पष्ट है।

१. वेबर के अनुसार इसका अनुवाद है, ‘बालियो से सुसज्जित’।

१९. ऋग्वेद से लेकर गृह्यसूत्रों तक उपर्युक्त सीता-संबंधी सामग्री देख कर हम निस्सकोच कह सकते हैं कि इस सीता का व्यक्तित्व धार्मिकताओं तक कृषि करने वाले आर्यों की धार्मिक चेतना में जीता रहा। महाभारत आदि में भी इसके अनेक प्रमाण मिलते हैं। द्रोणपर्व के जयद्रथवध पर्व के अंतर्गत ध्वजवर्णन नामक अध्याय में ( ७, ८० ) कृषि की अधिष्ठात्री देवी, सब बीजों को उत्पन्न करने वाली सीता का उल्लेख हुआ है :

मद्राजस्य शल्यस्य च्चजाप्रेऽग्निशिलामिव ।

सौवर्णो प्रतिपद्याम सीतामप्रतिमां शुभाम् ॥ १८ ॥

सा सीता <sup>१</sup> आजते तस्य रथमास्याय मारिष ।

सर्वबीजविरूढेव यथा सीता श्रिया वृता ॥१९॥

हरिवंश के द्वितीय भाग में दुर्गा की एक लम्बी स्तुति के अंतर्गत कहा गया है, 'तू कृपको के लिए सीता है तथा प्राणियों के लिए धरणी' :

कर्षकाणां च सीतेति भूतानां धरणीति च ( २, ३, १४ ) ।

बौद्ध अभिषर्म्म महाविभाषा के चीनी अनुवाद में यो लिखा है :

'यदि कृषक बीज बोने के बाद शरत्काल में प्रचुर शस्य प्राप्त करता है, तब वह कहता है, यह ( शस्य ) श्री, सीता और समा इन देवियों का वरदान है।'<sup>१</sup>

वाल्मीकि रामायण पर भी सीता, कृषि की अधिष्ठात्री देवी, का प्रभाव पड़ा है। यद्यपि इसका रामायण में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है फिर भी अयोनिजा सीता के जन्म और तिरोधान के जो वृत्तान्त मिलते हैं, वे सभ्यतः इस वैदिक सीता के व्यक्तित्व से प्रभावित हैं। इसका विश्लेषण निबन्ध के चतुर्थ भाग में किया जायगा।

## ग—वैदिक साहित्य में राम-कथा का अभाव

२०. विस्तृत वैदिक साहित्य की बहुमूल्यक रचनाओं में जहाँ कहीं राम-कथा के पात्रों के नाम मिलते हैं, उन सब स्थलों का उल्लेख और महत्त्वानुसार

१. सीता का अर्थ यहाँ पर 'लागल का अग्रभाग' होता है। पद्मपुराण में भी 'सीता' इस अर्थ में प्रयुक्त है ( दे० पातालखंड, अध्याय ५७ ) ।

२. दे० ज० रा० ए० सो०: १९०७, पृ० १०२। महाविभाषा का रचनाकाल तीसरी शताब्दी ई० पूर्वार्द्ध माना जाता है (दे० कर्नः मेन्युल ऑव ब्रिटिशम प० १२१) ।

उनके प्रसंग का वर्णन प्रस्तुत अभ्याय के पहले दो परिच्छेदों में किया गया है। सारो सामग्री का सिंहावलोकन करने पर वैदिक साहित्य और राम-कथा के सम्बन्ध के विषय में हम किस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं इसका अन्तिम परिच्छेद में निर्णय करना है।

ऋग्वेद में इक्ष्वाकु, दशरथ और राम, इन तीनों का एक-एक बार उल्लेख हुआ है। वे प्रभावशाली ऐतिहासिक राजा थे, इतना ही परिचय इन स्थलों से मिल सकता है। इनका पारस्परिक सम्बन्ध असम्भव नहीं है, लेकिन इसका कोई निर्देश नहीं मिलता। आगे चलकर इनका वैदिक साहित्य में और कहीं उल्लेख नहीं हुआ है। ऋग्वेद में सीता का भी एक बार उल्लेख हुआ है लेकिन इस सीता का रामायण के उपर्युक्त अन्य ऐतिहासिक पात्रों से सम्बन्ध असम्भव ही है, क्योंकि उसका व्यक्तित्व ऐतिहासिक न होकर सीता अर्थात् लागलपद्धति के मानवीकरण का परिणाम है।<sup>१</sup> इस सीता का उल्लेख वैदिक काल के प्रारम्भ से लेकर अन्त तक बराबर होता रहा है।

ब्राह्मणों से राम मार्गवेय, राम औपतस्विनी तथा राम ऋतुजातेय इन तीनों का परिचय मिलता है। इनके ऐतिहासिक होने में कोई मदेह नहीं किया जा सकता है, लेकिन उनका रामायण के राम से कोई भी सम्बन्ध संभव प्रतीत नहीं होता।

ब्राह्मणों तथा प्राचीन उपनिषदों में अश्वपति और जनक का पहले-पहल उल्लेख मिलता है। अश्वपति का रामायण के पात्रों से कोई सम्बन्ध निदिष्ट नहीं हुआ है। इतना ही प्रतीत होता है कि वे एक ऐतिहासिक राजा थे, जो सम्भवतः जनक के समकालीन थे। ब्राह्मणों के जनक और रामायणीय जनक की अभिन्नता की समस्या का निर्णय करना असम्भव प्रतीत होता है। इसका उल्लेख ऊपर हो चुका है। रामायण का रचयिता सीता के पिता जनक का प्रसिद्ध वैदिक जनक से सम्बन्ध जोड़ता है, यह स्पष्ट है और स्वाभाविक भी है। लेकिन इस अभिन्नता के लिए वैदिक साहित्य से कोई प्रमाण नहीं निकाला जा सकता। जनक के सारे वृत्तान्त में रामकथा का कोई भी सकेत विद्यमान नहीं है।

इसी तरह हम देखते हैं कि वैदिक रचनाओं में रामायण के एकाध पात्रों के नाम अवश्य मिलते हैं, लेकिन न तो इनके पारस्परिक सम्बन्ध की कोई सूचना

१. तैत्तिरीय ब्राह्मण की सीता सावित्री की सीता रामायण की कथा-वस्तु से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसका उल्लेख ऊपर हो चुका है।

धी गई है और न इनके विषय में किसी तरह रामायण की कथा-वस्तु का किञ्चित् भी निर्देश किया गया है। जनक और सीता का बार-बार उल्लेख होने पर भी दोनों का पिता-पुत्री-सम्बन्ध कहीं भी निर्दिष्ट नहीं हुआ है।

अतः वैदिक काल में रामायण की रचना हुई थी अथवा राम-कथा सम्बन्धी गायार्णै प्रसिद्ध हो चुकी थी, इसका निर्देश समस्त विस्तृत वैदिक साहित्य में कहीं भी नहीं पाया जाता। अनेक ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम रामायण के पात्रों के नामों से मिलते हैं, इसमें इतना ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये नाम प्राचीन काल में भी प्रचलित थे।

---

## वाल्मीकिकृत रामायण

२१. वाल्मीकिकृत रामायण के पूर्व राम-कथा-संबंधी आख्यान प्रचलित थे। इसका आभास महाभारत के द्रोणपर्व और शांतिपर्व के संक्षिप्त राम-चरित से तथा अन्य निदेशों से भी मिलता है (दे० नीचे अनु० ४४, ४५, १३०)। ये आख्यान आजकल अप्राप्य हैं और इस प्रकार वाल्मीकिकृत रामायण राम-कथा की प्राचीनतम विस्तृत रचना सिद्ध होती है। प्रबंध के द्वितीय भाग में वाल्मीकि रामायण के मूलस्वरूप पर विचार किया जायगा तथा चौथे भाग में प्रचलित रामायण की कथावस्तु के साथ-साथ प्रत्येक कांड का विश्लेषण किया जायगा। प्रस्तुत अध्याय के प्रथम परिच्छेद में रामायण के भिन्न-भिन्न पाठों की समस्या पर प्रकाश डाला गया है। इसके बाद रामायण के रचनाकाल पर विचार किया गया है। अंतिम परिच्छेद में आदि-कवि वाल्मीकि से सम्बन्ध रखने वाली सामग्री एकत्र की गई है।

### क—वाल्मीकिकृत रामायण के तीन पाठ

२२. वाल्मीकिकृत रामायण का पाठ एकरूप नहीं है। आजकल इस रचना के तीन पाठ प्रचलित हैं:

(१) दाक्षिणात्य पाठ : गुजाराती प्रिंटिंग प्रेस (बम्बई), निर्णय सागर प्रेस (बम्बई) तथा दक्षिण के संस्करण। यह पाठ अपेक्षाकृत अधिक प्रचलित और व्यापक है।

(२) गौडीय पाठ : गोरेसियो (पेरिस) तथा कलकत्ता संस्कृत सिरीज के संस्करण।

(३) पश्चिमोत्तरीय पाठ : दयानन्द महाविद्यालय (लाहौर) का संस्करण। प्रत्येक पाठ में बहुत से श्लोक ऐसे मिलते हैं जो अन्य पाठों में नहीं पाये जाते। दाक्षिणात्य तथा गौडीय पाठों की तुलना करने पर देखा जाता है कि प्रत्येक पाठ में श्लोकों की एक तिहाई संख्या केवल एक ही पाठ में मिलती है।

इसके अतिरिक्त जो श्लोक तीनों पाठों में पाए जाते हैं उनका पाठ भी एक नहीं है और इनका क्रम भी बहुत स्थलों पर भिन्न है।<sup>१</sup>

इन पाठान्तरों का कारण यह है कि वाल्मीकिकृत रामायण प्रारंभ में मौखिक रूप से प्रचलित था और बहुत काल के बाद भिन्न-भिन्न परम्पराओं के आधार पर स्थायी लिखित रूप धारण कर सका। फिर भी कथानक के दृष्टिकोण से तीनों पाठों की तुलना करने पर सिद्ध होता है कि कथावस्तु में जो अंतर पाए जाते हैं वे गौण हैं। प्रस्तुत लेखक ने इस दृष्टिकोण से तीनों पाठों की विस्तृत तुलना की है।<sup>१</sup>

इस तुलना से स्पष्ट है कि उत्तरकांड की रचना बहुत बाद में हुई थी। इस कांड में तीनों पाठों में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं मिलता। केवल दाक्षिणात्य पाठ में नीतात्याग का कारण यह बताया जाता है कि भृगु ने अपनी पत्नी की हत्या के कारण विष्णु को शाप दिया था। यदि उत्तरकांड प्रारंभ से रामायण का एक अंग होता तो अन्य कांडों की तरह इस कांड में भी परिवर्तन उपस्थित होते।

### उदीच्य पाठ

२३ पाठों की तुलना से एक अन्य परिणाम यह भी निकलता है कि गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठ अपेक्षाकृत बहुत निकट प्रतीत होते हैं। इन दोनों में दाक्षिणात्य पाठ के बहुत से आर्थ प्रयोग एक ही तरह से सुधारे गये हैं और बहुत से अन्य स्थलों पर भी दोनों का पाठ दाक्षिणात्य संस्करण से भिन्न होते हुए भी एक है। अतः जो श्लोक तीनों में पाए जाते हैं वहाँ दाक्षिणात्य पाठ अपेक्षाकृत प्राचीन और मौलिक माना जाना चाहिये। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में आदि रामायण के दो पाठ धीरे-धीरे भिन्न होने लगे थे—उदीच्य तथा दाक्षिणात्य। जहाँ गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठ दाक्षिणात्य पाठ से भिन्न होते हुए भी आपस में समान हैं वहाँ उदीच्य पाठ मानना अनुचित न होगा। आर्थ प्रयोगों की अपेक्षाकृत कमी के अतिरिक्त, निम्नलिखित विषय उदीच्य पाठ के अपने ही प्रतीत होते हैं (ये केवल गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठों में पाये जाते हैं) :

१. एक तीसरी अनुक्रमणिका, जिसमें सात कांडों की सामग्री का उल्लेख मिलता है (दे० गौ० रा० १, ४ तथा प० रा० १, ३)। दाक्षिणात्य पाठ में केवल दो अनुक्रमणिकाएँ दी गई हैं।

१. दे० एच० याकोबी : इस रामायण, पृ० ३।

२. दे० सी० बुल्ने : दि जर्नेसिस ऑव दि वाल्मीकि रामायण रिसेन्सस। ज० ऑ० इ० भाग ५, पृ० ६६-९४।

२. शान्ता दशरथ की पुत्री का स्पष्ट उल्लेख ( दे० गी० रा० १, १० तथा प० रा० १, ९ ) ।
३. भरत तथा शत्रुघ्न की यात्रा तथा राजगृह में निवास दो सर्गों में वर्णित है । ( दे० गी० रा० १, ७९-८० तथा प० रा० २, १-२ ) । दाक्षिणात्य पाठ में इसका उल्लेख मात्र किया गया है ।
४. ब्राह्मण कैकेयी को शाप देता है । ( दे० गी० रा० २, ८, ३३ आदि तथा प० रा० २, ११, ३७ आदि ) ।
५. सीता जनक तथा मेनका की पुत्री हैं । ( दे० गी० रा० ३, ४ तथा प० रा० ३, २ ) ।
६. मम्पति का अपने पुत्र सुपाशर्व को बुलाना ( दे० गी० रा० ४, ६२ तथा प० रा० ४, ५५ ) ।
७. केशरी का दिग्गज धवल का वध करना और वरस्वरूप हनुमान को प्राप्त करना ( दे० गी० रा० ५, ३ तथा प० रा० ४, ५८ ) ।
८. राम के प्रति तारु का शाप । ( दे० गी० रा० ४, २०, १५-१६ प० रा० ४, १६, ३९-४० ) ।
९. निकषा का विभीषण से अनुरोध करना कि वह रावण को समझावे ( दे० गी० रा० ५, ७६ तथा प० रा० ५, ७५ ) ।
१०. दशरथ तथा सागर की मंत्रि ( दे० गी० रा० ५, ९४, २१-२२ तथा प० रा० ५, ९६, ४६-६८ ) ।
११. कुम्भकर्ण रावण से कहता है—'नारद ने मुझसे कहा था कि देवताओं ने विष्णु के एक अवतार द्वारा रावण वध की आयोजना की थी, ( दे० गी० रा० ६, ४०-४१, प० रा० ६, ४१-४२ ) ।
१२. हनुमान-कालनेमि का वृत्तान्त तथा हनुमान का गंधर्वों से युद्ध करना । ( दे० गी० रा० ६, ८२-८३ तथा प० रा० ६, ८१ ) ।

उदीच्य पाठ जो सम्भवतः पहली शताब्दी ई० से दाक्षिणात्य पाठ से भिन्न होने लगा था, बाद में पुनः दो पाठों में विभक्त होने लगा, अर्थात् गौडीय तथा पश्चिमोत्तरी । डा० लेवि का अनुमान है कि कम से कम ५०० ई० से ये दोनों पाठ भिन्न होने लगें थे ।'

१. जूर्नल ऐसिएटिक पैरिस : १९१८, पृ० १ आदि ।

## गौडोय पाठ

२४. गौडोय पाठ के निम्नलिखित वृत्तान्त अन्य दो पाठों में नहीं मिलते ।

- (१) विभीषण रावण से अलग होने के बाद पहले कैलास पर अपने भाई वैश्रवण से मिलता है और बाद में राम की शरण लेता है । ( दे० गौ० ग० ५, ८९ ) ।
- (२) ओषधि के लिये जाते समय भरत से हनुमान की भेंट ( दे० गौ० ग० ६, ८२, ९० आदि ) ।
- (३) सीताहरण के पूर्व जटायु गम में अपने सम्बन्धियों के यहाँ जाने की आज्ञा लेकर घर जाता है ( दे० गौ० ग० ३, २३, ३-१० ) ।

## पश्चिमोत्तरीय पाठ

२५. पश्चिमोत्तरीय पाठ तथा गौडोय पाठ बहुत निकट हैं, यह उपर्युक्त उदीच्य पाठ के विप्लेषण से स्पष्ट है । फिर भी पर्याप्त सामग्री पश्चिमोत्तरीय तथा दाक्षिणात्य पाठ, दोनों में मिलती है । इसका कारण यह होगा कि बाद में पश्चिमोत्तरीय पाठ को परिपूर्ण बनाने के उद्देश्य से प्रचलित तथा व्यापक दाक्षिणात्य पाठ का महाराग लिया गया है । इस तरह वर्षा-ऋतु का एक विस्तृत वर्णन दाक्षिणात्य तथा पश्चिमोत्तरीय दोनों पाठों में मिलता है । ( दे० दा० ग० ४, २८, १४-५२, और प० ग० ४, २१ ) ; यह वर्णन त्रिष्टुभ में है ।

ब्रह्मास्त्र द्वारा हुमकुल्य का विनाश भी दाक्षिणात्य तथा पश्चिमोत्तरीय पाठ में मिलता है ( दे० दा० ग० ६, २२, तथा प० ग० ५, ९६ ) । अनेक वृत्तान्त केवल पश्चिमोत्तरीय पाठ में ही पाए जाते हैं । उदाहरणार्थ :

- (१) कैकेयी का एक ब्राह्मण से विद्याबल प्राप्त करना, जिसके द्वारा वह सधाम में अपने पति की रक्षा करने में समर्थ हुई । ( दे० प० ग० २, ११, ४२ आदि ) ।
- (२) हनुमन्मगल - एक पूरा सर्ग जिसमें वानर हनुमान् की वीरता की प्रशंसा करते हैं । ( दे० प० ग० ४, ५९ ) ।
- (३) समुद्र का राम और लक्ष्मण को एक कवच और अस्त्र प्रदान करना । ( दे० प० ग० ५, ९९ ) ।



(४) नागपाश के अवसर पर नारद का आना और राम को उनके प्रारण्यत्व का स्मरण दिलाना । ( दे० प० रा० ६, २७ ) ।

(५) मंदोदरी-केष-ग्रहण । विभीषण के द्वारा पता चलता है कि रावण होम कर रहा है । यदि यह यज्ञ पूर्ण हो सका तो रावण अजेय सिद्ध हो जायगा । वानर रावण के यज्ञस्थल पर पहुँच कर उसका ध्यान भंग करने में असमर्थ है । अन्त में अंगद मंदोदरी को केशों से खींच कर उसे रावण के पास ले आता है । इस पर रावण उत्तेजित हो जाता है और यज्ञ समाप्त नहीं हो पाता । ( दे० प० रा० ६, ८२ ) ।

### दाक्षिणात्य पाठ

२६. जो श्लोक तीनों पाठों में मिलते हैं, इनके लिए दाक्षिणात्य पाठ साधारणतया अधिक प्राचीन माना जाना चाहिए । इसका उल्लेख ऊपर हो चुका है । फिर भी इस पाठ में भी बहुत प्रसंग पाए जाते हैं । निम्नलिखित वृत्तान्त नवों गौडीय पाठ में मिलते हैं और न पश्चिमोत्तरीय पाठ में :

- (१) रामादि की जन्मतिथि ( चंद्रे नाभमिके तिथौ ) तथा उसी अवसर पर राशियो के सगम । ( दे० दा० रा० १, १८, ८ आदि ) ।
- (२) बालकाढ की अनेकपौराणिक कथाएँ . कश्यप की तपस्या जिसके फलस्वरूप वह हरि की वामनावतार में पुत्र-स्वरूप प्राप्त कर सका ( २९, १०-१७ ) जहनु का गंगा को पीना ( ४३, ३४-४१ ) ; विष्णु का मोहिनी रूप धारण कर अमृत ले जाना ( ४५, ४०-४३ ) ; विष्णु का कूर्मावतार वर्णन ( ४५, २७-३२ ) ; इन्द्र का ब्राह्मण के रूप में विश्वामित्र से अन्न माँगना ( ६५, ३-१० ) ; सगर के जन्म की कथा ( ७०, २८-३७ ) ।
- (३) कौक्यी की माता के अपने पति द्वारा त्यक्त किये जाने की कथा ( २, ३५ ) ।
- (४) सीता की यमुना से प्रार्थना ( २, ५५, १३-२१ ) ।
- (५) बाल्मीकि से राम, लक्ष्मण और सीता की भेट ( २, ५६, १६-१७ ) ।
- (६) अकंपन का रावण को जनस्थान की घटनाओं का हाल देना और रावण का मारीच के पास जाना ( ३, ३१ ) ।
- (७) राक्षसी अयोमुख का वृत्तान्त ( ३, ६९, ११-१८ ) ।
- (८) सुग्रीव का लक्ष्मण को शान्त करने के लिए तारा को उनके पास भेजना ( ४, ३३, २५-६२ ) ।

- (९) लंका देवी से हनुमान का युद्ध (५, ३, २०-५१) ।  
 (१०) सुग्रीव-रावण-युद्ध (६, ४० तथा ६, ४१, १-१०) ।  
 (११) अगस्त्य का राम को सूर्यस्तव देना (६, १०५) ।  
 (१२) तारा तथा अन्य वानर-पत्नियों को अयोध्या ले जाने की राम से सीता की प्रार्थना (६, १२३, २३-३८) ।

### ख—रामायण का रचनाकाल

२७. एक शताब्दी के पूर्व रामायण पहले पहल पश्चिम में विख्यात होने लगा; उस समय अनेक विद्वानों का मत था कि इसकी रचना अत्यन्त प्राचीन काल में हुई थी—ए० श्लेगेल के अनुसार ११वीं श० ई० पू० तथा जी० गोरेसियों के अनुसार लगभग १२ वीं श० ई० पू० ।<sup>१</sup> इस मत के प्रतिक्रियास्वरूप जी० टी० ह्वीलर तथा डा० वेबर ने रामायण पर यूनानी तथा बौद्ध प्रभाव मान कर उसकी रचना अपेक्षाकृत अर्वाचीन समझी है ।<sup>२</sup> इन दोनों के मत का खडन निबन्ध के द्वितीय भाग में किया जायगा ।

आगे चलकर रामायण के रचनाकाल के विषय में लिखते हुए विद्वान् प्रायः आदि रामायण ( वाल्मीकि की प्रामाणिक रचना ) तथा प्रचलित वाल्मीकि रामायण का अलग-अलग रचना-काल निर्धारित करते हैं ।

रामायण के भिन्न-भिन्न पाठों की तुलना करने पर स्पष्ट है कि उत्तरकाण्ड बाद का लिखा हुआ है । वास्तव में उत्तरकाण्ड तथा बालकाण्ड दोनों वाल्मीकिकृत रचना में विद्यमान नहीं थे इसके लिए द्वितीय भाग में प्रमाण दिए जायेंगे (दे० ८ वीं अध्याय) । वाल्मीकिकृत आदि रामायण (काण्ड २-६) तथा प्रचलित वाल्मीकि रामायण में जो अन्तर पाया जाता है इसके लिए बहुत काल की आवश्यकता है । छोटे-मोटे प्रक्षेपों को छोड़कर प्रस्तुत प्रचलित वाल्मीकि रामायण का रूप (१-७ काण्ड) कम से कम दूसरी शताब्दी ई० का है यह बहुसंख्यक विद्वानों का मत है ।

एम० विटरगित्स इस प्रश्न का विस्तृत विश्लेषण करने के बाद एच० याकोबी के परिणाम पर पहुँचते हैं । एच० याकोबी पहिली अथवा दूसरी शताब्दी

१. दे० ए० डब्लू० श्लेगेल जर्मन ओरियन्टल जर्नल, भाग ३, पृ० ३७९ ।  
 जी गोरेसियों : रामायण भाग १० भूमिका ।  
 २. जी० टी० ह्वीलर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भाग २ ( लन्दन १८६९ ) ।  
 ए० वेबर : आन् दि रामायण ( बम्बई ( ८७३ ) ।

ई० को प्रचलित रामायण का काल मानते हैं, एम० विंटरनिट्स दूसरी शताब्दी ई० अधिक समीचीन समझते हैं। सी० वी० वेंच' इसका काल दूसरी श० ई०-पू० तथा दूसरी शताब्दी ई० के बीच में मानते हैं यद्यपि वह पहिली श० ई०-पू० अधिक सभ्य समझते हैं। कालिदास के समय में रामायण ने अपना प्रचलित रूप धारण कर लिया था तथा महाभारत के आरम्भक-पूर्व के रचनाकाल में बालकाण्ड तथा उत्तरकाण्ड की कुछ सामग्री प्रचलित हो गई थी। अतः अधिक संभव है कि प्रचलित रामायण का रूप दूसरी श० ई० के बाद का नहीं है। आदि रामायण प्रचलित रामायण से इतना भिन्न है कि इस महत्वपूर्ण विकास के लिए कई शताब्दियों की आवश्यकता प्रतीत होती है। अतः वाल्मीकिकृत रचना कम से कम तीसरी श० ई० पू० की होगी। कई विद्वान् वाल्मीकि का काल और प्राचीन मानते हैं।

प्रामाणिक वाल्मीकिकृत रामायण में बौद्ध धर्म की ओर निर्देश नहीं मिलता। उन इसकी रचना बृद्ध के पूर्व ही अथवा पाँचवी श० ई० में हुई होगी। यह एम० मॉनियेर विलियम्स तथा सी० वी० वेंच का प्रधान तर्क प्रतीत होता है। लेकिन प्राचीन बौद्ध साहित्य तथा जातकों की सामग्री के विश्लेषण से स्पष्ट है कि तिपिटक के रचनाकाल में राम-कथा मन्वन्धी स्फुट आख्यान-काव्य प्रचलित हो चुका था लेकिन रामायण की रचना नहीं हो पाई थी (दे० नीचे अनु० ८२)।

डा० याकोबी रामायण का रचनाकाल पाँचवी श० ई० से पूर्व, छठी और आठवी श० ई० पू० के बीच में मानते हैं। ए० ए० मैकडोनेल भी याकोबी के तर्क दुहराकर रामायण की उत्पत्ति बौद्ध धर्म के पूर्व मानते हैं। ए० बी० कीथ डा० याकोबी के ग्रन्थ के बीस वर्ष बाद उनके तर्कों का विस्तृत विश्लेषण तथा सफ़ा करके आदि रामायण की रचना चौथी शताब्दी ई० पूर्व

१. एच० याकोबी : इस रामायण, पृ० १००।

एम० विंटरनिट्स . हि० इ० लि० भाग १, ५००, ५१७।

२. सी० वी० वेंच . दि रिडिल आंव दि रामायण, पृ० २० और ५१।

३. किन्तु इसके बाद भी पौराणिक कथाओं तथा अन्य प्रलेखों का सम्मिश्रण हुआ होगा। अतः इन अर्वाचीन अशो के कारण समस्त बालकाण्ड का समय चौथी श० ई० निर्धारित करना तर्कसंगत नहीं है। दे० डब्लू किर्फल। रामायण बालकाण्ड उण्ड पुराण।

४. एम० एम० विलियम्स : इण्डियन एपिक पोइट्री (लन्दन १८६३) पृ० ३।

५. दे० एच० याकोबी : वही पृ० १०१ आदि।

६. दे० ए० ए० मैकडोनेल : संस्कृत लिटरेचर (लन्दन १९२८) पृ० ३०७।

में रखते हैं<sup>१</sup>। एम० बिंटरनित्स प्रायः ए० बी० कीथ से सहमत हैं लेकिन वे वाल्मीकि को तीसरी शताब्दी ई० पू० में मानते हैं<sup>२</sup>। अतः अधिक संभव प्रतीत होता है कि वाल्मीकि ने लगभग ३०० ई० पू० अपनी अमर रचना की सृष्टि की है। इस निर्णय की पुष्टि इससे भी होती है कि पाणिनि में रामायण अथवा वाल्मीकि का उल्लेख नहीं होता। लेकिन उनके समय में राम-कथा प्रचलित हुई होगी क्योंकि सूत्रों में कँकेयी (७, ३, २), कौशल्या (५, १, १५५) तथा शूर्पणखा (६, २, १२२) की ओर संकेत मिलते हैं। गणपाठ में परिवर्द्धन होता रहा, अतः गणपाठ के उल्लेखों पर तर्क आधारित नहीं किया जा सकता है, इसमें रामकथा के मुख्य पात्रों के नाम (राम, लक्ष्मण, भरत, रावण आदि) आये हैं।

### ग—आदिकवि वाल्मीकि

२८. युद्धकाण्ड की फलश्रुति (दे० रा० ६, १२८, १०५) को छोड़कर प्रामाणिक वाल्मीकिकृत रामायण में वाल्मीकि की ओर कहीं भी संकेत नहीं मिलता। इस फलश्रुति में तथा बालकाण्ड, उत्तरकाण्ड और महाभारत में वाल्मीकि को रामायण का रचयिता माना गया है, इस प्राचीन परम्परा के विरोध में कोई भी युक्तिसंगत तर्क नहीं दिया जा सकता है। किन्तु यह अवश्य मानना पड़ेगा कि इस महान् कवि के जीवनवृत्त के सम्बन्ध में प्रामाणिक सामग्री का नितान्त अभाव है।

### (अ) आदिकवि से भिन्न तीन अन्य वाल्मीकि

२९. तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में एक व्याकरण वाल्मीकि<sup>३</sup> का उल्लेख है जो निश्चित रूप से आदि कवि से भिन्न है। यह ए० वेबर्<sup>४</sup> तथा एच० याकोबी<sup>५</sup> आदि विशेषज्ञों की राय है। इससे इस बात का पता चलता है कि 'वाल्मीकि' नाम प्राचीन काल में प्रचलित था। अतः हमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए यदि अन्यत्र भी वाल्मीकि नामक व्यक्तियों का उल्लेख मिल जाए।

१ दे० ज० रा० ए० सी० १९१५ (पृ० ३१८-२८), दि एज ऑव् दि रामायण।

२ दे० हि० इ० लि० भाग १, पृ० ५१६।

३. मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में (सन् १९३०) तीन स्थलों पर वाल्मीकि का उल्लेख है—५, ३६; ९, ४; १८, ६।

४. दे० ऑन दि रामायण, पृ० १७ टिप्पणी।

५. दे० डॉस रामायण, पृ० ६६ टि०।

महाभारत के उद्योगपर्व में गरुडवंशी विष्णु-भवत सुपर्ण पक्षियों की सूची में वाल्मीकि का भी नाम आया है। सुपर्ण वंश संभवतः सप्तसिन्धु की एक यायावर आर्य जाति थी। महाभारत में इनके सम्बन्ध में कहा गया है कि ये कर्म से क्षत्रिय थे—कर्मणा क्षत्रियाः ( दे० ५, ९९, ६ )। सुपर्ण वाल्मीकि तथा आदिकवि वाल्मीकि की अभिन्नता के पक्ष में कोई भी प्रमाण नहीं मिलता। अभिन्नता के विरोध में यह तर्क दिया जा सकता है कि सुपर्ण वंश महाभारत में विष्णुभक्त माना गया है ( दे० ५, ९९, ८ ) किन्तु कवि वाल्मीकि के विषय में कहा गया है कि उन्होंने शिव की शरण ली थी ( दे० आगे अनु० ३३ )। अतः अधिक संभव यही प्रतीत होता है कि सुपर्ण वाल्मीकि तथा आदिकवि भिन्न ही हैं।

महाभारत में केवल द्रोणपर्व ( ११८, ४८ ) तथा शांतिपर्व ( २००, ४ ) के अन्तर्गत वाल्मीकि को स्पष्ट शब्दों में कवि माना गया है, इसके अतिरिक्त शांतिपर्व ( ५७, ४० ) में भार्गव कवि का तथा अनुशासन पर्व ( १८, ८-१० ) में एक वाल्मीकि का उल्लेख है जिसके विषय में कहा है कि उनका यश श्रेष्ठ होगा। महाभारत के अन्य पर्वों में बहुत से स्थलों पर महर्षि वाल्मीकि का उल्लेख है; उदाहरणार्थ—आदि पर्व ५०, १४, सभापर्व ७, १४, वनपर्व ८३, १०२, उद्योग पर्व ८१, २७, विशेषज्ञो (हॉफ्किन्स, सुकठणकर) के अनुसार द्रोण पर्व का वर्तमान रूप बहुत ही परिवर्द्धित है और शांति पर्व तथा अनुशामन पर्व निश्चित रूप से अर्वाचीन हैं। अतः बहुत संभव है कि महाभारत के व्यासों ने अपेक्षाकृत अर्वाचीन काल में कवि वाल्मीकि का परिचय प्राप्त किया है और कि य बहुतमह्यक स्थल आदिकवि वाल्मीकि से भिन्न किसी अन्य वाल्मीकि नामक ऋषि से सम्बन्ध रखते हो। जो कुछ भी हो इन स्थलों पर जीवन-वृत्त विषयक सामग्री नहीं मिलती। इस प्रकार हमें आदिकवि से भिन्न तीन अन्य वाल्मीकियों का पता मिल गया है—वैयाकरण वाल्मीकि, सुपर्ण वाल्मीकि तथा महर्षि वाल्मीकि।

### (आ) बालकाण्ड और उत्तरकाण्ड

३०. बालकाण्ड के रचनाकाल के समय तक आदिकवि वाल्मीकि तथा प्राचीन ऋषिवर वाल्मीकि की अभिन्नता सर्वमान्य होने लगी थी तथा वाल्मीकि को रामायण की घटनाओं का समकालीन माना गया था।

१. दे० ए० सी० दास, ऋग्वेदिक इण्डिया, पृ० ६५ और १४८।

बालकाण्ड के प्रारंभ में रामायण की उत्पत्ति की कथा मिलती है। तपस्वी ( सर्ग १, १ ), मुनि ( २, ४ ), महर्षि ( ४, ४ ) वाल्मीकि नारद से रामकथा का सार सुन लेते हैं; अनन्तर वह श्लोक का आविष्कार करने के बाद ब्रह्मा के आदेश से रामकथा को श्लोकबद्ध करते हैं और अपनी इस रचना को अपने दो कुशीलव शिष्यों को सिल्लालते हैं। ये दोनों सर्वत्र रामायण गाते हैं और एक बार उसे अयोध्या के राजमहल में भी राम और उनके भाइयों को सुनाते हैं। ( दे० बालकाण्ड, सर्ग १-४ )।

उत्तरकाण्ड के अनुसार लक्ष्मण परित्यक्ता सीता को वाल्मीकि के आश्रम के पास जंगल में छोड़ते समय उनको सान्त्वना देते हुए कहते हैं—वाल्मीकि के यहाँ आश्रय लेना, वे ब्राह्मण तथा दशरथ के सखा हैं :

राज्ञो दशरथस्यैव पितुर्मे मुनिपुंगवः ॥१६॥

सखा परमको विप्रो वाल्मीकिः सुमहायशाः ॥ ( सर्ग ४७ )

बाद में सीता वाल्मीकि के आश्रम में लव और कुश को जन्म देती हैं ( दे० सर्ग ६६ ), वे वाल्मीकि से रामायण सीख लेने हैं और उनका आदेश पाकर उसे राम के यज्ञस्थल पर सुनाते हैं ( दे० सर्ग ९३-९४ )। रामायण सुन लेने के बाद राम, सीता को बुला भेजते हैं और वाल्मीकि सीता को ले आकर सभा के सामने सीता के सतीत्व का साक्ष्य देने हैं। इस अवसर पर वाल्मीकि अपना परिचय देकर कहते हैं कि मैं प्रचेता का दसवाँ पुत्र<sup>१</sup> हूँ। मैंने हजारों वर्ष तक तप किया है :

प्रचेतसोऽहं वशमः पुत्रो राघवनन्दन ।

न स्मराम्यनृतं वाक्यमिमौ तु तव पुत्रको ॥१८॥

बहुवर्षसहस्राणि तपस्र्यया मया कृता । ( सर्ग ९६ )

इसके अतिरिक्त वह इस बात पर बल देते हैं कि मैंने कभी भी पाप नहीं किया है :

मनसा कर्मणा वाचा भूतपूर्वं न किल्बिषम् ( वही, श्लोक २० )

इससे स्पष्ट है कि वाल्मीकि के दस्यु होने की जो कथा बाद में प्रचलित हो गई है वह उत्तरकाण्ड के रचयिता को मान्य नहीं है।

१. दाक्षिणात्य रामायण ( उत्तरकाण्ड १११, ११ ) में वाल्मीकि को एक अन्य स्थल पर भी प्रचेता का पुत्र कहा गया है किन्तु यह उल्लेख अन्य पाठों में नहीं मिलता।

३१ बालकाण्ड (२, ३) के अनुसार वाल्मीकि का आश्रम तमसा तथा गंगा के समीप ही स्थित है। तमसा यहाँ पर अयोध्या काण्ड (सर्ग ४५-४६) की तमसा से भिन्न गंगा की कोई उपनदी है। उत्तरकाण्ड के प्रसंगों से पता चलता है कि वह नदी गंगा के दक्षिण में ही थी, क्योंकि लक्ष्मण और सीता अयोध्या से आकर गंगा पार करने के बाद ही वाल्मीकि के आश्रम के निकट पहुँचते हैं (दे० सर्ग ४७)। शत्रुघ्न के विषय में कहा जाता है कि वाल्मीकि-आश्रम से पश्चिम की ओर जाते हुए वह 'यमुनातीरम्' पर उतरते हैं (सर्ग ६६, १५)। बाद में एक अन्य परम्परा प्रचलित होने लगी, जिसके अनुसार वाल्मीकि का आश्रम गंगा के उत्तर में माना जाता था; रामायण के टीकाकार कतक तथा गोविन्दराज उपर्युक्त 'यमुनातीरम्' के स्थान पर 'गंगातीरम्' शुद्ध मानते हैं।

रामायण के दक्षिणात्य पाठ' के एक प्रक्षेप के अनुसार जो अन्य दो पाठों में नहीं मिलता, राम, लक्ष्मण और सीता चित्रकूट के निकट ही वाल्मीकि के आश्रम में पहुँचते हैं:

इति सीता च रामस्य च लक्ष्मणश्च कृताञ्जलिः।

अभियगम्याश्रमं सर्वे वाल्मीकिमभिवाहयन् ॥१६॥

(अयोध्याकाण्ड, सर्ग ५६)

इसके अनुसार अध्यात्म रामायण (२, ६), आनन्द रामायण (१, ६), राम-चरितमानस (२, १२४) आदि बहुसंख्यक अर्वाचीन राम-कथाओं में वाल्मीकि का आश्रम यमुना के पार चित्रकूट के पास ही स्थित है। आजकल भी यह बाँदा जिले में माना जाता है।

## (इ) भार्गव वाल्मीकि

३२. प्रचलित वाल्मीकि-रामायण में भार्गव च्यवन का दो प्रसंगों में उल्लेख हुआ है—बालकाण्ड में सगर की कथा के अंतर्गत (सर्ग ७०, ३२) तथा उत्तरकाण्ड में लवणवध के वृत्तान्त में (सर्ग ६०-६४)। इन स्थलों पर भार्गव च्यवन तथा वाल्मीकि के किसी सम्बन्ध का संकेत नहीं मिलता किन्तु फिर भी उत्तरकाण्ड के रचनाकाल के समय तक वाल्मीकि का सम्बन्ध भार्गवों से जोड़ा

१. केवल पश्चिमोत्तरीय पाठ (दे० २, १०५, १४) में भरत के वाल्मीकि आश्रम होकर चित्रकूट पहुँचने का उल्लेख है।

गया था क्योंकि वाल्मीकि को प्रचेता का दसवाँ पुत्र माना गया है<sup>१</sup>। बाद में वाल्मीकि को भागव की उपाधि मिल गई है। महाभारत में रामचरित के रचयिता भागव का जो उल्लेख है वह वाल्मीकि ही प्रतीत होता है क्योंकि जिस श्लोक का प्रसंग है वह प्रचलित रामायण के दक्षिणात्य पाठ के एक श्लोक से मिलता जुलता है :

श्लोकत्रयायं पुरा गीतो भागवेष महात्मना ।  
आश्चयते रामचरिते नृपतिं प्रति भारत ॥४०॥  
राजानं प्रथमं विन्देत् ततो भार्या ततो धनम् ।  
राजन्यसति लोकस्य कुतो भार्या कुतो धनम् ॥४१॥  
(शांतिपर्व ५७)

अराजके धनं नास्ति नास्ति भार्याप्यराजके ।  
इदमत्याहितं चान्यत्कुतः सत्यमराजके ॥११॥  
(अयोध्याकाण्ड ६७)

परवर्ती रचनाओं में वाल्मीकि को बहुधा भागव<sup>२</sup> माना गया है, उदाहरणार्थ विष्णुपुराण (३, ३, १८) और मत्स्यपुराण (१२, ५१)। ऐसा प्रतीत होता है कि भागव च्यवन तथा वाल्मीकि के वृत्तान्तों के सम्मिश्रण में वाल्मीकि को भागव की उपाधि मिल गई हो। 'वाल्मीकि' की व्युत्पत्ति प्राप्य, 'वल्मीक' से मानी जाती है, अब यह कथा प्रचलित होने लगी कि वाल्मीकि वास्तव में वल्मीक (दीमकों की बाँबी) से निकला था। अब ध्यान देने योग्य है कि भागव च्यवन के विषय में इस प्रकार की कथा व्यापक रूप से प्रचलित थी। महाभारत के आरण्यक पर्व के अनुमार भृगु के पुत्र च्यवन तपस्या करते हुए इतने समय तक निश्चल खड़े रहे कि उनका शरीर वल्मीकि आच्छादित हो गया था। राजपुत्री मुकग्या ने उनको अधा बना दिया और बाद में उससे विवाह भी कर लिया (अध्याय १२२)। यह वृत्तान्त भागवत पुराण (९, ३), स्कंद पुराण

१. प्रचेता तथा वरुण एक हैं (दे० कुमारसम्भव २, २१); ऋग्वेद (६, ९५ और १०, १६) में भृगु का नाम वारुणि माना गया है तथा शतपथ ब्राह्मण में इसका स्पष्ट उल्लेख है कि भृगु वरुण के पुत्र हैं (दे० ११, ६, १, १) भागवत पुराण में कहा गया है कि वरुण की पत्नी चर्षणी से दो पुत्र, भृगु तथा वाल्मीकि उत्पन्न हुए थे (दे० ६, १८, १)।

२. रामायण के परिचमोत्तरीय पाठ के अंतिम श्लोक में वाल्मीकि को भागव की उपाधि दी गई है, दे० ७, ११२, ३१।



( आबन्धु खंड, चतुश्शीतिलिख माहात्म्य, अध्याय २० और प्रभास खंड, प्रभासखंड माहात्म्य, अध्याय २८१ ), बेबी अगस्त पुराण (६, २-३) और पद्यपुराण ( पातालखंड, अध्याय १५ ) में भी मिलता है ।

वाल्मीकि तथा च्यवन दोनों के विषय में माना गया कि वे वाल्मीक से निकले थे; इसी कारण दोनों की कथाओं का सम्मिश्रण स्वाभाविक प्रतीत होता है । एक ओर से वाल्मीकि की भाग्य की उपाधि दी गई है तथा दूसरी ओर च्यवन का संबंध रामकथा से जोड़ा गया । कृतिवास रामायण में तो वाल्मीकि को च्यवन का पुत्र बना दिया गया है । अश्वघोष अपने बुद्धचरित्र में कहते हैं कि जिस काव्य की रचना करने में च्यवन समय नहीं थे, उसकी वाल्मीकि ने मूढि की ।

वाल्मीकिरावी च ससर्जं पद्यं

अग्रन्थ यन्न च्यवनो महर्षिः<sup>१</sup> ॥१,४३॥

### (ई) दस्यु वाल्मीकि

३३. एक परम्परा के अनुसार वाल्मीकि पहले डाकू थे और दीर्घकालीन तपस्या के पश्चात् ही रामायण की रचना करने में समय हुए; इस कथा की प्राचीनता के सम्बन्ध में सन्देह है । स्कंद पुराण में इसका पहले पहल विकसित रूप मिलता है; इस पुराण की अधिकांश सामग्री आठवीं शताब्दी ई० के बाद की है, और इसमें बहुत से प्रक्षेप जोड़े गए हैं जिनका रचनाकाल अज्ञात है<sup>१</sup> । फिर भी महाभारत के अनुशासन पर्व में प्रस्तुत कथा का एक प्रकार से प्रथम आभास विद्यमान है । वाल्मीकि युधिष्ठिर से कहते हैं कि किसी विवाद में मुनियों ने मुझको ब्रह्मघ्न कहा था । इस कथन मात्र से मैं पापी बन गया था । मैंने शिव की शरण ली और उन्होंने मुझको पाप से मुक्त करके कहा— “ तेरा यश श्रेष्ठ होगा ” :

वाल्मीकिश्चाह् भगवान्युधिष्ठिरमिवं वचः ।

विषादे साग्निमुनिभिर्ब्रह्मघ्नो भं भगवानिति ॥८॥

उक्तः क्षणेन चाविष्टस्तेनाद्यर्षेण भारत ।

१. ई० ए० जॉन्स्टन का संस्करण ( कलकत्ता १९३५ ); ई० बी० कावेल के संस्करण में पाठ इस प्रकार है—“वाल्मीकिनादेष्व ससर्जं पद्यम्” ।

२. द० आर० सी० हाजरा, पुराणिक रेकार्ड्स, पृ० १६५ ।

सोऽहमीशानमनघममोघं शरणं यतः ॥९॥

मुक्तवचास्मि ततः पार्यस्ततो बुःखविनाशनः ।

आह मां त्रिपुरघ्नो वं यशस्तेऽनर्घं भविष्यति ॥१०॥

( अध्याय १८ )

इस उद्धरण में एक वाल्मीकि की चर्चा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उनका यश श्रेष्ठ होगा; अतः उसे आदिकवि मानना युक्तियुक्त ही है । उनको अग्निहोतृ मृनिघों के शाप से ब्रह्महत्या का दोष लगा था; आगे चलकर उनका वास्तव में ब्रह्मघ्न तथा दस्यु माना जाना अनुशासन पर्व के इस प्रसंग का स्वाभाविक विकास प्रतीत होता है ।

३४. स्कंद पुराण में वाल्मीकि के विषय में चार कथाएँ सुरक्षित हैं । अथर्ववेद के वैशाखमासमाहात्म्य में एक व्याघ्र का वृत्तान्त मिलता है, जिसका नाम नहीं दिया गया है । वह रामनाम का जप करने के फलस्वरूप यह वरदान प्राप्त कर लेता है कि वह अपने अगले जन्म में बल्मीक नामक ऋषि के कुल में उत्पन्न होगा तथा वाल्मीकि का नाम धारण कर यशस्वी बन जाएगा । कृष्ण नामक तपस्वी के शरीर के चारों ओर बल्मीक बन गया था जिससे उसका नाम बल्मीक ही पड़ा था । व्याघ्र उसी बल्मीक के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ, वाल्मीकि के नाम से विख्यात होने लगा और दिव्य राम-कथा की रचना करने में समर्थ हुआ ( दे० अध्याय २१ ) ।

प्रस्तुत कथा में वाल्मीकि अपने पूर्वजन्म में ही व्याघ्र थे तथा उनके पिता के शरीर में बल्मीक बन गया था । स्कंद पुराण की अन्य कथाएँ लोक प्रसिद्ध वृत्तान्त के अधिक निकट हैं, किन्तु उनमें रामनाम-जप का उल्लेख नहीं है । अश्वतीखंड के आवन्त्य क्षेत्र माहात्म्य (अध्याय २४) में अग्नि शर्मा की कथा वर्णित है । वह डाकू था; किसी दिन सात ऋषियों से उसकी भेंट हुई । वह उनको मार डालना ही चाहता था कि ऋषियों ने उसे उसके परिवार से यह पूछने भेज दिया कि "क्या तुम लोग मेरे पाप-फल के भागी बनने के लिए तैयार हो ?" इस पर परिवार ने इनकार किया । अग्नि शर्मा ऋषियों के पास लौटा और उनका परामर्श हृदयगम कर ध्यान तथा मंत्रजप करने लगा । १३ वर्ष के बाद सात ऋषि फिर उस स्थल पर पहुँचे और उन्होंने उसके शरीर के चारों ओर बल्मीक बना हुआ देख लिया । तब उन्होंने उसको निकालकर उसका नाम वाल्मीकि रखा और उसको रामायण लिखने का आदेश दिया ।

नग्नर खंड में लोहजंघ नामक द्विज की कथा मिलती है (दे० अध्याय १२४) वह पितृमातृपरायण होने के कारण अकाल के समय अपने परिवार का पालन करने के लिए दस्यु बन जाता है। सप्तर्षियों से भेंट होती है तथा अन्य वृत्तान्तों की भाँति उसका परिवार उसके पाप का भागी बनने से इनकार करता है। वह ऋषियों के पास लौटता है और वे उसको "जाटघोट" मंत्र पढाकर चले जाते हैं। बाद में सप्तर्षि उस जगह होकर लौटते हैं; वे लोहजघ को कुमत्र द्वारा भी समिद्धि-प्राप्त पाते हैं तथा उसका शरीर बल्मीक में समावृत्त देखकर उसे वाल्मीकि नाम देते हैं।

प्रभासखंड के प्रभासक्षेत्रमाहात्म्य (दे० अध्याय २९८) में निम्नलिखित कथा है। शमीमुख नामक ब्राह्मण का पुत्र वंशाख चोरी द्वारा अपने परिवार का पालन-पोषण करता था। सप्तर्षियों से भेंट होने पर वह अपने परिवार से सुन लेता है कि वे उसके दोष के भागी नहीं बनना चाहते हैं। इस पर वह वैरागी बनकर हजारों वर्ष तक तपस्या और जप करता है तथा उसका शरीर बल्मीक से समावृत्त हो जाता है। सप्तर्षि लौटते हैं और उसका नाम वाल्मीकि रखकर भविष्यद्वाणी करते हैं कि वह रामायण की रचना करेगा :

स्वच्छन्दा भारती देवी जिह्वासे ते भविष्यति ।

कृत्वा रामायणं काव्यं ततो मोक्षं गमिष्यसि ॥

३५ उपर्युक्त कथाओं का सबसे प्रचलित रूप<sup>१</sup> अध्यात्म रामायण के अयोध्या कांड ( सर्ग ६, श्लोक ४२-८८ ) में मिलता है। जब राम, लक्ष्मण और सीता निर्वासित होकर चित्रकूट के पास पहुँचे, उन्होंने अपना निवास-स्थान निश्चित करने के लिए वाल्मीकि का परामर्श माँगा। वाल्मीकि ने राम की स्तुति करने के पश्चात् रामनाम-माहात्म्य दिखलाने के उद्देश्य से अपनी कथा सुनाई :

अहं पुरा किरातेषु किरातैः सह वर्धितः ।

जन्ममात्रद्विजत्वं मे शूद्राचाररतः सदा ॥६५॥

“मैं पहले किरातों के साथ रहा करता था और निरन्तर शूद्रों के आचरण में रत रहने के कारण मेरा ब्राह्मणत्व जन्म मात्र का था। शूद्रा के गर्भ से मेरे बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। चोरों के कुसंग से मैं भी चोर बन गया था और सदा धनुष-बाण धारण किए रहता था। एक दिन मैंने सात मुनियों को जाते देखा और उनके

१. मद्रास कैंटालॉग ( आर ३८१४ ) में जैमिनी रामायण की पृष्ठीका इस प्रकार है—इति जैमिनीरामायणे रामनाममाहात्म्ये व्याघ्रस्य सप्तर्षिदर्शनम् ।

कत्नादि छीनने के उद्देश्य से उन्हें घोर वन में रोक लिया ; मनुष्यों ने कहा कि जिन कुटुम्बियों के लिए तुम नित्य पाप संचय करते हो उनसे जाकर पूछ लो कि वे तुम्हारे अधर्म के भागी बनने के लिए तैयार हैं कि नहीं। मैंने जाकर पूछा और और मुझे उत्तर मिला—“यह पाप तो तुम्हीं को लगेगा ; हम केवल धन के ही मोगने वाले हैं”। यह सुनकर मुझे वैराग्य उत्पन्न हुआ और मैंने उन मुनियों की शरण ली। हे राम ! मुनियों ने आपस में परामर्श किया और आपके नामाक्षरों को उल्टा करके मुझसे कहा—तुम इसी स्थान पर एकाग्रचित्त होकर निरन्तर ‘मरा’ का जप करो (एकाग्रमनसाग्रंथ मरेति जप सर्वदा)। मैंने ऐसा ही किया। निश्चल खड़ा रहने के फलस्वरूप मेरे ऊपर बल्मीक बन गया। एक सहस्र युग बीतने पर वे ऋषि लौटे और उन्होंने मुझको निकलने का आदेश देकर कहा—“हे मुनिवर ! तुम वाल्मीकि हो। इस समय तुम बल्मीक से निकले हो, अतः तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ।”

रामचरित मानस के कई स्थलों पर उपर्युक्त कथा की ओर संकेत मिलते हैं :-

जान आवि कवि नाम प्रताप ।

भयउ सुद्ध करि उलटा जाप ॥५॥

( बालकाण्ड, दोहा १९ )

उलटा नामु जपत जमु जाना ।

बालमीकि भए बहू समाना ॥८॥

( आयोव्याकाण्ड दोहा १९४ )

गनिका अजामिल व्याध गीध गजाबि लल तारे घना ( छब )

( उत्तरकाण्ड दोहा १३० )

३६. तत्त्वसारसंग्रह में जो दस्यु वाल्मीकि की कथा मिलती है इसमें कई अलौकिक घटनाओं का सन्निवेश किया गया है। जब व्याध अपने परिवार की ओर से निराश होकर सप्तर्षियों के पास पहुँचा, तो वे व्याध को राम की महिमा समझाने लगे। उस समय एक आकाशवाणी सुनाई दी और सप्तर्षियों को आदेश मिला कि वे व्याध को ‘म-रा’ मंत्र सिखायें। इसके बाद व्याध तपस्या करने लगा और उसके शरीर के चारों ओर बल्मीक बनने लगा। यह देखकर इंद्र घबराने लगे किन्तु बृहस्पति ने उनको समझाया कि यह तपस्वी महर्षि बनकर रामायण की रचना करने वाला है। बहुत समय बीत जाने पर जब सप्तर्षि लौटे तब देवता भी आ पहुँचे और विष्णु ने वाल्मीकि को आशोर्वाद दिया कि वह रामायण के रचयिता बन जाएँ। इसपर वाल्मीकि ने नारायण की स्तुति की तथा वह जाकर तमसा

नदी के तट पर रहने लगे। वहीं पर उन्होंने नारद से राम-कथा सुनकर रामायण लिखने का निर्णय किया ( दे० अयोध्या काण्ड, अध्याय २२-३० )<sup>१</sup>।

३७. आनन्द रामायण के राज्यकाण्ड ( अध्याय १४ ) में जो विस्तृत कथा मिलती है, इसमें वाल्मीकि के तीन जन्मों का वर्णन किया गया है। पहले जन्मे में वह स्तंभ नामक ब्राह्मण है, द्वितीय जन्म में वह व्याध है; तीसरे जन्म में वह कृणु का पुत्र है और तपस्या करने के पश्चात् वाल्मीकि बन जाता है। इस वृत्तान्त की अधिकांश सामग्री अध्यात्म रामायण तथा स्कन्द पुराण के वैष्णव सृष्टि की कथाओं से ली गई है। आनन्दरामायण के वृत्तान्त का साराण इस प्रकार है। शाकल नगर का निवासी, श्रीवत्सगोत्र का स्तंभ नामक ब्राह्मण महापापी था। एक वेश्या में आसक्त होने के कारण वह नित्यकिया छोड़कर शूद्रवन् आचार किया करता था। फिर भी किसी दिन उसके यहाँ एक ब्राह्मण का आतिथ्य-सत्कार हुआ और उसी पुण्य के फल-स्वरूप उसका उद्धार सम्भव हुआ। स्तंभ अपनी मृत्यु-शय्या पर उस गणिका का स्मरण करते-करते चल बसा, इसी कारण से उसे व्याध का जन्म मिला और वह वेश्या भिल्लिनो के रूप में प्रकट होकर उसकी पत्नी बन गई। किसी दिन इस व्याध ने पपातीर के पास शंख नामक ब्राह्मण का सर्वस्व लूट लिया। बाद में यह देखकर कि पथरीली जमीन पर चलने में ब्राह्मण को बहुत कष्ट हो रहा है उसने उनको उनके जूते लौटाए। ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया और व्याध को यह भी बतलाया कि पूर्वजन्म में ब्राह्मण के आतिथ्यसत्कार के पुण्य के फल-स्वरूप उसे आज जूते लौटाने की सद्बुद्धि उत्पन्न हो गई है। इसके बाद ब्राह्मण ने भविष्य का उद्घाटन किया—“कृणु नामक मुनि घोर तपस्या करेंगे, उनके नेत्रों से वीर्य बह जाएगा, जिसे एक सर्पिन खाकर गर्भवती होगी। उस सर्पिणी से तुम्हारा जन्म होगा, किरात लोग तुम्हारा पालन करेंगे और तुम भी किरात बन जाओगे। तुमने आज जो मेरे उपानह लौटाए इस पुण्य के प्रभाव से सात मुनियों से तुम्हारी भेट होगी। उनके आशीर्वाद से तुम वाल्मीकि बनकर राम-कथा लिखोगे।” ऐसा ही हुआ; व्याध सर्पिणी के गर्भ से जन्म लेकर किरातों द्वारा पाला गया। यहाँ से लेकर अध्यात्म रामायण की उपर्युक्त समस्त कथा प्रायः एक ही शब्दावली में दुहराई जाती है। अंत में रामायण की उत्पत्ति के विषय में कहा गया है कि शंभु ने ब्रह्मा को रामचरित सुनाया था;

१. तत्त्वसारसंग्रह रामायण के उत्तरकाण्ड में वाल्मीकि विषयक एक अन्य कथा मिलती है जो सीतात्याग के परोक्ष कारणों से सम्बन्ध रखती है। ( दे० अतुर्य भाग, अनु० ७२९ )।

नारद ने उसे ब्रह्मा से सुन लिया और बाद में उसे वाल्मीकि को सुनाया । तब कौचवध के अवसर पर श्लोक की उत्पत्ति के पश्चात् वाल्मीकि ने 'शतकोटि-बिस्तरम्' रामायण की रचना की ।

३८. कृत्तिवासीय रामायण में अध्यात्म रामायण की कथा का किंचित परिवर्द्धित रूप पाया जाता है । व्याध का नाम रत्नाकर है और वह च्यवन का पुत्र माना जाता है—चयवन मुनिर पुत्र नाम रत्नाकर । सात मुनियों के स्थान पर ब्रह्मा और नारद से भेट होने का वर्णन है । वैराग्य उत्पन्न होने के बाद रत्नाकर ब्रह्मा के कहने पर नदी में नहाने जाता है । नदी पर उसकी दृष्टि पड़ते ही वह सूख जाती है । तब ब्रह्मा रत्नाकर से रामनाम का जप करने को कहते हैं किन्तु उसका पापी मुँह इस पावन नाम का उच्चारण करने में असमर्थ है । इस पर रत्नाकर को 'म-रा' जपने का परामर्श दिया जाता है ।

एक अन्य कथा के अनुसार शिव और नारद से व्याध की भेट होती है<sup>१</sup> । डे पोलिये के अनुसार वाल्मीकि दो ऋषियों के कहने पर बारह वर्ष तक तपस्या करके 'भाषी रामायण' लिखने में समर्थ हुये<sup>२</sup> । डब्लू क्रूक<sup>३</sup> ने इस कथा का एक और रूप पाया था; इसके अनुसार परमेश्वर ने गुरु नानक को वाल्मीकि के पास भेजा था, गुरु नानक के अनुरोध पर वाल्मीकि ने अपनी पत्नी से पूछा—क्या तुम मेरे लिए प्राण देने की तैयार हो ? नकारात्मक उत्तर सुनकर वाल्मीकि तपस्वी के रूप में चंडालगड ( चूना, उ० प्र० ) के गदा पहाड पर निवास करने लगे । वह स्थान बाद में भंगियों का तीर्थ-स्थान बन गया ।

३९. उपर्युक्त कथा में वाल्मीकि तथा भंगियों का जो सम्बन्ध सूचित किया गया है वह कई शाताब्दियों से चला आ रहा है । भक्तमाल ( कवित्त-७२ ) में वाल्मीकि को श्वपच कहा गया है तथा गोस्वामी तुलसीदास भी अपनी विनय पत्रिका में लिखते हैं—स्वपच-खल-मिल्ल-जमनाहि हरि लोकगत नामबल ( दे० ४६, ९ ) । आजकल उत्तर भारत के हिन्दू भंगी अपते को वाल्मीकि के भक्त मानकर उनकी पूजा करते हैं<sup>४</sup> । पंजाब में एक कथा प्रचलित है कि जब तक नागरिक भंगियों की

१. दे० ई० ए० भाग ३१, पृ० ३५ ।

२. दे० मियाँलॉजी डेस इट्टू, भाग १, पृ० १७८ । इस वृत्तान्त में वाल्मीकि को ब्रह्मा का अवतार माना गया है । दे० आर्गे अनु० ३९ ।

३. दे० ट्राइब्स एंड कास्ट्स, भाग १, पृ० २६२-३ ।

४. कलकत्ते में अनुसूचित जातियों द्वारा हर साल आश्विन पूर्णिमा ( कार्तिक-स्नानारंभ ) के दिन वाल्मीकि की जयन्ती धूमधाम से मनाई जाती है ।

ओर देखने से इनकार करते थे तब तक वाल्मीकि की लाश प्रति-दिन बनारस में दिखाई पड़ती थी। मुसलमान भंगी अपने को लालबेगी कहकर पुकारते हैं; उर्दू लिपि में वाल्मीकि को आसानी से लाल बेग पढ़ा जा सकता है। डॉ० हरदेव बाहरी ने कई कथाओं का सकलन किया है, जिनमें लालबेग की उत्पत्ति वाल्मीकि से जोड़ी जाती है। एक कथा के अनुसार ब्रह्मा ने वाल्मीकि को अपने सिंहासन के सामान भाड़ने का कार्य सौंपा था। एक दिन ब्रह्मा ने वाल्मीकि को एक कपड़ा भेंट दिया था जिसे वाल्मीकि ने घर ले जाकर एक कोने में रख दिया। उसमें से एक बच्चा निकलते देखकर वाल्मीकि ब्रह्मा के पास दौड़े। ब्रह्मा ने समाचार सुनकर कहा—'तुम बूढ़े हो चले हो; तुम्हारे मरने के बाद यह बालक भंगियों का गुरु बन जायगा'। वाल्मीकि ने उसका पालन किया और वह बाद में लालबेग के नाम से विख्यात हुआ।

ब्रह्मा और वाल्मीकि का सम्बन्ध अपेक्षाकृत प्राचीन है। सारलादास के उडिया महाभारत के अनुसार वाल्मीकि का जन्म इस प्रकार हुआ था। ब्रह्मा किसी समय गगातट के मनुमंखला नामक स्थान पर तपस्या करने गये थे। वहाँ आठ देवकन्याओं को स्नान के पश्चात् गगा से निकलते देखकर ब्रह्मा का वीर्यपात हुआ था। उन्होंने वीर्य का एक अंश मेरु पर्वत पर फेंक दिया जिससे मेरुशूल ऋषि की उत्पत्ति हुई; शेष वीर्य नदी के बालू पर फेका गया और उससे वाल्मीकि उत्पन्न हुए। उडिया में बालू को बालि कहते हैं, संभव है बालि और वाल्मीकि का सादृश्य इस कथा की कल्पना में सहायक हुआ हो। इस कथा में वाल्मीकि एक तपस्वी के तेज से उत्पन्न होता है। श्री रघुराज सिंह की रामरसिकावली में भी ऐसा माना गया है। वाल्मीकि की कथा के अन्तर्गत कहा है कि एक मुनिराज की तपस्वर्या में किसी अप्सरा के विषम डालने के फलस्वरूप उस मुनि का वीर्यपात हुआ था। उर्वशी ने वीर्य एक कुम्भ में रख दिया और उससे अगस्त्य और वसिष्ठ का जन्म हुआ। किन्तु तेज का कुछ अंश घास पर गिर गया और उससे एक शिशु उत्पन्न हुआ, जिसे एक किरातिनी ने अपना लिया:

रेत शेष रहिगो कुश माही ।

तते एक शिशु भयो तहाँ ही ॥

१. दे० आर० सी० टॉपल, लेजइस अंव दि पंजाब, भाग १, पृ० ४२९ और ६० ए०, भाग २७, पृ० ११२।

२. दे० 'लाल बेग की उत्पत्ति; जनपद (बनारस) भाग १, अंक ३, पृ० १९-२१।

३. दे० सभा पर्व, पृ० २५०। प्रकाशक-राधारमण पुस्तकालय, कटक १९५२।

साहि किरातिनि लं घर आई ।

अपनी बिद्या सकल पढ़ाई ॥

भगियों द्वारा जो वाल्मीकि की पूजा होती है, इसकी प्राचीनता तो संदिग्ध है; फिर भी इसमें सन्देह नहीं है कि पाँचवी शताब्दी ई० तक राम को भाँति वाल्मीकि को भी विष्णु का अवतार माना गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण की रचना पाँचवी श० ई० में हुई थी; इसके प्रथम खण्ड में लिखा है कि त्रंता युग के अन्त में विष्णु वाल्मीकि के रूप में जन्म लेकर रामायण लिखने वाले थे (दे० अध्याय ७४, ३८)। इस रचना के तृतीय खण्ड में कई स्थलों पर<sup>१</sup> वाल्मीकि की पूजा का उल्लेख हुआ तथा प्रतिमालक्षणम् के अंतर्गत वाल्मीकि की मूर्ति के विषय में लिखा है :

गौरस्तु कार्यो वाल्मीकिर्जरामंडलदुर्बशः ।

तपस्यभिरतः शान्तो न कृशो न च पीवरः ॥ ६४ ॥

( खंड ३, अध्याय ८५ )

इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्द चीन में जो वाल्मीकि मंदिर में वाल्मीकि की मूर्ति तथा उनके विष्णु-अवतार होने का शिलालेख मिला है वह भारत में प्रचलित विश्वास पर आधारित है ( दे० आगं अनु० ३२३ )।

### (उ) संहार

४०. प्रस्तुत विवेचन का निष्कर्ष यह है कि वैयाकरण वाल्मीकि तथा सुपर्ण वाल्मीकि के अतिरिक्त महाभारत के प्राचीनतम पर्वों में जिन महर्षि वाल्मीकि की चर्चा है वह आदि-कवि वाल्मीकि से भिन्न प्रतीत होते हैं।

रामायण के बालकाण्ड से पता चलता है कि लगभग प्रथम शताब्दी ई० पू० से आदि-कवि वाल्मीकि तथा महर्षि वाल्मीकि की अभिन्नता सर्वमान्य होने लगी थी तथा वाल्मीकि को रामायण की घटनाओं का समकालीन बना दिया गया था। उत्तरकाण्ड के रचना काल में वाल्मीकि का अयोध्या के राजवंश से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित किया गया था। वाल्मीकि दशरथ के सखा माने गए; उनके आश्रम में सीता के पुत्र उत्पन्न हुए और उनके शिष्य बन गए तथा राम के अश्वमेध के अवसर पर वाल्मीकि ने सीता के सतीत्व का साक्ष्य दिया। उस समय उनको ब्राह्मण की उपाधि भी मिल गई थी और वह

१ दे० अध्याय ११८, ८; ११९, ५; १२०, ५। ११८वें अध्याय में कहा गया है कि "विद्याकामोऽथ वाल्मीकि व्यास वाप्यथ पूजयेत्।



प्रचेता के दसवें पुत्र माने जाने लगे । बाद में उनको विष्णु का अवतार भी माना गया है ।

वाल्मीकि नाम की व्युत्पत्ति के आधार पर यह प्रसिद्ध होने लगा कि कि तपस्या करते समय उनका समस्त शरीर बल्मीक से समावृत हो गया था । दूसरी ओर महाभारत के अनुसार भागवत च्यवन के विषय में भी इस प्रकार की कथा प्राचीन काल में ही प्रचलित थी । इससे सम्भवतः च्यवन और वाल्मीकि के वृत्तान्तों का सम्मिश्रण हुआ और वाल्मीकि को भागवत की उपाधि मिल गई ।

महाभारत के अनुशासन पर्व में वाल्मीकि को किसी विवाद में एक बार 'ब्रह्मघ्न' कहे जाने का उल्लेख है । क्या वाल्मीकि की इस निन्दा के वृत्तान्त में उनकी नीच जाति प्रतिध्वनित है ? क्या इसीलिए रामायण के उत्तरकाण्ड में उनके हजारों वर्ष तक तपस्या करने पर इतना बल दिया गया है ? यह कष्ट कल्पना नहीं कही जा सकती है । बालकाण्ड में इसका स्पष्ट उल्लेख है कि वाल्मीकि के शिष्य कुशीलव ही थे और कुशीलवों का समाज में कोई विशेष आदर नहीं था, जैसे कि उनके नाम ही से ( कु-शील ) प्रतीत होता है<sup>१</sup> । जो कुछ भी हो अनुशासन पर्व के इस प्रसंग से उन कथाओं का विकास हुआ होगा जिनमें तपस्या करने के पूर्व वाल्मीकि के दस्यु होने का वर्णन है । उन कथाओं के मूल रूप में रामनाम का उल्लेख नहीं है, रामभक्ति के पल्लवित होने के पश्चात् ही वाल्मीकि का यह वृत्तान्त रामनाम के गुणमान में परिणत कर दिया गया है ।

१. बाद में कुशीलवों ने राम के पुत्रों के नाम कुक्ष और रुब रखकर अपने ही नाम की एक नयी व्युत्पत्ति की कल्पना की है । अर्धशास्त्र में कुशीलवों का उल्लेख गणिकाध्यक्ष नामक अध्याय में हुआ है ( दे० २, २७, ३८ ) ।

## महाभारत की राम-कथा

### क—महाभारत और रामायण

४१. रामायण में महाभारत के वीरों का निर्देश भी नहीं मिलता। दूसरी ओर महाभारत में न केवल राम-कथा का वरन् वाल्मीकिकृत रामायण का भी उल्लेख पाया जाता है। इससे स्पष्ट है कि रामायण की रचना के पश्चात् ही महाभारत को अपना वर्तमान रूप मिला है। फिर भी बहुत संभव है कि भारत (अर्थात् महाभारत का प्राचीनतम रूप) रामायण के पूर्व उत्पन्न हुआ था। 'चतुर्विंशतिसाहस्री भारत' संहिता (दे० १, १, ६१) तथा 'शतसहस्रम्' (दे० १, ५६, १३ ३२) महाभारत, इन दो सौपानों का महाभारत ही में उल्लेख मिलता है। प्रायः समस्त विद्वानों की सम्मति से रामायण का रचनाकाल भारत तथा महाभारत के बीच में माना जाता है। शाखायन आदि सूत्रों तथा पाणिनि में भारत के विषय में निर्देश मिलते हैं, रामायण के विषय में नहीं। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि भारत की रचना रामायण के पूर्व हो चुकी थी। यह निर्विवाद है कि भारत तथा रामायण स्वतन्त्र रूप से उत्पन्न हुए—भारत पश्चिम में तथा रामायण पूर्व में। दोनों के सपर्क के पश्चात् भारत ने महाभारत का रूप धारण कर लिया है।

महाभारत में रामकथा के जो विभिन्न रूप मिलते हैं उनका निरूपण अगले परिच्छेद में किया जाएगा। यहाँ पर महाभारत में रामायण तथा वाल्मीकि-संबन्धी उल्लेखों पर विचार किया जाता है।

आरण्यकपर्व में भीम हनुमान के विषय में कहते हैं कि वह रामायण में प्रसिद्ध है :

भ्राता मम गुणश्लाघ्यो बुद्धिसखबलान्वितः ।

रामायणेऽतिविख्यातः शूरो वानरपुंगवः॥११॥

( अध्याय १४७ )

१. दे० ई० डब्लू हॉपकिंस—दि ग्रेट एपिक, पृ० ५८ आदि; बी० एस० सुकठणकर: एनल्स भंडारकर इस्टीमेट, भाग १२, पृ० १-७६, एम० विटरनिलस: हि० इं० लि० भाग १, पृ० ५०० आदि।

स्वर्गारोहणपर्व में भी रामायण का स्पष्ट उल्लेख मिलता है

वेदे रामायणे पुण्ये भारते भारतवर्षम् ।

आदौ ज्ञान्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते ॥१३॥

(अध्याय ६)

यह श्लोक हरिवंश पुराण में भी दुहराया गया है (दे० ३, १३२, ९५) । महाभारत में वाल्मीकि का अनेक स्थलों पर तपस्वी तथा महर्षि के रूप में उल्लेख मिलता है (दे० ऊपर अनु० २९) । इसके अतिरिक्त वाल्मीकि को कवि भी माना गया है । रामचरित्र के रचयिता भार्गव कवि विषयक श्लोक ऊपर उद्धृत हुआ है (दे० अनु० ३२), एक अन्य स्थल पर वाल्मीकि नामक कवि का भी स्पष्ट उल्लेख हुआ है

अपि चायं पुरा गीतः श्लोको वाल्मीकिना भुवि ।

पीडाकरमन्त्रिणां यत्क्यात्कतं व्यभेष तत् ॥४८॥

(द्रोणपर्व, अध्याय ११८)

इस श्लोक का उत्तरार्द्ध रामायण के उदीच्य पाठ<sup>१</sup> से उद्धृत है (दे० गौ० रा० ६, ६०, २८ तथा प० रा० ६, ५९, २९) । शान्तिपर्व में गोविन्द की महिमा गाने वाला का जो उल्लेख किया गया है इसमें असित, देवल तथा मार्कण्डेय के साथ-साथ वाल्मीकि का भी नाम लिया गया है (दे० अध्याय २००, ४) । इससे स्पष्ट है कि महाभारत के रचयिता वाल्मीकिकृत रामायण से अभिज्ञ थे । इसके अतिरिक्त रामोपाख्यान वाल्मीकि रामायण पर निर्भर है (दे० आगे अनु० ४८) तथा नलोपाख्यान के अन्तर्गत भी सुदेव का स्वर्गत भाषण रामायण से उद्धृत किया गया है<sup>२</sup> । फिर भी महाभारत के प्राचीनतम पर्व न तो रामायण और न कवि वाल्मीकि का उल्लेख करते हैं । इन पर्वों में केवल राम-कथा के पात्रों की ओर निर्देश किया गया है । ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के कवि राम-कथा और उसके प्रधान पात्रों से परिचित थे । बाद में महाभारत के रचयिताओं ने वाल्मीकि की रचना से परिचय प्राप्त किया था ।

१. दा० रा० में इसका रूप किञ्चित् भिन्न है (दे०-६, ८१, २८) । तीनों पाठों में इसके पहले—'न हन्तव्याः स्त्रियः...' आता है; यह वाक्यांश महाभारत की बहुत सी उदीच्य हस्तलिपियों में भी पाया जाता है । पूना संस्करण ने उसे प्रक्षिप्त माना है ।

२. दे० बी० एस० सुकठणकरः दि नल एपिसोड एंड दि रामायण । ए बाल्युम ऑव ईस्टर्न ऐण्ड इंडियन स्टडीज, पृ० २९४-३०३ ।

## ख—महाभारत में राम-कथा

४२. महाभारत में राम-कथा का चार स्थलों पर वर्णन किया जाता है। रामोपाख्यान इनमें सब से विस्तृत और महत्त्वपूर्ण होने के कारण इसका तृतीय परिच्छेद में अलग विश्लेषण किया जायगा।

इन चार राम-कथाओं के अतिरिक्त राम-कथा तथा राम-कथा के पात्रों का उपमाओ आदि के लिए लगभग पचास स्थलो पर उल्लेख हुआ है।<sup>१</sup> युद्ध-सम्बन्धी पर्वों में द्रोणपर्व सबसे अर्वाचीन है। इसमें रामकथा के १४ उल्लेख मिलते हैं लेकिन अन्य युद्ध-संबन्धी पर्वों में (भीष्म, कर्ण तथा शल्य पर्व में) कुल मिलाकर केवल पाँच उल्लेख किए गए हैं। आरण्यकपर्व में राम-कथा का दो बार वृणत हुआ है और इसके अतिरिक्त राम-कथा की ओर पश्यते मिलते हैं। यह पर्व अपेक्षाकृत अर्वाचीन है और कथाओं तथा उपाख्यानों का भंडार है। नल्पापाख्यान, रामोपाख्यान, सावित्री की कथा आदि—ये सब आरण्यक पर्व में सम्मिलित किए गए हैं। इस पर्व में राम के अवतार होने का भी उल्लेख मिलता है (दे० अनु० ४६)।

### (१) आरण्यक पर्व की राम-कथा (३, १४७, २८-३८)

४३. रामोपाख्यान के अतिरिक्त आरण्यक पर्व में एक राम-कथा और उद्धृत है। भीष्म-दत्तुमान् के स्वाद के अतर्गत हनुमान् ग्यारह श्लोकों में बनवास और सीताहरण में लेकर अयोध्या के प्रत्यागमन तक मारी राम-कथा संक्षेप में कहते हैं। इसमें रामावतार तथा राम का ११००० वर्ष तक राज्य करने का उल्लेख है। बालकांड और उन्नकांड की मामूली, लकादहन तथा सीता की अग्निपरीक्षा का कोई उल्लेख नहीं है।

### (२) द्रोणपर्व की राम-कथा

४४. द्रोणपर्व तथा शांतिपर्व की रामकथा पंडितराजोपाख्यान के अतर्गत मिलती है। पुत्र के मरण के कारण शोकानुर मृज्जय को मानवता देने के उद्देश्य में नारद ने उनको गोलह राजाओं की कथा सुनाई थी। ये राजा महान् होने हुए भी अपने-अपने समय पर सड़े सब मर गये थे (स च्छेन्ममार सृजय)। द्रोणपर्व में अभिमन्युवध के कारण शोकमत्तपुत्र युधिष्ठिर को धर्म देने के लिए व्यास उनको पंडितराजोपाख्यान सुनाते हैं। द्रोणपर्व का यह पंडितराजकीय वास्तव में शांतिपर्व पर निर्भर है। पूना के प्रामाणिक संस्करण में उसे क्षेपक मानकर परिशिष्ट में दिया गया है। (दे० परिशिष्ट १, न० ८, प० ४३७-४८२ और गोरखपुर संस्करण ७, अध्याय ५९)

१ डब्ल्यू. हार्किंस. जर्नल अमेरिकन ओरियण्टल सोसाइटी, भाग ५० (१९३०),

इन सोलह राजाओं में से एक राम भी थे । नारद राम की महिमा का वर्णन करते हुए अयोध्याकांड से लेकर युद्धकांड के अन्त तक राम-कथा की रूपरेखा खींचते हैं । प्रसंग के अनुसार राम-कथा की अपेक्षा रामराज्य की समृद्धि तथा राम की महिमा को अधिक महत्त्व दिया गया है । वनवास से लेकर अयोध्या के प्रत्यागमन तक सारी कथा का वर्णन १० श्लोकों में समाप्त किया जाता है । इसके अनन्तर राम का अभिषेक, राम के गुणों की उन्कृष्टता, रामराज्य में दुष्टों का अभाव, राम का ११००० वर्ष का शासनकाल तथा उनकी मृत्यु ( स खेन्मभार सुञ्जय )—इन सब का वर्णन २१ श्लोकों में दिया जाता है । इस रामकथा में भी न तो बालकांड तथा उत्तरकांड की सामग्री सम्मिलित है और न सीता की अग्निपरीक्षा का उल्लेख किया गया है । राम सब प्राणियों, ऋषियों, देवताओं तथा मनुष्यों से महान् कहे जाते हैं, फिर भी रामावतार का कही भी उल्लेख नहीं मिलता ।

### (३) शांति पर्व की राम-कथा ( १२, २६, ४६-५५ )

४५. प्रसंग द्रोणपर्व के समान है लेकिन यहाँ पर कृष्ण युधिष्ठिर को षोडशराजोपाख्यान सुनाते हैं । द्रोणपर्व तथा शांतिपर्व की राम-कथाओं का अन्तर यह है कि शांतिपर्व में राम-कथा की सामग्री नहीं के बराबर है । केवल रामराज्य तथा राम की महिमा का वर्णन किया गया है । फिर भी चौदह वर्ष के वनवास का उल्लेख किया गया है जिससे स्पष्ट है कि लेखक राम-कथा से अनभिज्ञ नहीं था । उमने प्रसंग के अनुसार ( महान् होते हुए भी मर जाना—स खेन्मभार सुञ्जय, दे० श्लोक ५५ ) केवल राम तथा उनकी महिमा पर ध्यान दिया है । यहाँ पर भी रामावतार का संकेत नहीं मिलता किन्तु राम के अवमोक्ष तथा १०००० वर्ष तक राज्य करने का उल्लेख किया गया है ।

दशाश्वमेधाञ्जारूध्यानाजहार निर्गलान् ॥ ५३ ॥

दश वर्षसहस्राणि रामो राज्यमकारयत् ॥ ५४ ॥

### (४) महाभारत में रामावतार

४६ आरप्यकपर्व में तीन स्थलों पर रामावतार का स्पष्ट उल्लेख किया गया है । भीम-हनुमान-संवाद में हनुमान यों कहते हैं :

अथ द्वाशरथिर्वीरो रामो नाम महाबलः ।

विष्णुर्मानुष्यरूपेण चत्वार बसुधामिमाम् ॥२८॥

( ३, १४७ )

रामोपाख्यान में ब्रह्मा देवताओं से कहते हैं कि 'विष्णु मेरे आदेश के अनुसार अवतार लेकर रावण की हत्या करेंगे' :

तदर्थमवतीर्णो ऽसौ मन्त्रियोगाच्चतुर्भुजः ।

विष्णुः प्रहरतां श्रेष्ठः स कर्मैतत्करिष्यति ॥५॥

( ३, २६० )

आरण्यक पर्व के अन्तिम अध्याय में कहा गया है कि विष्णु ने दशरथ के गृह में रह कर रावण का वध किया है :

विष्णुना वसता चापि गृहे दशरथस्य खं ।

वशाश्रीवो हतश्छत्रं संयुगे भीमकर्मणा ॥१८॥

( ३, २९९ )

इसके अतिरिक्त दशरथ के विषय में कहा जाता है कि वह मयस्य जेता ममुषेश्च हन्ता ( ३, २६, ९ ) है। इससे भी राम के अवतार होने का पता चलता है।

उपर्युक्त उद्धरण महाभारत के पूना संस्करण में मिलने हैं। बम्बई के निर्णय-सागर प्रेस से प्रकाशित महाभारत में इसी आरण्यकपर्व के अन्तर्गत रामावतार के दो और उल्लेख किए गए हैं। ( दे० ३, ९९, ३४ और ३, १५१, ७ )

आरण्यकपर्व के अतिरिक्त रामावतार का उल्लेख शांतिपर्व में दो बार मिलता है। वाल्मीकि के विषय में कहा गया है कि उन्होंने गोविन्द की महिमा का वर्णन किया है।

असितो देवस्तत्तात वाल्मीकिश्च महातपाः ।

मार्कण्डेयश्च गोविन्दे कथयत्यद्भुते महत् ॥४॥

( १२, २०० )

हरि अपने अवतारों का वर्णन करते हुए कहते हैं :

संधी तु समनुप्राप्ते त्रेतायां द्वापरस्य च ।

रामो दाशरथिर्भूत्वा भविष्यामि जगत्पतिः ॥७८॥

( १२, ३२६ )

प्रचलित स्वर्गारोहण पर्व में जो रामावतार का संकेत किया गया है, वह पूना संस्करण में प्रक्षिप्त माना गया है—

वेदे रामायणे पुण्ये भारते भरतर्षभ ।

आदौ चान्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते ॥२३॥

( १८, ६ )

इस प्रकार हम देखते हैं कि महाभारत के रचयिता रामावतार से परिचित थे, यह आरण्यकपर्व तथा शांतिपर्व के प्रामाणिक उद्धरणों से असंदिग्ध है। साथ-

साथ उत्तरकांड का किंचित् परिचय भी मिला होगा क्योंकि रामोपाख्यान में रावण की कथा का वर्णन मिलता है तथा शांतिपर्व में शम्भुकवच का उल्लेख हुआ है:

श्रूयते शम्भुके शूद्रे हते ब्राह्मणवारकः ।

जीवितो धर्ममासद्य रामात्सत्यपराक्रमान् ॥६२॥

( १२, १४९ )

### ग—रामोपाख्यान

४७. रामोपाख्यान का प्रसंग इस प्रकार है । द्रौपदी के हरण तथा उसको पुनः प्राप्त करने के पश्चात् युधिष्ठिर अपने दुर्भाग्य पर शोक प्रकट करके इस प्रकार कहते हैं—अस्ति नूनं मया कश्चिद्बल्पभाष्यतरो नरः ; क्या मुझसे भी कोई अधिक अभागा है ? ( ३, २५७, १० ) इस पर मार्कण्डेय राम का उदाहरण देकर युधिष्ठिर को धैर्य बंधाने का प्रयत्न करते हैं । युधिष्ठिर के रामचरित सुनने की इच्छा प्रकट करने पर मार्कण्डेय रामोपाख्यान सुनाते हैं । पूना के प्रामाणिक संस्करण में इन रामचरित का विस्तार ७०४ श्लोकों का है, जिनमें से पूरे २०० श्लोक युद्ध के वर्णन के लिए प्रयुक्त हुए हैं ।

### रामोपाख्यान का आधार

४८. इस विस्तृत रामचरित तथा वाल्मीकिकृत रामायण का क्या संबंध है ? डा० वेबर इस समस्या के सम्बन्ध में किसी निर्णय तक पहुँचने में असमर्थ हैं<sup>१</sup> । इनके अनुसार निम्नलिखित चार संभावनाएँ हैं :

१. रामोपाख्यान रामायण का आधार है ।
२. रामोपाख्यान एक ऐसे रामायण पर निर्भर है जो प्रचलित रामायण का पूर्वरूप है ।
३. रामोपाख्यान वाल्मीकि रामायण का स्वतंत्र संक्षिप्त रूप है ।
४. रामोपाख्यान तथा रामायण दोनों किसी एक सामान्य मूलस्रोत के स्वतंत्र विकास माने जा सकते हैं ।

ई० हाफ्किंस तथा ए० लूडविग का मत है कि रामोपाख्यान राम-कथा का एक स्वतंत्र रूप है, जो रामायण को छोड़कर किसी अन्य प्राचीन राम-चरित पर निर्भर है<sup>२</sup> । रामोपाख्यान तथा रामायण में जो अन्तर पाए जाते हैं वे यह सिद्ध करते हैं कि रामोपाख्यान रामायण का संक्षिप्त रूप नहीं हो सकता । यह इस मत का

१. ए० वेबर : ऑन दि रामायण, पृष्ठ ६५ ।

२. ई० डब्लू हाफ्किंस : दि ग्रेट एपिक, पृष्ठ ६३ आदि ।

ए० लूडविग : यूवर डस रामायण, पृष्ठ ३० आदि ।

मुख्य तर्क है। डॉ० याकोबी का प्रत्युत्तर यह है कि रामोपाख्यान के रचयिता ने रामायण की किसी हस्तलिपि का सहारा नहीं लिया है लेकिन अपने प्रदेश में प्रचलित रामायण उसे कंठस्थ रहा होगा। इस कथा का संक्षिप्त वर्णन करने में छोटे-मोटे अंतर सहज ही आ गए होंगे। अतः डॉ० याकोबी का मत है कि रामोपाख्यान वाल्मीकिकृत रामायण के किसी प्राचीन रूप का स्वतंत्र संक्षेप मात्र प्रतीत होता है। अधिकांश विशेषज्ञ डॉ० याकोबी का पक्ष लेते हैं।<sup>१</sup> महाभारत के सम्पादक डॉ० सुकठणकर ८६ स्थल उद्धृत करते हैं जिनमें रामोपाख्यान तथा रामायण में शाब्दिक साम्य मिलता है। दूसरी ओर रामोपाख्यान में अनेक प्रसंग ( इंद्राजित् का यज्ञ, काक का वृत्तान्त आदि ) रामायण के बिना समझ में नहीं आ सकते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि रामोपाख्यान का वृत्तान्त मौलिक नहीं है। इसके अतिरिक्त महाभारत में रामायण तथा कवि वाल्मीकि का उल्लेख हुआ है ( दे० ऊपर अनु० ४१ )। अतः रामायण को रामोपाख्यान का आधार मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

### रामोपाख्यान तथा रामायण की तुलना

४९. दोनों वृत्तान्तों की तुलना सुबोधगम्य रखने के लिए वाल्मीकिकृत रामायण के काण्डों के अनुसार सामग्री का विभाजन किया जाता है।

**बालकांड**। रामोपाख्यान में केवल निम्नलिखित प्रसंगों का उल्लेख हुआ है ( दे० अध्याय २५८, २६०, २६१ ) :

राम तथा उनके भाइयों का जन्म ( लेकिन पुत्रेष्टि यज्ञ तथा पायस का उल्लेख नहीं है )।

सीता, जनक की पुत्री ( कहीं भी आयोनिजा का उल्लेख नहीं है )।

ब्रह्मर्षि, देवता आदि रावण से सन्नस्त होकर ब्रह्मा की धरण लेते हैं। ब्रह्मा रामावतार का रहस्य प्रकट करते हैं। ब्रह्मा के आदेश के अनुसार देवता विष्णु की सहायता के लिए ऋक्षों तथा वानरों की स्त्रियों से पुत्र उत्पन्न करते हैं।

चारों भाइयों की शिक्षा तथा विवाह ( ३ श्लोक ), सीता को छोड़कर अन्य पत्नियों के नाम नहीं मिलते।

१. एच० याकोबी : इस रामायण, पृष्ठ ७२।

एम्० क्विटरनिलस : हिस्ट्री इंडियन लिटरेचर, भाग १, पृष्ठ ३८४।

एच० ओल्डेनबेर्ग : इस महाभारत, पृष्ठ ५४ आदि।

डी० एस्० सुकठणकर. रामोपाख्यान एंड महाभारत, काणे कामेमोरेशन वाल्यूम, पृ० ४७२-८८।



**अयोध्या कांड ।** इस कांड की सारी सामग्री ३४ श्लोको में संक्षेप में दी गई है ( अध्याय २६१ ) । गृह तथा अग्नि का उल्लेख नहीं होता । कैंकेयी को केवल एक वर मिला था । मन्थरा के विषय में कहा जाता है कि यह एक गधर्वी सुंदुभी का अवतार है ।

**अरण्य कांड ।** रामोपाख्यान इस कांड की सामग्री अपेक्षाकृत अधिक विस्तार से देता है ( ६० अध्याय २६१-२६३ ) । इसमें कोई भी महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है । विराध, सुतीक्ष्ण, अगस्त्य, अयोमुखी तथा शबरी, इनसे सम्बन्ध रखनेवाली सामग्री का अभाव है ।

**किष्किंधा कांड ।** राम-सुग्रीव की मैत्री बालिवध तथा वानरों का प्रेषण और उनका पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर की दिशा से प्रत्यागमन—अर्थात् किष्किंधाकांड के प्रथम ४७ सर्गों की सामग्री में निम्नलिखित परिवर्तन मिलते हैं ( ६० अध्याय २६४ ) :

सुग्रीव के साथ सख्य करने के लिए राम के बल की परीक्षा नहीं होती ।

बालि तथा सुग्रीव के केवल एक द्वन्द्वयुद्ध का उल्लेख हुआ है ।

**सुन्दर कांड ।** किष्किंधाकांड का अंतिम भाग ( सर्ग ४८—६७ ) तथा सुन्दरकांड के प्रथम ६० सर्ग, अर्थात् हनुमान् और उसके साथियों की यात्रा का समस्त वृत्तान्त रामोपाख्यान का रचयिता स्वयं वर्णन नहीं करता । हनुमान् राम के पास लौटकर उसे सुनाते हैं । रामोपाख्यान ( अध्याय २६५-२६६ ) तथा रामायण की इस सामग्री में कोई महत्त्वपूर्ण अन्तर नहीं है । रामोपाख्यान की एक विशेषता यह है कि इसमें अविध्य को अधिक महत्त्व दिया जाता है ।

रामायण में सीता हनुमान से अविध्य का उल्लेख करती है और इसके बाद अविध्य के विषय में और कुछ नहीं कहा जाता है ।

अविध्यो नाम मेधावी बिब्वान् राक्षसपुंगवः ।

धृतिमाच्छीलबान्धुदो रावणस्य सुसंमतः ॥१२॥

रामक्षयमनुप्राप्तं रक्षतां प्रत्यचोदयत् ।

न तु तस्य स बुध्दात्मा भृशोति बध्नं हितम् ॥१३॥

( सुन्दरकांड, सर्ग ३७ )

रामोपाख्यान में त्रिजटा सीता को सान्त्वना देकर अविध्य का संदेश सुनाती है—राम, सुग्रीव के साथ मैत्री करके शीघ्र आने वाले हैं, रावण नलकूबर के शाप के कारण सीता का सतीत्व नष्ट करने में असमर्थ है ।

अबिष्यो नाम मेवाकी बुद्धो राजसपुंगवः ।

स रामस्य हितान्भेवी.....॥

(अध्याय २६४, ५५ आदि)

इसके अतिरिक्त सीता हनुमान से अबिष्य के इस सदेश का उल्लेख करती हैं (अध्याय २६६)। इन्द्रजित के वध के बाद अबिष्य रावण को सीता की हत्या करने से रोकता है (अध्याय २७३); रामायण में सुपाशर्व को यह कार्य सौंपा जाता है (युद्धकांड, सर्ग ९२)।

रावणवध के पश्चात् विभीषण तथा अबिष्य सीता को राम के पास ले जाते हैं (अध्याय २७५)।

**युद्धकांड**। युद्ध की सामग्री ३२३ श्लोको में समाप्त की गई है (अध्याय २६७-२७५)। इस सामग्री में अपेक्षाकृत अधिक परिवर्तन किए गए हैं। युद्धकांड की सामग्री की जटिलता को ध्यान में रखकर यह स्वाभाविक कहा जा सकता है। दोनों वृत्तान्तों की तुलनात्मक तालिका इस प्रकार है—

सर्ग १-४० : अध्याय २६७;

रावण की सभा, राम का मायामय सिर, रावण-सुग्रीव युद्ध, इन सब का रामोपाख्यान में अभाव है। सेतुवध के वृत्तान्त में समुद्र राम को स्वप्न में दर्शन देता है और सहायता की प्रतिज्ञा करता है। राम का समुद्र में बाण मारना आदि, इसका रामोपाख्यान में उल्लेख नहीं हुआ है।

सर्ग ४१-४३ : अध्याय २६८;

अगद का दूतत्व, लंका अवरोध, पहला युद्ध।

सर्ग ४४-५८;

पहला शरबंध, द्वन्द्वयुद्ध। रामोपाख्यान में इस सामग्री का अभाव है।

सर्ग ५९ : अध्याय २६९;

द्वन्द्वयुद्ध। राम-रावण युद्ध।

सर्ग ६०-६८ : अध्याय २७०, २७१;

रामोपाख्यान के अनुसार कुम्भकर्ण का वध लक्ष्मण द्वारा किया जाता है।

सर्ग ६९-७९ :

द्वन्द्व-युद्ध तथा लंकादहन। रामोपाख्यान में इस सामग्री का अभाव है।

सर्ग ८०-९२ : अध्याय २७२-२७३;

रामायण में इन्द्रजित् एक मगयासीता की हत्या करता है। रामोपाख्यान में इसका उल्लेख नहीं है। नागपाश का वृत्तान्त रामायण में दो बार मिलता है। रामोपाख्यान में केवल एक बार और इसमें विभीषण राम और लक्ष्मण को प्रज्ञास्त्र से स्वस्थ कर देता है तथा राम को कुबेर का भेजा हुआ जल देता है। इस जल से अर्धे धोकर राम अदृश्य प्राणी देख सकते हैं ( अंतर्हितानां भूतानां वशनाथम् वे० २७३, १० )। हनुमान के ओषधी पर्वत ले आने का रामोपाख्यान में उल्लेख नहीं होता।

सर्ग ९३-९८

इन्द्रदुग्ध, जिनका उल्लेख रामोपाख्यान में नहीं है।

सर्ग ९९-१११ : अध्याय २७४;

रामोपाख्यान में लक्ष्मण के शक्ति लगने का वृत्तान्त नहीं मिलता। इसमें रावण माया द्वारा राम और लक्ष्मण का रूप धारण किए हुए मायामय राक्षसों को उत्पन्न करता है। राम इनकी हत्या करते हैं और इसके बाद ब्रह्मास्त्र द्वारा रावण को इसी तरह जलाते हैं कि रावण भी शेष नहीं रहती ( न च भस्मान्पद्मवयस्य वे० श्लोक ३१ )

सर्ग ११२-१२८ : अध्याय २७५;

इस सामग्री में अंतर यह है कि रामोपाख्यान में सीता की अग्निपरीक्षा नहीं होती।

उत्तरकांड। रामोपाख्यान राम के अयोध्या में प्रत्यागमन तथा उनके अभिवेक पर समाप्त होता है लेकिन उत्तरकांड की कुछ सामग्री रामोपाख्यान के प्रारंभ में दी गई है। रावणवंश, रावण और उनके भाइयों की तपस्वा तथा वर-प्राप्ति, वैश्रावण की हार, रावण का पुष्पक पर अधिकार प्राप्त करना—इनका संक्षेप में वर्णन किया गया है ( अध्याय २५८-२५९ )। रामोपाख्यान में विश्रवा की तीन पत्नियों का उल्लेख है—

पुष्पोत्कटा—कुम्भकर्ण और रावण की माता।

मालिनी—विभीषण की माता।

राका—सर तथा शूर्पणखा की माता।

रामायण में कंकसी ( सुमाली की पुत्री ) रावण, कुम्भकर्ण, शूर्पणखा तथा विभीषण की माता मानी जाती है।

## बौद्ध राम-कथा

५०. प्राचीन काल से बौद्धों ने राम-कथा अपनाई है और उसे जातक-साहित्य में स्थान दिया है। जातक एक ऐसी कथा है जिसमें महात्मा बुद्ध अपने अमंछ्य पूर्वजन्मों में मनुष्य अथवा पशु के रूप में, भाग लेते हैं। इस उपाय के द्वारा बौद्ध धर्मोपदेशक प्रचलित कथाओं और लोकप्रिय आख्यानों को अपताने में समर्थ हुए हैं। प्राचीन बौद्ध साहित्य में राम-कथा-सम्बन्धी तीन जातक सुरक्षित हैं, जिनमें से दशरथ-जातक सबसे अधिक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण है, इस कारण इसका वर्णन पहले किया गया है।

### दशरथ-जातक

५१. दशरथ-जातक को लेकर बहुत वादविवाद हुआ है क्योंकि कई विद्वानों का मत यह है कि इसमें राम-कथा का मूलरूप सुरक्षित है। निबन्ध के द्वितीय भाग में इस विवादग्रस्त विषय का पूरा विश्लेषण किया जाएगा। यहाँ पर इतना ही कहना पर्याप्त है कि यह जातक जिम जातकट्ठवग्गना में पाया जाता है वह पाँचवीं शताब्दी ई० की एक सिंहली पुस्तक का पाली अनुवाद है। इस सिंहली पुस्तक में जो कथाएँ पाई जाती हैं वे प्राचीन पाली गाथाओं की टीका के रूप में लिखी गई हैं।

प्रत्येक जातक में पहले 'वर्त्तमान कथा' ( पञ्चुप्पन्न वत्थु ) दी जाती है जिसमें यह बतलाया जाता है कि किस अवसर पर महात्मा बुद्ध ने इस जातक को कहा है।

इसके बाद 'अतीत कथा' ( अतीतवत्थु ) उद्धृत है, जिसे वास्तविक जातक मानना चाहिए।

अन्त में महात्मा बुद्ध 'जातक का सामंजस्य' ( समोधान ) प्रस्तुत करते हैं जिसमें वह वर्त्तमान कथा और अतीत कथा के पात्रों की अभिन्नता प्रकट करते हैं।

गाथाएँ प्रायः अतीत कथा ही में मिलती हैं, लेकिन वे कभी वर्तमान कथा और कभी समोधान में भी विद्यमान हैं। इनके लिए एक टीका जोड़ी गई है जिसमें गाथा के प्रत्येक शब्द का अर्थ दिया गया है।

पाली जातकट्ठवग्गना<sup>१</sup> के दशरथ-जातक की राम-कथा का संक्षेप इस प्रकार है।

वर्तमान कथा 'महात्मा बुद्ध ने यह जातक जैतवन में कहा। किसी गृहस्थ का पिता मर गया था। इस पर उसने शोक के वशीभूत होकर अपना सारा कर्त्तव्य छोड़ दिया। यह जान कर बुद्ध ने उससे कहा कि प्राचीन काल के पंडित लोग (पोराणक पंडिता) अपने पिता के मरण पर किंचित् भी शोक नहीं करते थे। इसके अनन्तर दशरथ के मरने पर राम के धर्म का उदाहरण देने के लिए महात्मा बुद्ध ने दशरथ-जातक सुनाया।

अतीत कथा : दशरथ महाराज वाराणसी में धर्मपूर्वक राज्य करते थे। इनकी ज्येष्ठा महिषी के तीन संतान थी : दो पुत्र (राम-पंडित और लक्ष्मण) और एक पुत्री (सीता देवी)। इस महिषी के मरने के पश्चात् राजा ने एक दूसरी को ज्येष्ठा के पद पर नियुक्त किया (अणमहेसिद्धामे ठपेसि)। उसके भी एक पुत्र (भरत कुमार) उत्पन्न हुआ। राजा ने उसी अवसर पर उसको एक बर दिया। जब भरत की अवस्था सात वर्ष की थी, रानी ने अपने पुत्र के लिए राज्य मांगा। राजा ने स्पष्ट इनकार कर दिया। लेकिन जब रानी अन्य दिनों भी पुनः-पुनः इसके लिए अनुरोध करने लगी तब राजा ने उसके पड़्यन्त्रों के भय से अपने दोनों पुत्रों को बुलाकर कहा—'यहाँ रहने से तुम्हारे अनर्थ होने की सम्भावना है। किसी अन्य राज्य या वन में जाकर रहो और मेरे मरने के बाद लौटकर राज्य पर अधिकार प्राप्त करो'। तब राजा ने ज्योतिषियों को बुलाकर उनसे अपनी मृत्यु की अवधि पूछी। बारह वर्ष का उत्तर पाकर उन्होंने कहा—'हे पुत्रो, बारह वर्ष के बाद आकर (राज) छत्र को उठाना'। पिता की बंदना करके दोनों भाई चले जाने वाले ही थे कि सीता देवी भी पिता से विदा लेकर उनके साथ ही लीं। तीनों के साथ-साथ बहुत से अन्य लोग भी चल दिए। उनको लौटाकर तीनों हिमालय पहुँच गये और वहाँ आश्रम बनाकर रहने लगे।

नी वर्ष के बाद दशरथ पुत्रशोक के कारण मर जाते हैं। रानी भरत को राजा बनाने में असफल होती है क्योंकि अमात्य और भरत भी इसका विरोध करते

१. दे० फॉल्सबाल : दि जातक, भाग ४, १२३ न० ४६१।

है। तब भरत चतुरंगिणी सेना लेकर राम को ले आने के उद्देश्य से वन को चले जाने हैं। आश्रम के पड़ोस में सेना छोड़कर भरत थोड़े अमात्यों के साथ राम के पास जाते हैं। उस समय राम अकेले ही हैं। भरत उनसे पिता के देहान्त का सारा वृत्तान्त कह कर रोने लगते हैं। राम पंडित न तो शोक करते और न रोते हैं ( रामपंडितो मेत्र सोचि न रोचि )।

सन्ध्या समय लक्ष्मण और सीता लौटते हैं। पिता का देहान्त सुनकर दोनों अत्यन्त शोक करते हैं। इस पर रामपंडित उनको धैर्य देने के लिए अनित्यता का धर्मोपदेश सुनाते हैं। उमें सुनकर सबों का शोक मिट जाता है ( निस्सोका अहोसि )।

बाद में भरत के बहुत अनुगोध करने पर भी रामपंडित यह कहकर वन में रहने का निश्चय प्रकट करते हैं—'मेरे पिता ने मुझे बारह वर्ष की अवधि के अन्त में राज्य करने का आदेश दिया है। अब लौटकर मैं उनकी आज्ञा का पालन न कर सकूंगा। मैं तीन वर्ष के बाद लौट आऊंगा'।

जब भरत भी शासनाधिकार अस्वीकार करते हैं तब रामपंडित अपनी तृण की पादुकाएँ ( तिणपादुका ) देकर कहते हैं 'मेरे आने तक ये शासन करेगी'।

खडाउओ को लेकर भरत, लक्ष्मण और सीता अन्य लोगों के साथ वाराणसी लौटते हैं। अनात्म इन पादुकाओं के सामने राजकार्य करते हैं। अन्याय होते ही पादुकाएँ एक दूसरे पर आघात करती हैं ( परिहृष्यन्ति ) और ठीक निर्णय होने पर वे शांत रहती हैं।

तीन वर्ष व्यतीत होने पर रामपंडित लौटकर अपनी बहन सीता से विवाह करते हैं। सोलह सहस्र वर्ष तक धर्मपूर्वक राज्य करने के बाद वे स्वर्ग चले जाते हैं।

समीधान . इसमें पहले राम के १६००० वर्ष तक शासन करने के विषय में एक गाथा उद्धृत है और इसके बाद में महात्मा बुद्ध जातक का सामंजस्य यों बैठाते हैं— उस समय महाराज सुद्धोदन महाराज दशरथ थे; महामया ( बुद्ध की माता ) राम की माता, यशोधरा ( राहुल की माता ) सीता, आनन्द भरत थे और मैं रामपंडित था।

१. रामपंडित का सारा उपदेश गाथाओं में है। इसका विश्लेषण निबन्ध के द्वितीय भाग में किया जायगा ( दे० अनु० ६९ आदि )।

### अनामकं जातकम्

५२. तीसरी शातान्दी ई० में अनामकं जातकम् का कांग-सेंग-दुई द्वारा चीनी भाषा में अनुवाद हुआ था। मूल भारतीय पाठ अप्राप्य है। चीनी अनुवाद लियेकू त्सु स्त्री किंग नामक पुस्तक से सुरक्षित है ( दे० चीनी तिपिटक का तेशो संस्करण न० १५२ )। इस जातक में किसी भी पात्र के नाम का उल्लेख नहीं हुआ है, लेकिन राम और सीता का वनवास, भीता-हरण, जटायु का वृत्तान्त, बालि और सुग्रीव का युद्ध, सेतुबन्ध, सीता की अग्निपरीक्षा इन सबों के संकेत मिलते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण अन्तर यह है कि राम की विमाता के कारण पिता द्वारा वनवास नहीं दिया जाता। वे अपने मामा के आक्रमण की तैयारियाँ सुनकर स्वेच्छा से अपना राज्य छोड़ देते हैं। बालिवध का वृत्तान्त भी बदल गया है—राम के धनुषसन्धान को देखते ही बालि भयभीत होकर भागता है और उसका आगं चल कर कोई उल्लेख नहीं है। यह परिवर्तन स्वाभाविक है। राम ने अर्थात् बोधिसत्त्व ने बालि का वध किया है, इसकी कल्पना बौद्धों के लिए असह्य हुई होगी। अनामकं जातकम् का वृत्तान्त इस प्रकार है।

एक समय बोधिसत्त्व एक महान् राजा था। वह मर्दव चार गुणों से ( दान, प्रियवचन, न्याय, ममदक्षिता ) समस्त जीवों की रक्षा करता था। उसका मामा भी राजा हो गया था। वह निर्लज्ज, लोभी, निर्दयी तथा दुष्ट था। बोधिसत्त्व का राज्य छीनने के लिए उसने एक सेना तैयार की।

बोधिसत्त्व के राज्य-संचालकों ने भी सेना एकत्र की। बोधिसत्त्व ने सेना का निरीक्षण करते कहा—'केवल अपने स्वार्थ के लिए मैं असंख्य मनुष्यों का जीवन नष्ट करूँगा। यदि मैं बाहर चला जाऊँ तो समस्त देश की रक्षा हो जायगी'।

मन्त्रियों को राज्यभार सौंपकर वह अपनी रानी के साथ वन चला गया। उसके मामा ने राज्य में प्रवेश कर देश पर अधिकार कर लिया। जनता को इससे बहुत कष्ट हुआ।

बोधिसत्त्व पहाड़ी वन में निवास करता था। समुद्र में दुष्ट नाग रहता था। उसने ऋषि का छद्म-वेध धारण कर लिया। जिस समय राजा फल लेने गया था, नाग रानी का अपहरण कर भाग निकला। समुद्र की ओर उसका पथ दो घाटियों

१. अंग्रेजी अनुवाद, दे० चीन रामायण : सरस्वती बिहार ग्रन्थमाला ८ ( १९३८ ई० )। फ्रेंच अनुवाद : दे० वुलेटिन एकाल फ्रांसेस एन्सट्रूम औरिधन : भाग ४ ( १९०४ ), पृ० ६९८-७०१।

के तग रास्ते से था। पहाड़ी पर एक विशाल पत्थी रहता था। उसने अपने पंख फंला कर रास्ता रोक लिया। नाग ने पंथी को मारा और उसका दहिना पंख तोड़ डाला। अन्त में वह समुद्र में स्थित अपने द्वीप को लौट गया।

फल तोड़कर राजा लौटा। अपनी रानी को न पाकर वह बहुत दुखी हुआ और धनुष-बाण लेकर रानी की खोज में पर्वतों में इधर-उधर घूमने लगा। एक नदी के श्रोत पर पहुँच कर राजा ने एक बड़े बन्दर को देखा जो उदाश और विभ्र था। पूछने पर बन्दर ने कहा 'मैं एक राजा था। मेरे चाचा ने मेरा राज्य छीन लिया है। अब मेरा कोई साथी नहीं रहा।' राजा ने भी अपना सब वृत्तान्त कहा। पारस्परिक सहायता के लिए वचनबद्ध हो कर दोनों ने मंत्री कर ली। दूसरे दिन बन्दर ने अपने चाचा से युद्ध किया। राजा (बोधिमन्व) ने धनुष में बाण सभाना जिसे देखते ही बन्दर का चाचा माटे डर के भाग निकला।

बन्दर ने अपने साथियों को बोधिमन्व की रानी की खोज लगाने की आज्ञा दी। पर एक-एक कर सभी चले पड़े। बन्दरों ने एक आहत पक्षी देखा। पक्षी ने बताया कि एक नाग ने रानी का चुराया है।

कपिराज ने अपनी मेना को समुद्र पार करने में असमर्थ पाया। इंद्र ने छोटे बन्दर का रूप धारण कर कहा—'प्रत्येक बन्दर को पर्वत का एक-एक टुकड़ा लाने की आज्ञा दी। समुद्र इस प्रकार एक मार्ग बन जायगा और आप द्वीप में पहुँच जायेंगे।

बन्दरों ने ऐसा करके समुद्र पार किया। सब बन्दरों ने नाग-द्वीप को घेर लिया। नाग ने एक विपैला घना कुहरा उत्पन्न किया जिससे सभी पृथ्वी पर गिर पड़े। छोटे बन्दर (इन्द्र) ने एक दंष्ट्र औषधि सबकी नाकों में लगाई और सब स्वस्थ हो कर जाग पड़े।

अब नाग ने आँधी और बादल में मूर्ध छिपा लिया। बिजली चमकने लगी। छोटे बन्दर (इन्द्र) ने बतलाया कि बिजली ही नाग है। इस पर राजा ने एक बाण से नाग को मार गिराया।

छोटे बन्दर ने रानी को मुक्त किया। राजा अपने मामा का देहान्त सुनकर अपने देश चला गया। राजा ने रानी से कहा—'पति से अलग, दूसरे के घर निवास करने पर लोग स्त्री के आचरण पर सन्देह करते हैं। तुम्हें स्वीकार करने में परम्परा के अनुसार कहाँ तक औचित्य है?' रानी ने उत्तर दिया—'मैं एक नीच की गुफा में रही थी, किन्तु फिर भी मैं इसमें पंकज की तरह रही हूँ। यदि मुझमें



सतीत्व है तो पृथ्वी फट जाय'। पृथ्वी फटी और रानी ने कहा 'मेरा सतीत्व प्रमा-  
णित हुआ।' राजा और रानी के प्रभाव के कारण सब वर्ण अपने-अपने धर्म का  
पालन करने लगे। बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा, 'तब मैं राजा था, गोपा रानी थी,  
देवदत्त मामा था और मैत्रेय इन्द्र था'। बोधिसत्त्व के आचरण में धार्मिकी पारमिता  
असीम है।

### दशरथ कथानम्

५३ चीनी तिपिटक के अन्नगंत रसा-पौ-त्संग-किंग नामक १२१ अवदानों  
का एक सग्रह है<sup>१</sup>। यह सग्रह ४७२ ई० में चीनी भाषा में अनूदित हुआ था। अप्राप्य  
मूल भाग्यीय ग्रंथ की रचना दूसरी शताब्दी ई० के बाद हुई थी, क्योंकि इसमें राजा  
कनिष्क अनेक कथाओं के प्रधान पात्र माने गए हैं। इसमें एक दशरथकथानम्  
भी मिलता है जिसका विषयता यह है कि इसमें सीता का या किसी भी राजकुमारी  
का कोई भी उल्लेख नहीं हुआ है। कथावस्तु यो है—

प्राचीन काल में जब कि मनायकी आयु दम सहस्र वर्ष होती थी जम्बू द्वीप में  
दशरथ नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी प्रधान महिषी के राम नामक  
एक पुत्र उत्पन्न हुआ। दूसरी रानी के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम रामण  
(लंगमन-लक्ष्मण) था। राम में नारायणीय शक्ति थी। तीसरी रानी में भरत  
और चौथी में शत्रुघ्न उत्पन्न हुए।

तीसरी रानी पर राजा का अत्यधिक प्रेम था। एक दिन राजा ने कहा—  
'तुम्हारी किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए मैं अपना संपूर्ण धन और कोष देने में  
सकोच नहीं करूँगा'। रानी ने उत्तर दिया—'मुझे इस समय कोई आवश्यकता नहीं  
है।' राजा बीमार पड़े। उन्होंने राम का राज्याभिषेक करवाया। राम को राजपद  
पर आसीन होते देखकर छोटी रानी ने ईर्ष्यावश राजा से कहा—'मैं अब आपके  
दिए हुए वर की पूर्ति चाहती हूँ। राम गद्दी से उतार दिए जाएँ और मेरे पुत्र का  
राज्याभिषेक ही यही मेरी इच्छा है।' यह सुनकर राजा दुःखित हुआ। राजधर्म  
के अनुसार वह अपने वचन को नहीं तोड़ सकता था। इस समय रामण (लक्ष्मण)

१. दे० चीनी तिपिटक : तंशो सस्करण, न० २०३।

फ्रेंच अनुवाद : दे० सिल्वान लेवी, एल्बम केर्न, प० २७९ आदि।

अंग्रेजी अनुवाद : दे० चीन रामायण, सरस्वती विहार ग्रन्थमाला ८।

हिन्दी अनुवाद : दे० ना० प्र० प०, वर्ष ५४, पृ० २८६-८९।

न राम से अपनी शक्ति और साहस दिखलाने की प्रार्थना की। राम ने कहा— 'अपने पिता की आज्ञा भंग कर कोई भी पुत्र पितृ-भक्त नहीं कहला सकता'।

तब दशरथ ने दोनों पुत्रों को वनवास दे दिया और १२ वर्ष के बाद लौटने की आज्ञा दी। भरत उस समय विदेश में थे। दशरथ की मृत्यु के पश्चात् भरत लौटे। उन्हें अपनी माता के कार्यों से घृणा हो गई। वह सेना के साथ उस पर्वत पर गए जहाँ राम निवास करते थे। भरत ने राम से कहा— 'मैं आपसे राजधानी लौटने और शासन का भार ग्रहण करने की प्रार्थना करता हूँ।' राम ने कहा— 'वनवास के लिए पिता की आज्ञा हो चुकी है। उसे तोड़ने पर मैं आज्ञाकारी पुत्र नहीं कहलाया जाऊँगा।'।

तब भरत ने राम की चमड़े की खड़ाऊँ माँगी और अयोध्या लौट गए। खड़ाऊँ को राजसिंहामन पर रखकर भरत शासन की देख-भाल करने लगे। प्रति दिन प्रातः और मध्याह्न पादुकाओं की पूजा करते थे और उनमें आज्ञा लेते थे।

धीरे-धीरे वनवास की अवधि समाप्त हुई। राम अपने देश को लौट आए। भरत ने राम से राज्यभार ग्रहण करने की प्रार्थना की। पहले राम ने अस्वीकार किया परन्तु भरत के बहुत आग्रह करने पर राम ने राज्यभार स्वीकार किया। सब लोग अपने-अपने धर्म का पालन करने लगे। सर्वत्र शान्ति और समृद्धि का राज्य था।

### अन्य बौद्ध साहित्य

५४. ऐसा प्रतीत होता है कि आगे चलकर बौद्धों में राम-कथा की लोक-प्रियता घटने लगी। अबदान शतक (दूसरी श० ई०), विष्णुवदान (चीनी अनुवाद २६५ ई०), आर्यशू की जातकमाला, कल्पद्रुम-अबदान, रत्नावदान माला, द्वाविंशति अबदान, इन सबों में राम-कथा सर्वथा नामची नहीं मिलती। लंकावतार-सूत्र के प्रथम अध्याय में लंकापति रावण और महात्मा बुद्ध का धर्म के विषय में वार्त्तालाप दिया गया है परन्तु इसमें राम-कथा का निर्देश भी नहीं पाया जाता है। क्षीतानी रामायण तथा श्याम के राम-जातक और ब्रह्मचक्र में बुद्ध अपने पूर्वजन्म में राम थे ऐसा कहा जाता है लेकिन वास्तव में ये रचनाएँ बौद्ध साहित्य के अंग नहीं हैं। इनका उल्लेख निबंध के तृतीय भाग में किया जायगा (दे० अनु० ३१२, ३२७, ३२८)।

## जैन राम-कथा

### क—जैन राम-कथा की सामान्य विशेषताएँ

५५. बौद्धों की भाँति जैनियों ने भी राम-कथा अपनाई है। अन्तर्ग यह है कि जैन कथा-ग्रन्थों में हमें एक अत्यन्त विस्तृत राम-कथा साहित्य मिलता है। बौद्ध महात्मा बुद्ध को राम का पुनरवतार मानते हैं। इसी तरह जैनियों ने राम-कथा के पात्रों को अपने धर्म में एक महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है। राम ( या पद्म ), लक्ष्मण और रावण न केवल जैन-धर्मावलम्बी माने जाते हैं लेकिन तीनों को जैनियों के त्रिपष्टि महापुरुषों में भी रखा गया है। इन त्रिपष्टि महापुरुषों का वर्णन इस प्रकार है २४ तीर्थंकर ( जैन धर्मोपदेशक ), १२ षड्वर्ती ( भारत के ६ सत्रों के सम्राट् ) तथा ९ बलदेव, ९ वामुदेव और ९ प्रतिवामुदेव। इनकी जीवनियाँ जैन धर्म में महाभारत, रामायण तथा पुराणों का स्थान लेती हैं।

त्रिपष्टि महापुरुषों का विस्तृत वर्णन मभवत पहले-पहल त्रिपष्टिलक्षण-महापुराण में मिलता है। इस रचना के दो भाग हैं, जिनसेनकृत आदिपुराण ( नवी श० ई० ) तथा गुणभद्रकृत उत्तरपुराण ( ८९७ ई० ), लेकिन नवी शताब्दी से बहुत पहले इन जीवनियों की सामग्री तैयार हो चुकी थी, विशेष करके तिलोयपण्णति ( पाँचवी श० ई० ) में। पञ्चमचरित ( चौथी श० ई० ) में कहा गया है कि पद्म-चरित अर्थात् रामचरित विमल सूरि के पूर्व 'नामावलियनिबद्ध' ( १ . ८ ) था। इस 'नामावलियनिबद्ध' शब्द में सभवतः ६३ महापुरुषों की किमी प्राचीन नामावली की ओर निर्देश है।

प्रत्येक कल्प के त्रिपष्टि महापुरुषों में से नौ बलदेव, नौ वामुदेव और नौ प्रतिवामुदेव होते हैं। ये तीनों सर्वैव समकालीन रहते हैं। राम, लक्ष्मण और रावण क्रमशः आठवें बलदेव, वामुदेव और प्रतिवामुदेव माने जाते हैं<sup>१</sup>।

१. दे० एम् बिटरनिस्स : हि० इ० लि०, भाग १, पृष्ठ ४९७। एच वान् म्लाजनेप : डेर जैनजमुस, बर्लिन, १९२५, पृष्ठ २४७। हरिसत्य भट्टाचार्यः नारायण, प्रतिनारायण एड बलभद्र, दि जैन एन्टीक्वेरी, भाग ८, पृष्ठ ३६।

बलदेव ( बलभद्र ) और वासुदेव ( नारायण ) किसी राजा की भिन्न-भिन्न रानियो के पुत्र हैं। वासुदेव अपने बड़े भाई बलदेव के साथ प्रतिवासुदेव ( प्रति-नारायण ) से युद्ध करते हैं और अन्त में प्रतिवासुदेव का वध करते हैं। इसके बाद वह दिग्विजय करके भारत के तीन खण्डों पर अधिकार प्राप्त करते हैं और इस प्रकार अर्द्धचक्रवर्ती बन जाते हैं। मरने पर वासुदेव को प्रतिवासुदेव-वध के कारण नरक जाना पड़ता है। नी वासुदेवों में लक्ष्मण और कृष्ण विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। बलदेव अपने भाई की मृत्यु के कारण शोकाकुल होकर जैन दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त करते हैं ( जैसे राम और बलराम )। प्रतिवासुदेव सदैव वासुदेव का विरोध करते हैं तथा वासुदेव के चक्र से मारे जाते हैं ( जैसे रावण और जरासंध )।

५६. जैन राम-कथा की एक दूसरी विशेषता यह है कि इसमें वानर और राक्षस दोनों विद्याधर-वंश की भिन्न-भिन्न शाखाएँ माने जाते हैं<sup>१</sup>। प्राचीन बौद्ध-गाथाओ ( दे० जातक ५१०, ४३६ ) तथा महाभारत के कई स्थलों पर विद्याधर का अर्थ है ( आकाशगामी तथा कामरूपी ) ऐंद्रजालिक। अलौकिक शक्ति से विभूषित माने जाने के कारण कथासरित्सागर में ( अतः बृहत्कथा में भी ), रामायण<sup>२</sup> तथा महाभारत ( दे० १, ५१, ९ ) में विद्याधर देवयोनियो के अन्तर्गत रखे गए हैं। फिर भी रामायण तथा महाभारत में वे किसी भी कथा में कोई महत्वपूर्ण भाग नहीं लेते। कथासरित्सागर तथा जैन कथा-साहित्य में इनका बहुत उल्लेख होता है। विद्याधरो की उत्पत्ति जैन-ग्रन्थों के अनुसार इस प्रकार है— श्री ऋषभ ( जैन-धर्म-संस्थापक ) ने तपस्या करने के उद्देश्य से अपने सी पुत्रों में से भरत को ही अपना राज्य सौंपा था और दीक्षा ली थी। बाद में नमि और विनमि उनके पास पहुँचे और राज्यलक्ष्मी माँगने लगे। उनको विविध विद्याएँ मिल गईं तथा वैतादय ( रविषेण के अनुसार विजयाधरं ) पर्वत पर, अर्थात् विन्ध्य प्रदेश में अपना राज्य स्थापित करने का परामर्श दिया गया। ये दो राजकुमार

१. एच् लूडर्स: जर्मन ओरियण्टल सोसाइटी जर्नल, भाग ९३ ( १९३९ ), पृष्ठ ८९ आदि।

एच० याकोबी: इनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलिजन एंड एथिक्स: ब्राह्मनिज्म ए० चक्रवर्ती: दि जैन गजेट, भाग २२ ( १९२६ ), पृ० ११७।

२. निम्नलिखित स्थलों पर विद्याधरो का उल्लेख है—

१, १७, ५, २२, २४; २, ९४, १२, ४, ६७, ४५; ५, १, २२, २९, १६९; ६, १२, २०.; ७, ५६, ४६; ४८; ८, ५९, ६८, ९., ७१., ६५; १०, २६, ८।

विद्याधरों के पूर्वज हैं ( दे० पउमचरिय, पर्व ३ ) । जैनियों के अनुसार विद्याधर मनुष्य ही माने जाते हैं । उन्हें कामरुत्व, आकाशगामिनी आदि अनेक विद्याएँ सिद्ध होती हैं । इसमें उनका नाम विद्याधर पड़ा । वानर-वंशो विद्याधरों की ध्वजाओं, महलों तथा छतों के शिखर पर वानरों के चिह्न विद्यमान थे, अतः वे वानर कहलाए ( दे० पउमचरिय ६, ८९ ) ।

५७. जैन राम-कथा की एक तीसरी विशेषता यह है कि उनमें प्रारंभ से ही उन लौकिक ग्रन्थों का उल्लेख मिलता है, जिसमें राम का शिकार करना, रावण आदि का मांसाहारी होना, कुम्भरुण की छः महीने की निद्रा, रावण के राजस तथा सुघोष के वानर होने आदि की असंख्य कथाएँ पाई जाती हैं । इससे स्पष्ट है कि जैन राम-कथा बाल्मीकि रामायण के बाद उत्पन्न हुई है । जैन राम-कथा के दो भिन्न रूप प्रचलित हैं । श्वेताम्बर सम्प्रदाय में तो केवल विमलसूरि की राम-कथा का प्रचार है, लेकिन दिग्म्बर सम्प्रदाय में इसके दो रूप मिलते हैं, अर्थात् विमलसूरि तथा गुणभद्र दोनों को राम-कथा प्रचलित है, यद्यपि विमलसूरि की परम्परा को अधिक महत्त्व मिला है । इन दो रूपों का अलग-अलग परिचय नीचे दिया जाता है ।

### ख—विमलसूरि की परम्परा

५८. विमलसूरि ने पउमचरिय लिखकर पहले-महल लोकप्रिय राम-कथा को जैन धर्म के सिद्धि में ढालने का प्रयत्न किया है<sup>१</sup> । कवि का कहना है कि यह पद्मचरित आचार्यों की परम्परा से चला आ रहा था और नामावलीबद्ध था ( १. ८ ) । इसका अर्थ यह हो सकता है कि रामचरित केवल नामावली के रूप में रहा होगा अर्थात् "उसमें कथा के प्रधान-प्रधान पात्रों, उनके माता-पिताओं, स्थानों और भवान्तरों आदि के नाम ही होंगे । वह पल्लवित कथा के रूप में न होगा और उसी की विमलसूरि ने विस्तृत चरित के रूप में रचना की होगी " । ( नाथूराम प्रेमी, जैन साहित्य और इतिहास पृ० २८० ) ।

विमलसूरि का काल असंदिग्ध नहीं है । जैन परम्परा के अनुसार ( पउमचरिय ११८, १०३ ) पउमचरिय ७२ ई० की है, लेकिन भाषा के आधार पर डॉ० याकोबी आदि विद्वान पउमचरिय को तीसरी अथवा चौथी शताब्दी ई० की रचना मानते हैं<sup>२</sup> । यह ग्रन्थ शुद्ध जैन महाराष्ट्री में लिखा है । इसका संस्कृत रूपान्तर रविषेणाचार्य ने

१. पउमचरिय, भवनगर १९१४ । एच० याकोबी का संस्करण ।

२. एच० याकोबी : इन० रि० ए०, भाग ७ और माडर्न रिठ्यू १९१४, दिसम्बर ।  
ए० कीच . हिस्ट्री सं० लि०, पृष्ठ ३४, ए० सी० बूलनर : इन्ट्रोडक्शन टु प्राकृत ।

६६० ई० में किया है, जो पद्यचरित<sup>१</sup> के नाम से प्रसिद्ध है। हिन्दी खड़ी बोली के इतिहास में इस पद्यचरित का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि सं० १८१८ में दौलतराम ने इसका भाषा में अनुबाद किया था।

रविशेष ने मौलिकता का किञ्चित् भी प्रदर्शन नहीं किया है। उनकी समस्त रचना पञ्चमचरियं का पल्लवित छायानुवाद मात्र प्रतीत होती है। दोनों रचनाओं का कथानक एक ही है। आगे चलकर जैन कवियों ने रविशेष का अनुकरण किया है, उनकी रचनाओं में प्रायः कथानक का कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं है। विमलसूरि तथा रविशेष की राम-कथा-परंपरा की मुख्य रचनाएँ निम्नलिखित तालिका में दी जाती हैं। इस विस्तृत साहित्य से जैनियों में राम-कथा की लोकप्रियता का अनुमान किया जा सकता है। सचदासकृत बभ्रुदेवहिण्डि में जो संक्षिप्त राम-कथा मिलती है, वह विमलसूरि की अपेक्षा वाल्मीकि के अधिक निकट है, अतः इसका परिचय कथा साहित्य के अंतर्गत दिया जायगा ( दे० आगे अनु० २५३ )। हस्तिमल्लकृत भंडिलोकल्याण तथा अंजनापवनंजय नाटक का परिचय संस्कृत ललित साहित्य नामक अध्याय में दिया जायगा ( दे० अनु० २३९ )।

#### ५९. (१) प्राकृत—

- (१) विमलसूरिकृत पञ्चमचरियं ( तीसरी-चौथी श० ई० )
- (२) शीलाचार्यकृत चउपन्नमहापुरिमचरिय के अंतर्गत रामलक्षणचरियम् ( नवी श० ई० )। यह राम-कथा विमलसूरि की परंपरा के अनुसार होते हुए भी वाल्मीकीय कथा से प्रभावित है।
- (३) भद्रेश्वरकृत कहावली ( ११ वी श० ई० ) के अंतर्गत रामायणम्।
- (४) भुवनतुंग सूरि कृत सीयाचरिय तथा रामलक्षणचरिय।

#### (२) संस्कृत—

- (१) रविशेषकृत पद्यचरित ( ६६० ई० )। प्राचीनतम जैन संस्कृत ग्रंथ।
- (२) हेमचन्द्रकृत त्रिपिटशलाकापुष्पचरित ( १२ वी श० ई० ) के अंतर्गत जैन रामायण। कलकत्ता सं० १९३०।
- (३) हेमचन्द्रकृत योगशास्त्र की टीका के अंतर्गत सीतारावणकथानकम्।
- (४) जिनदासकृत रामायण अथवा रामदेवपुराण ( १५ वी श० )। दे० एम्० विटरनित्स; हि० इ० लि०, भाग २, पृ० ४९६।

१. दे० मानिक चन्द्र जैन ग्रन्थमाला, नं० २९-३१; पद्यचरितम्; बम्बई, वि०-सं० १९८५।

- (५) पद्मदेवविजयगणिकृत रामचरित ( १६ वीं श० ई० ) । दे० राजेन्द्र लाल मित्र : नोरिसस संस्कृत मैन्स्युस्किप्ट्स, भाग १०, पृ० १३४ और भंडारकर; रिपोर्ट १८८२-८३, पृ० ८२ ।
- (६) सोमसेनकृत रामचरित ( १६ वीं श० ई० ) ; इसकी हस्तलिपि जैन मिद्वान्त भवन, आरा में सुरक्षित है ।
- (७) आचार्य सोमप्रभकृत लघुत्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित ।
- (८) मेघविजयगणिवरकृत लघुत्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र ( १७ वीं श० ई० )

इन रचनाओं के अतिरिक्त जिनरत्नकोष में धर्मकीर्ति, चन्द्रकीर्ति, चन्द्रसागर, श्रीचन्द्र, पद्मनाभ आदि द्वारा रचित विभिन्न पद्यपुराण अथवा रामचरित्र नामक ग्रन्थों का उल्लेख है । सीताचरित्र के तीन रचयिताओं के नाम मिलते हैं—ब्रह्मणेभिदत्त, शांतिमूरि तथा अमरदास । अधिकांश सामग्री अप्रकाशित है ।

दसवीं शताब्दी के हरिषेणकृत कथाकोष में रामायणकथानकम् ( न० ८४ ) तथा सीताकथानकम् ( न० ८९ ) पाया जाता है । इस अंतिम रचना में विमल-सूरि के अनुसार सीता की अग्निपरीक्षा वर्णित है, लेकिन रामायणकथानकम् ( ५७ श्लोक ) अधिकांश में वाल्मीकीय कथा पर निर्भर है । रामचन्द्र मुमुक्षुकृत पुण्या-श्रवणकथाकोष ( १३३१ ई० ; हिन्दी अनुवाद, निर्णयसागर प्रेस, १९०७ ई० ) में जो लव-कुश की कथा मिलती है, वह भी विमलसूरि की परम्परा पर निर्भर है । हरिभद्र-कृत धूर्तायानम् ( ८ वीं श० ई० ) तथा अमितगतिकृत धर्मपरीक्षा ( ११ वीं श० ई० ) में वाल्मीकि रामायण में वर्णित हनुमान् के समुद्रलघन जैसी घटनाओं को असंभव और हास्यास्पद बताया गया है । शत्रुंजयमाहात्म्य के नवें सर्ग में राम-कथा विमलसूरि के अनुसार है, किन्तु कैंकेयी राम और लक्ष्मण दोनों के वनवास का बर माँग लेती है ( १२ वीं श० ई० ) ।

### (३) अपभ्रंश—

- (१) स्वयभूदेवकृत पद्मचरित अथवा रामायणपुराण ( ८ वीं श० ई० ) । भारतीय विद्या भवन, बम्बई, स० २००९ ।
- (२) रङ्गकृत पद्यपुराण अथवा बलभद्रपुराण ( १५ वीं श० ई० ) । दे० हरिवंश कोछड़, अपभ्रंश साहित्य, पृ० ११६ ।

## (४) कन्नड—

(१) नागचन्द्र ( अभिनव पम्प ) कृत पम्परामायण या रामचन्द्र चरित-पुराण ( ११ वी श० ई० ) । यह रचना कन्नड भाषा के कई रामचरितसम्बन्धी ग्रन्थों का आधार है । ( दे० ई० हि० क्वा०, भाग २५, पृ० ५७४-९४ ) ।

(२) कुमुदेन्दुकृत रामायण ( १६ वी श० ई० )

(३) देवप्पकृत रामविजयचरित ( १६ वी श० ई० )

(४) देवचन्द्रकृत रामकथावतार ( १८ वी श० ई० )

(५) चन्द्रसागर वर्णिकृत जिनरामायण ( १९ वी श० ई० )

६०. विमलसूरि की कथा तथा वाल्मीकि रामायण की तुलना करने पर स्पष्ट हो जाता है कि विमलसूरि ने कथानक में कोई आमूल परिवर्तन नहीं किया है । राम-कथा के विभिन्न तन्त्रों में जो परिवर्तन विमलसूरि की रचना में मिलते हैं, इनका विदलेषण प्रबन्ध के चतुर्थ भाग में किया जायगा । यहाँ पर समस्त कथानक का सार दिया जाता है । पञ्चमचरिय छ भागों में विभक्त किया जा सकता है ।

## रावण-चरित ( पर्व १-२० )

राजा सेणिय ( श्रेणिक ) किसी दिन महावीर के प्रधान शिष्य गौयम ( गौतम ) से राम-कथा का यथार्थ रूप जानने की इच्छा प्रकट करता है । इस पर गौयम पञ्चमचरिय सुनाता है । प्रारम्भ में विद्याधर लोक, राक्षसवंश तथा वानर-वंश का वर्णन दिया जाता है ।

रावणचरित वाल्मीकि के उत्तरकाण्ड से सम्बन्ध रखते हुए भी पर्याप्त मात्रा में भिन्न है । राक्षस-राजा रत्नश्रवा तथा केकसी की चार सन्तान हैं—दशमुख ( रावण ), भानुकर्ण ( कुम्भकर्ण ), चन्द्रनखा ( सूपणखा ) और विभीषण । जब रत्नश्रवा ने पहले-पहले अपने पुत्र को देखा था, तब शिशु माला पहने हुए था, इस माला में पिता को बालक के दश सिर दिखाई पड़े और इसीलिए शिशु का नाम दशमुख रखा गया ( दे० ७, ९६ ) । अपने मौसेरे भाई वैश्रवण ( वैश्रवण ) का विभव देखकर दशमुख अपने भाइयों के साथ तप करने जाता है तथा विभिन्न विद्याएँ प्राप्त कर लेता है । अनन्तर मन्दोदरी तथा अन्य ६००० विद्याधर-कन्याओं

१. ऊपर इसका उल्लेख हो चुका है कि राक्षस तथा वानर, दोनों विद्याधर-वंश की भिन्न-भिन्न शाखाएँ हैं ( दे० ऊपर अनु० ५६ ) ।



के साथ रावण के विवाह का वर्णन किया गया है। बाद में रावण वैश्रमण तथा यम को परास्त करता है और पुष्पक प्राप्त कर लंका में प्रवेश करता है ( पर्व ८ )।

रावण-बालि संघर्ष का वृत्तान्त इस प्रकार है। रावण बालि के पास दूत भेजकर उसकी बहन श्रीप्रभा को पत्नीस्वरूप मांगता है तथा बालि को आकर प्रणाम करने का आदेश देता है। बालि जिनवरेद को छोड़कर किसी को प्रणाम करने से इनकार करता है और अपने भाई सुग्रीव को राज्य देकर जैन दीक्षा लेने जाता है (पर्व ९)। सुग्रीव रावण को प्रणाम करता है तथा श्रीप्रभा का रावण के साथ विवाह सम्पन्न हो जाता है। बाद में बालि द्वारा रावण की पराजय के वृत्तान्त को सर्वथा नवीन रूप दिया गया है, जिसमें बालि रामायणीय कथा के शिव का स्थान लेकर रावण द्वारा उठाए हुए पर्वत को अपने पैर के अंगूठे से दबा देता है ( दे० आगे अनु० ६५५ )।

रावण की बहुत सी विजय-यात्राओं का वर्णन किया गया है, जिनमें वह सहस्र-किरण, नलकूबर, इन्द्र, वरुण आदि को परास्त करता है ( दे० आगे ६५२ )। ध्यान देने योग्य है कि यम, इन्द्र, वरुण, आदि देवता न होकर साधारण राजा माने जाते हैं। स्वरदूषण किसी विद्याधर वश का राजकुमार है, जो रावण की बहन चन्द्रनखा से विवाह करता है। आगे चलकर उनकी पुत्री अनंगकुमुमा तथा उनके पुत्र शम्बूक का उल्लेख होगा।

रावण का चरित्र-चित्रण वाल्मीकि रामायण से बहुत भिन्न है—वह एक धर्म-भीरु जैनी है, जो जिन मन्दिरों का जीर्णोद्धार करता है तथा ऐसे यज्ञों पर रोक लगाता है, जिनमें पशुओं को मारा जाता है ( पर्व ११ )। वह नलकूबर की पत्नी उपरभा का प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार करता है ( पर्व १२ ) तथा अनन्तवीर्य का धर्मोपदेश सुनकर व्रत लेता है कि वह विरक्त परनारी के साथ रमण नहीं करेगा ( दे० आगे अनु० ५४२ )।

हनुमत्चरित का पर्याप्त विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। वह पर्वजय तथा अजना सुदरी के पुत्र है ( दे० आगे अनु० ६६९ ), वरुण के विरुद्ध रावण की सहायता करते हैं तथा चन्द्रनखा को पुत्री अनंगकुमुमा को पत्नी के रूप में प्राप्त कर लेते हैं; इसके अतिरिक्त वे और बहुत से विवाह करते हैं ( दे० आगे अनु० ६९९ )।

रावण चरित के अन्त में जिनवरों, तीर्थंकरों, बल्लदेवों, वासुदेवों और प्रति-वासुदेवों की नामावलि दी गई है ( दे० पर्व २० )।

## राम और सीता का जन्म और विवाह ( पर्व २१-३२ )

रामायण की आधिकारिक कथावस्तु का वर्णन जनक तथा दशरथ की वशावली से प्रारंभ होता है ( पर्व २१-२२ ) । दशरथ के अपराजिता तथा सुमित्रा के साथ विवाह के उल्लेख के अनन्तर निम्नलिखित कथा मिलती है, किसी दिन नारद ने दशरथ के पास पहुँचकर समाचार दिया कि विभीषण उनको इसीलिए मारना चाहता है कि एक नैमित्तिक ने कहा है—“सागर के मार्ग से आकर दशरथ का पुत्र जनक की पुत्री सीता के कारण रावण को युद्ध में मारेंगा” । इसके बाद नारद ने जनक को भी सावधान किया । दोनों राजा अपना-अपना राज्य छोड़ कर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे । मंत्रियों ने दशरथ तथा जनक के प्रतिरूप बनवाकर उन्हें उनके-उनके महल में रखवा दिया । बाद में विभीषण ने दशरथ की मूर्ति का सिर कटवाया ( पर्व २३ )<sup>१</sup> । परदेश में दशरथ तथा जनक कँकेयी के स्वयंवर में पहुँचे, स्वयंवरा ने दशरथ के गले में माला डाल दी । इस पर अन्य राजाओं के साथ युद्ध हुआ, जिसमें कँकेयी ने बड़े कौशल में दशरथ का रथ हँका । विवाह सम्पन्न होने के पश्चात् दोनों राजा अपनी-अपनी राजधानी लौटे । घर पहुँचकर दशरथ ने कँकेयी को एक वर दिया किन्तु कँकेयी ने कहा—अवसर आने पर माँग लूंगी । दशरथ की सतिता इस प्रकार बतार्ई जाती है—राम अथवा पद्म अपराजिता ( कौशल्या ) से जन्म लेते हैं, लक्ष्मण सुमित्रा से और भरत तथा शत्रुघ्न, दोनों ही कँकेयी से । [ रविषेण के अनुसार शत्रुघ्न सुप्रभा नामक दशरथ की एक चतुर्थ महिषी के पुत्र हैं, जैन लेखक प्रायः रविषेण का अनुसरण करते हैं ] ।

राजा जनक की विदेहा नामक महारानी के एक पुत्री सीता और एक पुत्र भामडल उत्पन्न हुआ । राम म्लेच्छों के विरुद्ध जनक की सहायता करते हैं, जिसके फलस्वरूप राम तथा सीता का वाग्दान हुआ; बाद में सीता-स्वयंवर के अवसर पर राम ने धनुष चढ़ाया और राम-सीता का विवाह सम्पन्न हुआ । इसके बाद दशरथ को वैराग्य हुआ । उस समय कँकेयी ने अपने वर के बल पर भरत के लिए राज्य माँग लिया । यह सुनकर राम, लक्ष्मण और सीता दक्षिण की ओर चले जाते हैं । पश्चात्तापिनी कँकेयी के अनुरोध पर भरत वन में जाकर राम से राज्य की स्वीकार करने का अनुरोध करते हैं । राम के इनकार करने पर वह अयोध्या लौटकर स्वयं राज्य-भार ग्रहण करते हैं; बाद में भरत किसी मुनि के समक्ष यह प्रतिज्ञा करते हैं कि राम के प्रत्यागमन पर मैं दीक्षा ग्रहण करूँगा ।

१. रविषेण के अनुसार विभीषण दशरथ तथा जनक, दोनों की मूर्तियों का सिर कटवाता है ( दे० पर्व २३, ५६ ) ।

### वनभ्रमण (पर्व ३३-४२)

यद्यपि पर्व ३३ के प्रारंभ में विचकूट का उल्लेख है, फिर भी पउमचरियं का यह अंश वाल्मीकीय वृत्तान्त से नितान्त भिन्न है। इसमें राम अथवा लक्ष्मण द्वारा निम्नलिखित राजाओं की पराजय का वर्णन मिलता है—वञ्जकर्ण के विरोधी सिहोदर ( पर्व ३३ ); म्लेच्छों का राजा, जिसने कल्याणमालिनी के पिता को कारावास में रखा था ( ३४ ), भरत के विरोधी अतिवीर्य ( ३७ ) । कई अवसरों पर लक्ष्मण को कन्याएँ विवाह में दी जाती हैं; वह सबों को स्वीकार कर कहते हैं कि लौटते समय उन्हें ले जाऊँगा । इस प्रकार वञ्जकर्ण ८ कन्याओं को तथा सिहोदर आदि राजा ३०० कन्याओं को प्रदान करते हैं । इनके अतिरिक्त लक्ष्मण वनमाला, रतिमाला तथा जितपद्मा को भी प्राप्त कर लेते हैं ।

कपिल नामक ब्राह्मण ( पर्व ३५ ) और देवभूषण तथा पद्मभूषण नामक मुनियो ( पर्व ३९ ) से भी भेट का वर्णन किया गया है। राम की आज्ञा से राजा सुरप्रभ ने वन पर्वत पर बहुत से मन्दिर बनवाए, जिससे इसका नाम रामगिरि रखा गया ( पर्व ४० ) । बण्डकारण्य में प्रवेश करने के पश्चात् एक मुनिवर ने सीता से निवेदन किया कि वह जटायु को रक्षा करे, (दे० आगे अनु० ४७२) ।

### सीता-हरण और खोज (पर्व ४३-५३)

सीताहरण का कारण विमलसूरि के अनुसार इस प्रकार है—शम्भूक ने ( चन्द्रनखा तथा खरदूषण का पुत्र ) सूर्यहास खग की सिद्धि के लिए १२ वर्ष तक साधना की थी। उसकी साधना सफल हुई और खग प्रकट हुआ। लक्ष्मण सयोग से वहाँ पहुँचते हैं। खग को देखकर वह उसे उठाते हैं और पास के बाँस को काट कर शम्भूक का मिर भी काट लेते हैं। चन्द्रनखा अपने मृत पुत्र को देखकर विलाप करते-करते वन में फिरने लगती है। राम और लक्ष्मण के पास पहुँचकर वह उनसे उनकी पत्नी बनने का प्रस्ताव करती है। असफल होकर वह पति के पास लौट कर अपने पुत्र के वध का समाचार सुनाती है। रावण को भी सूचना भेजी जाती है। इतने में लक्ष्मण अकेले ही खरदूषण की सेना को रोक लेते हैं। रावण पहुँचकर और सीता को देखकर उनपर आसक्त हो जाता है। वह अबलोकनी विद्या से जानता है कि लक्ष्मण ने राम को बुलाने के लिए उन्हें सिंहनाद का संकेत बताया है। अतः वह सिंहनाद करके और इस प्रकार राम को लक्ष्मण के पास भेज कर सीता का हरण करने में सफल होता है।

सीता-हरण के बाद राम और सुग्रीव के सख्य का वर्णन किया जाता है। सुग्रीव की विपत्ति वाल्मीकीय रामायण के वृत्तान्त से भिन्न है। साहसगति ने सुग्रीव का

रूप धारण कर उसकी पत्नी और राज्य को छीन लिया था। राम साहसगति को मारकर सुग्रीव को उसका राज्य लौटाते हैं। सुग्रीव राम के प्रति अपनी १३ कन्याओं को समर्पित करते हैं। किन्तु सीता के वियोग में दुःखित राम को उनकी सगति में सुख नहीं मिलता। सुग्रीव की आज्ञा से विद्याधर सीता की खोज करने जाते हैं। खोजते हुए सुग्रीव रत्नजटी से सुनता है कि रावण ने सीता का हरण किया है। यह सुनकर सब विद्याधर रावण से डर कर युद्ध करने से इनकार करते हैं। तब उनको अनन्तवीर्य का वह कथन स्मरण आता है, जिसमें उसने रावण से कहा था कि जो कोटि-शिला उठा सकेगा, उससे तेरी मृत्यु होगी। अतः विमान पर चढ़कर सब वहाँ जाते हैं और लक्ष्मण कोटि-शिला उठाते हैं। लेकिन विद्याधर अब भी रावण से डरते हैं और हनुमान् को रावण के पास भेजने की सलाह देते हैं कि वह विभीषण की सहायता से रावण को समझावे। हनुमान् इस यात्रा में अपने नाना महेन्द्र को परास्त करते हैं ( क्योंकि महेन्द्र ने उसकी माता अंजना को अपने घर से निकाला था ) और दधिमुख नगर के राजा की तीन कन्याओं से भेंट करते हैं, जिनका विवाह साहसगति को मारने वाले से निश्चित हुआ। लंका के पास पहुँचकर वह विभीषण द्वारा निर्मित प्राचीर पार कर पहले वज्रमुख का वध करते हैं और अनन्तर उसकी कन्या लकामुन्दरी को परास्त कर उसके साथ रात भर क्रीडा करते हैं। तब वह लंका में प्रवेशकर विभीषण तथा सीता से मिलते हैं। बाद में वह लंका में उद्यानों तथा महलों का विध्वंस करने लगते हैं और इन्द्रजित् द्वारा बाँधे जाकर रावण के सामने उपस्थित किए जाते हैं। वह रावण को धमकाकर अपने बन्धनों की तोड़ते हैं और रावण का महल ध्वस्त करके सीता का सन्देश राम के पास ले जाते हैं।

## युद्ध (पर्व ५४-७७)

वाल्मीकीय वृत्तान्त की दृष्टि में रखकर युद्धकाण्ड की घटनाओं के वर्णन में निम्नलिखित परिवर्तन उल्लेखनीय हैं—

(१) सेतुबन्ध के स्थान पर समुद्र नामक राजा की कथा दी गई है—वह बानरों की सेना रोक लेता है तथा नल द्वारा पराजित होकर लक्ष्मण को अपनी चार कन्याओं को समर्पित करता है ( पर्व ५४ )।

(२) विभीषण के अनुरोध करने पर कि सीता को लौटाया जाय, रावण ने उसे नगर से निकालने का आदेश दिया। इस पर विभीषण ने अपनी समस्त सेना के साथ हंसद्वीप में राम की शरण ली। उसी समय सीता के भाई भामंडल भी युद्ध में भाग लेने के लिए राम के पास आ पहुँचे ( पर्व ५५ )।

(३) राम और लक्ष्मण के स्थान पर सुग्रीव और मामण्डल इन्द्रजित् के नागपाश में बाँधे गए तथा गरुड़केतु लक्ष्मण द्वारा मुक्त हुए ( पर्व ६० ) ।

(४) लक्ष्मण को रावण की शक्ति लगने पर द्रोणमेष की कन्या विशल्या उनकी विकृतिता करती है और अनन्तर लक्ष्मण तथा विशल्या का विवाह सम्पन्न हो जाता है । दोनों के पूर्वजन्म की कथा भी वर्णित है, जिनके अनुसार वे पहले पुनर्वसु तथा अनगशरा थे ( पर्व ६१-६४ ) ।

(५) रावण सामन्त नामक दूत को भेजकर सन्धि का प्रस्ताव करता है । रावण राम को अपने राज्य का एक अंश तक ३००० कन्याओं को इस शर्त पर देने को तैयार है कि वह सीता को त्याग दे और कुम्भकर्ण, इन्द्रजित् तथा मंघवाहन को मुक्त कर दे । ( पर्व ६५ ) ।

(६) रावण बहुरूपा नामक विद्या को सिद्ध करने के लिए शांतिनाथ के मन्दिर में साधना करने जाता है । वानर सैनिकों के द्वारा ध्यान भंग किए जाने के निष्फल प्रयत्न के बाद रावण अपनी साधना में सफलता प्राप्त करता है । ( पर्व-६६-६८ ) ।

(७) बहुरूपा विद्या सिद्ध करने के पश्चात् रावण फिर सीता से मिलने गए तथा उमने धमकी दी कि अब राम का वध करके मैं तुम्हारे साथ अवश्य ही रहण करूँगा । सीता ने उत्तर दिया कि मेरा जीवन राम के जीवन पर पर अवलम्बित है और वह मूर्च्छा खाकर पृथ्वी पर गिर गई । राम के प्रति सीता का अटल प्रेम देखकर रावण पछताने लगा और उसने सन्नाम में राम तथा लक्ष्मण को हराकर उन्हें सीता को लौटाने का सकल्प किया ( पर्व ६९ ) ।

(८) लक्ष्मण ( नारायण ) ही रावण ( प्रतिनारायण ) का वध करते हैं ( पर्व ७३ ) ।

(९) कुम्भकर्ण तथा रावण के पुत्र इन्द्रजित् तथा मंघवाहन, जो युद्ध में कैदी हो गए थे, रावण-वध के पश्चात् मुक्त किए जाते हैं । वे विरक्त होकर तपस्या करने जाते हैं । मन्दोदरी, चन्द्रनखा आदि ८००० युवतियाँ भी महल को छोड़कर साधना का जीवन अपनाती हैं ( पर्व ७५ ) ।

(१०) लका में प्रवेशकर राम सर्वप्रथम सीता से मिलने जाते हैं । देवता दोनों का मिलन देखकर पृष्पवृष्टि करते हैं तथा सीता के निर्मल चरित्र का साक्ष्य देते हैं; राम के किसी सन्देह अथवा सीता की अग्निपरीक्षा की ओर सकेत मात्र भी नहीं मिलता ( पर्व ७६ ) ।

(११) राम-लक्ष्मण अब रावण के महल में ठहरते हैं तथा उन कन्याओं को बुला भेजते हैं, जिनके साथ उनकी भोगनी हो चुकी है। लका में ही उनके साथ विवाह सम्पन्न हो जाता है। इसके बाद राम-लक्ष्मण के छः वर्ष तक लका में निवास करने का उल्लेख किया गया है ( पर्व ७७ ) ।

### उत्तरचरित ( पर्व ७८-११८ )

नारद लका में राम के पास पहुँचकर पुत्र-विधोग के कारण दुःखित अपरा-जिता की दशा का वर्णन करते हैं, जिससे राम तथा लक्ष्मण साकेत लौटने का निश्चय करते हैं ( पर्व ७८ ) । उनके आगमन के पश्चात् भरत को वैराग्य हुआ, वे दीक्षा लेकर निर्वाण प्राप्त करते हैं ( पर्व ८०-८४ ) । अनन्तर लक्ष्मण के राज्या-भिषेक तथा विद्याधर राजाओं पर विजय का वर्णन किया गया है। लक्ष्मण की १६००० पत्नियों ( जिनमें से विगल्या आदि ८ पटरानियाँ हैं ) तथा राम की ८००० पत्नियाँ बताई जाती हैं, जिनमें से सीता, प्रभावती, रतिनिभा तथा श्रीदामा प्रधान हैं ( पर्व ८५-९१ ) । सीता-त्याग की कथा वाल्मीकि से बहुत भिन्न नहीं है ( दे० आगे अनु० ७१८ ) । सीता के पुत्रों के नाम लवण ( अथवा अनग-लवण ) तथा अकुश ( अथवा मदनकुश ) माने गए हैं ( पर्व ९७ ) । वे नारद के भडकाने पर अयोध्या में राम और लक्ष्मण से युद्ध करने आते हैं ( दे० आगे अनु० ७४६ ) । इस युद्ध के बाद सुग्रीव, हनुमान्, विभीषण आदि के अनुरोध पर राम सीता को बुला भेजते हैं; किन्तु वह सीता से सतीत्व का प्रमाण चाहते हैं। सीता अग्नि-परीक्षा में सफल होकर दीक्षा लेती हैं और स्वर्ग में इन्द्र बन जाती हैं ( दे० आगे अनु० ६०१ और ७५३ ) ।

राम-कथा का निर्वहण इस प्रकार है। किसी दिन दो देवता बलभद्र (राम) और नारायण (लक्ष्मण) का स्नेह परमने के लिए लक्ष्मण को विश्वास दिलाते हैं कि राम का देहान्त हुआ है। इस पर लक्ष्मण शोकातुर होकर मरते हैं और नरक जाते हैं। लक्ष्मण की अन्त्येष्टि के पश्चात् राम विरक्त होकर दीक्षा लेते हैं और १७००० वर्ष तक साधना करके निर्वाण प्राप्त करते हैं। अन्त में लक्ष्मण, रावण तथा सीता के सम्बन्ध में कहा जाता है कि उनको भी अनेक बार जन्म लेने के बाद मुक्ति मिल जायगी ( पर्व ११०-११८ ) ।

६१. परवर्ती जैन राम-कथाओं का सब से महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि हरिभद्र-कृत उपदेशपद, भद्रेश्वरकृत कहावली, हेमचन्द्रकृत जैनरामायण तथा देवविजयगणिकृत रामचरित में रावण का चित्र सीता के परित्याग का कारण

माना गया है ( दे० आगे अनु० ७२२ ) । हेमचन्द्रकृत सीता-रावण कथानकम् में कैकेयी अपने एक दूसरे बर के बल पर राम-लक्ष्मण-सीता के लिए १४ वर्ष तक वनवास माँग लेती है। हेमचन्द्र की इस राम-कथा में उत्तरचरित का अभाव है।

## ग—गुणभद्र की परम्परा

६२. जैन राम-कथा का दूसरा रूप हमें पहले-पहल गुणभद्रकृत उत्तरपुराण में मिलता है। गुणभद्र जिनसेन के शिष्य तथा कर्नाटक प्रान्त के निवासी थे। इन्होंने अपने गुरु के आदिपुराण के अंतिम १६२० श्लोक रचकर उसे समाप्त कर दिया और इसके बाद उत्तरपुराण अर्थात् त्रिषष्टिलक्षणमहापुराण का द्वितीय भाग भी लिखा है। इस उत्तरपुराण के अन्तर्गत आठवें नलदेव, नारायण तथा प्रतिनारायण ( अर्थात् राम-लक्ष्मण-रावण ) का चरित्र ६७ वें तथा ६८ वें पर्व में १११७ श्लोकों में वर्णित है ( दे० स्याद्वाद ग्रंथमाला, न० ८, इदौर, स० १९७५ ) । यह राम-कथा विमलसूरि तथा वाल्मीकि के कथानक में बहुत भिन्न है, इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इसमें सीता को रावण तथा मदादरी की औरम पुत्री माना गया है। सीता-जन्म का यह रूप पहले-पहल सघदास के वसुदेवहिण्डि में प्रस्तुत किया गया है ( दे० आगे अनु० ४१२ ) ।

गुणभद्र का आधार बहुत कुछ अज्ञात है। किन्तु वह विमलसूरि तथा सघदास की रचनाओं अथवा उनकी परम्परा से अवश्य परिचित थे। जिनसेन अपने आदिपुराण में कवि परमेश्वर की गद्य-कथा का उल्लेख करते हैं और उसे अपनी रचना का आधार मानते हैं। गुणभद्र जिनसेन की रचना पूरी करते हैं। अतः बहुत संभव है कि वह भी कवि परमेश्वर की कथा पर निर्भर रहें हों। कवि परमेश्वर की रचना अप्राप्य है लेकिन तिब्बती रामायण तथा अन्य ग्रंथों में भी सीता मन्दादरी की पुत्री मानी जाती है। अतः राम-कथा का यह रूप संभवतः जनसाधारण में प्रचलित हुआ होगा और कवि परमेश्वर या गुणभद्र ने उसे जैन-धर्म के अनुरूप करके अपनी रचना में स्थान दिया होगा। श्री नाथूराम प्रेमी ' गुणभद्र की राम-कथा के आधार के विषय में इस प्रकार लिखते हैं—'हमारा अनुमान है कि गुणभद्र से बहुत पहले विमलसूरि ही के समान किसी अन्य आचार्य ने भी जैनधर्म के अनुकूल सोपपत्तिक और विश्वसनीय स्वतन्त्र रूप से राम-कथा लिखी होगी और वह गुणभद्राचार्य को गुरु-परम्परा द्वारा मिली होगी।' गुणभद्र की गुरु-परम्परा के दो और नाम कन्नड भाषा के कवि चामुण्ड राय की रचना में मिलते हैं। चामुण्ड

राय त्रिषष्टिलक्षग्रन्थपुराण के लेखकों की निम्नलिखित सूची देते हैं—कृचि भट्टारक, नन्दिमुनीश्वर, कविपरमेश्वर, जिनसेन, गुणभद्र । गुणभद्र की राम-कथा अन्य जैन रचनाओं में भी ज्यों की त्यों मिलती है ।

६३. संस्कृत—गुणभद्रकृत उत्तरपुराण ( नवी श० ई० )<sup>१</sup>

कृष्णदास कविकृत पुष्पचन्द्रोदय पुराण ( १६ वी श० ई० )

प्राकृत—पुष्पदन्तकृत तिसट्ठी-महापुरिस-गुणालंकार ( १० वी श० ई० )

कन्नड—चामुण्डरायकृत त्रिषष्टिशलाकापुराण ( १० वी श० ई० )

बधुवर्मा का जीवनसंबोधन ( १२०० ई० )

नागराजकृत पुष्पाश्वकथासार ( १३३१ ई० )

पुष्पचंद्रोदय पुराण छोड़कर उपर्युक्त रचनाओं में राम-कथा के अतिरिक्त अन्य ६३ महापुरुषों के चरित भी मिलते हैं । गुणभद्र की राम-कथा का सक्षिप्त कथानक इस प्रकार है

६४. दशरथ ( वाराणसी के राजा ) के चार पुत्र उत्पन्न होते हैं—राम सुवाला के गर्भ से, लक्ष्मण कंकेयी के गर्भ से और बाद में जब दशरथ अपनी राजधानी को साकेतपुर स्थापित कर चुके हैं तब भरत और शत्रुघ्न, किसी अन्य रानी के गर्भ से, जिसका नाम नहीं दिया जाता है । दशानन विनमि विद्याधर वश के पुलस्त्य का पुत्र है । किसी दिन वह अमितवेग की पुत्री मणिमती को तपस्या करते देखता है और उसपर आसक्त होकर उसकी साधना में विघ्न डालने का प्रयत्न करता है । मणिमती निदान करती है . 'मैं उसकी पुत्री होकर उसे माऊँगी ।' मृत्यु के बाद वह रावण की रानी मदोदरी के गर्भ में आती है । उसके जन्म के बाद ज्योतिषी रावण से कहते हैं कि वह आप का नाश करेगी । अतः रावण ने भयभीत होकर मारीचि को आज्ञा दी कि वह उसे कहीं छोड़ दे । कन्या को एक मजूषा में रखकर मारीचि उसे मिथिला देश में गाड़ आता है । हल की नोक से उलझ जाने के कारण वह मंजूषा दिखलाई पड़ती है और लोगों द्वारा जनक के पास ले जाई जाती है । जनक मजूषा को खोल कर एक कन्या को देखते हैं और उसका नाम सीता रखकर उसे पुत्री की तरह पालते हैं । बहुत समय के बाद जनक अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को बुलाते हैं । इस यज्ञ के समाप्त होने पर राम और सीता का विवाह होता है । इसके बाद राम मात

१. भारतीय ज्ञानपीठ काशी का संस्करण ( सन् १९५४ ) । मल्लिषेणकृत महापुराण ( ११ वी श० ई० ) प्रकाशित नहीं है । १३०० ई० के आशाधरकृत 'त्रिषष्टिस्मृतिशास्त्रम्' ( मानिकचन्द्र जैन ग्रन्थमाला नं० ३६ ) में जिनसेन तथा गुणभद्र का सार मिलता है । राम-कथा ८१ श्लोकों में समाप्त की जाती है ।



अन्य कुमारियों से विवाह करते हैं और लक्ष्मण पृथ्वी देवी आदि १६ राज-कन्याओं से। दोनों दशरथ से आज्ञा लेकर वाराणसी में रहने लगते हैं।

नारद से सीता के सौंदर्य का वर्णन सुनकर रावण उसे हर लाने का संकल्प करता है। सीता का मन जाँचने के लिए शूर्पणखा भेजी जाती है लेकिन सीता का सतीत्व देख कर वह रावण में यह कह कर लौटती है कि सीता का मन चलायमान करना असंभव है। जब राम और सीता वाराणसी के निकट चित्रकूट वाटिका में विहार करते हैं तब मारीचि स्वर्ण मृग का रूप धारण करके राम को दूर ले जाता है। इतने में रावण राम का रूप धारण कर सीता से कहता है कि मैंने मृग को महल भेजा है और उनको पालकी पर चढ़ाने की आज्ञा देता है। यह पालकी वास्तव में पुष्पक है, जो सीता को लका ले जाता है। रावण सीता का स्पर्श नहीं करता है क्योंकि पतिव्रता के स्पर्श से उसकी आकाशगामिनी विद्या नष्ट हो जायगी।

दशरथ को एक स्वप्न द्वारा मालूम हुआ कि रावण ने सीता का हरण किया है और वह राम के पास यह समाचार भेजते हैं। इतने में सुग्रीव और हनुमान् बालि के विरुद्ध सहायता माँगने के लिए पहुँचते हैं। हनुमान् लका जाते हैं और सीता को सान्त्वना देकर लौटते हैं। इसके बाद लक्ष्मण द्वारा बालि का वध होता है और सुग्रीव अपने राज्य पर अधिकार प्राप्त करता है। सेतु-बन्ध का प्रसंग छोड़ दिया गया है, वानरो और राम की सेना बिमान से लका पहुँचाई जाती है। युद्ध के अपेक्षाकृत विस्तृत वर्णन के अन्त में लक्ष्मण चक्र से रावण का सिर काटते हैं। राम परीक्षा लिए बिना सीता को स्वीकार करते हैं। इसके बाद लक्ष्मण राम के साथ ४२ वर्ष तक दिग्विजय-यात्रा करते हैं और अर्द्धचक्रवर्ती बनकर अयोध्या लौटते हैं। अनन्तर दोनों का सम्मिलित अभिषेक सम्पन्न हो जाता है। लक्ष्मण की १६,००० और राम की ८,००० रानियाँ बताई जाती हैं। कुछ वर्ष बाद राम तथा लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न को राज्य देकर वाराणसी चले आए। सीता के विजयराम आदि आठ पुत्र उत्पन्न होते हैं (सीता-त्याग का उल्लेख नहीं मिलता)। लक्ष्मण एक असाध्य रोग से मरकर रावण-वध के कारण नरक जाते हैं। राम लक्ष्मण के पुत्र पृथ्वीचन्द्र को राज्य-पद पर और सीता के कनिष्ठ पुत्र अजितजय को युवराज पद पर अभिषिक्त करके सुग्रीव, अणुमान, विभीषण आदि पाँच सौ राजाओं तथा १८० पुत्रों के साथ साधना करने जाते हैं; ३९५ वर्ष बीत जाने पर राम को केवलज्ञान उत्पन्न हुआ। सीता भी अनेक रानियों के साथ दीक्षा लेती है। अन्त में राम तथा अणुमान की मोक्षप्राप्ति का उल्लेख किया गया है; सीता स्वर्ग में पहुँचती है तथा लक्ष्मण के सम्बन्ध में कहा जाता है कि नरक से निकल कर वह भी संयम धारण करेंगे तथा मोक्ष प्राप्त कर सकेंगे।

द्वितीय भाग  
राम-कथा की उत्पत्ति

अध्याय

६. दशरथ-जातक की समस्या
७. राम-कथा का मूल-स्रोत
८. प्रचलित वाल्मीकि रामायण के मुख्य प्रक्षेप
९. राम-कथा का प्रारम्भिक विकास

## अध्याय ६

### दशरथ-जातक की समस्या

६५. दशरथ-जातक में राम-कथा का जो रूप विद्यमान है उसे, अनेक विद्वान् रामायण की कथा का मूलरूप समझते हैं। डॉ० वेबर ने पहले-पहल इस मत का प्रतिपादन किया था। यद्यपि डॉ० याकोबी ने इसका खंडन किया था, फिर भी आधुनिकतम काल तक दिनेशचन्द्र सेन आदि डॉ० वेबर का मत मानते चले आ रहे हैं। प्रस्तुत अध्याय में इस विवादग्रस्त विषय से संबंध रखने वाली सामग्री का पूरा विश्लेषण करना अनुचित नहीं होगा।

दशरथ-जातक पाली जातकदृष्टवर्णना में सुरक्षित है। इस पुस्तक की प्रामाणिकता पर पहले परिच्छेद में प्रकाश डाला गया है और इसके बाद के दो परिच्छेदों में दशरथ-जातक की गाथाओं और गद्य का अलग-अलग विश्लेषण किया गया है। अध्याय के अन्त में रामायण और बौद्ध-साहित्य के पारस्परिक प्रभाव पर विचार किया जायगा।

#### क—पाली जातकदृष्टवर्णना की प्रामाणिकता

॥

६६. बौद्ध तिपिटक (बौद्ध धर्म की श्रुति) तीसरी शताब्दी ई० पू० मगध देश में पाली भाषा में लिपिबद्ध किया गया था। इसके द्वितीय पिटक

१. दे०—ए० वेबर: आन दि रामायण,  
दिनेशचन्द्र सेन: दि बंगाली रामायण, पृ० ७ आदि,  
प्रियमंन ज० रा० ए० सी०, १९२२, पृ० १३५—३९।  
डब्लू स्टुटरहाइम: राम लेगेन्डन उड राम-रेलिफ्स इन इंडोनेशियन,  
पृ० १०५।  
ज० चिल्लुस्की: इंडियन हिस्टोरिकल क्वार्टर्ली, भाग १५, पृ० २८९।  
डो० ए० नरसिंहाचार का मत है कि इस प्रश्न का निर्णय करना असंभव है।  
(वही, पृ० ५८०)।  
निम्नलिखित विद्वान् एच० याकोबी के अनुसार दशरथ जातक में राम-कथा का विकृत रूप देखते हैं—  
एम् मोनियेर विलियम्स: इंडियन विज्डम, पृ० ३१६ टि०  
सी० बी० वैद्य: दि रिडिल ऑफ दि रामायण पृ० ७३।  
एम्० बिंटरनिस्: हि इ० लि०, भाग १, पृ० ५०८।  
सी० लैस्सन ने पहले-पहल इस मत का प्रतिपादन किया था। दे० इडि-  
शन एन्टीक्वेरी; भाग ३ (१८७४) पृ० १०२-३।

(सुत्तपिटक) के पाँचवें भाग का नाम खुद्दक-निकाय है। इसी खुद्दक-निकाय के अन्तर्गत जातकों की गाथाएँ दी गई हैं और तीसरी शताब्दी ई० पू० से ही सुरक्षित हैं।<sup>१</sup> इन गाथाओं के साथ-साथ प्रारम्भ ही से गद्य की टीका भी प्रचलित हुई होगी क्योंकि इसके बिना बहुत-सी गाथाएँ अपूर्ण और अबोधगम्य हैं। वर्तमान पाली जातकट्ठवग्गना पाँचवीं शताब्दी ई० की एक सिंहली पुस्तक का अनुवाद है। मूल सिंहली पुस्तक, जिसमें केवल गाथाएँ पाली में दी गई थीं, आजकल अप्राप्य है। इसके अज्ञात लेखक का कहना है कि मने अनुराधपुर की परंपरा के आधार पर अपनी रचना की है।<sup>२</sup>

उपर्युक्त परिचय से स्पष्ट है कि गाथाओं की अपेक्षा जातकों का गद्य बहुत कम महत्त्वपूर्ण और प्रामाणिक है। ये कथाएँ पाँचवीं ई० में परंपरा के आधार पर लिपिबद्ध की गई हैं। शताब्दियों तक अस्थिर रहने के कारण इनमें परिवर्तन और परिवर्द्धन की सभावना रही है। इस गद्य को तीसरी श० ई० पू० की अखंड परम्परा मानना और इसके आधार पर रामायण के मूलरूप के सम्बन्ध में किसी सिद्धान्त का प्रतिपादन करना अवैज्ञानिक है। वास्तव में जातकट्ठवग्गना में अनेक स्थलों पर गाथाओं और गद्य में विरोध और असंगति दिखलाई पड़ती है। एक जातक (न० २५३) विनयपिटक और जातकट्ठवग्गना, दोनों में मिलता है। गाथा तो एक ही है लेकिन गद्य दोनों ग्रन्थों में भिन्न है, जिसमें स्पष्ट है कि जातकों के गद्य की प्रामाणिकता संदिग्ध है।<sup>३</sup>

### ख—दशरथ जातक की गाथाएँ

६७. दशरथ-जातक में जो राम-कथा मिलती है, वह रामायणीय कथा का विकृत रूप माना जाना चाहिए। इसके प्रमाण तीसरे परिच्छेद में दिए जाएँगे। हमारे तर्कों का एक महत्त्वपूर्ण आधार यह है कि इस जातक की सारी कथाएँ गद्य में दी गई हैं और पुरानों गाथाओं से कोई विशेष

१. दे० टी० डब्लू रिजडेविड्स बुद्धिस्ट इंडिया, पृ० १८३।

एम० विंटरनिट्स. हि० ई० लि० भाग २, पृ० ११५।

फिर भी इन गाथाओं में कहीं-कहीं परिवर्द्धन हुआ है। दे० इंडियन हिस्टोरिकल क्वार्टरली; भाग ४, पृ० ११-१२।

२. अनुराधपुर की यह परम्परा आजकल एक अप्राप्य पाली जातकट्ठ-कथा पर निर्भर है; इसका अनुवाद सिंहली में हुआ था।

३. हेटेल जर्मन आरियन्टल जनरल, भाग ६०, पृ० ३६६ आदि। शार्पेटिये, वही, भाग ६० पृ० ७२५ आदि। विंटरनिट्स: हि० ई० लि०, भाग २, पृ० ११९ टि०।

सम्बन्ध नहीं रखतीं। प्रस्तुत परिच्छेद में इन गायार्थों का अलग विश्लेषण किया गया है।

ये गायार्थें स्वाभाविक रूप से तीन भागों में विभक्त की जा सकती हैं अर्थात् जलक्रिया, अनित्यता का उपदेश और राम का राज्य-काल<sup>१</sup>।

६८. जलक्रिया (गाथा १)

एष लक्ष्मण सीता च उभो औतरयोवकं ।

एवायं भरतो आह राजा दशरथ मतो ॥१॥

‘लक्ष्मण और सीता दोनों जल में उतरे, क्योंकि भरत कहते हैं—राजा दशरथ मर गए।’

यह पहली गाथा स्पष्टतया रामायण में वर्णित जलक्रिया से सम्बन्ध रखती है, रामायण के निम्नलिखित श्लोक प्रस्तुत गाथा से मिलते-जुलते हैं। राम लक्ष्मण से कहते हैं:

भरतो दुःस्वप्नाच्छ्वे स्वर्गतिं पृथिवीपतिम् ॥१५॥

जलक्रियार्थं तातस्य गमिष्यामि महात्मनः ॥२०॥

सीता पुरस्ताद् ब्रजतु त्वमेनामभितो ब्रज ।

अहं पश्चाद् गमिष्यामि गतिह्येषां सुवाचना ॥२१॥

(रा० २, १०३)

पाली जातकदृष्टवर्णना में इस गाथा को एक भिन्न अर्थ देने का प्रयत्न किया गया है। प्रमग निम्नलिखित है:

लक्ष्मण और सीता की अनुपस्थिति में भरत ने बनवासी राम के पास आकर उनको दशरथ के देहान्त का समाचार सुनाया है। शाम को लक्ष्मण और सीता बन से लौटते हैं। इसके बाद वृत्तान्त का अनुवाद इस प्रकार है—

‘राम पंडित ने सोचा, ये दोनों जवान हैं और मेरे समान बुद्धिमान नहीं हैं। सहसा पिता का मरण सुनने पर इम (समाचार) का शोक उनके लिए असह्य होगा और न जाने उनका हृदय विदीर्ण हो जाए। किसी उपाय से मैं दोनों को पानी में उतरने के लिए कहूँगा और फिर समाचार सुनाऊँगा। तब सामने का जलाशय

१. दे० एन्० बी० उत्तगिकारः ज० रा० ए० सो०, सेन्टीनरी सप्लीमेंट, पृ० २०३-२१। एच० लुडर्स. जर्नल गटिंगन लनेड सोसाइटी, १८९७, पृ० ४० और जर्मन ओरियेंटल जर्नल, भाग ५८, पृ० ६८७ आदि। इस परिच्छेद में इन दोनों विद्वानों से विशेष सहायता मिली है। पाठ के लिए, दे० फासबाल, दि जातक, भाग ४, नं ४६१।

बिखलाकर राम ने कहा—तुम दोनों अधिक देर से आए हो। यह तुम्हारा दण्ड है, इस पानी में उतर कर वहाँ खड़े रहो। तब उन्होंने अबंगाथा सुनाई:

‘लक्ष्मण और सीता दोनों जल में उतरे’।

राम के इसी शब्द को सुनकर दोनों पानी में उतर कर खड़े रहे। इसके अनन्तर गाथा का उत्तरार्द्ध सुनाकर राम ने उनको समाचार दिया।

‘भरत कहते हैं : राजा दशरथ मर गए’।

पिता के देहान्त का समाचार सुनकर दोनों मूर्छित होकर गिर पड़े। राम ने उनसे फिर यही कहा और वे पुनः मूर्छित हो कर गिर गए। जब दोनों तीसरी बार मूर्छित हो कर गिरे तब अमात्यो ने उनको उठाया और जल से निकाल स्थल पर बिठाया।’

इस उद्धरण से स्पष्ट है कि जातक का प्रथम मौलिक नहीं है। लेखक संभवतः रामायण में उल्लिखित जलक्रिया से अपरिचित था और इसलिए उसने यह कष्टकल्पना की होगी।

६९. अनित्यता का उपदेश (गाथा २-१२)

केन रामायणभावेन सोचितम्बं न सोचसि।

पितरं कालकृतं सुत्वा न तं पसहते बुधं ॥२॥

‘हे राम ! शोक का कारण होने हुए भी आप किस धर्म के बल पर शोक नहीं करते। पिता का देहान्त सुनने पर भी आप दुःख के बशीभूत नहीं होते।’

यं न सक्का पालेतुं पोसेन लपतं बहू।

स किस्स विञ्जा मेधावी अत्तानं उपतापये ॥३॥

‘बहुत विलाप करने पर भी जो रखा नहीं जा सकता, उसके लिए बुद्धिमान् शोक नहीं करता।’

बहरा च हि वृद्धा च ये बाला ये च पंडिता।

अइहा खेव बलिहा च सम्भे मच्चुपरायणा ॥४॥

‘बालक और वृद्ध, मूर्ख और पंडित, धनी और दरिद्र सबों का मरण निश्चित है।’

फलानमिच पक्कानं निचुचं पपतना भं भं।

एवं जातानं मच्चवानं निचुचं मरणतो भयं ॥५॥

‘जिस तरह से पक्के फलों के गिरने का नित्य भय होता है, उसी तरह जन्म लिए हुए मनुष्यों को मरण का भय बना रहता है।’

सायमेके न विस्संति पातो विट्ठा बहुञ्जना ।

पातो एके न विस्संति सायं विट्ठा बहुञ्जना ॥६॥

‘बहुत से लोग, जो प्रातःकाल दृष्टिगत होते हैं, इनमें कई सायंकाल नहीं दिखलाई देते हैं और बहुत से लोग, जो सायंकाल दृष्टिगत होते हैं, इनमें से कई प्रातःकाल नहीं दिखलाई देते हैं।’

परिदेवयमानो चे कंचिदत्थं उदब्बहे ।

सम्मूलहो हिंसमत्तानं कयिर चेनं विचखणो ॥७॥

‘अपने आप को दुःख देने वाले मूर्ख को यदि विलाप करने से कुछ अर्थ प्राप्त होता, तो युद्धिमान् भी यही करता।’

किसो विदग्गो भवति हिंसमत्तानमत्तनो ।

न तेन पेता पालेति निरत्थ्या परिजेवना ॥८॥

‘अपने आप को दुःख देने से वह क्रुश और विवर्ण बन जाता है। इससे मृत पुनर्जीवित नहीं होते, (अतः) विलाप निरर्थक है।’

यथा सरणमाविसं वारिना परिनिब्बये ।

एवमपि धीरो सुतथा मेघवी पंडितो नरो ।

खिप्पमुप्पतितं सोकं वातो तूलं व धंसये ॥९॥

‘जिस प्रकार जलता हुआ घर पानी के द्वारा बुझाया जाता है, उसी प्रकार धीर, श्रुतिमान्, बुद्धिमान् और पंडित शीघ्र ही अपने शोक का उसी भाँति उन्मूलन करते हैं, जिस भाँति पवन कपास को छितराता है।’

एको व मच्चवी अच्चेति एको व जायते कुले ।

सञ्जोगपरमा स्वेत्र संभोगा सम्बपाणिनं ॥१०॥

‘मनुष्य अकेला मर जाता है और अकेला कुल में जन्म लेता है। सब प्राणियों का सुख एक दूसरे के सम्बन्ध पर निर्भर रहता है (अथवा सब प्राणियों के सुख का उद्देश्य है, उनका सयोग या मैत्री)।’

तस्सा ही धीरस्स बहुस्सुतस्स

सम्पस्सतो लोकमिमं परं च ।

अञ्जाय धम्मं हृदयं मनं च

सोका महंतापि न तापयंति ॥११॥

अतः जो इहलोक और परलोक (का यथार्थ रूप) देखने वाले और धर्म को जानने वाले धीर और श्रुतिमान् मनुष्य होते हैं, इनका हृदय और मन महान् शोक से भी संतप्त नहीं होता ।'

सोहं बस्सं च भोक्खं च भरिस्सामि च नातके ।

सेसं संवालयिस्सामि किञ्चमेवं विजानतो ॥१२॥

'सो मैं (दान) दूँगा और (स्वयं भी धन का) उपभोग करूँगा तथा अपने संबंधियों का भरण-पोषण करूँगा । दूसरोका भी (अथवा जो जीवित है, उनका) मैं पालन करूँगा—यही बुद्धिमान् का कर्तव्य है ।'

७०. इस उपदेश की प्रथम गाथा में राम से यह प्रश्न किया जाता है कि पिता का मरण सुनकर आप किस धर्म के बल पर शोक नहीं करते । इसके बाद की गाथाओं में शोक की व्यर्थता पर एक उपदेश उद्धृत किया गया है । जातक के गद्य के अनुसार ये राम के शब्द हैं लेकिन इस सारे उपदेश में कहीं भी राम-कथा की ओर किञ्चित् भी निर्देश नहीं मिलता । डॉ० विटरनित्स का कहना है कि रामायण में राम अपने पिता के देहान्त का समाचार सुनकर अत्यन्त शोक करते हैं (रा० २, १०३, १ आदि) और केवल बाद में भरत को सात्वना देते हैं (रा० २, १०५, १५-४२) । जातक में राम किञ्चित् भी शोक नहीं करते । इसमें बौद्ध प्रभाव स्पष्ट है । डॉ० विटरनित्स अनुमान करते हैं कि पुरानी गाथाओं में भी राम अत्यन्त शोकातुर दिखलाए गए थे और बौद्धों ने इन गाथाओं को नया रूप दिया है । राम के शोक से सम्बन्ध रखने वाली गाथाएँ छोड़ दी गई हैं, इतना ही हम स्वीकार कर सकते हैं । लेकिन गाथाओं का वर्तमान रूप बौद्धों द्वारा निर्मित है, यह मानने की कोई आवश्यकता नहीं होती । मृत सम्बंधियों के कारण शोक करना व्यर्थ है, यह कोई विशेष बौद्ध धारणा नहीं है । महाभारत के अनेक स्थलों पर 'शोकापनोदनम्' के अतर्गत प्रस्तुत गाथाओं से मिलते-जुलते श्लोक पाए जाते हैं । भगवद्गीता में लिखा है :

जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्वं जन्म मृतस्य च ।

तस्मादपरिहार्यं न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ (२, २७)

इस प्रकार के और बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं । अतः जातक की गाथाओं

१. अथवा—'और हमका (इहलोक और परलोक का) तत्त्व जाननेवाले ।'

२. गाथा ११ से उपदेश समाप्त प्रतीत होता है । गाथा १२ का न तो कोई पूर्वापर सम्बन्ध है और न इसमें राम-कथा की ओर निर्देश मिलता है । जातक में यह गाथा उपदेश का अंश मानी जाती है ।

३. दे० हि० ६० लि०: भाग १, पृ० ५०८ ।



की शिक्षा बौद्धों की अपनी नहीं है। जलक्रिया संबंधी गाथा की तरह ये गाथाएँ भी बौद्धों द्वारा ज्यों की त्यों अपना ली गई होंगी। फिर भी उन गाथाओं में से केवल एक ही रामायण में मिलती है :

यथा फलानां पश्वानां नान्यत्र पतनाद् भयम् ।  
एवं नरस्य जातस्य नान्यत्र मरणाद् भयम् ।

(रा० २, १०५, १७)

अतः हमें मानना पड़ेगा कि दशरथ-जातक की गाथाएँ वाल्मीकि-रामायण पर निर्भर नहीं हो सकती। इनका मूलस्रोत कोई प्राचीन आख्यान रहा होगा<sup>१</sup>।

७१. राम का राज्य-काल (गाथा १३)

दस वस्ससहस्सानि सट्ठि वस्ससतानि च ।  
कंबुगीव महाबाहु रामो रज्जमकारयि ॥१३॥

‘कंबुगीव महाबाहु राम ने सोलह सहस्र वर्ष तक राज्य किया।’

वाल्मीकि रामायण, महाभारत, और हरिवंश, तीनों में इस गाथा का संस्कृत रूप पाया जाता है। रामायण में :

दशवर्षसहस्राणि दश वर्षशतानि च ।  
भ्रातृभिः सहित धीमान् रामो राज्यमकारयत् ॥

(६, १३१, १०६, दक्षिण संस्करण)

दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च  
रामो राज्यमुपासित्वाब्रह्मलोकं प्रयास्यति ॥ (१, १, ९७.)

महाभारत में—

दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च ।  
राज्यं कारितवान् रामस्ततस्तु त्रिविधं गतः ॥ (३, १४७, ३८.)  
श्यामो युवा लोहिताक्षो मत्तवारणविक्रमः ।  
दश वर्षसहस्राणि रामो राज्यमकारयत् ॥ (१२, २९, ५४.)

हरिवंश में—

दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च  
अयोध्याधिपतिर्भूत्वा रामो राज्यमकारयत् ॥ (१, ४१, १५१)

१. डॉ० लूडसं (दि० गैटिंगन जनल, १८९१ पृष्ठ १३०) के अनुसार यह पाली में था; डॉ० याकोबी मूल रूप को संस्कृत में मानते हैं।

इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि पाली गाथा और संस्कृत श्लोक का मूल-स्रोत एक ही है। यह पाली गाथा दशरथ-जातक के समीपान में दी जाती है। यह समीपान, इस एक गाथा को छोड़कर, गद्य में ही लिखा गया है—इससे डॉ० याकोबी अनुमान करते हैं कि यह गाथा कहीं से उद्धृत की गई है। इस जातक को वर्तमान कथा में 'पोराणकपंडिता' का उल्लेख है, अतः प्रस्तुत गाथा का मूलस्रोत कोई प्राचीन काव्य रहा होगा और बहुत संभव है कि यह 'वाल्मीकिकृत' रामायण ही हो। डॉ० याकोबी का यह अनुमान विषय अवश्य है। जातक की अधिकांश गाथाओं का मूलस्रोत वाल्मीकिकृत रामायण नहीं हो सकती; यह ऊपर दिखलाया गया है, अतः इस गाथा के विषय में भी हम निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते हैं कि रामायण ही इसका मूलस्रोत है। फिर भी इसमें मन्देह नहीं है कि यह किसी प्राचीन राम-सम्बन्धी उपाख्यान या गीत से बौद्धों द्वारा अपनाई गई है। जातक में जो 'पोराणकपंडिता' का उल्लेख मिलता है इसमें इस निर्णय की पुष्टि होती है।

७२ दशरथ-जातक की गाथाओं का विश्लेषण ऊपर किया जा चुका है। इनमें कहीं भी बौद्धों द्वारा कल्पित सामग्री हो, यह मानने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इनके अतिरिक्त पहली गाथा के प्रसंग-परिवर्तन से स्पष्ट है कि इनका मूलस्रोत बौद्ध साहित्य को छोड़कर ब्राह्मण धर्म के वातावरण में निर्मित पुराने आख्यान-साहित्य में और राम सम्बन्धी प्राचीन गीतों में ढूँढना चाहिए।

## ग—दशरथ-जातक की राम-कथा

### (अ) डॉ० वेबर का मत

७३. डॉक्टर वेबर<sup>१</sup> के अनुसार दशरथ-जातक में राम-कथा का पूर्व-रूप रक्षित है। इसके अतिरिक्त वे पाँचवीं शताब्दी ई० की दो अन्य बौद्ध रचनाओं में इस कथा के प्रचीनतम तत्त्व पाते हैं।

१ डॉ० लुइस का मत है कि मूल पाली में ही था "दशरथ-जातक की गाथा १३ रामायण आदि के संस्कृत श्लोक का अनुवाद है इसके लिए कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता है"।

२. दे० ए० वेबर. आन दि रामायण।

धम्मपद की टीका<sup>१</sup> में निम्नलिखित कहानी मिलती है। ब्रह्म ज्यो की ल्यों पाली जातकद्वयवर्णना मे भी उद्धृत है (दे० न० ६ देवधम्म जातक)।

वाराणसी के राजा<sup>२</sup> के दो पुत्र थे—महिषास (क) और चन्द। उनकी माता के मरने पर राजा ने फिर विवाह किया। नई महिषी के सूर्य नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इसी अवसर पर राजा से उसको एक वर भी मिला। जब सूर्य युवावस्था को प्राप्त हुआ तब रानी ने वर के बल पर अपने पुत्र के लिए राजसिंहासन का अधिकार माँगा। राजाने स्पष्ट अस्वीकार किया। लेकिन महिषी के षड्यन्त्रों से भयभीत होकर उन्होंने अपने पुत्रों को यह कह कर वनवास दिया—‘मेरे मरने के बाद लौट कर राज्य पर अधिकार प्राप्त करना।’ सूर्य अपने दोनों भाइयों के साथ स्वेच्छा से चला गया।

राजा के मरने के पश्चात् तीनों बनारस लौटते हैं। महिसामक राजा बन जाते हैं, चन्द उपराजा और सूर्य सेनापति।

यही संक्षेप में धम्मपद टीका की कथा है। डॉ० वेबर के अनुसार यह दशरथ-जातक का प्रथम रूप है। आगे चलकर वे बुद्धघोष की सुत्तनिपात-टीका<sup>३</sup> में वर्णित शाक्य तथा कोलिय वंशों की उत्पत्ति की कथा में (२, १३) दशरथ-जातक का द्वितीय रूप देखते हैं। इस कथा के चार भाग हैं, जिनमें से पहले दो भाग हमारे विषय से सम्बन्ध रखते हैं।

७४. (१) शाक्यों की उत्पत्ति : वाराणसी की पटरानी की नौ सताने थी—चार पुत्र और पाँच पुत्रियाँ। उसके मर जाने के बाद अंबट्ट राजा ने नया विवाह किया और अपनी युवती पत्नी को पटरानी बनाया (अगमहेंसि द्ठाने ठपसि)। नई पटरानी के पुत्र उत्पन्न होने पर राजा ने उसको एक वर दिया और उसने अपने पुत्र के लिए राजसिंहासन माँगा। राजा ने पहले अस्वीकार किया फिर भी उसने अपने नौ पुत्र-पुत्रियों को यह कह कर वनवास दिया, ‘मेरी मृत्यु के पश्चात् आओ और राज्य पर अधिकार प्राप्त करो।’ बहुत से लोग उनके साथ चल दिए और सबों ने वन में एक नगर बसाया। नगर को ‘कपिलवत्थु’ नाम दिया गया क्योंकि उसी स्थान पर कपिल नामक तपस्वी तपस्या करते थे। राजसन्तान से विवाह करने योग्य वन में

१. दे० एच० सी० नार्मन : कामेंटरी ऑन धम्मपद, भाग ३, ७३; बर्लिनगेम, हार्वर्ड आरियेंटल सीरिज, भाग २९, पृ० ३०९।
२. देवधम्म जातक में इनका नाम ‘ब्रह्मदत्त’ भी दिया जाता है।
३. दे० इडिशा स्टुडियन : भाग ५, पृ० ४१२ आदि। एच० स्मिथ : सुत्त-निपात कामेंटरी (परमत्त्वजोतिका) पाली टेक्स्ट सोसाइटी, १९१६।

कोई नहीं था, इसलिए चारों राजकुमार अपनी बहनों से ही विवाह करने के लिये बाध्य हुए। ज्येष्ठा कन्या पिया अविवाहित रह कर सबों की माता मानी जाने लगी। यही शाक्यों की उत्पत्ति की कथा है।

(२) **कोलियों की उत्पत्ति** : कुछ समय बाद अविवाहित पिया को कुष्ठ रोग हो गया। इसपर वह वन के किसी एकांत स्थान पर छोड़ दी गई। इसी वन में राम नामक एक राजा रहते थे। कुष्ठ रोग के कारण राजा राम भी, अपने पुत्र को राज्य देकर, वन में आए थे और औषधीय पौधों का सेवन कर स्वस्थ हो गए थे। इन्हीं पौधों द्वारा पिया की चिकित्सा करके, राम ने इससे विवाह किया और ३२ पुत्र उत्पन्न किए (१६ यमल)। इसके बाद उसने वन में 'कोलनगर' बसाया और शाक्य राजकुमारियों से अपने पुत्रों का विवाह करवाया। यही कोलिय वंश की उत्पत्ति की कथा है।

(३) **शाक्यों और कोलियों का युद्ध** : कोलिय-वंश में उत्पन्न भगवत बुद्ध ने शाक्यों और कोलियों में जो युद्ध प्रारंभ हुआ था, उसे शांत कर दिया।

(४) शाक्य तथा कोलिय प्रत्येक वंश के २५० राजकुमार भिक्षु बन गए थे। वे अपने वैराग्य में दृढ़ न होकर लौटने की अभिलाषा करते हैं। तब महात्मा बुद्ध उनको महा-कुणाल-जातक सुनाकर, उनकी ससार में आसक्ति को दूर करते हैं।

७५. डॉ० वेबर के अनुसार राम-कथा का विकास इस प्रकार हुआ—  
धम्मपद और सुत्तनिपात की टीकाओं में विमाता की ईर्ष्या के कारण राजसंति को वनवास दिया जाता है, भाई-बहन का विवाह होता है और राम के नाम का भी उल्लेख होता है।

दशरथ-जातक में विमाता के कारण वनवास और भाई-बहन के विवाह के साथ-साथ दशरथ, लक्ष्मण, भरत और सीता, ये नाम भी मिलते हैं और राम, पगए न होकर, राजकुमारों के ज्येष्ठ भाई बन जाते हैं।

रामायण में राजकुमारों की राजधानी वाराणसी से अयोध्या बन जाती है, वनवास का स्थान हिमालय से दंडकारण्य में बदल जाता है और राम

१. तीसरे और चौथे भाग के लिए दे० कुणाल जातक की वर्तमान कथा, जातक न० ५३६।

२. रचनाकाल के अनुसार तीनों रचनाओं का क्रम यों है—१. बुद्धघोष-कृत सुत्तनिपात टीका (४१०-४३२ ई०) २. जातक कटद्वण्णना ३. धम्म-पद टीका (४५० ई०)। दे० हार्वर्ड ओरियेंटल सीरिज भाग २८, पृ० ५८।

तथा सीता भाई-बहन न होकर प्रारभ ही से विवाहित होते हैं। इन परिवर्तनों के अतिरिक्त सीताहरण और रावणवध, ये नये वृत्तान्त भी जोड़े गए हैं।

रामायण में सीता के वनवास के अन्त तक कोई सतान नहीं होती, यह डॉ० वेबर के अनुसार दशरथ-जातक की कथा का प्रभाव है, जिसमें वनवास के बाद ही उनका विवाह होता है। वाराणसी का अयोध्या बनना भी बौद्ध कथाओं के कारण हुआ। शाक्य और कोलिय वंशों की राजधानियाँ क्रमशः कपिलवस्तु और कोलनगर थी; दोनों नगर अयोध्या के पड़ोस में थे। वनवास का स्थान इसलिए बदल गया है कि सीता-हरण और रावणवध का वृत्तान्त जोड़ना था। (अंतिम विषय का आधार यूनानी कवि होमर की रचना है, दे० आगे अनु० १२)।

७६. श्री दिनेशचन्द्र सेन भी दशरथ-जातक में राम-कथा का आधार और पूर्व-रूप देखते हैं। वे दशरथ-जातक को छठीं शताब्दी ई० पूर्वं का मानते हैं, रामायण में एकाध पाली गाथाओं का संस्कृत अनुवाद पाते हैं और अन्तरंग प्रमाण भी देते हैं—'रामायण और बौद्ध कथा की तुलना करने पर स्पष्ट है कि विश्वकवि वाल्मीकि ने कितने कौशल से इस अपरिष्कृत बौद्ध कथा को उत्कर्ष की सीमा तक पहुँचाया है।' इस तर्क का इस तरह प्रत्युत्तर दिया जा सकता है 'रामायण तथा बौद्ध-कथा की तुलना करने पर स्पष्ट है कि बौद्धों ने रामायण के कारुणिक कथानक को शोक की व्यथता के एक उपदेश मात्र में बदल दिया है।'

७७. डॉ० वेबर तथा श्री दिनेशचन्द्र सेन जातकों की गाथाओं और गद्य, इन दोनों की प्रामाणिकता में कोई भेद नहीं मानते यद्यपि दोनों के रचनाकाल में शताब्दियों का अन्तर है। यह तर्क दशरथ-जातक के विषय में विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें प्रायः समस्त कथा गद्य में ही दी गई है। पहली गाथा का जो प्रसंग दशरथ-जातक में दिया गया है, वह मौलिक नहीं है और अन्य गाथाओं का मूल स्रोत भी कोई पुराना रामायण से मिलता-जुलता उपाख्यान रहा होगा, यह सम्भवतः गाथाओं के उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट हो गया है।

इसके अतिरिक्त डॉ० वेबर के मत का खंडन करने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं :

(१) दशरथ-जातक की राम-कथा की अंतरंग समीक्षा करने पर वह रामायण की कथा का विकृत रूप मात्र सिद्ध होती है (दे० अगला परिच्छेद)।

(२) डॉ० वेबर का मत इस धारणा पर निर्भर प्रतीत होता है, 'जिस कथा में अपेक्षाकृत कम पात्र, कम घटनाएँ, कम तत्त्व मिलते हैं, वह निस्सन्देह पूर्वकृत होगी'। ऐसी धारणा निर्मूल है। इसका प्रमाण बशरथ-कथानम् में मिलता है। यह कथा एक संग्रह में पाई जाती है, जिसकी रचना दूसरी श० ई० के बाद हुई थी। इस बशरथ-कथानम् में सीता का या किसी राजकुमारी का कोई भी उल्लेख नहीं है।

राम-कथा का यह रूप दूसरी श० ई० के बाद भी बौद्ध जगत् के किसी प्रदेश में प्रचलित रहा होगा। अतः डॉ० वेबर के अनुसार राम-कथा के विकास के विभिन्न सोपान निर्धारित करने की युक्ति अत्यन्त अनुपयोगी सिद्ध होती है। बशरथ-कथानम् के रचनाकाल में वाल्मीकि रामायण भारतवर्ष में प्रसिद्ध हो चुका था। फिर भी डॉ० वेबर की युक्ति के अनुसार बशरथ-कथानम् के वृत्तान्त में इन सब रचनाओं के पहले की राम-कथा का रूप विद्यमान है।

(३) राम-कथा का विकसित रूप, जो वाल्मीकि रामायण में भी पाया जाता है, वह प्राचीनकाल में ही बौद्धों में प्रचलित था। इसके सकेत पाली जातकट्ठवण्णना की अन्य गाथाओं से मिलते हैं (दे० नीचे, अनु० ८३)। अनामकं जातकम् में भी राम-कथा का विकसित रूप मिलता है (दे० अनु० ५२)। इस जातक का २५४ ई० में चीनी भाषा में अनुवाद हुआ था।

इसके अतिरिक्त अश्वघोष, अभिषमं महाविभाषा आदि प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों में वाल्मीकि रामायण के निर्देश मिलते हैं।

७८. अश्वघोष। बुद्धचरित महाकाव्य से पता चलता है कि अश्वघोष (दूसरी शताब्दी ई० पूर्वार्द्ध) न केवल ब्राह्मण राम-कथा से लेकिन वाल्मीकिकृत रामायण के पाठ से भी परिचित थे और इससे अपनी सारी रचना में प्रभावित हुए हैं।

१. दे० मी० डब्लू गार्नर : अश्वघोष एंड दि रामायण । जर्नल एंड प्रोसीडिंग्स एशियाटिक सोसाइटी, भाग २३, पृ० ३४७-६७ ।

ए० बी० कीथ : संस्कृत लिटरेचर, पृ० ५९ ।

एम० विटरनिस्स : हि० इ० लि०, भाग १, ४९० और भाग २, २६२ ।

कावेल : दि बुद्धचरित ऑव अश्वघोष, भूमिका पृ० १२ ।

ई० एच० जान्स्टन : बुद्धचरित, भूमिका ।

राम का आज्ञापालन (९, २५), उनका वन से लौटना<sup>१</sup> (९, ६७), दशरथ का पुत्रवियोग के कारण शोक (८, ७९, ८१)—इन सब में राम-कथा के किसी निश्चित रूप की ओर निर्देश नहीं है। लेकिन वनवासी राम से वामदेव की भेट (९, ९), वाल्मीकि (१, ४८) तथा सारथि सुमंत्र (६, ३६; ८, ८) का उल्लेख—यह रामायणीय राम-कथा (विशेष करके अयोध्या कांड) से सम्बन्ध रखता है<sup>२</sup>।

इसके अतिरिक्त अवधघोष के सौन्दरनन्द मे वाल्मीकि की सीता के दोनों पुत्रों का शिक्षक होने का उल्लेख हुआ है। इससे यह ध्वनि निकलती है कि अवध-घोष उत्तरकांड की कथा-वस्तु से अभिन्न थे।

बुद्धचरित के अनेक स्थलों पर रामायण की कथावस्तु से बहुत कुछ समानता मिलती है। सिद्धार्थ के बिना छदक के कपिलवस्तु में लौटने का सारा वर्णन सुमंत्र के प्रत्यागमन से प्रभावित हुआ है। कवि स्वयं दोनों वृत्तान्तों की तुलना करते हैं—

त्वामरण्ये परित्यज्य सुमंत्र इव राघवं । (६, २६)

१ राम के वन से लौटने का एक अन्य उल्लेख भी मिलता है।

मही विप्रकृतामनार्यैस्तपोवनादैत्य ररक्ष राम । (९, ५९)

‘पृथ्वी को अनार्यों से पीड़ित देखकर राम ने वन से लौट कर उसकी रक्षा की।’ इसमें दशरथ-जातक तथा रामायण का छोड़कर राम-कथा के किसी अन्य रूप की ओर निर्देश है। यह संभवतः अनामकं जातकम् हुआ होगा।

२. रामायण में (५, ९-११) रावण की सोती हुई पत्नियों का जो चित्र अंकित किया गया है, इससे अवधघोष सिद्धार्थ के शयानागर के वर्णन में प्रभावित प्रतीत होते हैं (५, ४८-६२)।

गजेन्द्रमृषिताः फुल्ला लता इव महावने । (रा० ५, ९, ४७)

गजभग्ना इव कणिकारशाखा । (बु० ५, ५१)

इस प्रकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं, जिनसे स्पष्ट है कि दोनों वर्णनों का मूल-स्रोत एक है। यह वर्णन बुद्धचरित का एक आवश्यक अंश माना जाना चाहिए परन्तु रामायण में यह अनावश्यक लगता है। अतः इस वृत्तान्त का मूल-स्रोत बुद्धचरित ही है और यह रामायण में प्रक्षिप्त है—यह कोवेल और विटरनित्स का तर्क है। कीच मानते हैं कि अवधघोष इनमें रामायण का अनुकरण करते हैं। यह अंतिम मत अधिक समीचीन प्रतीत होता है।

और

मुमोक्ष वाण्यं पथि नागरो जनः पुरा रथे दाशरथेरिवागते (८, ८)

गीतमी के विलाप में (८, ५१-५८), जो राजमहल और वनवास का विरोध चित्रित किया गया है, वह रामायण में दशरथ (२-१२, ९७-१०१; २, ५८, ५-९) और कौशल्या के विलाप (२, ४३, १-२०) का स्मरण दिलाता है। दोनों में वनवासी पुत्र के पैदल जाने, भूमि पर शयन करने आदि का उल्लेख हुआ है।

प्रलंबबाहुर्मुंगराजविक्रमो महर्षभाक्षः कनकोक्खलद्युतिः।

विशालवक्षा घनदुन्दुभिस्थनस्तथाविधोऽप्याश्रमवासमर्हति ॥

(बुद्धचरित ८, ५३)

गजराजगतिर्वीरो महाबाहुर्धनुर्धरः।

वनभाविशते नूनं सभार्यः सलक्ष्मणः ॥

(रा० २, ४३, ६)

शुचौ शयित्वा शयने हिरण्यमये प्रबोधयमानो निशि तूर्वनिस्वर्गः।

कथं वत स्वप्स्यति सोऽद्यमे व्रतो पटेकदेशांतरिते महीतले ॥

(बु० ८, ५८)

दुःखस्यानुषितो दुःखं सुमंत्र शयनोचितः।

भूमिपालात्मजो भूमौ शोते कथमनाथवत् ॥

(रा० २, ५८, ६)

७९. तीसरी श० ई० उत्तरार्द्ध की अभिधर्ममहाविभाषा में रामायण का उल्लेख किया गया है। यह रचना चीनी अनुवाद में सुरक्षित है।<sup>१</sup> इसमें लिखा है—'रामायण नामक ग्रन्थ में १२००० श्लोक हैं। ये श्लोक केवल दो विषयों से सम्बन्ध रखते हैं, (१) रावण द्वारा सीता का हरण और (२) राम द्वारा सीता की पुनःप्राप्ति तथा (अयोध्या में) प्रत्यागमन। बौद्ध-ग्रन्थ इतने सरल नहीं होते। इनमें अपरिमित प्रकार की रचनाएँ मिलती हैं और इनके अर्थ असरूप होते हैं।'

इनके अतिरिक्त तीन बौद्ध रचनाएँ और मिलती हैं, जिनसे पता चलता है कि रामायण का बौद्धों में पर्याप्त प्रचार था<sup>१</sup>। कुमारलालकृत कल्पनामंडितिका

१. दे० केनः मेन्ग्युल ऑन बुद्धिज्म, पृ० १२१, ज० रा० ए० सो०, १९०७, पृ० ९९-१०३।

२. तीनों रचनाएँ केवल चीनी अनुवाद में सुरक्षित हैं।

दे० एम्० विटरनिक्स हि० इ० लि०, भाग २, पृ० २६९।

ए० बी० कीथः सस्कृत लिटरेचर, पृ० ८ (भूमिका), ५६।

के० वतानबेः ज० रा० ए० सो०, १९०७, पृ० ९९-१०३।

एस्० लेवीः जूर्नल अजियटिक, १९१८, पृ० १ आदि।



में (तीसरी श० ई० का अंत) महाभारत और रामायण का उल्लेख हुआ है। वसुबंधु (चौथी श० ई०) की जीवनी में भी यह कहा गया है कि वसुबंधु रामायण की कथा सुना करते थे। सद्धर्मस्मृत्युपाख्यानसूत्र में रामायण का विवरण उद्धृत है। यह रचना पहली शताब्दी ई० की मानी जाती है। इसका छठीं शताब्दी में चीनी भाषा में अनुवाद हुआ था।

### (आ) दशरथ-जातक की अन्तरंग समीक्षा

८०. राम-कथा का जो रूप पाली दशरथ-जातक के गद्य में मिलता है, वह या तो रामायण ही पर अथवा रामायण से मिलती-जुलती किसी अन्य राम-कथा पर निर्भर है। यह दशरथ-जातक की अंतरंग परीक्षा से सिद्ध होता है।<sup>१</sup>

रामायण में कैकेयी ने वर के बल पर राम के लिए चौदह वर्ष तक वनवास माँग लिया था, अतः राम का दशरथ के मरने के बाद वन में रहना स्वाभाविक और आवश्यक है। लेकिन दशरथ-जातक में इसके लिए कोई समीचीन कारण नहीं मिलता। दशरथ ने राम और लक्ष्मण से कहा था कि वे उनकी मृत्यु के पश्चात् लौटे। तब उन्होंने ज्योतिषियों से अपना अतकाल पूछा था। यह समझ कर कि मैं बारह वर्ष तक जीता रहूँगा, उन्होंने अपने पुत्रों से इस अवधि के अन्त में आने के लिए कहा था। फिर दोनों पुत्रों को एक ही आदेश मिला था। तब लक्ष्मण क्यों नौ वर्ष के बाद लौटते हैं ?

रामायण की कथा में सीता का अपने पति के साथ चले जाना स्वाभाविक है। दशरथ-जातक में इसके लिए कोई ऐसा कारण नहीं है। विमाता के षड्यंत्रों की सीता को कोई आशंका नहीं थी। जातक में सीता दशरथ के मरने पर लक्ष्मण के साथ राजधानी को लौट आती हैं और राम तथा सीता का तीन वर्षों के वियोग के बाद विवाह होता है। इसमें सम्भवतः रामायण के सीताहरण के पश्चात् दोनों का संयोग प्रतिबिम्बित है।

८१. अब प्रश्न यह उठता है कि यदि दशरथ-जातक ब्राह्मण राम-कथा पर निर्भर है तो दोनों में इतना अन्तर क्यों ? इसके तीन मुख्य कारण स्पष्ट हैं। एक तो दशरथ-जातक का जो रूप जातकदृष्टवर्णना में प्रस्तुत है, वह शताब्दियों तक अस्थिर रहने के बाद पौचवी शताब्दी ई० में लिपिबद्ध किया गया है।

१. दे० एच० याकोबी . वही पृ० ८५। सी० वी० वैद्य : वही, पृ० ७३।

अतः इसमें परिवर्तन की संभावना रही है, विशेष करके दूर सिंहलद्वीप में, जहाँ रामायण की कथा उस समय कम प्रचलित थी। दूसरे, बौद्ध आदर्श और शैली का प्रभाव भी पड़ना अत्यन्त स्वाभाविक है। तीसरे, दशरथ-जातक की वर्तमान कथा के अनुसार महात्मा बुद्ध ने पिता के मरण से शोकानुर पुत्र को धैर्य देने के लिए दशरथ के मरने पर राम के धैर्य का उदाहरण देकर यह जातक कहा था। इस उद्देश्य के लिए सीताहरण का उल्लेख अनावश्यक था। इसके अतिरिक्त इस जातक के अनुसार महात्मा बुद्ध ही अपने पूर्व जन्म में राम पंडित थे, अतः बौद्ध आदर्श के प्रतिकूल होने के कारण रावण-वध का अभाव स्वाभाविक है।

बौद्ध जातकों की शैली के अनुसार राजधानी, अयोध्या न होकर वाराणसी है। वनवास का स्थान हिमालय है, जो बौद्ध कथाओं में अत्यन्त लोकप्रिय है और जिसका उल्लेख जातकों में निरन्तर होता रहता है।

वनवास का कारण विमाता के षड्यंत्रों का भय है, जो अनेक अन्य बौद्ध कथाओं में भी मिलता है। राम और सीता, भाई-बहन का विवाह, महत्त्वपूर्ण परिवर्तन कहा जा सकता है लेकिन इसके लिए भी बौद्ध साहित्य में कई उदाहरण प्रस्तुत थे (दे० ऊपर अनु० ७३-७४ और कुणालजातक न० ५३६)।

दशरथ के अतकाल के विषय में ज्योतिषियों का कथन असत्य सिद्ध होता है। इसमें भी चिन्तामणि वैद्य बौद्ध प्रभाव देखते हैं। बौद्धों की ज्योतिषियों से जो अरुचि थी, यह इस भूल में प्रकट की गई है।

साराश यह है कि दशरथ-जातक में जो आंतरिक असंगति मिलती है, वह वाल्मीकीय कथा का इस जातक का आधार होना सिद्ध करती है। दूसरी ओर जातक तथा रामायण में जो अंतर पाए जाते हैं, वे भी उपर्युक्त कारणों से स्वाभाविक प्रतीत होते हैं।

## घ—पाली तिपिटक और रामायण

८२. बौद्ध साहित्य में जो राम-कथा-सम्बन्धी सामग्री मिलती है, उसके विश्लेषण से सिद्ध होता है कि दशरथ-जातक के गद्य में जो वृत्तान्त प्रस्तुत हुआ है, वह तो वाल्मीकीय राम-कथा का विकृत रूप है ही किन्तु इस जातक की गाथाओं का भी मूलस्रोत बौद्ध नहीं है। फिर भी इनका आधार प्रचलित वाल्मीकिकृत रामायण भी नहीं हो सकता। अतः ये गाथाएँ पुराने आख्यानकाव्य पर निर्भर होंगी (दे० अनु० ७२)।

अब प्रश्न यह उठता है कि पाली तिपिटक की गाथाओं में जो थोड़ी सी राम-कथा सम्बन्धी सामग्री सुरक्षित है, क्या वह रामायण का आधार माने

जाने के लिए पर्याप्त है ? इस प्रश्न को सुलझाने के पहले दशरथ-जातक को छोड़कर अन्य राम-कथा से सम्बन्ध रखने वाली सामग्री का निरूपण करना है, जो पाली तिपिटक में मिलती है।

८३. राम-कथा-संबंधी गाथाएँ। दशरथ-जातक की गाथाओं की छोड़ कर पाली जातकट्ठकण्णना में दो गाथाएँ और मिलती हैं, जिनमें राम और सीता का उल्लेख हुआ है। इनसे पता चलता है कि गाथाओं के कवि वाल्मीकीय राम-कथा से परिचित थे।

अयहिस-जातक (नं० ५१३) की गाथा १७ के अनुसार राम का वनवास हिमालय प्रदेश में न होकर दण्डकारण्य में है। एक माता अपने पुत्र से कहती है :

यं दण्डकारण्यगतस्स माता  
रामस्सका सोत्थानं सुगता  
तं ते अहं सोत्थानं करोमि ॥

“जिस तरह से दण्डकारण्यवासी राम की सुन्दर माता ने (अपने पुण्य द्वारा पुत्र का) कल्याण किया है, इस तरह मैं तेरा कल्याण (सोत्थानं स्व-स्त्ययन) करती हूँ।” दशरथ जातक के अनुसार राम के निर्वासन के समय उनकी माता का देहान्त हुआ था।

वेस्संतर जातक (नं० ५४७) में मद्दी, वेस्सतर की पत्नी कहती है,  
अवचट्ठस्सहं भरिया राजापुतस्स सिरीमतों।

तं चाहं नात्तिमण्णमि रामनि सीता वनुब्बता ॥ (गाथा ५४१)

‘मैं एक प्रतापवान् निर्बामित राजकुमार की भार्या हूँ। अनुयामिनी सीता जिस तरह से राम का आदर करती थी, इस तरह मैं इनका आदर करती हूँ।’ इससे यह ध्वनि निकलती है कि वनवास के समय राम और सीता का सम्बन्ध भाई-बहन का न होकर पति-पत्नी का था।

८४. सामजातक। सामजातक (नं० ५४०) का वृत्तान्त<sup>१</sup> रामायण की अंध-मुनि-पुत्रवध सम्बन्धी कथा (दे० २, ६३-४) का एक अन्य रूप मात्र है।

१. दे० जे० शार्पेटिये: वियेना ओरियेन्टल जर्नल, भाग २७, पृ० ९४; भाग २४ पृ० ३९७।

एच० ओल्डेन्बेर्ग: जातक स्टुडियन, जर्नल गेटिंगन सोसाइटी, १९१८, पृ० ४५६ आदि।

एम्० विंटरनिट्स: हि० इ० लि०, भाग १, पृष्ठ ५०६; भाग २, पृष्ठ १४७ आदि।

दिनेशचन्द्र सेन: वही पृष्ठ १५ आदि।

बौद्ध जगत् में इस जातक की लोकप्रियता का प्रमाण यह है कि साँची और अमरावती के स्तूपों पर तत्सम्बन्धी चित्र अंकित किए गए हैं। पाली जातकट्ठवग्गना के अतिरिक्त यह जातक महावस्तु (२, २०९) में श्यामक जातकम् के नाम पर और खरियापिटक (३, १३) में सुवण्णसामखरियम के नाम पर पाया जाता है। लेकिन इन दोनों का वृत्तान्त बहुत संक्षिप्त है और इनका आधार स्पष्टतया सामजातक ही है।

दूसरी ओर रामायण के अतिरिक्त अघ-मुनि-पुत्र वध की कथा रघुवंश (नवाँ सर्ग) आदि में भी मिलती है। परन्तु ये वृत्तान्त रामायण की तत्सम्बन्धी कथा पर निर्भर हैं और सामजातक से कोई सीधा संबंध नहीं रखते। अतः यहाँ पर पाली जातक और रामायण की कथा की तुलना पर्याप्त है। साम-जातक का संक्षिप्त वृत्तान्त इस प्रकार है—निषादों के कुल में उत्पन्न दुकूलक और पारिका हिमालय प्रदेश के किसी आश्रम में तपोमय जीवन बिताते हैं। विवाहित होकर भी वे ब्रह्मचारी ही रहते हैं। बोधिसत्व अलौकिक रीति से पारिका के गर्भ से जन्म लेते हैं और साम कहलाते हैं। साम के १६वें वर्ष में दुकूलक और पारिका दोनों को एक सर्प अन्धा कर देता है। उमी समय से साम अपने माता-पिता की सेवा-शुधूपा करने लगते हैं।

एक दिन साम नदी में पानी लेने जाता है। उस स्थल पर वह काशी के राजा (पिलियक) के विषैले वाण से बिद्ध होता है। राजा के पहुँचने पर उमें तनिक भी क्रोध नहीं आता किन्तु अपने अन्धे माता-पिता के भाग्य पर वह फूट-फूट कर रोने लगता है। राजा अन्धे माता-पिता के पास आकर उनके पुत्र के वध का समाचार देता है, जिसे गुनकर दुकूलक और पारिका रोने लगते हैं। उनके कहने से राजा दानों का पुत्र के मृत शरीर के पाम ले जाता है। माता-पिता मर्म-स्पर्शी विलाप करते हुए शपथ (सच्चक्रिया) करते हैं। पारिका कहती है—यदि मेरा पुत्र माता-पिता का सच्चा भक्त था तो विपलुप्त हो जाय। दुकूलक भी अपने और अपनी पत्नी के नाम पर 'सच्चक्रिया' करता है। वन-देवी भी उमी तरह करती है। साम उठ बैठता है और राजा का स्वागत करता हुआ कहता है—'मैं केवल मूर्छित हुआ था। जो माता-पिता की सेवा करते हैं, वे दोनों लोकों में सुख पाते हैं'। इसके बाद साम राजा पिलियक को राजधर्म का उपदेश देता है।

रामायण की कथा में अहत्त मुनि-पुत्र अधिक उत्तेजित हो जाता है, उसके माता-पिता का विलाप अधिक हृदयस्पर्शी तथा करुणाजनक होता है और अन्त

में वड़ पुनर्जीवित नहीं होता है। फिर भी दोनों वृत्तान्तों का पारस्परिक संबंध सिद्ध नहीं कहा जा सकता।

कथा के अतिरिक्त शाब्दिक साम्य भी पाया जाता है :

अयं एकपत्नी राज (गाथा २९)

इयमेकपत्नी राजन् (रा० २, ६३, ४४)

अद्वसक पितापुत्रा तयो एकसूना हता (गा० ३९)

बुद्धौ च मातापितरावर्हं चैकेषुणा हतः। (रा० ६३, ३२)

वृद्ध पिता के विलाप में एक पूरी गाथा भी रामायण के एक श्लोक से बहुत मिलती-जुलती है,

को दानि भुंजयिस्ससि वनमूलफलानि च

सामो अय कालकतो अंभानं परिचारक ॥ (गा० ८५)

कदमूलफलं हृत्वा यो मां प्रियमिवातिथिम्

भोजायिष्यत्यकम्पयमप्रग्रहमनायकम् ॥ (रा० ६४, ३४)

ऐसा प्रतीत होता है कि सामजातक के सरल वृत्तान्त में इस कथा का प्राचीन रूप सुरक्षित है<sup>१</sup>। यह वृत्तान्त राम कथा से स्वतंत्र रूप में प्रचलित था। आगे चल कर रामायण की कथा में उसे एक नया और काव्यात्मक रूप मिला है।

८५. वेस्सन्तर जातक। यह जातक बौद्धजगत में सबसे प्रसिद्ध और लोक-प्रिय था। इसकी ७८६ गाथाओं में राजकुमार वेस्सन्तर की दानवीरता का चित्रण हुआ है। कथावस्तु इस प्रकार है<sup>२</sup>—राजकुमार वेस्सन्तर ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं किसी भी मांगी हुई वस्तु के देने से इनकार नहीं करूँगा। देश की भलाई का ध्यान न रखते हुए उसने एक अलौकिक हाथी दान में दिया। दंड-स्वरूप उसको वनवास दिया गया। उसकी पतिभक्त पत्नी मही और दो पुत्र उसके साथ गए। वह चार घोड़ों के रथ में चले। पथ में एक ब्राह्मण भिखारी ने रथ माँग लिया। वेस्सन्तर ने उसे निस्संकोच दे दिया। अन्त में चारों एक

१ मही ओल्बेनवेर्ग और बिटरनित्स का मत है। शार्वेण्टिये रामायण की कथा पूर्वकृत मानते हैं।

२. दे० जातकटठवण्णना का अंतिम जातक नं० ५४७। इसका उल्लेख भिर्लिद पान्ह (४, १, ३५; ४, ८, १) और चारिया-पिटक (१, ९) में हुआ है।

दे० बिटरनित्स: हि० इ० लि०, भाग २, पृष्ठ १५१-२।

कुटी में पहुँच कर वहीं निवास करने लगे। तब सक (शक्र) एक कुरूप ब्राह्मण के वेश में दिखाई पड़े और उन्होंने वेस्सन्तर के दोनो पुत्रों को दास के रूप में माँगा और प्राप्त किया। तत्पश्चात् ब्राह्मण ने पत्नी को भी माँग लिया। इस पर ब्राह्मण अपना परिचय देता है और कथा आनन्दपूर्वक समाप्त होती है।

इस जातक में अनेक स्थलो पर राम-कथा से मिलते-जुलते प्रसंग मिलते हैं—राम के समान वेस्सन्तर का वनवास के पहले दान देना, कौशल्या का तथा वेस्सन्तर की माता का विलाप, वन और कुटी का वर्णन। मदी और सीता, दोनों अपने पति के साथ वन जाने के लिए अनुरोध करती हैं :

अग्निं निज्जालयित्वान एकजालसमाहितम् ।  
तत्थ मे मरणं सेव्यो यं चे जीवे तथा विना ॥

(गाथा ७३)

यदि मां दुःखितामेवं वनं नेतुं न चेच्छसि ।  
विषमग्निं जलं बाह्मास्थास्ये मृत्युकारणात् ॥

(रा० २, २९, २१)

लेकिन दोनो रचनाओं में कही भी अक्षरशः एकरूपता नहीं मिलती। जो समानता मिलती है, वह सभ्यतः आधिकारिक वस्तु के सादृश्य के कारण उत्पन्न हुई है। इस जातक तथा रामायण के पारस्परिक प्रभाव के प्रमाण नहीं दिए जा सकते हैं। इतना ही असदिग्ध है कि वेस्सन्तर जातक का रचयिता राम-कथा से परिचित था (दे० ऊपर अनु० ८३ में उद्धृत गाथा ४५१), लेकिन वह रामायण भी जानता था, इसके लिए वेस्सन्तर जातक में कोई आधार नहीं मिलता।

८६. संबुला जातक। संबुला जातक (न० ५१९) में पतिभक्त संबुला का वृत्तान्त दिया गया है। अपने कुष्ठरोगी पति राजकुमार सोत्थिसेन के साथ वनवासी बन कर वह उसकी सेवा में अपना जीवन बिताती है। किसी दिन एक दानव संबुला को वन में देखता है और उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता है। संबुला अस्वीकार करती है और सक (शक्र) द्वारा बर्बाद जाती है। इस घटना का वृत्तान्त सुनकर सोत्थिसेन अपनी पत्नी के सतीत्व पर संदेह करता है। यह देखकर संबुला एक 'सच्चकिरियम्' (सच्चक्रिया) द्वारा अपने पति को नीरोग कर देती है।

तथा भं सख्यं पालेतु पालयिस्सति चे ममं  
यथानं नाभिजानामि अञ्जं पियतरं तथा  
रतेन सख्यवञ्जनेन व्याधि ते वूपसम्मति (उपक्षमति) ।

(गाथा २७)

इसके बाद दोनों राजधानी लौट जाते हैं। कृतघ्न सोत्थिसेन अन्य स्त्रियों के साथ विलास करके अपनी पत्नी को दुःख देता है। अन्त में अपने पिता के कहने पर वह सबुला से क्षमा मागता है और दोनों का जीवन सुखमय बन जाता है।

सबुला और सीता, दोनों वनवामी पति की सेवा करती हैं। सबुला की सख्यक्रिया सीता की अग्निपरीक्षा के समय की शपथ का स्मरण दिलाती है। दानव और रावण, दोनों की धमकी में भी शाब्दिक समानता मिलती है 'यदि तुम मेरी महिषी बनने के लिए सहमत न हुई तो तुम मेरा प्रातः का भोजन (पातरासाय—प्रातराश) बन जाओगी।

नो चे तुवं महेशेय्यं संबुले कारयिस्ससि ।  
अलं त्वं पातरासाय मञ्ज्जे भक्खा भविस्ससि ॥

(गाथा १०)

द्वाभ्यामूर्ध्वं तु मासाभ्यां भर्तारं मामनिच्छतीम् ।  
मम त्वां प्रातराशार्थं सुदाश्छेत्स्यंति खंडशः ॥

(रा० ५, २२, ९)

८७. महासुतसोम जातक। इस जातक (न० ५३७) में एक गाथा पाई जाती है, जिसमें 'महासतो' ( बोधिसत्व ) एक 'पोरिसाद' (पुरुपाद) को भर्त्सना देकर कहते हैं—

पंच पंच नत्ता भक्खा खत्तियेन पजानता ।  
अभक्खं राजा भक्खेसि तत्त्मा अधम्मिको तुव ॥

(गाथा ५८)

यह राम के प्रति बालि की उक्ति का स्मरण दिलाता है :

पंच पंचनत्ता भक्खा ब्रह्मक्षत्रेण राघव ॥

(रा० ४, १७, ३९; मनु० ५, १७)

८८. आविष्कृतपट्टान जातक'। इस जातक (नं १७५) में किसी वानर की कथा है। वह ब्राह्मणों को परोसा जाने वाला भोजन पाने के लिए उनके समान सूर्य की उपासना करता है। इस कथा में एक ही गाथा उद्धृत है, जिसका रामायण अथवा महाभारत में कहीं भी रूपान्तर नहीं मिलता। वह गाथा राम-कथा से कोई सम्बन्ध रखती हो, इसके लिए कोई भी प्रमाण नहीं दिया जा सकता है। पाली गाथा इस प्रकार है :

सम्बेसु किर भूतेषु सन्ति सीलसमाहिता,  
पस्स साखामिगं जम्मं आविष्कं उपतिट्ठति ।

“प्राणियों की प्रत्येक जाति में कोई न कोई धार्मिक पाया ही जाता है : इस नीच वानर को देख लो, जो सूर्य की उपासना कर रहा है।”

पतञ्जलि के महाभाष्य में इस गाथा का संस्कृत रूपान्तर विद्यमान है, इसमें 'वानर सेना' का भी उल्लेख है, जिससे प्रतीत होता है कि बाद में इस गाथा का सम्बन्ध रामायण से जोड़ा गया है। वास्तव में 'उपस्था' के परस्मैपद तथा आत्मनेपद प्रयोग दिखलाने के लिए इस गाथा को उद्धृत किया गया है :

बहुनामप्यचित्तानामको भवति चित्तवान्  
पश्य वानरसैग्येऽस्मिन्यवर्कमुपतिष्ठते ॥  
सर्वं मस्थाः सचित्तोऽयमेषोऽपि हि यथा व्यम्  
एतवप्यस्य कापेयं यवर्कमुपतिष्ठति ॥

(उपान्मत्रकरणे १।३।२५)

८९. उपसंहार। श्री दिनेशचन्द्र सेन<sup>१</sup> का अनुमान है कि जातको के साहित्य से वाल्मीकि ने अपनी सामग्री प्राप्त की है और इसे अपनी अमर रचना के नए संचे में ढाला है। यह मत चिन्त्य है। जातको में राम-कथा से सीधा संबंध रखने वाली सामग्री इस प्रकार है :

'शोकापनोदन' का एक छोटा सा भाषण,  
जलक्रिया के विषय में एक गाथा,  
राम के राज्यकाल के विषय में एक गाथा,  
राम का दण्डकारण्य में वनवास का उल्लेख, और  
सीता का अपने पति के साथ वनगमन का उल्लेख ।

१. ज० से० रा० सो०, बम्बई र्वैच, १९२८, पृ० १३३।

२. दे० वही, पृ० २२ और एम० विंटरनित्स, वही, भाग १, पृ० ५०८।



इसके अतिरिक्त बेस्संतर जातक की कथा-वस्तु रामायण के वृत्तान्त से कुछ मिलती-जुलती है। संबुला तथा महासुतसोम जातक में एक-एक गाथा पाई जाती है, जिसका रूपान्तर रामायण में भी मिलता है। सामजातक का वृत्तान्त संभवतः दशरथ द्वारा अध-मुनि-पुत्र-व्रघ की कथा का आधार माना जा सकता है।

इस सामग्री की अल्पता का ध्यान रखकर यह निःसकोच कहा जा सकता है कि समस्त रामायण का आधार पाली गाथाओं में ढूँढना व्यर्थ है। रामायण राम-कथा-सम्बन्धी आख्यान-काव्य पर निर्भर है और इस आख्यान-काव्य की थोड़ी सी सामग्री पाली गाथाओं में आ गई है। इसका अर्थ यह है कि जिस समय पाली तिपिटक बनता रहा (चौथी शताब्दी ई० पू०), उस समय राम-कथा को लेकर पर्याप्त मात्रा में आख्यान-काव्य की रचना हो चुकी थी। क्या आगे बढ़कर यह भी कहा जा सकता है कि रामायण की भी रचना हो चुकी थी ?

उपर्युक्त सामग्री से ऐसा प्रतीत नहीं होता। सामजातक के अतिरिक्त पाली तिपिटक में केवल पाँच गाथाओं में रामायण के श्लोकों से शाब्दिक समानता पाई जाती है। यदि रामायण जैसे महाकाव्य की रचना हुई होती तो गाथाओं के कवि इससे कहीं अधिक प्रभावित हुए होते। इसके अतिरिक्त रामायण की अपेक्षा पाली तिपिटक की सामग्री पुराने आख्यान-काव्य की शैली और छंद से कहीं अधिक निकट है। सामजातक के वृत्तान्त में भी संभवतः अध-मुनि-पुत्र-व्रघ की कथा का प्राचीन रूप सुरक्षित है।

तिपिटक के ५४७ जातकों में यक्ष, दानव, नाग, रक्षस, बन्दर और अन्य असह्य पशु आदि के विषय में कितनी ही कहानियाँ मिलती हैं परन्तु कहीं भी राक्षस रावण अथवा हनुमान् आदि रामायण के अन्य कवियों का उल्लेख नहीं हुआ है।<sup>१</sup>

निष्कर्ष यह है कि तिपिटक के रचनाकाल में राम-कथा-सम्बन्धी स्फुट आख्यान-काव्य प्रचलित हो चुका था लेकिन रामायण की रचना उस समय नहीं हो पाई थी।

१. कई जातकों में मिथिला के जनकनामक राजाओं का उल्लेख पाया जाता है (मखादेव जातक, नं० ९; महाजनक जातक नं० ५३९; निमिजातक नं० ५४१)। इनका सम्बन्ध वैदिक साहित्य की जनक सम्बन्धी सामग्री से संदिग्ध नहीं है लेकिन इन जातकों में राम-कथा का निर्देशमात्र भी नहीं पाया जाता।

## ड—रामायण पर बौद्ध प्रभाव

१०. पिछले परिच्छेद के निर्णय के अनुसार पाली तिपिटक की रचना रामायण के पहले हुई थी। अतः रामायण पर बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ना असम्भव नहीं कहा जा सकता है। कई विद्वान् इस प्रभाव की आवश्यकता से अधिक महत्त्व देते हैं<sup>१</sup>।

दशरथ-जातक में एक प्राचीन बौद्ध कथा सुरक्षित है, जिसमें बौद्ध आदर्श के अनुसार घंटर्पवान् राम शोक पर विजय प्राप्त करते हैं। रामायण इस कथा पर निर्भर है और इसी तरह रामायण का मूलस्रोत बौद्ध ही है। डॉ० वेबर के इस मत का निरूपण तथा खडन प्रस्तुत अध्याय में हो चुका है। यहाँ पर इसका उल्लेख मात्र पर्याप्त है।

श्री दिनेशचन्द्र सेन का अनुमान है कि वाल्मीकि ने एक विशेष उद्देश्य से दशरथ-जातक का सरल वृत्तान्त विकसित कर दिया है। बौद्ध तपस्या और भिक्षुपन की प्रतिक्रियास्वरूप आदि कवि ने रामायण में हिन्दू गृहस्थ जीवन का आदर्श अपने पाठकों के सामने रखा है।

ह्वीलर<sup>२</sup> भी रामायण का उद्देश्य बौद्धों से जोड़ते हैं। इनके अनुसार रामायण का समस्त काव्य ब्राह्मण और बौद्ध दोनों धर्मों के मधुर्ष का प्रतीक है। राक्षसों में बौद्धों का अभिप्राय है। लका पर जो आक्रमण का वर्णन किया जाता है, उसमें सिंहल द्वीप के बौद्धों के प्रति वाल्मीकि का विरोध और द्वेष प्रकट हुआ है।

इस मत के विरुद्ध कहना पड़ता है कि एक तो लका और सिंहल द्वीप की अभिन्नता सदिग्ध है (दे० आगे अनु० ११३)। दूसरे, यदि वाल्मीकि ने राक्षसों के वर्णन में बौद्धों का चित्रण करना चाहा तो स्वीकार करना पड़ेगा कि उन्हें अपने अभिप्राय को छिपाने में पूर्णतया सफलता मिली है। राक्षस ब्राह्मणों के विरोधी अवश्य है, लेकिन वे स्वयं भी यज्ञ करते हैं और नरभक्षी भी कहे जाते हैं। रामायण में जो राक्षसों का चित्रण मिलता है, उसमें उनके बौद्ध होने का कोई भी निर्देश नहीं मिलता।

१ दे० एच० याकोबी : वही पृ०, ८८।

एम० विटरनित्स वही, भाग १, पृ० ५०९।

दिनेशचन्द्र सेन . वही, पृ० २३।

२. दे० जे० टी० ह्वीलर: दि हिस्ट्री ऑव इंडिया, भाग २ पृ० ७५, २२७ आदि।

समस्त रामायण में महात्मा बुद्ध का एक बार उल्लेख हुआ है। जाबाली वृत्तान्त के अन्तर्गत, राम बुद्ध को घोर और नास्तिक कहते हैं,

यथा हि घोरः सतथा हि बुद्धस्तथागतं नास्तिकमत्र बिद्धि।

(रा० २, १०९, ३४)

ह्वीलर के अनुसार जाबाली बौद्ध धर्म के प्रतिनिधि हैं और राम उनके विरुद्ध ब्राह्मण धर्म का पक्ष लेते हैं। लेकिन जाबाली बौद्ध धर्म का पक्ष न लेकर लोकायत दर्शन का प्रतिपादन करते हैं और राम इसका खंडन करते हुए नास्तिकों के प्रसंग में बुद्ध का उल्लेख मात्र करते हैं। इसके अतिरिक्त जाबाली का सारा वृत्तान्त निश्चित रूप से क्षेपक है और जिस अंश में बुद्ध का उल्लेख हुआ, वह इस वृत्तान्त के अन्तर्गत एक नया क्षेपक प्रतीत होता है (दे० आगे अनु० ४३१)। बुद्ध संबंधी श्लोक न तो गौडीय पाठ में मिलता है और न पश्चिमोत्तरीय पाठ में। अतः आविरामायण में न तो बुद्ध का कोई उल्लेख हुआ था और न बौद्ध धर्म के प्रत्यक्ष प्रभाव का कहीं भी असदिग्ध निर्देश मिलता था।

रामायण पर बौद्ध धर्म के परोक्ष प्रभाव के प्रश्न के विषय में इतना निश्चयात्मक उत्तर नहीं दिया जा सकता। रामायण की अपेक्षा महाभारत में कहीं अधिक कटु भाव, उग्र रणोत्सुकता, घोर युद्ध, अदमनीय विद्वेष आदि दिखलाई देते हैं। इसका कारण यह हो सकता है कि महाभारत की रचना पश्चिम भारत में हुई थी और रामायण की कोशल में, जहाँ सम्यता तथा संस्कृति का विकास आगे बढ़ चुका था। परन्तु इसके एक अन्य कारण की कल्पना की जा सकती है।

रामायण के रचनाकाल में कोशल में बौद्ध धर्म का पर्याप्त प्रचार हो चुका था अतः यह असंभव नहीं है कि वाल्मीकि ब्राह्मण धर्म के वातावरण में रहते हुए भी परोक्ष रूप से बौद्ध आदर्श से प्रभावित हुए थे। सीता का हिंसा के विरुद्ध भाषण (श्रीरं परप्रानाभिहिंसनम् आदि, दे० रा० ३, ९), जो बौद्ध अहिंसा का स्मरण दिलाता है, प्रक्षिप्त माना जा सकता है (दे० आगे अनु० ४५७)। लेकिन राम का अत्यन्त शांत और कीमल स्वभाव, उनकी सौम्यता आदि ध्यान में रखकर स्वीकार करना पड़ता है कि वे मुनि पहले हैं, क्षत्रिय बाद में। अतः इनके चरित्र-चित्रण में किञ्चित् परोक्ष बौद्ध प्रभाव देखना निर्मूल कल्पना नहीं प्रतीत होती है।

## राम-कथा का मूलस्रोत

११. आदिकवि वाल्मीकि के पूर्व राम-कथा सबधी आख्यान-काव्य प्रचलित हो चुका था और इसके आधार पर वाल्मीकि ने रामायण लिखा है, इसके सम्बन्ध में आजकल बहुत मतभेद नहीं है। लेकिन अनेक विद्वानों की धारणा है कि वाल्मीकि ने पहले-पहल दो अथवा तीन नितान्त स्वतन्त्र आख्यान एक ही कथा-सूत्र में ग्रथित करके राम-कथा की सृष्टि की है। प्रस्तुत अध्याय में इन विद्वानों के मत का निरूपण तथा खडन किया गया है।

### क—ए० वेबर का मत

१२. डॉ० वेबर के अनुसार राम-कथा का मूलरूप बौद्ध दशरथ-जातक में सुरक्षित है। इस कथा में सीताहरण तथा रावण से युद्ध का कोई उल्लेख नहीं मिलता। डॉ० वेबर का अनुमान है कि सीताहरण की कथा का मूल स्रोत सभ्यतः होमर में वर्णित पैरिस द्वारा हेलेन का हरण है और लका में जो युद्ध हुआ, उसका आधार सभ्यतः यूनानी सेना द्वारा त्राय का अवरोध है।<sup>१</sup>

इस मत के अनुसार राम-कथा के दो प्रधान मूलस्रोत होते हैं। दशरथ-जातक तथा होमर का काव्य। पिछले अध्याय में दशरथ-जातक की समस्या का पूरा विश्लेषण करने पर इस निर्णय पर पहुँचा गया है कि दशरथ-जातक की राम-कथा वाल्मीकीय राम-कथा का विकृत रूप मात्र है। अतः यहाँ पर केवल डॉ० वेबर के दूसरे मूलस्रोत पर विचार करना पर्याप्त होगा।

दशरथ-जातक राम-कथा का एक आधार है, इससे अब तक कई विद्वान सहमत हैं लेकिन होमर के काव्य को रामायण अथवा राम-कथा का एक आधार मानने के लिए डॉ० वेबर को छोड़कर कोई भी तैयार नहीं है<sup>२</sup>।

१. ए० वेबर और दि रामायण, पृ० ११ आदि।

२. दि० के० टी तेलंग : वाज् रामायण कॉपीड फ्रॉम होमर, बम्बई १८७३।

एम० मोनियोर बिलियम्स : इंडियन विजडम, पृ० ३१६ टि० १।

एच० याकोबी : वही, पृ० ९४ आदि।

ए० ए० मँकडॉनल : संस्कृत लिटरेचर, पृ० ३०८।

प्रारंभ से ही प्रायः सब विद्वानों ने इसका विरोध किया है। यवनों, पल्लवों तथा शकों आदि का समस्त प्रामाणिक रामायण में कही भी उल्लेख नहीं हुआ है। होमर के काव्य में नावों को बहुत महत्त्व दिया गया है। यदि वाल्मीकि इससे परिचित होते तो उन्होंने सेना को समुद्र के पार पहुँचाने के लिए सेतु के स्थान पर नावों का सहारा अवश्य लिया होता। होमर तथा वाल्मीकि की रचना में जो साम्य मिलता है (स्त्री का हरण तथा धनुष-संधान), वह इतना सामान्य और साधारण है कि जब तक अन्य विशेषताओं में कोई साम्य नहीं मिलता तब तक पारस्परिक प्रभाव मानने की आवश्यकता नहीं है। डॉ० वेबर ने बौद्ध साहित्य में होमर के अन्य वृत्तान्त भी दिखलाए हैं लेकिन ये उद्धरण पहले-पहल महावंश तथा बुद्धघोष की रचना में विद्यमान है। ये दोनों ग्रन्थ पाँचवीं श० ई० के है, अतः इनकी रचना वाल्मीकि के आठ शताब्दियों के बाद हुई थी। इनसे वाल्मीकि के मूलस्रोत के लिए कोई प्रमाण नहीं मिल सकता।

### ख—एच० याकोबी का मत

९३. डॉ० वेबर की भांति डॉ० याकोबी भी राम-कथा के दो प्रधान आधार मानते हैं। उनका कहना है कि रामायण की राम-कथा स्पष्टतया दो स्वतन्त्र भागों के संयोग में उत्पन्न हुई है। प्रथम भाग अयोध्या की घटनाओं से सम्बन्ध रखता है और इसमें दशरथ प्रधान नायक हैं। द्वितीय भाग में दण्ड-कारण्य तथा रावणवधसम्बन्धी कथा मिलती है, इसका मूलस्रोत वेदों की देवतासम्बन्धी कथाएँ प्रतीत होती हैं। बहुत से विद्वान् डॉ० याकोबी के इस मत का आज-कल भी समर्थन करते हैं।

डॉ० याकोबी रामायण का प्रथम भाग, अर्थात् अयोध्या की घटनाएँ ऐतिहासिक मानते हैं। यह भाग किसी निर्वासित इक्ष्वाकुवंशीय राजकुमार की कथा पर निर्भर है। मूलकथा संभवतः इस प्रकार थी—कोई राजकुमार घर से निर्वासित होकर इक्षुमति के तट को छोड़कर सरयू के तटवर्ती कोशलदेश पर अधिकार प्राप्त करता है। बाद में जब उसके इक्षुमति पर निवास का स्मरण न रहा तब वह अयोध्या से ही निर्वासित माना गया।

१. दे० एच० याकोबी : वही, पृ० ८६, १२७ टि०।

ए० ए० मैकडोनल : वही, पृ० ३११।

ए० बी० कीथ : सस्कृत लिटरेचर, पृ० ४३।

२. चंद्रभानु : वैदिक साहित्य में राम-कथा का बीज। नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ५५, पृ० ३०१-३०५

रामायण के द्वितीय भाग का आधार निर्धारित करने के लिए डॉ० याकोबी वैदिक साहित्य का सहारा लेते हैं। वैदिक साहित्य में जो राम-कथा सम्बन्धी सामग्री मिलती है, उसका विस्तृत निरूपण तथा विश्लेषण निबन्ध के प्रथम अध्याय में किया गया है। निष्कर्ष यह है कि वैदिक काल में न तो रामायण था और न राम-कथा सम्बन्धी गाथाएँ प्रचलित थीं। डॉ० याकोबी इस निर्णय से असहमत नहीं हैं। लेकिन यह स्वीकार करते हुए भी कि सीता, कृषि की अधिष्ठात्री देवी का वैदिक साहित्य में न तो कोई चरित्र-चित्रण मिलता है, न इनके विषय में कोई कथावस्तु ही मिलती है और न इनकी ऐतिहासिकता का ही कोई प्रमाण है; फिर भी वैदिक सीता के व्यक्तित्व से रामायण की सीता विकसित हुई और वैदिक साहित्य में राम-कथा के द्वितीय भाग का सूत्रपात मिलता है, यही डॉ० याकोबी तथा कुछ अन्य विद्वानों का मत है।<sup>१</sup>

१४. डॉ० याकोबी की धारणा यह है कि रामायण के प्रधान पात्रों का प्रतिबिम्ब वैदिक साहित्य के देवताओं में देखा जा सकता है। उनके अनुसार रामायण की सीता तथा वैदिक सीता की अभिन्नता अस्पष्ट है। इसके अतिरिक्त गृह्यसूत्रों में सीता 'पर्जन्यपत्नी' तथा इन्द्रपत्नी कही गई हैं। इससे स्पष्ट है कि राम इन्द्र का एक अन्य रूप मात्र है। वैदिक काल के पशुपालन करने वाले आर्यों के देवता 'इन्द्र' बाद के कृषकों के लिए परिवर्तित होकर 'राम' बन गए हैं। पूर्व भारत में वह 'राम दाशरथि' के रूप में तथा पश्चिम में 'बलराम' के रूप में स्वीकृत किए गए थे। बलराम और इन्द्र दोनों मद्यप हैं। यह विशेषता उनकी मौलिक अभिन्नता की ओर निर्देश करती है। राम दाशरथि और इन्द्र की अभिन्नता को प्रमाणित करने के लिए डॉ० याकोबी इन्द्र के दो प्रसिद्ध कार्यों का प्रतिबिम्ब रामायण में देखते हैं।

इन्द्र का सबसे महत्वपूर्ण कार्य वृत्रामुर का वध वैदिक साहित्य में प्रसिद्ध है (ऋग्वेद १, ३२)। इन्द्र इस वृत्रामुर को (जो ऋग्वेद में 'अहि' कहा गया है) मारने हैं और पर्वतों में रोका हुआ पानी विमुक्त कर देते हैं। सायण के अनुसार वृत्र का अर्थ मेघ है, जिसमें पानी वृत्र ही के द्वारा रोका जाता है। इन्द्र और वृत्र का यह वृत्तान्त राम और रावण के युद्ध के रूप में प्रतिबिम्बित होता है। अतः रावण और वृत्र का मूलरूप एक है।

१. दे० रमेशचन्द्र दत्त एहिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इन एन्ध्र इंडिया, पृ० २११।

एस० के० नैलबलकर उत्तररामचरित, भूमिका, पृ० ५९।

२. एक अन्य मत के लिए दे० विटरनित्स. वही, भाग १, पृ० ८३।

इसके अन्य लक्षण भी मिलते हैं—रावण के पुत्र मेघनाद की उपाधि इन्द्र-जित् है और उसका भाई कुम्भकर्ण एक गुफा में रहकर वृत्र का स्मरण दिलाता है।

इन्द्र का दूसरा कार्य पणियों द्वारा चुराई हुई गायों की पुनःप्राप्ति है (ऋग्वेद २, १२)। देवशुनी सरमा, रसा नदी को पार करके इन गायों का पता लगाती है (ऋग्वेद १०, १०८)। वैदिक काल के पशुपालन करने वाले आर्यों के लिए गायों का जो स्थान था, वही कृषकों के लिए खेतों की सीता का था। फलस्वरूप गायों का हरण सीताहरण में बदल गया। जिस तरह से सरमा इन्द्र की सहायता करती है, उसी तरह हनुमान् राम के लिए सीता की खोज करते हैं।

९५. आजकल हनुमान् विशेषकर गाँवों में लोकप्रिय हैं। इनका रामायण में जो चरित्र-चित्रण हुआ है, वह इस लोकप्रियता का एक मात्र कारण नहीं हो सकता। अतः डॉ० याकोबी अनुमान करते हैं कि हनुमान् कृषिसम्बन्धी कोई देवता थे, संभवतः वर्षाकाल का अधिष्ठाता देवता। वह तो वायु का पुत्र है, बादलों के समान कामरूपी है और आकाश में उड़ता है। वह दक्षिण की ओर से, जहाँ से वर्षा आती है, सीता अर्थात् कृषि के सम्बन्ध में शुभ समाचार लिए राम के पास पहुँचता है। इसके अतिरिक्त इन्द्र का एक नाम 'शिप्रवत्' (ऋग्वेद ६, १७, २) है। निश्चित में लिखा है—शिप्रे हनु नासिके वा, अतः इससे इन्द्र और हनुमान् इन दोनों वर्षा-देवताओं का सम्बन्ध निर्दिष्ट होता है।

लक्ष्मण राम के सहायक मात्र हैं। वे कहीं भी घटनाओं की प्रगति को बदलने की चेष्टा नहीं करते। फिर भी उनका वैदिक देवता मित्र से सम्बन्ध असम्भव नहीं है क्योंकि वे तो सुमित्रा के पुत्र ही हैं।

रामायण के अन्य पात्रों और घटनाओं के विषय में डॉ० याकोबी बहुत ढूँढ़ने पर भी वैदिक साहित्य में कोई समानता न पा सके।

९६. डॉ० याकोबी के इस मत के विरुद्ध हम सामान्य रूप से कह सकते हैं कि इसमें कल्पना प्रधान है, लेकिन इस कल्पना को प्रमाणित करने के लिए तर्क कम दिये जाते हैं।

१. इससे उनका नाम 'मारुति' भी है। यह नाम वृत्र के विरुद्ध इन्द्र तथा मारुतों के सथ का स्मरण दिलाता है।

रामायण की सीता के वृत्तान्त पर हम भी वैदिक सीता के व्यक्तित्व का प्रभाव मानते हैं। लेकिन दोनों में जो भिन्नता है, वह समानता की अपेक्षा कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है।

राम और इन्द्र की अभिन्नता बहुत चिन्त्य है। रावणवध और वृत्रवध तथा सीताहरण और गायोके चुराए जाने में जो थोड़ा सी समानता है, वह इस अभिन्नता को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वैदिक काल के अन्त में सीता अवश्य एक बार पर्जन्यपत्नी और एक बार इन्द्रपत्नी कही गई है, लेकिन इस कारण इन्द्र और राम का मूलरूप एक मानना नितान्त अनावश्यक है<sup>१</sup>। वैदिक साहित्य में बहुत सी कथाएँ और वृत्तान्त मिलते हैं, जिन से स्पष्ट है कि साधारण प्रवृत्ति यह है कि जो देवता और पात्र प्रारम्भ में भिन्न थे उनमें सम्बन्ध रखनेवाली घटनाएँ बाद में मिला दी जाती हैं। डॉ० याकोबी हमको विपरीत दिशा में ले जाना चाहते हैं। फिर यदि राम और इन्द्र का मूलरूप एक है, तब यह समझना कठिन हो जाता है कि राम के चित्रण में इन्द्र के अत्यन्त स्पष्ट व्यक्तित्व की असह्य विशेषताओं का लोप क्यों हो गया है<sup>२</sup>। रावण और वृत्रामुर में वध किए जाने के अतिरिक्त कोई विशेष समानता नहीं है। वृत्र ऋग्वेद में कही भी इन्द्रजित् के अत्यन्त अनुपयुक्त नाममें विभूषित नहीं किया जाता है। यदि हमको मेघनाद को इन्द्रजित् अर्थात् गमजित् समझना है तब यह नाम भी उचित नहीं है।

हनुमान् के सम्बन्ध में भी डॉ० याकोबी का यह अनुमान ठीक है कि उनकी व्यापक लोकप्रियता का एकमात्र कारण उनका रामायण में चरित्र-चित्रण नहीं हो सकता। इसका कारण यही प्रतीत होता है कि प्राचीन यक्ष-पूजा के साथ हनुमान् का सम्बन्ध स्थापित किया गया है (दे० अनु० ७१०) वर्षाकाल के किमी अधिष्ठाना देवता अथवा इन्द्र में हनुमान् की अभिन्नता का कहीं भी प्रमाण क्या, संकेत मात्र भी नहीं मिलता।

इन सब आपत्तियों को ध्यान में रख कर हम निस्संकोच कह सकते हैं कि रामायण की उत्पत्ति और इसके मूलरूप के सम्बन्ध में डॉ० याकोबी का मत समीचीन नहीं प्रतीत होता।

९७ ई० हॉपकिन्स के अनुसार महाभारत के शान्ति पर्व में जो राम-कथा मिलती है, इससे डॉ० याकोबी के मत की पुष्टि होती है। इस कथा में जो

१. दे० एच० ओल्डेंबर्गे. डी रलिंगियोन डेस वेद, प्र० ५७ टि०।

२. दे० वॉन नेगेलान्न वियेना जोरियन्टल जर्नल, भाग १६, पृष्ठ २४८।



राम का चरित्र मिलता है वह किसी प्राचीन देवता सम्बन्धी आख्यान पर निर्भर होया । बाद में इससे सीता, कृषि की अधिष्ठात्री देवी की कथा जोड़ दी गई है और अन्त में वाल्मीकि ने रावण, हनुमान्, लका आदि के वृत्तान्त लेकर उसे और बढ़ाया है ।<sup>१</sup>

राम का व्यक्तित्व इन्द्र की कथाओं से विकसित हुआ हो, यह तो शांति-पर्व के प्रसङ्ग के विरुद्ध है । वहाँ १६ राजाओं के सक्षिप्त वृत्तान्त दिए जाते हैं—सब महान् थे, लेकिन सबके सब मर गए । अतः सृंजय को अपने पुत्र की मृत्यु के कारण शोक नहीं करना चाहिए ।

इसके अतिरिक्त शांतिपर्व के वृत्तान्त में एक वाक्य मिलता है, जिससे स्पष्ट है कि वह विकसित राम-कथा पर निर्भर है :

स चतुर्वंशवर्षाणि बने प्रोष्य महात्तपाः ।

वशाश्वमेधां जारुष्यानाजहार निरगंलान् ॥

(म० भा० १२, २९, ५३)

इसमें चौदह वर्ष तक वनवास के बाद अश्वमेधो का स्पष्ट उल्लेख है । ई० हॉपकिन्स के अनुसार वनवास का अभिप्राय यहाँ वानप्रस्थाश्रम से है । लेकिन एक तो चौदह वर्ष राम-कथा का स्मरण दिलाता है और दूसरे वन-वास के बाद ही अश्वमेध का उल्लेख है । अतः यहाँ राम के वानप्रस्थ बनने का अर्थ असंभव है ।

९८. डॉ० वान नेगैलैन के अनुसार भी राम-कथा वैदिक साहित्य की सामग्री से विकसित हुई है । वास्तव में उनका मत कष्टकल्पना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । अतः उसका विस्तृत निरूपण यहाँ अनावश्यक है ।<sup>२</sup> सार यह है कि पुरुरवा-उर्वशी (ऋग्वेद १०, ९५) आदि अप्सराओं का मनुष्यों के साथ विवाह राम-कथा का बीज है । सीता के सौंदर्य और उनके अलौकिक जन्म का उल्लेख उनके अप्सरा होने का निर्देश है । सीता पृथिवी के मानवीकरण का परिणाम है । राम और पृथु वन्य (ऋग्वेद १, ११२, १५ आदि) अभिन्न हैं । पृथु पृथिवी का पुंलिंग मात्र है । इत्यादि ।

९९. राम-हुवास्त्र । डॉ० याकोबी ने अपने उपर्युक्त मत के प्रतिपादन के पश्चात् आगे चलकर अनुमान किया है कि इरानीय राम-हुवास्त्र तथा भारतीय इन्द्र-राम का

१ ई० डब्लू हॉपकिंस : ज० अ० अॉ० सी०, भाग ५०, पृष्ठ ८५ आदि ।

२. दे० वान नेगैलाइन : बियेना ओरियेंटल जर्नल, भाग १६, पृष्ठ २२६ ।

एम्० विटरनिस्स : वही, भाग १, पृ ५१६ ।

मूल-स्रोत एक है। लेकिन वह स्वयं स्वीकार करती है कि 'अवेस्ता' के देवताओं के अस्पष्ट और धुंधले व्यक्तित्व के कारण इस प्रश्न का निर्णय असंभव है।<sup>१</sup>

राम-हुवास्त्र (ह्वास्त्र) का उल्लेख 'जेंद अवेस्ता' में प्रायः वायु तथा मिथु के साथ होता है<sup>२</sup>। राम का अर्थ है 'शांति, विश्राम', हुवास्त्र का अर्थ है 'चरागाह'; राम-हुवास्त्र का अर्थ है 'चरागाह में विश्राम'। प्रारंभ में वायु तथा मिथु से राम-हुवास्त्र (अर्थात् चरागाह में विश्राम) के लिए प्रार्थना की जाती थी। बाद में राम-हुवास्त्र स्वयं देवता बन गया। वायु दो प्रकार का माना जाने लगा, एक मला और एक बुरा। राम-हुवास्त्र तथा अच्छा वायु अभिन्न है।<sup>३</sup> इस राम-हुवास्त्र के नाम पर एक पूरा यज्ञ जेंद अवेस्ता में मिलता है। इसका रचनाकाल चौथी श० ई० पू० माना जाता है।<sup>४</sup> इस यज्ञ में भी राम-हुवास्त्र का कोई स्पष्ट व्यक्तित्व अंकित नहीं है और हम देवता की उत्पत्ति ध्यान में रखकर हम निःसंकोच कह सकते हैं कि ईरानीय राम-हुवास्त्र तथा भारतीय राम-शाशरथि का कोई संबंध नहीं होता।

१००. यहाँ एक अन्य राम नामक देवता का उल्लेख असंगत नहीं होगा। एक असिरियन देवता का नाम है रम्मन अथवा रम्मानु, (हीब्रू में इसका नाम रिमोन है तथा सिरियन में हदाद)। रमानु की घातु का अर्थ है मेषार्जन और वह बज्रपात, आँधी तथा वृष्टि का देवता माना जाता था।<sup>५</sup>

हीब्रू में 'राम' भातु का अर्थ है ऊँचा, श्रेष्ठ। बाइबिल में इस घातु से अनेक नपरो के नाम तथा दो तीन व्यक्तियों के नाम भी मिलते हैं।<sup>६</sup>

१. दे० एच० याकोबी : वही, पृष्ठ १३६।
२. दे० सेफ्रेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट, भाग २३ और ३१।
३. दे० वही, भाग ३१, पृष्ठ ३२३, छद १५।
४. दे० डारमस्टेटरः एट्टड इरानियन (भाग २, १९३) और ले जेंद अवेस्ता (भाग २, ३०९)।
५. ई० एम० कागा दि एज ऑव यज्ञतस, ए वाल्यूम ऑव ईस्टर्न एंड इंडियन स्टडीज़, पृष्ठ १३४-४०।
६. दे० ए० संगनड : वैबीलोनियन-एसिरियन डिक्शनरी। आर० हुसो ले देकुबेट दि रास शकरा (पेरिस १९४१) और ले रक्तिजियो दि बैबिलोनी ए डासिरी (पेरिस १९४५) पृ० ९८।
७. दे० एफ० दिगुरुः दिकसियोनेर दि ला बिबल, पेरिस।

### ग—दिनेशचन्द्र सेन का मत

१०५. डॉ० वेबर तथा डॉ० याकोबी की भाँति दिनेशचन्द्र सेन भी राम-कथा के दो प्रधान मूल स्रोत मानते हैं ।<sup>१</sup> एक तो बशरथ-जातक जो उत्तर भारत में प्रचलित था तथा दूसरे रावण-सम्बन्धी आख्यान जो मुख्यतया दक्षिण में प्रचलित थे। इन दोनों के संयोग से राम-कथा उत्पन्न हुई है। एक तीसरा लेकिन गौण आधार हनुमान्-सम्बन्धी सामग्री है, जिसमें प्राचीन वानर-पूजा का अवशेष देखा जा सकता है।

बशरथ-जातक राम-कथा का पूर्व रूप तथा आधार नहीं हो सकता है, सके प्रमाण पिछले अध्याय में दिए गए हैं। यहाँ दिनेशचन्द्र के दो अन्य आधारों पर विचार किया जायगा।

रावण-सम्बन्धी स्वतन्त्र आख्यान प्रचलित थे, जिनका प्रधान विषय था, रावण की धार्मिकता, तपस्या तथा महत्त्व। इस मत को सिद्ध करने के लिए बौद्ध तथा जैन साहित्य का सहारा लिया जाता है। जैन राम-कथा में (दिनेशचन्द्र सेन केवल हेमचन्द्र का उल्लेख करते हैं) राक्षसवश तथा वारनवंश का जो विस्तृत वर्णन मिलता है, यह इस बात को पुष्ट करता है कि राम की अपेक्षा राक्षस तथा वानर अधिक लोकप्रिय थे। लंकावतार सूत्र में रावण तथा बुद्ध का धर्म के विषय में सवाद उद्धृत है और इस ग्रंथ में कहीं भी रावण-राम युद्ध की ओर निर्देश मात्र भी नहीं मिलता। अतः रावण (लंका का राजा) राम-कथा की उत्पत्ति के पहले प्रसिद्ध हो चुका था। धर्मकीर्ति (६ठीं श० ई०) भी आदर्श बौद्ध राजा रावण को रामायण के दोषारोपण से बचाने का प्रयत्न करता है। यही संक्षेप में दिनेशचन्द्र सेन का तर्क है।

१०२. सबसे पहले कहना है कि रावण जैनियों के अनुसार जैन-वर्माधरम्बी था और बौद्धों के अनुसार बौद्ध था। अतः दोनों में से कम से कम एक धारणा प्राणक है।

जैनियों के साहित्य में रावण की कथा स्वतन्त्र रूप से नहीं मिलती। रावण का उल्लेख केवल राम-कथा में ही किया जाता है और जैन राम-कथा स्पष्टतया बाल्मीकीय राम-कथा पर निर्भर है (दे० ऊपर अनु० ५७)। अतः जैन साहित्य में राम-कथा का मूल स्रोत ढूँढना व्यर्थ है।

बौद्ध लंकावतार सूत्र (अथवा सद्धर्म-लंकावतार सूत्र) के विषय में दिनेशचन्द्र सेन का तर्क अधिक महत्त्वपूर्ण है। यह रचना पहले दूसरी श० ई० की मानी

१. दे० दिनेशचन्द्र सेन: वही, पृष्ठ ३, ७, २६-४१, ५९।

जाती थी और इसका प्रथम अध्याय (जिसमें लंकापति रावण तथा बुद्ध का संवाद मिलता है) प्रामाणिक माना जाता था। लेकिन आजकल इसके प्रमाण मिलते हैं कि लंकावतार सूत्र चौथी शताब्दी ई० का है और उसका प्रथम अध्याय प्रक्षिप्त है।<sup>१</sup> मूल भारतीय पाठ अप्राप्य है। गुणभद्र ने उसका ४४३ ई० में अनुवाद किया था। इस चीनी अनुवाद में रावण-बुद्ध-संवाद नहीं मिलता और रावण का कोई उल्लेख नहीं है। ५१३ ई० में इस रचना का पुनः चीनी भाषा में अनुवाद किया गया है और इस छठी शताब्दी के अनुवाद में एक नया प्रथम अध्याय मिलता है, जिसमें रावण धर्म के विषय में बुद्ध से प्रश्न करता है। इस अध्याय के प्रक्षिप्त होने के अंतरंग प्रमाण भी मिलते हैं। अन्य अध्यायों में गद्य और पद्य का सम्बन्ध ऐसा है कि पद्य-गद्य का अर्थ दुहराता है, तथा सारी रचना बुद्ध तथा बोधिसत्व महामति के संवाद के रूप में है। उनमें कहीं भी रावण का उल्लेख नहीं मिलता। केवल प्रथम अध्याय में पद्य गद्य का अर्थ नहीं दुहराता और इसमें किसी कोई सामग्री नहीं है, जो सूत्र को समझने के लिए आवश्यक हो। डी० टी० मुजूकी का अनुमान है कि राम-कथा की लोकप्रियता के कारण लंकावतार सूत्र का सम्बन्ध इसमें जोड़ा गया है। लंकावतार का अर्थ है बुद्ध का लंका में अवतार। लंका दक्षिण में मानी जाती थी। इसके अतिरिक्त राम-कथा-विषयक कोई भी निर्देश नहीं मिलता।

रावण सिंहल द्वीप का राजा हुआ हो, इसके लिए भी वहाँ के प्राचीनतम ग्रंथों में कोई प्रमाण नहीं पाया जाता। दीपवश (चौथी श० ई०) तथा महावंश (पाँचवीं श० ई०) सिंहल द्वीप के भव से प्राचीन ऐतिहासिक काव्य हैं। इनमें राम-कथा का निर्देश मिलता है (दे० महावण ६४, ४२)। लेकिन सिंहल द्वीप के राजा रावण का कहीं भी उल्लेख नहीं पाया जाता है।

१०३. वाल्मीकि के पहले हनुमान् के विषय में आख्यान-काव्य प्रचलित रहा होगा और वाल्मीकि ने उसका प्रयोग अपनी राम-कथा के लिए किया होगा, किंशचन्द्र की इस धारणा के लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता। यह अनुमान मात्र ही है। वैदिक साहित्य में हनुमान् का कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ है। बौद्ध तिपिटक के जातको में भी हनुमान् का नाम नहीं आया, अतः उनके विषय में राम-कथा के पहले स्वतन्त्र आख्यान प्रचलित थे, यह बहुत संदिग्ध है। समुग्ग-जातक (जातक न० ४३६) में एक वायुस्स पुत्त नामक विद्याधर का उल्लेख मिलता है, जो ऐंद्रजालिक था

१. एम्० विटरनित्स : वही भाग २, पृ० ३३७।

डी० टी० मुजूकी : स्टडीज इन द लंकावतार सूत्र, लन्दन, १९३०।

२ अन्यत्र भी वायुस्स पुत्त का अर्थ ऐंद्रजालिक है। दे० जर्मन ओरियेन्टल जर्नल : भाग १३, पृ० ८९।

लेकिन इसके संबंध में न तो हनुमान् का उल्लेख हुआ है और न किसी अन्य वानर का।

'हनुमान्' शब्द संभवतः एक द्रविड़ शब्द का संस्कृत रूपांतर है (आण-नर, मन्दि-कपि) जिसका अर्थ है 'नरकपि'। इसी कारण अनुमान किया गया है कि वृषाकपि तथा हनुमान् दोनों किसी प्राचीन द्रविड़ देवता के नाम के रूपान्तर हैं।<sup>१</sup> इस अनुमान का आधार निर्मूल है। वृषाकपि का अर्थ नरकपि न होकर वाराह अथवा एकभ्रूंग वाराह होता है। महाभारत में वृषाकपि को अनेक आर्य देवताओं (विष्णु, शिव, इंद्र आदि) से अभिन्न माना गया है।<sup>२</sup> ऋग्वेद में (दे० १०, ८६) में जो वृषाकपि का उल्लेख है, वह संभवतः एक सूर्य देवता है, जिसका प्रतीक वाराह था।<sup>३</sup> अतः ऋग्वेदीय वृषाकपि का द्रविड़ सभ्यता के साथ कोई भी संबंध प्रमाणित नहीं होता। यह अवश्य बहुत ही संभव है कि 'हनुमान्' नाम एक द्रविड़ शब्द का संस्कृत रूपांतर है और इसका अर्थ नरकपि है। कारण यह है कि रामायण के अन्य वानरों की तरह हनुमान् भी वानर-गोत्रीय आदिवासी थे (दे० आगे अनु० ११०)। वह एक प्राचीन द्रविड़ देवता थे, इसके लिए संकेत भी नहीं मिलता। रामायण में हनुमान् की शक्ति के वर्णन में अतिशयोक्ति का सहारा तो लिया गया है; फिर भी उनके देवता होने का कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ है।<sup>४</sup>

## घ—उपसंहार

१०४. उपर्युक्त मतों की सामान्य विशेषता यह है कि राम-कथा का मूल स्रोत निर्धारित करने के लिए दो अथवा तीन स्वतंत्र कथाओं की कल्पना की जाती है। दशरथ-जातक के विषय में डॉ० वेबर का मत संभवतः इस प्रवृत्ति का मूल कारण है।

पिछले अध्याय से स्पष्ट हो गया होगा कि दशरथ-जातक का वृत्तान्त ब्राह्मण राम-कथा का विकृत रूप मात्र है और प्रस्तुत अध्याय के विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि राम-कथा के पूर्व रावण अथवा हनुमान् के विषय में स्वतंत्र आख्यानों का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता। ऐसा प्रतीत होता है कि राम-कथा के कारण ही दशरथ, रावण, हनुमान् आदि प्रसिद्धि प्राप्त कर सके। आगे चलकर

१. एफ० ई० पार्गीटर : ज० रो० ए० सो०, १९११, पृ० ८०३ और १९१३, पृ० ३९६।
२. जर्नल ऑरियेंटल इस्टिड्यूट (बड़ौदा), भाग ८, पृ० ४१-७१।
३. दे० श्री क्षेत्रेश चट्टोपाध्याय, इलाहाबाद युनिवर्सिटी स्टडीज़, भाग १, पृ० ९७-१५६।
४. परवर्ती रचनाओं में हनुमान् तथा वृषाकपि का सम्बन्ध अवश्य जोड़ा गया है (दे० ब्रह्मपुराण, ८४, १९)।

भी इनका उल्लेख प्रायः केवल राम-कथा विषयक ग्रामग्री में मिलता है। यदि कहीं इसका स्वतन्त्र उल्लेख होता है तो यह निर्दिष्ट रूप से एक अपेक्षाकृत अर्वाचीन रचना अथवा किसी प्रक्षेप में है, जैसे लंकावतार सूत्र में।

रामायण की अक्षरंग समीक्षा करने पर बहुत से विद्वान् इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि अयोध्याकाण्ड की घटनाएँ अत्यन्त स्वाभाविक हैं किन्तु दण्डकारण्य तथा लंका की घटनाएँ अलौकिक और काल्पनिक प्रतीत होती हैं। वास्तव में राम-कथा के इन दो भागों में अन्तर अवश्य पाया जाता है, लेकिन इसे समझने के लिए राम-कथा के भिन्न-भिन्न आधार मानने की आवश्यकता नहीं है। रामायण के इस द्वितीय भाग का प्रधान विषय है स्त्रीहरण और उसके कारण युद्ध। अयोध्या से राम के निर्वासन के समान यह भी एक अत्यन्त साधारण घटना प्रतीत होती है। अतः कथावस्तु के दृष्टिकोण से दो भागों में कोई मौलिक अंतर नहीं है। लेकिन इन दोनों भागों के वर्णन में अंतर का आ जाना एक प्रकार से अनिवार्य था। लोकप्रिय नायक को विकट जगलो में निवास करना पड़ता है, एक क्रूर आदिवासी राजा उसकी पत्नी हर लेता है, और नायक असम्य जातियों की सहायता से युद्ध करके उसे पुनः प्राप्त करता है। इस कथानक के काव्यात्मक वर्णन में अतिशयोक्ति का प्रयोग कितना स्वाभाविक था। प्रतिनायक की क्रूरता, महायुद्ध की वीरता, युद्ध की तीव्रता आदि अंकित करने के लिए किसी भी देश अथवा भाषा का कवि अनिवार्य रूप से अतिशयोक्ति का सहारा लेता है। कवि मात्र की यह विशेषता ध्यान में रख कर राम-कथा के दो सर्वथा भिन्न भाग मानने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती।

## परिशिष्ट १

### राम-कथा का ऐतिहासिक आधार

१०५. डॉ० याकोबी केवल अयोध्याकांड की घटनाओं के लिए ऐतिहासिक आधार मानते हैं। लेकिन अयोध्याकांड तथा रामायण के अन्य कांडों के कथानक में कोई मौलिक अन्तर मानने की आवश्यकता नहीं है। यह सभवतः प्रस्तुत अध्याय के विश्लेषण से स्पष्ट हो चुका है। अतः समस्त रामायण की प्रधान कथा-वस्तु के लिए ऐतिहासिक आधार मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, यही अनेक विद्वानों का मत है।<sup>१</sup> वाल्मीकि-रामायण पढ़ कर ऐसा प्रतीत होता है कि कवि को अपने कथानक की ऐतिहासिकता के विषय में कोई सदेह नहीं है। नायक का छल से बालि का बध करना भी ऐतिहासिकता की ओर निर्देश करता है। फिर भी डॉ० सुनीतिकुमार झाटुज्या का कहना है कि राम की ऐतिहासिकता प्राचीन भारत के किसी भी गंभीर विद्यार्थी को स्वीकार्य नहीं है।<sup>२</sup>

१०६. डॉ० वेबर के अनुसार रामायण का समस्त काव्य एक रूपक मात्र है, जिसके द्वारा दक्षिण की ओर आर्य सम्यता और कृषि का प्रचार दिखलाया जाता है।<sup>३</sup> प्रधान पात्र सीता, जिसका हरण और पुनःप्राप्ति काव्य की कथा-वस्तु है, कोई ऐतिहासिक व्यक्ति न होकर, खेत की सीता (लांगलपद्धति) का मानवीकरण मात्र है, जिसे आर्य कृषि का प्रतीक मानना चाहिए। वैदिक सीता, कृषि की अधिष्ठात्री देवी और रामायण की सीता अभिन्न हैं। रामायण में सीता के जन्म और तिरोधान संबंधी वृत्तान्त इसकी ओर निर्देश करते हैं। उसकी बहन उर्मिला के नाम का अर्थ लहराता हुआ खेत समझना चाहिए। भवभूति के उत्तररामचरित में भी उसके पिता जनक का एक विशेषण 'सीरध्वज' मिलता है, जो कृषि से संबंध

१. दे० एम० मोनियेर विलियम्स : इंडियन एपिक पोइट्री, पृ० ८।

एस० के० बेल्लकर : वही, पृ० ४०।

एम० नारायण शास्त्री : ई० ए० भाग, २९, पृ० ८-२७।

२. दे० ज० ए० सो० बं०, भाग १६ (१९५०), पृ० ७६।

३. दे० ए० वेबर : वही पृ० १४ आदि और हिस्ट्री ऑन इंडियन लिटरेचर, पृ० १९२। ए० वेबर का मत अंशतः निम्नलिखित ग्रंथों में मिलता है।

रमेशचन्द्र दत्त : वही, पृ० २११।

ए० वी० कीथ : संस्कृत लिटरेचर, पृ० ४३।

जे० पिक्फर्ड : महावीर चरित, लन्दन, १८७१ पृ० ८ (भूमिका)।

रखता है। (डा० वेलवलकर<sup>१</sup> उसके पुत्र का भी उल्लेख करते हैं—कुषा एक धास का नाम है और लव लुनने से आता है)। आदिवासियों के आक्रमणों से इस सीता, आर्य कृषि के प्रतीक की रक्षा राम पर निर्भर है। डा० वेबर के अनुसार राम दाशरथि और बलराम (हलभृत्) का संबन्ध स्वयंसिद्ध है। प्रारंभ में ये एक थे, बाद के विकास में वे दो भिन्न-भिन्न पात्रों के रूप में प्रसिद्ध हो गए। राम का वनवास हेमंत ऋतु का प्रतीक है, जब प्रकृति और विशेषकर कृषि का कार्य स्थगित होता है।<sup>२</sup> इसके अतिरिक्त महाभारत में जहाँ रामराज्य का वर्णन है, वहाँ इस बात का विशेष उल्लेख मिलता है कि कृषि की अमाधागण उत्पत्ति हुई थी। वास्तव में महाभारत के द्रोणपर्व और शांतिपर्व में रामराज्य का वर्णन किया जाता है। इस वर्णन के अनेक श्लोक रामायण में मिलते हैं। (दे० रा० ६, १२८)। शांतिपर्व (अध्याय २९) में कृषि का उल्लेख हुआ है।

कालवर्षाश्च पर्जन्याः सस्यानि रसवन्ति च ।

नित्यं मुभिक्षमेवासीद्वामे राज्यं प्रशासति ॥४८॥

नित्यपुष्पफलाश्चैव पादपा निरुपद्रवाः ।

सर्वा द्रोणदुघा गावो रामे राज्यं प्रशासति ॥ ५२ ॥

‘पर्जन्य ययाममय जल वरसाकर शस्य उत्पन्न करता था। इससे राम के राज्य-शासन के समय किसी भी भौतिक दुर्भिक्ष नहीं पड़ता था . . . . . वृक्ष नदा फल फलों से युक्त रहते थे गाँव घड़े परिमाण दूध देती थी।’

१०७. डा० वेबर का उपर्युक्त मत बहुत समीचीन नहीं प्रतीत होता है। राम-दाशरथि और बलराम की अभिन्नता के लिए वे कोई प्रमाण नहीं दे सके हैं। इस अभिन्नता के विरुद्ध यह कहा जा सकता है कि भारत में ये दोनों भिन्न ही माने जाते हैं। वैदिक साहित्य में अनेक राम नामक व्यक्तियों का उल्लेख हुआ है, जिससे स्पष्ट है कि ‘राम’ नाम प्रचलित हो चुका था (दे० ऊपर अनु० ४)।

इसके अतिरिक्त राम की दक्षिण की यात्रा के फलस्वरूप रावण और वालि के स्थान पर उनके भाई विभीषण और सुग्रीव तो राजा बनाए जाते हैं, लेकिन दक्षिण की मन्थता या कृषि में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुआ हो, यह रामायण में कही भी नहीं दिखलाया जाता।<sup>३</sup> अतः हमें मानना पड़ेगा कि जिस उद्देश्य की पूर्ति दिखलाने

१. उत्तररामचरित : भूमिका पृ० ५९ ।

२. किन्तु भारतवर्ष में शीष्मकाल में कृषि नहीं हो सकती। हेमन्त में अवश्य होती है।

३. ए० ए० मैकडानल; वही, पृ० ३११। एच० याकोबो; वही, पृ० १२९।



के लिए यह काव्य लिखा गया है, वह पूरा न हो सका। यदि सचमुच कवि के मन में कृषि तथा कृषि सबधी देवताओं का विचार सर्वोपरि था तो यह समझ मे नहीं आता कि कृषि को इतना कम महत्त्व क्यों दिया गया।<sup>१</sup> वास्तव मे राम-कथा तथा कृषि का कोई विशेष सम्बन्ध मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह भी स्मरण रखने योग्य है कि आर्यों के आगमन के पहले ही कृषि भारतवर्ष तथा दक्षिण में विद्यमान थी।

१०८. जे० टी० व्हीलर मानते है कि राम-कथा ब्राह्म और बौद्ध धर्म दोनों के संघर्ष का प्रतीक है। दिनेशचन्द्र सेन का भी विश्वास है कि वाल्मीकि ने बौद्ध भिक्षुपन की प्रतिक्रिया स्वरूप गृहस्थ जीवन का आदर्श पाठको के सामने रखने के उद्देश्य से रामायण लिखी थी (इन दोनों मतों के खडन के लिए दे० ऊपर अनु० ९०)।

रामायण की परवर्ती प्रतीकवादी व्याख्याएँ संभवतः साहित्य मे प्रयुक्त रूपको से विकसित हुई है। राम-कथा-विषयक रूपको के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं :

तीर्त्वा भोहार्णवं हत्वा रागद्वेषाञ्च राक्षसान् ।

शान्तिस्तीतासमायुक्तः आत्मरामो विराजते ॥ ५० ॥

(शकगचार्यकृत आत्मबोध)

वशेन्द्रियाननं धोरं यो मनोरजनीचरम् ।

विबेकशरजालेन शमं नयति योगिनाम् ॥

(साचवत संहिता, अ० १२, १५१)

दर्पोदप्रदशेन्द्रियाननमनो नक्तंचराधिष्ठिते

वेहेऽस्मिन्भर्वासिधुना परिगते वीनान्वशामस्थितः ।

अद्यत्वेहनुमत्समेन गुरुणा प्रख्यापितार्यः पुमान्

लंकारुद्धविबेहराजतनयान्यायेन लालप्यते ॥ ७२ ॥

(संकल्पसूर्योदय, अ० १)

आनन्दरामायण के विलाखकांड के बेहरारामायण नामक तृतीय सर्ग में राम-कथा की समस्त घटनाओं का प्रतीकात्मक अर्थ प्रतिपादित किया गया है—मनोदुर्ब-  
त्तिघातश्च ताटिकाया वधोऽत्र सः ; मनोवेगस्य यो भंगः स धनुर्भंग उच्यते;  
अविबेकवधः प्रोक्तश्चात्र बालिवधस्त्वया; अज्ञानतरणोपयः सेतुबंधो महोदधौ;  
मवस्य निग्रहस्तत्र कुंभकर्णवधस्त्वया; तत्राहंकारघातश्च रावणस्य वधस्त्वया;  
द्वययाकाशगमनम् अयोध्यागमनं पुनः। तुलसी साहब ने भी अपने घटरामायण में

१. ई० डब्लू० हॉपकिंसः एपिक मिथोलॉजी, पृ० ११-१२

राम-कथा को शरीर के अन्दर ही अवतारित कर दिया है—“घट में रावण राम जैसे केला। भरत सत्रगुण बकरध पेला” (घटरामायण, पृ० ११)। बलरामदास का उड़िया ब्रह्मण्यभूमोल देहरामायण, घटरामायण आदि की श्रेणी में आता है।

येदातीरे सुब्बराव के अनुसार रामायण का अर्थ दार्शनिक है, रामायण के भौगोलिक स्थान सचमुच योगशान्त्र के चक्र हैं। ई० मूर भी राम-कथा में एक दार्शनिक शास्त्र का प्रतिपादन देखते हैं।<sup>१</sup>

इतना ही निश्चित है कि ये कल्पनाएँ आदिकवि के मन से कोसों दूर थीं। इनमें इतना ही तत्त्व है कि ऐतिहासिक घटनाओं के साथ-साथ कवि निश्चित रूप से आशाकारी राम, पतिव्रता सीता, भ्रातृ-भक्त लक्ष्मण आदि का आदर्श अपने पाठकों के सामने रखना चाहता था। इसी तरह राम नैतिकता के प्रतीक बन गए हैं तथा रावण अधर्म का, लेकिन सारी कथा में रूपक अथवा प्रतीक मात्र देखने के लिए कोई समीचीन कारण नहीं है।

१०९. राम-कथा का ऐतिहासिक आधार मानते हुए भी एम्० वेंकटरत्नम् का विश्वास है कि यह वास्तव में मित्र देश के रैमसेस नामक राजा का इतिहास है।<sup>१</sup> रैमसेस के विषय में आधुनिकतम खोज के आधार पर जो कुछ जान हुआ है, उससे स्पष्ट है कि वाल्मीकि-रामायण में उम राजा का कोई सबंध नहीं हो सकता। मित्र देश की प्राचीनतम पौराणिक कथाओं के अनुसार नू (आकाश) तथा गेव (पृथ्वी) के संयोग से रा अथवा रे (सूर्य) उत्पन्न हुआ।<sup>२</sup> रैमसेस का अर्थ है—‘रा ने उसे जन्माया’ (मस धातु का अर्थ है जन्म लेना)।<sup>३</sup> रैमसेस (१२९८-१२३२ ई० पू०) मित्र देश के महान सम्राटों में से एक है। अपने शासनकाल के पूर्वार्द्ध में उसको हिट्टसस के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा। उनकी पहली विजय कादेश (सिरिया) में हुई थी (१२९४ ई० पू०), लेकिन इसके पश्चात् भी १२७८ ई० पू० तक युद्ध होता रहा। अंत में रैमसेस ने विजय प्राप्त करके एक हिट्ट की राजकन्या से विवाह किया और इसके बाद १२३२ ई० पू० तक एक विशाल राज्य का शातिपूर्वक शासन किया।<sup>४</sup>

१. दे० क्वार्टर्ली जर्नल मिथिक सोसाइटी: भाग २२, पृ० ५१४।
२. दे० ई० मूर: द हिन्दू पंथेयॉन। पृ० ३२९ टि।
३. दे० वेंकटरत्नम्; राम दि ग्रेटेस्ट फेरो ऑव ईजिप्ट, १९३४।
४. जे० वान्डिबे: ला रलजियॉ एजिपशियन, पेरिस, १९४४।
५. दे० एटुडस: भाग १७३ (१९२२), पृ० १४७।
६. ए० मोरे: हिस्टबार् दि लोरियन, पेरिस, १९३६, भाग २, पृ० ५४७ आदि।

## परिशिष्ट २

### वानर और राक्षस

११०. राम-कथा के वानर, ऋक्ष और राक्षस विषय प्रदेश तथा मध्य-भारत की आदिवासी अनाथ जातियाँ थी। इसके विषय में प्रायः मतभेद नहीं है। यद्यपि वाल्मीकि-रामायण में इन आदिवासियों को वास्तव में वानर, ऋक्ष आदि माना गया है, फिर भी आदि-काव्य के अनेक स्थलों से पता चलता है कि प्रारंभ में ये सब मनुष्य ही थे। 'वानर' नाम की उत्पत्ति की समस्या मुलझाने के लिए अनेक अनुमान प्रस्तुत किए गए हैं। सी० वैद्य के अनुसार वानर जाति के लोग सचमुच वानर के समान दिखलाई पड़ते थे और इसमें उनका यह नाम पड़ा।<sup>१</sup> अन्य विद्वान् जैन रामायणों के अनुसार मानते हैं कि वानर, ऋक्ष आदि नाम उन जातियों की ध्वजा के कारण उत्पन्न हुए—जिस जाति की ध्वजा पर बन्दर का चिह्न था, वह वानर जाति कहलाती थी, जिसकी ध्वजा पर रीछ का चिह्न था, वह रीछकहलाती थी, जैसा आजकल रुसियों की ध्वजा पर रीछ तथा अंग्रेज जाति की ध्वजा पर सिंह का चिह्न होने से उन देशों के वीरो को ब्रिटिश लायन्स और रस्सियन बयर्स कहते हैं। जैनों की राम-रावण-कथा में वानरचिह्नकित ध्वजा मुकुटधारी जाति वानरवशीय कही गई है।<sup>२</sup> यह मत असंभव नहीं कहा जा सकता है, फिर भी जैनियों ने अनेक स्थलों पर राम-कथा में अनेक चित्र परिवर्तन किये हैं। अतः जैन साहित्य का उपयोग करने में हमें सतर्क रहना चाहिए (दे० ऊपर पाँचवाँ अध्याय)। सब से स्वाभाविक अनुमान यह है कि आजकल के आदिवासियों के समान उन जातियों के विभिन्न कुल विभिन्न पशुओं और वनस्पतियों की पूजा करते थे। जिस कुल के लोग जिस पशु या वनस्पति की पूजा करते थे, वे उसी के नाम से पुकारे जाते थे। इस पशु अथवा वनस्पति को आजकल के विद्वान् 'टोटम' कहते हैं। आधुनिक भारत के आदिवासियों में ऐसे 'टोटम' या गोत्र विद्वान् हैं, जिनका उल्लेख रामायण में हुआ है, अर्थात् वानर, ऋक्ष (जाम्बवान)

१. दे० रामायण ६, ६६, ५ और जी० रामदास, दि ऐबॉरिजिनल ड्राइव्स इन दि रामायण, मैन इन इंडिया, भाग ५, पृ० २८-५५ और ऐबॉरिजिनल नेम्स इन दी रामायण, जर्नल बिहार-उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, भाग ११, पृ० ४१-५३।

२. दे० सी० वी० वैद्य, वही पृ० १५३।

३. दे० शिवमन्धन सहाय, तुलसीदास, पृ० ४१६।

और गीघ (जटायु, सम्पाति और रावण)। आर० वी० रसेल' के अनुसार बंदर और रीछ तेरह सर्वाधिक प्रचलित टोटमों में सम्मिलित हैं।

छोटानागपुर में रहने वाली उराओं<sup>१</sup> तथा मुण्डा<sup>२</sup> जातियों में तिग्गा, हलमान, बजरंग और गडी नामक गोत्र मिलते हैं; इन सब का अर्थ बन्दर ही है। इसी प्रकार रेदी<sup>३</sup>, बरई, बसोर, भैना और खगार<sup>४</sup> जातियों में भी बानर-छोटक गोत्र मिलते हैं। सिंहभूम की भुइया जाति हनुमान् के वंशज होने का दावा करती है; वे अपने को पवन-वंश कहकर पुकारते हैं। 'हनुमान्' नाम वास्तव में एक द्राविड शब्द 'आणमदि' अथवा 'आण्-मंति' का संस्कृत रूपान्तर मात्र प्रतीत होगा है, अण् का अर्थ है नर, और मंद का अर्थ है कवि (दे० ऊपर अनु० १०३)।

ऋष-सूचक गोत्र रेदी<sup>५</sup>, बरई, गदवा, केवत, सुर्घा आदि जातियों में मिलते हैं। इसी प्रकार भैना<sup>६</sup>, उराओ<sup>७</sup> और विहोर<sup>८</sup> जातियों में गिद्ध या गिधि गोत्र प्रचलित है। ध्यान देने योग्य है कि उराओं, असुर तथा खरिया आदि आदिम जातियों की भाषा में 'रावना' का अर्थ गीघ ही है।<sup>९</sup> हाल में मुझे पता चला कि राँची जिले के ग्यडीह थाने के कटकयाँ गाँव में एक 'रावना' नामक परिवार अब तक विद्यमान है। यह गोत्र कम प्रचलित है, इसके स्थान पर प्रायः 'गिधि' नाम चलता है। निष्कर्ष यह है कि 'हनु-

१. दे० दि द्राइवम एण्ड काम्पस ऑव दि सेटुल प्रॉविसेस, भाग १, पृ० ९०।
२. दे० शरच्चंद्र राय, दि उराओस ऑव छोटानागपुर (राँची १९१५), पृ० २२।
३. दे० एन्साइक्लोपिडिया मंडारिका (किल्, गोत्र) शब्द के अंतर्गत।
४. दे० सी० वॉन फूरर-हाइडेगार्फ, दि रेडीस ऑव दि बाइसन हिन्स, पृ० ३२९।
५. बरई, बसोर, भैना, खगार के लिए दे० आर० वी० रसेल, वही, क्रमशः भाग २, पृ० १९४; पृ० २१०, पृ० २२८; भाग ३, पृ० ४४१।
६. दे० डॉलरन, एथनॉलॉजी ऑव बंगाल, पृ० १४०।
७. दे० सी० वॉन फूरर-हाइडेगार्फ, वही।
८. बरई, गदवा, केवत और सुर्घा के लिए दे० आर० वी० रसेल, वही, क्रमशः भाग २, पृ० १९८, भाग ३, पृ० १०; पृ० ४२४; भाग ४, पृ० ५१५।
९. दे० आर० वी० रसेल, वही, भाग २, पृ० २२८।
१०. दे० पी० डेही, रेलिजन एण्ड कस्टम्स ऑव दी उराओस, मेम्बायर्स ऑव दि एसियाटिक सोसाइटी ऑव बंगाल, भाग १, पृ० १६०।
११. दे० शरच्चंद्र राय, दि विहोर्स, (राँची, १९२५), पृ० ९१।
१२. डब्लू स्वेन उवर दि लितेरैतूर देर बोरायिं स्तेम्मे इंदियेंस (बैलिन, १९५२), पृ० ४४।

मान्' की तरह 'रावण' का नाम भी एक वास्तविक अनार्य नाम का संस्कृत रूपान्तर ही प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त रायपुर जिले में रहने वाले गोंड अपने को रावण के वंशज मानते हैं। 'उराओं' भी मानते हैं कि रावण से उनकी जाति की उत्पत्ति हुई थी। और इसीलिए उनको 'उराओ' नाम मिला था। इन सब बातों को ध्यान में रखकर स्पष्ट है कि आदिवासियों का राम-कथा के साथ संबंध अवश्य ही है तथा यही अधिक संभव प्रतीत होता है कि रामायण के वानर-ऋक्ष-गीघ वास्तव में वानर-ऋक्ष-गीघ-गोत्रीय आदिवासी थे।

१११. वैदिक साहित्य, विशेष करके अथर्ववेद में रक्षस्, राक्षस, पिशाच आदि भूतों का उल्लेख मिलता है। ये मनुष्य के शत्रु हैं; इनके विरुद्ध अथर्ववेद में बहुत से मंत्र दिए गए हैं। इसी तरह राक्षस एक प्रकार से अनिष्ट, अशुभ, हिंसा और पाप का प्रतीक बन गया था और बाद में रावण के क्रूर और हिंसात्मक अनुयायियों को भी यह नाम मिला। रामायण में राक्षसों का जो वर्णन किया जाता है, वह ऋग्वेद में अनार्य दस्युओं के वर्णन से बहुत कुछ मिलता है। उनके मनुष्य होने का रामायण में स्पष्ट उल्लेख मिलता है (दे० ६, ३७, ३३)। कवि वास्तविक नामों से अपरिचित था। अतः जो नाम मिलते हैं, वे सब के सब वर्णनात्मक हैं—कुभकर्ण, मेघनाद, दशग्रीव, विभीषण, प्रहस्त (लंबे हाथ वाला) इत्यादि।

११२. यह सब होते हुए भी रामायण में कवि ने अद्भुत रस तथा अतिशयोक्ति का बार-बार सहारा लिया है और इस कारण राम-कथा को काल्पनिक ठहराने के लिए समालोचकों को आधार अवश्य मिलता है। रावण के दस सिर थे, हनुमान् समुद्र लांघते हैं और आकाश में उड़कर औषधि-पर्वत ले आते हैं, इस प्रकार के कथन बहुतायत से पाए जाते हैं। फिर भी रावण का केवल एक सिर था, ऐसा वर्णन भी रामायण के कई स्थलों पर मिलता है। दशग्रीव नाम पहले रूपक के रूप में प्रयुक्त आ होगा (दशग्रीव अर्थात् जिमकी ग्रीवा दश अन्य साधारण ग्रीवों के ममान बलवान हो) और बाद में वस्तुतः दशग्रीव धारण करने वाले प्राणी के अर्थ में लिया जाने लगा।

१. दे० आर० वी० रसेल, वही, भाग १, पृ० ४०२।

२. दे० पी० डेहों, वही, पृ० १२२।

३. दे० शरच्चन्द्र राय, दि उराओस पृ० १४।

४. उदा० ५, सर्ग १०, २२ और ४२, दे० चिन्ताहरण चक्रवर्ती : इ० हि० क्वा०, भाग १ पृ० ७७९ और ए० ए० व्यास, ज० ऑ० इ०, भाग ४, पृ० १।

अथर्ववेद में एक वशास्य (दशमुक्क), दशशीर्ष ब्राह्मण का उल्लेख है।<sup>१</sup> इसका प्रभाव भी रावण के स्वरूप की कल्पना पर पड़ा, यह असंभव नहीं कहा जा सकता है। उद्धरण इस प्रकार है :

ब्राह्मणो जज्ञे प्रथमो वशाशीर्षो वशास्यः ।  
स सोमं प्रथमः पपौ स चकारारसं विषम् ॥

(अथर्ववेद ४, ६, १)

हनुमान् के समुद्रलघन की कथा संभवतः किसी आश्चर्यजनक लंघन के आधार पर उत्पन्न हुई है। जब स्पेन की सेना को मेक्सिको से हटना पड़ा तब अलवाराडो नामक सिपाही एक अत्यन्त चौड़ा नाला लाघने में समर्थ हुआ था। यह देखकर मेक्सिको निवासी बोल उठे 'यह सचमुच सूर्य का पुत्र है'। इसी तरह हनुमान् की कथा भी उत्पन्न हुई होगी, यह सी० वैद्य का अनुमान है।<sup>२</sup>

१. इस उद्धरण के लिए मैं डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल का आभारी हूँ।

२. दे० बही० : पृष्ठ १६०।

## परिशिष्ट ३

### राम-कथा का भूगोल

११३. बाल्मीकि दक्षिण तथा मध्यभारत के भूगोल से अपरिचित थे, इसका प्रमाण रामायण को पढ़कर मिलता है। अतः रामायण के भूगोल के विषय में जो विस्तृत साहित्य प्रकाशित हो चुका है और हो रहा है, वह अधिकांश अनुमान और कल्पना के आधार पर निर्भर है।

सिंहलद्वीप का सबसे प्राचीन नाम 'टप्रोवाने' है, जो यूनानियों में प्रचलित था। अशोक के शिलालेखों में भी यह 'तम्बपग्नि' के नाम से पुकारा जाता है। इसके बाद सिंहल नाम प्रचलित होने लगा। इतना ही निश्चित है कि संस्कृत काव्य में सिंहल तथा लंका भिन्न-भिन्न देश समझे जाते थे। भवभूति, मुगारि, राजशेखर आदि सिंहलदेश को लंका से भिन्न मानते हैं। वराह-मिहिर की बृहत्-संहिता में भी दोनों का अलग उल्लेख है। ऐसा प्रतीत होता है कि बौद्ध साहित्य में पहले-पहल सिंहल के लिए लंका नाम प्रयुक्त होने लगा था (दे० दीपवश ९, १) और संभवतः दशवीं शताब्दी ई० से इसका प्रयोग व्यापक होने लगा।<sup>१</sup>

अधिकांश आधुनिक लेखक रामायण की लंका तथा किष्किन्धा दोनों को मध्य भारत में रखते हैं।<sup>२</sup>

१. दे० एच० याकोबी, : वही पृ० ९०-९३।

२. दे० एम० वी० कीवे . ई० हि० वशा०, भाग ४, पृ० ६९३-७०२।

हीरालाल : आर्य काममोरेशन वाल्यूम, पृ० १५१-६१; कोशोत्सव-स्मारक-ग्रन्थ, पृ० १५।

राय कृष्णदास, राम-वनवास का भूगोल, ना० प्र० प०, वर्ष ५४, अंक १ और ३;

ऋष्यमूक-किष्किन्धा की भौगोलिक अवस्थिति, वही, भाग ५२, अंक ४।

इस साहित्य के सिंहावलोकन के लिए दे० एपिक एन्ड पुरानिक स्टडीज।

भंडारकर इस्टिड्यूट, पृ० १३७-८।

## प्रचलित वाल्मीकिकृत रामायण के मुख्य प्रक्षेप

११४. राम-कथा के प्रारम्भिक विकास की रूपरेखा अंकित करने के पूर्व प्रचलित वाल्मीकि-रामायण की अतरंग समीक्षा करके मुख्य प्रक्षिप्त अंशों का पता लगाना है। यही प्रस्तुत अध्याय का विषय है। चतुर्थ भाग में प्रत्येक कांड के विश्लेषण के साथ-साथ गौण प्रक्षेपों का भी उल्लेख किया जायगा।

### क—उत्तरकाण्ड

११५. रामायण के प्रायः समस्त समालोचक उत्तरकांड को प्रक्षिप्त मानते हैं और इसके लिए भिन्न-भिन्न तर्क प्रस्तुत करते हैं।<sup>१</sup> सब से महत्त्वपूर्ण प्रमाण इस प्रकार है :

(१) वाल्मीकिकृत रामायण के तीन प्रचलित पाठों की तुलना करने में स्पष्ट होता है कि उत्तरकांड की रचना अन्य कांडों के पश्चात् हुई थी (दे० ऊपर अनु० २२-२६)।

(२) युद्धकांड के अन्त में जो फलश्रुति मिलती है, उससे यह प्रमाणित होता है कि इसके रचनाकाल तक रामायण की परिणामाप्ति यही मानी जाती थी (रामायणनिबन्ध कृत्स्न, दे० ६, १२८, ११७)।

(३) बालकांड के प्रथम सर्ग में एक अनुक्रमणिका मिलती है, जिसमें केवल अयोध्याकांड में लेकर युद्धकांड तक के विषयों का उल्लेख किया जाता है। बाद में इस अनुक्रमणिका की अपूर्णता का अनुभव हुआ और फलस्वरूप एक दूसरी अनुक्रमणिका की रचना की गई, जिसमें बालकांड की सामग्री के साथ-साथ उत्तरकांड का भी निर्देश मिलता है।

स्वराष्ट्रंजनं चैव बंधेह्याश्च विसर्जनम् ॥ २८ ॥

अनागतं च यत्किंचिद्रामस्य वसुधातले ।

तच्चका त्तरे काव्ये वाल्मीकिर्भगवानृषिः ॥ २९ ॥

(बड़ौदा संस्करण, सर्ग ३)।

१. दे० एच० याकोबी : डम रामायण, पृ० २८ आदि, ६४।

हृदयनारायण सिंह : क्या उत्तरकांड वाल्मीकि-रचित है ?

नागरीप्रचारिणी पत्रिका : १७, पृ० २५९-२८९।

ज० अ० रि०; भाग १८, पृ० १५७।



इसके अगले सर्ग में भी उत्तरकाण्ड का उल्लेख है :

प्राप्तराज्यस्य रामस्य बाल्मीकिभंगवानृषिः ।

चकार चरितं कृत्स्नं विचित्रपदमालम्बान् ॥ १ ॥

कृत्वा तु तन्महाप्राज्ञः सभविष्यं सोत्तरम् ।

(बडौदा सं० सर्ग ४) ।

इन दो उद्धरणों से स्पष्ट है कि बालकाण्ड की इस भूमिका के रचनाकाल में उत्तरकाण्ड की सृष्टि प्रारंभ हो चुकी थी। फिर भी सीतात्याग को छोड़कर किसी अन्य विषय का उल्लेख न होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरकाण्ड उस समय अपना वर्तमान रूप और विस्तार नहीं प्राप्त कर पाया था। इस तर्क की पुष्टि इससे भी होती है कि बाद में बाल्मीकि-रामायण के उदीच्य पाठ में एक तीसरी अनुक्रमणिका जोड़ी गई है, जिसमें सात काण्डों की सामग्री का ध्यान रखा जाता है (दे० ऊपर अनु० २३)।

(४) उत्तरकाण्ड की रचनाशैली अन्य प्रामाणिक कांडों की शैली से सर्वथा भिन्न है। प्रारंभिक ३३ सर्गों में रावण तथा हनुमान् की कथाओं के बाद ही रामचरित का वर्णन आगे बढ़ा दिया गया है और तब भी असंगत अंतर्कथाओं के कारण कथानक में कोई प्रवाह नहीं है (दे० नृग, निमि, ययाति, श्वेत, इन्द्र, इल आदि के वृत्तान्त)। शेष सामग्री, जो आधे से भी कम है, रामचरित से संबन्ध तो रखती है, लेकिन इसमें भी एकता का अभाव खटकता है। सीतात्याग, शत्रुघ्न-चरित, शम्बूक-बन्ध, राम का अश्वमेध, सीता का तिरोधान आदि में कोई विशेष संबन्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त उत्तरकाण्ड में वर्णित अवतारवाद की व्यापकता भी इस कांड को बाद की रचना सिद्ध करती है।

(५) उत्तरकाण्ड तथा अन्य कांडों में पारस्परिक विरोधी बातें भी मिलती हैं। उदाहरणार्थ युद्धकांड के अंतिम सर्ग में सुग्रीव, विभीषण आदि के चले जाने का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। फिर भी उत्तरकाण्ड में पुनः इनके प्रस्थान का वर्णन किया जाता है (दे० सर्ग ४०)।

उत्तरकाण्ड में वेदवती का वृत्तान्त दिया जाता है (दे० सर्ग १७)। इसके अनुसार सीता अपने पूर्वजन्म में वेदवती ही थी। यदि यह वृत्तान्त प्रक्षिप्त न होता तो इसका उल्लेख रामायण के अन्य कांडों में, जहाँ सीता-जन्म का प्रसंग आया है, अवश्य किया जाता।

१. जिस श्लोक में रामायण का विस्तार २४००० श्लोक बताया गया था, उसे बडौदा के प्रामाणिक संस्करण में प्रक्षिप्त माना गया है।

(६) वाल्मीकिकृत रामायण के इन अंतरंग प्रमाणों के अतिरिक्त एक बात और ध्यान देने योग्य है। महाभारत का रामोपाख्यान रामायण के किसी प्राचीन रूप पर निर्भर है (दे० ऊपर अनु० ४८)। इसके प्रारंभ में रावणचरित की कुछ सामग्री अवश्य मिलती है किंतु वह आदिरामायण की तरह रामाभिषेक तथा रामराज्य की स्तुति पर समाप्त होती है। आदिरामायण तथा रामोपाख्यान के कारण एक काव्य-परम्परा चल पड़ी और शताब्दियों तक चलती रही, जिसके अनुसार राम-चरित का वर्णन उनके अभिषेक पर समाप्त किया जाता है।

उदाहरणार्थ—रावणवह, भद्रिकाव्य, कुमारदासकृत जानकीहरण, अभिनन्द-कृत रामचरित, भासकृत अभिषेक नाटक, मुरारि का अनर्घ्य-राघव, राजशेखर का बालरामायण, कम्बनकृत प्राचीनतम तामिल रामायण, तेलगु दिवपद रामायण तथा जावा का रामायण ककविन् ।

### ख—बालकाण्ड

११६. उत्तरकांड की भांति बालकांड भी आदिरामायण का अंग नहीं था। डॉ० याकोबी की यह धारणा सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित प्रमाण दिए जा सकते हैं :

(१) रामायण की पहली अनुक्रमणिका में (सर्ग १) बालकांड की सामग्री का सर्वथा अभाव है। इस अभाव को पूरा करने के उद्देश्य से एक दूसरी अनुक्रमणिका की रचना कर ली गई है (दे० ऊपर अनु० ११५)।

(२) बालकांड की शैली उत्तरकांड की शैली से बहुत कुछ मिलती-जुलती है। इसका प्रायः आधा भाग रामचरित से सम्बन्ध नहीं रखता। सगर-कथा, समुद्रमथन, विद्वामित्र की कथा आदि वृत्तान्त पुराणों की शैली पर लिखे गए हैं।<sup>१</sup> रामायण के प्रामाणिक कांडों में कहीं भी ऐसी पौराणिक कथाएँ नहीं मिलती।

(३) बालकांड में जो सामग्री रामचरित से सम्बन्ध रखती है इसका आगे चलकर प्रामाणिक कांडों में कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। यही नहीं, बल्कि इससे विरोधी बातें भी पाई जाती हैं। बालकांड में लक्ष्मण और उर्मिला का विवाह वर्णित है, लेकिन अयोध्याकांड आदि में कहीं भी उर्मिला का उल्लेख नहीं होता (यद्यपि तीनों

१. दे० एच० याकोबी : वही, पृ० ५० आदि।

२. दे० वी० लेस्ली : उबर इस पुराण-आदिगे ग्रेग्रेड इस बालकांड ;

जर्मन ओरियेंटल जर्नल भाग ६७, पृ० ४९७-५००।

निर्वासितों का प्रस्थान विस्तार से चित्रित किया गया है), वरन् अरण्यकांड में लक्ष्मण को अविवाहित भी कहा जाता है (अहृतवार दे० ३, १८, ३) ।

अयोध्याकांड में भरत की अवस्था के विषय में कहा जाता है :

बाल एव तु मातुल्यं भरतो नायितस्त्वया । (२, ८, २८) ।

लेकिन बालकांड में युधाजित् मिथिला में पहुँचकर कहते हैं कि कैकय भरत को सस्त्रीक देखना चाहते हैं। इसके बाद चार भाइयों के विवाह का वर्णन किया जाता है, लेकिन मिथिला में युधाजित् का और उल्लेख नहीं होता। बालकांड के अन्तिम सर्ग में दशरथ भरत को युधाजित् के साथ राजगृह भेज देते हैं और इसके बाद बहुत समय बीत जाने का उल्लेख है (बहूनूतुम् दे० १, ७७, २५) । फिर भी रामाभिवेक की तैयारी के समय भरत को बालक कहा गया है।

### ग—अवतारवाद ।

११७. राम-कथा के विकास के दृष्टिकोण से प्रचलित वाल्मीकिकृत रामायण की सब से महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित सामग्री अवतारवाद से संबंध रखती है। अगले अध्याय में अवतारवाद की उत्पत्ति और राम-कथा के विकास में उसके महत्व पर विचार किया जाएगा। प्रचलित रामायण में इसका विस्तार तथा इसे प्रक्षिप्त मानने के कारण पर विचार करना ही इस परिच्छेद का उद्देश्य है<sup>१</sup>। प्रस्तुत विश्लेषण की विशेषता यह है कि इसमें रामायण की अवतारवादी समस्त सामग्री के साथ-साथ उसकी भिन्न-भिन्न पाठों में उपस्थिति अथवा अभाव का उल्लेख भी किया जाता है।

### (१) सामग्री का निरूपण

११८. बालकांड । (१) पुत्रेष्टि-यज्ञ (सर्ग १५-१८), इसमें विष्णु का अवतार लेना विस्तार से वर्णित है। ये सर्ग बालकांड में प्रक्षेप माने जाने चाहिए (दे० आगे अनु० ३३३) ।

(२) परशुराम राम से कहते हैं कि मैं आप को विष्णु मानता हूँ। आप से पराजय पाना कोई लज्जा की बात नहीं है। ये श्लोक तीनों पाठों में पाए जाते हैं।

१. दे०-एच० याकोबी : वही, पृ० ६५, १३८ ।

ई० डब्लू हाफ्किन्स : एपिक मिथोलॉजी; पृ० २११ ।

जे० म्यूर : ओरिजिनल सस्कृत टेक्स्ट्स, दूसरा संस्करण भाग ४, पृ० ४४१-९१ ।  
और नोट डी ।

महाराष्ट्रीय : श्री रामायण समालोचना : दूसरा भाग, पृ० २४५-५० ।

अक्षय्यं मर्षुहन्तारं जानामि त्वां सुरेश्वरम् ॥ १७ ॥

नं धैर्यं तव काकुत्स्थ ब्रीडा भवितुमर्हति ।

त्वया त्रैलोक्यनाथेन यवहं विमुलीकृतः ॥ १९ ॥

(सर्ग ७६)

यद्यपि बालकांड स्वयं प्रक्षिप्त है, फिर भी इसमें केवल इन दो स्थलों पर राम के अवतार होने का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त मूल बाल-कांड के रचनाकाल में राम अवतार नहीं माने जाते थे, इसके बालकांड में स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं।

राम का उत्कर्ष प्रथम सर्ग का वर्ण्य विषय है, फिर भी इसमें उनके अवतार होने का उल्लेख नहीं है, केवल विष्णु से उनकी तुलना की जाती है (विष्णुना सद्गुणो वीर्य्यं, श्लोक १८) और अन्त में कहा जाता है कि राम अपना राज्य भोग कर ब्रह्मलोक जायेंगे—

रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति । (श्लोक १७)

यदि कवि राम को विष्णु का अवतार मानता होता तो उनकी इहलीला समाप्त होने पर उनके ब्रह्मलोक जाने का उल्लेख नहीं करता। इस तर्क की संगति इससे स्पष्ट है कि उदीच्य पाठ में “ब्रह्मलोक” के स्थान पर “विष्णुलोक” रखा गया है (दे० बड़ोदा संस्करण के पाठान्तर)।

विश्वामित्र राम से ताटका के वध करने का अनुरोध करके विष्णु द्वारा भृगु-पत्नी के वध का उदाहरण देते हैं (२५, २१) तथा मिद्धाश्रम के विषय में कहते हैं कि विष्णु ने वहाँ तप किया था।

इह राम महाबाहो विष्णुर्देवनमस्कृतः ।

वर्षाणि सुबहूनीह तथा युगशतानि च ॥ २ ॥

तपश्चरणयोगार्धमुवास सुमहातपाः ।

(सर्ग २९)

इससे स्पष्ट है कि विश्वामित्र राम के अवतार होने से अनभिज्ञ है।

११९. अयोध्याकांड। प्रथम सर्ग के ३५ प्रारम्भिक श्लोक प्रक्षिप्त है (दे० आगे अनु० ४३१)। इनमें राम के अवतार होने का उल्लेख है:

स हि देवैरुदीर्णस्य रावणस्य वधार्थिभिः ।

अर्थितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णुः सनातनः ॥

(१, ७)

यह श्लोक तीनों पाठों में मिलता है। इसके अतिरिक्त अयोध्याकांड में अन्यत्र रामावतार का निर्देशमात्र भी नहीं मिलता। ‘लोकनाथ’ (११०, २) राम के

लिए प्रयुक्त हुआ है लेकिन यह राजा की भी उपाधि है और जिस सर्प में यह शब्द प्रयुक्त हुआ है, वह भी प्रक्षिप्त है (दे० आगे अनु० ४३१) ।

१२०. अरष्यकांड । (१) राम के पराक्रम का वर्णन करते हुए अकंपन कहते हैं कि राम समस्त लोकों का नाश करके सब की पुनः सृष्टि करने में समर्थ है—

संहृत्य वा पुनर्लोकान्विक्रमेण महायशाः ।

शक्तः श्रेष्ठः स पुरुषः क्षण्डं पुनरपि प्रजाः ॥ २६ ॥ (सर्ग ३१)

यह प्रसंग दाक्षिणात्य पाठ मात्र में विद्यमान है ।

(२) दाक्षिणात्य पाठ में लक्ष्मण राम के दिव्य तथा मानवीय पराक्रम का उल्लेख करते हैं—दिव्यं च मानुषं ब्रह्ममात्मनश्च पराक्रमम् (६६, १९)

लेकिन गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठों में राम के दिव्य तथा मानुषिक अस्त्रों का उल्लेख है—

दिव्यं त्वं मानुषं ब्रह्ममात्मनश्च पराक्रमम्

(गौ० रा० ३, ७१, १६)

(३) दाक्षिणात्य पाठ में शबरी राम को देववर कहती है—स्वयि देववरे राम पूजिते पुरुषवर्षभ (दा० रा० ३, ७४, १२) । परन्तु अन्य पाठों में इस श्लोक का सर्वथा अभाव है ।

(४) एक अन्य स्थल पर (जो तीनों पाठों में मिलता है) राम सारा जगत नष्ट करने की धमकी देते हैं (दे० दा० रा० ३, ६४, ७०), लेकिन इसमें उनके अवतार की ओर निर्देश देखना अनावश्यक है । यह तो उनको दिए हुए दिव्य अस्त्रों का प्रभाव माना जा सकता है ।

१२१. किष्किंधाकांड । इस कांड में अवतार सम्बन्धी कोई सामग्री नहीं मिलती । सुग्रीव तो लक्ष्मण से राम के विषय में 'तस्य देवस्य' शब्द का प्रयोग करते हैं (३६, ६), लेकिन इसमें अवतारवाद की भावना देखना व्यर्थ है । आदरार्थ इस शब्द का राजाओं, ब्राह्मणों आदि के लिए प्रयोग होता है ।

१२२. सुन्दरकांड । (१) दाक्षिणात्य तथा पश्चिमोत्तरीय पाठ के अनुसार हनुमान् अशोकवन में प्रवेश करने के पहले देवताओं की तथा राम-लक्ष्मण और सीता की स्तुति करते हैं—

नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै ।

नमोऽस्तु शत्रुघ्नपमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेश्यः ॥

(दा० रा० ५, १३, ५७)

न केवल इस दीर्घ छन्द का, लेकिन सारे प्रसंग (दा० रा० ५, १३, ५४-६७) का गौडीय पाठ में अभाव है।]

(२) हनुमान्-रावण सवाद का एक अंश (दा० रा० ५, ५१, ३९-४५) गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठों में नहीं मिलता। इसमें हनुमान् राम के विषय में कहते हैं कि वह विष्णुतुल्यपराक्रम, सर्वलोकेश्वर, लोकत्रयनाथ आदि है।

१२३. युद्धकांड। उत्तरकांड के बाद इसमें अवतारवादी सामग्री सबसे अधिक मिलती है। यह अस्वाभाविक भी नहीं प्रतीत होता है क्योंकि युद्धकांड सबसे अधिक विस्तृत है तथा इसमें अपेक्षाकृत अधिक प्रक्षेप भी जोड़े गए हैं।

(१) रावण से युद्ध न करने का अनुरोध करते हुए मंत्री कहता है

लंघनं च समुद्रस्य दर्शनं च हनूमतः ।

बधतु रक्षसां युद्धे कः कुर्यान्मानुषो युधि ॥

(दा० रा० ३४, २२, अन्य पाठों में भी है)

डॉ० याकोबी के अनुसार यह सर्ग एक विस्तृत प्रक्षेप में (सर्ग २३-४०) आया है (दे० आगे अनु० ५६२) ।

(२) सुग्रीव विभीषण से कहते हैं कि राम और लक्ष्मण गरुड पर अधिष्ठित हैं:

गरुडाधिष्ठितावेतावुभौ राघवलक्ष्मणौ । (दा० रा० ५०, २२) ।

यह श्लोक अन्य दोनों पाठों में नहीं मिलता।

(३) सर्ग ५९ अनेक कारणों से प्रक्षिप्त माना जाता है, (दे० आगे अनु० ५६३) । इसमें दो स्थलों पर कहा गया है कि लक्ष्मण तब मज्ञा प्राप्त करते हैं जब वह अपने विष्णु का अंश होने का स्मरण करते हैं (दे० दा० रा० ६, ५९, ११०-१२० तथा अन्य पाठों के समानान्तर स्थल) ।

(४) मधोदरी-विलाप तीनों पाठों में मिलता है, दाक्षिणात्य पाठ में इसका विस्तार १२६ श्लोक का है, गौडीय पाठ में ८२ का तथा पश्चिमोत्तरीय पाठ में केवल ६३ का। तीनों में राम को विष्णु का अवतार कहा गया है, लेकिन दाक्षिणात्य पाठ के जिन श्लोकों में इसका उल्लेख हुआ है, वे अन्य पाठों में नहीं मिलते और अन्य पाठों के अवतारसंबन्धी श्लोक दाक्षिणात्य में नहीं पाए जाते हैं। उदाहरणार्थ—

गौडीय पाठ में :

अथवा रामरूपेण विष्णुश्च स्वयमागतः ।  
तव नाशाय मायाभिः प्रविश्यानुपलक्षितः ॥

(१५, ९)

दाक्षिणात्य पाठ मे .

अथवा रामरूपेण कृतान्तः स्वयमागतः ।  
मायां तव विनाशाय विधायाप्रतितर्किताम् ॥

(१११, ९)

इससे यह ध्वनि निकलती है कि स्वतंत्र रूप से तीनों पाठों में अवतारवादी सामग्री बाद में आ गई है ।

(५) अग्निपरीक्षा के समय देवता आकर राम की विष्णुरूप में स्तुति करते हैं (दे० दा० रा० सर्ग ११७ तथा अन्य पाठों के समानान्तर स्थल) । इस सर्ग के प्रक्षेप होने में कोई संदेह नहीं है (दे० आगे अनु० ५६५) । इसमें सीता और लक्ष्मी की अभिप्रेता का भी उल्लेख है (दे० श्लोक २७) ।

(६) दाक्षिणात्य पाठ में दशरथ राम से कहते हैं कि वह पुरुषोत्तम ही हैं (दे० ११९, १७) —

इदानीं च विजानामि यथा सौम्य सुरेश्वरैः ।  
वधार्यं रावणस्येह पिहितं पुरुषोत्तमम् ॥

गौडीय पाठ में इस श्लोक में अवतार का उल्लेख नहीं है—

इदानीं च विजानामि यथा सौम्य सुरेश्वरैः ॥ १८ ॥  
वधार्यं रावणस्येह त्वं वनवासाय दीक्षितः ।

(सर्ग १०४)

दोनों की तुलना करने से स्पष्ट है कि किस तरह श्लोक को बदल कर अवतारवादी सामग्री जोड़ी गई है ।

इसके बाद दशरथ लक्ष्मण को भी संबोधित करके राम को पुरुषोत्तम, अक्षर ब्रह्म आदि मानते हैं । यह अथ तीनों पाठों में तो मिलता है, लेकिन वह राम-दशरथ-संवाद का अनुकरण मात्र प्रतीत होता है (दे० ११९, २७-३५) ।

(७) दाक्षिणात्य तथा परिचमोत्तरीय पाठ की फलश्रुति में विष्णु और राम की अभिप्रेता मानी जाती है—

प्रीयते सततं रामः स हि विष्णुः सनातनः ।

आविबेबो महाबाहुर्हरिर्नारायणः प्रभुः ॥

(दा० रा० १२८, ११७)

गौडीय पाठ मे यह श्लोक नही मिलता ।

(८) उपर्युक्त उद्धरणो के अतिरिक्त कुछ और सामग्री का उल्लेख करना है, जो दाक्षिणात्य पाठ मे नही मिलती—

पश्चिमोत्तरीय पाठ मे, नागपाश के वृत्तान्त मे, नारद राम के पास पहुँचकर उनको उनके नारायणत्व का स्मरण दिलाते है । (दे० प० रा० ६, २७, ७-४१) ।

गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठों मे एक सर्ग मिलता है, जिसमे रावण से अनु-रोध किया गया है कि वह राम से युद्ध न करे क्योंकि राम मनुष्य नही है (दे० गौ० रा० सर्ग ३३, प० रा० सर्ग ३५) ।

गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठों में कुम्भकर्ण का एक भाषण उद्धृत है, जिसमे वह कहता है कि नारद ने उसे विष्णु के एक अवतार द्वारा रावण-वध का रहस्य बत-लाया था (दे० गौ० रा० सर्ग ४०, प० रा० सर्ग ४१) ।

१२४. उत्तरकांड । उत्तरकांड मे राम के अवतार होने का उल्लेख निम्न-लिखित सर्गों मे मिलता है—८, १७, २७, ३०, ५१, ७६, ९८, १०४, १०६, ११०, १११, ३७ प्र० २-४, ५९ प्र० २-३ ।

इसके अतिरिक्त नागरिकों की राम के प्रति दृढ भक्ति का उल्लेख किया जाता है (दे० दा० रा० १०७, १६ और ३७ प्र० ३) ।

दाक्षिणात्य पाठ के एक प्रक्षिप्त सर्ग मे (३७ प्र० ३) जो अन्य पाठो मे नही मिलता, सीता को भी लक्ष्मी का अवतार कहा गया है ।

(२) तर्क

१२५. उपर्युक्त सामग्री के निरूपण से स्पष्ट है कि प्रामाणिक कांडो की अवतार-वादी सामग्री, जो तीनों पाठो मे मिलती है, नही के बराबर है । और जो सामग्री तीनों पाठो मे मिलती है, वह एक ऐसे अंश मे पाई जाती है, जो स्पष्टतया प्रक्षिप्त है ।

अवतारवाद को बाद की भावना मानने के लिए यही सबसे महत्वपूर्ण तर्क प्रतीत होता है । फिर भी इसके अतिरिक्त और प्रमाण दिए जा सकते हैं ।

१२६. रामायण के प्रधान पात्र राम के अवतार होने से परिचित नही हैं । इस तर्क के विरुद्ध संभवतः कहा जा सकता है कि यह आवश्यक नही है कि वे राम को



अवतार समझें। फिर भी उत्तरकालीन राम-काव्य में प्रायः सब पात्र राम को अवतार मानकर उनसे प्रार्थना करते हैं, जिससे स्पष्ट है कि इस तर्क में कुछ खरब है।

सीता अपने-आपको साधारण स्त्री मानती है और अपने इस जन्म के दुःखों का कारण पूर्वजन्म के किये हुए पाप समझती है (दे० रा० ५, २५, १८; ६, ११३, ३६-३७; ७, ४८, ३-४)। यही नहीं, राम का अवतार होना भी उनसे छिपा हुआ है। वह राम की तुलना विष्णु से करती है (५, २१, २८; ५, ३८, ६५)। राक्षसों के प्रति राम की हिंसात्मक प्रवृत्ति देखकर वह राम के परलोक के विषय में चिन्तित हैं (३, ९, १२) और जब रावण उनसे अनुरोध करता है कि वह राम, साधारण मनुष्य को, छोड़ दें (दे० ३, ४८, १८) तो वह उत्तर नहीं देती कि राम साधारण मनुष्य नहीं है। युद्ध के समय भी वह राम को अमर नहीं समझती।

लक्ष्मण भी राम को सान्त्वना देते हुए कहते हैं:

प्राप्स्यसे त्वं महाप्राज्ञ मयिर्लौ जनकात्माजां ।

यथा विष्णुर्महाबाहुर्बलि बद्ध्वा महीमिमां ॥ (३, ६१, २४)

हनुमान् राम की तुलना विष्णु से करते हैं (५, ३४, २९; ५, ३७, २४) और राम से कहते हैं कि जिस तरह विष्णु गरुड पर आरूढ़ होते हैं, इसी तरह आप मेरी पीठ पर चढ़िए—

मम पृष्ठं समागृह्य राक्षसं शास्तुमर्हसि ॥ १२२ ॥

विष्णुर्धया गरुत्मन्तमारुह्यामरबंरिणम् । (६, ५९)

राम का दूत बनकर हनुमान् रावण से कहते हैं कि मैं विष्णु की ओर से नहीं आया हूँ, लेकिन राम की ओर से—

विष्णुना नास्मि चोचितः ॥ १३ ॥

केनचिद्ग्रामकार्येण आगतोऽस्मि तवाम्बिकम् ॥ १८ ॥

(रा० ५, ५०)।

इसी तरह और उदाहरण दिए जा सकते हैं। अगस्त्य राम को विष्णु का धनुष देते हुए राम और विष्णु की अभिन्नता से परिचित नहीं है—

इवं दिव्यं महच्छापं हेमवज्रविभूषितम् ।

शृणुष्वं पुरुषष्याद्ग्र निश्चितं विश्वकसंघा ॥ ३२ ॥ (३, १२)

१२७. उपर्युक्त तर्क राम पर भी लागू होता है। राम न केवल नारायण तथा मधुसूदन (दे० २, ६, ३७) से प्रार्थना करते हैं, विधाता के विरुद्ध अपराध करने से डरते हैं (दे० २, २२, १४), अधर्म और परलोक के भय से राज्याधिकार नहीं प्राप्त करते (२, ५३, २६), वरन् वह अपने-आप को साधारण मनुष्य समझ कर विश्वास करते हैं कि पूर्वजन्म के किए हुए पापों का मुझे इसी जन्म में फल भोगना है :

पूर्वं मया नूनमभीप्सितानि पापानि.... (३, ६३, ४)

किं मया दुष्कृतं कर्म कृतमन्यत्र जन्मनि । (६, १०१, १८)

रावणवध के बाद राम सीता से कहते हैं :

या त्वं विरहिता नीता चलचित्तेन रक्षसा ।

द्वैवसंपादितो दोषो मानुषेण मया जितः ॥ ५ ॥ (६, ११५)

इसके अतिरिक्त अवतारवाद की भावना की नवीनता ब्रह्मा के प्रति राम की उक्ति से स्पष्ट है—'मैं तो अपने-आप को मनुष्य, दशरथ का पुत्र, समझता हूँ। वास्तव मे मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इसे आप मुझसे कहिए' :

आत्मानं मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजम् ।

सोऽहं यश्च यतश्चाहं भगवांस्त्व ब्रवीतु मे ॥ (६, ११७, ११)

१२८. ऊपर इसका उल्लेख हुआ है कि रामायण के अनेक पात्र राम की तुलना विष्णु से करते हैं। इसका अर्थ यह है कि वे राम और विष्णु को भिन्न समझते हैं। अन्य स्थलों पर भी कवि स्वयं इस तुलना का प्रयोग करते हैं (१, ७८, २९, ६, ५९, १२५) अथवा अन्य पात्रों द्वारा करवाते हैं. अनमूया (२, ११८, २०), देवता (३, २३, २९, ३, २४, २२; ३, ३०, ३२), अयोध्या-निवासी (२, २, ४३)। न केवल राम की परन्तु अन्य पात्रों की भी तुलना विष्णु से की जाती है। उदाहरणार्थः रावण (७, २०, ५), अतिकाय (६, ७१, ८), इन्द्रजित् (६, ७३, ७), हनुमान् (६, ५६, ३८)।

दूसरी ओर राम की तुलना अन्य देवताओं से भी की जाती है—इन्द्र; ब्रह्मा (१, १, १३; १, ७८, २५; २, ३०, २७, २, ९९, २८; ३, २३, ४, ४, २६, २ आदि); रुद्र (४, १६, ३८ आदि), बृहस्पति (१, १, ३२; १, १, ३९; २, २, ३० आदि), कुबेर या वैश्रवण (२, १६, ८; १, १, १९; २, १६, ४६ आदि), वरुण

(३, ३७, ३ आदि), घर्म (१, १, १९), कामदेव (३, ३४, ६ आदि), अग्नि (५, ३९, ५३), यम (२, १, ३९), पर्जन्य (२, १, ३९; २, ३, २९) ।

विष्णु तथा इन्द्र से जो तुलना की गई है, इससे स्पष्ट है कि आदिरामायण में विष्णु की अपेक्षा इन्द्र का स्थान ऊँचा माना गया था । राम की तुलना विष्णु से १८ बार की जाती है, इन्द्र से ७७ बार । कई स्थलों पर राम तथा लक्ष्मण की तुलना क्रमशः इन्द्र तथा विष्णु से की गई है, जिससे स्पष्ट है कि विष्णु की अपेक्षा इन्द्र श्रेष्ठ माने जाते हैं (६, ९९, १२; ६, ३३, २८; ३, ६८, २८) । एक उदाहरण पर्याप्त होगा—

ततो राममभिक्रम्य सौमित्रिरभिवाद्य च ।

तस्थौ भ्रातृसमीपस्थः शक्रस्येन्द्रानुजो यथा ॥

(६, ९१, ४)

इस उद्धरण में वैदिक साहित्य के अनुसार विष्णु इन्द्र के अनुज माने जाते हैं । वैदिक साहित्य के अनुसार भी प्रामाणिक आदिरामायण में इन्द्र सर्वश्रेष्ठ देवता थे । राम की विजय इन्द्र की सहायता से होती है (दे० ६, १०२), यह भी इन्द्र की श्रेष्ठता सूचित करता है ।

अरण्यकांड में इसका एक ज्वलंत उदाहरण और मिलता है । इन्द्र शरभ से बातचीत करते हुए और राम को आते देख कर साय के देवताओं से कहते हैं— 'राम इधर आ रहे हैं । उनके यहाँ आने के पूर्व ही हम लोग यहाँ से चले जाएँ क्योंकि राम मुझको देखने के योग्य नहीं है । जब राम-रावण पर विजय प्राप्त करेंगे तब उनकी मुझसे भेंट होगी (दे० रा० ३, ५, २२) ।

गौडीय पाठ इससे अधिक सक्षिप्त है :

यास्याम्यहमयं रामो यावन्मां नाभिभाषते ।

कृतार्थमेनमचिराद् ब्रष्टास्म्यहर्मारवमम् ॥

(गौ० रा० ३, ९, १७)

इस वृत्तान्त से जो ध्वनि निकलती है वह, विष्णु-नारायण-अक्षर ब्रह्म के अवतार राम (६, ११७) की भावना से कितनी दूर है ।

## राम-कथा का प्रारंभिक विकास

### क—राम-कथा-संबंधी गाथाएँ और आख्यान-काव्य

१२९. वैदिक साहित्य में आख्यान, इतिहास तथा पुराण मिलते हैं। ये ब्राह्मणों के अर्थवाद के एक आवश्यक अंग समझे जाते थे। प्राचीन काल से धार्मिक संस्कारों तथा यज्ञों के अवसर पर ऐतिहासिक तथा पौराणिक इन्हे सुनाते थे<sup>१</sup>। अर्वाचीन वैदिक साहित्य में ये पाँचवे वेद कहे जाते हैं—अथर्वणं चतुर्थम्, इतिहास-पुराणं पञ्चमम् (छान्दोग्य उप० ७, १, २)।

आख्यानो के गद्य के साथ जो पद्य दिया जाता था, उसे गाथा कहा गया है। प्रारंभ से ही दानस्तुति-स्वरूप 'नाराशसी' गाथाओं का उल्लेख मिलता है (दे० ऋग्वेद १०, ८५, ६) और इसके विषय में कहा जाता है कि ये झूठी हैं (गायानृतं नाराशसी', दे० काठक संहिता १४, ५)। इस नाराशसी गाथा-साहित्य के रचयिता तथा रक्षक राजदरबारों में रहनेवाले सूत थे। इनके अतिरिक्त कुशीलव जनसाधारण में इन गीतों का प्रचार करते थे<sup>२</sup>।

१३०. वाल्मीकि के पूर्व राम-कथा संबंधी गाथाएँ प्रचलित हो चुकी थीं। इसका प्रमाण हमें बौद्ध तिपिटक में मिलता है। एक ओर राम-कथा सम्बन्धी गाथाएँ रामायण पर नहीं निर्भर हो सकती हैं और दूसरी ओर बौद्ध गाथाओं में जो राम-कथा-संबंधी सामग्री मिलती है, वह रामायण के आधार के लिए पर्याप्त नहीं है। अतः रामायण तथा राम-कथा-विषयक बौद्ध गाथाएँ दोनों प्राचीन राम-कथा संबंधी आख्यान-काव्य पर निर्भर हैं (दे० ऊपर अनु० ८९)। दशरथ-जातक की वर्तमान कथा में जो 'पौराणिक पंडिता' शब्द आया है, इससे भी इस निर्णय की पुष्टि होती है। इसके अतिरिक्त हरिवंश के एक श्लोक में राम-कथा के इस मूलस्रोत का उल्लेख मिलता है। राम-कथा के अत्यन्त संक्षिप्त वर्णन के पश्चात् इस प्रकार लिखा है—

गाथा अप्यत्र गायति ये पुराणविदो जनाः ।

रामे निबद्धतरुवार्था माहात्म्यं तस्य धीमतः ॥ (१, अध्याय ४१, १४९)

१ दे० शतपथ ब्राह्मणः १३, ४, ३, शाखायन गृ० सू०ः १, २२, ११ आदि।

२ दे० एम्० विंटरनिस्तः हि० इ० लि० भाग १, पृ० ३१४।

इसमें अवश्य रामायण की ओर निर्देश देखा जा सकता है। फिर भी हमें रामायण के पूर्व की प्राचीन गाथाओं का निर्देश देखना अधिक स्वाभाविक प्रतीत होता है।

१३१. इस राम-सम्बन्धी गाथा-साहित्य की उत्पत्ति इक्ष्वाकु-वंश में हुई थी। रामायण में लिखा है :

इक्ष्वाकूणामिदं तेषां राज्ञां वंशे महात्मनाम् ।

महदुत्पन्नमाख्यानं रामायणमिति श्रुतम् । (रा० १, ५, ३)

राम इक्ष्वाकुवंशीय थे। अतः इक्ष्वाकु-वंश के सूतों ने इनके विषय में गाथाएँ तथा व्याख्यान सुनाए होंगे। इसी तरह राम का चरित्र लेकर स्फुट आख्यान-काव्य का एक विस्तृत साहित्य बढने लगा। महाभारत के द्रोणपर्व तथा शांतिपर्व में जो संक्षिप्त राम-चरित मिलता है, वह इस प्राचीन आख्यान-काव्य पर निर्भर प्रतीत होता है। साथ-साथ महाभारत में राम-कथा की उपस्थिति इस बात को प्रमाणित करती है कि रामसम्बन्धी आख्यान-काव्य का प्रचार कोशल प्रदेश तक ही सीमित नहीं था वरन् पश्चिम की ओर भी फैलने लगा था, जहाँ महाभारत की रचना हुई थी। पाली तिपिटक के रचनाकाल (चौथी शताब्दी ई० पू०) में इस राम-कथा-सम्बन्धी आख्यान-काव्य का पर्याप्त प्रचार हो चुका था (दे० ऊपर अनु० ८९)। दूसरी ओर विस्तृत वैदिक साहित्य में राम-कथा सम्बन्धी गाथाओं का कहीं भी निर्देश नहीं मिलता (दे० ऊपर अनु० २०)। अतः वैदिक काल के बाद और चौथी श० ई० पू० के पहले, संभवतः छठी श० में इस राम-कथा सम्बन्धी आख्यान-काव्य की उत्पत्ति हुई थी। वास्तव में इसका निश्चित रचनाकाल निर्धारित करने के लिए कोई आधार नहीं मिलता।

### ख—आदिरामायण की उत्पत्ति

१३२. जिस दिन किसी कवि ने राम-कथा-विषयक स्फुट आख्यान-काव्य का सकलन करके उसे एक ही कथा-सूत्र में ग्रथित करने का प्रयत्न किया था, उस दिन रामायण उत्पन्न हुआ। वह कवि कौन था? प्राचीनतम परम्परा वाल्मीकि को आदिकवि मानती है। युद्धकांड की फलश्रुति में लिखा है :

आदिकाव्यमिदं चार्षं पुरा वाल्मीकिना कृतम् ॥ १०५ ॥

(सर्ग १२८)

१. ध्यान देने योग्य है कि वाल्मीकि का आदिरामायण सूतो की सम्पत्ति न बनकर काव्योपजीवी कुशीलवों द्वारा पहले जनता में लोकप्रियता प्राप्त करने लगा और बाद में दरबारी में प्रवेश कर सका। ऐसा ही बालकांड के चतुर्थ सर्ग से प्रतीत होता है।

कालिदास ने भी वाल्मीकि को आद्य कवि की उपाधि प्रदान की है—कवेराद्यस्य शासनात् (रघुवंश १५, ४१)। वाल्मीकि द्वारा श्लोक की सृष्टि की कथा (दे० बालकांड सर्ग २) में इतना ऐतिहासिक सत्य अवश्य ही होगा कि वाल्मीकि ने इस छन्द को परिष्कृत किया है।

वास्तव में वाल्मीकि के पूर्व किसी कवि ने एक आदिरामायण की रचना की है, इसके लिए कोई तर्कसंगत प्रमाण नहीं मिलता। बृद्धचरित में राम-कथा के प्रसंग में जो च्यवन का उल्लेख हुआ है, इसके विषय में ऊपर विचार किया गया है (दे० अनु० ३२)। पतञ्जलि के महाभाष्य में जिम प्राचीन गाथा का संस्कृत रूपान्तर मिलता है, इसका मौलिक प्रसंग राम-कथा से संबंध नहीं रखता है और इसमें किसी प्राचीन रामायण का अवशेष देखना अनावश्यक है (दे० ऊपर अनु० ८८)।

१३३. आदिरामायण के विषय में एक अन्य प्रश्न यह है कि इसमें राम के चरित्र का किनना अंग वर्णित था। पिछले अध्याय में स्पष्ट है कि आदिरामायण में न तो उत्तरकांड था, न बालकांड और न अवतारवाद। कई विद्वान् और आगे बढ़कर मानते हैं कि राम, रावण तथा हनुमान् के विषय में पहले स्वतन्त्र आख्यान-काव्य प्रचलित थे और इनके मयोंग से रामायण की उत्पत्ति हुई है। सातवें अध्याय में यह दिखलाने का प्रयत्न किया गया है कि इस मत को सिद्ध करने के लिए कोई समीचीन प्रमाण नहीं दिए जा सकते हैं। अतः आदिरामायण के लिखे जाने में जो भिन्न-भिन्न सोपान माने जाते हैं, इनके लिए भी कोई आधार नहीं मिलता<sup>१</sup>। इस मत के अनुसार रामायण के विकास के प्रथम सोपान में राम को हिमालय प्रदेश में निर्वासित किया जाता है तथा सीता और लक्ष्मण उनके साथ जाते हैं। द्वितीय सोपान में बनवास का स्थान गोदावरी के तट पर माना जाता है और राम आदिवासियों के आक्रमणों से तपस्वियों की रक्षा करते हैं। तृतीय सोपान में दक्षिण के निवासियों को अधीन करने के आर्यों के प्रारम्भिक प्रयत्नों का वर्णन मिलता है। अन्तिम सोपान सिंहलद्वीप की जानकारी के कारण उत्पन्न हुआ। इसमें राम द्वारा सिंहल की विजययात्रा का वर्णन रामायण में जोड़ा गया है। राम के कारण दक्षिण अथवा लंका के निवासी आर्यों के अधीन हो गए थे, इसकी ओर रामायण में कोई निर्देश नहीं है। इसके अतिरिक्त लंका तथा सिंहल की अभिन्नता भी अत्यन्त सदिग्ध है (दे० ऊपर अनु० ११३)।

इसी तरह आदिरामायण के न तो भिन्न-भिन्न मूलस्रोत और न इसके लिखने में उपर्युक्त सोपान मानने की कोई आवश्यकता प्रतीत होती है। अतः आदिरामायण रामसम्बन्धी स्फुट आख्यान काव्य के आधार पर लिखा गया है और इसमें अयोध्या-

१. दे० सी० लैस्सन. इण्डो आलटरतुम्सकुडे, १८७४, भाग २, पृ० ५०५।

कांड से लेकर युद्धकांड तक की कथावस्तु विद्यमान थी। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रचलित वाल्मीकिकृत रामायण के इन पाँच कांडों में आदिरामायण का मूलरूप सुरक्षित है। इनमें भी बहुत प्रक्षेप पाए जाते हैं। प्रक्षेप जोड़ने की प्रवृत्ति प्रारम्भ ही से विद्यमान थी, यह रामायण के भिन्न-भिन्न कांडों की तुलना से स्पष्ट है (दे० ऊपर अनु० २२-२६) और शताब्दियों तक बनी रही (यह मध्यकालीन टीकाकारों के साक्ष्य से ज्ञात है)। निबन्ध के चतुर्थ भाग में प्रत्येक कांड के विकास और प्रक्षिप्त सामग्री पर विचार किया जायेगा।

आदिरामायण के विस्तार के विषय में बौद्ध-महाविभाषा में कहा जाता है कि रामायण में १२००० श्लोक मिलते हैं (दे० ऊपर अनु० ७९)। अतः आदिरामायण के विकास में एक ऐसा समय हुआ, जब इसका विस्तार आजकल प्रचलित रामायण का आधा था।

१३४. आदिरामायण क्षत्रियों की सम्पत्ति थी। इसमें आदर्श क्षत्रिय सत्यसंध गम की महिमा प्रतिपादित की गई थी। मोक्ष तथा वैराग्य के स्थान पर आदर्श अतर्गनि स्वर्ग माना जाता था और इसे प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती थी। बाद में सारे काव्य को ब्राह्मण ढाँचे में ढाल कर सर्वथा नवीन रूप दिया गया है। यह डॉ० रूबन का मत है। इसके लिए कोई समीचीन प्रमाण नहीं दिया गया है। डॉ० रूबन के उदाहरण (ऋष्यशृंग तथा विश्वामित्र की कथा, उत्तरकांड के अश्वमेध) स्पष्टतया प्रक्षेप हैं। इनसे इतना ही ज्ञात होता है कि रामायण के अर्वाचीन प्रक्षेपों में ब्राह्मणों का प्रभाव स्पष्ट है। इस सामग्री से आदिरामायण के रूप के विषय में कोई तर्क नहीं लिया जा सकता है। फिर भी डॉ० रूबन के इस मत में कुछ तत्त्व है। राम-कथासम्बन्धी आख्यान-काव्य क्षत्रिय इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुआ और इसका बहुत काल तक इन क्षत्रियों के दरबारों में प्रचार रहा था।

वाल्मीकि ने उस स्फुट आख्यान काव्य को एक ही प्रबन्ध-काव्य में सफलित करके लगभग ३०० ई० पू० आदिरामायण की रचना की है। यह रचना बहुत कुछ प्राचीन आख्यान-काव्य से मिलती-जुलती रही होगी। बाद के प्रक्षेपों की भावधारा स्पष्टतया भिन्न है (दे० आगे अनु० १३८)।

१३५. आदिरामायण की भाषा के विषय में भी सदेह किया गया है। मूल रचना की भाषा प्राकृत रही होगी। बाद में पहली शताब्दी ई० से इसका संस्कृत

१. डब्लू रूबन : स्टुडियन चूर टेक्स्ट गेशिह्टे डेस रामायण, पृ० ६९।

रूपान्तर चल पडा ।' डॉ० याकोबी ने अकाट्य तर्कों से इस मत का खंडन किया है । आजकल इस मत का प्रतिपादन कोई नहीं करता । डॉ० याकोबी के मुख्य तर्क इस प्रकार हैं :

(अ) भारत में प्राकृत मूलरामायण तथा इसके संस्कृत रूपान्तर के विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता ।

(आ) यदि केवल पहली श० ई० में रामायण का संस्कृत में अनुवाद किया गया था, तो आर्य प्रयोग कैसे संभव होते ।

(इ) प्राकृत साहित्य की मुख्य विशेषता है—शृंगार तथा अद्भुत् रस का बाहुल्य (दे० कवामरित्सागर) । इसके अतिरिक्त पाली तथा प्राकृत की शैली बहुत अपरिष्कृत है । अतः प्राकृत-साहित्य उपर्युक्त कारणों से संस्कृत काव्य का आधार तथा आदर्श होने के नितान्त अनुपयुक्त सिद्ध होता है ।

१३६ आठवें अध्याय में बालकांड को प्रक्षिप्त मिद्ध किया गया है । डॉ० याकोबी' के अनुसार आदि रामायण का प्रारंभ बालकांड के निम्नलिखित श्लोकों में सुरक्षित है .

सर्ग ५, श्लोक १-४ ... ..	रामायण की स्तुति ।		
सर्ग ५, श्लोक ५-६ ... ..	कोशल तथा अयोध्या की स्तुति ।		
सर्ग ५, श्लोक ९	}	...	दशरथ की स्तुति ।
सर्ग ६, श्लोक २-४			
सर्ग १८, श्लोक १६-२१ (उत्तरार्द्ध) . २२ ; दशरथ के पुत्रों का उल्लेख ।			
सर्ग १८, श्लोक २५ ; पुत्रों की स्तुति (अथवा अयोध्याकांड १, ५) ।			
सर्ग १८, श्लोक २४-१२ ; राम की श्रेष्ठता अथवा अयोध्याकांड १, ६-८) ।			
इन भूमिका के बाद काव्य की मुख्य वस्तु का वर्णन प्रारंभ हुआ होगा—दे० अयोध्याकांड सर्ग १, श्लोक ३६ ।			

## ग—आदिरामायण का विकास

### १. प्रक्षेप

१३७. आदिरामायण का विकास समझने के लिए उसके प्रचार की रीति को ध्यान में रखना परमावश्यक है । बालकांड तथा उत्तरकांड में लिखा है कि

१. आर्यः बुलेटीन दे रलिजियान दे लिन्द, पृ० २८८ आदि । ए० वी० कीथः इंडियन एंटीक्वेरी, भाग २३, पृ० ५२ आदि ।

२. दे० एच० याकोबी : जर्मन ओरियेंटल जर्नल, भाग ४८, पृ० ४०७-४१७ ।

३. दे० एच० याकोबी : इस रामायण, पृ० ५० आदि ।



वाल्मीकि ने अपने शिष्यों को रामायण सिखला कर उसे राजाओं, ऋषियों तथा जनसाधारण को सुनाने का आदेश दिया :

कृत्स्नं रामायणं काव्यं गायतां परया मुदा ॥४॥

ऋषिवाटेषु पुष्येषु ब्राह्मणवसथेषु च ।

रथ्यासु राजमार्येषु पाण्डितानां गृहेषु च ॥५॥

(उत्तरकाण्ड १३)

इससे ज्ञात होता है कि रामायण मौखिक रूप से प्रचलित था। कुशीलव सारे देश में उसे गाकर सुनाते थे और इस प्रकार अपनी जीविका चलाते थे। वे काव्योपजीवी ही थे, रामायण उनको कठस्थ था और वे उसे अपने पुत्रों को सिखलाते थे। रामायण का कोई ग्रंथ प्रचलित नहीं था और प्राचीन फलश्रुति श्रवणफलस्तुति ही है

श्रुत्वा रामायणमिदं दीर्घमायुश्च विन्दति । (६, १२८, १०९)

बाद में रामायण के पढ़ने तथा लिखने का भी उल्लेख मिलता है :

रामायणमिदं कृत्स्नं शृण्वतः पठतः सदा ॥ ११६ ॥

भक्त्या रामस्य ये चेत्सं संहितामृषिणा कृताम् ।

ये लिखन्तीह च नरास्तेषां वासस्त्रिविष्टपे ॥ १२० ॥ (५, १२८)

लेकिन फलश्रुति का यह अन्तिम अंश गौडीय पाठ में नहीं मिलता। टीकाकार कतक ने भी उसे प्रक्षिप्त माना है।

कुशीलव रामायण को गाने-गाते अपने श्रोताओं की रुचि का भी ध्यान रखते होंगे। जिन गायकों में काव्यकौशल था वे इन लोकप्रिय अंशों को बढ़ाते थे और इसी तरह आदिरामायण का कलेवर बढ़ने लगा।<sup>१</sup>

१३८. चतुर्थ भाग में इन प्रक्षेपों का निरूपण किया जायगा, अतः यहाँ इनकी सामान्य विशेषताओं का उल्लेख पर्याप्त है।

(१) बहुत से प्रक्षेप पुनरुक्ति मात्र से उत्पन्न हुए हैं। एक ही घटना का वर्णन दुहराया जाता है अथवा मूल घटना के समान अन्य घटनाओं की कल्पना कर ली जाती है। उदाहरणार्थ :

१. दे० एच० याकोबी : इस रामायण, पृ० ६२-३।

रावण का मारीच के यहाँ जाना (३, सर्ग ३१ और ३५) ।  
 रावण के गुप्तचरो का वृत्तान्त (६, २० और २५-३०) ।  
 सीता की गंगा तथा यमुना से प्रार्थना (२, ५२ और ५५) ।  
 आश्रमों में आगमन । अत्रि, वाल्मीकि, धारमग, सुतीक्ष्ण, अगस्त्य के आश्रमों  
 का उल्लेख आदिरामायण में नहीं मिलता था ।  
 विराध, अयोमुखी आदि राक्षसों का वध ।  
 राम के मायामय सिर का वृत्तान्त (६, ३१) मायामयी सीता-वध के वृत्तान्त  
 (६, ८१) का अनुकरण मात्र है ।

- (२) अद्भुत रस की सामग्री  
 लकादहन, जिसमें हास्य रस का भी समावेश है ।  
 ओषधिपर्वत का ले आना (इसका दाँ वार वर्णन होता है, दे० अनु० ५६४) ।  
 अग्निपरीक्षा ।
- (३) करुणात्मक स्थलों की पुनरुक्ति :  
 विलाप (दे० अरण्य काण्ड, सर्ग ६०, ६२ और ६३) ।  
 हनुमान् का सीता से विदा लेना (५, ५८-६०) ।  
 हनुमान् द्वारा सीता से भेंट का वर्णन (५, ६६-६८) ।
- (४) काव्यात्मक तथा अलंकारपूर्ण वर्णन :  
 गंगा का वर्णन (२, ५०) ।  
 वर्षा ऋतु का वर्णन (४, २८) ।  
 शरद् ऋतु का वर्णन (४, ३०) ।
- (५) रामायण की ज्ञान का भंडार बनाने की प्रवृत्ति .  
 नीति के उपदेश (२, १००) ।  
 जावालि का लोकायत दर्शन प्रस्तुत करना (२, १०८) ।  
 दिग्दर्शन (४, ४०-४३) ।
- (६) आदर्शवाद का प्रभाव :  
 राम का वालि-वध को न्यायसंगत सिद्ध करने का प्रयत्न (४, १७-१८) ।

## (२) बालकांड और उत्तरकांड

१३९. आदिरामायण की कथावस्तु न केवल बीच के प्रक्षेपों के कारण बढ़ने लगी वरन् राम कौन थे, सीता कौन थी, इनका विवाह कब और कैसे हुआ आदि

नितान्त स्वाभाविक प्रश्न थे। जनसाधारण की इस जिज्ञासा को सन्तुष्ट करने के लिए बालकांड की रचना की गई।

यह बाद की रचना ही है, अतः इसमें एक नवीन वातावरण का आ जाना आश्चर्यजनक नहीं है। इसकी शिथिल शैली पर आदिकवि की छाप नहीं है। राम के बालचरित के अतिरिक्त उसकी मुख्य नवीन सामग्री पौराणिक कथाएँ (जिनमें ब्राह्मणों का प्रभाव स्पष्ट है) और अवतारवाद की भावना (दे० पुत्रेष्टि-यज्ञ तथा परशुराम का वृत्तान्त) है। आठवें अध्याय में दिखलाया गया है कि अवतारवाद मूल बालकांड का अंग नहीं हो सकता। उत्तरकांड में यह अवतारवाद अत्यन्त व्यापक है। इससे स्पष्ट है कि यह कांड बालकांड के बहुत बाद रचा गया है। उत्तरकांड में रामायण के प्रबिनायक रावण का पूर्वचरित संकलित है और इसके बाद राम का उत्तरचरित दिया जाता है—मीना-स्वाग और माना का भूमि-प्रवेश, राम का अश्वमेध तथा स्वर्गारोहण। इस कांड में भी बहुत सी पौराणिक कथाएँ उद्धृत हैं और ब्राह्मणों की ध्येष्टना बहूना में स्थलों पर प्रतिपादित है (दे० शम्भूक वध, अश्वमेध)। चतुर्थ भाग में बालकांड और उत्तरकांड, दोनों के विकास की रूपरेखा अंकित करने का प्रयत्न किया जायगा (दे० आगे० अनु० ३३३ और ६१८)।

यहाँ स्मरण दिलाना अनुचित नहीं होगा कि राम-कथा के विकास में आदिरामायण के प्रक्षेप अर्थात् बालकांड, उत्तरकांड, अवतारवाद मूल आदिरामायण के प्रामाणिक अंशों में कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। द्वितीय अध्याय में दिखलाया गया है कि दूसरी शताब्दी ई० में लेकर रामायण अपना प्रचलित रूप धारण कर चुका था और उस समय से लेकर कवियों तथा जनसाधारण ने प्रामाणिक तथा प्रक्षिप्त सामग्री में कोई अन्तर नहीं माना है। इस सामग्री की सबसे महत्त्वपूर्ण भावना अवतारवाद ही है। इसकी उत्पत्ति पर किञ्चित् प्रकाश डालना अपेक्षित है।

### (३) अवतारवाद

१४०. अवतारवाद की भावना हमें पहले-पहल शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। प्रारंभ में विष्णु की अपेक्षा प्रजापति को इस सम्बन्ध में अधिक महत्त्व दिया जाता था। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार प्रजापति ने ही मत्स्य (दे० १, ८, १, १), कूर्म (७, ५, १, ५; १४, १, २, ११) तथा वाराह (१४, १, २, ११) का अवतार लिया था। प्रजापति के वाराह का रूप धारण करने की कथा तैत्तिरीय संहिता

१. दे० एच० याकोबी . इनकारनेशन, इन्साइक्लोपीडिया ऑव रिक्लीजन एण्ड एथिक्स, भाग ७।

काणे: हिस्टरी ऑव धर्मशास्त्र जिल्द २, भाग २, पृ० ७१७ आदि।

एम० एम० विलियम्स: इंडिज्डम, पृ० ३१८ आदि।

(७, १, ५, १), तैत्तिरीय ब्राह्मण (१, १, ३, ६), तैत्तिरीय आरण्यक (१०, १, ८) तथा काठक संहिता (८, १) में भी प्रारम्भिक रूप में विद्यमान है। रामायण के दक्षिणात्य पाठ में इसका उल्लेख है :

सतः सम्भवद् ब्रह्मा स्वयंभूर्देवतः सह ॥ ३ ॥

स बराहस्ततो भूत्वा प्रोञ्जहार वसुंधराम् ।

(अयोध्या काण्ड, सर्ग ११०)

अन्य दो पाठों में इस स्थल पर पर्वती भावना के अनुमात्र विष्णु का नाम लिया गया है (दे० गौ० रा० २, ११९ और प० रा० २, ११३) ।

शतपथ ब्राह्मण के अतिरिक्त तैत्तिरीय आरण्यक में भी कूर्म को प्रजापति का अवतार माना गया है (दे० १, २३, ३) । महाभारत में समुद्र-मथन के प्रसंग में कूर्मराज का उल्लेख तो हुआ है किन्तु इसमें कहीं भी किसी देवता की ओर निर्देश नहीं मिलता । सुरासुर कूर्मराज से निवेदन करते हैं कि वे मन्दराचल के आधार बनने की कृपा करें :

ऊधुश्च कूर्मराजानमकूपारं सुरासुरा ।

गिरेरधिष्ठानमस्य भवान्भविष्यति ॥ १० ॥

(आदिपर्व, अध्याय १६)

रामायण के उदीच्य पाठ में समुद्र-मथन के वृत्तान्त में कूर्म का उल्लेख नहीं है (दे० गौ० रा० १, ४६, प० रा० १, ८१) किन्तु दक्षिणात्य पाठ के एक प्रक्षेप में इस अवसर पर विष्णु के बाराह अवतार लेने की कथा मिलती है (दे० रा० १, ४५, २७-३२) ।

एच० गय चौधरी अर्ली हिस्ट्री ऑफ वैष्णव सेक्ट, पृ० ९६ ।

जेद अवेस्ता में भी अवतारवाद की भावना विद्यमान है ।

बहराम यस्त (रचनाकाल चौथी श० ई० पू०) में विजय के देवता वरध्वज के दस अवतारों का वर्णन है (दे० सेक्रेट बुक ऑफ दी ईष्ट, भाग २३, पृ० २३६) । अधिक संभव है कि वरध्वज (वृषध्वज) का सबंध इद्र से है । फारसी में वरध्वज का नाम बहराम है, इनके दस अवतार संभवतः राशिचक्र के नक्षत्रों से संबद्ध हैं (दे० जे० सी० कोयाजी; कन्ट्रिब्यूटिंस टू इंडियन एंथ्रॉपॉलॉजी, पृ० ४५) । जेद अवेस्ता के आठवें यस्त में एक नक्षत्र के अधिष्ठाता देवता का भी उल्लेख है, जो मनुष्य, वृषभ तथा अश्व के रूप में प्रकट हो जाता है और वह अनावृष्टि के अपदेवता को परास्त करता है ।

मत्स्य अवतार तथा प्रजापति का संबंध महाभारत में उल्लिखित है :

अहं प्रजापतिर्ब्रह्मा मत्परं नाधिगम्यते ।

मत्स्यरूपेण पूयं च मयास्मान्मोक्षिता भयात् ॥ ४८ ॥

(आरण्यक पर्व, अध्याय १८५)

विष्णुपुराण में भी मत्स्य, कूर्म तथा वाराह, तीनों को प्रजापति का अवतार माना गया है :

तोयान्तःस्थां महीं ज्ञात्वा जगत्येकार्णवीकृते ।

अनुमानात्तदुद्धारं कर्तुकामः प्रजापतिः ॥ ७ ॥

अकरोत्स्वतनूमन्यां कल्पाविषु यथा पुरा ।

मत्स्यकूर्माविकां तद्वद्वाराहं वपुरात्स्थितः ॥ ८ ॥ (१, अध्याय ४)

किंतु विष्णु पुराण में विष्णु तथा ब्रह्मस्वरूप नारायण की अभिन्नता का प्रतिपादन किया जाता है; अतः इसी चतुर्थ अध्याय में विष्णु के रूप में वाराह की स्तुति की गयी है तथा एक अन्य अध्याय में कूर्म को भी विष्णु का ही अवतार माना गया है (दे० १, ९)।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मत्स्य, कूर्म तथा वाराह अवतार प्रारंभ में प्रजापति से संबंध रखते थे किंतु बाद में विष्णु का महत्त्व बढ़ जाने के कारण तीनों विष्णु के ही अवतार माने जाने लगे। महाभारत के नारायणीय उपाख्यान (दे० १२, ३२६, ७२ तथा १२, ३३७, ३६) तथा हरिवंशपुराण में (दे० १, ४१) वाराह तथा विष्णु का संबंध मान लिया गया है। आगे चलकर तीनों का नाम लेकर एक-एक महापुराण की सृष्टि हुई, जिसमें विष्णु से उनकी अभिन्नता प्रतिपादित है (दे० मत्स्य, कूर्म तथा वाराह पुराण)।

१४१. अन्य मुख्य अवतारों के प्राचीनतम उल्लेख इस प्रकार हैं। वामनावतार तथा नृसिंह अवतार प्रारंभ से विष्णु से ही संबंध रखते हैं। वामनावतार का उल्लेख तैत्तिरीय संहिता (२, १, ३, १), शतपथ ब्राह्मण (१, २, ५, ५), तैत्तिरीय ब्राह्मण (१, ७, १७) और ऐतरेय ब्राह्मण (६, ३, ७) में हुआ है। यह अवतार ऋग्वेद की एक कथा से विकसित माना जाता है (दे० ऋग्वेद १, २२ और शतपथ ब्राह्मण १, २, ५, १)। नारायणीय उपाख्यान (दे० महाभारत १२, ३२६, ७५) तथा हरिवंश पुराण (दे० १, ४१) में इसका विष्णु के अन्य अवतारों के साथ उल्लेख हुआ है। नृसिंहावतार की कथा पहले-पहले तैत्तिरीय आरण्यक के परिशिष्ट में (१०, १, ६) मिलती है। नारायणीय उपाख्यान (दे० १२, ३२६, ७३ और ३३७, ३६) तथा हरिवंश पुराण

(दे० १, ४१) में इसका उल्लेख है तथा विष्णुपुराण में नृसिंह की कथा वर्णित है (दे० १, १६)।

परशुराम-विषयक प्रारंभिक कथाओं में इनके अवतार होने का निर्देश नहीं मिलता (उदा० दे० महाभारत ३, ११५-११७), किंतु नागायणीय उपाख्यान (दे० १२, ३२६, ७७), हरिवंश पुराण (१, ४१, ११२-१२०) तथा विष्णुपुराण (१, ९, १४३) में उनको विष्णु का अवतार माना गया है।

१४२. प्रस्तुत सिंहावलोकन का निष्कर्ष यह है कि ब्राह्मणों में तथा अन्य प्राचीन साहित्य में अवतारवाद विद्यमान है किंतु उन प्रथो के रत्नकाल में न ती अवतारों की कोई विशेष पूजा की जाती थी और न इसमें विष्णु का प्राधान्य था। कृष्णावतार के साथ-साथ अवतारवाद के विकास में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन प्रारंभ हुआ—उस समय से लेकर अवतारवाद भक्ति-भाव में औत्प्रेय होने लगा।

वासुदेव कृष्ण भागवतो के इष्टदेव थे। प्रारंभ में उनका तथा विष्णु का कोई भी संबंध नहीं था। डॉ० हेमचन्द्र राय चौधरी का अनुमान है कि संभवतः तीसरी शताब्दी ई० पू० से वासुदेव कृष्ण और विष्णु की अभिन्नता की भावना उत्पन्न हुई थी। अवतारवाद के इस विकास का कारण प्रायः बौद्ध धर्म में जोड़ा जाता है। बौद्ध धर्म तथा भागवत सम्प्रदाय का भक्तिमार्ग, दोनों समान रूप में ब्राह्मण साहित्य के कर्मकाण्ड तथा यज्ञ-प्रधान धर्म की प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न और विकसित हुए। इसके फलस्वरूप धर्म के क्षेत्र में ब्राह्मणों का एकाधिकार लुप्त हो गया था। बौद्ध धर्म का अधिकाधिक प्रसार देखकर ब्राह्मणों ने भागवतो को अपनी ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से भागवतो के इष्टदेव वासुदेव कृष्ण को विष्णु-नागायण का अवतार मान लिया है।<sup>१</sup>

इससे अवतारवाद को बहुत प्रोत्साहन मिला। साथ-साथ विष्णु का भी महत्त्व बढ़ने लगा। इस तरह अवतारवाद की सारी भावना धीरे-धीरे विष्णु-नागायण में केन्द्रीभूत होने लगी और वैदिक साहित्य के अन्य अवतारों के कार्य विष्णु में ही आरोपित किए गए।

१. दे० अर्ली हिस्ट्री ऑफ दि वीणव सेक्ट, पृ० ६३।

२. दे० एच० चौधरी, वही, पृ० ६३।

एम० मोनियेर विलियम्स, वही पृ० ३२८।

सी० बँध, वही पृ० २५।

३. तैत्तिरीय आरण्यक (१०, १, ६) में वासुदेव तथा विष्णु की अभिन्नता का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है।

१४३. एक ओर तो अवतारवाद की भावना फैलती जा रही थी; दूसरी ओर कई शताब्दियों से राम का आदर्श चरित्र भारतीय जनता के सामने रहा था। रामायण की लोकप्रियता के साथ-साथ राम का महत्त्व भी बढ़ता रहा। उनकी वीरता के वर्णन में अलौकिकता की मात्रा भी बढ़ने लगी। रावण पाप और दुष्टता का प्रतीक बन गया और राम पुण्य और सदाचरण का। अतः इस विकास की स्वाभाविक परिणति यह हुई कि कृष्ण की भाँति राम भी विष्णु के अवतार माने जाने लगे। राम तथा विष्णु की अभिन्नता की धारणा कब उत्पन्न हुई, इसका ठीक समय निर्धारित करना असंभव है। फिर भी अवतारवाद उत्तरकाण्ड में इतना व्याप्त है कि इसे उत्तरकाण्ड की अधिकांश सामग्री के पूर्व का मानना चाहिए। अतः बहुत संभव है कि पहली शताब्दी ई० पू० से ही रामावतार की भावना प्रचलित होने लगी थी। रामायण के प्रक्षेपों के अतिरिक्त (दे० ऊपर अनु० ११७-१२४), महाभारत (दे० ऊपर अनु० ४६) तथा वायु, ब्रह्माण्ड, विष्णु, मत्स्य, हरिवंश आदि प्राचीनतम पुराणों में अवतारों की तालिका में राम दाशरथि का भी नाम आया है।

१४४. अवतारवाद के विकास में छठी या सातवीं शताब्दी ई० से महात्मा बुद्ध भी विष्णु के अवतार माने जाने लगे। प्राचीन साहित्य तथा पुराणों में ८०० ई० तक अवतारों की सख्या तथा नामों में भी एकरूपता नहीं मिलती। नारायणीय उपाख्यान में विष्णु के ६ अवतारों की सूची इस प्रकार है—वाराह, नृसिंह, वामन, भागव राम, दाशरथि राम और वासुदेव कृष्ण (दे० महाभारत १२, ३२६, ७२-९२)। इसी उपाख्यान के अन्य स्थल पर केवल चार अवतारों का उल्लेख है अर्थात् वाराह, नृसिंह, वामन तथा मनुष्यावतार (दे० ३३७, ३६)<sup>१</sup>। विष्णु पुराण के एक स्थल पर प्रजापति के मत्स्य, कूर्म और वाराह अवतारों का उल्लेख है (दे० १, ४, ७-८), एक अन्य स्थल पर आदित्य, भागव, राम तथा कृष्ण नामक विष्णु के चार अवतारों की सूची दी गई है (दे० १, ९, १४३-१४४)। इसके अतिरिक्त उस पुराण में वाराह (१, ४, १२ आदि), कूर्म (१, ९, ८८), मोहिनी (१, ९, १०९), नृसिंह (१, १६), राम दाशरथि (४, ४) तथा कृष्ण (भाग ५), सब का सब विष्णु से ही माना गया है तथा उनकी कथाओं का न्यूनाधिक विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। हरिवंश

१. दे० आर० सी० हाजरा, एनल्स भंडारकर इन्स्टिट्यूट, भाग १८, पृ० ३२१। काणे, वही, पृ० ७२१।
२. नारायणीय उपाख्यान में जो दस अवतारों की सूची मिलती थी, उसे पूना के प्रामाणिक संस्करण ने प्रक्षिप्त माना है; दे० अध्याय ३२६, ९५ तथा ३२६, ७१ की टिप्पणियाँ।

पुराण में बार-बार विष्णु के अवतारों की सूची मिलती है, किन्तु निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है कि उसमें एकरूपता का अभाव है :

- (१) पौष्कर, वाराह, नृसिंह, वामन, दत्तात्रेय, परशुराम, राम, कृष्ण, वेदव्यास, कल्कि (दे० १, ४१) ।
- (२) वामन, नृसिंह, परशुराम, वाराह, मोहिनी, राम, कृष्ण (दे० २, २२) ।
- (३) वाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण (दे० २, ४८) ।
- (४) वागह, नृसिंह, वामन, राम, कृष्ण (दे० २, ७१) ।

भागवत पुराण में अवतारों की सूचियों में दो बार बार्डस और एक बार इक्कीस अवतारों के नाम गिनाए गए हैं, किन्तु वहाँ भी न तो नामों में एकरूपता मिलती है और न क्रम में (दे० १, ३, २, ७, ११, ४) ।

विष्णु के दस मुख्य अवतारों की भावना तथा उनके निश्चित क्रम की परम्परा (मत्स्य से कल्कि तक) ८०० ई० से ही सर्वमान्य होने लगी ।<sup>१</sup>

### घ—राम-कथा का व्यापक प्रसार

१४५. रामकथा-विषयक गाथाओं में लेकर वाल्मीकि रामायण के प्रचलित रूप तक राम-कथा के प्रारम्भिक विकास की रूपरेखा अंकित करने का प्रयत्न प्रस्तुत अध्याय में किया गया है। यह उत्तरोत्तर विकास ही राम-कथा की लोकप्रियता का प्रमाण है। निबन्ध के अन्तिम अध्याय में इसके समस्त विकास के सिद्धावलोकन के साथ-साथ रामकथा की सामान्य विशेषताओं पर भी विचार किया जायगा। यहाँ राम-कथा के प्रारम्भिक व्यापक प्रसार की ओर संकेत करना है।

महाभारत की सामग्री से स्पष्ट है कि राम-कथा न केवल कोशल प्रदेश में प्रचलित थी वरन् इसका प्रचार पश्चिम की ओर भी हो चुका था। हर्गिबन से ज्ञात होता है कि रामायण की कथा को लेकर प्राचीन काल से नाटकों का अभिनय भी हुआ करता था :

रामायणं महाकाव्यमृद्दिव्य नाटकं कृतम्

जन्म विष्णोरमेयस्य राक्षसैर्ब्रवधेपत्या ॥६॥

(विष्णुपर्व, अध्याय ९३)

१. यह कल्कि का प्राचीनतम उल्लेख प्रतीत होता है। किन्तु हर्गिबन का प्रामाणिक संस्करण अब तक नहीं तैयार हो सका।
२. बार० सी० हाजरा, पुराणिक रेकार्ड्स, पृ० ८८ और इ० हि० क्वा०, भाग ११, पृ० १२०-२७।



राम-कथा की लोकप्रियता का एक और महत्त्वपूर्ण प्रमाण बौद्ध तथा जैन साहित्य से मिलता है। बौद्धों ने ईस्वी सन् के कई शताब्दियों पहले राम को बोधिसत्त्व मानकर राम-कथा की लोकप्रियता और आकर्षकता का साक्ष्य दिया है (दे० चौथा अध्याय)। जैनियों ने भी वाल्मीकि की रचना को मिथ्या कहकर राम-कथा के एक नये रूप में राम को अपनाने का प्रयत्न किया है (दे० पाँचवाँ अध्याय)।

इसी तरह राम-कथा प्रारम्भ से ही भारत की सस्कृति में इतनी फैल गई कि राम ने उस समय के तीन प्रचलित धर्मों में एक निश्चित स्थान प्राप्त किया—ब्राह्मण धर्म में विष्णु के अवतार, बौद्ध धर्म में बोधिसत्त्व तथा जैन धर्म में आठवे बलदेव के रूप में। आगे चलकर सस्कृत साहित्य की प्रत्येक शाखा में, अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य में, भारत के निकटवर्ती देशों में सर्वत्र राम-कथा का प्रभाव स्पष्ट दिखलाई पड़ता है।

---

तृतीय भाग

## अर्वाचीन राम-कथा साहित्य का सिंहावलोकन

अध्याय

१०. संस्कृत धार्मिक साहित्य में राम-कथा
११. संस्कृत ललित साहित्य में राम-कथा
१२. आधुनिक भारतीय भाषाओं में राम-कथा
१३. विदेश में राम-कथा

## संस्कृत धार्मिक साहित्य में राम-कथा

### क—रामभक्ति की उत्पत्ति और विकास

१४६. अर्वाचीन राम-कथा-साहित्य में अवतारवाद की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई व्यापकता के साथ-साथ भक्ति-भावना भी उत्पन्न हुई और धीरे-धीरे विकसित होने लगी। अतः राम-भक्ति की उत्पत्ति और विकास पर किञ्चित् प्रकाश डालना अपेक्षित है।

भारतीय भक्तिमार्ग का सूत्रपात और विकास राम-भक्ति के शताब्दियों पूर्व हुआ था। वेदों में इमका बीजारोपण हुआ और भागवत धर्म में वह पल्लवित हुआ। बौद्धधर्म तथा जैनधर्म की भाँति भागवतों का भक्तिमार्ग भी कर्मकांड तथा यज्ञ-प्रधान ब्राह्मण धर्म की प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न हुआ था। लेकिन इसमें वेदों की निन्दा को स्थान नहीं मिला और इस प्रकार बाद में ब्राह्मण तथा भागवत धर्म के समन्वय से वैष्णव धर्म की उत्पत्ति सम्भव हो सकी। इसमें भागवतों के देवता वासुदेव-कृष्ण प्राचीन वैदिक देवता विष्णु के अवतार माने गए हैं और भक्ति-भावना इन्हीं विष्णु-नारायण-वासुदेव-कृष्ण में केन्द्रीभूत होकर उत्तरोत्तर विकसित होने लगी। विष्णु के अन्य अवतार भी माने जाने लगे, जिनमें से रामावतार भारतीय सस्कृति के दृष्टिकोण में सबसे महत्वपूर्ण है (दे० ऊपर अनु० १४२)। फिर भी भक्तिमार्ग के इतिहास में, भागवत-धर्म तथा पांचरात्र के साहित्य में; गाँडित्य-भक्ति सूत्र, नारदीय भक्ति-शास्त्र; रामानुज, निम्बार्क, मध्व तथा वल्लभाचार्य के सम्प्रदायों में कृष्णावतार को प्रायः एकाधिकार मिला है।<sup>१</sup>

१४७ प्राचीन राम-कथा-साहित्य के निरूपण में जात हुआ है कि रामायण के प्रक्षिप्त अंशों में तथा महाभारत के कई स्थलों पर रामावतार का उल्लेख मिलता है। युद्धकाण्ड के एक प्रक्षिप्त मर्म में सीता को भी लक्ष्मी का अवतार बताया गया

१. भक्तिमार्ग के विकास के लिए दे०—

इनसाइक्लोपीडिया ऑव रिलीजन एण्ड एथिक्स, 'भक्तिमार्ग'।

हेमचन्द्र राय चौधरी : अर्ली हिस्ट्री ऑव वैष्णव सेक्ट।

बलदेव प्रसाद मिश्र : तुलसी दर्शन, पृ० ४१।

है (दे० सर्ग ११७, २७), लेकिन प्राचीन राम-साहित्य में कहीं भी राम-भक्ति का निरूपण नहीं मिलता। हरिवंश तथा प्राचीन पुराणों में भी राम-भक्ति का उल्लेख नहीं हुआ है। अतः रामावतार की भावना के बहुत काल बाद राम-भक्ति तथा राम-पूजा का आविर्भाव हुआ है। सर रामगोपाल भण्डारकर का कहना है कि यद्यपि ईसवी सन् के प्रारंभ से राम विष्णु के अवतार माने गये थे, किन्तु उनकी विशेष रूप से प्रतिष्ठा ग्यारहवीं शताब्दी के लगभग ही प्रारंभ हुई थी।<sup>१</sup> डॉ० श्राडर का भी निर्णय यह है कि जिन वैष्णव सहिनाओं में राम अथवा राधा की एकात्मिक पूजा प्रतिपादित की गई है, ये अर्वाचीन हैं और पाचरात्र के प्रामाणिक साहित्य के अनुकरण से उत्पन्न हुई है।<sup>२</sup> फिर भी गुप्तकाल में विष्णु के अन्य अवतारों की भाँति राम की भी पूजा प्रचलित थी। 'विष्णुधर्मोत्तर पुराण'<sup>३</sup> तथा वाराह मिहिर की 'बृहत्संहिता'<sup>४</sup> में राम-मूर्ति के निर्माण के लिए नियम मिलते हैं। वाकाटक महागनी प्रभावती<sup>५</sup> के विषय में प्रसिद्ध है कि वह भगवत् रामगिरि स्वामी की भक्तितन थी। अधिक संभव है कि वह रामगिरि स्वामी राम दाशरथि से अभिन्न है। अग्नि पुराण<sup>६</sup> में भी मत्स्यादिप्रतिमा लक्षण नामक ४९वें अध्याय में राम की मूर्ति का उल्लेख हुआ है।

ऐसा प्रतीत होता है कि राम-भक्ति का पल्लवन दक्षिण भारत में हुआ है। तमिल आल्वारों की रचना, अर्थात् नालायिर-प्रबन्ध में भगवान् विष्णु तथा उनके अवतारों के प्रति असीम भक्ति तथा आत्म-समर्पण की भावना का हृदयस्पर्शी निरूपण मिलता है।<sup>७</sup> यद्यपि विष्णु के अवतार कृष्ण को अधिक महत्त्व दिया गया है परन्तु प्राचीनतम आल्वारों के स्तोत्रों में राम का उल्लेख है और परवर्ती आल्वारों में निरन्तर मिलता है। (आठवीं श० ई०)।

कुलशेखर आल्वार की रचना में संभवतः प्रौढ रामभक्ति का प्राचीनतम निरूपण सुरक्षित है (नवीं श० ई० पूर्वार्द्ध)। यद्यपि उनके भी अधिकांश पद कृष्णावतार

१. सर भण्डारकर के तर्क अकाट्य प्रतीत होते हैं, दे० वैष्णवधरम शैविज्म', पृ० ४७ आदि।
२. दे० डॉ० श्राडर . इट्रोडक्शन टु दि पाचरात्र (मद्रास १९१६, पृ० १९।
३. ३. ८५, ६२, रचना-काल पाँचवीं श० ई०।
४. दे० ५८, ३०, रचना-काल छठी श० ई०।
५. इनका जीवन-काल पाँचवीं शताब्दी ई० है। दे० दि क्लासिकल एज, पृ० ४१७ (बम्बई १९५४)।
६. रचना-काल ८०० ई० के बाद।
७. दे० टी० ए० गोपीनाथ राव . हिस्टरी ऑव दि श्री वैष्णवस।

संबंधी हैं, परन्तु उनकी रचना का पाँचवाँ अंश रामावतार से सम्बन्ध रखता है और इसमें राम के प्रति अत्यन्त कोमल और हृदयस्पर्शी भक्ति प्रकट की गई है।<sup>१</sup>

१४८. रामभक्ति के काव्यात्मक तथा भावात्मक निरूपण के अतिरिक्त वैष्णव संहिताओं तथा उपनिषदों में रामभक्ति तथा रामपूजा का शास्त्रीय प्रतिपादन भी किया गया है। ऐसे ग्रन्थों की रचना पहले-पहल रामानुज सम्प्रदाय में हुई है। रामानुज ने तो स्वयं रामभक्ति पर नहीं लिखा है, परन्तु अपने श्रीभाष्य में उन्होंने विभवों अर्थात् अवतारों में राम तथा कृष्ण का विशेष उल्लेख किया है (श्रीभाष्य २, २. ४२)। उनके सम्प्रदाय में निम्नलिखित राम-सम्बन्धी वैष्णव संहिताओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें राम के प्रति दास्य भक्ति का प्रतिपादन किया गया है— अगतस्य-संहिता, कलिराघव, बृहव्वाघव, और राघवीय संहिता<sup>२</sup>। तीन रामभक्ति सम्बन्धी साम्प्रदायिक उपनिषदें सुरक्षित हैं—रामपूर्वतापनीय, रामोत्तरतापनीय तथा रामरहस्योपनिषत्<sup>३</sup>। तीनों रामोपासना में सम्बन्ध रखती हैं तथा इनमें राम-यत्र, राम-मंत्र, सीता-मंत्र आदि का उल्लेख है। राम परमपुरुष तथा सीता मूल प्रकृति मानी जाती हैं। उत्तरतापनीय (२, १८) तथा रामरहस्योपनिषत् (५, १९) में अद्वैत भक्ति भी प्रतिपादित की गई है :

सदा रामोऽहमस्मीति तत्त्वतः प्रवदन्ति ये ।

न ते संसारिणो नूनं राम एव न संशयः ॥

रामतापनीय के अनेक स्थलों पर अध्यात्मरामायण के रामहृदय तथा राम-गीता से साम्य पाया जाता है।<sup>४</sup> इसमें एक संक्षिप्त रामचरित भी दिया गया है (दे० ४, १७-२९), जिसके अनुसार रावण ने मुक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से सीता का हरण किया था (स्वनिबृत्त्यर्थम्); राम और लक्ष्मण सीता की खोज के मिस (व्याजेन) पृथ्वी का भ्रमण करने थे तथा सुग्रीव ने सीता को ले आने की आज्ञा दी थी। निम्नलिखित अन्य वैष्णव उपनिषदों में भी राम का उल्लेख हुआ है—कलिसंतरण, कृष्ण (जिसमें राम मुनियों को कृष्णावतार के समय गोपिकाएँ बनने का आश्वासन देते हैं), गोपालोत्तरतापनीय, तारसार, त्रिपाद-विभक्ति-महानारायण तथा मुक्ति-कोपनिषत्। इनमें राम-चरित का कोई वर्णन नहीं किया गया है।

१. जनल श्री बेकटेश्वर ओरियेटल इस्टिट्यूट, तिरुपति, भाग ३ (१९४२), पृ० १६६।

२. दे० डॉ० श्राडर : वही न० २६, १०१, १३३।

३. दे० वैष्णव उपनिषत् (अड्यार) और दयसन, सेकजिंग उपनिषद्स पृ० ८०२।

४. दे० ए० वेबर : मेम्बयार बालिन एकाडेमी, १८६४, पृ० २८३।

उन रचनाओं में प्रायः वेदांत तथा भक्ति का समन्वय करने का प्रयत्न किया गया है तथा राम को परमब्रह्म से अभिन्न माना गया है। मुक्तिकोपनिषद् में हनुमान् परमात्मा के रूप में राम की स्तुति करने के पश्चात् (राम एवं परमात्माइति सच्चिदानन्द, द्वे० अध्याय १, ४) उनसे निवेदन करते हैं कि वह अपने स्वरूप का तात्त्विक निरूपण करें—स्वद् रूपं ज्ञानुमिच्छामि तत्कतो राम मुक्तये (१, ५)। इसपर राम वेदान्त-ज्ञान को साधुज्य मुक्ति का साधन बताते हैं तथा हनुमान् को निर्गुण भक्ति की साधना करने का उपदेश देते हैं—अनामयोत्रं मम रूपमीषुशं भजस्व (२, ७३)।

अड्यार लाइब्रेरी बुलेटिन (भाग १९, पृ० ३१३-२६) में एक शान्त सीतोपनिषद् प्रकाशित हुई है, जिसमें सीता को प्रकृति, साक्षात् शक्ति, योगशक्ति, भोगशक्ति, वीरशक्ति आदि के रूप में चित्रित किया गया है। उन सब प्रथो का रचना-काल निर्धारित करना अशंभव प्रतीत होता है। डॉ० वेबर ने राम-तापनीय उपनिषद् का प्राचीनतम काल ११वीं शताब्दी माना है। उम समय में लेकर राम-भक्ति-विषयक साहित्य का निर्माण होने लगा था। स्तोत्रो के अतिरिक्त रामोपामना के विषय में भी बहुत सी रचनाओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें में एकाध हर्त्तारिण के रूप में सुरक्षित है; जैसे रामार्चनसोपान (राजेंद्र लाल मित्र, संस्कृत कैंटालॉग, भाग ९, पृ० १०२), सर्वसिद्धान्त (वही ७, ९९), रामार्चनपद्धति (हरप्रसाद शास्त्री, संस्कृत कैंटालॉग, भाग १, पृ० ३२३) और रामपूजापद्धति (वही)।

भगवद्गीता के अनुकरण पर रचित अनेक रामगीता नामक प्रथो का उल्लेख मिलता है, जिनमें वेदान्त के आधार पर राम के परमब्रह्मत्व का प्रतिपादन किया गया है। मद्रास में प्रकाशित (सन् १९०२) श्रीरामगीता गुरुज्ञानवासिष्ठ तत्त्वसारायण का भाग माना जाता है। गीता की भांति इसमें भी १८ अध्याय है, जो राम-हनुमान्-संवाद के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। सगुण-भक्ति के विषय में कहा है (अध्याय ११) कि सात्त्विक भक्त परम पद प्राप्त करते हैं; राजभक्त सालोक्य मुक्ति के भोगों के पश्चात् ब्राह्मण के रूप में जन्म लेते हैं तथा तामसभक्त, जो आर्थिक लाभ के कारण राम का आश्रय लेते हैं (वित्तार्थं भजति माम्) तरक जाते हैं तथा बाद में कुने आदि के रूप में प्रकट होते हैं (इवादिजन्म प्रपद्यन्ते)। कलकत्ता संस्कृत कॉलेज में एक रामगीता सटीका (कैंटालॉग भाग ४, न० २९०) सुरक्षित है, जो स्कंद पुराण के निर्वाणखंड का अंग माना जाता है और जिसके तीन अध्यायों में राम का परब्रह्मत्व प्रतिपादित है। हरप्रसाद शास्त्री के संस्कृत कैंटालॉग में भी (भाग १, नं० ३१४) एक रामगीतासटीका का उल्लेख है, जो उपर्युक्त रामगीता सटीका से भिन्न है।

१४९. इन सब रचनाओं का अब तक विश्लेषण नहीं हुआ है। राम-भक्ति के विकास में उनका क्या महत्त्व है, उनका रामानन्द की रचनाओं से क्या संबंध है आदि

प्रश्नों पर खोज की अपेक्षा है। इतना ही स्पष्ट है कि दर्शन की दृष्टि से रामानन्द का संबंध रामानुज सम्प्रदाय से ही रहा है। उनकी प्रामाणिक रचनाओं अर्थात् **वैष्णवमतान्त-भास्कर** तथा **श्री रामार्चनपद्धति** से पता चलता है कि भक्ति के क्षेत्र में उन्होंने (रामानुज के) विष्णु-लक्ष्मी के स्थान पर राम-सीता को अपना आराध्य माना है तथा उनके प्रति दास्य भक्ति का ही प्रचार किया है। भक्तमाल के कथनानुसार रामानन्द के गुरु राघवानन्द ने चारों वर्षों और आश्रमों के लिए भक्ति का द्वार खोल दिया था। रामानन्द के शिष्यों की परम्परागत सूची देखकर यह विश्वास दृढ़ हो जाता है कि रामानन्द भी अत्यधिक उदार थे। उनके हिन्दी पदों की प्रामाणिकता असंदिग्ध नहीं है किन्तु उनसे प्रेरणा पाकर कई शिष्यों ने राम-भक्ति के प्रचार में हिन्दी का उपयोग किया है<sup>१</sup>। रामानन्द सम्प्रदाय के प्रचार के कारण राम-भक्ति जनसाधारण में फैलने लगी; आगे चलकर गोस्वामी तुलसीदास ने इस राम-भक्ति को अपने अमर **रामचरित-मानस** में एक काव्यात्मक तथा हृदयग्राही रूप दिया है।

राम-भक्ति के विक्रम के साथ-साथ राम-कथा को भक्ति के साँचे में ढालने की आवश्यकता का भी अनुभव हुआ; फलस्वरूप बहुत से साम्प्रदायिक रामायणों की सृष्टि होने लगी, जिनमें **अध्यात्मरामायण**, **आनन्दरामायण**, **अद्भुतरामायण** प्रमुख हैं (दे० आगे अनु० १७५-१७७)। **अध्यात्मरामायण** का स्पष्ट उद्देश्य है शंकराचार्य के सुप्रसिद्ध वेदान्त के आधार पर राम-भक्ति का प्रतिपादन करते हुए वाल्मीकीय राम-कथा को किञ्चित् परिवर्तन के साथ प्रस्तुत करना। इसका रचना-काल संभवतः १५वीं शताब्दी ई० है। यद्यपि इसकी रचना रामानन्दी सम्प्रदाय के बाहर हुई होगी, फिर भी **अध्यात्मरामायण** शीघ्र ही इस सम्प्रदाय में प्रतिष्ठा पाने लगा और उसे **रामचरितमानस** का मुख्य आधार-ग्रन्थ बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ।

१५०. भारतीय भक्ति-मार्ग के इतिहास में कृष्ण तथा बाद में कृष्ण और राधा का स्थान निर्विवाद रूप से प्रधान है। अतः राम-भक्ति पर कृष्ण-भक्ति का प्रभाव पड़ जाना स्वाभाविक था। राम के प्रति दास्य-भक्ति के अतिरिक्त माधुर्य भक्ति का भी प्रतिपादन किया गया है और इस माधुर्य भक्ति के आधार पर रसिक सम्प्रदाय का संभवतः १६ श० ई० के अन्त में प्रवर्तन हुआ था। डॉक्टर भगवती प्रसाद सिंह ने इस रसिक भावना तथा रसिक साधना के विक्रम की रूपरेखा अंकित की है<sup>१</sup>।

१. दे० बदरीनारायण श्रीवास्तव का **रामानन्द-सम्प्रदाय** (प्रयाग, सन् १९५७ ई०)।

२. दे० राम-भक्ति में रसिक सम्प्रदाय पृ० ७६ आदि।

यहाँ केवल राम-कथा पर कृष्ण-लीला का प्रभाव विचारणीय है। वाल्मीकि रामायण, उत्तररामचरित, जानकीहरण, हनुमन्नाटक आदि में जो राम-सीता के संयोग शृंगार का वर्णन हुआ है, वह न तो कृष्ण-लीला के अनुकरण पर हुआ है और न माधुर्य-भक्ति-भाव की प्रेरणा से।

अध्यात्मरामायण की बाल-लीला पर कृष्ण की बाल-लीला का प्रभाव सुस्पष्ट है, आनन्दरामायण, सत्योपाख्यान आदि में जो राम-सीता की विलास-क्रीडाओं का बिस्तृत वर्णन किया गया है, वह भी कृष्ण-लीला से प्रभावित है किन्तु कृष्ण-कथा के अनुकरण की चरम सीमा यह है कि भृगुषडौरामायण (दे० आगे अनु० १८०), महारामायण (अनु० १८१), हनुमत्संहिता (अनु० १९०), बृहत्कोशल खंड (अनु० १९१), संगीत-रघुनन्दन (अनु० २५०) आदि ग्रन्थों में राम की रासलीला की भी कल्पना कर ली गई है। विवाह के पूर्व तथा विवाह के पश्चात् राम अयोध्या के आस-पास रास-लीला करते हैं तथा वनवास के समय चित्रकूट में भी। आगे चलकर कृपानिवास, मधुराचार्य आदि रसिक सम्प्रदाय के आचार्यों ने राम-कथा में एक और रिवर्तन कर दिया है "वास्तव में न तो सीता का हरण हुआ और न स्वयं ब्रह्म राम ने एक तुच्छ राक्षस के बंध के लिए धनुष-बाण ही धारण किया"। "वनयात्रा के समय राम, लक्ष्मण और सीता सहित चित्रकूट से आगे नहीं गये। वे स्वयं ब्रह्म रूप में अपनी आह्लादिनी शक्ति सीता जी के साथ चित्रकूट में विहार करते रहे। इस विहार-लीला में कैकय और व्यवस्था लक्ष्मण जी करते थे, जो जीव तन्त्र के प्रतिनिधि थे। चित्रकूट से आगे लक्ष्मी, नारायण और शेष उनके वेष में गये थे और परात्पर ब्रह्म की आज्ञा से उन्होंने ही रावण का बंध कर सीतारूप लक्ष्मी का उद्धार किया था। चित्रकूट में राम का यह विलास तब तक चलता रहा, जब तक विभीषण को राज्य देकर नारायण, लक्ष्मी और शेष सहित पुनः चित्रकूट नहीं लौट आये। कृपानिवास जी ने स्वर्गचित रामायण में यह कथा विस्तारपूर्वक लिखी है। मधुराचार्य जी ने गज्याभिषेक के अनन्तर सीता-वनवास की घटना को इसी प्रकार राम की प्रकाशलीला माना है"।

रसिक-सम्प्रदाय में राम के बहुत से विवाहों का उल्लेख किया गया है (दे० आगे अनु० ४०८)। बाल-लीला के वर्णन में राम द्वारा दैत्यो का मारा जाना भी कृष्ण-कथा का प्रभाव माना जा सकता है (दे० अनु० ३८०)।

१ दे० राम-भक्ति में रसिक सम्प्रदाय, पृ० २८२।

२. दे० वही, पृष्ठ २९७।



ऐसा प्रतीत होता है कि राम-भक्ति की मधुर उपासना प्रधानतया मध्यवेश में विकसित हुई, किंतु बंगाल में भी इस प्रकार का विकास हुआ है।

जगत राम राय के अब्दुतरामायण के एक कांड का नाम रामरास ही रखा गया है (दे० आगे अनु० २८७); उसी लेखक के आत्मबोध नामक ग्रंथ के १२वें अध्याय में राम को रसराम कहकर पुकारा गया है। बंगीय सहजीय सम्प्रदाय में यह नाम कृष्ण के लिए प्रयुक्त होता है। बंगीय साहित्य परिषद् पत्रिका में रामरास-विषयक ब्रजबुली के दो पदों का प्रकाशन हुआ है; इनका रचना-काल अनिश्चित है। आसाम के भीतिरामायण में माना गया है कि राम ने चित्रकूट में एक मायामय अयोध्या की सृष्टि करके चंद्रचतुर्दशी का पर्व मनाया था (दे० अनु० ४४०)।

## ख—पौराणिक साहित्य

### (१) हरिवंश

१५१. हरिवंश का रचना-काल ४०० ई० के लगभग माना जाता है। इसमें एक सक्षिप्त रामचरित मिलता है, जिसमें रामावतार के उल्लेख के बाद वनवास से लेकर रावण-वध तक राम-कथा की मुख्य घटनाओं का वर्णन दिया गया है। अनन्तर राम-राज्य की प्रशंसा की गई है। इस वृत्तान्त में दशरथ के यज्ञ का अथवा अयोनिजा सीता का कही उल्लेख नहीं हुआ है।

हरिवंश के दो स्थलों पर रामायण का (दे० २, १३, ६, ३, १३२, १५) तथा एक अन्य स्थल पर वाल्मीकि के काव्य का निर्देश मिलता है—सरस्वती च वाल्मीके (२, ३, १८)। अवतारों की चार तालिकाओं में राम का नाम भी दिया गया है (दे० ऊपर अनु० १४८)। इसके अतिरिक्त अन्य स्थलों पर भी राम अथवा राम-कथा का उल्लेख किया गया है (उदा०—१, १५, २६; १, ५४, २६, २, ६०, ३५; ३, ७६, २४)।

१. दे० भाग २, पृ० १२५-१२६। बंगीय साहित्य के उपर्युक्त उद्धरणों के लिए मैं श्री देवीपाद भट्टाचार्य (यादवपुर विश्वविद्यालय) का आभारी हूँ।

२. आर० सी० हाजरा : इण्डियन कल्चर, भाग २, पृ० २३७ और न्यू इण्डियन एंटीक्वेरी, भाग १, पृ० ५२२।

३. दे० १, ४१, १२१-५५। हरिवंश के संदर्भ गीता प्रेस, गोरखपुर के संस्करण के हैं।

## (२) प्रधान महापुराण

१५२. पौराणिक साहित्य के काल-निर्णय के विषय में प्रस्तुत निबन्ध में डॉ० राजेन्द्र हाजरा की पुस्तक<sup>१</sup> तथा उनके अन्य लेखों का सहारा लिया गया है। उनके अनुसार प्राचीनतम महापुराण कालक्रमानुसार निम्नलिखित है—मार्कण्डेय, ब्रह्माण्ड, विष्णु, वायु, मत्स्य, भागवत तथा कूर्म पुराण।

**मार्कण्डेय, ब्रह्माण्ड तथा मत्स्य पुराण** में रामचरित का कहीं वर्णन नहीं किया गया है। अन्य अवतारों के साथ ब्रह्माण्ड तथा मत्स्य पुराण में राम का नाम भी लिया गया है (दे० मत्स्य पु० अध्याय ४७; ब्रह्माण्ड पुराण ३, अध्याय ७३)। इसके अतिरिक्त ब्रह्माण्ड के मीथिल वंश के वर्णन में सीता के अलौकिक जन्म का उल्लेख दिया गया है (दे० ३ अध्याय ६४, १५)। इस पुराण का काल चौथी शताब्दी ई० माना जाता है।

१५३ **विष्णु पुराण** (चौथी शताब्दी ई०) में भी अयोनिजा सीता का उल्लेख मिलता है (४, अध्याय ५) और राम-कथा का सक्षिप्त रूप भी उद्धृत किया गया है (४, अध्याय ६)। हरिवंश की राम-कथा की अपेक्षा इसमें कुछ अधिक सामग्री मिलती है, विशेषकर ताटकावध, अयोनिजा सीता तथा राम आदि चार भाइयों के पुत्रों का उल्लेख। एक अन्य स्थान पर लवणासुर-वध का वर्णन किया गया है (१, १२.४)।

१५४. **वायु पुराण** (पाँचवीं श० ई०) की राम-कथा विष्णु-पुराण की राम-कथा से भिन्न नहीं है (दे० राम-चरित, अध्याय ८८, १९१-२०० तथा अयोनिजा सीता का जन्म, अध्याय ८९, २२)।

१५५. **भागवत पुराण** (छठीं अथवा सातवीं श० ई०) में जो राम-चरित उद्धृत है, उसमें पौराणिक साहित्य में पहले-पहल सीता लक्ष्मी का अवतार मानी गई है, सीता-स्वयंवर के अवसर पर राम धनुष तोड़ने हैं; राम ही शूर्पणखा को विरूपित करते हैं तथा धोबी के कारण सीता-त्याग का वर्णन किया गया है (दे० स्कंध ९, अध्याय १०-११)।

१५६. **कूर्म पुराण** (सातवीं श० ई०) में राम-कथा सम्बन्धी निम्नलिखित सामग्री पाई जाती है

राक्षस-वध-वर्णन (पूर्वविभाग, अध्याय १९)।

सूर्यवंश के वर्णन के अंतर्गत राम-चरित का वर्णन, जिसमें रावण-युद्ध के पश्चात् राम द्वारा शिवालय की स्थापना का उल्लेख किया गया है (पूर्वविभाग; अध्याय २१)।

पतिव्रतोपाख्यान में माया-सीता के हरण का वृत्तान्त (उत्तरविभाग, अध्याय ३४)।

१. आर० सी० हाजरा : पुराणिक रेकार्ड्स ऑन हिन्दू राइट्स एंड कस्टम्स, ढाका १९४०।

### (३) गौण महापुराण

१५७ शेष महापुराणों में प्राचीन सामग्री के साथ-साथ बहुत से प्रक्षेप भी पाए जाते हैं। कई महापुराणों का अनेक बार रूपान्तर भी किया गया है। अन्तिम रूपान्तर का काल डॉ० राजेन्द्र हाजरा के अनुसार दिया गया है।

बाराह पुराण में (रचना-काल लगभग ८०० ई०) पूरी राम-कथा तो मिलती ही नहीं किंतु एक स्थल पर दुर्जयकृत श्रीरामस्तवन (अध्याय १२) उद्धृत है और एक अन्य स्थल पर इसका उल्लेख किया गया है कि वसिष्ठ के परामर्श से दशरथ ने रामद्वादशी-व्रत का पालन किया था, जिसके फलस्वरूप उनको रामादि पुत्र प्राप्त हुए (दे० अध्याय ४५)। अध्याय १६३ (रचना-काल ८००-१००० ई०) में बाराह-मूर्ति की कथा भी मिलती है (दे० आगे अनु० ७८०)।

प्रचलित अग्नि पुराण की रचना ८०० ई० के पश्चात् हुई है, लेकिन इसकी बहुत कुछ मीमांसी और बाद की माननी चाहिए<sup>१</sup>। अग्निपुराण की राम-कथा बाल्मीकि रामायण के सात कांडों का संप्रेषण मात्र है (दे० अग्निपुराण, अध्याय ५-११); इसमें राम का मथरा पर अत्याचार करना वनवास का कारण बताया गया है तथा राम द्वारा मान्यवत् पर्वत पर चतुर्मास्य यज्ञ करने का उल्लेख है।

लिग पुराण (रचना-काल दशवीं शताब्दी के पूर्व) के इक्ष्वाकुवंश-वर्णन के अंतर्गत राम-चरित का अत्यन्त संक्षिप्त रूप दिया गया है (पूर्वांश ६६, ३५-३६); अबरीय उपाख्यान में राम तथा उनके भाइयों के अवतारत्व का उल्लेख मिलता है (दे० अनु० ३६१)।

अपेक्षाकृत अर्वाचीन वामन पुराण (३७, ८-१२) में वेदवती तीर्थ के प्रसंग में रावण द्वारा अपमानित वेदवती की सीता के रूप में उत्पत्ति का उल्लेख है।

१५८. प्राचीन नारदीय पुराण अप्राप्य है, प्रचलित नारदीय महापुराण दसवीं श० ई० का माना जाता है लेकिन बाद में इसमें बहुत से प्रक्षेप जोड़ दिए गए हैं।<sup>१</sup> पूर्वखंड में एक संक्षिप्त राम-चरित के बाद (बालकांड से युद्धकांड तक) द्रविड देश में ब्राह्मणों से बौधे हुए विभीषण की राम द्वारा मुक्ति की कथा दी गई है (दे० अध्याय ७९) तथा उत्तरकांड में बालकांड से उत्तरकांड तक समस्त बाल्मीकीय रामायण की संक्षिप्त राम-कथा दी गई है, जिसमें राम-लक्ष्मणादि नारायण-संकर्षणादि के अवतार बताए गए हैं (दे० अध्याय ७५)।

१. आर० सी० हाजरा : इंडियन हि० क्वा०, भाग १२, पृ० ६८३ आदि।

२. आर० सी० हाजरा : इंडियन कल्चर, भाग ३, पृ० ४७७।

१५९. ब्रह्मपुराण की अधिकांश सामग्री भिन्न-भिन्न अन्य पुराणों से ली गई है। २१३वें अध्याय का राम-चरित ज्यों का त्यो हरिवंश के ४१वें अध्याय से उद्धृत किया गया है। १७६ वें अध्याय में रावणचरित के अन्तर्गत रावण की तपस्या के वर्णन के बाद एक संक्षिप्त राम-कथा भी पाई जाती है, जिसमें रावण द्वारा अमरावती से चुराई हुई वासुदेवप्रतिमा का वृत्तान्त दिया गया है। रावण-वध के बाद राम ने उस मूर्ति को समुद्र को समर्पित कर दिया था, लेकिन बाद में कृष्ण ने उसे पुरुषोत्तम-क्षेत्र में स्थापित किया था। ब्रह्म पुराण की शेष राम-कथा-सम्बन्धी सामग्री गौतमी माहात्म्य (अध्याय ७०-१७५) के अन्तर्गत मिलती है। यह माहात्म्य प्रारम्भ में एक स्वतन्त्र ग्रन्थ था, जिसकी रचना १०वीं शताब्दी में अथवा इसके बाद हुई थी। इसमें भिन्न-भिन्न तीर्थों का महत्त्व दिखलाने के लिए बहुत सी कथाओं का सकलन किया गया है। रामतीर्थ-माहात्म्य में राम-कथा का वर्णन मिलता है, जिसकी निम्नलिखित विशेषताएँ हैं :

कैकेयी द्वारा देव-दानव-युद्ध में तीन वरों की प्राप्ति।

श्रवणकुमार-वध के प्रायश्चित्त स्वरूप दशरथ का अश्वमेध-यज्ञ करना तथा उसमें आकाश-वाणी द्वारा उसे पुत्रोत्पत्ति का आश्वासन दिया जाना।

वनवास के समय गौतमी-तट पर राम के पिडदान द्वारा नरक से दशरथ की मुक्ति (दे० अध्याय १२३)।

सहस्र-कुंड माहात्म्य (दे० अध्याय १५४) में सीता-त्याग का उल्लेख है और इसके बाद वियोगी राम के गौतमी-तट के सहस्र-कुंड पर तपस्या करने का वर्णन किया गया है।

किष्किंधा-तीर्थ-माहात्म्य में (अध्याय १५७) रावणवध के बाद अयोध्या की यात्रा करते हुए गौतमी-तट पर राम के पाँच दिन तक निवास तथा शिवालिंग-पूजा का उल्लेख किया गया है।

१६०. गण्ड पुराण का रचना-काल सम्भवतः दसवीं शताब्दी ई० है, लेकिन इसमें जो रामायण, महाभारत तथा हरिवंश का वर्णन किया गया है उसे बहुत अर्वाचीन प्रक्षेप मानना चाहिए। गण्ड पुराण की राम-कथा की विशेषता यह है कि इसमें राम स्वयं शूर्पणखा को विरूप कर देते हैं तथा अयोध्या लौटने के बाद पितृकर्म के लिए गयाशिर जाते हैं (दे० अध्याय १४३, बेकटेश्वर संस्करण)।

१. आर० सी० हाजरा : इंडियन कल्चर, भाग २, पृ० २३५।

२. आर० सी० हाजरा : पुराणिक रेकार्ड्स, पृ० १४४ और एनल्स भं० ओ० रि० इ०, भाग १९, पृ० ६८-७५।

१६१. स्कंद पुराण की अधिकांश सामग्री की सृष्टि आठवीं शताब्दी के बाद हुई है, लेकिन इसमें बहुत से प्रक्षेप मिलते हैं, जिनका रचना-काल अज्ञात है। वेंकटेश्वर प्रेस के संस्करण में निम्नलिखित राम-कथा विषयक सामग्री पाई जाती है।

(१) माहेश्वर खंड । केदारखंड

अध्याय ८—रावण-चरित के बाद रामावतार-वर्णन तथा राम द्वारा रावण-वध ।

(२) वैष्णव खंड

(अ) कार्तिकेय माहात्म्य

अध्याय २०-२५—अवतारकारण के वर्णन के अंतर्गत वृन्दा-शाप तथा धर्मदत्त और कलहा की कथा । धर्मदत्त का पुनर्जन्म में दशरथ होना ।

(आ) बंशाख्यमासमाहात्म्य

अध्याय २१—वाल्मीकि की जन्म-कथा ।

(इ) अयोध्यामाहात्म्य

अध्याय ६—राम का स्वधामगमन ।

(३) ब्राह्मखंड ।

(अ) सेतुमाहात्म्य

अध्याय २—एक संक्षिप्त राम-चरित, जिसमें सेतुवध का विशेष रूप से वर्णन किया गया है ।

अध्याय ७—समुद्रबधन के पूर्व शिवप्रतिष्ठा का वर्णन ।

अध्याय २२—सीता की अग्निपरीक्षा, अग्नि द्वारा सीता के सतीत्व की प्रशंसा ।

अध्याय २७—रावणवध के बाद ब्रह्महत्या के प्रायश्चित्त के लिए राम द्वारा कोटि-तीर्थ पर शिवलिंग की स्थापना ।

अध्याय ३०—विमोषण द्वारा सेतु को तोड़ने के लिए राम से प्रार्थना ।

अध्याय ४४-४७—रामोपाख्यान पर आधारित एक संक्षिप्त राम-चरित; रावण-वध के प्रायश्चित्त-स्वरूप राम द्वारा रामेश्वर-लिंग की स्थापना; हनुमान् का शिवलिंग ले आने के लिए कैलाश भेजा जाना तथा मुहूर्त बीत जाने की आशंका से राम द्वारा सैकत लिंग की स्थापना ।

(आ) धर्मारण्यखंड

अध्याय ३०-३१—एक संक्षिप्त काल-निर्णय रामायण (दे० आगे अनु० १७९) ।

अध्याय ३२-३५—राम द्वारा धर्मारण्य की तीर्थ-यात्रा ।

(४) काशीखंड । इसमें राम-कथा का अभाव है ।

(५) अवन्तीखंड । (अ) आचल्य श्रेष्ठमाहात्म्य

अध्याय २१—शिवलिंग ले आने के उद्देश्य से हनुमान् की लंका-यात्रा ।

अध्याय २४—वाल्मीकि की जन्मकथा ।

(आ) अनुरशीर्तिलगमाहात्म्य

अध्याय ७९—हनुमान् का चरित; इसमें हनुमान् को रुद्रावतार माना गया है ।

(इ) रेवा खंड

अध्याय ८३—ब्रह्महत्यादोष के निवारण के लिए हनुमान् की तपस्या ।

अध्याय १३६—अहल्योद्धार की कथा; राम से उद्धार पाने के पश्चात् अहल्या नर्मदा तीर्थ पर शिव की पूजा करने जाती हैं ।

अध्याय १६८—रावणादि भाइयों की तपस्या तथा शिव द्वारा वरदान ।

(६) नागर खंड ।

अध्याय २०—लक्ष्मण का स्वामिद्रोह तथा तपस्या ।

अध्याय ९६-९८—शनि से दशरथ द्वारा वरप्राप्ति; दशरथ-इंद्र की मैत्री; दशरथ का कार्तिकेयपुर में पुत्र के लिए तपस्या करना । चार पुत्रों तथा एक पुत्री का जन्म ।

अध्याय ९९-१०३—राम का स्वर्गगोहण, विभाषण को राम द्वारा धर्मोपदेश; राम द्वारा सेतुभंग, अनेक तीर्थों में राम द्वारा शिवप्रतिष्ठा ।

अध्याय १२४—वाल्मीकि की कथा ।

अध्याय २०८—अहल्योद्धार, अहल्या की तीर्थयात्रा तथा शिवपूजा ।

(७) प्रभासखंड । प्रभासक्षेत्रमाहात्म्य ।

अध्याय १११-११३—रामेश्वर-तीर्थ में राम-लक्ष्मण द्वारा शिवप्रतिष्ठा ।

अध्याय १२३—रावण द्वारा रावणेश्वर-तीर्थ में शिवप्रतिष्ठा ।

अध्याय १७१—दशरथेश्वर में दशरथ द्वारा शिवप्रतिष्ठा (पुत्रप्राप्ति के उद्देश्य से) ।

अध्याय २७८—वाल्मीकि की कथा ।

१६२. पद्यपुराण के खंडों का अलग-अलग रचना-काल माना जाता है। पाताल खंड, जिसमें बहुत-सी राम-कथा-सम्बन्धी सामग्री मिलती है, बारहवीं शताब्दी का माना जाता है। उत्तरखण्ड अपना वर्तमान रूप १५०० ई० के लगभग प्राप्त कर सका। इसमें भी राम-चरित का पूरा वर्णन किया गया है<sup>१</sup>।

पातालखण्ड का एक गौडीय पाठ सुरक्षित है, जिसमें प्रारंभ के २८ अध्यायों में कालिदासकृत रघुवंश से बहुत कुछ मिलती-जुलती कथा दी गई है<sup>२</sup>। आनन्दाश्रम

१ आ० सी० हाजरा . इण्डियन कलचर, भाग ४, पृष्ठ ७३ आदि ।

२. दे० बाका विश्वविद्यालय की हस्तलिपि नं० १६२३ ।

संस्करण के पाताल खण्ड में रामाश्वमेध का विस्तृत वर्णन किया गया है (दे० अध्याय १-६८)। इस वर्णन की निम्नलिखित विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं :

- एक राम-चरित, जिसमें मुख्य घटनाओं की सब तिथियों का उल्लेख है। यह स्कन्द पुराण से उद्धृत किया गया है<sup>१</sup> (अध्याय ३६, ६-८०)।
- हनुमान् की वीरता का वर्णन (अध्याय ४४)।
- राम तथा शिव के अभेद का प्रतिपादन (अध्याय ४५-४६)।
- धोबी-कथन के फलस्वरूप मीता-त्याग (अध्याय ५५-५८)।
- कुशा-लव की उत्पत्ति तथा उनका राम की सेना से युद्ध करना (अध्याय ५९-६६)।
- राम-मीता का गर्भमलन, जिसमें राम-कथा मुख्तार बना दी गई है (अध्याय ६७-६८)।

पातालखण्ड के १०० वें अध्याय में बांधे हुए विभीषण की राम द्वारा मुक्ति की कथा दी गई है (दे० उपर अनु० १५८) तथा ११२ वें अध्याय में एक 'पुराकल्पीय-रामायण' का वर्णन भी किया गया है। उस राम-कथा में दशमस्कन्ध की चार पत्तियों (कौशल्या, मुमित्रा, मरुपा तथा मुवेषा) का उल्लेख है; बाल-लीला का किञ्चित् वर्णन किया गया है; सीता-स्वयंवर में इन्द्र, रावण आदि के असफल प्रयत्न के पश्चात् राम के धनुर्भंग करने का उल्लेख मिलता है; शिव के दिए हुए अजगव धनुष पर बानर-सेना के समुद्र को पार करने की कथा दी गई है तथा कुम्भकरण-वध रावण-वध के पश्चात् माना गया है। ११३वें अध्याय में राम शिव से शिव-भक्ति का वरदान माँगते हुए दिखलाए गए हैं (भक्तिरस्तु स्थिरा त्वयि श्लोक १७९)।

सृष्टिखण्ड में कोई विस्तृत राम-चरित नहीं मिलता है। केवल निम्नलिखित प्रसंगों का वर्णन किया गया है :

- अध्याय ३५ · शम्बूक-वध की कथा।
- अध्याय ३६-३८ · राम-अगस्त्य-संवाद, जिसमें वाल्मीकीय उत्तरकाण्ड के पाँच सर्गों की सामग्री उद्धृत की गई है (सर्ग ७९-८३)।
- अध्याय ३९ · राम का विभीषण को धर्मोपदेश देना तथा मथुरा में वामन की प्रतिष्ठा करना।
- उत्तर-खण्ड में वृन्दा-शाप (अध्याय १६ और १०५), रामरक्षास्तोत्र (अध्याय ७४) तथा शम्बूक-वध-कथा (अध्याय २३०) के अतिरिक्त राम-चरित का एक पूरा

१. दे० महाराष्ट्रीय श्री रामायण समालोचना, भाग २, पृ० ३६८। राजा आरण्यक ने यह राम-चरित लोमश ऋषि से सुना था।

वृत्तान्त भी मिलता है (दे० अध्याय २६९-२७१)। प्रारम्भ में रामावतार-कारण के वर्णन में स्वायम्भू मनु की तपस्या का उल्लेख है, जिसके फलस्वरूप वह तीन जन्मों में विष्णु को पुत्र के रूप में प्राप्त कर सके। शेष कथा वाल्मीकि रामायण के सात कांडों का संक्षिप्त रूप मात्र है। अतः यह कि इसमें अवतारवाद अधिक व्यापक है। राम के अपनी माता को अपना विष्णु-रूप दिखलाने का वर्णन किया गया है, राम और सीता विष्णु और लक्ष्मी के पूर्णावतार माने जाते हैं तथा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न क्रमानुसार अनन्त, सुदर्शन और पाचजन्य के अशावतार कहे गए हैं। इस कथा के अनुसार राम ने शूर्पणखा को विरूप किया था।

१६३. **बृहार्बवसं पुराण** की रचना सम्वत् ७०० ई० के पूर्व हुई थी, लेकिन उसका वर्तमान रूप सोलहवीं शताब्दी ई० का है। इसमें वेदवती-वृत्तात के वर्णन के बाद मीता-हृत्ण की कथा दी गई है, जिसमें अग्नि द्वारा एक मायामय मीता की सृष्टि करने का उल्लेख किया गया है (दे० प्रकृतिखण्ड, अध्याय १४)। यह कथा श्रीमद्देवी-भागवत के वृत्तान्त से अभिन्न है (स्कंध ९, अध्याय १६)।

कृष्ण-जन्म खण्ड (अध्याय ६२) में अहल्याद्वार के वर्णन के प्रसंगवश एक संक्षिप्त राम-कथा मिलती है, जिसमें शूर्पणखा के कुब्जा के रूप में प्रकट होने का वृत्तान्त पाया जाता है। इसी खण्ड (अध्याय ५६) में जय-विजय के तीन जन्मों का भी उल्लेख किया गया है।

## (४) उपपुराण

१६४. **विष्णुधर्मोत्तर पुराण** की रचना सम्वत् पाँचवीं शताब्दी के लगभग काश्मीर में हुई थी। इसमें लवण-वध की कथा के बाद (खण्ड १, अध्याय २००) भरत के गंधर्वों के विरुद्ध युद्ध का विस्तृत वर्णन किया गया है (अध्याय २०२-२६९)। इसके अन्तर्गत एक रावण-चरित मिलता है, जिसमें राम-लक्ष्मण-भरत-शत्रुघ्न क्रमानुसार नारायण-सकर्षण-प्रद्युम्न-अनिरुद्ध के अवतार बताए गए हैं (दे० अध्याय २१२)।

१. उत्तरखण्ड की इस कथा के गौडीय पाठ के लिए दे० जर्नल एसियाटिक सोसाइटी बंगाल, १८४२, पृ० ११२०-२८।

२. दे० आर० सी० हाजरा : पुराणिक रेकार्ड्स, पृ० १६६ और एनल्स ओ० ई०, भाग १९, पृ० ७६।

३. दे० आर० सी० हाजरा : स्टडीस इन दि उपपुराण, भाग १, पृ० २१२।



१६५. नृसिंह पुराण (४००-५०० ई०)' में छः अध्याय मिलते हैं। जिनमें बाल्मीकि रामायण के प्रथम छः काण्डों की कथा किञ्चित् परिवर्तन सहित संक्षेप में दी गई है (अध्याय ४७-५२)। अवतारवाद को अधिक महत्त्व दिए जाने के कारण राम नारायण के पूर्णावतार तथा लक्ष्मण शेष के अवतार बताए गए हैं। अहल्या अपने पति के शाप से 'पाषाणभूता' कही गई है। सीता के स्वयंवर के बाद अन्य क्षत्रिय राजाओं के राम पर आक्रमण का वर्णन किया गया है। सीता-हरण का ऐसा रूप प्रस्तुत किया गया है, जिसमें रावण सीता का स्पर्श नहीं करता (दे० आगे अनु० ५०२)। रावणवध के पश्चात् राम के यज्ञो का तथा उनके स्वर्गारोहण का उल्लेख किया गया है। सीता-त्याग का कोई भी निर्देश नहीं मिलता है। रावणवध का वर्णन वृत्तान्त के आरम्भ में दिया गया है (अध्याय ४७)।

१६६. बह्मि पुराण की स० १६४६ की एक हस्तलिपि लन्दन में सुरक्षित है<sup>१</sup>। इसमें एक अत्यन्त विस्तृत राम-कथा मिलती है, जिसमें बालकाण्ड से लेकर युद्धकाण्ड तक समस्त रामायण की कथावस्तु का वर्णन दिया गया है। प्रारम्भ में रामायतार और सीता-हरण के कारण (भृगु और पृथ्वी का शाप) तथा रावण-कुम्भकर्ण की जन्म-कथा (मधु-कैटभ, हिरण्यकशिपु-हिरण्यक्ष) का उल्लेख किया गया है। 'पाषाणभूता' अहल्या का (पृ० १८२ अ) तथा हनुमान् के मूषिका-रूप में लका प्रवेश का भी उल्लेख मिलता है। शेष कथा (पृ० २६६ अ) में किसी मौलिकता का नाम भी नहीं है।

१६७. शैव स्कन्द पुराण को छोड़कर उपर्युक्त पुराणों तथा उपपुराणों में जो राम-कथा मिलती है, उस पर साम्प्रदायिकता का प्रभाव कम पडा है। अन्य शैव तथा शाक्त उपपुराणों में इस साम्प्रदायिकता की गहरी छाप स्पष्ट है। राम शिव अथवा देविभक्त के रूप में दिखाई पडते हैं तथा शिव अथवा देवी के प्रसाद से रावण पर विजय प्राप्त करने में समर्थ माने जाते हैं।

वेकटेश्वर प्रेम द्वारा प्रकाशित शिवमहापुराण की रुद्र संहिता (१४वीं श०)<sup>२</sup> में निम्नलिखित राम-कथा-सम्बन्धी सामग्री मिलती है।

सृष्टि खण्ड—नारद-मोह की कथा (अध्याय ३-४),

१. आर० सी० हाजरा : वही भाग १, पृ० २४२।
२. इण्डिया ऑफिस लाइब्रेरी कैटालॉग, पृ० १२९४। डॉ० हाजरा के अनुसार यह प्रामाणिक आग्नेय पुराण है, जिसका वर्तमान वैष्णव रूप पाँचवीं श०-ई० का है। दे० ज० आँ० ई०, भाग ५, पृ० ४११-१६।
३. दे० आँवर हेरिटेज (कलकत्ता), भाग १, पृ० ६५। शिवपुराण सबधी डॉ० हाजरा का निबन्ध।

**सती खण्ड**—सती द्वारा राम की परीक्षा तथा गम का सती से कहना कि शंकर की आज्ञा से मैंने अवतार लिया है (अध्याय २४-२६) ।

**युद्धखण्ड**—वृन्दा-शाप की कथा (अध्याय २३) ।

इसके अतिरिक्त **शतशत्रुसंहिता** (१४वीं श० ई०) में शिव के वीर्य से हनुमान् के जन्म की कथा (अध्याय २०) भी दी गई है तथा **उन्नासंहिता** में राम द्वारा शिवपूजा तथा उनसे वरप्राप्ति का वर्णन मिलता है (अध्याय ३) ।

गणपति कृष्णजी प्रेस के **शिवपुराण** के सम्करण में, धर्मसंहिता के अन्तर्गत एक संक्षिप्त राम-कथा उद्धृत की गई है (अध्याय १३-१८), तथा ज्ञानसंहिता के अन्तर्गत वनवास के समय सीता द्वारा दशरथ के लिए पिडदान का वर्णन किया गया है (अध्याय ३०) और सागर को पार करने के लिए राम द्वारा शिव से महायना की प्रार्थना का उल्लेख है (अध्याय ५७) ।

१६८. श्रीमद्देवीभागवत पुराण<sup>१</sup> के नवगात्रमाहात्म्य की राम-कथा के अनुसार राम ने जर्पण्वा को विरूप किया था। शेष कथा रामायणीय कथा से बहुत कुछ मिलती-जुलती है। अन्तर्ग्रह है कि सीता-हरण के बाद नारद की शिक्षा के अनुसार गम रावण पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से नवगात्रोपवास कर्मे है। इसके अन्त में 'मिहार्कडा देवी भगवती' राम को दर्शन देकर रावण पर विजय का आश्वासन देती है। अनन्तर राम विजया-पूजा करके वानर-सेना सहित मम्द्र की ओर प्रस्थान करते हैं (दे० स्कध ३, अध्याय २८-३०)। इस पुराण के नवे स्कध में वेदवती-वृत्तान्त तथा छायाम्नीता की कथा मिलती है (अध्याय १६) ।

१६९. डॉ० राजेन्द्र हाजग के अनुसार<sup>२</sup> महाभागवत पुराण (गुजराती प्रिंटिंग प्रेस, बम्बई १९१३) की रचना बसबी-ग्यारहवीं शताब्दी के लगभग पूर्व बंगाल अथवा पश्चिम कामरूप में हुई थी। इसमें एक रामोपाख्यान मिलता है (अध्याय ३७-४९), जिनकी कथावस्तु वाल्मीकीय राम-कथा में बहुत भिन्न नहीं है। इसकी निम्नलिखित विशेषताएँ हैं। जब देवता रावण-वध करने के लिए विष्णु से अवतार लेने की प्रार्थना करते हैं, विष्णु उनसे कहते हैं कि जब तक देवी लका में निवास करती हैं, मैं रावण को पराजित नहीं कर सकता। अनन्तर सब मिलकर कैलास पर देवी के पास जाते हैं। देवी सीता-हरण के कारण लका को छोड़ देने की प्रतिज्ञा करती है तथा शिव हनुमान् का रूप धारण कर राम की सहायता करने का वचन देते हैं। युद्ध के वर्णन में गम के देवी से प्रार्थना करने का अनेक स्थलों पर उल्लेख है, अतः राम देवी से अमोघ शस्त्र

१. रचना-काल ११वीं अथवा १२वीं शताब्दी ई०। दे० ज० अ० रि०, भाग २१, प० ६८।

२. दे० इ० हि० क्वा०, भाग ३८ (१९५२), पृ० १७-२८।

ब्रह्म कर रावण को मारने में समर्थ होते हैं (दे० अध्याय ४७, ६६)। ब्रह्मा भी राम की विजय के लिए देवी की मृण्मयी मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते हैं। इस वृत्तान्त में सीता मदोदरी के गर्भ में उत्पन्न मानी गई हैं (दे० अध्याय ४२, ६४)। इस पुराण में अन्यत्र मायासीता के हरण तथा नारद-शाप, दोनों का उल्लेख हुआ है (दे० अध्याय ११, १०७-११२)।

१७०. बृहद्धर्म पुराण (१३वीं श० ई०)<sup>१</sup> की राम-कथा महाभागवत (देवी) पुराण में बहुत भिन्न नहीं है। इसमें महाभागवत पुराण की उपर्युक्त विशेषताओं के अतिरिक्त सीता-हरण का वृत्तान्त नृसिंह पुराण की कथा से मिलता-जुलता है, तथा हनुमान् विडाल का रूप धारण करके लका में प्रवेश करते हैं (दे० पूर्वखंड, अध्याय १८-२२)। राम-कथा के वर्णन के पश्चात् रामायणोत्पत्ति का वृत्तान्त दिया गया है, जिसमें श्लोकोत्पत्ति आदि के बाद रामायण के उत्कर्ष-वर्णन के प्रसंग में रामायण के महाभार। तथा पुराणों का बीज होने का उल्लेख किया गया है (दे० पूर्वखंड, अध्याय २५-३०)।

१७१. सौर पुराण (९५०-१०५० ई०)<sup>२</sup> में पीलस्य-सप्तति (अध्याय ३०, १४-१९) तथा सूर्यवंश का (अध्याय ३०, ४८-६९) किंचित् वर्णन किया गया है। इसके अन्तर्गत की राम-कथा में राम को 'महादेवपरायण' कहा गया है तथा शकर के प्रसादस्वरूप राम के अपना पद प्राप्त करने का उल्लेख किया गया है। जनक ने गौरी को संतुष्ट करके सीता को (जो पार्वती के अंग से उत्पन्न हुई है) प्राप्त किया था, ऐसा कथन भी मिलता है।

१७२. कालिका पुराण (दशवी-न्यारहवीं श० ई०)<sup>३</sup> में ब्रह्मा द्वारा राम की विजय के लिए दुर्गा की पूजा का उल्लेख किया गया है (अध्याय ६२, २०-३८) तथा ३८वें अध्याय में जनक के हल जोतते समय सीता को तथा दो अन्य पुत्रों को प्राप्त करने की कथा दी गई है।

१७३. दो अपेक्षाकृत अर्वाचीन पुराणों में राम-कथा विषयक किंचित् सामग्री मिलती है। आदि पुराण<sup>४</sup> का वर्ण्य विषय वसुदेव-विवाह से लेकर यमलार्जुन-वृत्तान्त

१ आर० सी० हाजरा जर्नल युनिवर्सिटी गीहाटी, भाग ६ (१९५५)।

२ आर० सी० हाजरा . न्यू इंडियन एटिक्वेरी, भाग ७, ११२०।

३ भारतीय विद्या : भाग १६ (१९५६), पृ० ३५-४०।

४ बम्बई से स० १९८६ में प्रकाशित। रचना-काल १३वीं तथा १६वीं शताब्दी के बीच। दे० हाजरा, स्टडीस इन दि उपपुराण, पृ० २८८।

तक कृष्ण-खरित है। "नन्ददृष्ट स्वप्न वर्णन" नामक १६वें अध्याय में कृष्ण-जन्म के पश्चात् नन्द के एक स्वप्न का विवरण है, जिसमें एक संक्षिप्त राम-कथा के अतिरिक्त इसका भी उल्लेख किया गया है कि नन्द ने पूर्व-जन्म में भक्तिपूर्वक भगवान् से प्रार्थना की थी, जिसके फलस्वरूप रामावतार में तथा अब कृष्णावतार में उनको भगवान् के पिता हो जाने का वरदान प्राप्त हुआ था। आदि पुराण का राम-खरित वाल्मीकीय राम-कथा के अनुरूप है, इसकी एक विशेषता यह है कि कनक-मृग को देखकर राम स्वयं कहते हैं कि यह अवश्य ही कोई मायावी राक्षस है।

कल्कि पुराण<sup>१</sup> की संक्षिप्त राम-कथा (अध्या ३, ३, २६-५८) की विशेषता है कि इसमें राम-सीता के पूर्वानुराग की झलक मिलती है (दे० आगे अनु० ४०३)। एक अन्य स्थल पर इसका उल्लेख है कि सीता ने अशोकवन में रुक्मिणीव्रत किया था, जिसके फलस्वरूप वह राम से पुनः मिल सकी (दे० ३. १७, ४०)।

## ग—साम्प्रदायिक रामायण

### योगवासिष्ठ

१७४. योगवासिष्ठ रामायण वास्तव में साम्प्रदायिक रामायण नहीं है, लेकिन इसका उल्लेख यहाँ अन्य साम्प्रदायिक रामायणों के साथ अधिक मुविधाजनक है। एम० विटरनिस् तथा एस० एन० दासगुप्त योगवासिष्ठ को आठवीं शताब्दी ई० का मानते हैं<sup>२</sup> लेकिन डॉ० वी० राघवन् के अनुसार उसकी रचना ११०० ई० और १२५० ई० के बीच में हुई थी<sup>३</sup>। इस ग्रन्थ का मुख्य विषय वसिष्ठ-रामचन्द्र-संवाद है, जिसमें वसिष्ठ राम को मोक्ष-प्राप्ति पर एक विस्तृत उपदेश देते हैं। वाल्मीकि ने अरिष्टनेमि को यह संवाद सुनाया था तथा योगवासिष्ठ में अगस्त्य मुनीक्षण की शिक्षा के लिए वाल्मीकि-अरिष्टनेमि-संवाद दुहराते हैं।

इसके प्रारंभ में रामावतार के चार कारण बताए जाते हैं—सतकुमार, भृगु, वृन्दा तथा देवशर्मा ब्राह्मण के शाप (दे० वैराग्य प्रकरण, सर्ग १, ६०)। तब राम के जीवन्मुक्त होने, विद्याभ्यास करने तथा उनकी तीर्थ-यात्रा का वर्णन है (सर्ग ३)।

१. जीवानन्द विद्यासागर, कलकत्ता, १८९०। दे० डॉ० हाजरा (वहाँ पृ० ३०८) के अनुसार इसकी रचना १७०० ई० के पूर्व हुई थी।
२. दे० क्रमशः हि० इं० लि० भाग ३, पृ० ४४३ और हि० इं० फिलॉसफी भाग २, पृ० २३०।
३. दे० जर्नल ऑफ ओरियेंटल रिसर्च, भाग १३, पृ० १००-१२८। शिव प्रसाद भट्टाचार्य इसे अभिनन्द (१०वीं श० ई०) की रचना मानते हैं। दे० इं० हि० क्वा०, भाग २४, पृ० २०१-१२२।

अन्तर राम के सोलह वर्ष की अवस्था में विरक्त हो जाने की कथा भी गई है (सर्ग ५)। विश्वामित्र के कहने पर वसिष्ठ ने एक विस्तृत उपदेश दिया, जिसके फलस्वरूप राम निलिप्त होकर अपने कर्त्तव्य के पालन के लिए तत्पर हुए।

अन्तिम प्रकरण में काकभुशुण्डी के जन्म तथा उसके सुमेह पर निवास की कथा भी गई है। इस कथा में राम तथा भुशुण्डी का कोई विशेष संबंध नहीं सूचित किया गया है (दे० निर्वाण प्रकरण, पूर्वार्ध, सर्ग १४-२४)। आगे चलकर समस्त राम-कथा का सिंहावलोकन भी किया गया है। (दे० निर्वाण प्रकरण, पूर्वार्ध, सर्ग १२८, ६८-७३)।

### अध्यात्म रामायण

१७५ साम्प्रदायिक रामायणों में अध्यात्म रामायण निर्विवाद रूप से सब से महत्वपूर्ण है। इसके रचना-काल तथा रचयिता के विषय में खोज की अपेक्षा है। इस ग्रन्थ की रामानन्द सम्प्रदाय में बहुत प्रतिष्ठा है और इसका प्रभाव आनन्द-रामायण, रामचरितमानस तथा एकनाथ के मराठी रामायण आदि पर प्रत्यक्ष है। एकनाथ ने (१६ वीं श० ई०) अध्यात्म रामायण को एक आधुनिक रचना कहा है। अतः इसकी प्राचीनता में बहुत सन्देह है। सब से अधिक संभव यह है कि इसकी रचना १४वीं अथवा १५वीं शताब्दी में हुई थी। रामानन्द को भी इसके रचयिता सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है। अध्यात्म रामायण में रामानुज द्वारा प्रतिपादित समुच्चयवाद का स्पष्ट शब्दों में विरोध किया गया है और विशिष्टाद्वैत का कहीं भी समर्थन नहीं हुआ। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी रचना श्री सम्प्रदाय तथा रामावत संप्रदाय से अलग रहने हुए किसी स्वतंत्र दार्शनिक कवि द्वारा हुई थी।

राम-भक्ति के विकास में इस ग्रन्थ का अधिक महत्व है, राम-कथा के विकास में इसका स्थान अपेक्षाकृत गौण है। इसका मुख्य उद्देश्य है वेदान्त दर्शन के आधार पर राम-भक्ति का प्रतिपादन। प्रस्तुत निबन्ध के दृष्टिकोण में इसकी निम्नलिखित विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं—

—समस्त रचना पार्वती-शंकर-संवाद के रूप में दी गई है। नारद ने ब्रह्मा से इस संवाद को सुना था।

—अवतारवाद की व्यापकता : राम, सीता तथा लक्ष्मण के परब्रह्म, मूल-प्रकृति (योगमाया) तथा शेष के अवतार होने का निरन्तर उल्लेख किया गया है। विश्वामित्र वसिष्ठ, जनक, कौशल्या, कुम्भकर्ण, रावण आदि रामावतार के रहस्य से परिचित हैं।

१. दे० कलकत्ता संस्कृत सीरीज, भाग ११, भूमिका।

२. दे० दि आधारशिप ऑव दि अध्यात्म रामायण, जर्नल गंगानाथ झा रिसर्च इंस्टीट्यूट, भाग १, पृ० २१५-३९।

- बालकांड में भागवत का अनुकरण (दे० राम का कौशल्या को अपना विष्णु-रूप दिखलाना तथा राम की बाल-लीला, सर्ग ३) ।
- अहृत्योद्धार के अनन्तर केवट का वृत्तान्त, जिसे तुलसीदास ने अयोध्याकांड में रखा है (दे० १, ६)
- युवराज-अभिषेक के पूर्व राम-नारद-संवाद (दे० २, १) तथा मंथरा में सरस्वती का प्रवेश (दे० २, २) ।
- राम-नाम-माहात्म्य दिखलाने के लिए वाल्मीकि का अपनी आत्म-कथा सुनाना (दे० २, ६) ।
- मायामयी सीता के हरण का वृत्तान्त (दे० ३, ७) ।
- लक्ष्मण का १२ वर्ष तक उपवास करना (दे० ३, ४ तथा ६, ८) ।
- राम द्वारा सेतु-बन्ध के पूर्व शिवालिंग की स्थापना (६, ४) ।
- कालनेमि का वृत्तान्त (६, ६) ।
- रावण का शुक के परामर्श के अनुसार यज्ञ करना तथा अगद द्वारा उसका भंग किया जाना (६, १०) ।
- रावण के नाभिदेश में स्थित अमृत का उल्लेख (६, ११, ५३) ।
- वैकुण्ठ जाने के उद्देश्य से रावण के मीनाहरण करने का उल्लेख (७, ४, ९) ।

### अद्भुत रामायण

१७६. ऐसा प्रतीत होता है कि अद्भुत रामायण अथवा अद्भुतोत्तरकांड की रचना अध्यात्म रामायण के कुछ काल बाद हुई<sup>१</sup> । भूमिका में समस्त वृत्तान्त वाल्मीकि-भारद्वाज-संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है (दे० सर्ग १) । इसकी कथावस्तु तीन भागों में विभाजित की जा सकती है ।

#### (अ) अवतार के कारण (सर्ग २-८)

नारद तथा पर्वत द्वारा विष्णु को दिया हुआ शाप रामावतार का कारण बताया गया है । इस कथा के अनुसार अबरीष की पुत्री श्रीमती को भी शाप दिया जाता है । वह जानकी बनकर राक्षस द्वारा चुराई जाएगी (सर्ग २-४) ।

१ दे० वी० राधवन . म्यूसिक इन दि अद्भुत रामायण, जर्नल म्यूसिक एकेडमी, भाग १६, पृ० ६६ ।

जी० प्रियर्सन आन दि अद्भुत रामायण, वुलेटिन स्कूल ओरियन्टल स्टडिज भाग ४, पृ० ११ ।

प्रस्तुत परिचय ब्रेकटेश्वर प्रेस संस्करण पर निर्भर है ।

अनन्तर सीता के अवतार के कारण के विषय में एक नई कथा दी गई है। इसके अनुसार नारद ने स्वर्ग में अपमानित किए जाने के कारण लक्ष्मी को शाप दिया था, जिसके फलस्वरूप वह मंदोदरी की पुत्री बन गई (दे० सर्ग ५-८ तथा आगे अनु० ३७३)।

#### (आ) बाल्मीकीय राम-चरित (सर्ग ९-१६)

इसमें परशुराम के तेजोभंग से लेकर रावण-वध के बाद अयोध्या में प्रत्यागम तक समस्त राम-कथा का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। इस राम-कथा के अनुसार राम ने परशुराम को तथा सीता-हरण के बाद हनुमान को अपना विष्णुरूप दिखाया था। इसके अधिकांश सर्गों (११-१५) में राम तथा हनुमान् का भक्ति के विषय में एक विस्तृत सवाद दिया गया है।

#### (इ) सहस्रमुखरावण-वध (सर्ग १७-२७)

इस अन्तिम भाग में देवी-माहात्म्य का प्रत्यक्ष अनुकरण किया गया है। देवी का रूप धारण कर सीता द्वारा पुष्कर-निवासी सहस्र-स्कंध रावण का वध इसका वर्णन है। (दे० आगे अनु० ६३९)।

#### आनन्द रामायण

१७७. आनन्द रामायण<sup>१</sup> की रचना अध्यात्म रामायण के बाद तथा एकनाथ (१६ वीं श० ई०) के पूर्व हुई थी। अतः बहुत सम्भव है कि यह १५ वीं शताब्दी में लिखा गया हो। इसमें अनेक स्थलों पर अध्यात्म रामायण के उद्धरण<sup>२</sup> मिलते हैं तथा बहुत सी विचित्र कथाओं को भी स्थान दिया गया है। १२२५२ श्लोकों के इस विस्तृत ग्रन्थ की कथा-वस्तु का यहाँ अत्यन्त संक्षिप्त निरूपण किया जाता है। इसमें शिव-यार्वंती-सवाद का वर्णन है, जिसके अन्तर्गत द्वितीय कांड के तृतीय सर्ग में रामदास-विष्णुदास का उपसवाद मिलता है।

#### (१) सारकांड (१३ सर्ग)

दशरथ-कौशल्या-विवाह का वृत्तान्त, जिसके अन्तर्गत रावण द्वारा कौशल्या-हरण की कथा मिलती है। देव-दानव युद्ध में कैकेयी की वर-प्राप्ति। श्रवण-वध। दशरथ-यज्ञ तथा कैकेयी के पायस का एक काक द्वारा चुराया जाना तथा अंजनी-पर्वत पर फेंका जाना (सर्ग १)।

इसके बाद के सर्गों में राम-जन्म से लेकर उत्तरकांड के प्रथम ४० सर्गों तक की

१. दे० गोपाल नारायण (बम्बई) का संस्करण।

२. दे० महाराष्ट्रीयः श्री रामायण समालोचना, भाग २, पृ० ४२५।

समस्त वाल्मीकीय राम-कथा का वर्णन । निम्नलिखित वृत्तान्त उल्लेखनीय है :

बाल लीला-वर्णन (सर्ग २) तथा अहल्योद्धार के अनन्तर नाविक का वृत्तान्त (सर्ग ३, २४-२८) । दोनों वृत्तान्त अध्यात्म रामायण से लिए गए हैं ।

सीता-स्वयंवर में रावण की उपस्थिति (सर्ग ३) ।

अग्निजा सीता की जन्म-कथा (सर्ग ३, १८८ आदि) ।

बुन्दा-शाप तथा कलहा-वर्मदत्त का कैकेयी-दशरथ के रूप में अवतार (सर्ग ४) ।

सीताहरण के बाद सीता का रूप धारण कर उमा का राम की परीक्षा करना (सर्ग ७) ।

रावण का शिव से आत्मलिंग तथा पार्वती को प्राप्त करने तथा दोनों को खो बैठने की कथा । (सर्ग ९) ।

ऐरावण तथा मैरावण का राम-लक्ष्मण को पाताल ले जाना तथा हनुमान् द्वारा उनकी मुक्ति (सर्ग ११) ।

मुलोचना की कथा (सर्ग ११, २०५ आदि) ।

मुक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से रावण के सीता-हरण करने का उल्लेख (सर्ग १३, ११९ आदि) ।

## (२) यात्राकांड (९ सर्ग)

वाल्मीकि रामायण की उत्पत्ति (दे० १, २-१२ आदि) तथा वाल्मीकि द्वारा शतकोटिश्लोक रामायण की रचना का उल्लेख (सर्ग १-२) ।

इसके बाद आनन्द रामायण की अधिकांश सामग्री नवीन है । इस कांड के अंतर्गत चारों दिशाओं में राम की तीर्थ-यात्रा का वर्णन मिलता है ।

## (३) यागकांड (९ सर्ग) ।

राम के एक अथर्वमेघ का वर्णन ।

## (४) विलासकांड (९ सर्ग) ।

शंकरकृत रघुवीर-स्तव (सर्ग १); सीता का नख-शिख वर्णन, सीतालंकार, जलक्रीड़ा, सीता-राम-दिनचर्या (सर्ग २-६) ।

एकपत्नीव्रत रखने के पुरस्कारस्वरूप अगले अवतार में बहुत सी पत्नियों को प्राप्त करने का राम को आश्वासन (सर्ग ७, १-२८) ।

राम का कामपीडिता देवपत्नियों को कृष्णावतार के समय गोपिकाएँ बनने का आश्वासन देना (सर्ग ७, २९ आदि) ।

कृष्णावतार के समय सत्यभामा तथा कुब्जा बन जाने का मुञ्जती तथा विण्णला को राम द्वारा आश्वासन (सर्ग ८) ।

सीता सहित राम की कुरुक्षेत्र-यात्रा (सर्ग ९) ।



(५) जन्मकांड (९ सर्ग) ।

राम द्वारा सीता-त्याग की कथा (सर्ग १-३, दे० आगे अनु० ७३३) ।

कुश-जन्म तथा वाल्मीकि द्वारा लव की सृष्टि (सर्ग ४) ।

कुश-लव का राम-सेना से युद्ध करना; सीता की शपथ से पृथ्वी देवी का प्रगट होना तथा राम से भयभीत होकर पृथ्वी का सीता को लौटा देना; उमिला, मांडवी तथा श्रुतकीर्ति के दो-दो पुत्र उत्पन्न होना (सर्ग ६-९) ।

(६) विवाहकांड (९ सर्ग) ।

राम-लक्ष्मण आदि के आठ पुत्रों के भिन्न-भिन्न विवाहों का वर्णन ।

(७) राज्यकांड (२४ सर्ग)

राम के राज्यशासन के इस विस्तृत वृत्तान्त में कई विजय-यात्राओं का तथा राजनीति का वर्णन किया गया है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इस पर कृष्ण-लीला का गहरा प्रभाव पडा है। राम को देखकर स्त्रियाँ प्रायः कामातुर हो जाती हैं और राम उनको कृष्णावतार में उनकी लालसा पूरी करने की प्रतिज्ञा करते हैं (दे० शननारीवरप्रदान, सर्ग ४; द्विज-कन्याचतुष्टय-वरदान, सर्ग ११; षोडश सहस्र स्त्रियों को वरदान, सर्ग १२; राम-दासी को राम का ताम्बूल-रस खाने के पुरस्कारस्वरूप राधा बन जाने का वरदान, सर्ग २१)। इसके अतिरिक्त कई स्थलों पर कृष्ण तथा रामोपासकों का विरोध आभासित है (दे० सर्ग ३) तथा रामावतार की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया गया है (सर्ग २०) ।

शातस्कंध रावण द्वारा राम की पराजय तथा सीता-द्वारा उसके बध की कथा में (सर्ग ४, ८८ आदि) तथा चंडी का रूप धारण कर सीता द्वारा मूलकासुर-बध के वृत्तान्त में शाक्त सम्प्रदाय का प्रभाव स्पष्ट है। सर्ग १४ में वाल्मीकि के पूर्वजन्मों की विस्तृत कथा मिलती है।

(८) मनोहरकांड (१८ सर्ग)

इस कांड में राम-कथा-सम्बंधी सामग्री नहीं मिलती। इसके वर्ण्य विषय रामोपासना-विधि, रामनाममाहात्म्य, चैत्रमहिमा, रामकवच आदि हैं।

(९) पूर्णकांड (९ सर्ग)

इस अन्तिम कांड में सोमवंशी राजाओं के आक्रमण तथा युद्ध और अनन्तर उनसे संधि के वर्णन के अतिरिक्त कुश के अभियेक तथा रामादि के बैकुण्ठारोहण की कथा भी गई है।

तत्त्वसंग्रह रामायण

१७८. तत्त्वसंग्रह रामायण की रचना संभवतः १७वीं श० ई० में राम ब्रह्मानन्द द्वारा हुई थी। मेरा निवेदन स्वीकार कर डॉ० राघवन ने इस अत्यन्त विस्तृत

रामायण की हस्तलिपि का निरीक्षण किया तथा इसकी कथावस्तु का निरूपण एनल्स ऑव ओरियन्टल रिसर्च (मद्रास १९५३) में प्रकाशित किया। राम-कथा के अतिरिक्त इस रचना में रामायण के प्रमुख पात्रों के विषय में प्रचलित कथाओं का संग्रह हुआ है तथा राम-कथा के तत्त्व (अर्थात् राम के परब्रह्मत्व) पर प्रकाश डाला गया है; अतः इसका नाम तत्त्वसंग्रह रामायण रखा गया है। राम ब्रह्मानन्द ने एक रामायण तत्त्व वर्णन की भी रचना की है; इसका मुख्य उद्देश्य है राम के परब्रह्मत्व का प्रतिपादन। तत्त्वसंग्रह रामायण की भूमिका में राम को विष्णु के अतिरिक्त निम्नलिखित देवताओं का अवतार माना गया है: (१) शिव; (२) ब्रह्मा; (३) हरि-हर; (४) त्रिमूर्ति; (५) परब्रह्म। बाद में रामायण के गायत्री-स्वरूप का भी स्पष्टीकरण हुआ। इसके बाद पार्वती-संवाद के रूप में समस्त राम-कथा का वर्णन किया गया है। इस रचना की एक विशेषता यह है कि इसमें राम की दास्य भक्ति के अतिरिक्त अर्द्धत रामोपासना का भी उल्लेख हुआ है। अर्द्धत उपासना (दे० ऊपर अनु० १४८) का राममंत्र इस प्रकार है—रामोऽहम् (दे० बालकाण्ड, अध्याय १९-२२)। कई तीर्थों का महत्त्व सिद्ध करने के उद्देश्य से उनका सम्बंध राम के साथ जोड़ा गया है; अर्थात् वाराणसी (२, २०), गया (२, २१), गोदावरी (३, १७), धनुष्कोटि (६, ३५); रंगनाथ (७, १२-१४)।

इस रचना के निम्नलिखित प्रसंग धर्मखण्ड (दे० आगे १८९) पर आधारित हैं: सीता-स्वयंवर में शिव की उपस्थिति; कैकेयी का पश्चात्ताप, सीता-हरण (हस्तरेखा दिखलाने के लिये सीता लक्ष्मण द्वारा खींची हुई रेखा का उल्लेखन करके रावण के पास जाती हैं); अशोकवन में रावण-सीता-संवाद के समय हनुमान् का प्रकट होना तथा रावण पर प्रहार करना, मृत्यु द्वारा मायासीता का रूप धारण करना।

तत्त्वसंग्रह रामायण के कुछ अन्य प्रसंग उल्लेखनीय हैं:

—वाल्मीकि की कथा का एक किञ्चित् परिवर्तित रूप तथा गंगातट पर उनकी तपस्या के फलस्वरूप सीता को अपने आश्रम में धारण देने की वर-प्राप्ति (२, २२-३०; ७, ६)।

—सुतीक्ष्ण के आश्रम से विदा लेते समय सीता भूमि देवी से रत्नजटित पादुकाओं का एक जोड़ा ग्रहण करती है; उन्हें पहनकर राम पाद-पीडा तथा भूल से मुक्त होंगे (३, ६)।

१. संभवतः इनमें से अनेक धर्मखण्ड पर आधारित हैं। दुर्भाग्यवश धर्मखण्ड की पूरी प्रतिलिपि मेरे पास नहीं है।

- मायासीता का वृत्तान्त, जिसके अनुसार वास्तविक सीता राम के वक्षस्थल में छिप जाती है (३, १३) ।
- रावण तथा जटायु का युद्ध (दे० आगे अनु० ४७१) ।
- राम का सुग्रीव को अपना विद्वरूप दिखाना (४, ३) ।
- हनुमान् की जन्मकथा, जिसके अनुसार पार्वती उनकी माता मानी जाती है (४, १२) ।
- सीता द्वारा शतानन रावण का वध (७, १-२) ।
- जनक के पूर्वजन्म की कथा (७, ३) ।

### कालनिर्णय रामायण

१७९. रामायणो का एक ऐसा वर्ग मिलता है, जिसकी विशेषता यह है कि इसमें राम-कथा की प्रधान घटनाओं की तिथियाँ दी गई हैं ।

स्कन्दपुराण (दे० ब्राह्म खण्ड के अन्तर्गत घर्मारण्यखण्ड, तीसरी अध्याय) तथा पद्मपुराण में (दे० पातालखण्ड, छत्तीसवीं अध्याय) संभवतः इस प्रकार की सब से प्राचीन राम-कथा सुरक्षित है । पद्मपुराण में लोमश ऋषि इस रामचरित के वक्ता माने जाते हैं । अग्निवेश के नाम से इस प्रकार का एक अन्य रामायण प्रचलित है, जिसके अनेक संस्करण मिलते हैं, उदाहरणार्थः

अग्निवेश-रामायण (वेंकटेश्वर प्रेस, विस्तार : १०५ श्लोक)

समयादर्श-रामायण (लक्ष्मी नारायण प्रेस, विस्तार : १०३ श्लोक)

समयनिरूपण-रामायण (वेंकटेश्वर प्रेस, विस्तार : ४५ श्लोक)

राजेंद्र लाल मित्र के कैटालॉग में अग्निवेशकृत रामायणसार (भाग ७, पृ० ५८) तथा रामायणरहस्य वा रामहृदयम् (भाग ८, पृ० १२५) का उल्लेख किया गया है । इस रचना का विस्तार २७७ श्लोक बताया गया है । तंजूर कैटालॉग में अग्निवेशकृत ५०० श्लोकों के विस्तार के रामजातकम् का उल्लेख है (दे० न० ९४८८) । अग्निवेश रामायण में कथा के दृष्टिकोण से कोई विशेषता नहीं है । घटनाओं की तिथियों के अतिरिक्त राम तथा सीता की अवस्था का भी ध्यान रखा गया है । विवाह के समय राम तथा सीता की अवस्था क्रमानुसार १५ तथा ६ वर्ष की थी, वनवास के समय २७ और १८ वर्ष की, राज्याभिषेक के समय ४२ और ३३ वर्ष की ।

लोमश तथा अग्निवेशकृत रचनाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित कालनिर्णय रामायणो का उल्लेख मिलता है :

बम्बई-रामायण (दे० कल्याण का रामायणांक, पृ० ३०४)

व्यासकृत रामायणतात्पर्यटीपिका (मद्रास कैंटालॉग, आर, १५१८)

रामायतारकालनिर्णयसूचिका (मद्रास कैंटालॉग, डी, १९०९)

श्रीनिवासरायवकृत रामायणसंग्रह (मद्रास कैंटालॉग, आर, २२३४ बी)

## गौण रामायण

१८०. अर्वाचीन राम-कथा-साहित्य में बहुसंख्यक रामायणों के नामों का उल्लेख मिलता है—रामायणादिब नाना संति रामायणानि हि (दे० आनन्द रामायण, मनोहरकांड, सर्ग ८, ६२)। ये नाम संभवतः अधिकांश कल्पित हैं और यदि उनकी रचना भी हुई हो तो इसमें बहुत सदेह नहीं है कि ये प्रथम अपेक्षाकृत अर्वाचीन ही हैं।

इनमें से भृशुण्डीरामायण का सबसे अधिक उल्लेख किया जाता है। इसके दो अन्य नाम भी प्रचलित हैं, मूलरामायण<sup>१</sup> और आदिरामायण। अयोध्या के श्रावण कुंज तथा लक्ष्मण किले में और अन्यत्र भी इसकी हस्तलिपि सुरक्षित होने का आश्वासन दिया जाता है। इसमें चार खण्ड (पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर) बताए जाते हैं, जिसके प्रथम खण्ड में अवतार, बाल-चरित, रास-क्रीडा, सीता-स्वयंवर का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत लेखक इस रचना का अब तक निरीक्षण न कर सका। डॉ० भगवती प्रसाद सिंह को इसकी पूरी प्रति मिल गई है। बडौदा के ओरियेंटल इंस्टिट्यूट में इसके तीन खण्डों (दक्षिण, पश्चिम, उत्तर) की अर्वाचीन हस्तलिपियाँ विद्यमान हैं। जयपुर में दो रामायण हैं, जिनके वक्ता भृशुण्डी ही हैं; एक आदिरामायण (ब्रह्म-भृशुण्डी-संवाद) जो बडौदा के आदि रामायण तथा डॉ० भगवती प्रसाद सिंह के भृशुण्डी रामायण से अभिन्न प्रतीत होता है और दूसरा ब्रह्मरामायण (भृशुण्डी-गरुड-संवाद), जिसमें भी राम-रासलीला का वर्णन है। इण्डिया ऑफिस से जो चित्रकूट-माहात्म्य मुझे मिला है, इसमें इसके आदिरामायण का एक अंश होने का उल्लेख किया गया है (दे० इण्डिया ऑफिस कैंटालॉग नं० ३७०४)। चित्रकूट-माहात्म्य की हस्तलिपि में रचना अथवा लिपि-काल का उल्लेख नहीं है लेकिन यह मैकेंजी महोदय के संग्रह की है अतः कम से कम डेढ़ सौ साल पुरानी है। इसमें भरत-अग्नि-संवाद भृशुण्डी द्वारा शांडिल्य को सुनाया जाता है। चित्रकूट तथा उसके आस-पास के तीर्थों के वर्णन के अतिरिक्त इसके माहात्म्य का रहस्योद्घाटन भी किया गया है। चित्रकूट के सातानक वन में एक सरोवर है, जिसके मध्य में एक रम्य मण्डप बना हुआ है, जहाँ एक वेदिका पर सीता और उनकी सखियों के साथ राम

१. प्रकाशित मूलरामायण वाल्मीकिकृत रामायण का प्रथम सर्ग मात्र है।

नित्य रास-क्रीड़ा करते हैं (दे० अध्याय ४ और ५) । डॉ० भगवती प्रसाद अपने "रामभक्ति में रसिक सम्प्रदाय" में भृशुण्डी रामायण के कथानक के विषय में लिखते हैं— "रावण द्वारा भेजे गए राक्षस, बाल्यावस्था में ही राम को समाप्त करने का प्रयत्न करते हैं, किन्तु वे स्वयं मारे जाते हैं । उनके डर से दशरथ राम को गुप्त स्थान पर भेज देते हैं । सरयूपार गोपप्रदेश में गोपेन्द्र सुखित और उनकी स्त्री मांगल्या राम का पालन-पोषण करते हैं । विवाह के पूर्व अयोध्या के प्रमोदवन में देवावतार गोपियों और अपनी पराशक्ति सीता के साथ राम रासलीला करते हैं । मिथिला पट्टेचकर एक पक्षी द्वारा वे सीता के पास अपना चित्र भेजते हैं । चित्र-दर्शन से सीता उन्हें प्राप्त करने के लिए उत्कण्ठित होती है । दशरथ के अश्वमेध यज्ञ में विजित राजाओं की सहस्रों कन्याओं को वे स्वीकार करते हैं । चित्रकूट में गोप-गोपिकाओं के साथ रास-क्रीड़ा का आयोजन होता है । इसी प्रकार की अनेक भ्रूंगारी लीलाओं के वर्णन इसमें आए हैं । . . . . सीता के अतिरिक्त 'सहजा' सखी का राम की पत्नी के रूप में उल्लेख । सहजा जनकवंशी कन्या कही गई है । . . . सीता, ज्ञानपरक भक्ति और सहजा, प्रेमाभक्ति की प्रतीक मानी गई है ।' (दे० पृ० ९७) ।

१८१. महारामायण का उल्लेख श्री रामदास गौड कृत "हिन्दुत्व" में किया गया है (दे० आगे अनु० १९२) । इसके पाँच अध्याय (४८-५२) अयोध्या में संवत् १९८५ में छपे हैं । इनका वर्णन-विषय इस प्रकार है—रामचरणों की ४८ रेखाओं का वर्णन और उनके समस्त सृष्टि के उत्पत्ति स्थान होने का उल्लेख (अध्याय ४८) ; रामोपासकों के संस्कारों का वर्णन, जिनमें से एक घनुर्वाण संस्कार माना गया है (अध्याय ४९) ; राम के निरक्षरातीत ब्रह्म होने का तथा उनकी सखीभाव से उपासना करने का उल्लेख (अध्याय ५०) ; सीता की तृतीय शक्तियों की नामावली तथा उनके कार्य-वर्णन (अध्याय ५१) ; रामनाम के महत्त्व-वर्णन के प्रसंग में रम धातु से राम नाम की व्युत्पत्ति का प्रतिपादन तथा राम की रास-क्रीड़ा का उल्लेख (अध्याय ५२) । संभव है यह महारामायण भृशुण्डी रामायण से अभिन्न हो ।

१८२. मंत्ररासायण ( वेंकटेश्वर प्रेस ) के प्रारंभ में रामरक्षास्तोत्र उद्धृत किया गया है किन्तु इसका मुख्य उद्देश्य है रामायण के वेदमूलरथ का प्रतिपादन । वेदों में ही राम-कथा निहित है, यह विश्वास एक प्रसिद्ध श्लोक द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसे रामायण का पाठ करने के पूर्व भक्तगण उच्चरित करते हैं; इसका आशय यह है कि राम के प्रकट होने के साथ-साथ वेद भी रामायण के रूप में प्रकट हुए :

**वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे ।**

**वेदः प्राञ्चेतसावासीत् साक्षात्प्राभायणात्मना ॥**

मंत्ररामायण में नीलकण्ठ ने वैदिक मंत्रों का एक संग्रह प्रस्तुत किया है जिनका परोक्ष अर्थ राम-कथा से सम्बंध रखता है। इस प्रकार उन्होंने बालकाण्ड से लेकर, उत्तरकाण्ड तक की समस्त कथा वैदिक मंत्रों में देखने का प्रयास किया है। उदाहरणार्थ वह ऋग्वेद के दसवें मण्डल का ९९वें सूक्त, जिसमें इन्द्र की स्तुति की गई है, राम-कथा का सारांश समझते हैं। इस सूक्त के ऋषि ब्रह्म वाल्मीकि का बोध कराते हैं; इन्द्र राम का; रुद्रगण हनुमान् तथा उनके साधियों का, आदि। मंत्र रामायण का रचयिता अपने समालोचकों को लक्ष्य करते हुए लिखता है—“नैष स्याणोरपरार्थो धेदेनमन्धो न पश्यति” (पृ० २६)।

मंत्ररामायण के प्रथम श्लोक में रामायण के गायत्री-स्वरूप का उल्लेख किया गया है। गायत्रीरामायण<sup>१</sup>, विद्यारण्यकृत रामायणरहस्य (श्री शंकर मुस्कूल पत्रिका, भाग २), तत्त्वसंग्रहरामायण (बालकाण्ड, सर्ग ५), गोविन्दराज की भूषण नामक टीका<sup>२</sup> आदि में रामायण के गायत्री-स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। तर्क यह है कि रामायण के २४००० श्लोकों में से प्रत्येक सहस्र के प्रथम श्लोक का पहला अक्षर उद्धृत करने से गायत्री मंत्र बन जाता है—प्रतिश्लोकसहस्रादौ मंत्रवर्णाः समुद्धृताः (दे० रामायणरहस्य, ६३)। वास्तव में कोई भी गायत्री रामायण प्रत्येक सहस्र समूह का प्रथम श्लोक उद्धृत नहीं करता। विद्यारण्य ने वाल्मीकि रामायण के प्रथम सर्ग को भी गायत्री-स्वरूप प्रतिपादित किया है (दे० रामायणरहस्य, ४७-५९)।

१८३. वेदान्त रामायण (लहरी प्रेस, बनारस स० १९६४) में परशुराम के जन्म तथा चरित्र का वर्णन किया गया है। वाल्मीकि ने राम के सदेह का निवारण करने के लिए इस कथा को सुनाया था। राम ने पूछा था कि परशुराम ने क्यो क्षत्रियों का नाश किया था और क्षत्रियवंश का लोप क्यो नहीं हुआ।

१८४. उपर्युक्त प्राप्य रचनाओं के अतिरिक्त संस्कृत हस्तलिपि-सूचीपत्रों में और बहुत से ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। ये अधिकांश १७ वीं शताब्दी अथवा इसके बाद की रचनाएँ प्रतीत होती हैं। श्री रामदास गौड़ ने अपने हिन्दुत्व नामक ग्रंथ में बस्ती-निवासी पं० धनराज शास्त्री की दी हुई टिप्पणियों के आधार पर उन्नीस

१. के० एस० रामस्वामी शास्त्री अपने 'स्टडिस इन दि रामायण' नामक ग्रंथ में इस गायत्री रामायण के दो रूप उद्धृत करते हैं (दे० परिशिष्ट ४)।
२. दे० गायत्र्याश्च स्वरूपं तत्रामायणमनुत्तमम् (७, १११, १८)।

रामायणों की कथावस्तु का संक्षिप्त परिचय दिया है (दे० पृ० १३७ आदि) । प्रस्तुत अध्याय के परिशिष्ट में उन रामायणों के नाम उद्धृत किए जाएंगे ।

## घ—अन्य धार्मिक साहित्य

### जैमिनि-भारत

#### (अ) जैमिनीय अश्वमेध

१८५. ऐसी अनेक रचनाएँ मिलती हैं जो, जैमिनि-भारत की अंश मानी जाती हैं । इस ग्रंथ की रचना भागवत पुराण के बाद तथा १३ वीं श० ई० के पूर्व हुई थी, क्योंकि जैमिनीय अश्वमेध<sup>१</sup> में भागवत पुराण का उल्लेख किया गया है तथा इसका १३ वीं शताब्दी में कन्नड भाषा में अनुवाद हुआ था ।<sup>२</sup> इसका मुख्य विषय युधिष्ठिर के अश्वमेध का वर्णन है । इसमें कुशलवोपाख्यान (अध्याय २५-३६) भी दिया गया है, जिसकी कथावस्तु इस प्रकार है—धोवी के कथन के फलस्वरूप सीता-त्याग, कुशलव का जन्म तथा यज्ञश्व के कारण राम-सेना से युद्ध, अनन्तर राम और सीता का सम्मिलन । यह सुशान्त राम-कथा पद्मपुराण के पातालखंड के वृत्तान्त से बहुत कुछ मिलती-जुलती है (दे० अध्याय ५५-६८) ।

(आ) मंरावणचरित (मद्रास मैनुस्क्रिप्ट कैंटालॉग, डी २०८२) अथवा हनुमद्विजय (वही, डी १२२१५) ।

१८६. यह एक स्वतन्त्र रचना प्रतीत होती है, फिर भी अध्यायो की पुष्पिका में इसे जैमिनि-भारत का एक अंश माना गया है । इसमें मंरावण पर रुद्राक्ष हनुमान् की विजय का वर्णन अगस्त्य द्वारा राम को सुनाया जाता है । मेघनाद-वध के बाद मंरावण राम तथा लक्ष्मण को पाताल ले जाता है और हनुमान् अपने पुत्र मत्स्यराज की सहायता से मंरावण का वध करके दोनों को छुड़ाते हैं ।

(इ) सहस्रमुखरावणचरित्रम् (मद्रास कैंटालॉग, डी २०९८)

१८७. यह रचना जैमिनि भारत के आश्रमवासपर्व का एक अंश मानी जाती है । इसकी कथावस्तु उपर्युक्त अद्भुत रामायण के वृत्तान्त से मिलती-जुलती प्रतीत होती है । रावण पर सीता की विजय के विषय में एकाक्ष और हस्तलिपियों का पता मिला है—सीताविजय (वही, आर, ९९४ और आर, १४८) जो वासिष्ठोत्तर रामायण का एक भाग माना जाता है और जिसमें सीता का शत-स्कंध-रावण पर

१. दे० बैंकटेश्वर प्रेस का संस्करण ।

२. दे० एम० विटरनित्स : वही, भाग १, पृ० ५८४ ।

विजय का वर्णन किया गया है। इस प्रकार की एक और हस्तलिपि का उल्लेख है, जिसका शीर्षक है शतमुखरावणचरित्रम् (वही आर, ६४७ बी)।

### सत्योपाख्यान

१८८. सत्योपाख्यान (वेंकटेश्वर प्रेस) में वाल्मीकि-मार्कण्डेय-संवाद वर्णित है। इसकी कथावस्तु से पता चलता है कि इसकी रचना अध्यात्म रामायण के बहुत बाद हुई थी, जब राम-कथा तथा राम-भक्ति पर कृष्ण-लीला का गहरा प्रभाव पड़ने लगा था। संक्षेप में इसका वर्णन विषय इस प्रकार है: राम-लक्ष्मण आदि के विष्णु-शेष-सुदर्शन और शल के अवतार होने के उल्लेख के बाद (अध्याय १-२) मंथरा-कैकेयी-संवाद दिया गया है, जिसमें दशरथ-कैकेयी के विवाह की कथा मिलती है (अध्याय ३-९); अनन्तर मंथरा के पूर्वजन्म की कथा का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार वह दैत्य विरोचन की पुत्री थी और विष्णु की आज्ञा से इन्द्र द्वारा वज्र से मारी गई थी (अध्याय १०-१५)। पूर्वाह्न के शेष अध्यायों में (१६-४९) राम की बाल-लीला का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके निम्नलिखित वृत्तान्त उल्लेखनीय हैं:

- देवताओं का अयोध्या में आगमन तथा दशरथ द्वारा उनका स्वागत (अध्याय १७-२३)।
- काकभुशुण्डी का राम की रोटी (शुष्कलि) चुराना, बाद में उसका राम से क्षमा माँगना, राम में निश्चल भक्ति की प्रार्थना करना तथा उनके द्वारा गृह्य को रामतत्त्व सिखलाने का उल्लेख (अध्याय २६)।
- रत्नालका और उसके पति का वृत्तान्त, अगले जन्म में उनको नन्द और यशोदा बनने का आश्वासन (अध्याय २९-३०)।
- नवमीमाहात्म्य (अध्याय ३१-३५)।
- राम का गुह से मृगया की शिक्षा पाना (अध्याय ४३)।

उत्तरार्द्ध में सीतास्वयंवर का वर्णन किया गया है, जिसमें प्रहस्त की उपस्थिति का उल्लेख भी है। राम-सीता-विवाह के बाद उनकी तीर्थयात्रा का उल्लेख हुआ है तथा जलविहार, वनविहार, सीता की मानलीला, होलिकोत्सव आदि का शृंगारात्मक वर्णन किया गया है।

### धर्म-खण्ड

१८९. धर्मखण्ड की कई हस्तलिपियाँ मद्रास के राजकीय ओरियेंटल पुस्तकालय में सुरक्षित हैं। यह रचना स्कन्द पुराण का एक अंश मानी जाती है तथा तत्त्व-संग्रह रामायण (दे० ऊपर अनु० १७८) के मुख्य आधार ग्रन्थों में से एक है। इसका रचना-काल १५-१६वीं शताब्दी प्रतीत होता है। यह एक शैव ग्रन्थ है; अतः इसकी



राम-कथा में शिव को विशेष रूप से महत्त्व दिया गया है। वह पार्वती के साथ सीता-स्वयंवर में उपस्थित होकर राम को धनुष तोड़ने का आदेश देते हैं। इस रचना के कई स्थलों पर शिव और राम की अभिन्नता का भी प्रतिपादन किया गया है। राम के वनवास के लिये प्रस्थान करने के पश्चात् शिव ब्राह्मण का रूप धारण कर उनसे मिलते हैं; संवाद में राम सुस्पष्ट शब्दों में अपने तथा शिव का अभेद व्यक्त करते हैं—“शिव मां प्रतिजानीहि नावयरोरन्तरं द्विज” (अध्याय ३८)। अन्यत्र कहा गया है कि राम ने हनुमान् को भेजते समय उनसे कहा—“तुम शिव के अवतार हो; मैं स्वयं शिव हूँ” (अध्याय ९८)। धर्मखण्ड की राम-कथा की अन्य निम्नलिखित विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं :

- कैकेयी का पश्चात्ताप (अध्याय ३८)।
  - सीताहरण का वृत्तान्त (अध्याय ८१)।
  - अशोकवन में रावण-सीता-संवाद के समय हनुमान् का प्रकट होना तथा रावण को भगा देना (अध्याय १०५)।
  - मृत्यु द्वारा मायामयी सीता का रूप धारण करना (अध्याय १३०)।
- इन प्रसंगों का निरूपण आवश्यकतानुसार प्रबन्ध के चतुर्थ भाग में किया जायेगा।

### हनुमत्संहिता

१९०. हनुमत्संहिता की संवत् १७१५ की एक हस्तलिपि का उल्लेख राजेन्द्र लाल मित्र के कंठालोंग में किया गया है (दे० भाग ७, पृ० २५०)। इस रचना का महारासोत्सव के नाम से प्रकाशन भी हुआ है (लखनऊ, सन् १९०४)।

इसमें हनुमान्-अगस्त्य-संवाद के रूप में सरयू-तट पर राम की रासलीला तथा जलविहार का वर्णन किया गया है। विशेषता यह है कि सीता अपने शरीर से १८१०८ नारियों की सृष्टि करती है तथा इनके साथ रास करने के लिए राम, कृष्ण की भाँति, इतने ही रूप धारण कर लेते हैं। इसका विस्तार ३६० श्लोक का है।

राम-कथा पर कृष्णलीला का यह प्रभाव अपेक्षाकृत अर्वाचीन है। फिर भी, हनुमत्संहिता की सं० १७१५ की इस हस्तलिपि से पता चलता है कि गोस्वामी तुलसीदास के जीवन-काल में ही इसका सूत्रपात अवश्य हुआ था।

### बृहत्कोशल खण्ड

१९१. राजेन्द्र लाल मित्र ने बृहत्कोशल की एक हस्तलिपि (लिपि-काल सं० १९१४) का विवरण दिया है (दे० वही, भाग ७, पृ० ५२), जिसे उन्होंने बेतिया (बम्पारण) में देखा है और उसका विस्तार ३०७२ श्लोकों का बताया है। सं०

२००१ में लाहौर के श्री रोशनलाल अग्रवाल ने हिन्दी टीका सहित इसकी १८० प्रतियाँ छपवाईं। यह हिन्दी 'रसवर्द्धिनी' टीका श्री रामबल्लभाशरण महाराज की लिखी हुई है।

वेदव्यासकृत बृहत्कोशलखण्ड **ब्रह्मरामायण'** का अंश माना जाता है और इसके पन्द्रह अध्यायों का कथानक तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है :

### (१) विवाह के पूर्व राम की लीला (अध्याय १-५)

प्रारंभ में यज्ञोपवीत-संस्कार तथा विद्याभ्यास के पश्चात् सखारस का वर्णन किया गया है। राम के सखा (जिनमें हृद भी शामिल है) स्त्री का रूप धारण कर राम के साथ रासलीला का आयोजन करते हैं (अध्याय १)। अनन्तर गोपिकाओं देवकन्याओं तथा राजकन्याओं के साथ राम का वर्णन किया गया है। किसी अवसर पर राम को देखकर गोपियों का मन आकर्षित हुआ और वे उनको पतिस्वरूप प्राप्त करने के उद्देश्य से तप तथा पार्वती की पूजा करने लगी। पिता की आज्ञा लेकर राम शिकार करने के बहाने यमुना तट पर पहुँचते हैं। शिव की आज्ञा से निकुंभ आँधी उत्पन्न करता है, जिससे गोधन भाग जाता है तथा गोप उसका पीछा करने-करते चले जाते हैं। इनमें से राम गोपियों के पास पहुँचकर उनके साथ वगन्तोत्सव मनाते हैं तथा रासलीला भी करते हैं। इसमें लक्ष्मी, सरस्वती, उमा आदि मालिन का रूप धारण कर भाग लेती हैं। अन्त में गोपियों को विदा कर राम अपने सखाओं को योगनिद्रा से जगाकर अयोध्या लौटते हैं (अध्याय २)। अगले अध्याय में दशरथ राम को दही का कर वसूल करने के लिए गोपों के यहाँ भेज देते हैं, जो राम को अपनी पुत्रियों को समर्पित करते हैं। राम सबसे विवाह कर उनको अयोध्या ले आते हैं। अनन्तर सान्त्वानिक वन की लताओं से वेवकन्याएँ प्रकट होकर राम के साथ विविध विलास करती हैं तथा अन्त में उनकी रासलीला का भी विधान होता है (अध्याय ३)। अब देवता अयोध्या पहुँचकर राम से निवेदन करते हैं कि वह उनकी कन्याओं को भी विवाह में ग्रहण करे। इसके बाद दशरथ राम को शम्बरासुर का वध करने के लिए भेज देते हैं। राम उसका वैजयन्त नामक पुर धर कर उसके पुत्र का वध करते हैं तथा शम्बरासुर द्वारा हरण की हुई राज, गधर्व, किन्नर, यक्ष आदि कन्याओं को मुक्त कर सब को अयोध्या ले आते हैं तथा उनके साथ भी रासक्रीड़ा करते हैं (अध्याय ४-५)।

१. जयपुर वाले ब्रह्म रामायण में भुशुण्डी-गहड़-संवाद है। यहाँ पर केवल सूत-शौनक-संवाद का उल्लेख है।

(२) राम-सीता का विवाह (अध्याय ६-७)

एक तपस्विनी से राम के कार्यों का वर्णन सुनकर अष्टवर्षीय सीता विरह से व्याकुल होने लगती है। महेश्वर जनक को स्वप्न में दिखाई पड़ते हैं तथा परामर्श देते हैं कि स्वयंवर का आयोजन किया जाए—जो उनका धनुष चढ़ाने में समर्थ हो, वही सीता का पति बनने योग्य है। बहुत से राजा असफल होकर जनक से युद्ध करते हैं; किन्तु पराजय के बाद वे अपनी पुत्रियों को जानकी की सखी बनने के लिए मिथिला में ले आते हैं। सीता राम का रूप धारण कर अपनी सखियों के साथ रासलीला करती हैं (अध्याय ६)। नारद राम के पास जाकर सीता के वियोग का वर्णन करते हैं तथा उनके स्वयंवर का समाचार गुनाकर चले जाते हैं। शिव की प्रेरणा से विश्वामित्र राम तथा लक्ष्मण को मिथिला ले जाते हैं, जहाँ राम धनुष तोड़कर सीता तथा कन्या-धन प्राप्त करते हैं [भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न का विवाह भी उल्लिखित है]।

(३) विवाह के पश्चात् राम की लीला (अध्याय ८-१५)।

विवाह के बाद राम सीता तथा असंख्य कन्याओं के साथ विश्वकर्मा-निर्मित प्रसाद में निवास करते हैं, समय-समय पर विविध उत्सव मनाते हैं और वन में जाकर रासलीला करते हैं। इन सब रासलीलाओं का विवरण यहाँ अनावश्यक है; क्रम इस प्रकार है—गोपकन्या, देवकन्या, गंधर्वकन्या, किन्नरसुता, विद्याधरकन्या, सिद्धकुमारी, राजकन्या, साध्यसुता, गृह्यक देवकन्या, यक्षकन्या, नागकन्या-रास। राम-रासलीला के वर्णन में कृष्ण की रासलीला का स्पष्ट अनुकरण किया गया है—उदाहरणार्थ राम का बहुत से रूप धारण करना, अन्तर्द्वारि हो जाना, सीता की मान-लीला आदि। अन्तिम अध्याय में नगर की बधुएँ भी आकर राम के होलिकोत्सव में भाग लेती हैं; दशरथ एक दूती द्वारा समझाते हैं कि पुराणनाओं के साथ विहार करना अनुचित है और राम उनको उनके घर भेज देते हैं। इस रचना में राम की शृंगार-चेष्टाओं का खुला वर्णन किया गया है; अतः इस बात पर बल दिया जाता है कि यह रामलीला सबों को नहीं सुनानी चाहिए—लीलेयं नहि लोकसग्रहपरा गुप्तेति (अध्याय १५, १८९)।

## परिशिष्ट

### ‘हिन्दुत्व’ में उल्लिखित रामायण

#### १९२. महारामायण

शकर-पार्वती संवाद

विस्तार—३,५०,००० श्लोक

विशेषता—कनकभवन-विहारी राम की ९९ रासलीलाओं का वर्णन ।

#### १९३. संबृत रामायण

नारद-कृत

विस्तार—२४,००० श्लोक

विशेषता—स्वार्थभुव-शतरूपा की तपस्या तथा दशरथ-कौशल्या के रूप में उनका आविर्भाव ।

#### १९४. लोमश रामायण

लोमश ऋषि-कृत ।

विस्तार—३२,००० श्लोक

विशेषता—राजा कुमुद और वीरमती के दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्म लेने की कथा । जालंधर शाप के फलस्वरूप रामावतार ।

#### १९५. अगस्त्य रामायण

अगस्त्य-कृत

विस्तार—१६,००० श्लोक ।

१. दे० ऊपर, अनु १८४ ।

२. ध्यान देने योग्य है कि लोमश ऋषि का उल्लेख राम-कथा के वक्ता के रूप में अन्यत्र भी मिलता है । महाभारत में जो प्रक्षिप्त परशुराम-सेजोभंग का वर्णन पाया जाता है (दे० आगे अनु० ३५१), उसके वक्ता लोमश ही हैं । पद्मपुराण के पाताल खंड में आरण्यक का कहना है कि मैंने लोमश से राम-कथा सुनी थी (दे० अध्याय ३६) । रामचरितमानस में भी भृशुण्डी कहते हैं कि मुझे यह कथा लोमश ऋषि से मिली थी (दे० उत्तर काण्ड, ११३) । रसिक सम्प्रदाय में एक लोमश संहिता प्रचलित है, जिसमें मुनि पिप्पलाद-लोमश का संवाद है (दे० राम-भक्ति साहित्य में मधुर उपासना, पृ० १४८) । सत्योपाख्यान में लोमश द्वारा अयोध्यावासियों को मंथरा की कथा सुनाने का उल्लेख है (दे० भाग १, अध्याय १०) ।

विशेषता—भानुताप-अरिमर्दन की कथा तथा राजा कुन्तल और सिन्धुमती के दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्म लेने का वृत्तान्त ।

१९६. मंजुल रामायण

सुतीक्ष्ण-कृत

विस्तार—१,२०,००० श्लोक

विशेषता—भानुप्रताप-अरिमर्दन की कथा तथा शबरी के प्रति राम द्वारा नवधा-भक्ति-वर्णन ।

१९७. सौपद्य रामायण

अत्रि-ऋषि-कृत

विस्तार—६२,००० श्लोक ।

विशेषता—वाटिकाप्रसंग ।

१९८. रामायण महामाला

शिव-पार्वती-संवाद

विस्तार—५६,००० श्लोक

विशेषता—भृशुण्डी द्वारा गरुड़-विमोह-निवारण ।

१९९. सौहार्द रामायण

शरभग ऋषि-कृत

विस्तार—४०,००० श्लोक

विशेषता—राम-लक्ष्मण के वानरी भाषा समझने और बोलने का उल्लेख ।

२००. रामायण-मग्निरत्न

वसिष्ठ-अरुन्धती-संवाद

विस्तार—३६,००० श्लोक

विशेषता—मिथिला तथा अयोध्या में राम का वसन्तोत्सव आदि मनाना ।

२०१. सौर्य-रामायण

हनुमान्-सूर्य-संवाद

विस्तार—६२,००० श्लोक

विशेषता—शुक-चरित्र तथा शुक का रजक बन जाना और इसके कारण सीता-त्याग होना ।

## २०२. चान्द्र-रामायण

हनुमान्-चंद्रमा-संवाद  
विस्तार—७५,००० श्लोक  
विशेषता—केवट की पूर्व-जन्म-कथा ।

## २०३. मंन्द-रामायण

मंन्द-कौरव-संवाद  
विस्तार—५२,००० श्लोक  
विशेषता—वाटिका-प्रसंग

## २०४. स्वार्थभुव-रामायण

ब्रह्मा-नारद-संवाद  
विस्तार—१८,००० श्लोक  
विशेषता—मदोदरी के गर्भ से सीता का जन्म ।

## २०५. सुब्रह्म-रामायण

विस्तार—३२,००० श्लोक ।

## २०६. सुवर्चस-रामायण

सुप्रीव-तारा-संवाद  
विस्तार—१५,००० श्लोक  
विशेषता—मुलोचना की कथा । घोबी-धोविन का संवाद तथा रावण के चित्र के कारण शान्ता की चुगली । शान्ता के प्रति सीता का शाप तथा उसको पक्षी-योनि की प्राप्ति । महारावण-वध ।

## २०७. देव-रामायण

इन्द्र-जयन्त-संवाद  
विस्तार—१,००,००० श्लोक ।

## २०८. श्रवण-रामायण

इन्द्र-जनक-संवाद  
विस्तार—१,२५,००० श्लोक ।

विशेषता—मंथरा की उत्पत्ति । चित्रकूट में भरत की यात्रा के समय जनक का आगमन ।

२०९. कुरंत रामायण

वसिष्ठ-जनक-संवाद

विस्तार—६१,००० श्लोक ।

विशेषता—भरत की महिमा का वर्णन

२१०. रामायण-चम्पू

शिव-नारद-संवाद

विस्तार—१५,००० श्लोक ।

विशेषता—शीलनिधि राजा के यहाँ स्वयंवर ।



## संस्कृत ललित साहित्य में राम-कथा

२११. प्रचलित वाल्मीकीय रामायण में आदिकाव्य के विषय में कहा गया है कि यह कवियों का आधार सिद्ध होगा (परं कवीनामाधारम्, दे० बाल काण्ड, सर्ग ४, श्लोक २७)। बृहद्बर्मपुराण में भी रामायण समस्त काव्यों, इतिहास, पुराण आदि का मूल स्रोत माना गया है।

रामायणं महाकाव्यमावौ वाल्मीकिना कृतम् ।

तन्मूलं सर्वकाव्यानामितिहासपुराणयोः ॥ २८ ॥

संहितानां च सर्वासां मूलं रामायणं मतम् ।

तदेवावशंमाराध्य वेदव्यासो हरे कला ॥ २९ ॥

चक्रे महाभारताख्यातमितिहासं पुरातनम् ।

(पूर्वभाग—अध्याय २५)

बृहद्बर्मपुराण के इस अध्याय में रामायणोत्पत्ति का भी विस्तृत वर्णन किया गया है। विधि ने सरस्वती को कविताशक्ति बनने का वरदान दिया था (भव त्वं कविता-शक्तिः कवीनां वदनेषु ह; दे० श्लोक ४६)। सरस्वती ने कौच के विलाप से शोकाकुल वाल्मीकि को देखकर उनके मुख में प्रवेश किया, जिसके फलस्वरूप वाल्मीकि ने श्लोक की सृष्टि की थी:

कविताशक्तिरूपा च विद्यारूपा सरस्वती ।

तस्य शोकापनोदाय महर्षेर्भूलमाययौ ॥

(वही, श्लोक ६४)

अनन्तर विधि ने रामायण की रचना करने के लिए वाल्मीकि को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि अन्य कवि तुम्हारा अनुकरण करेंगे :

कृते त्वया महाकाव्ये भाव्यर्थे रामचेष्टिते ।

लोकेष्वनुचरिष्यन्ति कवयोऽन्ये सवृक्षतयः ॥

(वही, श्लोक ८०)

बृहद्बर्मपुराण के इस कथन की सार्थकता में किसी संदेह का अवकाश नहीं है। रामायण न केवल संस्कृत साहित्य का प्रथम महाकाव्य है, जिसकी शैली से अन्य कवि



प्रभावित हुए हैं, वरन् उसकी कथावस्तु भी समस्त साहित्य के भिन्न-भिन्न अंगों में व्यापक हो सकी। कवियों ने स्वयं इस बात का अनुभव किया है। प्रसन्न-राघव की प्रस्तावना में नट सूत्रधार से पूछता है—'ये सब कवि क्यों रामचन्द्र का पुनः-पुनः वर्णन करते हैं।' इस पर सूत्रधार कहता है कि यह कवियों का दोष न होकर गुणों का दोष है, जिन्होंने राम ही में अपने लिए एकमात्र आश्रय बनाया है, जिसके फलस्वरूप कवित्वरूपी वृक्ष रामप्रशंसारूपी फल के बिना किसी महत्त्व का नहीं हो पाता है।

नट—रघु पुनरमी कवयः सर्वे रामचन्द्रमेव वर्णयन्ति ।

सूत्रधार—नायं कवीनां दोषः । यत्.

स्वमूक्तानां पात्रं रघुतिलकमेकं कलयतां  
कवीनां को दोषः स तु गुणगणानामवगुणः ।  
यदेतानिऽशोभेरपरगुणलुब्धैरिव जग-  
त्यसावेकश्चक्रे सततमुखसंबासवसतिः ॥ १२ ॥

अपि च । भो

बीजं यस्य चिराजितं सुचरितं प्रज्ञा नवीनोऽङ्कुरः  
काण्डः पंडितमंडलीपरिचयः काव्यं नवः पल्लवः ।  
कीर्तिः पुष्पपरम्परा परिणतः सोऽयं कवित्वद्गमः  
किं वन्ध्यः क्रियते बिना रघुकुलोत्सप्रशंसाफलम् ॥ १३ ॥

## क—महाकाव्य

२१२. राम-कथा सम्बन्धी प्राचीन महाकाव्यों में कथानक के दृष्टिकोण से कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं मिलता। उनकी एक विशेषता यह है कि उनमें वाल्मीकि की रचना की अपेक्षा शृंगार को अधिक स्थान दिया गया है। पहले यह शृंगारिक वर्णन राक्षसों के विषय में किया गया है (दे० सेतुबध, सर्ग १०; भट्टिकाव्य सर्ग ११)। लेकिन आगे चलकर कुमारदाम ने कुमारसम्भव के अनुकरण पर राम-सीता के सभोग शृंगार का वर्णन भी किया है, जो अश्लीलता की सीमा तक पहुँच गया है।

१ राम-कथा-संबन्धी काव्यों के रचनाकाल तथा उनकी साहित्यिक समालोचना के लिए दे० :

एम्० विंटरनिट्स : हि० इ० लि०, भाग ३ ।

एस० के० दे : हिस्टरी ऑव संस्कृत काव्य लिटरेचर ।

ए० वी० कीच : हि० सं० लि० और संस्कृत ड्रामा ।

### कालिदासकृत रघुवंश (४०० ई० के लगभग)

२१३. रघुवंश के नवे सर्ग में दशरथ के राज्य के वर्णन के अन्तर्गत मुनिपुत्र-वध का उल्लेख मिलता है (श्लोक ७३-८२)। अनन्तर समस्त राम-चरित का छः सर्गों में वर्णन किया गया है (दे० सर्ग १०-१५), कथानक वाल्मीकिकृत रामायण पर निर्भर है। सीतात्याग, लवणवध, कुश-लव-जन्म, शम्बूक-वध, लक्ष्मण-मरण तथा स्वर्गारोहण के उल्लेख से स्पष्ट है कि कालिदास प्रचलित उत्तरकांड की कथा-वस्तु में परिचित थे (दे० सर्ग १४-१५)। अयोनिजा सीता के अलौकिक जन्म की कथा तो मिलती है लेकिन कहीं भी सीता के लक्ष्मी के अवतार होने की ओर निर्देश नहीं किया गया है। काकजयंत का वृत्तान्त भरत के चित्रकूट से चले जाने के बाद दिया गया है। वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख भरत के आने के पहिले किया गया है। अहल्या के विषय में कहा गया है कि वह वास्तव में शिला बन गई थी। वाल्मीकि के अनुसार रावण ने ब्रह्मा को अपने शीशों को समर्पित कर दिया था। कालिदास के अनुसार उसने शिव को उन्हें समर्पित किया था। शेष कथा वाल्मीकि से भिन्न नहीं है।

### रावणवह अथवा सेतुबन्ध (५५०-६०० ई०)

२१४. महाराष्ट्री प्राकृत में लिखित रावणवह की रचना राजा प्रवरसेन अथवा उनके दरबार के किसी कवि द्वारा हुई थी। इसका रचनाकाल प्रायः छठी शताब्दी ई० माना जाता है। डॉ० मुशील कुमार दे उम रचना को पांचवी शताब्दी की मानते हैं। इसके रचयिता के विषय में एक ग्रामक धारणा प्रचलित है कि कालिदास ने उसे लिखा था। प्रवरसेन प्रायः काश्मीर के राजा माने जाते हैं। यद्यपि यह असंभव नहीं कहा जा सकता है कि धाकाटक वंश के प्रवरसेन द्वितीय (शासन-काल ५वी शताब्दी का मध्य) सेतुबन्ध के रचयिता है किन्तु इसके विरोध में जो तर्क दिए जाते हैं, वे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं।

रावणवह के पन्द्रह सर्गों में वाल्मीकिकृत युद्धकाण्ड की कथावस्तु का अलंकृत शैली में वर्णन मिलता है। कथानक में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया है। समुद्र-बन्धन के वर्णन में मछलियों के सेतु को गूट करने का उल्लेख है। आगे चलकर इस घटना के विषय में अनेक कथाओं की कल्पना कर ली गई है। रावणवह की एक अन्य विशेषता यह है कि 'कामिनीकेलि' नामक दसवें सर्ग में राक्षसियों का सभोग

१. राजकमल प्रकाशन ने डॉ० रघुवंश का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित किया है।

२. दे० दि क्लासिकल एज, पृ० १८२-१८४।

वर्णन मिलता है। इसका मूलस्रोत संभवतः पञ्चमखण्ड है। बाद में इस वर्णन का अनुकरण भट्टिकाव्य, जानकी-हरण, अभिनन्दन कृत रामचरित, कम्बकृत तस्मिन् रामायण, रामलिंगामृत तथा जावा के प्राचीनतम रामायण आदि में किया गया है (दे० आगे अनु० ६११)।

### भट्टिकाव्य अथवा रावणवध (५००-६५०)

२१५. भट्टिकाव्य की रचना कच्छ में छठी अथवा सातवीं शताब्दी में हुई थी। इसके २२ सर्गों में व्याकरण के नियमों के निरूपण के साथ-साथ बाल्मीकिकृत रामायण के प्रथम छः कांडों की कथावस्तु का किंचित् परिवर्तन सहित वर्णन किया गया है। इसकी निम्नलिखित विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं -

दशरथ के शीव होने का उल्लेख (सर्ग १, ३)।

पुत्रोष्ट-यज्ञ में कोई देवता प्रकट नहीं होने वरन् दशरथ की पत्नियाँ हुतोच्छिष्ट खाती हैं (सर्ग १, १३)।

बला और अतिबला के स्थान पर जया तथा विजया नामक विद्याओं का उल्लेख है (सर्ग २, २१)।

केवल राम तथा सीता के विवाह का उल्लेख किया गया है (सर्ग २, ४३)।

राम तथा लक्ष्मण दोनों खरदूषण तथा १४००० राक्षसों का वध करते हैं (सर्ग ३, ३३)।

लक्ष्मण का सीता को शाप देना (सर्ग ५, ६०)।

सीता-हरण के पश्चात् राम पहले-पहल जटायु से मिलते हैं (सर्ग ६, ४१)।

गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठों के अनुसार विभीषण की माता उससे अनुरोध करती है कि वह रावण को समझावे (सर्ग १२, १); रावण की केवल एक ही सभा का वर्णन है, जिसमें रावण विभीषण पर पाद-प्रहार करता है (सर्ग १२, ७६)।

राक्षसियों का सभोग-वर्णन (सर्ग ११)।

ब्रह्मा के स्थान पर शिव राम को उनके नारायणत्व का स्मरण दिलाते हैं (सर्ग २३, १६)।

### जानकीहरण (८०० ई० के लगभग)

२१६. सिंहलद्वीप की एक अपेक्षाकृत अर्वाचीन संतकथा के अनुसार कुमारदास छठी शताब्दी ई० में वहाँ के राजा थे। आधुनिक समालोचक इस कथा पर विश्वास न रखकर कुमारदास को आठवीं शताब्दी के अंत का और नवीं शताब्दी के प्रारम्भ का कवि मानते हैं। कुमारदासकृत जानकीहरण की कथावस्तु बाल्मीकिकृत रामायण

के प्रथम छः कांड, पर निर्भर है। कथानक में अहल्या के शिला बन जाने के अतिरिक्त कोई अन्य परिवर्तन नहीं किया गया है। यद्यपि केवल राम के विवाह का वर्णन किया गया है, अन्य भाइयों के विवाह का भी निर्देश मिलता है (दे० सर्ग ९)। प्रथम सर्ग में दशरथ-राज्य-वर्णन के अन्तर्गत उनके हिमालय में मृगया खेलने तथा मुनि-पुत्रवध करने का किञ्चित् विस्तार सहित वर्णन किया गया है (दे० सर्ग १, ४५-९०)। कुमारदास की रचना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके २५ सर्गों में भृगुगारात्मक वर्णनों को पर्याप्त स्थान दिया गया है। उदाहरणार्थ-

दशरथ और उनकी पत्नियों के विहार, जलक्रीडा आदि का वर्णन (समस्त सर्ग ३)।

राम तथा सीता के पूर्वानुराग का वर्णन (सर्ग ७, १-३४)।

मिथिला में विवाह के पश्चात् राम तथा सीता का सभोगवर्णन, जिसमें कुमार-संभव का प्रभाव स्पष्ट है (समस्त सर्ग ८)।

सेतुबध के अनुकरण पर युद्ध के पूर्व राक्षसों की केलि का वर्णन (समस्त सर्ग १६)।<sup>१</sup>

### अभिनंदकृत रामचरित (नवीं शताब्दी)

२१७. गौडीय पालवंश के युवराज हार्गवर्ष की प्रेरणा में अभिनन्द ने नवीं शताब्दी ई० पूर्वार्द्ध में रामचरित की रचना की थी। इसके ३६ सर्गों में राम-लक्ष्मण के प्रसन्नवर्ष पर्वत के वर्षा-निवास (दे० रामायण ४, २७) में कुम्भ-निकुम्भ-वध तक (दे० वही ६, ७७) की वाल्मीकीय राम-कथा का वर्णन मिलता है। भीम नामक कवि ने चार सर्गों का एक परिशिष्ट लिख कर युद्धकांड की कथावस्तु पूरी की है। इस राम-चरित में निम्नलिखित विशेषताएँ हैं

वर्षा-श्रुतु के पश्चात् सुग्रीव अपने आप राम के पास आता है और लक्ष्मण को भेज देने की आवश्यकता नहीं होती (सर्ग ५)।

अभिज्ञानस्वरूप राम हनुमान् को अगूठी के अतिरिक्त एक नूपुर और स्तनोत्तरीय भी देते हैं तथा दिलीप, रघु, अज, दशरथ की वशावली भी सिखलाते हैं (सर्ग ८)।]

हनुमान् आदि के गुफा में प्रवेश करने की वाल्मीकिकृत किष्किन्धाकांड की कथा में (दे० रा० ४, ५०-५२) बहुत कुछ परिवर्तन किया गया है। कंदरा के प्रवेश-पथ पर सोते हुए दुर्दम नामक राक्षस का अगद द्वारा वध किया जाता है। भीतर जाकर हनुमान् एक वानर-वारसुन्दरी का प्रेम-प्रस्ताव दो बार अस्वीकार

१. दे० बुलेटिन स्कूल ओरियेंटल स्टडिज; भाग ४, पृ० २८५।

करते हैं। स्वयंप्रभा के गुफा में निवास करने का कारण भी रामायण में दिए हुए वृत्तान्त से कुछ भिन्न है (सर्ग १०-१२)।

रावण के संभोग का भी विस्तृत वर्णन किया गया है। (दे० 'दशाननपानकेलिवर्णनम्' नामक १८वाँ सर्ग)।

वाल्मीकि रामायण के गौडीय पाठ के अनुसार रावण का विभीषण पर पाद-प्रहार करने का तथा विभीषण के राम की शरण लेने के पहले अपने भाई कुबेर के पास जाने का उल्लेख हुआ है (दे० सर्ग २३, ८७ तथा सर्ग २४, १३५)।

### रामायणमंजरी तथा दशावतारचरित (११वीं श० ई०)

२१८. काश्मीर-निवासी क्षेमेन्द्र ने १०३७ ई० में वाल्मीकिरुत रामायण के पश्चिमोत्तरीय पाठ का ५३८६ श्लोको में संक्षेप किया था और अपनी रचना का नाम रामायणमंजरी रखा था। इसमें क्षेमेन्द्र ने किसी मौलिकता का प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन अपने एक दशावतारचरितम् नामक अन्य ग्रंथ में, जिसकी रचना १०६६ ई० में हुई थी, उन्होंने २९४ छन्दों के रामावतार-वर्णन में राम-कथा का एक नवीन रूप प्रस्तुत किया था।

इसकी विशेषता यह है कि समस्त कथा का वर्णन रावण के दृष्टिकोण से किया गया है। प्रारम्भ में रावण की तपस्या, वरप्राप्ति, अत्याचार आदि का कुछ चित्रण मिलता है (छन्द १-६९)। अनन्तर रावण के लक्ष्मी के अवतार पद्मजा सीता को पुत्रीस्वरूप ग्रहण करने की कथा दी गई है (दे० छन्द ७०-१०४ और आगे अनु० ३८०)।

१०५वें छन्द से रामायण की कथावस्तु का प्रारम्भ होता है। शूर्पणखा रावण के पास आकर अपने विरूपीकरण तथा खरदूषण-वध का वृत्तान्त सुनाती है। इस पर रावण मारीच के यहाँ जाकर उससे जन्म से लेकर बनवास तक की विष्णु-अवतार राम की कथा सुनाता है (१०५-१३०)।

अनन्तर रावण मारीच की सहायता से सीता को हर लेता है (१३१-१५१)। इसके बाद सुकेतु नामक गुप्तचर मारीच-वध से लेकर (सुग्रीव-सख्य, वानरों का प्रेषण, हनुमान् का समुद्रलंघन, असोकवाटिका-मंजन आदि) लंकादहन तक की कथा रावण को सुनाता है (१५२-१९४)।

सुकेतु तथा विभीषण, दोनों रावण से सीता को लौटा देने का अनुरोध करते हैं। विभीषण रावण की दुर्बुद्धि देखकर राम की शरण लेता है। अनन्तर रावण एक गुप्त-चर से विभीषण-अभिषेक, सेतुबन्ध तथा राम के त्रिकूटागमन की कथा

(२०७-२१३) तथा प्रतिहारपति से नागपाश द्वारा राम-लक्ष्मण के बन्धन तथा कुम्भकर्ण को जगाने का वृत्तान्त सुनता है (२१४-२२३)। प्रतिहारपति-रावण-संवाद के बाद कवि द्वारा शेष राम-चरित का वर्णन किया गया है। कुम्भकर्ण-वध से लेकर राम के स्वर्गारोहण तक की समस्त वाल्मीकीय कथा संक्षेप में दी गई है।

### उदारराघव (१४ वीं श० ई०)

२१९. उदारराघव की रचना १४वीं श० ई० के मध्य साकन्यमल्ल नामक कवि द्वारा हुई थी। कवि के अन्य नाम भी प्रचलित हैं—मल्लाचार्य, कविमल्ल और मल्लयाचार्य। इस रचना का विस्तार १८ सर्गों का बताया जाता है लेकिन इसके केवल नौ सर्ग सुरक्षित तथा प्रकाशित हैं, जिनमें शूर्पणखा-विरूपीकरण तक का वर्णन मिलता है। कथानक वाल्मीकि रामायण के अनुसार है।

अवतारवाद के विषय में कुछ परिवर्तन किया गया है। राम विष्णु के पूर्ण-वतार माने गए हैं तथा लक्ष्मण-भरत-शत्रुघ्न क्रमण. शेष-मुदर्शन-शश के अवतार। सीता वन-गमन के लिए राम से अनुरोध करते हुए कहती हैं कि मेने बहुत से रामायण सुने हैं लेकिन उनमें राम कही भी सीता के बिना वन नहीं जाते हैं।

रामायणानीह पुरातनानि पुरातनेभ्यो बहुशः श्रुतानि।

न क्वापि बंबेहसुतां बिहाय रामो वनं यात इति श्रुतं मे ॥

(सर्ग ५, ४८)

सारी रचना की शैली बहुत कुछ कृत्रिम और अत्यधिक अलंकृत है तथा इसमें वाल्मीकि के काव्य की अपेक्षा शृंगार को अधिक स्थान दिया गया है, उदाहरणार्थ—मिथिला की स्त्रियों का वर्णन (सर्ग ३); वनवास के समय वनविलास का प्रसंग (सर्ग ९, ३३); शूर्पणखा का वृत्तान्त (९, ६०-९१)।

### उत्तरकालीन महाकाव्य

२२०. पंद्रहवीं शताब्दी से लेकर बहुत सी रचनाओं का उल्लेख मिलता है जो अधिकांश अप्रकाशित ही हैं। किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि उन परवर्ती काव्यों का कथानक की दृष्टि से कोई विशेष महत्त्व नहीं है। वामन भट्टवाण (अभिनव वाणमट्ट) का रघुनाथचरित (३० सर्ग) १५वीं शताब्दी का है; १८०० ई० के लगभग रघुनाथ उपाध्याय ने रामचरित महाकाव्य लिखा, जो १९३२ ई० में वाराणसी में प्रकाशित भी हुआ था। त्रिवान्द्रम संस्कृत सीरिज में प्रकाशित रघुवीरचरित का रचयिता अज्ञात है।<sup>१</sup> उदाहरणार्थ यहाँ पर चार अर्वाचीन रचनाओं की कथावस्तु का परिचय दिया जाता है।

१. दे० सुशील कुमार दे। हिस्टरी ऑव संस्कृत लिटरेचर, पृ० ६३०।

२२१. चक्रविकृत जानकी-परिणय<sup>१</sup> (१७ वीं श० ई०) में वाल्मीकीय बालकाण्ड के अनुसार दशरथ-यज्ञ से लेकर परशुराम-तेजोमंग तक की प्रधान घटनाओं का ८ सर्गों में वर्णन किया गया है। अहल्या के शिला बन जाने के उल्लेख के अतिरिक्त कथानक में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। छठे सर्ग में दशरथ की मिथिला-यात्रा के वर्णन में उनकी विलासक्रीडाओं का किञ्चित् विस्तार सहित चित्रण किया गया है। जानकीहरण तथा कब-कृत तमिल रामायण में भी दशरथ की इस यात्रा का विस्तृत वर्णन मिलता है।

२२२. रामालिगामृत की रचना बनारस-निवासी अद्वैत नामक कवि द्वारा सन् १६०८ ई० में हुई थी।<sup>२</sup> हिन्दीसाहित्य के दृष्टिकोण से इसका महत्व यह है कि इसकी रचना उस समय हुई थी, जब गोस्वामी तुलसीदास वाराणसी में विद्यमान थे। अतः रामालिगामृत की कथावस्तु अपेक्षाकृत विस्तार से दी जाती है।

#### सर्ग १—उपोदघात

मगलाचरण के पश्चात् गोकुल की दो गोपिकाओं का सवाद उद्धृत है। दोनों में से एक का जन्म रघुकुल में हुआ था, जिससे उसे राम-कथा की विशेष जानकारी है। अपनी मखी के अनुरोध में वह रघुवशीय गोपिका राम-चरित का वर्णन करती है (१-२४)। कथानक रावण-चरित से प्रारम्भ होता है। जय-विजय भृगु द्वारा दिए हुए शाप के फलस्वरूप राक्षसयोनि प्राप्त कर रावण तथा कुम्भकर्ण बन जाते हैं। प्रह्लाद के विभीषण बन जाने का भी उल्लेख है। अनन्तर रावण तथा कुम्भकर्ण की शिवाराधना और वरप्राप्ति तथा देवताओं द्वारा विष्णु से अवतार लेने की प्रार्थना का वर्णन मिलता है (२५-६४)।

#### सर्ग २—रामबाललीला (१-७०)।

रामादि भाइयों का जन्म, जातकर्म, स्तनपान, राम का अपनी माता को अपना विश्वरूप दिखलाना, बाललीला, वनक्रीडा, अध्ययन, यशोपवीत-संस्कार तथा विश्वामित्र के राम और लक्ष्मण को ले जाने का वर्णन।

#### सर्ग ३—रावणपराभव (१-६४)

दोनों भाइयों का विश्वामित्र के साथ सीतास्वयंवर में पहुँचना, सीता-सखियों द्वारा राम के सौन्दर्य का वर्णन, राजाओं, देवताओं तथा राक्षसों की उपस्थिति, रावण का धनुष को चढ़ाने का असफल प्रयत्न, राम द्वारा धनुर्भंग।

१. त्रिवान्द्रम संस्कृत सीरिज (सन् १९१३) में प्रकाशित।

२. इसकी हस्तलिपि लन्दन में सुरक्षित है। दे० इंडिया ऑफिस कैंटालॉग न० ३९२०।

## सर्ग ४—सीतास्वयंवर (१-१०३)

दशरथ के कौशल्यादि के साथ आने के बाद विवाहोत्सव का वर्णन दिया गया है। स्त्रियों को राम को देखने की उत्सुकता के वर्णन में कालिदास आदि कवियों का अनुकरण किया गया है। उदाहरणार्थ एक शार्दूलविक्रीडित छन्द उद्धृत किया जाता है:

काचिन्मंगलघोषहृष्टहृदया गेहात्सखीसंबृता  
व्यग्रा व्यस्तसमस्तभूषणगणान्सीघ्रं' वधाराध्वगा  
सीताराममुखारविद-ज-रसोन्मत्ता गलन्मालती  
केजो कंकतिका चलत्कुचयुगा द्वारोर्ध्वभागे स्थिता ॥ ८६ ॥

इन्द्र आदि देवगण के आगमन तथा इन्द्र की आज्ञा से विश्वकर्मा द्वारा निर्मित एक दिव्य नगर का उल्लेख है, जिनमें लक्ष्मी सीता को रामावतार का रहस्य बताती हैं।

## सर्ग ५—रामारण्यगमन (१-६३)

मिथिला से प्रस्थान तथा मार्ग में परशुराम तेजोभग के वर्णन के बाद राम की अवस्था १५ वर्ष की तथा जानकी की ६ वर्ष की बताई जाती है, यद्यपि चौथे अध्याय में सीता की १६ वर्ष की अवस्था का उल्लेख हुआ था। अनन्तर वाल्मीकि के अनुसार राम के निर्वासन का वर्णन किया गया है (२५-६३)।

## सर्ग ६—रामारण्यगमन (१-८१)

इसमें भगवान्‌माया मनुष्य हरि (छन्द ४) के पंचवटी में निवास का वर्णन है, जहाँ खग, मृग, व्याघ्र आदि अपने 'स्वभाव वर' का परित्याग कर रहते थे (छन्द ५)।

अनन्तर शूर्पणखा के विरूपीकरण के उल्लेख के बाद नागद के रावण के पास जाकर सीता के सौन्दर्य के वर्णन करने की कथा मिलती है, जिनके फलस्वरूप रावण मारीच की सहायता से सीता का हरण करता है। सीता की खोज के वर्णन में शिलामयी अहल्योद्धार और केवट के राम-चरण घोंने के आग्रह की कथा दी गई है। कबंध-वध के उल्लेख के बाद सीता को प्राप्त करने के लिए राम की शिव-पूजा का वर्णन किया गया है:

सीतासंगमनार्थाय रामो लिंगस्य पूजनं ।  
चक्रे तेन महादेवः सीतामुद्धि चकार ह ॥ ७९ ॥

१. शीघ्र के स्थान पर 'सीघ्र' ही लिखा है।



अन्त में राम के वानरों में सख्य करने का उल्लेख मात्र मिलता है ।

**सर्ग ७. रामविभीषणदर्शन (१-६२)**

इसमें हनुमान के सीता के पास जाकर उनको एक अँगूठी के अतिरिक्त राम का एक पत्र देने का वर्णन है । लंकादहन के उल्लेख के बाद हनुमान् के राम को सीता का समाचार देने की कथा मिलती है । अनन्तर अगद के दूतकार्य का वर्णन किया गया है, जिसमें महानाटक के रावण-अगद-संवाद का अनुकरण स्पष्ट है । अन्त में सेतुबन्ध तथा विभीषणागमन का उल्लेख किया गया है ।

**सर्ग ८—युद्धकांड (१-६१)**

इसमें राक्षसों की केलि के वर्णन के बाद अहीमहीरावण के राम-लक्ष्मण को पाताल ले जाने का तथा हनुमान् द्वारा मकरध्वज की सहायता से दोनों की मुक्ति का वृत्तान्त दिया गया है ।

सर्ग के अन्त में कुम्भकर्ण-वध, लक्ष्मण को शक्ति लगने तथा लक्ष्मण-इन्द्रजित्-युद्ध का उल्लेख मात्र मिलता है ।

**सर्ग ९—अहीरावणमहीरावणवध (१-४५)**

इस सर्ग की कथावस्तु शीर्षक के अनुसार नहीं है, इसमें सुलोचना की कथा तथा युद्ध के लिए रावण के प्रस्थान का वर्णन मिलता है ।

**सर्ग १०—शिर्वालग वर्णन (१-८३)**

रणक्षेत्र में राम को देखने पर रावण का एक विस्तृत भाषण दिया गया है (१-३५), जिसमें वह राम को राक्षसवंश का नाश करने के लिए विष्णु का अवतार मानता है, विष्णु द्वारा वध किए जाने के कारण अपने भाग्य की प्रशंसा करता है, राम द्वारा की हुई शिवपूजा को उनकी विजय का कारण मानता है और साथ-साथ रामनाम की सामर्थ्य का वर्णन करता है, जिसके स्मरण मात्र करने से वानरसेना समूह को पार करने में समर्थ हो सकी ।

अनन्तर राम रावण को अपना शिव-रूप दिखलाते हैं तथा शिर्वालग का वर्णन करते हैं । रावण का सर्वत्र राम के रूप को देखने का भी उल्लेख हुआ है (६४) ।

**सर्ग ११—रावणवध (१-८१)**

रावण-वध के बाद सीता की अग्निपरीक्षा का उल्लेख नहीं है, लेकिन रावण-वध सुनकर सीता के आनन्द तथा मंदोदरी के विलाप का उल्लेख किया गया है; अनन्तर विभीषण के अभिषेक का वर्णन मिलता है । †

**सर्ग १२—रामराज्याभिषेक (१-७५)**

प्रारम्भ में राम आदि की अयोध्या-यात्रा का और अनन्तर राम के आगमन से अयोध्यावासियों के आनन्द का वर्णन किया गया है। कैंकेयी राम से मिलकर कहती है कि देवेन्द्र की प्रेरणा से मैंने आपको रावण का वध करने के लिए वन भेजा था। सर्ग के अन्त में राम का अभिषेक वर्णित है।

**सर्ग १३—श्री जानकीरामक्रीडाह्निक (१-५२)**

राम और सीता के सभोगवर्णन के बाद (१-२०) प्रातःशृंगार, भोजन आदि का उल्लेख किया गया है। सभा में नारद राम की स्तुति करते हैं:

**श्रीराम जगदाधार ब्रह्मानंद सुखप्रद  
त्वन्नामस्मरणेनैव तरिष्ये भवसागरं ।**

अन्त में गर्भवती सीता की दोहद का उल्लेख है।

**सर्ग १४—३८ छन्दों के इस सर्ग में** (जिसका कोई नाम नहीं रखा गया है) वाल्मीकि आश्रम में कुश-लव के जन्म और शिक्षा का वर्णन है। (सीता-त्याग का उल्लेख नहीं है)। नारद में समाचार पाकर राम मेना-सहित आश्रम जाते हैं तथा युद्ध के बाद सीता और कुश-लव के साथ अयोध्या लौटते हैं। (दे० आगे अनु० ७४६)।

**सर्ग १५—कुम्भगर्भवध (१-३४)**

इसमें सीता द्वारा कुम्भकर्ण के पुत्र कुम्भगर्भ के वध का वर्णन किया गया है। (दे० आगे अनु० ६४१)।

**सर्ग १६—श्रीरंगवर्णन (१-४१)**

इस सर्ग में श्रीरंग-मूर्ति की कथा के अतिरिक्त राम द्वारा उसके पूजन का वर्णन किया गया है।

**सर्ग १७—श्रीरामस्य स्वरूपवर्णन (१-८०)**

वसिष्ठ की आज्ञा से राम के अस्वमेध-यज्ञ का वर्णन किया है, जिसमें देवता आकर राम तथा सीता की स्तुति करते हैं (१-३३)। अनन्तर सरयूतीर्थं माहात्म्य-सहित राम-सीता और अयोध्यासमाज का परलोकगमन वर्णित है (३४-५६)। अन्त में अर्द्धवैतमंजरी मिलती है, जिसमें जीव, ब्रह्मा, ईश्वर, माया आदि का निरूपण किया गया है (५७-८०)।

सर्ग १८—क्लिप्त (१-९०)

इसमें राम-कथा नहीं मिलती। रामपूजा-विधि तथा रामकीर्ति के निरूपण के पश्चात् राम-शंकर की तथा राम-कृष्ण की अभिन्नता का प्रतिपादन किया गया है।

अन्त में रचना-काल (शक १५३०), ग्रन्थकार (अद्वैत) आदि का उल्लेख है।

२२३. राघवोल्लास<sup>१</sup> महाकाव्य की रचना भी एक अद्वैत नामक सन्यासी द्वारा वाराणसी में ही हुई थी, सन्यास लेने के पूर्व कवि का नाम मुरारि था (दे० १२, १००)। संभव है यह रामालगामृत के रचयिता से अभिन्न हो। इस महाकाव्य की हस्तलिपि लदन में सुरक्षित है (दे० इण्डिया ऑफिस कैटालॉग न० ३९१५)। इसके तीन प्रारंभिक सर्ग अप्राप्य हैं। शेष नौ सर्गों में लगभग १००० छन्द है (प्रायः इन्द्रवज्रा)। लिपिक का नाम है मानसाहि कायस्थ तथा लिपि-काल सन् १६२५ ई०। इस काव्य की विशेषता है कवि की कोमल रामभक्ति जो इसे राम का सौन्दर्य वारम्बार अंकित करने के लिए प्रेरित करती है तथा राम की स्तुति प्रायः सब पात्रों द्वारा करवाती है। रामचरितमानस की भाँति मर्यादित शृंगार इस काव्य की एक अन्य विशेषता है—राम-सीता-पूर्वानुराग का वर्णन करते हुए कही भी सीता का नखशिख वर्णन नहीं दिया गया है। कथानक रामजन्म से प्रारंभ होकर विवाह के पश्चात् अयोध्या में प्रत्यागमन पर समाप्त हो जाता है।

सर्ग ४—राम का जन्म, रामसौन्दर्य-वर्णन, चतुर्भुज-वर्णन। संक्षिप्त बाललीला।

सर्ग ५—विश्वामित्र द्वारा रामावतार की व्याख्या। दशरथ की मूर्च्छा; राम द्वारा शरीर की नश्वरता का उपदेश।

सर्ग ६—ताडका; मुवाहु; मारीच। विश्वामित्र द्वारा राम-नाम-महिमा का वर्णन। पाषाणभूता अहल्या का उद्धार।

सर्ग ७—अहल्या द्वारा राम की स्तुति। जनकपुर में आगमन।

सर्ग ८—सीता का पूर्वानुराग (दे० आगे अनु० ४०३), धनुर्भंग।

सर्ग ९—दशरथ का स्वागत।

सर्ग १०-११—विवाह।

सर्ग १२—कौतुकलीला (सीता राम के ललाट पर केसर का तिलक लगाती है); विदाई; परशुराम का तेजोभंग, अयोध्या में आगमन।

१. दे० राघवप्रसाद पाडेय, तुलसीदास-कालीन राघवोल्लास काव्य, राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त अभिनन्दन ग्रंथ, पृ० ७०२।

२२४. मोहन स्वामी कृत रामरहस्य अथवा रामचरित की एक हस्तलिपि लन्दन में सुरक्षित है (लिपिकाल सन् १७५० ई०; दे० इण्डिया ऑफिस कॅटालॉग, न० ३९१७)। इस रचना के तेरह क्रीडोपकरणों की अधिकांश सामग्री ज्यों-की-त्यों अध्यात्म रामायण से उद्धृत की गई है। द्वितीय उपकरण में सुमंत्र द्वारा स्वयंभू मनु तथा उनकी पत्नी की तपस्या का वर्णन मिलता है, जिसके फलस्वरूप वे तीन जन्मों में विष्णु को पुत्र के रूप में प्राप्त करने का वरदान पाते हैं। दोनों अब दशरथ-कौशल्या हैं और आगे चलकर बसुदेव-देवकी, तथा कलियुग में हरिब्रत-देवप्रभा के रूप में जन्म लेंगे। सूर्यवश-वर्णन से लेकर रामचन्द्र स्वर्गारोहण तक के इस कथानक में कहीं भी मौलिकता का नाम नहीं है। विशेषता यह है कि विवाह के पश्चात् अयोध्या में पहुँचकर नवदम्पति का संभोग-वर्णन के रूप में महानाटक का ममस्त द्वितीय अंक उद्धृत किया गया है। अगद के कार्य-वर्णन में भी महानाटक से एक विस्तृत अंश (अंक ८, ४-२०) ले लिया गया है।

### ख—नाटक

२२५. राम-कथा को लेकर नाटकों के अभिनय की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। इसका निर्देश नवें अध्याय में उद्धृत किए हुए हरिबंश के एक श्लोक में मिलता है (दे० अनु० १४५)। इन प्राचीन नाटकों का लोप हुआ है, लेकिन आगे चलकर भी राम सम्बन्धी नाटकों की रचना होती रही। यह हम परिच्छेद में बर्णित सामग्री से स्पष्ट है।<sup>१</sup> महाकाव्यों की अपेक्षा राम-कथा-सम्बन्धी नाटकों में कथानक के दृष्टिकोण से अधिक परिवर्तन किया गया है, तथा अनेक नए पात्रों की सृष्टि भी की गई है, जिसे रामायण की आधिकारिक कथावस्तु को (वनवास, सीताहरण, रावणवध) अपेक्षाकृत कम स्थान मिल सका है।<sup>२</sup> दसवीं शताब्दी के पूर्व के नाटकों में से केवल उत्तररामचरित और कृन्दमाला में उत्तरकाण्ड संबंधी सामग्री का वर्णन किया गया है और दोनों में नाटक को सुबान्त बनाने के लिए सीता के भूमिप्रवेश की कथा बदल दी गई है। राम-कथा का यह महत्त्वपूर्ण परिवर्तन कथापरिष्कार, जैमिनीय अश्वमेध, पद्मपुराण तथा आनन्द रामायण में भी मिलता है। छलितराम और रामानन्द नामक नाटक भी उत्तररामचरित से सम्बन्ध रखते

१. राम-कथा-सम्बन्धी नाटकों की साहित्यिक समालोचना के लिये दे० एस० लेवी · ल थेआत्र इण्डियन, पृ० २६७ आदि।

२. संभवतः इन परिवर्तनों को ध्यान में रखकर आनन्दवर्धन अपने ध्वन्यालोक में कहते हैं कि रामायण जैसी सिद्धरस कथाओं में स्वेच्छा से रसविरोधी परिवर्तन नहीं करना चाहिए (दे० ३, १४ की वृत्ति)।

हैं किन्तु दोनों अप्राप्य हैं। प्रतिमानाटक, मैथिलीकल्याण, दूतांगद, उन्मत्तराघव जैसे नाटको को छोड़कर प्रायः सब अन्य राम-कथा विषयक नाटक रामाभिषेक पर ही समाप्त हो जाते हैं।

प्रत्येक नाटक की विशेषताओं का अलग-अलग वर्णन किया जायगा। यहाँ राम-कथा सम्बन्धी नाटको की सामान्य विशेषताओं की ओर निर्देश करना है। रामायण की आधिकारिक कथा-वस्तु को अपेक्षाकृत कम महत्त्व मिलने के अतिरिक्त इन नाटको में निम्नलिखित विशेषताएँ पाई जाती हैं :

- (१) विस्तृत वर्णन और सवाद, जिससे कही-कही नाटक की गति में रुकावट पड़ी है।
- (२) आदर्शवाद का प्रभाव। उदाहरणार्थ 'वालिबध का महावीरचरित, अनर्घराघव तथा महानाटक में परिवर्तित रूप, प्रतिमानाटक, महावीरचरित, अनर्घराघव तथा बालरामायण में कँकेयी का दोषनिवारण, छलितराम में सीतात्याग का तथा कृत्यारावण में सीताहरण का नवीन रूप।
- (३) शृंगार की व्यापकता। उदाहरणार्थ 'बालरामायण में रावण का विरह-वर्णन, मैथिलीकल्याण में राम-सीता के पूर्वानुराग का चित्रण (अंक १-४) तथा महानाटक में राम-सीता का सभोग-वर्णन, जो असलीलता की सीमा तक पहुँच गया है (अंक २)।
- (४) अद्भुत-रस का प्रवेश। उदाहरणार्थ, प्रसन्नराघव (अंक ६), आश्चर्य-बूझा-मणि, अद्भुत दर्पण।
- (५) पात्रों का अन्य पात्रों का रूप धारण कर लेना। उदाहरणार्थ: महावीरचरित तथा अनर्घराघव में शूर्पणखा मंथरा का रूप धारण कर लेती है; उदात्तराघव में सुग्रीव को धोखा देने के उद्देश्य से एक राक्षस हनुमान् के रूप में उनके पास आता है तथा अंतिम अंक में कई छपवेषी राक्षस भरत और राम से छल-कपट करने का निष्फल प्रयास करते हैं, बालरामायण में मायामय, शूर्पणखा तथा एक परिचारिका क्रमशः दशरथ, कँकेयी तथा मथरा का रूप धारण कर लेते हैं; महानाटक में रावण अपने हाथ में अपने दस शीर्ष लिए हुए राम के रूप में सीता के पास जाता है; आश्चर्य-बूझामणि में रावण और उसका सारथि राम तथा लक्ष्मण का रूप धारण कर सीता का हरण करते हैं और शूर्पणखा सीता के रूप में राम के पास जाती है।

### प्रतिमानाटक तथा अभिषेकनाटक

२२६. संभव है कि प्रतिमानाटक तथा अभिषेकनाटक भासकृत न होकर किसी दक्षिण भारत-निवासी अन्य कवि द्वारा कालिदास के बहुत कुछ बाद रचित

हुए हों।<sup>१</sup> प्रतिमा नाटक मे कालिदास के अनुसार राम की वंशावली (दिलीप, रघु, अज, दशरथ) तथा अभिषेक नाटक में सीता के लक्ष्मी के अवतार होने के उल्लेख से भी उपर्युक्त मत की पुष्टि होती है। फिर भी दोनों नाटकों को यहाँ पहला स्थान दिया गया है।

प्रतिमानाटक के सात अंकों में वाल्मीकीय अयोध्याकांड की कथावस्तु तथा सीताहरण का वर्णन किया गया है। प्रथम अंक मे राम को वनवास दिए जाने की कथा मिलती है। इसकी विशेषता है, शत्रुघ्न की उस समय अयोध्या मे उपस्थिति।

द्वितीय अंक में दशरथ के मरण का वर्णन है, इसके अनुसार मृत्यु-शय्या पर पड़े हुए दशरथ को उनके पूर्वजों (दिलीप-रघु-अज) के दर्शन होते हैं, जो उनको परलोक ले जाने आए हैं।

तृतीय अंक में भरत के प्रत्यागमन का वर्णन है। प्रतिमागृह मे अयोध्या के मृत राजाओं की मूर्तियों को देखकर भरत जान जाते हैं कि दशरथ की मृत्यु हुई है और वे राज्य-सिंहासन टुकराकर राम के पाम जाने का सकल्प करते हैं। इसमे भरत को लक्ष्मण का अनुज बताया गया है।

चतुर्थ अंक मे वाल्मीकि के अनुसार भरत की नित्रकूट-यात्रा का वर्णन मिलता है तथा पचम अंक मे सीता-हरण का एक सर्वथा नवीन रूप प्रस्तुत किया गया है (दे० आगे अनु० ४९५)।

छठे अंक के अनुसार भरत सुमंत्र से सीताहरण का समाचार सुनकर कैंकेयी को भर्त्सना देते हैं, जिस पर कैंकेयी अपने निर्दोष होने का प्रमाण देती है। महर्षिशाप की रक्षा करने के लिये वसिष्ठ वामदेव आदि से परामर्श लेकर कैंकेयी ने राम को वनवास दिलाया था (दे० आगे अनु० ४५२)। अनन्तर भरत रावण के विरुद्ध सेना संचालन की आज्ञा देते हैं।

रावण-वध के बाद जनस्थान के आश्रम मे भग्न आदि से राम की भेट का वर्णन अंतिम अंक मे किया गया है। उस वृत्तान्त के अनुसार राम का अभिषेक भी जनस्थान मे हुआ था, जिसके बाद सब पुष्पक से अयोध्या लौट गए।

२२७. अभिषेक नाटक में वालिवध से लेकर रामाभिषेक तक की वाल्मीकीय कथा का अपेक्षाकृत कम परिवर्तन सहित वर्णन किया गया है। सेतुबन्ध के स्थान पर समुद्र विभक्त हो जाता है और सेना समुद्रतल से पार उतरती है (अंक ४)।

१. दे० एस० कुप्पुस्वामिशास्त्री की आश्चर्यचूडामाणि की भूमिका, वालमनोरमा सिरीज, मद्रास।

राम तथा लक्ष्मण दोनों के मायामय शीर्ष सीता को दिखलाए जाते हैं (इस परिवर्तन का महानाटक, जावा के प्राचीन रामायण तथा मलय के सेरी राम में अनुकरण किया गया है)। सीता की अग्निपरीक्षा के समय अग्निदेव प्रकट होकर सीता के लक्ष्मी होने का रहस्योद्घाटन करते हैं।

इमां भगवतीं लक्ष्मीं जानीहि जनकात्मजाम् ।

सा भवन्तमन्द्रप्राप्ता मानुषीं तनुमास्थिता ॥ २८ ॥ (अंक ६)

प्रतिमानाटक में राम को मनुष्य के रूप में देखा गया था, इस नाटक में राम के विष्णुत्व का अनेक स्थली पर उल्लेख है।

### भवभूति-कृत महावीरचरित तथा उत्तररामचरित

२२८. कन्नौज के दरवार के वातावरण में रहने वाले भवभूति ने आठवीं शताब्दी ई० पूर्वाब्द में महावीरचरित तथा उत्तररामचरित की रचना की थी।

महावीरचरित के सात अंकों में राम-सीता-विवाह से लेकर रामाभिषेक तक की कथा का वर्णन किया गया है। इसमें निम्नलिखित परिवर्तन मिलते हैं।

विश्वामित्र के आश्रम में राम-लक्ष्मण सीता-उमिला से मिलते हैं। आश्रम में रावण के दूत के आ जाने का तथा धनुर्भंग होने का भी वर्णन किया गया है (अंक १)।

विवाह के पश्चात् परगुराम के मिथिला ही में आने का वर्णन है (अंक २)।

कैकेयी का एक जाली पत्र लेकर शूर्पणखा मथरा के रूप में मिथिला पहुँचती है। इस पत्र में कैकेयी वर के बल पर राम का वनवास माँगती है, जिसके फलस्वरूप राम भरत को अपनी पादुकाएँ देकर मिथिला ही से सीता तथा लक्ष्मण के साथ वन के लिए प्रस्थान करते हैं (अंक ४)।

माल्यवान् की प्रेरणा से वालि राम को मार्ग में रोक लेता है और द्वन्द्वयुद्ध में राम द्वारा मारा जाता है।

२२९. उत्तररामचरित के सात अंकों में वाल्मीकीय उत्तरकांड की सामग्री का एक नवीन रूप प्रस्तुत है।

लोकापवाद के कारण सीतात्याग के वर्णन को एक और अधिक कल्पना-जनक रूप दिया गया है। सीता-सहित अपने वनवास के चित्रों का दर्शन करने तथा गर्भवती सीता को गगनाटक के आश्रमों को दिखलाने का आश्वासन देने के पश्चात् राम सीता के विषय में लोकापवाद की कथा दुर्मुख से सुनते हैं तथा सीता का त्याग करने का निश्चय करते हैं (अंक १)।

कुश-वध के जन्म की तथा शम्बूक-वध की कथा दोनों वाल्मीकि से कुछ भिन्न हैं (दे० आगे अनु० ७४१ और ६२९)। राम-सेना से कुश-लव के युद्ध करने का भी वर्णन किया गया है (दे० आगे अनु० ७४८)। इस युद्ध के पूर्व वाल्मीकि-आश्रम में जनक तथा कौशल्या की भेंट चतुर्य अक में वर्णित है। कथा के दृष्टिकोण से नाटक की सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता अंतिम अक में मिलती है। वाल्मीकि के आश्रम में राम तथा अयोध्या की जनता के सामने सीता-चरित-सम्बन्धी (त्याग, कुश-लव-जन्म आदि) एक वाल्मीकिकृत नाटक का अभिनय वर्णित है, जिसके फलस्वरूप समस्त प्रेक्षकगण सीता की निर्दोषता पर विश्वास करते हैं और सीता तथा कुश-लव के साथ राम अयोध्या लौटते हैं। राम-कथा के इस मुखान्त निर्वहण की उत्पत्ति और विकास का २० वें अध्याय में विश्लेषण किया जायगा (दे० अनु० ७५४-७५७)।

२३०. 'उदात्तराघव' की रचना सम्भवतः ८वीं शताब्दी ई० में अनंगद्वय मायु-राज (मात्रराज) द्वारा हुई थी। इसके ६ अकों में राम के निर्वासन में लेकर रावण-वध के बाद उनके अयोध्या में प्रत्यागमन तक की कथा प्रस्तुत की गई है। कथानक की विशेषताओं में से सीताहरण का नवीन रूप प्रमुख है (दे० अनु० ४९२)। इसके अतिरिक्त कई राक्षस और असुर राम के पक्ष वाले पात्रों का रूप धारण करते हैं। चतुर्य अक में एक राक्षस हनुमान् का रूप धारण कर सुग्रीव को रावण द्वारा सीता-वध का समाचार देता है, इसपर सुग्रीव अगद को राज्य सौंपकर चिता में प्रवेश करना चाहते हैं किन्तु वास्तविक हनुमान् ठीक समय पर पहुँचकर उनको वचाते हैं। अंतिम अक में एक राक्षस वसिष्ठ का शिष्य बनकर भरत को सदेश देता है कि लक्ष्मण युद्ध में मारे गए हैं। अनन्तर एक असुर नारद के रूप में पहुँचकर कहता है कि राम का भी देहान्त हुआ है और अंत में एक राक्षसी सीता का रूप धारण कर उन दोनों के कथन का समर्थन करती है। भरत सरयू में डूब कर मरने पर है किन्तु हनुमान् शुभ समाचार ले कर आते हैं और उनको रोक्ते हैं। हनुमान् से पता चलता है कि एक असुर ने सुमत्र का रूप धारण कर राम को समाचार दिया था कि भरत मरणसन्न है। तृतीय अक में एक तपस्वी राम के पास जटायु का पत्र लेकर आते हैं, जटायु ने अपनी चौंच की कलम बनाकर इस पत्र को अपने रक्त से एक पंक्ति पर लिखकर कहा कि राम को अपना शोक भुलाकर रावण से बदला लेना चाहिए।

### कुन्दमाला

२३१. कुन्दमाला की रचना निश्चित रूप से भवभूति के उत्तररामचरित के पश्चात् तथा भोजदेव के शृंगारप्रकाश (१०५० ई०) के पूर्व हुई थी। कवि

१. प्रस्तुत परिचय डॉ० राघवन् के दिए हुए संक्षेप पर निर्भर है। उनको उदात्तराघव की एक हस्तलिपि प्राप्त हुई है।



के नाम के कई रूप मिलते हैं, दिङ्नाग, वीरनाग तथा वीरनाग । वीरनाग अधिक समव प्रतीत होता है।' इस रचना पर, जिसकी कथावस्तु उत्तररामचरित से मिलती जुलती है, भवभूति का प्रभाव अत्यन्त स्पष्ट है । इसमें कुश-लव-युद्ध को छोड़कर सीता-त्याग से राम-सीता-मिलन तक की कथा वर्णित है । तृतीय अंक में राम तथा लक्ष्मण वाल्मीकि-आश्रम के पास गीतमी के तट पर एक कुन्दमाला देखते हैं, जिसकी बनावट सीता के कौशल का स्मरण दिलाती है । आगे बढ़कर उन्हें सीता के चरण-चिह्न भी दिखाई पड़ते हैं ।

चतुर्थ अंक के प्रारम्भ में बताया जाता है कि राजसेना को निकट जानकर वाल्मीकि ने अपने तपोबल द्वारा आश्रम की स्त्रियों को अदृश्य हो जाने का बरदान दिया है । इसी तरह सीता अदृश्य होकर गम से मिलती है, राम सीता की छाया को जल में देखकर विरह के कारण मूर्च्छित हो जाते हैं ।

अंतिम अंक में कुश-लव के रामायणगान के पश्चात् सीता सभा में शपथ खाती है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी देवी प्रकट होकर सीता की निर्दोषिता का साक्ष्य देती है । इसपर गम-गीता को स्वीकार करते हैं तथा पृथ्वी देवी अतर्धान हो जाती हैं ।

### मुरारिकृत अनर्घराघव

२३२. अनर्घराघव की रचना ९०० ई० के लगभग मुरारि द्वारा हुई थी । इसकी कथावस्तु विश्वामित्र के आगमन से लेकर अयोध्या में रामाभिषेक तक का वृत्तान्त है । तृतीय अंक में रावणदूत शीष्कल के मिथिला में आकर रावण की ओर से सीता को मांगने का उल्लेख है । महावीरचरित में भी रावण का एक दूत विश्वामित्र के आश्रम में सीता को रावण की ओर से मांगता है । अनर्घराघव में वाल्मीकीय कथा के जो अन्य परिवर्तन मिलते हैं, वे सब महावीरचरित पर निर्भर हैं । उदाहरणार्थ, गर्पणखा का मयरा के वेष में कँकेयी के एक जाली पत्र के बल पर राम का निर्वासन माँगना (अंक ४), परशुराम का मिथिला ही में आगमन (अंक ४) तथा राम-बालि-द्वन्द्व-युद्ध (अंक ५) ।

### राजशेखर-कृत बालरामायण

२३३. राम-कथा-सम्बन्धी सबसे विस्तृत नाटक बालरामायण की रचना १० वीं शताब्दी में हुई थी । इसके १० अंकों में सीतास्वयंवर से लेकर रामाभिषेक

१. दे० एनल्स मन्डारकर अॉ० रि० इ०, भाग १६, पृ० १५८; और भाग १५, पृ० २३६ ।

तक की कथा भवभूति तथा मुरारि के अनुकरण पर वर्णित है। फिर भी कथानक के दृष्टिकोण से राजशेखर ने भौलिकता का भी प्रदर्शन किया है।

रावण स्वयंप्रहस्त के साथ सीता के स्वयवर में पहुँचकर धनुष-परीक्षा करना अस्वीकार करता है तथा सीता के पति को अपना शत्रु घोषित करके लौटता है (अंक १)। अनन्तर वह परशुराम से सहायता के लिए निष्फल प्रार्थना करता है (अंक २) तथा लंका में पहुँचकर सीता के विरह के कारण अत्यन्त व्याकुल हो जाता है। उसका मन बहलाने के लिए सीता-स्वयवर में अन्य राजाओं के प्रयत्नों के बाद राम की सफलता का अभिनय किया जाता है (अंक ३)। बाद में सीता और उनकी धात्रेयिका (दूध-बहन) की मूर्तियाँ बनवाकर तथा उनके मुँह में मारिकाएँ स्थापित करके माल्यवान् द्वारा विरही रावण को सान्त्वना देने का एक और निष्फल प्रयत्न किया जाता है (अंक ५)।

भवभूति तथा मुरारि के अनुसार परशुराम मिथिला में आते हैं, किंतु लक्ष्मण ही विष्णु के धनुष पर प्रत्यक्षा चढ़ाते हैं (अंक ४)। राम के निर्वागन की कथा कुछ भिन्न है। अयोध्या में दशरथ तथा कैंकेयी की अनुपस्थिति का अवसर पाकर मायामय, शूर्पणखा तथा एक परिचारिका क्रमशः दशरथ, कैंकेयी तथा मंथरा का रूप धारण कर लेते हैं और राम को निर्वासित करने में सफल होते हैं (अंक ६)।

सेतुबंध के अवसर पर सीता के मायामय शीर्ष का प्रसंग और रावणपुत्र सिंहनाद तथा एक प्रमजनी नामक राक्षसी के बंध का वर्णन मिलता है (अनु० ५७९); मछलियों द्वारा सेतु को नष्ट करने के प्रयत्न का भी उल्लेख होता है (अंक ७)। त्रिजटा सीता के साथ अयोध्या जाती है (अंक १०)।

### महानाटक अथवा हनुमन्नाटक

२३४. महानाटक के प्रथम रूप की रचना सम्भवतः दसवीं शताब्दी में हुई है।<sup>१</sup> लेकिन इसमें १४वीं शताब्दी तक प्रक्षेप जोड़े गए हैं, जिसके फलस्वरूप आजकल दो बहुत भिन्न पाठ प्रचलित हैं—दामोदर मिश्र का तथा (बंगाल में) मधुसूदन का। दामोदर मिश्र का पाठ मूल रचना के अधिक निकट और प्राचीन है।<sup>२</sup>

इस नाटक के स्वरूप को लेकर बहुत वाद-विवाद हुआ है। इतना ही निश्चित है कि इसकी रचना रंगमंच पर अभिनय करने के उद्देश्य से नहीं हुई थी। अधिक सम्भव

१. दे० एस्० के० दे : दि प्राल्लेम ऑव दि महानाटक, इ० हि० क्वा०, भाग ७, पृ० ५३७ आदि।

२. ए० एस्टलेर : दि एलटेस्टे वार्सियोन इस महानाटक, जर्मन ओरियेन्टल सोसाइटी, १९३६।

है कि इसका पाठ यात्राओं में किया जाया करता था । दामोदर मिश्र के १४ अंकों के अनुसार, इसके कथानक में निम्नलिखित विशेषताएँ हैं :

- अंक १. **सीतास्वयंवर**: सीतास्वयंवर में रावण का एक दूत उपस्थित है तथा परशुराम भिविला ही में आकर पराजित होते हैं ।
- अंक २. **रामजानकीविलास**: इसमें विवाह के अनन्तर राम और सीता का संभोगवर्णन किया गया है, जो अश्लीलता की सीमा तक पहुँच गया है ।
- अंक ३. **मारीचागमन**: राम के वनगमन के समय भरत के अयोध्या में विद्यमान होने का उल्लेख है (छंद ५) तथा अहन्योद्धार का वृत्तान्त अगस्त्याश्रम से पंचवटी की ओर जाते समय वर्णित किया गया है (२०) । सीता के रक्षणार्थ भूमि पर धनुष से रेखा खींचकर राम लक्ष्मण को साथ लेकर, मायामृग को मारने जाते हैं (२७) ।
- अंक ४. **सीताहरण**: राम तथा लक्ष्मण मृग का शिकार करने के लिए साथ साथ चले जाते हैं ।
- अंक ५. **बालिवध**: महावीरचरित आदि के अनुसार बालि स्वयं राम को ललकारता है । इसमें हनुमान् को रुद्रावतार माना गया है (३३) ; अगले अंक में भी इसे 'रुद्रास' कहा गया है ।
- अंक ६. **हनुमद्विजय**: इसमें सीता हनुमान् को तीन अभिज्ञान देती है— चूडामणि, काक की कथा तथा राम के सीता को तिलक लगाने का वृत्तान्त (३९) ।
- अंक ७. **सेतुबंध**: राम के बाण चलाने का उल्लेख नहीं है ।
- अंक ८. **अंगदाधिरोपण**: अपने पिता के वध के कारण राम से बैर रखकर अंगद रावण को युद्ध में प्रवृत्त करने के उद्देश्य से रावण का अपमान करता है (छन्द २) ।
- अंक ९. **संनिवाष्य**: लंका की सभा का वर्णन ।
- अंक १०. **रावणप्रपंच**: रावण पहले राम तथा लक्ष्मण के मायामय शीर्ष सीता को दिखलाता है (अभिषेक नाटक के अनुसार); अनन्तर रावण राम का रूप धारण कर तथा अपने दस मायामय शीर्ष हाथ में लेकर सीता को ठगने का प्रयत्न करता है ।
- अंक ११. **कुम्भकर्णवध**: इसमें अंगद द्वारा राक्षसी प्रभंजनी के वध का भी उल्लेख है ।

अंक १२. इन्द्रजित्बध :

अंक १३. लक्ष्मणशक्तिभेद : इसमें हनुमान् को हटाने के लिए ब्रह्मा द्वारा नारद को भेज देने का उल्लेख है। इस तरह रावण लक्ष्मण को आहूत करने का अवसर पाता है। अनन्तर लक्ष्मण की चिकित्सा के लिए रावण के वंश सुपेण को लका से ले आने का वृत्तान्त मिलता है।

अंक १४. श्रीरामविजय : प्रारम्भ में लोहिताक्ष नामक रावणदूत का राम के पास आने का वर्णन है। रावण राम से सधि का प्रस्ताव करता है तथा जामदग्न्य के पशु के लिए सीता को लौटाना चाहता है। राम इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं। रावणवध के बाद अंगद अपने पिता के वध का प्रतिकार लेने के लिए समस्त सेना को ललकारता है, जिस पर एक आकाशवाणी द्वारा कहा जाता है कि कृष्णावतार में बालि व्याध के रूप में राम-कृष्ण का वध करेगा (७५)।

### शक्तिभद्रकृत आश्चर्यचूडामणि

२३५. दक्षिण भारत का यह नाटक नवीं शताब्दी का माना जाता है, लेकिन इसकी इतनी प्राचीनता बहुत संदिग्ध है।<sup>१</sup> इसमें शूर्पणखा के आगमन से लेकर सीता की अग्नि परीक्षा तक की कथा का सात अंको में वर्णन मिलता है। इसकी विशेषता यह है कि राम तथा सीता के पास मृत्तियों से प्राप्त एक अँगूठी तथा चूडामणि है, जिनके प्रभाव से छद्मवेषी राक्षस राम अथवा सीता के स्पर्श से अपना वास्तविक रूप धारण कर लेते हैं। इससे नाटक का नाम आश्चर्यचूडामणि पडा है (अंक ३, छंद ८)।

राम का रूप धारण करने वाला रावण, लक्ष्मण का रूप धारण करने वाले अपने सारथि की सहायता से, सीता को हर लेता है। इतने में शूर्पणखा सीता के रूप में राम से बातचीत करती है तथा मारीच राम के रूप में लक्ष्मण से।

### अप्राप्य प्राचीन राम-सम्बन्धी नाटक

२३६. काव्यशास्त्र-विषयक ग्रन्थों के उद्धरणों से अनेक प्राचीन राम-कथा सम्बन्धी अप्राप्य नाटकों का पता चलता है। राघवानन्द, मायापुष्पक तथा स्वप्न-वसानन के लेखक अज्ञात हैं; इनकी रचना दशवीं शताब्दी के पूर्व ही हुई थी। श्रीरस्वामीकृत अभिनव-राघव (दसवीं श०) का उल्लेख हेमचन्द्र के शिष्यों द्वारा

१. सुशील कुमार दे. हिस्टरी ऑव काव्य लिटरेचर, पृ० ३०२।

हुआ है। रामचन्द्र (हेमचन्द्र के शिष्य) के दो नाटक अप्राप्त हैं, अर्थात् रघुविलास तथा राघवान्मुबय (१२वीं श०)।

कुछ अन्य अप्राप्य प्राचीन नाटकों के विषय में डॉ० राघवन् ने निम्नलिखित सामग्री एकत्र की है<sup>१</sup>:

(१) यशोवर्मन् का रामान्मुबय (८वीं श० पूर्वार्द्ध)<sup>२</sup>। इसका कथानक (छः अंक) शूर्पणखा विरूपीकरण से प्रारंभ होकर सीता की अग्नि-परीक्षा के बाद सुग्रीव तथा विभीषण के अयोध्या के लिए प्रस्थान करने पर समाप्त हो जाता है।

(२) रामानन्द का लेखक अज्ञात है। इसकी रचना मन् ९०० ई० के पूर्व हुई थी। कथावस्तु उत्तररामचरित से सम्बन्ध रखती है। शारदातनय एक अन्य रामानन्द नामक नाटक का उल्लेख करते हैं, जिसमें विभीषण का परिचय सीता-हरण के पूर्व ही मिलता है—

प्राग्वे सीताहरणाद् यद् विभीषणवर्णनम् (दे० भावप्रकाश ८)

(३) छलितराम (नवीं शताब्दी) का भी रचयिता अज्ञात है। कथानक रावण-वध के पश्चात् राम के अयोध्या में आगमन से प्रारंभ होकर उनके अश्वमेध-यज्ञ पर समाप्त हो जाता है। सीता-त्याग का कारण अयोध्या की जनता का अपवाद नहीं है; लवण दो राक्षसों को राम के पास भेज देता है, जो राम के अतरंग सखा बनकर उनको सीता के प्रति उसकाते है। लवण के इस छल-कपट से नाटक का नाम छलितराम ही रखा गया है।

लव-कुश-पुष्ट का वर्णन भी मौलिक है, लक्ष्मण लव को कंदी बनाकर उनको राम के दरबार में ले जाते है। लव अश्वमेध-मण्डप में सुवर्णमयी सीता को देखकर अपनी माता सीता को पहचानता है। इससे राम को पता चलता है कि सीता जीवित है।

(४) कृत्यारावण की रचना संभवतः नवीं श० पूर्वार्द्ध में हुई थी। अज्ञात लेखक ने सीताहरण से लेकर सीता की अग्नि-परीक्षा तक की कथा सात अंकों में प्रस्तुत की है। शीर्षक रावण की कृत्या (माया) की ओर निर्देश करता है। मायामृग के अतिरिक्त राक्षसी माया का परिचय हमें शूर्पणखा के विभिन्न रूपों से तथा सीता के सामने राम-वध के प्रदर्शन से मिलता है। कथानक का मुख्य परिवर्तन सीताहरण का एक नवीन रूप है, जिसमें सीता लक्ष्मण के प्रति कटु शब्दों का प्रयोग

१. डॉ० राघवन् की थीसिस भोजकृत शृंगारप्रकाश का द्वितीय भाग अप्रकाशित है। उनके सौजन्य से मुझे यह सामग्री प्राप्त हुई है।

२. दे० इ० हि० क्वा०, भाग ३०, पृ० ३७९-८१।

नहीं करती; धूर्पणखा ही सीता का रूप धारण कर लक्ष्मण की भर्त्सना करती है (वे० आगे अनु० ४९६)। छोटे अंक में दारुणिका राक्षसी को सीता का वध करने का आदेश दिया जाता है। दारुणिका सीता को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से उनके सामने एक मायामय राम का वध करवाती है। अपने स्वामी की हत्या देखकर सीता अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय करती है (इस निश्चय का समाचार राम को दिया जाता है, नाट्यदर्पण में, जो मीता-विपत्ति-ध्वज का उद्धरण मिलता है, वह इस प्रसंग की ओर निर्देश करता है)।

### जयदेवकृत प्रसन्नराघव

२३७. महादेव के पुत्र जयदेव ने १२वीं अथवा १३ वीं शताब्दी में प्रसन्न-राघव की रचना की थी, जिसमें सीता-स्वयंवर में लेकर राम के रावण-वध के बाद अयोध्या में प्रत्यागमन तक की कथा का सात अंकों में वर्णन किया गया है। इस रचना पर मुग़रि कृत अनर्घराघव का स्पष्ट प्रभाव पडा है। कथानक की दृष्टिकोण से इसमें निम्नलिखित विषयताएँ मिलती हैं :

सीतास्वयंवर में रावण तथा बाणामुर की उपस्थिति और धनुष-संधान करने के निष्फल प्रयत्न। उस अवसर पर रावण का सीताहरण करने का सकल्प प्रकट करना (अंक १)।

धनुर्भंग के पूर्व राम और सीता का मिथिला के चंडिकायतन में मिलना (अंक २)।

विविध नदियों (यमुना, गंगा, सरयू, गोदावरी) का मानवीकरण तथा उनका सागर के तट पर मिलकर अपने भूमिभाग से सम्बन्ध रखने वाली राम-कथा सुनाना (अंक ५)।

विद्याधर रत्नशेखर का विरह-व्याकुल राम को लका की घटनाएँ इन्द्रजाल द्वारा दिखलाना (अंक ६)।

### उल्लाधराघव

२३८. गुजरात के निवासी सोमेश्वर ने उल्लाधराघव की रचना १३वीं श० ई० पूर्वार्द्ध में की थी। इसकी अपूर्ण हस्तलिपि भण्डारकार दस्टिट्यूट (पूना) में सुरक्षित है, कैंटॉलॉग में इसका नाम रामायणनाटक रखा गया है। उल्लाधराघव में वाल्मीकीय बालकाण्ड के अन्त से लेकर युद्धकाण्ड के अन्त तक का कथानक आठ अंकों में प्रस्तुत किया गया है। प्रथम अंक में राम-सीता-विवाह के पश्चात् मिथिला से प्रस्थान का वर्णन किया गया है तथा इसके बाद कचुकी हरिदत्त परशुगाम के तेजो-भंग की कथा सुनाते हैं। एक अपवाद को छोड़कर वाल्मीकीय कथानक में कहीं भी परिवर्तन नहीं किया गया है, अन्तिम अंक के प्रारम्भ में राम की पुष्पक-यात्रा को

प्रस्तुत किया गया है। अनन्तर लवण का एक गुप्तचर मुनि का रूप धारण कर अयोध्या में यह समाचार फैलाता है कि रावण राम-लक्ष्मण का वध करने के बाद अयोध्या पर आक्रमण करने आ रहा है। सेना को बुलाया जाता है तथा कौशल्या और सुमित्रा अग्नि में प्रवेश करने की तैयारियाँ कर रही है। पुष्पक के पहुँचने पर भरत विभीषण पर बाण चलाना चाहते हैं किन्तु वसिष्ठ उनको रोकते हैं। यह प्रसंग उदात्तराघव के षष्ठ अंक का स्मरण दिलाता है (दे० ऊपर अनु० २३०) किन्तु उल्लाहराघव पर अनघंराघव का सर्वाधिक प्रभाव पडा है।<sup>१</sup>

### गौण राम-सम्बन्धी नाटक

हस्तिमल्ल कृत मैथिलीकल्याण तथा अजनापवनजय

२३९. जैन कवि हस्तिमल्ल ने १२९० ई० के लगभग सीता-विवाह-सम्बन्धी मैथिलीकल्याण की रचना की थी।<sup>१</sup> इस शृंगारत्मक नाटक के प्रथम चार अंकों में राम तथा सीता के पूर्वानुगम का वर्णन किया गया है। दोनों स्वयंवर के पूर्व मिथिला के कामदेवमंदिर में (अंक १) और माधवी वन में (अंक २) मिलते हैं; अनन्तर दोनों के विरह-वर्णन तथा चन्द्रकान्तधर-गृह में अभिसारिका सीता का भी चित्रण किया गया है (अंक ३-४)। अन्तिम अंक का वर्ण्य विषय घनुर्भग तथा राम-सीता-विवाह (अंक ५) है।

अजनापवनजय<sup>२</sup> विमलसूरि की राम-कथा पर निर्भर है। इसके सात अंकों में अजना-पवनजय के चरित्र का इस प्रकार वर्णन किया गया है—

अंक १. अजना के स्वयंवर की तैयारियाँ।

अंक २. स्वयंवर; पवनजय-अजना-विवाह; युद्ध के लिए पवनजय का प्रस्थान।

अंक ३. पवनजय का रात्रि के समय अजना से मिलना तथा प्रातः छिपकर युद्धक्षेत्र में लौट जाना।

अंक ४. गर्भवती अजना का अपने मायके महेन्द्रपुर भेजा जाना।

अंक ५. वरुण की पराजय के बाद पवनजय घर के रास्ते में अजना के विषय में सुनते हैं। वह तुरन्त ही महेन्द्रपुर के लिये प्रस्थान करते हैं।

१. दे० बी० जे० सांडेमरा। प्रॉसीडिंग्स ओरियेंटल कॉन्फ्रेंस ऑफ लखनऊ (प्रकाशित १९५६), भाग २, पृ० १०५-११२।

२. माणिक चन्द्र दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला न० ५।

३. माणिक चन्द्र दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला न० ४३।

पहुँचने के पूर्व पता चलता है कि अजना ने मायके न जाकर मातंग-मालिनी वन में प्रवेश किया है। पवनजय उसकी खोज करने आता है।

अंक ६. गधर्वराजा मणिचूड ने अजना के प्राण बचाकर उसको अपने राज्य में शरण दी है, जहाँ हनुमान् का जन्म हुआ है। पवनजय तथा अजना का मिलन।

अंक ७. पवनजय का घौवराज्याभिषेक तथा विजयार्थ पर्वत का राज्य उसको सौंपा जाना।

विमलमूरि के पउमचरिय में इस बात को पर्याप्त महत्त्व दिया गया है कि पवनजय अजना के साथ विवाह करने के पश्चात् २२ वर्ष तक उसके प्रति उदासीन ही रहा तथा युद्ध-क्षेत्र में अचानक इस प्रकार उसके प्रति आकर्षित हुआ कि रात के समय छिपकर अजना में मिलने आया था (दे० आगे अनु० ६६०)। हास्तिमल्ल ने इस अस्वाभाविक प्रसंग को छोड़कर तथा अजना के स्वयंवर का वर्णन करके (जिमका पउमचरिय में उल्लेख नहीं होता) मौलिकता का प्रदर्शन किया।

#### सुभट्टकृत दूतांगव

२४०. १३ वीं शताब्दी की डग रचना में सुभट्ट ने अगद के दूतत्व का प्रथम दो अंको में वर्णन किया है। अनन्तर रावण की पराजय के पश्चात् राम के विजयोत्सव का चित्रण किया गया है।

#### भास्करभट्टकृत उन्मत्तराघव

२४१. भास्करभट्ट (१४ वीं शताब्दी) के उन्मत्तराघव (निर्णयसागर प्रेम, बंबई सन् १९२५ ई०) नामक प्रेक्षणक में विक्रमांशुवीर्य के चतुर्थ अंक का स्पष्टतया अनुकरण किया गया है।

दुर्वासा के शाप में सीता के मृग रूप में बदल जाने पर राम का सर्वत्र सीता को ढूँढना तथा अगम्य की सहायता से उनको पुनः प्राप्त करना इस रचना का वर्ण्य विषय है।

#### विरुपाक्षकृत उन्मत्तराघव

२४२. भास्कर भट्ट की भाँति विरुपाक्षदेव ने १५वीं श० के प्रारंभ में एक उन्मत्तराघव नामक प्रेक्षणक लिखा है, उसमें भी विप्रलभ भृगुार प्रधान रस है (अडयार सन् १९४६ ई०)। सीताहरण का वर्णन बाल्मीकीय कथा के अनुसार है; किंतु कनकमृग मारने के बाद सीता को न पाकर राम उन्मत्त हो जाते हैं और



सकमण अकेले ही जाकर वानरों की सहायता से रावण को मार डालते हैं तथा सीता को राम के सामने उपस्थित करते हैं।

#### व्यासमिश्रदेव-कृत रामाम्युदय

२४३. व्यासमिश्रदेव ने १५ वीं शताब्दी पूर्वार्द्ध में रामाम्युदय की रचना की थी, जिसके दो अंको में लका का युद्ध, सीता की अग्निपरीक्षा, पुष्पक से अयोध्यागमन तथा राम का अभिषेक वर्णित है।

#### उत्तरकालीन नाटक

२४४. पन्द्रहवीं शताब्दी के पश्चात्, विशेष कर सत्रहवीं शताब्दी में, विस्तृत राम-कथा सम्बन्धी नाटक-साहित्य की सृष्टि हुई है। अधिकांश सामग्री अब तक अप्रकाशित है। (दे० मद्रास तथा तजूर संस्कृत कैटालॉग)।

ऐसा प्रतीत होता है कि इन नाटकों में अद्भुत रस को उत्तरोत्तर महत्त्व दिया गया है। उदाहरणार्थ यहाँ दो रचनाओं का उल्लेख किया जाता है।

निर्णयसागर से प्रकाशित सत्रहवीं शताब्दी के दक्षिणनिवासी महादेवकृत अद्भुतवर्षण में राम को एक ऐंद्रजालिक दर्पण द्वारा लका की घटनाएँ दिखलाई जाती हैं।

उसी काल के जानकी-परिणय में (जिसकी रचना दक्षिणनिवासी रामभद्र दीक्षित द्वारा हुई थी) इतने पात्र एक दूसरे का रूप धारण कर लेते हैं कि समस्त नाटक हास्यप्रधान बन गया है। सीता का हरण करने के उद्देश्य से विराध राम का रूप धारण कर लेता है तथा शूर्पणखा राम को रोकने के उद्देश्य से सीता का रूप धारण करती है। दोनों आश्रम के पास पहुँच कर एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं और फलस्वरूप विराध शूर्पणखा को ले जाता है। इस प्रकार के और अनेक वृत्तान्त मिलते हैं। अन्त में छद्मवेशी शूर्पणखा राम-वध का झूठा समाचार लेकर हनुमान् के पूर्व ही अयोध्या में पहुँच जाती है तथा भरत और शत्रुघ्न को आत्महत्या के लिए प्रेरित करती है।

#### ग—स्फुट काव्य

##### श्लेषकाव्य

२४५. (१) संस्कृत साहित्य का प्रथम विस्तृत श्लेषकाव्य राम-कथा से सम्बन्ध रखता है। संघ्याकर नन्द ने बारहवीं शताब्दी के प्रारंभ में रामचरित की रचना की थी। इसके २२० आर्याछन्दों में समस्त राम-कथा की प्रधान घटनाओं का वर्णन श्लेषात्मक शब्दों में किया गया है, जिससे साध-साध बंगीय राजा रामपाल

का चरित्र भी वर्णित है। इसमें वाल्मीकि रामायण के कथानक से कोई भिन्नता नहीं है। इस रचना के अतिरिक्त निम्नलिखित राम सबंधी श्लेषकाव्यों का उल्लेख मिलता है।

(२) दिगम्बर जैन धनजयकृत राघवपाण्डवीय (बारहवीं श० पूर्वाह्न), जिसके १८ सर्गों में रामायण तथा महाभारत की कथा का वर्णन किया गया है।

(३) कविराज माधव भट्ट-कृत राघवपाण्डवीय (१२वीं शताब्दी उत्तरार्ध) जिसके १३ सर्गों में रामायण तथा महाभारत की कथा वर्णित है।

(४) हृग्दन सूरि-कृत राघवर्षधोय, जिसमें राम तथा नल का चरित्रवर्णन मिलता है।

(५) चिदंबर कृत राघवपाण्डव्यादवीय (१६०० ई० के लगभग), जिसमें रामायण, महाभारत तथा भागवतपुराण की कथा का माथ-माथ वर्णन किया गया है।

(६) गगाधर महाकव-कृत संकटनाशनस्तोत्र (१८वीं श०), जो राम तथा कृष्ण से सम्बन्ध रखता है।

### नीति-काव्य

२४६. राम कथि कृत सत्रीति रामायण १५वीं श० का है। प्रत्येक श्लोक का पूर्वाह्न नीति-वाक्य है, उत्तरार्द्ध राम-कथा विषयक है। इस प्रकार सात काण्डों में समस्त राम-कथा प्रस्तुत की गई है। (दे० जनैल त्रावाकुर मुनिवसिटी ओरिगिण्टल मैनुस्क्रिप्ट लाइब्रेरी, भाग ७, अंक १-२)

एक उदाहरण इस प्रकार है

धर्मर्षिसाधक कुर्यात् ध्यापारं स्वकुलोचितम् ।

इक्ष्वाकुवंशजोऽरक्षत् क्षीणी दशरथोऽल्लिलात् ॥

### विलोम-काव्य

२४७. (१) सूर्यदेवकृत रामकृष्णविलोमकाव्य (सन् १५४० लगभग)। इसके ३६ छंदों में अक्षरों का स्वाभाविक क्रम राम से सबंध रखता है तथा विपरीत क्रम (वाहिनं मे बाणं) कृष्ण से।

(२) वेकटध्वारिन्-कृत यादवराघवीय (१७वीं श० पूर्वाह्न)। इसके ३०० छंदों में अक्षरों के स्वाभाविक क्रम से राम-कथा तथा विपरीत क्रम से कृष्ण-कथा का वर्णन किया गया है। (दे० मद्रास कैंटालॉग न० डी ११८९१)।

(३) राघवयादवीय। इसका विस्तार ६४ छंदों का है तथा कथावस्तु उपर्युक्त यादवराघवीय के समान है। (दे० मद्रास कैंटालॉग न० डी ७९५८ तथा इन्डिया ऑफिस कैंटालॉग न० ७१३३)।

## चित्रकाव्य

२४८. (१) कृष्णमोहनकृत रामलीलामृत के १२० छंदों में विस्वामित्र-आगमन से लेकर रावण-वध तक की राम-कथा का वर्णन किया गया है। इस अपेक्षा-कृत आधुनिक काव्य में सम्बन्ध, पद्यबन्ध, मोपान, गोमूत्र आदि चित्रालंकारों का व्यापक प्रयोग मिलता है। (दे० हरप्रसाद शास्त्रीकृत संस्कृत कंठालांग भाग १, न० ३१७)।

(२) आंध्रदेश निवामी वेकटेशकृत चित्रबंधरामायण का भी उल्लेख मिलता है। ६ सर्गों में विभक्त इसका विस्तार ६२० छंद है। (दे० तजूर कंठालांग न० ३७७२)।

## शृंगारिक खंडकाव्य

२४९. राम मन्वन्धी शृंगारिक खंडकाव्य की सृष्टि विगंथकर मेघदूत तथा गीतगोविन्द के अनुकरण पर हुई है।

मेघदूत के अनुकरण पर रचिन निम्नलिखित ग्रंथों का उल्लेख मिलता है।

(१) हंससंदेश अथवा हंसदूत—इसके रचयिता के कई नाम पाए जाते हैं: वेकटदेशिक, वेकटनाथ, वेदातचार्य और श्री वेदान्तदेशिक। उन्होंने १३वीं श० ई० में हंसदेश को लिखकर राम-काव्य के एक नवीन रूप का प्रवर्तन किया। इसमें हंस द्वारा सीता के पास लाये हुए राम-संदेश का वर्णन किया गया है।

(२) भ्रमरदूत—नैयायिक रुद्र वाचस्पति की २८८ छंदों की इस रचना में राम द्वारा सीता के पास भ्रमर को भेजने का वर्णन किया गया है।

(३) कपिदूत—इसमें हनुमान को भेजा जाता है (दे० ढाका युनिवर्सिटी मैनुस्क्रिप्ट, न० ९७५ बी)।

(४) कोकिलसंदेश—वेकटाचार्य-कृत ३०० छंदों की १७ वीं श० की रचना (दे० तजूर कंठालांग न० ३८६२)।

(५) चंद्रदूत—कृष्णचंद्र तकालिकार की रचना (दे० हरप्रसाद शास्त्री नोटिस, भाग २, पृ० १५३)।

२५०. गीतगोविन्द के अनुकरण पर भी बहुत से राम-सीता-विषयक काव्यों की रचना हुई है। उदाहरणार्थ—(१) रामगीत-गोविन्द (वेकटेश्वर प्रेस)। यह काव्य भूल से जयदेवकृत माना जाता है। इसमें गीतगोविन्द का स्पष्टतया

अनुकरण किया गया :

यदि हरिस्मरणे सरसं मनो यदि विलासकलासु कुतूहलम् ।

मधुरकोमलकान्तपदावलीं शृणु तदा जयदेवसरस्वतीम् ॥ ३ ॥

(गीतगोविन्द, सर्ग १)

यदि रामपदाम्बुजे रतियेदि वा काव्यकलासु कौतुकम् ।

पठनीर्यामिबं तदौजसा रुचिरं श्रौजयदेवनिर्मितम् ॥ ४ ॥

(रामगीतगोविन्द सर्ग १)

प्रस्तुत रचना के छः सर्गों (२४ गीत) में विष्णु-अवतार राम के जन्म से लेकर रावण-वध के पश्चात् अयोध्या में राम के अभियेक तक समस्त राम-कथा को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। गीतगोविन्द का अनुकरण होसे हुए भी सीता के सौन्दर्य का वर्णन नहीं हुआ, शृगागत्मक स्थल अत्यन्त मर्यादित है तथा समस्त काव्य शुद्ध राम-भक्ति से ओतप्रोत है। कथानक की निम्नलिखित विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं :

—जन्म के पश्चात् राम का अपना विष्णु-रूप दिखलाना ।

—मिथिला में ही परशुराम का तेजोभंग ।

—कैकेयी के दशरथ-रथ का भग्न अक्ष सँभालने का उल्लेख ।

—कई स्थलों पर रामचरितमानस का सादृश्य । विवाह में देवता लोग उपस्थित हैं तथा जनक राम के चरण धोते हैं, जयन्त सीता के पैर पर चोंच मारता है : शक्रमूनुरगमत् खगाकृतिः ॥२॥ विवदार पदांगुष्ठम् (सर्ग ४) ; पपासर के तट पर नागद-राम-सवाद ।

(२) गीतराघव के नाम से दो रचनारण प्रचलित हैं, एक हरिश्चकरकृत तथा अन्य प्रभाकरकृत । (दे० हरप्रसाद शास्त्री, नोटिसस भाग २, पृ० ४३) ।

(३) जानकीगीता । श्रीहृष्याचार्य-कृत । हरिनाथ कृत एक राम-विलास नामक रचना का उल्लेख मिलता है, जो सम्भवतः जानकीगीता से अभिन्न हो ।

(४) संगीतरघुनंदन । इस १८वीं श० की विश्वनाथ सिंह की रचना में गीतगोविन्द के अनुकरण के साथ-साथ सीता-राम के युग्मभक्ति का भी प्रतिपादन किया गया है । इसमें रामचन्द्र के गृहगम (सर्ग २), बसन्त राम (सर्ग ३) आदि का भी वर्णन मिलता है । (दे० हृप्रसाद शास्त्री नोटिसस, भाग ३, न० ३२४) ।

अन्य स्फुट काव्य

२५१. उपर्युक्त रचनाओं के अतिरिक्त साहित्यदर्पण के रचयिता विश्वनाथ कृत राघवविलास, सोमेश्वरकृत रामशतक, मुद्गलभट्ट कृत रामार्याशतक,

१. दे० मोनियेर विलियम्स: इंडियन विजडम, पृ० ३६८ ।

कृष्णेंद्रकृत आर्षारामायण आदि का उल्लेख भी मिलता है, जिनमें राम-कथा के दृष्टिकोण से नई सामग्री नहीं मिलती, लेकिन जिनसे राम-कथा की लोकप्रियता तथा समस्त काव्य में व्यापकता का प्रमाण मिलता है।

### घ—कथा-साहित्य

२५२. दशकुमारचरित, वासवदत्ता, हर्षचरित, कादम्बरी आदि की आख्यायिका-शैली में किसी विस्तृत राम-सम्बन्धी रचना की सृष्टि नहीं हो पाई है। कारण यह होगा कि इस शैली की रचनाओं का कथानक कल्पित माना जाता था। फिर भी कथा-साहित्य की सबसे प्राचीन रचना, गुणाढ्यकृत बृहत्कथा में (जिसकी रचना संभवतः प्रथम श० ई० पूर्व<sup>१</sup> हुई थी) राम-कथा भी वर्णित थी, ऐसा अनुमान किया जा सकता है। इस अनुमान का आधार यह है कि बृहत्कथा के जो दो विस्तृत रूपान्तर मिलते हैं, इनमें राम-कथा भी सम्मिलित की गई है, अर्थात् जैनियों का वसुदेवहिण्डि (पाँचवीं श० ई० अथवा इसके पूर्व) तथा सोमदेवकृत कबासरित्सागर। गुणाढ्य की रचना का संक्षेप क्षेमेन्द्र तथा बुधस्वामी द्वारा भी किया गया है। बुधस्वामी के बृहत्कथाप्रलोक-संग्रह (लगभग ८०० ई०) में राम-कथा नहीं मिलती, लेकिन क्षेमेन्द्र की बृहत्कथा-मंजरी में राम-कथा अति संक्षिप्त रूप में वर्णित है।

२५३. वसुदेवहिण्डि (वसुदेव-ध्रमण) अथवा वसुदेवचरिय में सघदास ने जैन महाराष्ट्री गद्य में बृहत्कथा का जैनी रूप प्रस्तुत किया है। इसमें जो संक्षिप्त राम-कथा मिलती है, वह जैनी राम-कथा से प्रभावित होते हुए भी वास्तव में गौण परिवर्तनों के साथ वाल्मीकीय कथा ही है। राम-कथा के विकास की दृष्टि से वसुदेवहिण्डि की राम-कथा इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि इसमें पहले-पहल सीता का जन्म लंका में माना गया है।

कथानक रावण की अत्यन्त संक्षिप्त कथा से प्रारंभ होता है—वशावली (जो कूर्म पुराण से सबंध रखती है); लंका में प्रवास; मन्दोदरी से विवाह। अनन्तर दशरथ तथा उनकी सतति का उल्लेख हुआ—कौशल्या के पुत्र राम, सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण तथा कँकेयी के पुत्र भरत तथा शत्रुघ्न। इसके बाद मन्दोदरी तथा रावण

१. दे० एल० ऐल्सवॉर्क। प्राच्य विद्या का १९वाँ अन्तर्राष्ट्रीय अधिवेशन, पृ० ३४६।

२. दे० जैन आत्मानन्द सभा (भावनगर) का संस्करण; भाग २, पृ० २४०-२४६ और वी० एम० कुलकर्णी, दि रामायण वसियन औव संघदास; ज० अ० ई०, भाग २, पृ० १२८-१३८।

की पुत्री सीता की जन्म-कथा का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार परित्यक्ता बालिका जनक की बसक पुत्री बन जाती है (दे० अनु० ४१२)। सीता स्वयंवर में किसी धनुष की चर्चा नहीं है; बहुत से राजाओं में से सीता राम को चुनती है; अन्य भाइयों के विवाह का भी संकेत मिलता है। राम के १२ वर्ष के निर्वासन के वर्णन में मंथरा तथा कंकैयी के दो बरों का उल्लेख है (दे० अनु० ४४७)। भरत दशरथ-मरण के बाद अयोध्या पहुँच कर राम के पास जाते हैं। उसी अवसर पर कंकैयी पश्चात्ताप करते हुए राम से राज्य स्वीकार करने का निवेदन करती है। शूर्पणखा का विकृपीकरण, भारीच का कनक-मृग बनना, सीताहरण, जटायु-रावण-युद्ध, सुग्रीव से मैत्री, बालिवध, हनुमान् का सीता का पता लगाना, सेनुबध, विभीषण की शरणागति, रावण-बध के बाद विमानों पर अयोध्या का प्रत्यागमन यह सब वाल्मीकि की कथा के अनुसार ही वर्णित है। जैनी राम-कथा का प्रभाव इसमें परिलक्षित है कि लक्ष्मण ही रावण का बध करते हैं तथा उसी अवसर पर देवताओं द्वारा आठवें वासुदेव घोषित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त सधदाम विमलगृह के अनुसार वानरों और राक्षसों को विद्याधर की पत्नी देते हैं, भरत तथा शत्रुघ्न को महोदर भाई मानते हैं तथा कंकैयी के पश्चात्ताप का उल्लेख करते हैं।

सीतान्त के नवीन रूप के अतिरिक्त दो अन्य स्थलों पर सधदाम का वृत्तान्त मौलिक प्रतीत होता है—सुग्रीव का निमंत्रण स्वीकार कर भरत की सेना युद्ध में भाग लेती है (दे० आगे अनु० ५६७); कंकैयी के दो बरों के लिये दो भिन्न अवसरों की कल्पना कर ली गई है (दे० अनु० ४४७)।

परवर्ती जैन राम-साहित्य पर संघदास का प्रभाव पड़ा है क्योंकि गुणभद्र के उत्तरपुराण में रावण की वंशावली तथा सीता की जन्म-कथा बहुत कुछ वसुदेव-हिण्ड की राम-कथा के अनुसार है।

२५४. सोमदेव ने ग्यारहवीं शताब्दी में कथासरित्सागर की रचना की थी। इसमें दो स्थलों पर राम-कथा का वर्णन किया गया है। चौदहवीं लंबक की तरंग १०७ के अन्तर्गत वनवास से लेकर रावणबध के बाद रामकी अयोध्या-यात्रा तक की अत्यन्त संक्षिप्त कथा मिलती है (१२-२६)। इसमें वाल्मीकीय कथानक में कोई भिन्नता नहीं पाई जाती है, लेकिन कथासरित्सागर की अन्य राम-कथा में इसका एक सर्वथा नवीन रूप प्रस्तुत किया गया है। अलकारवती लंबक में काचनप्रभा नामक विद्याधरी शिरहृष्याकुल नरवाहन को सान्त्वना देने के उद्देश्य से राम-कथा का वर्णन करती है (दे० निर्णयसागर प्रेस सम्करण ९, ५१, ५८-११२)।

प्रारंभ में विष्णु के अष्टावतार राम के निर्वासन, सीताहरण तथा रावणवध का अत्यन्त संक्षिप्त वर्णन है (दे० ५९-६५)। अनन्तर धोबी-वृत्तान्त से मिलती-जुलती सीता-त्याग की कथा दी गयी है (६६-७१), जिसका वर्णन निबन्ध के बीसवें अध्याय में किया जायेगा (दे० अनु० ७१९)।

शेष वृत्तान्त की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं :

- वाल्मीकि के आश्रम में सीता की परीक्षा, जिसमें पृथ्वी देवी प्रकट होकर सीता को टिटिटभसर के उस पार पहुँचाती हैं (दे० आगे अनु० ६०१)।
- लव के जन्म के बाद कुश के अलौकिक जन्म की कथा (दे० आगे अनु० ७४३)।
- लव और कुश का राम-सेना से युद्ध (दे० आगे अनु० ७४७)।
- राम तथा सीता का सम्मिलन, जिसके कारण यह राम-कथा सुखान्त है। (दे० आगे अनु० ७५४, ७५६)।

२५५. राम-कथा को लेकर पंद्रहवीं शताब्दी के बाद एक विस्तृत चम्पू-साहित्य की सृष्टि की गई है, जिसकी अधिकांश सामग्री अप्रकाशित है। सबसे प्राचीन तथा सबसे प्रचलित राम-सम्बन्धी चम्पू की रचना म्यारहवीं शताब्दी में विदर्भ राजा भोज द्वारा हुई थी। इस चम्पूरामायण का आधार वाल्मीकि रामायण का दक्षिणात्य पाठ है और इसमें कहीं भी कथानक के दृष्टिकोण से परिवर्तन नहीं किया गया है। इसके केवल पाँच कांड भोजकृत हैं, लक्ष्मण भट्ट ने युद्धकांड रचकर इस ग्रंथ को समाप्त किया था। कालिदास के रघुवश का भी उस रचना पर प्रभाव पड़ा है।

बाद में उत्तरकांड की कथावस्तु को लेकर भी बहुत से उत्तरकांडचम्पू, उत्तर-रामायणचम्पू आदि ग्रंथों की रचना की गई है।

२५६. वासुदेव ने सत्रहवीं शताब्दी ई० उत्तरार्द्ध में राम-कथा को लिखकर वाल्मीकिरामायण के प्रथम ६ कांडों की कथा संक्षिप्त रूप से गद्य में लिखी थी। इसमें महाभारत के रामोपाख्यान के अनुसार मथरा एक दुंदुभी नामक गधर्वी का अवतार है। कथानक वाल्मीकीय कथा से भिन्न नहीं है, लेकिन उसमें अहल्या के वास्तव में पत्थर बन जाने का उल्लेख किया गया है। पिटर्सन की संस्कृत हस्तलिपियों की सूची में एक अन्य राम-कथा संबंधी गद्य रचना का नाम मिलता है अर्थात् अनन्तभट्ट कृत रामकल्पद्रुम।

## आधुनिक भारतीय भाषाओं में राम-कथा

क—द्राविड़ भाषाओं के साहित्य में राम-कथा

तमिल रामायण

२५७. द्राविड़ भाषाओं का राम-कथा-सम्बन्धी सबसे प्राचीन काव्यग्रथ कबरकृत रामायण है, जिसकी रचना बारहवीं शताब्दी ई० में हुई थी<sup>१</sup>। इसमें वाल्मीकि-कृत रामायण के प्रथम छ काव्यों की समस्त कथावस्तु स्वतंत्र रूप से वर्णित है और अनेक नये वृत्तान्त भी जोड़े गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि कबर के पूर्व ओट्टककूतन ने तमिल भाषा में रामायण लिखा था, लेकिन कबर की रचना सुनकर वे अपना काव्य नष्ट करने लगे। यह सुनकर कबर उनके पास गये लेकिन वे उत्तरकांड ही बचा सके। इस विषय में इतना ही निश्चित है कि तमिल रामायण का उत्तरकांड कबरकृत नहीं है। इसकी रचना बाद में ओट्टककूतन द्वारा हुई थी<sup>२</sup>। तमिल उत्तरकांड में राम धोवी के कथन के कारण सीता का परित्याग करते हैं, शेष कथानक प्रचलित वाल्मीकि रामायण के अनुसार है।

कबर की रचना के मंगलाचरण आदि से ज्ञात होता है कि वह शैव थे<sup>३</sup>। उन्होंने अपने काव्य के प्रारम्भ में कहा है कि मैं वाल्मीकि तथा दो अन्य कवियों के आधार पर लिख रहा हूँ। इन दोनों में से एक सम्स्कृत कवि कुमारदास प्रतीत होते हैं क्योंकि अनेक वाल्मीकीय रामायण से भिन्न वृत्तान्त जानकीहरण (८वीं शताब्दी ई०) तथा तमिल रामायण दोनों में मिलते हैं।

कबर वाल्मीकि रामायण के दक्षिणात्य पाठ से परिचित थे; यह निम्नलिखित प्रसंगों में स्पष्ट है

१. एस० वेंगपुरी पिल्लै का कहना है कि सातवीं श० ई० में वाल्मीकि रामायण का तमिल में पद्यात्मक अनुवाद हुआ था। यह अनुवाद अप्राप्य है (दे० हिस्ट्री ऑफ तमिल लैंग्विज एण्ड लिटरेचर, मद्रास, १९५६, पृ० १०३)।
२. बी० एम० गोपाल कृष्णाचारियर : कंब-रामायण बालकांड, पृ० ९।
३. एम्० एस्० पूर्णलिंग पिल्ले : तमिल लिटरेचर, पृ० २२३।



समुद्रमंथन के समय विष्णु का मोहिनी-रूप धारण करना (१, ९ और अनु० ३३२); अयोमुखी का वृत्तान्त (३, १० और अनु० ४५६); लक्ष्मण-सारा-संवाद (४, १० और अनु० ५१०); द्रुमकुल्य का विनाश (६, ६ और अनु० ५७४, २); सुग्रीव-रावण का द्वन्द्व युद्ध (६, ९ और अनु० ५८४); वानरियों की अयोध्या-यात्रा (६, ३७ और अनु० ६०६)। रणभूमि में कुम्भकर्ण-विभीषण-संवाद (६, १५) का प्रसंग संभवतः पश्चिमोत्तरीय पाठ के आधार पर लिखा गया है, किन्तु यह प्रसंग अध्यात्म रामायण, रगनाथ रामायण आदि में भी विद्यमान है अतः कम्बर का आधार निश्चित करना असंभव है।

कथानक के दृष्टिकोण से कम्बर-रामायण के निम्नलिखित प्रसंग विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

(१) राम-लक्ष्मण के विद्वामित्र के साथ मिथिला में प्रवेश का स्वतंत्र वर्णन किया गया है। मिथिला नगर के विस्तृत वर्णन के पश्चात् राम और सीता के एक-दूसरे को देखने का तथा फलस्वरूप रात में दोनों के विरह का भी चित्रण किया गया है (बालकाण्ड, सर्ग १०)। इसके बाद जनक द्वारा राम का स्वागत तथा सीता-स्वयंवर वर्णित है (सर्ग १२)। यह प्रसंग बहुत कुछ जानकीहरण के वृत्तान्त से मिलता-जुलता है (दे० अनु० ४०३)।

(२) कम्बर के बालकाण्ड में दशरथ की मिथिला-यात्रा का पाँच सर्गों में वर्णन किया गया है। दशरथ के साथ सेना, अन्तःपुर की रमणियाँ आदि भी हैं। उनके विलास का विस्तृत चित्रण किया गया है—गुप्पचयन, जलक्रीड़ा, आपानकेलि आदि। जानकीहरण में भी दशरथ का अपनी पत्नियों के साथ विहार विस्तारपूर्वक वर्णित है।

(३) सीताहरण के वृत्तान्त में रावण सीता को स्पर्श करने के भय से पृथ्वी खोदकर भूमिभाग के साथ-साथ उन्हें ले जाता है (अरण्य काण्ड, सर्ग ८)।

(४) युद्धकाण्ड में नारायणावतार राम से युद्ध न करने का अनुरोध करते हुए विभीषण रावण को नृसिंहावतार की कथा सुनाता है। किसी भी अन्य राम-कथा में ऐसा वर्णन नहीं मिलता (सर्ग ३)।

(५) महोदर की आज्ञा से मरुत नामक एक राक्षस जनक का रूप धारण कर लेता है और रावण को पतिस्वरूप स्वीकार करने का सीता से अनुरोध करता है। इस मायाजनक व्यस्तिक का अन्यत्र उल्लेख नहीं है (सर्ग १६)।

(६) सेतुबन्ध तथा जानकीहरण के अनुकरण पर युद्ध के पूर्व राक्षस-राक्षसियों का संभोग भी वर्णित है (सर्ग २४)।

कम्ब-रामायण की कथावस्तु के और बहुत से स्थलों पर वाल्मीकि रामायण से भिन्नता<sup>१</sup> पाई जाती है। उदाहरणार्थ—इन्द्र का विटाल का रूप धारण करना (अनु० ३४५); इन्द्र तथा अहल्या के प्रति गौतम का शाप (अनु० ३४६); मधरा के वैर का कारण (अनु० ४५४), निद्रादेवी का मानवीकरण (अनु० ४६१); शरभग-मोक्ष की कथा (अनु० ४५९), हनुमान के आभूषणों का उल्लेख (अनु० ५१२); लक्ष्मण द्वारा दुषुभि का अस्थिककाल का प्रक्षेपण (अनु० ५१७), राम (अनु० ५२५) तथा सीता (अनु० ५५०) द्वारा प्रदत्त अतिज्ञान; स्वयंप्रभा (अनु० ५२६) तथा सम्पाति (अनु० ५२७) की कथा, विभीषण की पुत्री के रूप में त्रिजटा का उल्लेख (अनु० ५४७); मन्दोदरी का महगमन (अनु० ५४४); लक्ष्मण मात्र का नागपाश (अनु० ५८६) तथा ब्रह्मास्त्र (अनु० ५८७) द्वारा पराजित होना; मायासीता-वध के पश्चात् विभीषण का मधुमक्खी का रूप धारण कर लका में प्रवेश करना (दे० अनु० ५९१), कुम्भकर्ण-वध (अनु० ५८९) तथा इन्द्रजित्-वध (अनु० ५९३) के वर्णन में मौलिकता, भरत द्वारा आत्महत्या-विचार (अनु० ६०९)।

### तेलुगु रामायण

#### (अ) द्विपद रामायण

२५८. तेलुगु रामायण का प्राचीनतम राम-कथा-विषयक ग्रंथ द्विपद रामायण है, जिसकी रचना १३वीं शताब्दी के प्रारंभ से रगनाथ द्वारा हुई थी। इसके रचयिता के विषय में मतभेद है, क्योंकि रगनाथ कवि कौनबुद्धा राजु के आश्रित थे और उनकी रचना का श्रेय उनके आश्रयदाता कौनबुद्धा राजु को दिया गया है। फिर भी यह रगनाथ रामायण के नाम से प्रसिद्ध है।

लोकप्रिय द्विपद नामक छन्द तथा सरल भाषा के कारण इस रामायण का तेलुगु जनसाधारण में बहुत प्रचार है, यद्यपि मौलिकृत रामायण इससे अधिक प्रचलित है। द्विपद रामायण के छ. काण्डों में वाल्मीकि रामायण के प्रथम छ. काण्डों की कथावस्तु का वर्णन किया गया है। इसका प्रधान आधार वाल्मीकि रामायण का दाक्षिणात्य पाठ है। राम की जन्मतिथि का उल्लेख, बालकाण्ड की पीराणिक कथाएँ; कँकेयी के अपने पति द्वारा अरमागिन किए जाने की कथा; अकपन, अयोमुखी तथा लका-देवी के वृत्तान्त, रावण-सुग्रीव-युद्ध, अणस्व्य द्वारा राम को सूर्यस्तव-प्रदान, ये समस्त प्रसंग जो केवल दाक्षिणात्य पाठ में मिलते हैं, रगनाथ रामायण में विद्यमान हैं (दे०

१. गीण परिवर्तनों के लिये पाठक अनु० ३९५, ४३३, ४३४, ४६४ और ५१५ भी देख लें।

अनु० २६) । समुद्र-लंघन के वृत्तान्त में मैनाक, सुरसा और सिंहिका का क्रम (दे० अनु० ५३१) तथा रावण की द्वितीय सभा का वर्णन (दे० अनु० ५५७) दक्षिणार्थ के अनुसार ही है ।

फिर भी वाल्मीकि रामायण के अन्य पाठों की निम्नलिखित सामग्री रंगनाथ रामायण में विद्यमान है ।

**उषीष्य पाठ**—यज्ञदत्त का नाम (दे० अनु० ४३०) ; दशरथ-सागर की मैत्री का वर्णन, रावण-मन्दोदरी-संवाद, नारद-कुम्भकर्ण-संवाद और कालनेमि-वृत्तान्त (दे० अनु० ५५८) ।

**पश्चिमोत्तरीय पाठ**—कैकेयी के विद्यावल प्राप्त करने की कथा (दे० अनु० ४३०) ; नारद-वाक्य, कुम्भकर्ण-वाक्य और मन्दोदरी के केश-ग्रहण का वृत्तान्त (दे० अनु० ५६०) ।

**गौडीय पाठ**—भरत-हनुमान-संवाद (दे० ५५९) ।

इसके अतिरिक्त द्विपद रामायण के कुछ प्रसंग वाल्मीकि रामायण के किसी भी पाठ में नहीं मिलते; उदाहरणार्थ :

- (१) इन्द्र ने गौतम की तपस्या में विघ्न डालने के उद्देश्य से अहल्या का सतीत्व नष्ट किया था (दे० अनु० ३४५) ।
- (२) सीता-स्वयंवर के अवसर पर जनक कहते हैं कि यज्ञ के लिए हल चलाते समय मैंने सीता को एक मजूषा में पाया था<sup>१</sup> ।
- (३) मंथरा के वर के कारण (दे० अनु० ४५४) ।
- (४) लक्ष्मण के जागरण के वृत्तान्त में निद्रादेवी का मानवीकरण (दे० अनु० ४६१) ।
- (५) शूर्पणखा के पुत्र जम्बुमालि की कथा (दे० अनु० ६३२) ।
- (६) राम की सहायता करने जाने के पूर्व लक्ष्मण द्वारा कुटी के चारों ओर सात रेखाएँ खींची जाने का वृत्तान्त (दे० अनु० ४९८) ।
- (७) हनुमान के आभूषणों का उल्लेख (दे० अनु० ५१२) ।
- (८) समुद्रमंथन के समय वालि-सुग्रीव द्वारा देवताओं की सहायता तथा तारा की उत्पत्ति (दे० अनु० ५१५) ।

१. दे० बालकाण्ड, अध्याय ३२ । प्रस्तुत ग्रन्थ के समस्त संदर्भ बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् द्वारा प्रकाशित रंगनाथ रामायण के हिन्दी अनुवाद के अनुसार दिये गये हैं ।

- (९) नल द्वारा वर-प्राप्ति (दे० अनु० ५७५) तथा हनुमान से उसका संघर्ष (दे० अनु० ५७६) ।
- (१०) सेतु-निर्माण में गिलहरी की सहायता (दे० अनु० ५७७) ।
- (११) रावण के छत्र-चामरों पर वाण चलाने का वृत्तान्त (दे० अनु० ५८४) ।
- (१२) सुलोचना के सहगमन की कथा (अनु० ५९४) ।
- (१३) रावण की नाभि में अमृत की स्थिति (दे० अनु० ५९८) ।
- (१४) अयोध्या की वापसी यात्रा में शिवप्रतिष्ठा (दे० अनु० ५८०) ।
- (१५) सेतु-भंग का वृत्तान्त (दे० अनु० ६०७) ।
- (१६) हनुमान् का राम के पत्तल में भोजन करना (अनु० ७०७) ।

### (भा) अन्य रामायण

२५९. रगनाथ रामायण में उत्तरकांड की कथावस्तु का अभाव है। अतः बुद्धराजु के पुत्रों, काचविभुद्रु तथा विट्ठलराजु ने द्विपद छन्द में उत्तररामायण की रचना करके प्रचलित रामायण की कथा पूरी की थी<sup>१</sup>। तेरहवीं शताब्दी के बाद तिब्बत याग्वीकृत उत्तरकांड सबधी निर्बंधनोत्तर रामायण (१३वीं श०) तथा ककटि पापराजु (१८वीं श०) के उत्तररामायण नामक चम्पू का भी उल्लेख मिलता है।

२६०. चौदहवीं शताब्दी का भास्कर रामायण सबसे अधिक कलात्मक तथा साहित्यिक माना जाता है। यह बाल्मीकि रामायण का संस्कृत-गर्भित तेलुगु में स्वतन्त्र अनुवाद है। भास्कर के अतिरिक्त उनके पुत्र, मित्र, शिष्य आदि अनेक व्यक्तियों ने इस रामायण के कुछ अंश लिखे हैं।

२६१. तेलुगु जनसाधारण का सबसे लोकप्रिय रामायण मोल्ल रामायण है, जिसकी रचना लगभग १६०० ई० में एक मोल्ल नामक कुम्हारिन कुमारी द्वारा हुई थी। यह बहुत संक्षिप्त है और बाल्मीकि रामायण के कथानक से भिन्न नहीं प्रतीत होता है।

२६२. सत्रहवीं श० ई० में कट्ट वरदराजु ने एक विस्तृत द्विपद रामायण की रचना की है; सम्पादक का कहना है कि कट्ट वरदराजु प्रायः बाल्मीकीय कथा ही प्रस्तुत करते हैं (दे० श्री रामायणम् ऑफ कट्ट वरदराजु, मद्रास युनिवर्सिटी, १९५०, भूमिका)। एक ही परिवर्तन का उदाहरण दिया जाता है—पाषाणभूता बहल्ला का उद्धार।

१. पी० बेंचिया : ए० हिस्ट्री ऑफ तेलुगु लिटरेचर।

२६३. अठारहवीं शताब्दी का गोपीनाथ रामायण, जो चम्पू शैली में लिखा गया है, इस बात का प्रमाण है कि आगे चलकर भी राम-कथा तेलुगु कवियों का प्रिय विषय रहा है।

### मलयालम रामायण

२६४. यद्यपि मलयालम साहित्य की प्राचीनतम रचना रामचरित से सम्बंध रखती है, किन्तु मलयाली कवियों ने राम-कथा के वर्णन में किसी मौलिकता का प्रदर्शन नहीं किया है। १७ वीं शताब्दी तक निम्नलिखित राम-सम्बन्धी रचनाओं का उल्लेख मिलता है।

**रामचरितम्:** दक्षिण तिरुवांकुर की एक सुसंस्कृत उपभाषा में लिखने वाले राम नामक कवि ने चौदहवीं शताब्दी में रामचरितम् की रचना की थी, जो मलयालम साहित्य का प्राचीनतम सुरक्षित ग्रन्थ है। इस रचना का वास्तविक नाम है इराम-चरित। एक दन्तकथा के अनुसार इसके रचयिता तिरुवांकुर के एक राजा थे, लेकिन इसके लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता<sup>१</sup>। अपनी रचना के प्रारम्भ में कवि ने वाल्मीकि का उल्लेख किया है और अपने काव्य के बहुत से स्थलों पर वाल्मीकि का अक्षरशः अनुवाद भी किया है। इसकी कथावस्तु केवल वाल्मीकि के युद्धकाण्ड से सम्बन्ध रखती है। अय्यि पिल्लैआशन का रामकथप्पाट्टु भी उसी समय का माना जाता है और वह इरामचरित की भाँति राम-रावण-युद्ध मात्र प्रस्तुत करता है।

२६५. कण्णश रामायण : पन्द्रहवीं शताब्दी उत्तरार्द्ध की यह कण्णश पणिक्कर कृत रचना वाल्मीकि रामायण का अनुवाद मात्र है; कण्णश ने प्रचलित रामायण के अनेक अनावश्यक वृत्तान्त छोड़ दिये हैं।

२६६. लगभग १५०० ई० में पुनम् नपूतिरि ने रामायण चम्पू मणिप्रवालम् शैली में लिखा है। इस शैली में संस्कृत मिश्रित मलयालम का प्रयोग किया जाता है।

२६७. अध्यात्म रामायण : इसकी रचना १५७५ और १६५० के बीच में एजुत्तच्छन द्वारा हुई थी<sup>२</sup>। यह ग्रन्थ, जो संस्कृत अध्यात्म रामायण का अनुवाद है, मलयालियों में सबसे अधिक लोकप्रिय रामायण है।

१. दे० आर० नारायण पणिक्कर : भाषा साहित्य चरित्रम्, भाग १, पृ० १७२।

२. दे० सी० ए० मेनोन, एजुत्तच्छन एण्ड हिज़ एज०। युनिवर्सिटी ऑफ़ मद्रास, १९४०।

२६८. केरल वर्मा रामायण : राजा वीर केरल वर्मा की यह रचना भी वाल्मीकि रामायण का स्वतंत्र अनुवाद है।

### कन्नड़ रामायण

२६९. ११वीं शताब्दी से कन्नड़ भाषा में एक विस्तृत जैन राम-कथा-साहित्य की सृष्टि होने लगी थी। इसका उल्लेख ऊपर (अनु० ५९ और ६२) हो चुका है। उस जैन राम-साहित्य की अपेक्षा ब्राह्मण कन्नड़ राम साहित्य अर्वाचीन है। १६वीं शताब्दी में तोरवे निवासी नरहरि ने अपना रामायण लिखा था, जो तोरवे रामायण के नाम से प्रसिद्ध है।<sup>१</sup> इस रचना के अतिरिक्त नरहरि कृत मैरावण कालम (मैरावण का युद्ध) का भी उल्लेख मिलता है, जिसकी चार सधियों में हनुमान द्वारा मैरावण-वध की कथा मिलती है।

तोरवे रामायण के बाद कन्नड़ भाषा में राम-कथा विषयक एक अत्यन्त समृद्ध साहित्य की सृष्टि हुई किन्तु इसमें राम-कथा के विकास की दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण सामग्री नहीं मिलती है। सोलहवीं शताब्दी का जैमिनी भारत कर्नाटक में अत्यन्त लोकप्रिय है, इसकी रचना संस्कृत जैमिनी भारत के आधार पर लक्ष्मीश नामक कवि द्वारा हुई थी (दे० अनु० १८५)। इसमें सीता वनवास का अत्यन्त करुणापूर्ण चित्र अंकित किया गया है।

तोरवे रामायण के छ काण्डों में बालकाण्ड से लेकर युद्धकाण्ड तक की वाल्मीकीय कथा का वर्णन किया गया है। वाल्मीकि रामायण के तीन पाठों में से यह रचना बाह्यसाहित्य पाठ से अधिक साम्य रखती है, यह निम्नलिखित प्रसंगों से स्पष्ट है: लक्ष्मण सीता के नूपुर मात्र पहचान लेते हैं (अनु० ४६२); लकादेवी की पराजय (अनु० ५३५), रावण की दो सभाएँ (५६८, ३); रावण-मुग्धीव-युद्ध (अनु० ५८४)। वाल्मीकि रामायण के अन्य पाठों की भी कुछ सामग्री तोरवे रामायण में मिलती है किन्तु इसका आधार आनन्द रामायण प्रतीत होता है; यह सामग्री इस

१. आर० नरसिंहाचार्य के अनुसार नरहरि १५०० ई० के लगभग जीवित थे (दे० कर्नाटक कवि चरिते, भाग २, पृ० १४२)। इ० पी० रैस के अनुसार तोरवे रामायण की रचना १५९० के लगभग हुई थी। नरहरि अपने को कुमार वाल्मीकि कहकर पुकारते हैं। एक अन्य मत के अनुसार कवि का वास्तविक नाम अज्ञात है, वे अपने गाँव के देवता नरसिंह के अनन्य भक्त थे, इसीसे उनका नाम नरहरि माना गया है।

२. दे० श्री हिरण्मय, कन्नड़ साहित्य में राम-कथा परम्परा, मैथिलीशरण गुप्त अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० ७५१।

प्रकार है—कालनेमि का वृत्तान्त (अनु० ५८७); हिमालय-यात्रा के समय हनुमान-भरत के परस्पर दर्शन (अनु० ५८८); मन्दोदरी-केशग्रहण (अनु० ५९७)। उदीच्य पाठों का एक अन्य प्रसंग अर्थात् शरणागति के पूर्व विभीषण का अपनी माता से भेंट करना आनन्द रामायण में नहीं मिलता किन्तु यह रंगनाथ तथा भावार्थ रामायण में भी विद्यमान है जिससे स्पष्ट है कि यह दक्षिण भारत में पर्याप्त मात्रा से प्रचलित था।

अन्य मध्यकालीन रचनाओं की भाँति समस्त तोरवे रामायण भक्ति-भाव से ओत-प्रोत है; उदाहरणार्थ अतिकाय तुलसी-माला आदि पहने वैष्णव-भक्त के रूप में रणक्षेत्र में आ पहुँचते हैं तथा लक्ष्मण द्वारा मारे जाने पर मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं (दे० ६, संधि ६४)।

तोरवे रामायण के अनेक प्रसंग केवल आनन्द रामायण में मिलते हैं; उदाहरणार्थ रावण का शिव-घनुष के नीचे दब जाना (दे० अनु० ३९७); इन्द्र की माला के कारण वालि की अजेयता (अनु० ५२२); लका-दहन के वर्णन में ब्रह्मा का हनुमान से अनुरोध करना, हनुमान का तभी अपनी पूँछ बढ़ाना बन्द करना जब स्त्रियों के कपड़े माँग जा रहे हैं, रावण की दाढ़ी जल जाना (दे० अनु० ५५२)। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित सामग्री आनन्द रामायण तथा तोरवे रामायण दोनों में मिलती है यद्यपि यह अन्यत्र भी पाई जाती है . पाषाणभूता अहल्या तथा सहस्र-भगवान् इन्द्र को दिया हुआ शाप (अनु० ३४६); सीता के स्वयंवर में पराजित राजाओं के साथ राम का युद्ध (अनु० ४०२); चित्रकूट में कैंकेयी का पद्मात्ताप (अनु० ४५३); लक्ष्मण का सयम (अनु० ४६१), वालि की मुक्ति-प्राप्ति (अनु० ५२०); सीता-रावण-संवाद के समय मन्दोदरी की उपस्थिति (अनु० ५४३); अगद का अपनी पूँछ को कुण्डल बनाकर उस पर रावण-सभा में बैठ जाना तथा बाद में रावण पर प्रहार करना (अनु० ५८५); सेतु-भंग का उल्लेख (अनु० ६०७); लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा के पुत्र का वध (अनु० ६३२); हनुमान का राम का उच्छिष्ट खाना (अनु० ७०७)।

इससे स्पष्ट है कि नरहरि आनन्द रामायण के वृत्तान्त से परिचित थे। फिर भी तोरवे रामायण में बहुत ऐसी सामग्री भी मिलती है जो न तो वाल्मीकि और न आनन्द रामायण में विद्यमान है; उदाहरणार्थ रघुवश के अनुसार दशरथ की वंशावली (अनु० ३३६); राम-परशुराम के संघर्ष का रूप (अनु० ३५१); जटायु के मर्म-स्थान का वृत्तान्त (अनु० ४७०); मायासीता की कथा (अनु० ५०४); वालि-

१. ये प्रसंग प्रायः आनन्द रामायण पर निर्भर मराठी भावार्थ रामायण में भी पाये जाते हैं; दे० अनु० ३०४।

सुग्रीव-अंजना की जन्म-कथा (अनु० ५१४); समुद्रलघन के पश्चात् तृणविन्दु से हनुमान की भेंट (अनु० ५३१); सेतु पर मछलियों का आक्रमण (अनु० ५७८); रावण-सभा में पहुँचकर अगद का रावण को पहचानने में असमर्थ होना (अनु० ५८५); माया-सीता-बध की सच्चाई की परीक्षा के लिए हनुमान का लंका में प्रवेश करना (अनु० ५९१)। यह सामग्री किमी-न-किसी रूप में अन्य राम-कथाओं में भी पाई जाती है किन्तु तोरवे रामायण की निम्नलिखित सामग्री अन्यत्र नहीं मिली है।

अधमुनिपुत्र का ताण्डव नाम (अनु० ४३३); अत्रि द्वारा जयत को शाप (अनु० ४३९); विष्णु-माया के अवतार के रूप में मंथरा का उल्लेख (अनु० ४५४); आबालि का वन में राम से मिलने आना (अनु० ४७६), अभिज्ञान स्वरूप चित्रकूट में राम-सीता की जलक्रीडा का उल्लेख (अनु० ५२५), हनुमान का लंका जाकर अंगद को राम के पास ले आना (अनु० ५८५); कुभकर्ण के जीवरत्न का उल्लेख (अनु० ५८९, ७), ओषधि पर्वत का अपने आप अन्तर्धान हो जाना (अनु० ५८७); विभीषण के स्पर्शमात्र से माया-सीता के शव का ओझल हो जाना (अनु० ५९१)।

### आदिवासी कथाएँ

२७०. आदिवासियों का साहित्य सुरक्षित न रह सका, केवल उनकी कुछ दन्तकथाओं का वर्णन मिलता है। उन कथाओं में राम-कथा का मूल रूप ढूँढना व्यर्थ है। ऊपर (दे० अनु० ११०) यह दिखलाने का प्रयास किया गया है कि रामायण के धानर, ऋक्ष, राक्षस आदि वास्तव में आदिवासी ही हैं। यहाँ पर उदाहरणार्थ कुछ आदिवासी कथाओं का उल्लेख दिया जाता है जिनका विवरण आययकतानुसार चतुर्थ भाग में किया जायगा। कई जातियों में शबरी-विषयक दन्तकथाएँ प्रचलित हैं (दे० आगे अनु० ४८०)। बोडो जाति में सीता-त्याग के विषय में धोबी वृत्तान्त का विकृत रूप पाया जाता है (दे० अनु० ७२० पाद-टिप्पणी)। उराँव जाति में लंका-वहन की कथा का एक नवीन रूप प्रचलित है (दे० अनु० ५५२)।

२७१. बिहार और बंगाल की मथाल नामक आदिवासी जाति में प्रचलित राम-कथा<sup>१</sup> की विशेषताएँ इस प्रकार हैं :

- (१) गुरु की आज्ञानुसार आम खाकर दशरथ की पत्नियों का गर्भवती हो जाना (दे० अनु० ३५४)।
- (२) कैकेयी के गर्भ से भरत और शत्रुघ्न का जन्म।

१. दे० गोपाल लाल वर्मा, सघाली लोक-गीतों में श्रीराम, सारण (दिल्ली, ७ फरवरी १९६०, पृ० ४३-४५)।



- (३) रावणवध के बाद लौटकर राम ने संथालों के यहाँ रहकर एक शिव-मन्दिर बनाया तथा उसमें वे नित्यप्रति सीता के साथ पूजा करने आते थे।

इसके अतिरिक्त सीता की खोज करते समय राम गिलहरी और बर को वरदान तथा बगुले को दण्ड देते हैं (दे० अनु० ४७४); लक्ष्मण हनुमान से भेंट होने पर उनसे द्वन्द्व युद्ध करते हैं (दे० अनु० ५१२)। हनुमान राम-बाण के सहारे समुद्र पार करते हैं (अनु० ५३१); तथा लका-दहन के बाद अपना ही मूँह जलाकर काला कर लेते हैं (दे० ५५२)।

२७२. शरच्चंद्र राय कृत 'दि बिहोर्स' नामक-ग्रंथ में इस जाति में प्रचलित एक राम-कथा उद्धृत है (पृ० ४०५-४२७), जिसमें भगवान् के अवतार राम के जन्म से लेकर रावण तथा कुम्भकर्ण के वध तक का वृत्तान्त सक्षेप में वर्णित है। इसकी निम्नलिखित विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं -

- (१) दशरथ की सात पत्नियों का उल्लेख।
- (२) दशरथ का पहले ब्राह्मण (अर्थात् विश्वामित्र) के साथ भरत-शत्रुघ्न को भेज देना तथा ब्राह्मण को इस धोखे का पता लगना। यह वृत्तान्त कृत्ति-वास में भी मिलता है। (दे० आगे अनु० ३८८)।
- (३) सीता का आगम को लीपने के लिए शिव का धनुष उठाना।
- (४) लक्ष्मण के १२ वर्ष तक के उपवास का कुछ परिवर्तित रूप। इसके अनुसार लक्ष्मण केवल मिट्टी खाते थे।
- (५) सीता-हरण के पहले राम की सहायता करने जाते समय लक्ष्मण का सीता को राई के दाने देना, उनके द्वारा सीता का रावण को भस्मीभूत करना (दे० आगे अनु० ४९८)।
- (६) सीता की खोज में राम का बर वृक्ष तथा गिलहरी को वर प्रदान करना और बगुले को दंड देना।
- (७) हनुमान का शुक के रूप में लंका में प्रवेश करना।
- (८) राम-लक्ष्मण का हनुमान के पुच्छ पर समुद्र पार करना (दे० आगे अनु० ५७३)।
- (९) लक्ष्मण द्वारा रावण-वध।
- (१०) रावण-वध के पश्चात् लक्ष्मण द्वारा कुम्भकर्ण के वध का उल्लेख।

१. आदित्य मित्र 'सताली', सीता की खोज (रांची आकाशवाणी द्वारा प्रसारित ५-११-५७)।

२७३. मुण्डा जाति में एक दन्तकथा प्रचलित है जिसमें विहौर जाति की उपर्युक्त राम-कथा के अनुसार सीता की खोज का कुछ वर्णन किया गया है। बगुला राम की सहायता करना अस्वीकार करता है और राम दण्डस्वरूप उसकी गर्दन खींचते हैं। बंर वृक्ष राम को सीता की साड़ी के कुछ टुकड़े देता है और अमरत्व का बरदान प्राप्त करता है। गिलहरी सीता का मार्ग बताती है और राम उसकी पीठ पर तीन रेखाएँ खींचते हैं<sup>१</sup>।

२७४. डॉ० डब्ल्यू रुबेन ने छोटा नागपुर की असुर नामक जाति में प्रचलित दन्तकथाओं का संकलन किया है<sup>१</sup>। उनकी रचना से पता चलता है कि अन्य आदिवासी जातियों की जाति असुरों के यहाँ भी सीता की खोज करते समय राम के बगुले को दण्ड देने की कथा प्रचलित है (दे० आगे अनु० ४७४)। इसके अतिरिक्त उनके यहाँ हनुमान अपने ही वाण पर समुद्र पार करने की कथा (दे० अनु० ५३१) तथा आदिवासियों के मनोविज्ञान के अनुसार लकादहन का एक परिवर्तित रूप भी मिलता है (दे० अनु० ५५२)।

२७५. नर्मदा घाटी की परधान जाति<sup>१</sup> में एक दन्त कथा प्रचलित है जिसमें सीता लक्ष्मण के समय की परीक्षा लेती है और लक्ष्मण खरे ही उतरते हैं (दे० अनु० ४६२)।

२७६. मध्यप्रदेश की बंगा-भूमिया नामक जाति में प्रचलित एक दन्तकथा में सीता कृषि की अधिष्ठात्री देवी से सवध रखती हैं (दे० ऊपर अनु० ११-१९)। इसके अनुसार माता जानकी के हाथ में छ उँगलियाँ भी थी, उन्होंने छठी उंगली काट कर भूमि में रोप दी थी। कुछ समय के बाद उससे एक बाँस पैदा हुआ जिसके काबों की गाँठों के बीच मन्त्र प्रकार के बीज छिपे हुए थे। उस जाति के यहाँ हनुमान की एक जन्म-कथा भी मिलती है जिसमें हनुमान भिव के वीर्य में उत्पन्न माने जाते हैं (अनु० ६७३)<sup>१</sup>।

१ दे० एम्० सी० मित्र : जर्नल ऑव डिपार्टमेंट ऑव लेटर्स, कलकत्ता, भाग ४, पृ० ३०३-३०४।

२ दे० आइसनवर्मीडे एण्ड डेमोनेन इन इण्डियन (लाइबन, १९३९ पृ० ७८)।

३ दे० शामराव हिवाले, दि परधान्स ऑव दि अपर नर्मदा वैली।

४ दे० एम् फुक्स। दि ग्रीड एंड भूमिया ऑव ईस्टर्न मंडला। बम्बई (१९६०), पृ० ४२१-४२२।

२७७. टी० बी० नायक ने आदिवासियों में प्रचलित रामायण-विषयक दन्त-कथाओं का सर्वेक्षण किया है<sup>१</sup>। उनके निबंध में एक भिलोबी रामायण की चर्चा है जिसकी रचना लगभग बीस साल पहले एक समाज-सेवक द्वारा हुई थी। इस रामायण में कथानक को दृष्टि से कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया है। टी० बी० नायक मध्यप्रदेश की भागारिया जाति में प्रचलित सहस्र-स्कंध-रावण के वध की कथा का भी उल्लेख करते हैं (दे० आगे अनु० ६३९)।

२७८. भारत के उत्तर-पूर्व क्षेत्रों में राम-कथा का निम्नलिखित विकृत रूप प्रचलित है : किमी राजा की पुत्री उसके हाथ की मूजन में पैदा हुई थी। एक आठ सिर वाले राक्षस ने उस पुत्री का हरण किया था, जिम पर राजा जाकर उस राक्षस को मार कर अपनी पुत्री को घर ले आया। बाद में एक अन्य राक्षस उसे समुद्र पार ले गया। राजा उसकी खोज में निकला और अमफल होकर उमने वानरों के राजा की सहायता मांगी। वानर-राजा राजकुमारी का पता लगाने के लिए उस राक्षस के गाँव में जा पहुँचा। राक्षस ने उसे पकड़ कर उसकी पूँछ जलाने का प्रयत्न किया। इस पर वानर-राजा ने गाँव में ड़घर-उघर दौड़ कर सब घरों में आग लगा दी और लोगों की घबराहट से लाभ उठाकर वह राजकुमारी के साथ भाग निकला और उसे उसके पिता के घर ले गया। राजा ने वानर-राजा को एक सुनहला महल भेंट में दिया। उस महल में प्रवेश करते ही उस वानर के बाल गिर गये, उसके चमड़े का रंग बदलकर गौरा हो गया तथा वह प्रथम अंग्रेज बन गया<sup>२</sup>।

### ख—आर्य भाषाओं के साहित्य में राम-कथा

२७९. आधुनिक आर्य-भाषाओं के राम-साहित्य की रचना १४-१५वीं शताब्दी से प्रारंभ होती है लेकिन अधिकांश इसके बाद ही हुई है, जब राम-भक्ति के आविर्भाव और प्रचार के साथ-साथ राम-कथा का विकास भी अन्तिम परिणति पर पहुँच चुका था। अतः राम-कथा के दृष्टिकोण से इस साहित्य का महत्त्व गौण है। फिर भी, भिन्न भिन्न वृत्तान्तों की व्यापकता दिखलाने के उद्देश्य से इसका किंचित् निरूपण अपेक्षित है। पहले एक मिहली वृत्तान्त और इसके बाद काश्मीरी रामायण का परिचय दिया जाता है, क्योंकि सम्भव है कि दोनों का आधार सिंहल द्वीप तथा काश्मीर में प्रचलित प्राचीन राम-कथा हो। प्राचीनतम असमीया रामायण १४वीं

१. दे० बुलेटिन ऑव दि ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट (छिन्दवारा)। भाग १, अंक २। राम-कथा एमाग दि प्रिमिटिव ट्राइब्स।

२. दे० बेरियर एलविन, मिथ्स ऑव दि नॉर्थ ईस्टर्न फ्रांटियर ऑव इण्डिया। पृ० १३१-१३२।

शताब्दी का माना जाता है, अतः पूर्वी राम-साहित्य का उल्लेख हिन्दी-राम-साहित्य के पहले किया जाता है। अन्त में अन्य आर्य भाषाओं के साहित्य का भी महत्वानुसार वर्णन किया गया है। मैथिली तथा पंजाबी राम-साहित्य का उल्लेख हिन्दी राम-साहित्य के सिंहावलोकन में किया गया है। सिंधी में केवल आधुनिक काल में ही राम-कथा-विषयक सामग्री मिलती है अतः इसका वर्णन छोड़ दिया गया है। नेपाली-राम-साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण रचना भानुभट्टकृत रामायण है, यह अध्यात्म रामायण का पद्यानुवाद है, जो सन् १८५२ ई० में पूरा हुआ था। इसके पूर्व ही रघुनाथ उपाध्याय ने रामायण सुन्दरकाण्ड लिखा था। अधिकांश समालोचक केवल वाल्मीकि रामायण तथा अपने प्रान्तीय साहित्य की तुलना करके सर्वत्र मौलिकता देखते हैं। इस तरह श्री दिनेशचन्द्र सेन लक्ष्मण के १४ वर्ष तक के उपवास को एक मौलिक बंगाली वृत्तान्त मानते हैं<sup>१</sup>। वास्तव में वाल्मीकि से भिन्न ये अधिकांश कथाएँ पंद्रहवीं शताब्दी से पूर्व बहुत व्यापक रूप से प्रचलित थीं और अनेक प्रान्तों तथा विदेश में भी किञ्चित् परिवर्तन सहित पाई जाती हैं।

### सिंहली राम-कथा

२८०. सिंहल द्वीप में एक कोहोम्बा 'यक्कम' नामक धार्मिक विधि है, जिसका मूलपात ५वीं शताब्दी ई० पू० का माना जाता है, लेकिन जिसका साहित्य में पहला वर्णन १५वीं शताब्दी ई० का है<sup>२</sup>। इस विधि के समय काव्यात्मक कथाओं का पाठ होता है, जिनमें से सिंहल के प्रथम राजा विजय तथा नाग-राजकुमारी कुबेणी की और सीतात्याग की कथा, ये दो प्रधान हैं।

सिंहली राम-कथा में राम अकेले ही वनवास करते हैं, उनकी अनुपस्थिति में सीता का हरण होता है। बालि हनुमान का स्थान लेता है; वह लका का दहन करके सीता को राम के पास ले जाता है। रावण-चित्र के कारण सीतात्याग के उल्लेख के बाद (६० आगे अनु० ७२४) सीता के पुत्र के जन्म का उल्लेख तथा वाल्मीकि द्वारा दो बालकों की सृष्टि का वर्णन किया गया है। अन्त में इन तीनों का राम सेना में युद्ध करने का भी उल्लेख मिलता है (६० आगे अनु० ७४५ और ७५१)।

१. दे० दिनेशचन्द्र सेन : वही, पृ० १७६. जहाँ इस उपवास के विषय में लिखा है—ए० प्युर्ली बंगाली टेल।

२. दे० ज० रॉ० ए० सो० (१९४६, पृ० १४-२२, १८५-९१) तथा एलफ्रा-बेटिकल गार्ड टु सिंगालीज फाल्लकार (६० ए० भाग ४५, सप्लेमेंट)।

## काश्मीरी रामायण

२८१. काश्मीरी रामायण अर्थात् रामावतारचरित की रचना १८वीं शताब्दी के अन्त में दिवाकर प्रकाश भट्ट द्वारा हुई थी। यद्यपि इसका आधार कई शताब्दियों से चली आई हुई परम्परा हो सकती है, किन्तु आधुनिक काल में लिपिवद्ध होने के कारण इसमें राम-कथा के विकास के अन्तिम सोपान के लक्षण स्पष्ट दिखलाई देते हैं। यह काश्मीरी रामायण की निम्नलिखित विशेषताओं से प्रतीत होता है :

(१) समस्त काव्य का शिव-पार्वती-संवाद के रूप में प्रस्तुत किया जाना (दे० न० २)।

(२) अवतारवाद की व्यापकता। राम पूर्णावतार माने जाते हैं तथा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न क्रमशः शेष, शंख और सुदर्शन के अवतार (दे० न० १३)।

(३) अयोध्याकांड के वृत्तान्त के प्रारम्भ में नारद का राम के पास आकर राम को उनके अवतार होने का स्मरण दिलाना (दे० न० ८)।

यद्यपि काश्मीरी रामायण में दशरथ-यज्ञ से लेकर सीता के भूमि-प्रवेश तथा राम के स्वर्गारोहण तक की समस्त कथा बहुत कुछ वाल्मीकि रामायण के अनुसार है, किन्तु इसमें बहुत से परिवर्तन तथा परिवर्द्धन भी किए गए हैं। कथानक के दृष्टि-कोण से इनमें से चार वृत्तान्त अधिक महत्त्वपूर्ण हैं :

(१) मदोदरी के गर्भ से सीता का जन्म (न० २४)।

(२) रावण के चित्र के कारण सीता का त्याग (न० ६३)।

(३) वाल्मीकि द्वारा कुश की सृष्टि (न० ६९)।

(४) कुश-लव का राम-सेना से युद्ध (न० ७१)।

ये वृत्तान्त अन्यत्र भी पाये जाते हैं। इनके विकास का विश्लेषण निबन्ध के चतुर्थ भाग में किया जायगा (दे० आगे १४वाँ और २०वाँ अध्याय)। इनके अतिरिक्त काश्मीरी रामायण में कुछ और विशेषतायें मिलती हैं, जिनका निरूपण महत्त्वानुसार चतुर्थ भाग में किया जायगा। इनका यहाँ उल्लेख मात्र पर्याप्त है :

(१) राम का दशरथ के लिए पिंडदान करना (न० १८)।

(२) बनवास के समय अहल्या से भेट (न० १९)।

(३) सीता के कहने पर रावण का जटायु को पत्थर खिलाना (न० २४)।

(४) नारद का लंका में सीता की खोज करते हुए हनुमान को रावण-चरित सुनाना (न० २९)।

- (५) नल की कथा जिसमें उसके फेंके हुए पत्थरों के पानी पर तैरने का कारण बताया गया है (न० ३९) ।
- (६) युद्ध के समय निराश रावण की कैलास-यात्रा (न० ४७) ।

### असमीया साहित्य में राम-कथा

२८२. भारत की प्रादेशिक आर्य भाषाओं का प्राचीनतम राम-साहित्य असमीया, बंगाली तथा उडिया में सुरक्षित है। तीनों भाषाओं में एक-एक रामायण सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त कर सका, असमीया में माधव कदली का, बंगाली में कृत्तिवास का तथा उडिया में बहुरामदाम का रामायण। इनमें से १९वीं शताब्दी ई० के अन्त का माधव कदली कृत रामायण सब में प्राचीन है, अतः यहाँ पर पहले असमीया राम-साहित्य का सिंहावलोकन प्रस्तुत किया गया है।

असमीया, बंगाली तथा उडिया राम-साहित्य की एक सामान्य विशेषता यह है कि वह प्रायः वाल्मीकि के गौडीय पाठ पर आधारित है, इसके अतिरिक्त इस साहित्य में कुछ ऐसे वृत्तान्त भी विद्यमान हैं जो प्रचलित वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलते और अन्यत्र भी दुर्लभ हैं। कुछ ही उदाहरण यहाँ पर्याप्त होंगे। दशरथ के प्रति शनि के वरदान की कथा कृत्तिवास, बलरामदाम तथा माधवदेव के बालकाण्ड में समान रूप में मिलती है (दे० अनु० ४७२)। सारगलादास का महाभारत, कृत्तिवास रामायण तथा माधवदेव का बालकाण्ड तीनों दशरथ की ७०० से अधिक पत्नियों का उल्लेख करते हैं (दे० अनु० ३४०); मुपाश्वं डांग मीता का हरण करते हुए रावण को चुनौती देने का वृत्तान्त माधव कदली तथा कृत्तिवास दोनों में पाया जाता है (दे० अनु० ५००), माधवदेव का बालकाण्ड विशेष रूप से कृत्तिवास रामायण से प्रभावित हुआ। सारगलादास तथा बलरामदाम की उडिया राम-कथा कृत्तिवास के रामायण में साम्य रखती है (दे० अनु० २९२-२९३)।

२८३. असमीया रामसाहित्य की मुख्य रचना प्रचलित माधवकदली-रामायण है। वस्तुतः वह तीन लब्धप्रतिष्ठ कवियों द्वारा लिखा गया है। पाँच ही काण्ड (अयोध्या से युद्ध तक) माधवकदलीकृत माने जाते हैं, शकुरदेव ने इसके उत्तर-काण्ड की रचना की है तथा शकुरदेव के शिष्य माधवदेव ने आदिकाण्ड लिखा है।

१ ऐस्पेक्टम ऑव ओल्ड असामीस लिटरेचर (गौहाटी युनिवर्सिटी, १९५२); ३० च० लेखार, असमीया रामायण साहित्य (१९४८) और विष्णुकान्त शास्त्री, असमीया में राम-साहित्य, मैथिलीशरण गुप्त अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० ८३१-३९१।

माघवकदलीकृत पांच काण्डों में वाल्मीकीय रामायण के गौडीय पाठ को प्रामाणिक माना गया है; यह निम्नलिखित प्रसंगों से स्पष्ट है—राम की कुश-पादुकाओं का उल्लेख (दे० अनु० ४३६); सीता की जन्म-कथा में मेनका का वृत्तान्त (दे० अनु० ४०९), राम के प्रति तारा का शाप (दे० अनु० ७२६); विभीषण पर रावण का पाद-प्रहार (दे० अनु० ५६८); शरणागति के पूर्व विभीषण द्वारा अपनी माता से तथा अपने भाई कुबेर से भेंट (दे० अनु० ५६८); कालनेमि का वृत्तान्त (दे० अनु० ५८७), ममूद्रलघन के वर्णन में मुरसा का प्रथम स्थान में उल्लेख (दे० अनु० ५३१); सम्पानि के पास मुपाश्व का आगमन (दे० अनु० ५२७)। माघवकदली की रचना में वर्णित थोड़े ही वृत्तान्त वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलते हैं जैसे :

- (१) सीताहरण के समय मुपाश्व का रावण को रोकना (दे० अनु० ५००)।
- (२) हनुमान का लका की वाटिका का विध्वंस करने के पूर्व वृद्ध ब्राह्मण के रूप में रावण से भेंट करना (दे० अनु० ५५२)।
- (३) नल को दिय हुए वग्दान का यह स्पष्टीकरण कि उसके स्पर्श से पत्थर नहीं डूबेंगे (दे० अनु० ५७५)।

शकरदेव ने अपने उत्तरकाण्ड में सीता-वनवास से लेकर राम के स्वर्गारोहण तक की वाल्मीकीय कथा किसी उल्लेखनीय परिवर्तन के बिना प्रस्तुत की है। सर्ग १४ में अगस्त्य रावणचरित का किञ्चित् वर्णन करते हैं किन्तु वाल्मीकीय उत्तरकाण्ड के प्रारम्भ का विस्तृत रावण-चरित छोड़ दिया गया है। शकरदेव ने इसका स्पष्ट उल्लेख किया है कि भक्ति-मार्ग का प्रचार मेरा उद्देश्य है।

माघवदेवकृत असमीया बालकाण्ड की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह कृत्ति-वासीय रामायण पर आधारित है। निम्नलिखित वृत्तान्त कृत्तिवास तथा असमीया बालकाण्ड दोनों में विद्यमान हैं। सूर्यवंश का वर्णन; कैंकेयी का स्वयंवर, सुमित्रा का सिंहल के राजा की पुत्री के रूप में उल्लेख, पायस के विभाजन के समय सुमित्रा की प्रतिज्ञा; गुहू और बालक राम की मैत्री; सीता के पूर्वानुराग की कथा। रामादि के जन्म के पूर्व रानियों के स्वप्न की कल्पना संभवतः कालिदास के रघुवंश पर निर्भर है (दे० अनु० ३७५)। सीताजन्म (दे० अनु० ४१०) तथा अहल्या (अनु० ३४६) के विषय में माघवदेव का असमीया बालकाण्ड मौलिक प्रतीत होता है।

२८४. यद्यपि असमीया साहित्य में राम की अपेक्षा कृष्ण को अधिक महत्त्व दिया गया है, फिर भी आसाम के कवि राम-कथा की उपेक्षा नहीं कर सके; यह असमीया

राम साहित्य की निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है :

### १४वीं शताब्दी ई०

(१) हरिवर विप्रकृत लवकुशर युद्ध (सीता-त्याग से उनके पाताल-प्रवेश तक की कथा) । इस रचना की एक विशेषता यह है कि वास्तविक त्याग के पुरुष ही राम ने स्वप्न देखा था जिसमे उन्होंने लोकापवाद के कारण सीता को वनवास दिया था ।

(२) माधवकंदली कृत रामायण ।

### १६वीं शताब्दी

(१) बुर्गावरकृत गीतिरामायण । इसमे माधवकंदली के आधार पर राम-कथा के चुने हुये प्रसंगों को, विशेषकर अरण्यकाण्ड की घटनाओं को, भावपूर्ण गीतों मे प्रस्तुत किया गया है । कथानक की दृष्टि से सीता द्वारा पिडदान का प्रसंग (दे० अनु० ४३५) तथा चित्रकूट मे एक मायामय अयोध्या की सृष्टि (दे० अनु० ४४०) उल्लेखनीय है ।

(२) अनन्तकंदली कृत जीवस्तुति-रामायण, महीरावण-वध, पातालखण्ड रामायण, सीतार पाताल प्रवेश नाटक । अनन्तकंदली ने स्वयं लिखा है—“माधवकंदली ने राम की सामान्य कथा लिखकर रामभक्ति को कम महत्त्व दिया था, मैं इसीलिये राम-कथा लिखता हूँ कि पाठक राम को परब्रह्म के रूप मे स्वीकार करे ।

(३) शंकरदेवकृत उत्तरकाण्ड तथा रामविजय नाटक । रामविजय मे विद्वामित्र के आगमन मे प्रारंभ होकर राम-विवाह के बाद अयोध्या मे प्रत्यावर्तन तक की कथा वर्णित है । सीता-स्वयंवर के अवसर पर राजाओ का राम पर आक्रमण (अनु० ४०२) तथा अयोध्या के मार्ग मे राम-परशुराम का द्वन्द्व-युद्ध परम्परागत कथानक के मुख्य परिवर्तन है ।

(४) शंकरदेव के गिष्य माधवदेव का बालकाण्ड ।

(५) अनन्त ठाकुर आता का श्रीरामकीर्तन ।

### १७वीं तथा १९वीं शताब्दी

(१) वनजयकृत गणकचरित (हनुमान का लंकाप्रवेश विषयक खण्डकाव्य, दे० अनु० ५४२) ।

(२) गगारामदाम कृत सीतावनवास ।

(३) भवदेव विप्र का श्रीरामचन्द्र अश्वमेध ।

(४) श्रीचन्द्र भारती कृत महीरावणवध ।



- (५) रघुनाथ महंत कृत कथारामायण (कथा-वाचक की गद्यशैली में) तथा अद्भुत रामायण (इसमें हनुमान के पराक्रम के अतिरिक्त राम-कथा के निर्वहण का एक नया रूप प्रस्तुत किया गया है (दे० अनु० ७५७)।

## बंगाली साहित्य में राम-कथा<sup>1</sup>

### (अ) कृत्तिवास रामायण

२८५. कृत्तिवास ओझा ने बंगाली साहित्य के प्रथम एवं सर्वाधिक लोकप्रिय रामायण अथवा श्रीरामपांचाली<sup>2</sup> की रचना १५वीं श० ई० के अन्त में पयार छन्द में की थी। इसका पाठ अनिश्चित है, इसमें न केवल बहुत सी प्रक्षिप्त सामग्री मिलती है बल्कि कृत्तिवास की मूल भाषा को भी कथाकार और लिपिकार बदलते रहे हैं। शेषकों का पता लगाना दुःसाध्य है क्योंकि इस रचना की कोई भी हस्तलिपि २०० वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है। राक्षसों की रामभक्ति से सम्बन्ध रखने वाले अश सर्व-सहमति से प्रक्षिप्त माने जाते हैं। ये अश सभवतः १८वीं श० ई० में कविचन्द्र द्वारा लिखे गये हैं। कृत्तिवास का प्रथम संस्करण श्रीरामपुर मिशन प्रेस द्वारा सन् १८०३ ई० में प्रकाशित किया गया था; इसमें अद्भुताचार्य के रामायण के बहुत से अश जोड़ दिए गए थे। बाद में वगीश साहित्य-परिषद् ने अयोध्याकाण्ड (सन् १९०० ई०) तथा उत्तरकाण्ड (सन् १९०३ ई०) का सम्पादन किया था तथा सन् १९३६ ई० में नलिनीकान्त भट्टशाली ने आदिकाण्ड सम्पादन किया था। सम्पूर्ण कृत्तिवास रामायण के प्रामाणिक संस्करण की अपेक्षा है।<sup>3</sup>

प्रचलित कृत्तिवास रामायण के कथानक की मुख्य विषयायें इस प्रकार हैं :

- (१) कृत्तिवास रामायण वाल्मीकीय रामायण के गौडीय पाठ पर निर्भर है। निम्नलिखित सामग्री दक्षिणात्य पाठ में नहीं मिलती किन्तु वह गौडीय पाठ तथा कृत्तिवास रामायण दोनों में समान रूप से पाई जाती है—

१. दे० सुकुमार सेन, बांगाल साहित्य-इतिहास, भाग १ (सन् १९४८) दिनेशचन्द्र सेन, दि बंगाली रामायण (१९२०) और हिस्ट्री ऑफ बंगाली लेखिज एंड लिटरेचर (१९२१)।

२. पांचाली का अर्थ यहाँ पर आख्यान-काव्य है।

३. इसके अभाव में प्रस्तुत ग्रन्थ के मसूदा मन्दर्भ पूर्णचन्द्र दे द्वारा सम्पादित तथा चक्रवर्ती, चटर्जी एंड क० द्वारा प्रकाशित कृत्तिवास रामायण के चतुर्थ संस्करण (कलकत्ता सन् १९४९) की ओर निर्देश करते हैं। इस संस्करण में प्रत्येक काण्ड अध्यायों में विभाजित है।

दशरथ की पुत्री शान्ता का उल्लेख (दे० आगे अनु० ३४३); सीता की जन्मकथा में एक अप्सरा का उल्लेख (दे० आगे अनु० ४०९); शापमोहिता कैकेयी का दोषनिवारण (दे० ४५१); राम के प्रति तारा का शाप (दे० ७२६), केसरी द्वारा धवल-वध तथा मम्पाति के पुत्र सुपार्श्व का प्रस्ताव (दे० अनु० ५१०), नरमा-वाक्य (दे० अनु० ५२९), निकषा-वाक्य (दे० अनु० ५५८); सभा में रावण द्वारा विभीषण पर पादप्रहार (दे० ५६८), कालनेमि का वृत्तान्त (दे० अनु० ५८७), विभीषण की कैलास-यात्रा (दे० अनु० ५६८); भरत-हनुमान-संवाद (दे० अनु० ५८८); विभीषण-निकषा-संवाद (दे० अनु० ५६८) ।

- (२) कृत्तिवास का प्रारंभिक कथानक पद्य पुराण-पातालखंड के गौडीय पाठ से प्रभावित है। कृत्तिवास के बालकाण्ड के पूर्वार्द्ध में रघुवंश के राजाओं का इतिहास प्रस्तुत किया गया है। निम्नलिखित सामग्री बगीय पातालखण्ड तथा कृत्तिवास दोनों में मिलती है—हरिश्चन्द्र, सौदाम, दिलीप, रघु, अज-इन्दुमती की कथा; दशरथ-अटायु की मित्रता (दे० अनु० ४७२); दशरथ द्वारा शनि से वर-प्राप्ति<sup>१</sup>; अन्ध मुनि पुत्र का नाम सिन्धु (अनु० ४३३); मथरा तथा दुंदुभी की अभिन्नता (दे० ४५४) अहल्या का का शापवश शिला बन जाना (दे० ३४६) ।
- (३) रामभक्ति के प्रभाव के कारण भी परंपरागत कथानक में बहुत कुछ परिवर्तन तथा परिवर्द्धन किया गया है; उदाहरणार्थ—वाल्मीकि के उद्धार की कथा (दे० ऊपर अनु० ३८); वामदेव के प्रति वसिष्ठ का शाप (दे० अनु० ३८८), केवट का वृत्तान्त (दे० आगे अनु० ४३२); हनुमान के वक्षस्थल पर राम-नाम अंकित होने की कथा (दे० अनु० ७०६) । राक्षसों की राम-भक्ति का भी अनेक स्थलों पर उल्लेख किया गया है। रावण का पुत्र वीरवाहु रणभूमि में राम को विष्णु-चिन्हों से आभूषित देखकर अपना धनुष फेंक देता है तथा राम की स्तुति करने लगना है (दे० युद्धकाण्ड, अध्याय ५४) । विभीषण का पुत्र तरणी-सेन वैष्णव तिलक लगाये रणक्षेत्र में आता है, उसके शरीर, रथ तथा पताका

१. दे० ऊपर अनु० १६२ जहाँ इसका उल्लेख हुआ है कि उम गौडीय पाठ तथा कालिदास के रघुवंश का महारा संबंध है ।

२. यह प्रसंग स्कंद-पुराण के नागर खण्ड में वर्णित है (दे० ऊपर अनु० १६१) ।

पर राम-नाम अंकित है (दे० ६, ५३)। रावण भी रणक्षेत्र में राम के सामने नतमस्तक होकर उनके अवतारत्त्व तथा दयालुता में विश्वास प्रकट करता है (दे० ६, १०५)। रामजन्म के वर्णन में शुक-सारण की राम-भक्ति का उल्लेख मिलता है (दे० अनु० ३७५)। नागपाश के वृत्तान्त में कृष्णभक्ति की भी झलक मिलती है (दे० अनु० ५८६)।

- (४) कृत्तिवासीय कथानक पर शैव तथा शाक्त सम्प्रदायों की भी गहरी छाप है। हनुमान शिव के अवतार माने जाते हैं (दे० अनु० ६७०) तथा महीरावण की कथा में राम तथा शिव की अभिन्नता का उल्लेख किया गया है (दे० अनु० ३६२)। सेतुबन्ध के वृत्तान्त में राम द्वारा शिव-प्रतिष्ठा का उल्लेख है (दे० अनु० ५८०)। लकाबरोध के पश्चात् पार्वती रावण की सहायता करने के लिये शिव से अनुरोध करती हैं (दे० ६, १४)। लका-देवी का वृत्तान्त बदल दिया गया है—चामुडा ही हनुमान को लका में प्रवेश करने में गोक देती है (दे० अनु० ५३७)। राम की विजय भी उनकी देवी-पूजा का परिणाम माना गया है (दे० अनु० ७८५)।
- (५) कृत्तिवाम रामायण के निम्नलिखित प्रसंग वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलते हैं किन्तु ये अन्य राम-कथाओं में विद्यमान हैं—राम तथा लक्ष्मण के स्थान पर भरत तथा शत्रुघ्न को विश्वामित्र के साथ भोजने का दशरथ का प्रयत्न (दे० अनु० ३८८), सीता का पूर्वानुराग (दे० अनु० ४०३); कंकैयी द्वारा दो भिन्न अवसरों पर वरप्राप्ति (दे० अनु० ४४७), राम के निर्वासन के पूर्व राम-गुहक की मैत्री (दे० अनु० ३८४); सीता द्वारा दशरथ को पिण्डदान (दे० अनु० ४३५); लक्ष्मण का राम की सहायता करने जाने के पूर्व कुटी के चारों ओर रेखाएँ खींचना (दे० अनु० ४९८); तारा का शाप कि वालि भिन्न के रूप में कृष्णावतार में राम को मारेगे (दे० अनु० ५१९); नल की वरप्राप्ति की कथा तथा हनुमान-नल-कलह (दे० अनु० ५७५ और ५७६); लक्ष्मण का संयम जिसके बल पर वह इन्द्रजित् को हराने में समर्थ हुये (दे० अनु० ४६१); महीरावण की कथा (दे० अनु० ६१४); सेतुभजन का वृत्तान्त (दे० अनु० ६०७); मन्दोदरी से विभीषण का विवाह (दे० अनु० ५७२); रावण-चित्र के कारण सीता-त्याग (दे० अनु० ७२३), कुश-लव का युद्ध (अनु० ७४८)।
- (६) कृत्तिवासीय कथानक के कुछ वृत्तान्त बंगाल में ही पाये जाते हैं—राम-सीता विवाह के अवसर पर चन्द्रमा का नृत्य (अनु० ४००); हनुमान

का लका से ब्रह्मास्त्र ले आना (अनु० ५९८); राम का मन्दोदरी को आशीर्वाद देना जिसके फलस्वरूप रावण की चिता जलती रहती है (दे० अनु० ५९९); सीता के प्रति मन्दोदरी तथा अन्य राक्षसियों के शाप (दे० अनु० ६०२) ।

### (आ) सत्रहवीं शताब्दी का बंगाली राम-साहित्य

२८६. बंगाली राम-साहित्य पर कृतिवाम की श्रीगणपचाली की सबसे गहरी छाप है। फिर भी परवर्ती राम-साहित्य पर अन्य तत्वों का भी प्रभाव पड़ गया। वास्तव में सत्रहवीं शताब्दी की राम-कथा विषयक-सामग्री तीन वर्गों में विभक्त की जा सकती है : (१) रामलीला पदावलियाँ, (२) अद्भुत रामायण के अनुवाद; (३) अध्यात्म रामायण के अनुवाद ।

राधाकृष्ण भक्ति के प्रभाव से १६वीं शताब्दी के अन्त में श्रीगणपचाली का कीर्तन के तौर पर गान हुआ करता था। इसके फलस्वरूप सत्रहवीं शताब्दी में बहुत से रामलीला-विषयक पदों की रचना होने लगी। इन रामलीला पदावलियों पर राधा-कृष्ण पदावलियों का सुस्पष्ट प्रभाव है।

संस्कृत अद्भुत रामायण (दे० अनु० १७६) में सीता देवी का रूप धारण कर लंकापति के बड़े भाई सहस्र-भक्ष रावण का वध करती है, मभवत इसी कारण बंगाल में अद्भुत रामायण इनना लोकप्रिय मिद्ध हुआ था। निम्नलिखित रचनायें अद्भुत रामायण पर आधारित मानी जाती हैं

- (१) बड़ू नित्यानन्द आचार्य (अद्भुताचार्य) का आश्चर्य रामायण अथवा अद्भुताश्चर्य रामायण । यह रचना बहूत समय तक बंगाल में अत्यन्त प्रसिद्ध थी ।
- (२) रामेश्वर दत्त का अद्भुत रामायण, जिस पर कृतिवास का भी प्रभाव पड़ा है ।
- (३) वर्दवान में सुरक्षित एक हस्तलिपि जिमका रचयिता भूल से कृतिवास ही माना जाता है ।
- (४) चन्द्रावती की रामायण गाथा । इसमें कँकेयी की पुत्री कुकुआ की चर्चा है, जिसके अनुरोध से मीता रावण का चित्र खींचती है और इसके परिणाम-स्वरूप परित्यक्त की जाती है (दे० अनु० ७२३) ।

सत्रहवीं शताब्दी की दो रचनायें अध्यात्म रामायण पर आधारित हैं— द्विज भवानीनाथ कृत श्रीरामपाचाली अथवा अध्यात्म रामायण पांचाली तथा द्विज श्री

लक्ष्मण का अध्यात्म रामायण जिसका अब तक केवल आदि काण्ड मिल सका है।

### (इ) अर्वाचीन बंगाली राम-साहित्य

२८७. परवर्ती बंगाली राम-साहित्य में अद्भुत रामायण पर आधारित बहुत सी रचनाओं का उल्लेख मिलता है। अद्भुत रामायण की भाँति रामानन्दकृत राम-लीला के विस्तृत बालकाण्ड में अम्बरीष की पुत्री श्रीमती के स्वयंवर का वर्णन मिलता है। संभव है यह रामानन्द वास्तव में रामानन्द घोष है जिन्होंने १८वीं शताब्दी में एक रामायण लिखा है। श्रीरामपांचाली के रचयिता रामानन्द यति संभवतः इसी रामानन्द घोष से अभिन्न है।

जगतारामराय (१८वीं श०) के अद्भुत रामायण में युद्धकाण्ड तथा उत्तरकाण्ड (जिमका नाम रामराम उत्तरकाण्ड भी रखा गया है) के बीच में एक पुष्करकाण्ड मिलता है जिसमें सहस्रस्कंध रावण का सीता के द्वारा वध वर्णित है। १९वीं शताब्दी का कमललोचन दत्तकृत रामभक्तिरसामृत अद्भुत रामायण पर आधारित है, इसके अतिरिक्त उस शताब्दी में ही अद्भुत रामायण का चार बार बंगाली में अनुवाद हुआ है—पद्य में हरिमोहन गुप्त तथा द्वारकानाथ कुण्डू द्वारा तथा गद्य में कृष्णकान्त न्यायभूषण तथा दुर्गाचरण वद्योपाध्याय द्वारा।

२८८. अठारहवीं शताब्दी के शकरचक्रवर्ती (कविचन्द्र) विशेष रूप में उल्लेखनीय है। उनकी अध्यात्म रामायण पांचाली विष्णुपुरी रामायण के नाम से विख्यात है। इसी रचना के कुछ अंश कृतिबास रामायण में स्थान पा चुके हैं, उदाहरणार्थ: अंगदेर रायबार (अंगद के दूतकार्य का वर्णन) तथा तरणीसेन-वध।

२८९. अर्वाचीन बंगाली राम-साहित्य की एक अन्य विशेषता रायबार नामक रचनाओं का बाहुल्य है। १८वीं शताब्दी के निम्नलिखित ग्रन्थ उल्लेखनीय हैं

फकिर रामकविभूषण का अंगद रायबार।

रामचन्द्र का विभीषणेर रायबार।

रामनारायण (द्विज राम) का विभीषणेर खोट्टा रायबार।

काशीराम का कालनेमिर रायबार।

द्विज तुलसी का अंगद रायबार।

हाराधन दास का अंगद रायबार।

२९०. साहित्यिक दृष्टिकोण से कृतिबास के पश्चात् रघुनन्दन गोस्वामी का रामरसायन (१८३१ ई०) सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसका प्रधान आधार वाल्मीकि रामायण है; फिर भी इस पर कृष्णलीला का भी स्पष्ट प्रभाव पड़ा है। १९वीं

तथा २०वीं शताब्दी में बंगला में वाल्मीकि रामायण का अनुवाद अथवा राम-कथा पर आधारित मौलिक ग्रन्थों की रचना होती रही। जगत मोहन राम का रामायण (१८३८ ई०) विशेष रूप से उल्लेखनीय है। २०वीं शताब्दी में राजशेखर वसु ने वाल्मीकि रामायण को गद्य में प्रस्तुत किया है किन्तु इस शताब्दी का सर्वाधिक लक्ष्यप्रतिष्ठ राम-काव्य माडकल मधुसूदन कृत मेघनावध ही है।

## उडिया

२९१. उडिया साहित्य के प्राचीनतम राम-कथा-कार १५वीं शताब्दी के सिद्धेश्वर परिडा है। उन्होंने अपनी इष्टदेवी सारला चंडी के कारण अपना नाम सारलादास ही रखा था और वे इसी नाम से विख्यात हैं। उनकी रचनाओं में से महा-भारत तथा चण्डी पुराण प्रकाशित हैं। उनका रामायण अप्राप्य है, अतः उनके महाभारत ही के आधार पर अगले अनुच्छेद में सांग्लादाग की राम-कथा की रूपरेखा प्रस्तुत की जायगी। बिलंका रामायण की रचना १७०० ई० के लगभग सिद्धेश्वर दाम द्वारा हुई थी। सिद्धेश्वर परिडा (सांग्लादाम) तथा सिद्धेश्वर दाम के नाम-सादृश्य के कारण बिलंका रामायण को सांग्लादासकृत माना गया है, जो भ्रमक है। बिलंका रामायण का प्रधान वर्ण्य विषय है सीता द्वारा (पूर्व-खण्ड में) सहस्र-स्कन्ध रावणवध तथा (उत्तर-खण्ड में) लक्ष्मण रावण-वध। यह उत्तरखण्ड नितान्त अप्रामाणिक तथा अर्वाचीन है (दे० आगे अनु० ६३९-६४०)।

उडिया साहित्य के सब से प्रसिद्ध रामायण की रचना उत्कल-ब्रह्मीक बलराम-दास द्वारा १६वीं शताब्दी के प्रारम्भ में हुई थी। इस ग्रन्थ के कई नाम प्रचलित हैं: जगमोहन रामायण (रचयिता का दिया हुआ), दाण्डि रामायण (छन्द के नाम पर) और बलरामदास रामायण (लेखक के नाम पर)। यद्यपि ब्रह्मीक रामायण इसका प्रधान आधार है, फिर भी इसमें राम-कथा के विकास की दृष्टि से बहुत से परिवर्तन मिलते हैं (दे० नीचे अनु० २९३)। उन्होंने एक ब्रह्माण्डभूगोल भी लिखा है जिसमें समस्त राम-कथा को शरीर में अवतारित किया गया है (दे० ऊपर अनु० १०८)। बलरामदास कृत "कान्त कोइलि" एक छोटी सी रचना है जिसमें हरण के समय सीता के करुण क्रन्दन की अभिव्यक्ति की गयी है।

मोलहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में अर्जुनदास ने रामविभा (राम-विवाह) नामक १२ सर्गों के एक लोकप्रिय गीत-काव्य की रचना की है। १७वीं शताब्दी के केवल तीन राम-कथा-विषयक ग्रन्थों का उल्लेख मिलता है—धनजय भज का सर्गबद्ध रचनाय बिलास (श्रीराम विलास); शंकरदास कृत बारमासी कोइलि (बारहमासा

शैली में वनवासी राम के प्रति कौशल्या का विरह-वर्णन); हलधरदासकृत **अध्यात्म रामायण** का उड़िया अनुवाद ।

१८वीं शताब्दी का राम-साहित्य अपेक्षाकृत समृद्ध है । तीन रचनाओं का वर्ण्य विषय है सहस्र-स्कन्ध रावण का वध, अर्थात् सिद्धेश्वरदास कृत **बिलंका रामायण**, वारानधिदास कृत **बिलंका छण्ड** तथा बलरामदास का **बिलंका रामायण** (इसका रचयिता प्रसिद्ध बलरामदास से भिन्न है) । **विचित्र रामायण** नामक दो रचानाएँ मिलती हैं; एक विश्वनाथ खूँटिआ की तथा दूसरी भुइआ माधवदास की। भुइआ माधवदाम सिद्धेश्वरदास को अपना गुरु मानते हैं; उनके कथानक की कई विशेषताएँ हैं—दशरथ की २१ पटरानियों का उल्लेख (दे० अनु० ३४०), शान्ता की जन्मकथा (अनु० ३४३), डाकिनियों से वानर-सेनापतियों का जन्म (अनु० ३५८), लक्ष्मण द्वारा शर्पणखा के पुत्र जयासुर का वध (अनु० ६३२), राम-कथा के निर्वहण का किञ्चित् परिवर्तित रूप (अनु० ७५३) ।

उसी शताब्दी में उपेन्द्र भंज ने **रामलीलामृत** तथा बंभेहीश विलास की रचना की है । यह अन्तिम रचना वाल्मीकि, अध्यात्म रामायण, भोजकृत चम्पूरामायण, महानाटक आदि पर आधारित एवं पाण्डित्यपूर्ण है । इसके अतिरिक्त निम्नलिखित काव्य-ग्रन्थों का उल्लेख मिलता है : रामदास का **रामरसामृत**; गोपीनाथ कवि-भूषण कृत **रामचन्द्र बिहार**, कान्हुदाम का **रामरसामृतसिन्धु**; त्रिपुरारिदास का **रामकृष्णकेलिकल्लोल** (श्लेष काव्य), ब्रजबंधु मामन्तराय का **रामलीलामृत काव्य**; ईश्वरदासकृत **रामलीला**, लक्ष्मीधरदामकृत **अंगवपडि** (अगद के दूत कार्य का वर्णन); मागुणी पट्टनायक का **रामचन्द्र बिहार** । उस शताब्दी में तेलंगा गोपाल, नरहरि कविचन्द्र, सूर्यमणि-च्याउ पट्टनायक तथा सारलादास<sup>१</sup> ने अध्यात्म रामायण का अनुवाद किया है और हरिहर कवि के पुत्र वनमालीदास ने भोजकृत चम्पू रामायण अनूदित कर उसका नाम **सुचित्र रामायण** रखा है । १८वीं शताब्दी में नाट्य-साहित्य का प्रवर्तन हुआ था; वैश्य सदाशिव, पीताम्बर राजेन्द्र, अनंग नरेन्द्र, विक्रम नरेन्द्र तथा कल्पतरुदास, ये लोग एक एक **रामलीला** नामक रचना के लेखक माने जाते हैं ।

१९ वीं तथा २० वीं शताब्दी में भी राम-कथा-विषयक रचनाओं की सृष्टि होती रही ।<sup>१</sup> १९ वीं शताब्दी में कृष्णचरण पट्टनायककृत **रामायण**, सुवनेश्वर कविचन्द्र

१. यह सारलादास महाभारत के रचयिता से भिन्न हैं, इनका काल अनिश्चित है ।

२. दे० देवीप्रसन्न पट्टनायक, उड़िया में राम साहित्य, राष्ट्रकवि मैथिली-शरण गुप्त अभिनन्दन ग्रन्थ पृ० ७७०-७७७ ।

का सीतेश विलास, केगव पट्टनायक (केशव हरिचन्दन) का नृत्थरामायण (केशव रामायण) तथा केशव त्रिपाठी का पूर्ण रामायण उल्लेखनीय है। हल्लिजा रामायण हल चलाते समय के गीतो का सकलन है।

२९२. सारलादास ने अपने महाभारत में बहुत से स्थलो पर राम-कथा-विषयक सामग्री का समावेश किया है तथा आदि, वन और उद्योग पर्वों में समस्त रामायण का संक्षिप्त रूप भी प्रस्तुत किया है।<sup>१</sup> वन-पर्व की राम-कथा अगस्त्य द्वारा विल्का के राजा को सुनाई जाती है। सारलादास की राम-कथा की निम्नलिखित विशेषतायें उल्लेखनीय हैं।

- (१) राम-कथा तथा कृष्ण-कथा के पात्रों की अभिन्नता का प्रतिपादन; उदा० राम-कृष्ण, सीता-द्रीपदी, अगद-जाग (दे० आगे० अनु० ५२१); अजना-कुन्ती; सुग्रीव-अर्जुन, बालि-कर्ण। लक्ष्मण तथा भरत भी राम के अन्तरंग मखा होने के नाते अर्जुन में अभिन्न माने गये हैं।
- (२) अवतारवाद का एक नया रूप जिसके अनुसार विष्णु राम में, इन्द्र भरत में, ब्रह्मा शत्रुघ्न में तथा ईश्वर (महादेव) लक्ष्मण में अवतरित माने जाते हैं (दे० वन पर्व पृ० २२८, आदि पर्व पृ० १९७)।
- (३) लक्षशिर, सहस्रशिर, घतशिर, दशशिर गवणों का उल्लेख जो विभिन्न कल्पों में राम द्वारा मारे जाते हैं।
- (४) बंगाल में प्रचलित राम-कथा का मावृश्य। कृतिवास में विद्यमान निम्न-लिखित सामग्री सारलादास रामायण में भी है दशरथ की ७५० पत्नियों का उल्लेख (अनु० ३८०), दशरथ की पुत्री शान्ता का वृत्तान्त (दे० अनु० ३४३); दशरथ का विष्णुमित्र के साथ भरत तथा शत्रुघ्न को भेज देने का प्रयास (दे० अनु० ३८८); सीता द्वारा पिंडदान (दे० अनु० ४३५); नल-हनुमान-कलह (दे० अनु० ५७६)।
- (५) सारलादास के निम्नलिखित वृत्तान्त राम-कथा के विकास की दृष्टि से महत्त्व रखते हैं : लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा के पुत्र का वध (दे० अनु० ६३२); बालि तथा सुग्रीव का अहत्या की मन्तान के रूप में उल्लेख

१. दे० राधारमण पुस्तकालय (कटक १९५२) का संस्करण तथा कृष्णचरण साहू, राम-कथा इन सारलादास महाभारत, जर्नल ऑव हिस्टोरिकल रिसर्च (रांची), भाग १, पृ० ५०-५९।



(दे० अनु० ५१४); हनुमान का रुद्रावतार माना जाना (दे० अनु० ६७२); हनुमान के वज्र-कौपीन का उल्लेख (दे० अनु० ६९७); ब्रह्मा के वीर्य से वाल्मीकि की उत्पत्ति (दे० अनु० ३९); अर्जुन के गर्व-निवारण की दो कथाएँ (दे० अनु० ६८५); रावण-वध के बाद राम का वानरो के साथ किष्किन्धा होकर पैदल ही अयोध्या वापस जाना (दे० अनु० ६०६) ।

२९३. बलरामदास के रामायण की निम्नलिखित विशेषताएँ महत्वपूर्ण हैं :

- (१) वह मुख्यतया वाल्मीकि रामायण के गौडीय पाठ पर निर्भर है । बलराम दास की निम्नलिखित सामग्री इसका प्रमाण है—दशरथ की पुत्री शान्ता का उल्लेख, सीता की जन्म-कथा में मेनका का प्रसंग; शापदोषमोहिता कँकेयी का दोष-निवारण; राम की कुश-पादुकाओं की चर्चा, राम के प्रति तारा का शाप, सम्पाति से वानरो की भेट के प्रसंग में सुपाश्र्व का आगमन, विभीषण पर रावण का पाद-प्रहार; हनुमान की हिमालय-यात्रा के वर्णन में कालनेमि तथा भरत का उल्लेख ।
- (२) समस्त ग्रन्थ शिव-पार्वती-संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है ।
- (३) बलरामदास का अवतारवाद अनिश्चित है । पुत्रेष्टि-यज्ञ के वर्णन के अनुसार चारों भाई तो विष्णु के अवतार हैं किन्तु अन्यत्र लक्ष्मण को शेष का अवतार माना गया है तथा भरत-शत्रुघ्न को क्रमशः चक्र और शंख का । अन्त में इसका उल्लेख हुआ कि स्वर्ग में राम तथा सीता नारायण और लक्ष्मी के रूप में मिलते हैं किन्तु एक अन्य स्थल पर राम, सीता और लक्ष्मण क्रमशः जगन्नाथ, मुभद्रा तथा बलभद्र भी माने गये हैं (दे० अनु० ३६२) ।
- (४) सारलादास की राम-कथा की भाँति बलरामदास रामायण भी बगाली राम-कथा से सादृश्य रखता है । दशरथ के प्रति शनि का वरदान, सीता का पूर्वानुसार, राम-गुह-बधुत्व, केवट-प्रसंग; विभीषण-मन्दोदरी-विवाह, यह सब सामग्री कृत्तिवास तथा बलरामदास दोनों में मिलती है (दे० ऊपर अनु० २८५) ।
- (५) वाल्मीकीय कथानक के निम्नलिखित परिवर्तन राम-कथा के विकास की दृष्टि से उल्लेखनीय हैं :  
माया-सीता का वृत्तान्त (अनु० ५०५), वेदवती की कथा (अनु० ४१०); नारद-मोह की कथा (अनु० ३७३); रावण का सीता-

स्वयंवर देखने आना (अनु० ३९७); सुरभि के अवतार, मंथरा का वर (अनु० ४५४); सीता के प्रति लक्ष्मण का शाप (अनु० ४८९); राम का मुनियों को गोपी बन जाने का वरदान देना (३० अनु० ७८७)।

## हिन्दी साहित्य में राम-कथा

### (अ) गोस्वामी तुलसीदास की रामकथा

२९४. गोस्वामी तुलसीदास की समस्त रचनायें उनके इष्टदेव राम से सम्बन्ध रखती हैं, लेकिन इनमें से रामचरितमानस सबसे अधिक लोकप्रिय प्रमाणित हुई है। इसी एक रचना के द्वारा हिन्दी प्रदेश में रामभक्ति की धारा फैल गई और आज तक प्रवाहित होती रही। अतः रामभक्ति के विकास में रामचरितमानस का महत्त्व अद्वितीय है।

राम-कथा के विकास के दृष्टिकोण में रामचरितमानस तथा तुलसीदास की अन्य रचनाओं में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं मिलते। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारम्भ में तुलसीदास वाल्मीकि रामायण में अधिक प्रभावित थे और अपनी बाद की रचनाओं में अन्य राम-कथा-साहित्य से भी। मिथिला की वाटिका में राम और सीता के परम्पर दर्शन का उल्लेख रामाज्ञाप्रश्न तथा जानकी-मंगल में नहीं है, लेकिन वह रामचरितमानस तथा गीतावली में मिलता है। मिथिला में रावणदूत के आगमन का उल्लेख रामाज्ञाप्रश्न में नहीं मिलता, लेकिन रामचरितमानस तथा गीतावली में पाया जाता है। रामाज्ञाप्रश्न, जानकी-मंगल तथा गीतावली के अनुसार परशुराम तथा राम की भेंट बारात की वापसी में होती है, किन्तु रामचरितमानस तथा कवितावली में परशुराम के मिथिला में आगमन का वर्णन किया गया है।

चित्रकूट में जनक के आगमन का वर्णन तथा सेतुबन्ध के समय शिवप्रतिष्ठा का उल्लेख केवल रामचरितमानस में मिलते हैं, रामाज्ञाप्रश्न तथा गीतावली में नहीं।

वाल्मीकि रामायण के अनुसार ही सीतात्याग तथा लव-कुश-जन्म की कथा रामाज्ञाप्रश्न तथा गीतावली में दी गई है। रामचरितमानस में इन प्रसंगों का उल्लेख नहीं मिलता।

गीतावली की समस्त रचना में कृष्ण-काव्य का प्रभाव अत्यन्त स्पष्ट है। इस कारण उत्तरकांड में राम सीता के दौलीत्सव, वसंतविहार आदि का वर्णन भी किया गया है। इस रचना में वाल्मीकि रामायण के गौडीय पाठ के अनुसार राम की शरण लेने के पूर्व विभीषण के अपने भाई कुबेर के पास जाने का वर्णन भी किया गया है।

अतः विषय-निर्वाह मात्र के दृष्टिकोण से इन ग्रन्थों का रचना-क्रम इस प्रकार प्रतीत होता है: रामानुजाप्रश्न, जानकीमंगल, गीताबली<sup>१</sup>, रामचरितमानस, कविताबली ।

२९५. हिंदी रामसाहित्य में रामचरितमानस सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए राम-कथा के विकास के दृष्टिकोण से इसके कथानक की विशेषताओं का उल्लेख अपेक्षित है। आध्यात्मिक विचारों के दृष्टिकोण से हम पर अध्यात्म-रामायण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा, लेकिन कथानक में भी अध्यात्म-रामायण का प्रभाव स्पष्ट है। अध्यात्म-रामायण की भाँति रामचरितमानस शिवपार्वती के सवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अध्यात्म-रामायण की दार्शनिक व्याख्याएँ तथा भक्ति सम्बन्धी अज (स्तोत्र आदि) प्रायः सब के सब किंचित् परिवर्तन सहित रामचरितमानस में भी मिलते हैं। अतः यह है कि रामचरितमानस में शास्त्रीय प्रतिपादन को इतना स्थान नहीं दिया गया है। अतः रामचरितमानस का प्रधान अधार अध्यात्म-रामायण सिद्ध होता है।

प्रस्तुत निबन्ध के दृष्टिकोण से रामचरितमानस के निम्नलिखित वृत्तान्त उल्लेखनीय हैं :

(१) अचतारहेतु : जयविजय की कथा, जालधर की पत्नी वृन्दा का शाप; नारद-मोह; मनु-शतरूपा की तपस्या; प्रतापमानु की कथा। इन कथाओं का तुलनात्मक अध्ययन १४वें अध्याय में किया जायगा (दे० अनु० ३६६-३७३)।

(२) अध्यात्म रामायण के अनुसार राम का अपनी माता को अपना विष्णु-रूप दिखलाना तथा उनकी बाललीला का कुछ वर्णन (दे० अध्यात्म रामायण १, ३, ४४-५३)। बाद में भगवद्गीता (१०.७) तथा भागवत पुराण (१०, ७, ३५-३८) के अनुकरण पर बालक राम का अपनी माता के सामने अपना विराट् रूप प्रकट करना। राम के जन्मोत्सव के अवसर पर शिव तथा भृशुण्डी का मानव रूप धारण कर अयोध्या का भ्रमण करना।

(३) मिथिला की वाटिका में राम तथा सीता का परस्पर दर्शन, (दे० आगे अनु० ४०३) तथा मिथिला में ही परशुराम का तैजोभग (दे० आगे अनु० ३५१)।

१. कालक्रम निर्धारित करने के लिए विषय-निर्वाह के अतिरिक्त शैली, बहिर्साक्ष्य आदि का भी ध्यान रखना आवश्यक है। इस प्रकार के सर्वतोमुखी अध्ययन के पश्चात् डॉ० माताप्रसाद गुप्त का विचार है कि गीताबली की रचना रामचरितमानस के बहुत बाद हुई थी। दे० तुलसीदास, तृतीय मं० पृ० २७६।

- (४) अयोध्या में तथा पपासरोवर के तट पर नारद का आगमन । नारद का स्थान अपेक्षाकृत महत्त्वपूर्ण है (दे० आगे अनु० ४४२ और ४७६) ।
- (५) राम के निर्वासन के लिये सरस्वती का अयोध्या भेजा जाना (दे० अध्यात्म रामायण २, ३, ४४-४६) ।
- (६) अयोध्याकाण्ड में केवट का वृत्तान्त अध्यात्म तथा आनन्द रामायण दोनों में इसका उल्लेख अहल्योद्धार के अनन्तर हुआ है ।
- (७) चित्रकूट की यात्रा करते हुये राम की एक तापम के द्वारा वन्दना । श्री रामचन्द्र शुक्ल का अनुमान है कि 'इस ढग में कवि ने अपने को ही तापस रूप में राम के पास पहुँचाया है' ।
- (८) भरत-राम-मिलाप के समय चित्रकूट में जनक का आगमन ।
- (९) माया-सीता का वृत्तान्त (दे० अनु० ५०५) ।
- (१०) नेतुवन्ध के समय शिव-प्रतिष्ठा (दे० अध्यात्म रामायण ६, ४) ।
- (११) हनुमान की हिमालय-यात्रा के वर्णन में हनुमान द्वारा कालनेमि-वध तथा भरत से उनकी भेट का वृत्तान्त ।
- (ये दोनों कथायें वाल्मीकिकृत रामायण के गौडीय पाठ में पाई जाती हैं) ।
- (१२) रात्रण-होम की कथा (दे० अध्यात्म रामायण ६, १०) ।
- (१३) भृशुडी-चरित । (दे० आगे अनु० ३८१) ।

२९६. रामचरितमानस के बहुत से संस्करणों में प्रक्षेप मिलते हैं जिनमें से कथानक के दृष्टिकोण से निम्नलिखित वृत्तान्त उल्लेखनीय है—बालक राम और हनुमान की सर्गाति; सुलोचना की कथा; अहिरावण-वध तथा लव-कुश-काण्ड के अन्तर्गत मीता-न्यास, लवकुश का जन्म तथा राम-सेना से युद्ध ।

### (आ) अन्य हिन्दी राम-साहित्य ।

२९७. हिन्दी राम-कथा साहित्य में तुलसीदास का एक प्रकार में एकाधिकार है—“तुलसी की प्रतिभा और काव्यकला इतनी उत्कृष्ट प्रमाणित हुई कि उनके बाद किसी भी कवि की रामचरित मधुंधी रचना उनके मानस की समानता में प्रसिद्धि प्राप्त न कर सकी ... मानस के सामने कोई भी प्रबन्ध-काव्य आदर की दृष्टि से न देखा गया” । अतः यहाँ पर अन्य हिन्दी राम-साहित्य का सिंहावलोकन मात्र

१. दे० हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० १४८ । दे० आगे अनु० ४३२ ।
२. डॉ० रामकुमार वर्मा, हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पृ० ३४४ ।

प्रस्तुत किया जा रहा है।<sup>१</sup> अन्त में दो अपेक्षाकृत महत्त्वपूर्ण प्रबंध काव्यों की कथानक सम्बन्धी विशेषताओं की सूची भी दी जायेगी (दे० अनु० ३०२-३०३)।

२९८. तुलसीदास के पूर्व का हिन्दी-राम-साहित्य अधिक विस्तृत नहीं है। रामानन्द के कुछ भक्ति-विषयक पद सुरक्षित हैं तथा सूरदास ने सूरसागर में वाल्मीकि रामायण के क्रमानुसार राम-कथा के माभिक स्थलों पर लगभग १५० पदों की रचना की है।<sup>२</sup> इनमें केवट-वृत्तान्त रामचरितमानस की भाँति वनवास की कथा में रखा गया है (अध्यात्म रामायण में यह वृत्तान्त अहल्योद्धार के अनन्तर ही मिलता है) और राम की सहायता करने जाने के पूर्व लक्ष्मण के द्वारा कुटी के चारों ओर रेखा खींचने का उल्लेख हुआ है। 'पृथ्वीराजरासो' के द्वितीय समय में दशावतार कथा के अन्तर्गत राम-कथा-विषयक लगभग १०० छन्द मिलते हैं,<sup>३</sup> जिनमें लका युद्ध के वर्णन को सर्वाधिक महत्त्व दिया गया है। ईश्वरदास\* (१६वीं शताब्दी पूर्वार्द्ध) के भरत-मिलाप में अयोध्या काण्ड की कथावस्तु का दोहा-चौपाइयों में वर्णन किया गया है और इसमें भरत को आदर्श दास्य भक्त के रूप में चित्रित किया गया है। इनके 'रामजन्म' तथा 'अंगवर्षज' भी सुरक्षित हैं; ये सब एक ही विस्तृत ग्रन्थ के अंश प्रतीत होते हैं, जिसमें रामचरितमानस का पूर्वाभास मिलता है।

२९९. तुलसीदास के समकालीन कवियों में रामसाहित्य की दृष्टि से अग्र-दास तथा नाभादास प्रमुख हैं। उनकी रचनाओं से पता चलता है कि तुलसीदास के समय में राम की माधुर्यभक्ति का प्रचलन हुआ था। अग्रदास के अष्टयाम में राम की रासक्रीडा का वर्णन है। इनकी 'पदावली' तथा 'ध्यानमंजरी' में मैत्री हुई भाषा के भक्तिपूर्ण पद मिलते हैं। अग्रदास के शिष्य नाभादास ने भी राम-सीता-चरित को लेकर 'अष्टयाम' की रचना की है।

भक्तिकाल की कुछ अन्य रचनाएँ इस प्रकार हैं :

- (१) रामचन्द्रिका (दे० आगे अनु० ३०२)।
- (२) सोडी मेहरवान का 'आदि रामायण' (हिन्दी मिश्रित पंजाबी)।

१. पाठक हिन्दी साहित्य कोश में "हिन्दी राम साहित्य" शीर्षक मेरे लेख में अपेक्षाकृत और विस्तार से इसी सामग्री का अवलोकन कर सकते हैं।
२. दे० ना० प्र० सभा सस्करण; दूसरा खण्ड, नवम स्कंध, पद ४६०-६१३।
३. कुछ सस्करणों में रामावतार-विषयक केवल ३८ छंद मिलते हैं। दे० विपिन-विहारी त्रिवेदी, पृथ्वीराजरासो में राम-कथा, मैथिलीशरण गुप्त अभिनन्दन ग्रंथ, पृ० ६७७।
४. दे० ना० प्र० पत्रिका, वर्ष ६१ (सं० २०१३), अंक १।

- (३) लालदास कृत अवध बिलास ।
- (४) राजस्थानी में एक विस्तृत जैनी रामसाहित्य मिलता है। समयमुन्दर की 'सीताराम चौपाई' विशेष रूप में उल्लेखनीय है। जैनेतर रचनाओं में लक्ष्मणायण १६वीं शताब्दी का है तथा नरहरिदास के अवतारचरित का रामावतार विषयक अश रामचरितमानस और रामचन्द्रिका पर निर्भर है।

३००. रीतिकाल का रामसाहित्य महत्त्वपूर्ण न होते हुये भी भक्तिकाल की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। यहाँ पर उन रचनाओं की नामावली देने की अपेक्षा, रीतिकालीन रामसाहित्य की सामान्य विशेषताओं का उल्लेख किया जायेगा।<sup>१</sup>

- (१) शृंगार की व्यापकता तथा कृष्णकाव्य की गहरी छाप उस साहित्य की प्रथम विशेषता है, विशेष रूप से रसिक सम्प्रदाय की रचनाओं में जहाँ राम तथा सीता की शृंगारमय चेष्टाओं का खुलकर वर्णन किया गया है।
- (२) रीतिकाल में प्रसिद्ध संस्कृत रामकाव्यों का अनुवाद भी हुआ है, उदाहरणार्थ बाल्मीकि रामायण, जैमिनी पुराण, रामाश्वमेध (पद्मपुराण), अध्यात्मरामायण, योगवासिष्ठ आदि के अनुवाद।
- (३) विद्वनाथ सिंह, केशव कवि, भगवन्त राय खीची, मनियार सिंह, गणेश, खुमान आदि कवियों ने हनुमद्भक्तिपरक रचनाओं की सृष्टि की है।
- (४) प्रारंभिक हिन्दी नाट्य साहित्य में कृष्ण-कथा की अपेक्षा राम-कथा को अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान मिला है।
- (५) खड़ी बोली गद्य की प्राचीनतम प्रौढ़ रचनाओं में से तीन ग्रन्थ रामसाहित्य में सम्बन्ध रखते हैं - रामप्रसाद निरंजनी का भाषा योग वासिष्ठ (१७४१ ई०), दौलतराम का पद्मपुराण (सन् १६६१ ई०; जैनी

१. रचनाकाल मवत् १६७७ तथा १६८३ के बीच में। इस रचना की सं० १७३८ की एक हस्तलिपि बीकानेर के भारतीय विद्यामन्दिर, शोध प्रतिष्ठान में सुरक्षित है। राजस्थानी में जैनी रामसाहित्य को विस्तृत सूची के लिये दे० श्री अगरचन्द नाहटा, राजस्थानी भाषा में राम-कथा सबधी ग्रन्थ। मैथिलीशरण गुप्त अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० ८४०-८४३।

२. गोविन्द रामायण के लिये दे० नीचे अनु० ३०३।

३. दे० डॉ० लक्ष्मी सागर वाण्येय, ईस्ट इण्डिया कंपनी-कालीन राम-काव्य, राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० ८२१-८२६।

राम-कथा) तथा सदल मिश्र का रामचरित (सन् १८०७ ई०; अध्यात्म रामायण का अनुवाद) ।

३०१. आधुनिक काल में राम-कथा विषयक गद्य तथा नाटक साहित्य उपेक्षणीय नहीं हैं, फिर भी इस काल का राम-काव्य कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण होता है। पुरानी धारा के कवियों ने रामभक्तिपरक मुक्तक काव्य के अतिरिक्त प्रबन्ध काव्यों की भी रचना की है; उदाहरणार्थ रसिकबिहारी का रामरसायन, रघुनाथदास का विश्राम-सागर (रामायण खण्ड), रघुराज सिंह का रामस्वयंवर, बाघेली कुँवर का अवध-विलास, बलदेवप्रसाद मिश्र का कोशल किशोर तथा मैथिली मे चंदा भा का रामायण। सन् १९०० ई० के बाद भी यह धारा प्रवाहित होती रही, उदाहरणः शिवरत्न शुक्ल का श्रीरामावतार, वंशीधर शुक्ल का राम मङ्ग्या तथा रामनाथ ज्योतिषी का श्रीरामचन्द्रोदय।

खड़ी बोली का रामकाव्य अपेक्षाकृत समृद्ध है। निम्नलिखित महाकाव्य साहित्यिक मूल्य रखते हैं. रामचरित उपाध्याय का रामचरित चिन्तामणि (सन् १९२० ई०); मैथिलीशरण गुप्त का साकेत (सन् १९२९ ई०), अयोध्या सिंह उपाध्याय का बेदेही बनवास (१९३९ ई०), बलदेव प्रसाद मिश्र कृत 'साकेत सन्त' (१९४६ ई०) केदारनाथ मिश्र कृत 'कँकेयी' (१९५० ई०), बालकृष्ण शर्मा नवीन कृत 'ऊम्मिला' (१९५७)। इन महाकाव्यों की तीन प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

- (१) मूलभूत दृष्टिकोण—अवतारवाद को कम महत्त्व दिया गया है अथवा राम को पूर्णतया मानव मात्र के रूप में चित्रित किया गया है।
- (२) भक्तिकालीन धार्मिक भावना और रीतिकालीन श्रृंगारिकता के स्थान पर नवीन सामाजिक तथा राजनीतिक आदर्श।
- (३) पूर्ववर्ती रामकाव्य के उपेक्षित अथवा कम विकसित पात्रों को नायकनायिका बनाने की प्रवृत्ति। उदा०—साकेत (लक्ष्मण-ऊम्मिला); साकेत-सन्त (भरत-माण्डवी); कँकेयी; ऊम्मिला।

३०२. गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन केशवदास की रामचन्द्रिका में कोई प्रबंधात्मकता नहीं मिलती। कथानक के दृष्टिकोण से इसमें निम्नलिखित विशेषताएँ पाई जाती हैं:

- (१) सीता-स्वयंवर में वाणासुर-रावण-संवाद, जो प्रसन्नराघव के आधार पर लिखा गया है।
- (२) मिथिला में परशुराम का तेजोभग।

- (३) रावण-वध के पश्चात् अयोध्या में लीटकर राम की विरक्ति तथा बसिष्ठ का समझाना (दे० २५वीं प्रकाश)। इस वृत्तान्त का आधार योगवासिष्ठ का राम-वैराग्य-वर्णन है।
- (४) महानाटक के आधार पर अगद के राम से बंर का उल्लेख (दे० २६वीं प्रकाश)।
- (५) पद्यपुराण तथा जैमिनीय अश्वमेध के अनुसार सीता-त्याग, लव-कुश का जन्म और राम-सेना से युद्ध (दे० आगे अनु० ७४९)।

३०३. सिक्खो के दसवें गुरु गोविन्द सिंह ने सन् १६९८ ई० में रामावतार कथा लिखी है, जो सन् १९५३ ई० में गोविन्द रामायण के नाम से प्रकाशित हुई है। कथानक की दृष्टि से निम्नलिखित विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं :

- राम-सीता का पूर्वानुराग (दे० अनु० ४०३) तथा अयोध्या में भी परशुराम का तेजोभग (दे० अनु० ३५१)।
- राम की सहायता करने जाने के पूर्व लक्ष्मण का कुटी के चारों ओर रेखा खींचना (अनु० ४९८)।
- सीता का नागमत्र पढ़कर राम तथा लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त करना (दे० अनु० ५८६)।
- वाल्मीकि द्वारा सीता के एक पुत्र की सृष्टि (दे० अनु० ७४३)।
- लव-कुश-युद्ध के अन्त में सीता का अपने सतीत्व की शपथ खाकर समस्त राम-सेना को जिलाना तथा राम के साथ अयोध्या के लिये प्रस्थान करना (दे० अनु० ७४८)।
- रावण-चित्र के कारण राम का सीता पर सन्देह तथा फलस्वरूप सीता का भूमि-प्रवेश (दे० अनु० ७५३)।

## मराठी

३०४. मराठी साहित्य की प्राचीनतम राम-कथा एकनाथ कृत भावार्थ रामायण है, जिसकी रचना १६वीं शताब्दी के अन्त में हुई थी। इसका उत्तरकाण्ड एकनाथ के किसी शिष्य द्वारा लिखा हुआ है। एक दन्तकथा के अनुसार एकनाथ ने युद्धकाण्ड के केवल ४४ अध्याय लिखे थे और गवब ने उसे पूरा किया था किन्तु आधुनिक मराठी समालोचकों का विश्वास है कि एकनाथ ने अहि-महिरावण-वृत्तान्त को छोड़कर



समस्त युद्धकाण्ड की रचना की है। अहि-महिरावण की कथा जयरामसुत द्वारा लिखी मानी जाती है।

एकनाथ के तीन मुख्य आधार वाल्मीकि, अध्यात्म तथा आनन्द रामायण हैं। भावार्थ रामायण के कथानक को वाल्मीकि के ढाँचे के अनुसार प्रस्तुत किया गया है; समस्त रचना में जो भक्ति का वातावरण है उसका आधार अध्यात्म रामायण है तथा उसकी वाल्मीकि से भिन्न नवीन सामग्री मुख्यतया आनन्द रामायण पर आधारित है।

एकनाथ वाल्मीकि रामायण के पश्चिमोत्तरीय पाठ से परिचित थे। भावार्थ रामायण के निम्नलिखित प्रसंग दक्षिणात्य पाठ में नहीं मिलते किन्तु गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठों में विद्यमान हैं: दशरथ की पुत्री सान्ता का उल्लेख (अनु० ३४३), तारा का शाप (अनु० ७२६); निकषा-वाक्य, रावण द्वारा विभीषण पर पाद-प्रहार, नारद-कुम्भकर्ण-संवाद और कालनेमि का वृत्तान्त (अनु० ५५८)। भावार्थ रामायण के कुछ अन्य प्रसंग केवल पश्चिमोत्तरीय पाठ में पाए जाते हैं; उदाहरणार्थ: विभीषण-निकषा-संवाद, नारद-वाक्य, कुम्भकर्ण-वाक्य और मन्दोदरी-केश-ग्रहण (दे० अनु० ५६०)। भरत-हनुमान-संवाद केवल गौडीय पाठ में विद्यमान है किन्तु एकनाथ ने सभवत आनन्द रामायण के आधार पर इस प्रसंग का वर्णन किया है (दे० अनु० ५८८)।

वाल्मीकि से भिन्न सामग्री जो समान रूप से भावार्थ रामायण तथा अध्यात्म-रामायण में विद्यमान है, वह आनन्द रामायण में भी पाई जाती है; सामग्री इस प्रकार है: नवजात शिशु राम द्वारा विष्णुरूप-प्रदर्शन (अनु० ३७५), लक्ष्मण का संयम (अनु० ४६१); रावण का छत्रभंग (अनु० ५८४); रावण की नाभि में अमृत की स्थिति (अनु० ५९८); रावण की मुक्ति (अनु० ५९९)।

एकनाथ के कथानक पर आनन्द रामायण की गहरी छाप है। निम्नलिखित सामग्री न तो वाल्मीकि रामायण और न अध्यात्म रामायण में मिलती है किन्तु वह समान रूप से आनन्द रामायण तथा भावार्थ रामायण में विद्यमान है—दशरथ-कौशल्या-विवाह की कथा (अनु० ३३७); पाषाणभूता अहल्या की कथा (अनु० ३४६); बालक राम की तीर्थ-यात्राएँ (अनु० ३८५); परशुराम से शिव-धनुष का सम्बन्ध तथा सीता द्वारा धनुष के उठाये जाने की कथा (अनु० ३९२); सीता-स्वयंवर में रावण की उपस्थिति (अनु० ३९७); अग्निजा सीता की जन्म-कथा (अनु० ४२२); भरत द्वारा मंथरा का पीटा जाना (अनु० ४३४); लक्ष्मण का कुटी के चारों ओर रेखा खींचना (अनु० ४९८); पार्वती द्वारा राम की परीक्षा

(अनु० ४७५); रावण की बहन कौचा का वध (अनु० ५३१); हनुमान का विभीषण को रामकीर्तन में संलग्न देखना (अनु० ५३८), लका मे हनुमान के उत्पात (अनु० ५३९); लंकादहन के वर्णन मे साम्य, विशेषकर रावण की दाढ़ी जल जाने की कथा (अनु० ५५२); हनुमान की वीरता विषयक ब्रह्मा का पत्र (अनु० ५५४); रेती की लंका मे विभीषण का अभिषेक (अनु० ५७१), नल (अनु० ५७६) तथा हनुमान (अनु० ५८०) का गर्व-निवारण, अगद का अपनी कुडलाकार पूँछ पर बैठना तथा मण्डप की छत राम के पाम ले आने की कथा (अनु० ५८५); मुलोचना (अनु० ५९४) तथा मन्वोदरी (अनु० ५९९) का सहगमन, अहि-महिारावण की कथा (अनु० ६१४), हनुमान के पुत्र की उत्पत्ति (अनु० ६१५); लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा के पुत्र का वध (अनु० ६३२), रावण-मन्वोदरी के विवाह की कथा (अनु० ६५०); दशरथ-यज्ञ के पायस से हनुमान की उत्पत्ति (अनु० ६७७); राम-कथा-श्रवण में सर्वत्र उपस्थित रहने की हनुमान द्वारा वरप्राप्ति (अनु० ७०२)।

एकनाथ के कुछ प्रसंग उपर्युक्त तीन आधार ग्रन्थो (अर्थात् वाल्मीकि, अध्यात्म और आनन्द रामायण) मे नही मिलते है; उदाहरणार्थ पउमचरित्र्य के अनुसार भरत तथा शत्रुघ्न का कैकेयी की सन्तान के रूप मे उल्लेख (अनु० ३४१); योग-वासिष्ठ के आधार पर राम के वैराग्य का वर्णन (अनु० ३८६), भरत की चित्रकूट यात्रा के प्रसंग मे भरत-लक्ष्मण युद्ध तथा वाल्मीकि द्वारा रामायण का गान (अनु० ४३४), जयन्त के स्थान पर मुदमुव गधर्व का उल्लेख (अनु० ४३९), अनावृष्टि के कारण इन्द्र के विरुद्ध युद्ध करते समय दगरथ की सहायता करने से कैकेयी की वर-प्राप्ति (अनु० ४४७); मधरा को उभाडने के उद्देश्य से ब्रह्मा द्वारा विकल्प का प्रेषण (अनु० ४५४), लक्ष्मण की जिसेन्द्रियता की कथा (अनु० ४६२), नृसिंह पुराण की भाँति शूर्पणखा के प्रसंग मे राम के पत्र का उल्लेख (अनु० ४६४), माया-सीता की कथा का एक नवीन रूप (अनु० ५०५), राम द्वारा हनुमान की पराजय (अनु० ५१२); बालि-सुग्रीव की जन्मकथा मे पार्वती के शाप का उल्लेख (अनु० ५१३), हेमा की कथा (अनु० ५२६); सीता-मन्वोदरी-सवाद (अनु० ५४४); हनुमान का रावण-सभा मे कुण्डलाकार पूँछ पर बैठना (अनु० ५५२); द्रुमकुल्य के स्थान पर महदैत्य का वध (अनु० ५७४, ५); सेतु के पत्थरों को राम के चरणस्पर्श से बचाने की युक्ति (अनु० ५८१), लक्ष्मण का वैराग्य (अनु० ६१०)।

अन्य काण्डो की अपेक्षा भावार्थ रामायण का उत्तरकाण्ड वाल्मीकीय उत्तरकाण्ड से अधिक साम्य रखता है। दक्षिणात्य पाठ के अनुसार भृगुशाप का उल्लेख किया गया है (दे० अनु० ७२५)। निम्नलिखित प्रसंग आनन्द रामायण पर आधारित प्रतीत होते हैं: स्त्रीराज्य में हनुमान का प्रेषण (अनु० ६८७); बलि के यहाँ रावण

की पराजय (अनु० ६५५); लव-कुश-युद्ध के पश्चात् सीता का राम के साथ अयोध्या लौटना (अनु० ७४७); सीता द्वारा मूलकासुर-वध (अनु० ६४१)। अन्य उल्लेखनीय नवीन सामग्री इस प्रकार है—सीता-वनवास का परोक्ष कारण (अनु० ७२८); कौपीन पहनकर हनुमान का जन्म (अनु० ६९७); कैंकेयी के दोषारोपण के कारण सीता का भूमि-प्रवेश (अनु० ७५३)।

३०५. शेष मराठी रामसाहित्य की एक विशेषता 'सीता स्वयंवर' नामक रचनाओं का बाहुल्य है। १६वीं शताब्दी में जनी जनादेन और विठा रेणुकानन्दन; १७वीं शताब्दी में रामदास, वेणाबाई, वामन और जयराम स्वामी वडगाँवकर; १८वीं शताब्दी में आनन्दतनय, गोसावीनन्दन, नागेश और विट्ठल ये सब किसी सीता-स्वयंवर के रचयिता माने जाते हैं।

सत्रहवीं शताब्दी की निम्नलिखित रचनाएँ उल्लेखनीय हैं : कृष्णदास मुग्दल का युद्धकाण्ड, मुक्तेश्वर का संक्षेप रामायण तथा अहि-महिरावण-वध; माधव स्वामी के दो रामायण; समर्थ रामदास का लघु रामायण, सुन्दरकाण्ड तथा युद्धकाण्ड; वेणाबाई का रामायण।

परवर्ती राम-साहित्य की सब से लोकप्रिय रचना श्रीधर कृत रामविजय (रचना-काल १७०३ ई०) है। इसके कथानक पर भावार्थ रामायण की गहरी छाप है। भावार्थ रामायण की प्रायः समस्त उपर्युक्त विशेषताएँ रामविजय में भी पाई जाती हैं। अहल्या-गौतम-विवाह की कथा ब्रह्मपुराण के अनुसार दी गई है। मोरोपन्थ (मराठी साहित्य के केशव) के ७४ रामायण प्रकाशित हैं; कथानक प्रायः वाल्मीकीय रामायण के अनुसार ही है। अमृतराव ओक ने १९वीं शताब्दी में शतमुद्र रामायण की रचना की है।

### गुजराती

३०६. गुजराती साहित्य में राम-कथा की अपेक्षा कृष्ण-कथा को अधिक महत्वपूर्ण स्थान मिला है। "श्रीकृष्ण के चरित्र से संबंधित महाभारत का अंश गुजरात के व्यावहारिक और कौतूहलप्रिय आत्मा को जितना खींच सका उतना रामायण खींच भी नहीं सका।" फिर भी गुजराती साहित्यकारों की सूची से

१. दे० प्रह्लाद चन्द्रशेखर दीवान जी, गुजरात में रामायण (कल्याण का रामायणांक पृ० ३९८)। उसी लेखक का गुजराती राम-साहित्य का सिंहावलोकन द्रष्टव्य है—ज० अं० इ०, भाग ४ (१९५४), पृ० ४६-५७। इसके अतिरिक्त श्री शान्ति आँकड़ियाकर, मध्यकालीन गुजराती साहित्य का तिथि-क्रम। साहित्य (पटना), वर्ष १०, अंक १, पृ० ५२-५७।

पता चलता है कि सन् १३७० ई० से सन् १८५२ ई० तक ३७२ कवियों में से पचास कवियों ने राम-कथा-विषयक साहित्य की सृष्टि की है।

कृष्ण-काव्य में प्रबन्धात्मकता का अभाव है। सभवतः इसके प्रभाव के कारण अधिकांश गुजराती राम-कथा-संबंधी साहित्य भी पदावली के रूप में अथवा आख्यान शैली में लिखा गया है। उदाहरणार्थ . आशाएत (असाईत) कृत रामलीला ना पदो (१४वीं श०); भालणकृत रामविवाह और रामबालचरित (१५वीं शताब्दी); मंत्री कर्मण कृत सीताहरण (१५वीं श०); भीमकृत रामलीला ना पदो (१५वीं श०); माडण वधाणे का रामायण (१५वीं श०); लावण्यसमय कृत रावण-मन्दीवरी संबाव (१६वीं श०); उद्भवकृत सीता-हनुमान-संबाव, नाकर का लवकुशाख्यान (१६वीं श०), प्रमानन्द कृत रणयज्ञ (१७वीं श०) तथा हरिदाम कृत सीता विरह (१७वीं श०) आदि।

भालण के पुत्रों उद्भव और विष्णुदास ने १६वीं शताब्दी में समस्त रामायण की रचना की थी लेकिन वह अधिक प्रचलित नहीं हो सकी है; आजकल गुजरात में १९वीं शताब्दी का गिरधरदासकृत रामायण सब से श्रेष्ठ माना जाता है और सबसे लोकप्रिय भी है।

आधुनिक काल में योगवासिष्ठ, अध्यात्म रामायण, रामचरितमानस आदि का गुजराती में अनुवाद किया गया है।

गुजरात प्रान्त में प्रचलित राम-कथा का निरूपण नर्मदा कृत रामायणनोसार (१९वीं श०) में मिलता है। इस रचना से पता चलता है कि बाल्मीकि रामायण तथा अध्यात्म रामायण के अतिरिक्त अन्य रचनाओं का भी गुजराती राम-साहित्य पर प्रभाव पड़ा, यद्यपि इन दोनों का प्रभाव प्रधान है। रामायणसार में सीता-त्याग के दो कारण बतलाये जाते हैं (धोवी वृत्तान्त तथा रावण-चित्र की कथा) तथा रामसेना से लव-कुश के युद्ध का भी वर्णन किया गया है।

### उर्दू-फ़ारसी रामायण

३०७. राम-कथा-विषयक उर्दू साहित्य अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। उर्दू साहित्य के इतिहासकार इसके संबन्ध में प्रायः मौन ही रहते हैं। १९वीं शताब्दी उत्तरार्द्ध के निम्नलिखित चार रामायण उल्लेखनीय हैं:

- (१) मुंशी जगन्नाथ खुस्तर का रामायण खुस्तर। इस सर्वोत्तम तथा सबसे लोकप्रिय उर्दू रामायण की रचना १८६४ ई० में हुई थी।
- (२) मुंशी शकरदयाल 'फह्रत' का रामायण मंज़ूम।
- (३) बक़िविहारी लाल 'बहार' का रामायण बहार।

(४) सूरज नारायण मेह्ता का रामायण मेह्ता ।

इनकी रचना के लिये रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण आदि प्रसिद्ध रामायणों का सहारा लिया गया है, फिर भी इन ग्रन्थों को स्वतंत्र-काव्य-ग्रन्थ मानना उचित होगा ।

३०८ उर्दू की अपेक्षा फारसी राम-कथा-साहित्य अधिक प्राचीन है । अकबर के आदेशानुसार अल बदायूनी (अब्दुल कादिर इब्न-इ-मुलूक शाह) ने सन् १५८४-१५८९ ई० में वाल्मीकि रामायण का पद्यानुवाद किया था ।

जहाँगीर के राज्यकाल में तुलसीदास के समकालीन गिरिधरदास<sup>१</sup> न वाल्मीकि रामायण का संक्षिप्त पद्यानुवाद प्रस्तुत किया था तथा मुल्ला मसीह ने अपने रामायण मसीही (दे० अनु० ३०९) की रचना की थी । शेष उपलब्ध फारसी राम-साहित्य इस प्रकार है रामायण फ़ौजी (साहजहाँ के समय का गद्यानुवाद), गोविन्द-पुत्र गोपाल कृत तर्जुमा-इ-रामायण<sup>२</sup> (१७वीं श० ई० उत्तरार्द्ध), खन्नाभान बेबिल का वाल्मीकि रामायण का पद्यानुवाद (औरगज़ेब के राज्यकाल में), लाला अमरसिंह का गद्यात्मक रामायण अमर प्रकाश (रचनाकाल १७०५ ई०) तथा लाला अमानत राय कृत वाल्मीकि रामायण का पद्यानुवाद (रचनाकाल सन् १७५४ ई०) ।

३०९ रामायण मसीही की रचना जहाँगीर के समय में मुल्ला मसीह द्वारा हुई थी, नवलकिशोर प्रेस (लखनऊ) ने उसे सन् १८९८ ई० में प्रकाशित किया था । मुल्ला मसीह मुजफ्फरनगर (उ० प्र०) के निकट किराना गाँव के निवासी थे । वह संभवतः ईसाई थे क्योंकि रामायण मसीही में ईसा मरियम आदि वाइबिल के पात्रों का उपमान के रूप में बहुधा उल्लेख हुआ है । इस रचना के ५००० छन्दों में दशरथ-यज्ञ में लेकर लव-कुश-युद्ध के बाद सीता ने भूमि-प्रवेश तक की समस्त राम-कथा प्रस्तुत की गई है । कथानक<sup>३</sup> की निम्नलिखित विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं

(१) पाषाणभूता अहल्या के उद्धार की कथा अण्ण्यकाण्ड के अन्तर्गत रखी गई है (दे० अनु० ३४८) ।

१ दे० इस्लामिक कल्चर (भाग ७ पृ० ६७३-६७८) ।

२ पर्सियन मनुस्क्रिप्ट कैंटालॉग एशियाटिक सोसायटी कलकत्ता (१९२६) न० ६८२ ।

३ मैं प्रो० हीरालाल चौपडा एम० ए० का आभारी हूँ जिन्होंने मेरे साथ बैठकर मुझे रामायण मसीही का कथानक समझा दिया है । एशियाटिक सोसायटी के कैंटालॉग में इस रचना का नाम हदीस-इ-राम-उ सीता रखा गया है, लेखक का नाम इस प्रकार है—सादुल्लाह कैरानबी तखल्लुस मसीह ।

- (२) विश्वामित्र सीता की जन्म-कथा सुनाते हैं; इसके अनुसार सीता एक मंजूषा में पाई गई थी (दे० अनु० ४१३)।
  - (३) रावणवध के पश्चात् मन्दोदरी स्वयं सीता को राम के पास ले जाती है (अनु० ६०२)।
  - (४) राम की बहन सीता को दशमुख रावण का चित्र अवित करने के लिए प्रेरित करती है और बाद में राम के पास जाकर कहती है कि सीता दिन-रात उसी चित्र की पूजा करती हैं। (दे० अनु० ७२३)।
  - (५) वाल्मीकि द्वारा सीता के एक पुत्र की सृष्टि (दे० अनु० ७४३)।
  - (६) लव-कुश-युद्ध में राम को भी पराजित तथा अचेत किया जाता है किन्तु वाल्मीकि जल छिड़क कर राम को होवा में लाते है (दे० अनु० ७४९)।
  - (७) राम-कथा का निर्वहण मौलिक प्रतीत होता है (दे० अनु० ७५३)।
-

## विदेश में राम-कथा

३१०. पिछले तीन अध्यायों से भारतीय सस्कृति में राम-कथा की व्यापकता का अनुमान किया जा सकता है। न केवल भारत में किन्तु निकटवर्ती देशों की संस्कृति तथा साहित्य में भी राम-कथा एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकी है, यह प्रस्तुत अध्याय से स्पष्ट होगा। राम-कथा की एक धारा उत्तर की ओर फैल गई, इसका प्रमाण हमें तिब्बती तथा खोतानी रामायणों में मिलता है। यह सामग्री अपेक्षाकृत प्राचीन है अतः इसका निरूपण प्रथम परिच्छेद में किया गया है। एक दूसरी धारा भारत से हिंदेशिया तक पहुँच गई थी और वहाँ से हिन्द-चीन और इसके पश्चात् श्याम तक तथा श्याम से ब्रह्मदेश तक फैल गई थी। इसका वर्णन द्वितीय तथा तृतीय परिच्छेदों में किया गया है। अन्त में पाश्चात्य वृत्तान्तों का भी किञ्चित् निरूपण किया जायगा। प्रस्तुत अध्याय में रामकथा के पात्रों के नाम प्रायः सस्कृत रामायण के अनुसार ही दिए जायेंगे।

### क—तिब्बत-खोतान

#### तिब्बती रामायण

३११. बौद्ध राम-कथा के निरूपण में अनामक आतकम् तथा दशरथ कथानम् का उल्लेख हुआ है, जिनका क्रमशः तीसरी और पाँचवीं शताब्दी ई० में चीनी भाषा में अनुवाद हुआ था (दे० ऊपर अनु० ५२-५३), अतः राम-कथा प्राचीन काल से उत्तर की ओर फैलने लगी थी। तिब्बती भाषा में भी अनेक हस्तलिपियाँ प्राप्त हैं जिनमें रावण-चरित से लेकर सीता-त्याग और राम-सीता-सम्मिलन तक की समस्त कथा मिलती है, जो सम्भवतः आठवीं अथवा नवीं शताब्दी की हैं।<sup>१</sup> प्रारम्भ में रावण-चरित का कुछ वर्णन किया गया है, अनन्तर विष्णु दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार लेने की प्रतिज्ञा करते हैं। दशरथ की केवल दो पत्नियाँ हैं, विष्णु कनिष्ठा के गर्भ से जन्म लेते हैं और रामन कहलाते हैं, तीन दिन बाद विष्णु के पुत्र ज्येष्ठा से जन्म लेते हैं और उनका नाम लक्षण रखा जाता है।

१. दे० एफ० डब्लू० थॉमस . ए रामायण स्टोरी इन तिबतन, इंडियन स्टडिज  
पृ० १९३। एम्० लालू . जर्नल अजियाटिक, १९३६, पृ० ५६०।

गुणभद्र के उत्तरपुराण की भाँति इनमें भी सीता रावण की पुत्री मानी जाती है। दशग्रीव की पटरानी के एक कन्या उत्पन्न होती है जिसके जन्मपत्र में लिखा है कि वह अपने पिता का नाश करेगी। फलस्वरूप वह समुद्र में फेंकी जाती है और बचने पर भारत के कृषकों द्वारा पाली जाती है, इसका नाम लीलावती है। (लेकिन अन्य हस्तलिपियों में 'सीता' नाम का भी उल्लेख है)।

दो पुत्रों में से किसे राज्य दिया जाय, अपने पिता की इस प्रकार की किकर्तव्य-विमूढ़ता देखकर रामन स्वेच्छा से किसी आश्रम में तपस्या करने जाते हैं, और लक्षण को राज्य दिलवाते हैं। कृषकों के अनुरोध से रामन तपस्या छोड़कर लीलावती (सीता) से विवाह करते हैं, और इसके बाद राज्यशासन ग्रहण करते हैं।

गुणभद्र में सीता का हरण राजधानी के पास के अशोकवन से होता है। तिब्बती रामायण में भी ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि इसका वर्णन वनवास के बाद मिलता है। इस वर्णन में विशेषता यह है कि रावण सीता का स्पर्ग नहीं करता तथा जटायु को रक्त से सने पत्थर खिलाकर मार डालता है (दे० आगे अनु० ५०२ और ४७१)।

अनन्तर सीता की खोज, वानरों से मैत्री, हनुमान का प्रेषण आदि रावण-वध तक का वर्णन मिलता है। इसमें निम्नलिखित विशेषताएँ पाई जाती हैं: वालि-सुग्रीवद्वय में माला के स्थान पर सुग्रीव की पुच्छ में दर्पण बाँधा जाता है, हनुमान आदि एक दूसरे की पुच्छ पकड़ कर स्वयंप्रभा की गुफा में प्रवेश करते हैं; रावण का मर्म-स्थान उसका अगूठा बताया गया है।

उत्तरकांड से सम्बन्ध रखने वाली सामग्री (धोबी के कारण सीता-त्याग, कुश की वाल्मीकि द्वारा सृष्टि तथा अन्त में राम-सीता सम्मिलन) कथा-सरित्सागर के अनुसार है, अन्तर यह है कि लव तथा कुश का जन्म सीता-त्याग के पूर्व होता है (दे० अनु० ७२१)।

तिब्बती रामायण गुणभद्र के उत्तरपुराण तथा बहुलकथा से प्रभावित प्रतीत होता है। गुणाढ्य की रचना अप्राप्य है लेकिन इसकी सदिप्त कथा से जो कथा-सरित्सागर में सुरक्षित है, पता चलता है कि तिब्बती रामायण का उत्तररामचरित इस पर निर्भर है।

### खोतानी रामायण

३१२. खोतान (पूर्वी तुर्किस्तान) की राम-कथा, जो नवीं शताब्दी ई० की मानी जाती है, तिब्बती रामायण से बहुत कुछ मिलती-जुलती है। फिर भी तिब्बती तथा खोतानी रामायण एक दूसरे का एकमात्र आधार नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक ओर तिब्बती रामायण का उत्तररामचरित खोतानी रामायण में नहीं पाया जाता



है और दूसरी ओर खोतानी रामायण में अनेक वृत्तान्त मिलते हैं, जिनका तिब्बती रामायण में अभाव है।<sup>१</sup>

तिब्बती तथा खोतानी रामायण की निम्नलिखित बातों में समानता पाई जाती है :

राम तथा लक्ष्मण, केवल दो भाइयों का उल्लेख ।

सीता (दशग्रीव की पुत्री) की जन्म-कथा ।

वनवास के समय सीता का विवाह ।

रावण का जटायु को रक्त से सने पत्थर खिलाने का वृत्तान्त ।

द्वन्द्वयुद्ध के समय विजेता वानर की पुच्छ में दर्पण बाँधे जाने की कथा ।

रावण के मर्मस्थान का उल्लेख ।

खोतानी रामायण की निम्नलिखित विशेषताएँ तिब्बती रामायण में नहीं मिलतीं .

(१) बौद्ध प्रभाव : प्रारम्भ में एक बौद्ध प्रस्तावना दी गई है, जिसमें शाक्यमुनि के बौद्धधर्म का प्रचार करने का उल्लेख है । जातको की शैली के अनुसार महात्मा बुद्ध वक्ता हैं तथा अन्त में राम-कथा तथा बौद्ध इतिहास के पात्रों की अभिप्रेता प्रकट करते हैं । राम-कथा के समय बुद्ध राम थे तथा मंत्रेय लक्ष्मण; अतः खोतानी रामायण में अवतारवाद का उल्लेख नहीं हुआ है । बौद्ध प्रभाव के कारण राम की चिकित्सा के लिए बौद्ध वैद्य जीवक को (जो जातकों में अत्यन्त प्रसिद्ध हैं) बुलाया जाता है, तथा आहत रावण का वध नहीं किया जाता है ।

(२) रावणचरित के बाद अर्जुन कार्तवीर्य सहस्रबाहु तथा परशुराम की कथा मिलती है, लेकिन इसमें राम दशरथ तथा परशुराम की कथा का मिश्रण हुआ है । दशरथ का पुत्र सहस्रबाहु परशुराम के पिता की धेनु चुराता है, जिसके कारण परशुराम सहस्रबाहु को मारते हैं । सहस्रबाहु के दो पुत्र राम और लक्ष्मण होते हैं; उनकी माता दोनों को बारह वर्ष तक पृथ्वी में छिपाती है और इसके बाद राम परशुराम का वध करते हैं ।

(३) राम और लक्ष्मण दोनों वन में वास करते हैं (निर्वाण का कारण नहीं दिया गया है) तथा दोनों सीता से विवाह करते हैं । यह उन देशों के बहुपतित्व की प्रथा का प्रभाव है ।

(४) सीताहरण के वृत्तान्त में सीता के रत्नधार्य कुटी के चारों ओर रेखाएँ खींची जाने का उल्लेख है ।

- (५) सम्पाति-वृत्तान्त का परिवर्तित रूप (दे० आगे अनु० ५२७) ।
- (६) सेतुबन्ध के समय काश्मीरी रामायण से मिलता जुलता एक वृत्तान्त मिलता है, जिसमें नल के फेंके हुए पत्थरों के न डूबने का कारण बताया गया है ।
- (७) आहत रावण कर चुकाने की प्रतिज्ञा करता है और उसको बचाया जाता है । (दे० अनु० ५९५) ।
- (८) अन्त में सीता के विषय में लोकापवाद तथा सीता के भूमिप्रवेश का निर्देश मिलता है ।

इन विशेषताओं के कारण तिब्बती रामायण खंतानी रामायण का आधार नहीं हो सकता है । महानाटक की राम-कथा में भी सीता के रक्षणार्थ रखाएँ खीची जाने का तथा रावण के वंश सुषेण के बुलाए जाने का उल्लेख हुआ है तथा काश्मीरी रामायण में भी नल की कथा मिलती है । अतः खंतानी रामायण के अधिकांश वाल्मीकि से भिन्न वृत्तान्त भारत में भी पाये जाते हैं । यह चतुर्थ भाग के विश्लेषण से और स्पष्ट होगा ।

## ख—हिन्देशिया

३१३. हिन्देशिया में राम-कथा प्राचीन काल से विदित है, इसका प्रमाण नवीं शताब्दी के एक शिव-मंदिर की पाषाण-चित्रालिपि से मिलता है । बाद में जावा तथा मलय में एक विस्तृत राम-साहित्य की रचना की गई है, जिसमें राम-कथा के दो भिन्न रूप मिलते हैं - (१) जावा के प्राचीन रामायण का रूप जो वाल्मीकीय कथा के अधिक निकट है तथा (२) अर्वाचीन राम-कथा जिसमें वाल्मीकि से बहुत भिन्नता पाई जाती है । इन दोनों रूपों का प्रस्तुत परिच्छेद में अलग वर्णन किया जाता है । इनकी सामान्य विशेषता यह है कि इसमें राम-भक्ति का भाव नहीं आया है । जावा के प्राचीनतम रामायण के रचयिता शैव थे तथा जिन दो मंदिरों में राम-कथा की विस्तृत चित्रालिपियाँ हैं वे भी दोनों शिव-मंदिर हैं ।

## हिन्देशिया की प्राचीन राम-कथा

३१४. हिन्देशिया की प्राचीनतम राम-सम्बन्धी साहित्यिक रचना रामायण कवचिन है, जो दसवीं शताब्दी का माना जाता है । आधुनिकतम खोज' से सिद्ध हुआ है कि योगीश्वर इसके रचयिता नहीं हैं । रामायण कवचिन का लेखक अज्ञात ही है ।

१. दे० सी० हॉयकास, दि ओल्ड जवनीस रामायण । एम्सटर्डैम, १९५८ ।

इस अनुवाद<sup>१</sup> से पता चलता है कि इसका मुख्य आधार भट्टिकाव्य<sup>२</sup> है। ग्यारहवें अध्याय में भट्टिकाव्य के कथानक की जितनी विशेषताओं का उल्लेख हुआ है वे सब रामायण ककविन में भी पाई जाती हैं। प्रारम्भिक बारह सर्गों का विभाजन भट्टिकाव्य के अनुसार हुआ है। अन्तर यह है कि भट्टिकाव्य का नवा अध्याय रामायण ककविन के नवें तथा दसवें अध्याय में विभक्त किया गया है। युद्ध के वर्णन में रामायण ककविन अधिक विस्तार में जाता है, जिससे भट्टिकाव्य के २२ सर्गों की सामग्री २६ सर्गों में दी गई है। दोनों रचनाओं में युद्धकांड की कथा तक का वर्णन किया गया है। फिर भी भट्टिकाव्य इसका एकमात्र आधार नहीं रहा है। अभिषेक नाटक तथा महानाटक के वृत्तान्त के अनुसार रावण सीता को निरुत्साहित करने के लिये राम तथा लक्ष्मण दोनों का मायामय शीर्ष दिखलाता है। गुणभद्र में एक पत्र का उल्लेख हुआ है जिसे राम हनुमान द्वारा सीता के पास भेज देते हैं। रामायण ककविन में सीता अभिज्ञान स्वरूप चूड़ामणि के अतिरिक्त एक पत्र भी हनुमान को देती हैं। फिर भी पत्र की कल्पना इतनी स्वाभाविक है कि इसके कारण गुणभद्र का प्रभाव मानना अनावश्यक है। ककविन की दो अन्य विशेषताएँ अन्यत्र नहीं मिलती। शबरी राम से अपनी कथा सुनाती हुई कहती है कि विष्णु ने वाराहावतार में मेरी माला खाई थी और मर गये थे, तब मैंने उनकी लाश खाई थी और फलस्वरूप मेरा मुख काला बन गया है। अनन्तर वह राम से अनुरोध करती है कि वह उसका मुख पोंछ कर उसे शुद्ध करे। इसके अतिरिक्त इन्द्रजित् की सात पत्नियों का उल्लेख है, जो अपने पति की ओर से युद्ध करती हैं और रणभूमि में मारी जाती हैं। रामायण ककविन की एक अंतिम विशेषता त्रिजटा का अपेक्षाकृत महत्त्वपूर्ण स्थान है (दे० आगे अनु० ५४७)।

३१५. जावा में एक प्राचीन उत्तरकांड भी मिलता है, जिसमें वाल्मीकीय उत्तरकांड की कथा का गद्य में वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त एक चरित रामायण<sup>३</sup> (अथवा कवि जानकी) भी पाया जाता है जिसके १०१ श्लोकों में रामायण के प्रथम छः कांडों की कथा के साथ व्याकरण के उदाहरण भी दिए गए हैं। अतः इस

१. दे० डच ओरियेंटल जर्नल, भाग ७३-९४।

२. श्रीमनमोहन घोष ने इस विशेषता की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया है। दे० जर्नल ऑव ग्रेटर इंडिया सोसाइटी भाग ३, पृ० ११३।

३. दे० संस्कृत टेक्स्ट्स फ्रॉम बाली पृ० ८९। गायकवाड़ ओरियेंटल सीरिज।

रचना पर भी **अद्वैतकाव्य** का प्रभाव स्पष्ट है। हिमाशुभूषण सरकार<sup>१</sup> जावा की प्राचीन भाषा (कवि) की तीन और रचनाओं का उल्लेख करते हैं :

- (१) ११वीं शताब्दी का **सुमनसालक ककविन** जिसका वर्ण्य विषय है इन्दुमती का जन्म, अज से उसका विवाह तथा दशरथ का जन्म।
- (२) प्राचीन उत्तरकाण्ड पर आधारित **हृरिभय ककविन** जिसमें विष्णु द्वारा माली तथा माल्यवान का वध वर्णित है (१३वीं श० के बाद)।
- (३) **अर्जुनविजय** (१४वीं श०), जिसकी आधिकारिक कथावस्तु अर्जुन सहस्रबाहु द्वारा रावण की पराजय है।

३१६. जावा का आधुनिक **सेरत राम** भी रामायण ककविन की भाँति वाल्मीकीय कथा से बहुत कुछ मिलता-जुलता है। प्रारम्भ में रावण चरित का वर्णन दिया गया है, जो रामायण ककविन में नहीं पाया जाता है। सेरत राम पद्य में है; कवि का नाम यस दि पुरा है।

३१७. मध्य जावा के परमवनन (परमब्रह्म) नामक स्थान पर नवीं शताब्दी ई० का एक शिव-मंदिर है। इस मंदिर के चारों ओर की ऊँची दीवारों पर रामायण की समस्त घटनाओं का पाषाण चित्र-लिपि में चित्रण किया गया है। इसमें जिस राम-कथा का वर्णन किया गया है वह बहुत कुछ वाल्मीकीय कथा से मिलती-जुलती है। अनेक गौण बातों में अवश्य रामायण ककविन से भिन्नता पाई जाती है, लेकिन हिन्देशिया की अर्वाचीन राम-कथा की अधिकांश विशेषताओं का इसमें निर्देश नहीं मिलता। **सेरी राम** के अनुसार भरत सीताहरण के बाद ही राम से मिलकर उनकी पादुकाएँ अयोध्या ले जाते हैं किंतु परमवनन में भरत-मिलाप का स्थान रामायण ककविन के अनुसार सीताहरण के पूर्व ही माना गया है। वाल्मीकीय रामायण से जो किञ्चित् विभिन्नता इसमें है, इसका प्रायः भारत में भी उल्लेख पाया जाता है। उदाहरणार्थ:

जटायु का राम को सीता की अगूठी देने का वृत्तान्त महानाटक में है।

मछालियों के मेनु नष्ट करने की कथा सेतुबंध तथा बालरामायण में भी पाई जाती है।

दशरथ की पुत्री (शान्ता) का उल्लेख रामायण के गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठ, भवभूति के उत्तररामचरित आदि में किया गया है।

लेकिन लक्ष्मण के तरकश में सुग्रीव के आंसुओं का पानी जमा होना तथा इस तरह सुग्रीव का पता लगाया जाना यह वृत्तान्त किसी प्राचीन भारतीय रचना में नहीं

१. दे० ईडियन इन्फ्लुएन्सेस ऑन दि लिटरेचर ऑव जावा एण्ड बाली। कलकत्ता १९३४, पृ० २२४-२३१।

मिलता। उपर्युक्त अधिकांश विशेषताएँ हिन्देशिया की अर्वाचीन राम-कथा में आ गई हैं।

३१८. पूर्व जावा के पनतरन नामक स्थान के चौदहवीं शताब्दी पूर्वार्द्ध के एक शिव-मंदिर में भी राम-कथा पाषाण चित्रलिपि में अंकित की गई है। यह कथा प्राचीन रामायण ककविन के कथानक से अभिन्न है, जिससे पता चलता है कि यद्यपि बाद में अर्वाचीन राम-कथा अधिक लोकप्रिय हुई फिर भी रामायण ककविन का भी कुछ महत्त्व बना रहा।

## हिन्देशिया की अर्वाचीन राम-कथा

### सिंहावलोकन

३१९. रामायण ककविन की प्राचीन परम्परा को छोड़कर हिन्देशिया में रामकथा का एक अर्वाचीन रूप भी प्रचलित है, जो अधिक लोकप्रिय है और जिसके आधार पर आधुनिक समय तक सुमात्रा और जावा में राम-कथा-सम्बन्धी नाटकों का अभिनय होता है। जावा का नाटक-साहित्य प्रायः 'सेरत काड' तथा 'राम केरिंग' पर आधारित है। बाली का "वायाग वोग" नामक नाटकों का पूरा वर्ग (जिसमें अभिनता बंहरा नहीं पहनते) केवल रामायण के दृश्य ही प्रस्तुत करता है। रामकथा का यह अर्वाचीन रूप हिन्देशिया से हिन्दचीन, इयाम और ब्रह्मदेश तक फैल गया है।

हिन्देशिया की अर्वाचीन राम-कथा<sup>१</sup> के विस्तृत साहित्य की सामग्री का परिचय निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

### (अ) मलयन अर्वाचीन राम-कथा।

हिकायत सेरीराम के तीन साहित्यिक पाठ :

- (१) रोरडा वान ऐसिंगा का संस्करण (एमस्टरडैम, १८५३)।
- (२) शोलाबेर का संस्करण (ज० रॉ० ए० सो० स्ट्रेट्स ब्रैच, भाग ७१, दिसम्बर १९१५)। इसका अंग्रेजी संक्षेप भी प्रकाशित है (दे० ज० रॉ० ए० सो० एस० बी, भाग ७०)।
- (३) राफल्स मलय हस्तलिपि का पाठ। (ज० रॉ० ए० सो० १९४४, पृ० ६६)। इसका कथानक प्रथम दो संस्करणों से अधिक भिन्न नहीं है।

१. प्रस्तुत परिच्छेद में मुख्यतया दो रचनाओं से सहायता मिली है।

- (१) डब्लू स्टुटरहाइम: राम लेयन्डन एन्ड रामरेलिफ्स इन इंडोनेशियन।
- (२) ए० बीसनिस : डी राम सागे बाई डेन मलाइयन।

प्रारंभ में रावण का पूर्वचरित दिया गया है, जो अन्य पाठों में नहीं मिलता। एक अन्य विशेषता यह है कि राम की आज्ञानुसार लक्ष्मण शूर्पणखा से विवाह करते हैं।

इसके अतिरिक्त सेरीराम पर निर्भर अनेक कथाएँ जनसाधारण में प्रचलित हैं।

उदाहरणार्थ:

- (४) **हिकायत महाराज रावण** (ज० रा० ए० सो०, मलयन ब्रेच, भाग ११)। इसका कथानक मेरीगम से बहुत मिलता-जुलता है, विशेषता यह है कि इसमें रावण की पुत्री सीता हुई सीता के वल्लस्थल पर रावण का एक चित्र रख देती है और इसके कारण राम सीता को त्याग देते हैं (दे० आगे अनु० ७२३)।
- (५) **श्रीराम**। डब्लू ई० मैक्सवेल द्वारा सम्पादित (दे० ज० रा० ए० सो० स्ट्रेंट्स ब्रेच, १८८६-८७)। इसमें हनुमान के जन्म से लेकर लका में राम की विजय तक की कथा हिकायत सेरीगम के आधार पर दी गई है।
- (६) **राम-कथा का पातानी पाठ** (दे० आगे अनु० ३२१)।
- (आ) **जावा की अर्वाचीन राम-कथा**।

(१) **राम कोलिया**। इस रचना में मलयन सेरा राम में कोई महत्वपूर्ण विभिन्नता नहीं मिलती।

(२) **सेरत काण्ड** (दे० आगे अनु० ३२२)।

इसके अतिरिक्त जावा में और बहुत सी काण्ड नामक रचनाएँ मिलती हैं लेकिन डॉ० स्टुटरहाइम सेरत काण्ड को जावा की अर्वाचीन राम-कथा का वास्तविक और सर्वाधिक प्रचलित रूप मानते हैं।

इस साहित्य के रचनाकाल का ठीक निर्णय नहीं हुआ है। अधिकांश विशेषज्ञों का मत है कि इसकी रचना पंद्रहवीं या सोलहवीं शताब्दी में हुई थी।<sup>१</sup> फिर भी सम्भव है इसके पहले सेरी राम आदि की कुछ सामग्री प्रचलित हुई हो। सेरी राम की प्राचीनतम हस्तलिपि १६३३ की है।

हिंदोशिया के अर्वाचीन राम-कथा-साहित्य के इस-सिंहावलोकन के पश्चात् मुख्य रचनाओं का परिचय दिया जाता है।

१. आर० विन्स्टेड, दि मलय वर्शन ऑफ दि रामायण। वी० सी० लॉ वाल्यूम, भाग २, पृ० १।

## हिकायत सेरी राम

३२०. इस विस्तृत रचना में रावण-चरित से लेकर सीतात्याग के बाद राम-सीता-सम्मिलन तक की कथा वर्णित है। निबन्ध के अन्तिम भाग में वाल्मीकि से मिश्र प्रसंगों का तुलनात्मक अध्ययन किया जायगा। यहाँ सारी रचना का ढाँचा तथा प्रमुख विशेषताएँ प्रस्तुत करनी हैं। सेरी राम का कथानक निम्नलिखित भागों में विभक्त किया जा सकता है :

(१) रावण-चरित। बुराचार के कारण रावण अपने पिता द्वारा निर्वासित किया जाता है।<sup>१</sup> रावण-निर्वासन के इस वर्णन में सिंहलद्वीप के विजय नामक प्रथम राजा की कथा का मिश्रण हुआ है (विजय की कथा महावंश के छठें सर्ग में मिलती है)। सिंहलद्वीप में पहुँचकर रावण तपस्या करके (नबी अदम के अनुरोध से) अल्लाह से चार लोकों का राज्याधिकार प्राप्त करता है। प्रत्येक लोक की किसी राजकुमारी से विवाह करके रावण अनेक पुत्रों को उत्पन्न करता है, जो बाद में राजा बन जाते हैं :

• इन्द्रजित्—देवलोक का राजा

पाताल महरायन (महिरावण)—पाताल का राजा

गंगा महासूरी—नागलोक का राजा

इसके बाद रावण पृथ्वी पर लौट कर लकापुरी बसाता है और इसमें अपने भाइयों कुम्भकर्ण, विभीषण तथा द्यूषणखा के पति बर्गासीगा को क्रमशः सेनापति, ज्योतिषी तथा प्रधान गुप्तचर के पद पर नियुक्त करता है।

(२) राम का जन्म। दशरथ के मद्रूदारी तथा बलियादारी के साथ विवाह के वर्णन के बाद उनके पुत्रेष्टि यज्ञ का उल्लेख है, जिसमें एक काक बलियादारी का पायस चुराकर उसे लंका ले जाता है (दे० अनु० ३५७)। अनन्तर अक्षमुनि-पुत्र-वध और (राम, लक्ष्मण, वर्दन, चित्रदन) चार पुत्रों तथा (कीकवी नामक) एक पुत्री का जन्म वर्णित है।

(३) सीता का जन्म और विवाह। मद्रूदारी के सौन्दर्य का वर्णन सुनकर रावण उसे दशरथ से माँगता है तथा एक माया-मद्रूदारी को लंका ले जाता है, जिसके गर्भ से सीता उत्पन्न होती है (दे० आगे अनु० ४२८)। अशुभ जन्मपत्र के कारण सीता समुद्र में फेंकी जाती है तथा महारिसि (महर्षि) कली द्वारा पाली जाती है। महारिसि कली के यहाँ सीता के स्वयंवर में रावण और अन्य राजाओं के असफल प्रयत्नों के पश्चात्

१. रावण का पूर्व इतिहास राफल्स मलय हस्तलिपि में वर्णित है; दे० अनु० ६४५, ६४८।

राम परीक्षा में सफल होकर सीता से विवाह करते हैं (दे० आगे अनु० ३९९) । विश्वामित्र-आगमन तथा परशुराम-तेजोभंग के वृत्तान्त भी दिए गए हैं ।

(४) **राम का बनवास** । बलियादारी के अनुरोध से दशरथ उसके पुत्र बर्बन (भरत) को राज्य देने का निश्चय करते हैं । राजा के सोते समय बलियादारी राम को बुलाकर दशरथ के इस निश्चय का समाचार सुनाती है । यह सुनकर राम प्रसन्न होकर ऋषि बनने के लिए सीता और लक्ष्मण के साथ वन को प्रस्थान करते हैं । वन में पहुँच कर और कुटी बनाकर राम कुश-वास से सात लड़कियों तथा पाँच लड़कों की सृष्टि करते हैं । ये नौकर बनकर घर का काम करते हैं, जिससे राम, लक्ष्मण, सीता निर्विचिन्त होकर साधना कर सकते हैं ।

रावण द्वारा शूर्पणखा के पति बर्गसीगा के वध के बाद उसका पुत्र दर्सासीगा अलीकिक खग सिद्ध करने के लिए तपस्या करने जाता है । अनन्तर बालि-रावण-युद्ध और अगद (मदोदरी के पुत्र) का जन्म वर्णित है । इसके बाद अंजनी-बालि-सुग्रीव की उत्पत्ति (तीनों गौतम की पत्नी के संतान हैं) तथा हनुमान्-जन्म का वर्णन किया गया है । इसके अनुसार हनुमान् राम के वीर्य से उत्पन्न हुए हैं (दे० आगे अनु० ६७५) ।

(५) **सीता का हरण और खोज** । किसी दिन लक्ष्मण तपस्या करते हुए शूर्पणखा के पुत्र दर्सासीगा का संयोग से वध करते हैं (दे० आगे अनु० ६३२) । बाद में शूर्पणखा अपने पुत्र से मिलने आती है और लक्ष्मण द्वारा विरूपित होकर अपने भाई रावण के पास जाती है । शेष कथानक बहुत कुछ वाल्मीकि के क्रम के अनुसार है । बालि के मित्र सम्बूरान की कथा हिन्दचीन तथा पयाम में भी मिलती है (दे० अनु० ५२४) ।

(६) **युद्ध** । युद्धकांड की सामग्री में वाल्मीकि से कोई महत्त्वपूर्ण अन्तर नहीं पाया जाता है । बंगाली रामायण की भस्मलोचन की कथा तथा महिरावण की कथा दोनों यहाँ भी किञ्चित् परिवर्तन सहित दी गई हैं । इन्द्रजित् की पत्नी के सती बनने का तथा रावण के मर्मस्थान (दाहिने कान के पीछे उसका एक छोटा ग्यारहवाँ सिर) का भी उल्लेख किया गया है । युद्ध के बाद आहत रावण का शरीर सेरन्वीव पर्वत के तल में पड़ा रहता है और सारी सेना उसको देखने जाती है । विभीषण (जो राम के भन्त्री बन जाते हैं) राम की बहन कीकवी देवी से विवाह करते हैं । एक और विशेषता यह है कि कुंभकर्ण-वध के बाद तथा इन्द्रजित् वध के बाद भी युद्ध चालीस-चालीस दिन के लिए स्थगित किया जाता है ।



(७) सीता-त्याग तथा राम-सीता सम्मिलन । इस अन्तिम भाग में रावण के चित्र के कारण सीता-त्याग का वर्णन मिलता है (दे० आगे अनु० ७२३) । अनन्तर लव के जन्म तथा महर्षि कलि द्वारा कुश की सृष्टि को कथा दी गई है । कुश-लव के लक्ष्मण से युद्ध के बाद राम-सीता-सम्मिलन वर्णित है । अंत में कुश और लव तथा वानर-सेना के अनेक सेनापतियों के राक्षसियों से विवाह करने का उल्लेख किया गया है ।

हिन्देशिया की प्राचीन राम-कथा के मुख्य आधार के विषय में संदेह की गुजायश नहीं होती (दे० अनु० ३१४) किन्तु सेरी राम का मूलस्रोत निर्धारित करना असंभव सा प्रतीत होता है । फिर भी इतना स्पष्ट है कि सेरी राम में, जो वाल्मीकि से भिन्न बहुसंख्यक प्रसंग मिलते हैं, उनका आधार प्रायः भारतीय ही है । जैनी (अनु० ४४६, ५८५, ६०५, ६३२, ६५५ और ७२३) तथा बंगाली (अनु० ३४३, ३८८, ५५२, ५७६, ५९८, ६१३, ६१४ और ७२३) राम-कथाओं का प्रभाव निर्विवाद है । उडिया राम-साहित्य, रगनाथ रामायण तथा कम्ब रामायण अर्थात् भारत के पूर्वी तट की रचनाओं का प्रभाव भी सेरी राम पर पड़ा है (दे० अनु० ४५४, ४७४, ५१२, ५१४, ५१९, ५५०, ५७८, ५८३, ५८५, ५९१ और ६७५) । सेरी राम के अनेक प्रसंग आनन्द रामायण (अनु० ३५०, ४२८, ५१७, ५३९ और ५५२), कथासरित्सागर (अनु० ७४५, ७५६), मैरावणचरित (अनु० ६१४) अथवा तोरवे रामायण (अनु० ५३१) में विद्यमान हैं । सेरी राम पर रामायण ककविन (अनु० ४६६, ५७४, और ५८३) तथा मुसलमानी धर्म (अनु० ३३६, और ६४९) का जो प्रभाव पड़ा है, वह एक प्रकार से अनिवार्य ही था ।

### पातानी राम-कथा

३२१. पातानी रामकथा' में सेरी राम के अनेक पात्रों का महासिकु नामक तपस्वी में एकीकरण हुआ है । प्रारंभ में उनकी पत्नी की चार सन्तानों का वर्णन है : एक पुत्री, बालि, सुप्रीव और बिलो । दूसरे भाग में महासिकु की दत्तक पुत्री मंडुदकी की कथा मिलती है । मंडुदको रावण से विवाह करती है और उसके गर्भ से सीता का जन्म होता है । सीता के त्यक्त किये जाने पर महासिकु उसे पुत्री-स्वरूप ग्रहण करते हैं । उनका एक और सेरावी नामक (राम) दत्तक पुत्र है, जिसको महासिकु सीता पर अनुरक्त होने के कारण घर से निकालते हैं ।

१. रायल बसेवियन सोसाइटी का जयन्ती ग्रन्थ । बसेविया (१९२९), पृ० ४२३ ।

अनन्तर सीता के स्वयंवर का वर्णन दिया गया है, जिसमें रावण भी आया था। शेष कथानक सेरी राम के अनुसार है। लेकिन इसमें केवल रावण-वध तक की कथा मिलती है।

### जावा का सेरत कांड

३२२. सेरतकांड की राम-कथा सेरी राम से बहुत भिन्न नहीं है। इसमें विशेषता यह है कि इसकी विस्तृत भूमिका में नवी अदम की कथा के बाद जावा के प्राचीन राजाओं की वंशावली के वर्णन के अन्तर्गत देवताओं की अनेक पौराणिक कथाएँ मिलती हैं।

अनन्तर रावण-चरित का वर्णन किया गया है, जिसमें वाल्मीकि उत्तरकांड का प्रभाव स्पष्ट है। क्रमानुसार निम्नलिखित विषय पाए जाते हैं : राक्षस-वंशावली के बाद रावण का जन्म, निर्वासन (सेरी राम के अनुसार), तप, वरप्राप्ति (सेरी राम के अनुसार) तथा वैश्रवण पर विजय। अपने पिता की पराजय के फलस्वरूप विल्मनरज (विमान), वैश्रवण का पुत्र, रावण का वाहन बन जाता है।

अनन्तर रावण के विष्णु पर विजय प्राप्त करने तथा विष्णु के अनेक अवतारों से (परविजय, कार्तवीर्य आदि) युद्ध करने का वर्णन किया गया है। रामावतार का वर्णन इस प्रकार है। विष्णु, वासुकी तथा श्री अवतार लेने के उद्देश्य से पृथ्वी की ओर प्रस्थान करते हैं। मार्ग में रावण उनसे युद्ध करता है, विष्णु तथा वासुकी भागकर दशरथ के पुत्रों के रूप में प्रकट होते हैं। रावण से डरकर श्री अपने को एक अंडे में बदल देती है। रावण इसे खाता है और फलस्वरूप श्री मन्दोदरी के गर्भ से जन्म लेती है।

शेष कथानक बहुत कुछ सेरी राम की कथा से मिलता-जुलता है। सीतात्याग (रावण-चित्र के कारण) के पश्चात् सीता के केवल एक पुत्र बुतलव का उल्लेख है, जो लक्ष्मण आदि से युद्ध करता है। अनन्तर राम-सीता का सम्मिलन होता है। लव को राज्यभार सौंपकर राम (सीता, लक्ष्मण आदि के साथ) तपस्या करने जाते हैं। अंत में एक अनल नामक वानर अपने को अग्नि में बदल देता है और इसमें प्रवेश कर राम, सीता, लक्ष्मण, विभीषण, सुग्रीव, अंगद आदि सब भस्मीभूत हो जाते हैं। हनुमान् को आहूत रावण पर पहरा देने का कार्य दिया गया था। अतः वह दूसरों के साथ अग्नि में प्रवेश नहीं करते।

## ग—हिन्दु-चीन, इयात्म, ब्रह्मदेश

### हिन्दु-चीन

३२३. इतिहासज्ञों का अनुमान है कि पहली शताब्दी ई० से लेकर भास्तीय व्यापारी अपने यहाँ की संस्कृति का प्रचार हिन्दु-चीन में करने लगे थे। फलस्वरूप चम्पा राज्य की स्थापना हुई थी, जिसके सातवीं शताब्दी के शिला-लेखों से पता चलता है कि बाल्मीकि रामायण का वहाँ पर्याप्त प्रचार हुआ होगा। राजा प्रकाशवर्म (६५३-६७८) के समय के एक बाल्मीकि-मंदिर में बाल्मीकि की एक मूर्ति मिली है। इस मंदिर के एक शिलालेख में श्लोकोत्पत्ति तथा बाल्मीकि के विष्णु-अवतार होने का उल्लेख किया गया है<sup>१</sup> :

यस्य शोकात् समुत्पन्नं श्लोकं ब्रह्मभिपूज (ति)  
विष्णोः पुंसः पुराणस्य मानुषस्यात्मरूपिणः ॥

उस समय का कोई साहित्य सुरक्षित नहीं है। अनाम में अठारहवीं शताब्दी की एक संक्षिप्त राम-कथा का प्रचार था, जिसका कथानक बाल्मीकि रामायण से बहुत भिन्न नहीं है। अन्तर यह है कि दशानन का राज्य अनाम के दक्षिण भाग में तथा दशरथ का राज्य अनाम के उत्तरीय भाग में माना जाता है और रावण सेना सहित दशरथ के राज्य पर आक्रमण कर सीता को हर लेता है।<sup>२</sup>

छठी शताब्दी ई० में एक सामन्त ने चम्पा के राजा के विरुद्ध विद्रोह कर कम्बोदिया (स्मेर) में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था।<sup>३</sup> वहाँ सैकड़ों मन्दिरों के खण्डहर मिलते हैं, जिनका काल नवीं और तेरहवीं शताब्दी के बीच का माना जाता है। प्राचीन राजधानी अंगकोरवाट के एक विशाल मन्दिर में रामायण, महा-भारत तथा हरिबंश की कथाओं को लेकर बहुत से पाषाण-चित्र अंकित किए गए हैं, जिनपर जावा की कला का प्रभाव स्पष्ट है। इस मंदिर का समय ११वीं-१२वीं श० ई० है।

३२४. स्मेर साहित्य की सबसे कलात्मक रचना रामकेर्त्त<sup>४</sup> है, जिसका रचयिता तथा रचनाकाल अज्ञात है। प्राचीनतम हस्तलिपियाँ १७वीं शताब्दी की हैं किन्तु

१. दे० बुलेटिन एकोल फ्रांसेस एक्सट्रेम ओरियन, भाग २८, पृ० १४७।  
जर्नल ओरियेन्टल रिसर्च, भाग ६, पृ० ११७।
२. दे० बुलेटिन एकोल फ्रांसेस एक्सट्रेम ओरियन, भाग ५, पृ० १३८।
३. दे० ए० कुबो : सर आशुतोष मुकर्जी बाल्युम, भाग ३, पृ० १ आदि।
४. इसका उच्चारण रेआमकेर अथवा रिधावके होता है।

के अपूर्ण हैं। कथानक विश्वामित्र-यज्ञ के वर्णन से प्रारम्भ होकर इन्द्रजित्-वध पर रूक जाता है (सर्ग १-१०)। इसके बाद सीता-त्याग से लेकर लव-कुश-युद्ध तक का वर्णन ६ सर्गों में किया गया है (दे० सर्ग ७५-८०) किन्तु रामकियेन (श्याम के रामायण) से तुलना करने पर अनुमान किया जा सकता है कि सर्ग ८० रामकेर्त्ति का अंतिम सर्ग नहीं है।

रामकेर्त्ति के फ्रेंच अनुवाद<sup>१</sup> से इसकी निम्नलिखित विशेषताएँ निर्धारित की जा सकती हैं

- (१) लेखक कोई धार्मिक बौद्ध है, जो राम को नारायण का अवतार मानते हुये भी, उनको बोधिसत्त्व की भी उपाधि देता है तथा कई स्थलों पर बौद्ध शब्दावली का प्रयोग करता है।
- (२) यद्यपि रामकेर्त्ति पर सेरी राम की गहरी छाप है, फिर भी लेखक ने वाल्मीकि रामायण तथा सेरी राम की कथाओं का समन्वय करने का प्रयत्न किया है, फलस्वरूप सेरी राम की अपेक्षा रामकेर्त्ति वाल्मीकीय रामायण के अधिक निकट है। सेरी राम में दशरथ की केवल दो रानियों का उल्लेख है। रामकेर्त्ति में तीनों के नाम वाल्मीकि के अनुसार ही दिये गये हैं। रामकेर्त्ति में रावण की सीता-स्वयंवर में उपस्थिति की ओर संकेत नहीं मिलता, सेरी राम के अनुसार रावण भी इसमें आया था। सेरी राम में राम स्वेच्छा से वन के लिये प्रस्थान करते हैं, जब कि रामकेर्त्ति में कैंकसी (कैंकेयी) के अनुग्रह से राम को निर्वासित किया जाता है। सेरी राम में लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा के पुत्र के वध का वृत्तान्त मिलता है जिसका उल्लेख रामकेर्त्ति में नहीं है। क्लेर रचना में सीता जनक की दत्तक पुत्री मानी जाती है तथा राम द्वारा परित्यक्त होने पर वाल्मीकि के आश्रम में निवास करती है। सेरी राम में सीता महारेसि कली की दत्तक पुत्री है तथा त्याग के बाद उनके यहाँ रहती हैं। सेरी राम में हनुमान् राम के पुत्र मान जाते हैं किन्तु रामकेर्त्ति के अनुसार वह वायु और अजना की सन्तान है।
- (३) निम्नलिखित सामग्री का मिलता-जुलता रूप मलयन सेरी राम में भी मिलता है जिससे स्पष्ट है कि क्लेर रामायण तथा सेरी राम का गहरा सम्बन्ध है।

१ मैं अनुवादक श्री एफ० मारटिनी का आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे अपनी अप्रकाशित पाण्डुलिपि निरीक्षणार्थ दी है।

- एक असुर, काक का रूप धारण कर विश्वामित्र-यज्ञ भंग करने का प्रयत्न करता है और विश्वामित्र उसे मारने के लिये राम तथा लक्ष्मण को धनुष-बाण देते हैं (दे० अनु० ३८९) ।
- जटायु-रावण-युद्ध में सीता की अँगूठी का उल्लेख (दे० अनु० ४७१) ।
- लक्ष्मण द्वारा १४ वर्ष तक नौद तथा भोजन का त्याग (दे० अनु० ४६१) ।
- लक्ष्मण-हनुमान् का युद्ध (दे० अनु० ५१२) ।
- सुग्रीव को अपनी सामर्थ्य का विश्वास दिलाने के लिये राम सात तालो का एक ही बाण से भेदन करते हैं । ये सात ताल महाराज नाग की पीठ पर स्थित हैं (दे० अनु० ५१६) ।
- सम्बूरानू का वृत्तान्त जिसे हनुमान् राम के पास ले आते हैं । (दे० अनु० ५२४) ।
- सेतु बाँधन के समय मछलियों का उत्पात । (दे० अनु० ५७८) ।
- रावण के चित्र के कारण सीता-त्याग (दे० अनु० ७२४) । वाल्मीकि द्वारा सीता के एक पुत्र की सृष्टि (दे० अनु० ७४४) । राम-सेना से सीता के पुत्रों का युद्ध (अनु० ७५०) ।

(४) कथा का निर्वहण मौलिक है (दे० अनु० ७५७) ।

## श्याम

३२५ श्याम देश में राम-कथा राम कियेन (अर्थात् रामकीर्ति) के नाम से विख्यात है । अपेक्षाकृत प्राचीनकाल से वहाँ के नाटकों में राम-कथा का महत्वपूर्ण स्थान रहा है । प्रारम्भिक नाटकों के दो वर्गों (कोन और रबम) का एकमात्र विषय राम-कथा ही था और एक तीसरा वर्ग (नग अर्थात् छाया-नाटक) प्रधानतया राम-कथा के दृश्य प्रस्तुत करता था ।<sup>१</sup> १८वीं शताब्दी में नाटकों के एक नवीन रूप का प्रचलन हुआ (वेयुक रॉय), जिसकी कथावस्तु रामकियेन पर आधारित थी । १८वीं तथा १९वीं शताब्दी के राम-कथा विषयक नाट्य-साहित्य की कुछ सामग्री सुरक्षित है ।

१ दे० पी० इवाइसगुट, एट्टुड सुर ला लिटेराटुर सियामाँइस (पेरिस, १९५१), पृ० ६०-६१ ।

राम कियेन की प्राचीन हस्तलिपियाँ १७वीं शताब्दी की हैं। इस रामायण के दो भिन्न संस्करण १८वीं शताब्दी उत्तरार्द्ध में निकाले गये हैं तथा इसका एक तीसरा संस्करण नाटक के रूप में १९वीं श० पूर्वार्द्ध में प्रकाशित हुआ था। बांग्कोक के बिरला ओरियेंटल सीरीज़ में रामकियेन का अंग्रेजी संक्षेप रामकीर्ति के नाम से प्रकाशित किया गया है। अगले अनुच्छेद में जो रामकियेन के कथानक का विश्लेषण किया गया है, वह उस रामकीर्ति के दूसरे संस्करण (सन् १९४१) पर निर्भर है।

१७वीं शताब्दी की अनेक छोटी रचनाओं का उल्लेख मिलता है, जिनकी कथावस्तु रामायण की किसी घटना से सम्बन्ध रखती है; उदाहरणार्थ : वालि का सुग्रीव को उपदेश देना कि किस प्रकार राम के दरबार में व्यवहार करना चाहिए तथा दशरथ का राम को राजनीति तथा धर्म के विषय में शिक्षा देना।

१८वीं तथा १९वीं शताब्दी में कई कवियों ने रामकियेन नामक महाकाव्यों की रचना की है; उदाहरणार्थ धोनबुरी, फुत्तायोत्फा (इनका रामकियेन सर्वाधिक विस्तृत है) तथा फुत्तालेउत्ला।

३२६. रामकियेन का संक्षिप्त अंग्रेजी रूपान्तर ४५ अध्यायों में विभक्त किया गया है। प्रथम अध्याय में अयोध्या के राजवश का परिचय मिलता है तथा द्वितीय अध्याय में राम तथा उनके भाइयों के जन्म का वर्णन दिया गया है। अनंतर लंका का निर्माण, रावण के कृत्य तथा राम-कथा के अनेक पात्रों की जन्मकथा मिलती है; अर्थात् वालिसुग्रीव, हनुमान्, अगद और सीता (अध्याय ३-११)। इसके बाद विष्वामित्र के यज्ञ से लेकर सीता-त्याग के पश्चात् राम-सीता-सम्मिलन की समस्त कथा प्रस्तुत की गई है (अध्याय १२-४५)। रामकियेन के कथानक की निम्नलिखित विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं :

- (१) रामकियेन के पात्र सबके सब श्याम देश के निवासी हैं तथा रामायण का घटना-स्थल श्याम में ही माना गया है।
- (२) इसका मुख्य आधार क्मेर भाषा का रामकेर्ति है। दोनों में कथा का निर्बंधन सदृश है (दे० ७५७)। रामकेर्ति की भाँति रामकियेन भी सेरी राम की अपेक्षा वाल्मीकीय कथा के अधिक निकट है। रामकेर्ति तथा वाल्मीकि रामायण की तुलना करते हुये रामकेर्ति की जितनी विशेषताओं का उल्लेख हुआ है (दे० ऊपर अनु० ३२४), वे प्रायः सब रामकियेन में भी विद्यमान हैं। अंतर यह है कि रामकियेन में हनुमान् को अंजना तथा शिव का पुत्र माना गया है तथा लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा के पुत्र का बध

बर्णित है। रामकियेन का एक अन्य प्रसंग राम-सीता का पूर्वानुराग न वाल्मीकि रामायण में मिलता है और न रामकेर्त्ति में। किन्तु कुछ बातों में रामकियेन रामकेर्त्ति की अपेक्षा वाल्मीकीय कथा के अधिक निकट है—अयोमुखी का वृत्तान्त रामकेर्त्ति में नहीं है किन्तु वह रामकियेन में विद्यमान है। रामकियेन के अनुसार सीता-स्वयंवर का धनुष ईश्वर (शिव) का है, जब कि रामकेर्त्ति में जनक स्वयं उसे इन्द्रजाल से बनाते हैं। रामकियेन में वाल्मीकीय कथा के अनुसार अगस्त्य राम को दिव्य अस्त्र प्रदान करते हैं किन्तु इसका उल्लेख रामकेर्त्ति में नहीं हुआ है। उपर्युक्त विश्लेषण का निष्कर्ष यह है कि रामकेर्त्ति के अतिरिक्त रामकियेन पर वाल्मीकि रामायण का भी सीधा प्रभाव पड़ा है।

- (३) रामकेर्त्ति की भाँति रामकियेन भी बहुत से अर्वाचीन वृत्तान्तों के लिये मलयन सेरी राम पर निर्भर है। वाल्मीकि से विन्न, जो सामग्री सामान्य रूप से रामकेर्त्ति तथा सेरी राम में मिलती है (दे० ऊपर अनु० ३२४, ३), वह प्रायः सब रामकियेन में भी पाई जाती है। अन्तर यह है कि रामकियेन में सुग्रीव से मंत्री करने के पूर्व राम की किसी परीक्षा का उल्लेख नहीं है और लक्ष्मण के संयम का भी निर्देश नहीं मिलता है।

ऐसा प्रतीत होता है कि रामकियेन पर सेरी राम का सीधा प्रभाव भी पड़ा है, क्योंकि निम्नलिखित सामग्री रामकेर्त्ति में नहीं है किन्तु वह रामकियेन तथा सेरी राम दोनों में विद्यमान है<sup>१</sup>:

- महिरावण का राम को पाताल ले जाना (दे० अनु० ६१४)।
- भस्मलोचन की कथा (दे० अनु० ६१३)।
- बालि-सुग्रीव-अंबना का अहत्या की सन्तान के रूप में उल्लेख (दे० अनु० ५१४)।
- अंगद की जन्मकथा, जिसके अनुसार वह बालि तथा मन्दोदरी का पुत्र है (अनु० ६५५)।
- सीता का लंका में जन्म (अनु० ४१५-४१६)।
- हनुमान् तथा नल का कलह (अनु० ५७६)।

१. रामकेर्त्ति की अपूर्ण हस्तलिपियों के कारण इस समस्या का अन्तिम निर्णय नहीं हो पाता है।

(५) रामकेर्त्ति, धार्मिक रामायण तथा सेरी राम के अतिरिक्त रामकियेन का कोई और आधार ग्रंथ रहा होगा कि नहीं इस प्रश्न का निश्चयात्मक उत्तर तभी संभव होगा, जब रामकेर्त्ति की कोई पूरी हस्तलिपि मिल जायगी। रामकियेन में विभीषण-मन्दोदरी के विवाह का उल्लेख मिलता है; यह प्रसंग सेरी राम अथवा रामकेर्त्ति में नहीं आया है किन्तु वह अनेक भारतीय राम-कथाओं में उल्लिखित है। निम्नलिखित सामग्री द्याम देश को छोड़कर अब तक और कहीं नहीं मिली है:

- सेतुबन्ध के पूर्व रावण का तपस्वी के रूप में राम के पास पहुँचना और युद्ध छोड़ देने के लिये उनसे अनुरोध करना (अध्याय २५)।
- रावण के इस निष्फल प्रयत्न के अनन्तर बँजकाया (विभीषण की पुत्री) का सीता का रूप धारण कर मृतवत् राम के शिविर के पास की नदी के ऊपर बह जाना (अध्याय २५)।
- रावण का ब्रह्मा को बुला भोजना; लंका में ब्रह्मा का आगमन; रावण द्वारा राम पर अभियोग। ब्रह्मा का राम को बुलाना और बाद में सीता को भी। अन्त में ब्रह्मा का सीता को लौटाने की आज्ञा देना तथा रावण के अस्वीकार करने पर ब्रह्मा का रावण को शाप देना (अध्याय ३२)।
- रावण-वध तथा राम के अयोध्या में प्रत्यागमन के बाद रावण के एक पुत्र का विभीषण के विरुद्ध विद्रोह करना। भरत तथा शत्रुघ्न का राम-सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान करना और रावण के पुत्र को पराजित कर विभीषण को पुनः राज्य दिलाना। इस युद्ध का विस्तृत वर्णन प्रथम युद्ध की पुनरावृत्ति मात्र है। यह प्रसंग रामकेर्त्ति में तो नहीं मिलता किन्तु सर्ग ७६ में इसकी ओर संकेत किया गया है। इसका आधार भारतीय है (दे० अनु० ६४१)।
- समस्त युद्ध की इस पुनरावृत्ति के अतिरिक्त और बहुत से वृत्तांत दुहराए गए हैं। इन्द्रजित् के यज्ञ-भंग के अतिरिक्त रामकियेन में ऐसा वर्णन कुम्भकर्ण (अध्याय २८), रावण (अध्याय ३१) तथा मन्दोदरी (अध्याय ३४) के विषय में भी मिलता है।

(५) रामकियेन की एक अन्तिम विशेषता यह है कि इसमें हनुमान् की बहुत सी प्रेमलीलाओं का वर्णन किया गया है। स्वयंप्रभा (अध्याय २३),



बेंजकाया (अध्याय २५), नागकन्या सुवर्णमच्छा (अध्याय २६), अप्सरा कानरी (अध्याय ३१) के अतिरिक्त वह मंदोदरी के साथ भी क्रीडा करते हैं। मंदोदरी के संजीवन-यज्ञ को भंग करने के लिए वह दशकठ के रूप में मंदोदरी के पास पहुँच कर उसका आलिंगन करते हैं (अध्याय ३४)। एक अन्य अवसर पर वह रावण के पास पहुँच कर राम की भर्त्सना करते हैं तथा रावण की ओर से युद्ध करने का प्रस्ताव करते हैं। वास्तव में वह एक दिन तक ऐसा करते हैं और पुरस्कारस्वरूप इन्द्रजित् की समस्त सम्पत्ति के अतिरिक्त मंदोदरी को भी रावण से प्राप्त कर रात भर उसके साथ क्रीडा करते हैं (अध्याय ३५)।

३२७. श्याम के उत्तरपूर्वीय प्रांतों में लाओ भाषा बोली जाती है। लाओ साहित्य के पद्यतंत्र में दशरथ द्वारा अन्धमुनि-पुत्र-वध तथा राम के विभीषण को धारण में लेने का उल्लेख मिलता है।<sup>१</sup> इसके अतिरिक्त सोलहवीं शताब्दी में राम जातक की लाओ भाषा में रचना की गई है।<sup>२</sup> रामकियेन की भाँति इस जातक में समस्त कथा का घटनास्थल श्याम देश में ही माना गया है। पूर्वाद्ध में रावण तथा राम की जन्मकथा दी गई है, जिसके अनुसार राम तथा रावण चचेरे भाई हैं। राम के केवल एक ही भाई लक्ष्मण तथा एक बहन शान्ता का उल्लेख है। रावण शान्ता का अपहरण करता है तथा राम-लक्ष्मण द्वारा पराजित किया जाता है (दे० अनु० ३३६)।

उत्तराद्ध में वाल्मीकीय रामायण का समस्त कथानक रामकियेन से मिलते-जुलते रूप में प्रस्तुत किया गया है। सीता को इन्द्राणी का अवतार माना गया है (दे० अनु० ३६५) किन्तु इनकी शेष जन्मकथा रामकियेन के वृत्तान्त के सदृश है। रावण सीता-स्वयंवर में उपस्थित है। सीता की खोज के समय के दो वृत्तान्त अपेक्षाकृत विस्तार-पूर्वक वर्णित हैं :

- (१) राम का वानर रूप धारण कर अंजना से हनुमान् को उत्पन्न करना। यह कथा सेरी राम के वृत्तान्त पर आधारित है (दे० अनु० ६७५)।
- (२) राम का वालि की विधवा से विवाह करना तथा अंगद का पिता बनना। यह कथा और कहीं नहीं मिलती।

हनुमान् और अंगद दोनों मिलकर सीता की खोज में लंका जाते हैं और वहाँ उत्पात भी मचाते हैं। विभीषण रावण की विधवा (शान्ता) से विवाह करते

१. दे० बुलेटिन एकोल फ्रांसेस एक्सट्रेम ओरियन, भाग १७, पृ० १०१।

२. दे० दि राम-जातक : जर्नल श्याम सोसाइटी, भाग ३६, पृ० १।

हैं (दे० अनु० ५७२)। बेंजकाया के स्थान पर केले का एक वृक्ष सँवार कर और उसे सीता का रूप देकर राम के शिविर के पास की नदी में बहाया जाता है (दे० अनु० ५७९)।

कथानक की अन्य विशेषताएँ रामकियेन में भी मिलती हैं—नागकन्याओं का सेतु नष्ट करने का प्रयास (दे० अनु० ५७८); महिरावण की कथा (दे० अनु० ६१४); रावण-वित्र के कारण सीता-त्याग (दे० अनु० ७२४); वाल्मीकि द्वारा एक शिशु की सृष्टि, जिसका सीता पुत्रवत् पालन करती है (दे० अनु० ७४४); लव-कुश-युद्ध (अनु० ७५०) तथा कथानक का सुखान्त निर्वहण (दे० अनु० ७५६)।

अन्त में जातक शैली के अनुसार राम-बुद्ध, रावण-देवदत्त, दशरथ-शुद्धोदन, लक्ष्मण-आनन्द, सीता-उम्पलवण्णा (भिक्षुणी) आदि राम-कथा तथा बौद्ध इतिहास के पात्रों की अभिभ्रता का उल्लेख किया गया है।

रामजातक का एक अन्य रूप पालक-पालाम के नाम से विख्यात है।<sup>१</sup> रामजातक के कथानक से इतना अन्तर है कि ब्रह्मा को रावण से (दे० अनु० ६४७) तथा बोधिसत्त्व को राम और लक्ष्मण में अवतारित माना गया है (दे० अनु० ३६२)।

३२८. सन् १५५३ ई० के पहले एच० देविये ने लाओस में तीन और राम-कथा-विषयक रचनाओं का पता लगाया था—सुआलाफी (सुदुमि), लंकातीय (इसमें सीता को रावण की पुत्री माना जाता है) तथा पोम्मचका (ब्रह्मचक्र)<sup>२</sup>। इनकी अकाल मृत्यु के कारण इन रचनाओं का प्रकाशन नहीं हो पाया है; किन्तु एक अन्य विद्वान् ने ब्रह्मचक्र की एक हस्तलिपि प्राप्त की है तथा इसके कथानक का सार सन् १९५७ ई० में प्रकाशित किया है।<sup>३</sup> यह राम-कथा जातक के रूप में ब्रह्मचक्र अर्थात् रावण (अनु० ६४७), राम (दे० अनु० ३६२) तथा सीता (दे० अनु० ४२५) की जन्म-कथाओं का वर्णन मिलता है। इसके बाद सीता-स्वयंवर का वृत्तान्त दिया गया है, जिसके अनुसार अन्य राजाओं की उपस्थिति में राम षण्णुष चढ़ाते हैं। हनुमान् की जन्म-कथा (अनु० ६६८) तथा सीता-हरण का वृत्तान्त (दे० अनु० ४९३) दोनों

१. दे० पी० बी० लाफों, पालक-पालाम, एकील फ्रांसेस एक्सट्रेम ओरियन (१९५७)। एच० देविए, दि० रामायण इन लाओस, ज० अॉ० रि०, भाग २२, पृ० ६४-६६ और लेस ऑरिजिन ए लॉ नैसांस द रावण, बी० ई० एफ० ई० ओ०, भाग ४४, १४१ आदि।

२. प्रस्तुत लेखक के नाम २२ जून, १९५३ का पत्र।

३. दे० पी० बी० लाफों, पोम्मचक्र, ई० एफ० ई० ओ०, १९५७।

मौलिक हैं। राम का वनवास, बालि-वध, हनुमान् की लका-यात्रा, लंका-दहन, सेतु-वन्ध, विभीषण की शरणागति, अगद का दूतकार्य, महिरावण की कथा, यह सब सामग्री अन्य राम-कथाओं के समान ही है। सीता की अग्नि-परीक्षा (दे० अनु० ६०२) तथा सीता-त्याग (दे० अनु० ७२४) में कुछ नये तत्व पाये जाते हैं। लव के जन्म के बाद बाल्मीकि एक दूसरे शिशु कुश की सृष्टि करते हैं, लव और कुश बाद में राम और लक्ष्मण से युद्ध करते हैं। रामकियेन तथा रामजातक की भांति राम-कथा को सुखान्त बना दिया गया है (दे० अनु० ७५६)। अन्त में राम-बृद्ध, दशरथ-शुद्धोदन, लक्ष्मण-आनन्द आदि की अभिन्नता का उल्लेख है।

### ब्रह्मदेश

३२९. ब्रह्मदेश का राम-कथा-साहित्य बहुत अर्वाचीन है।<sup>१</sup> ब्रह्मदेश के एक राजा ने १७६७ ई० में श्याम की राजधानी अयुतिया को नष्ट कर दिया था। इस विजय के बाद राजा ने श्याम के बहुत से कैंदियों को अपने साथ ले लिया था, जो ब्रह्मदेश में श्याम के राम-नाटक का अभिनय करने लगे। श्याम की राम-कथा के आधार पर यू. तो ने १८०० ई० के लगभग राम घाषण की रचना की थी, जो ब्रह्मदेश का सबसे महत्त्वपूर्ण काव्य माना जाता है। आजकल राम-नाटक, जिसे वहाँ की भाषा में याम प्वे कहते हैं, बहुत लोकप्रिय है। इसकी एक विशेषता यह है कि अभिनेता बहुमूल्य चेंद्रे पहनते हैं और अभिनय के दिन इन चेंद्रे की पूजा भी करते हैं। श्याम के रामकियेन पर निर्भर होते हुए भी कथानक में कहीं-कहीं मौलिकता पाई जाती है। सीता-हरण वहाँ के अभिनय का एक बहुत लोकप्रिय विषय भी है। इसमें शूर्पणखा (जिसका नाम गाम्बी रक्खा गया है) मृग का रूप धारण कर राम को दूर ले जाती है और राम से आहत किये जाने पर अपने राक्षसी रूप से प्रकट होती है। राम की सहायता करने जाने के पूर्व लक्ष्मण द्वारा कुटी के चारों ओर तीन रेखाएँ खींचने का भी उल्लेख है, जो भारत तथा हिंदेशिया आदि में भी मिलता है।

### घ—पाश्चात्य वृत्तान्त

३३०. पंद्रहवीं शताब्दी से लेकर पाश्चात्य यात्रियों तथा मिशनरियों की भारत-सम्बन्धी रचनाओं में राम-कथा के विषय में बहुत कुछ सामग्री मिलती है।

१ दे० जी० पी० कानोर दि रामायण इन बर्मा, जर्नल बर्मा रिसर्च सोसाइटी। भाग १५, पृ० ८०।

के० बी० ऐयर. याम-प्वे, त्रिवेणी, भाग १४ पृ० २३९ आदि।

अर्वाचीनता तथा लेखकों की अपेक्षाकृत कम जानकारी के कारण यह साहित्य महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी उसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती है। अतः इसका यहाँ बहुत संक्षेप में किञ्चित् निरूपण किया जाता है। चतुर्थ भाग में राम-कथा के भिन्न-भिन्न तथ्यों के तुलनात्मक अध्ययन में इन वृत्तान्तों का भी निम्नलिखित संख्याओं के अनुसार उल्लेख किया जायगा :

### (१) जे० फेनिचियो (१६०९ ई०)

एक जेसुइट मिशनरी जे० फेनिचियो ने १६०९ में लिब्रो डा सैंटा की रचना की थी, जिसमें दशावतार-निरूपण के अन्तर्गत दक्षिण की उम्र समय की एक राम-कथा का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है।<sup>१</sup> दशरथ के यज्ञ से लेकर सीता की अग्निपरीक्षा के प्रारम्भ तक का वृत्तान्त इसमें मिलता है। इसके बाद हस्तलिपि के कई पन्ने खो जाने के कारण राम-कथा का पूरा वर्णन नहीं हो पाया है। अधिकांश कथानक वाल्मीकि के अनुसार है, फिर भी इसमें अनेक स्थलों पर वाल्मीकीय कथा से विभिन्नता पाई जाती है। इसकी एक विशेषता यह है कि रावणचरित का वर्णन अरण्यकांड की कथा के अंतर्गत किया गया है। अग्निजा सीता और हनुमान् की जन्म-कथाएँ तथा राम के स्वेच्छा से वन के लिए प्रस्थान करने का वृत्तान्त वाल्मीकि रामायण से सर्वथा भिन्न है।

### (२) ए० रोजेरियुस (१७वीं श० ई०)

ए० रोजेरियुस डच ईस्ट कम्पनी के पादरी की हैसियत से पुलिकत में ग्यारह वर्ष तक रहे (१६३१-४१)। उनकी रचना बि ओपन बोरे का प्रकाशन १६५१ में हुआ था। अवतारवर्णन के अन्तर्गत रावणचरित से लेकर अयोध्या के प्रत्यागमन तक राम-कथा का वर्णन वाल्मीकि के अनुसार किया गया है।

### (३) पी० बलडेयुस (१७वीं श० ई०)

बलडेयुस १६५८ ई० से लेकर छ. वर्ष तक सिंहलद्वीप तथा दक्षिण भारत में रहे। उनकी डच भाषा की रचना आफगोडेरेंड डर ओस्ट इंडिश् होलंडेनन<sup>२</sup>, जो अधिकांश उपर्युक्त वृत्तान्त न० १ पर निर्भर है, १६७२ में प्रकाशित हुआ था। रावणचरित से लेकर राम के स्वर्गारोहण तक की कथा इसमें पाई जाती है। अग्नि-परीक्षा के अतिरिक्त सीता की और अनेक परीक्षाओं का उल्लेख इस रचना की एक विशेषता है।

१. दे० लिब्रो डा सैंटा (उप्साला १९३३), पृ० ६९-१३३।

२. दे० नया प्रकाशन, (दि हेग, १९१७), अध्याय ४।

(४) डॉ० डैप्पर (१७वीं श० ई०)

डॉ० डॉ० डैप्पर की अस्सिया नामक रचना वृत्तान्त नं० २ और ३ पर निर्भर है। इसका प्रकाशन हॉलैंड में १७वीं शताब्दी उत्तरार्द्ध में हुआ था।

(५) डे फ़ेरिया (१७वीं श० ई०)

डेफेरिया की स्पैनिश रचना अस्सिया पोर्तुगेसा का प्रकाशन १६७४ में हुआ है। इसमें जो राम-कथा मिलती है, वह उपर्युक्त वृत्तान्त नं० १ पर निर्भर है।<sup>१</sup> इसमें रावण के चित्र के कारण सीता के परित्यक्त किये जाने का वर्णन किया गया है।

(६) रलासियों डेस एरवर (१६४४ ई०)

फ्रेंच भाषा की यह रचना सम्भवतः डे नोबिलि के नोट्स के आधार पर लिखी गई हो।<sup>२</sup> इसकी राम-कथा (पृ० १२-७) बहुत सक्षिप्त है। इसमें घोषी के वृत्तान्त के कारण सीता-त्याग का उल्लेख किया गया है।

(७) ला जानटिलिटे डू बेंगाल (१६९८ ई०)

फ्रेंच भाषा की इस रचना की राम-कथा एक पुर्तगाली वृत्तान्त (दे० नं० ८) से बहुत भिन्न नहीं है। इसका रचयिता अज्ञात है।

(८) पुर्तगाली वृत्तान्त, क. (१६७० ई०)

डॉ० कालेंड ने तीन पुर्तगाली रचनाओं का प्रकाशन करके साथ-साथ इनका ट्वच में अनुवाद भी किया है।<sup>३</sup> डॉ० कालेंड के अनुसार वृत्तान्त क० सम्भवतः १६७० ई० का है। इसकी राम-कथा में (पृ० १०-१६) उत्तरकाण्ड की सामग्री का भी वर्णन किया गया है।

(९) पुर्तगाली वृत्तान्त, ख. (१७७४ ई०)

इस रचना की राम-कथा (पृ० ५६-६४) की विशेषता यह है कि सीता अग्नि से उत्पन्न होती हैं। (दे० आगे अनु० ३२४)।

(१०) पुर्तगाली वृत्तान्त, ग. (१७२३ के पूर्व)

इस रचना की राम-कथा फ्रेंच वृत्तान्त नं० ६ पर निर्भर है।

१. दे० भाग २, पृ० ६६६ आदि।

२. इसका प्रकाशन वृत्तान्त नं० ७ के साथ-साथ डब्लू कालेंड द्वारा १९२३ में हुआ है।

३. दे० टी ओडे पातंगेशे वर हैंडलिगन, एमस्टरडम, १९१५।

## (११) जे० बी० टार्निये (१७ वीं श० ई०)

जे० बी० टार्निये ने अपनी भारत की यात्रा का वर्णन १६७६ ई० में फ्रेंच भाषा में प्रकाशित किया था<sup>१</sup>, जिसके अन्तर्गत एक सक्षिप्त राम-कथा मिलती है।

## (१२) एम० सोनेरा (१८वीं श० ई०)

एम० सोनेरा ने अपनी रचना **बोयाञ्ज ओस इंड ओरियन्टाल** १७८२ में पेरिस में प्रकाशित की थी। इसमें एक अत्यन्त सक्षिप्त राम-कथा मिलती है (पृ० १६३), जिसकी विशेषता यह है कि राम १५ वर्ष की अवस्था में अयोध्या छोड़कर सीता तथा लक्ष्मण के साथ चित्रकूट में तपस्या करने जाते हैं।

## (१३) डे पोलिये (१८वीं श० ई०)

डे पोलिये की रचना **मिथोलोजी डेस इण्डू** १८०९ ई० में पेरिस में प्रकाशित हुई थी। इसमें एक विस्तृत राम-चरित (भाग १, पृ० २९०-३९४) मिलता है, जिसे डे पोलिये ने लखनऊ में १८वीं शताब्दी उत्तरार्द्ध में विलियम जोन्स के भूतपूर्व पंडित से सुना था। इस राम-चरित में बहुत सी कथाएँ पाई जाती हैं, जो वाल्मीकि रामायण से सर्वथा भिन्न हैं, लेकिन जो प्रायः अन्य अर्वाचीन वृत्तान्तों में भी मिलती हैं, उदाहरणार्थ रक्तजा सीता की जन्म-कथा, महिगवण के राम-लक्ष्मण की पाताल ले जाने की कथा आदि।

## (१४) जे० ए० डुब्बा (१९वीं श० ई०)

जे० ए० डुब्बा की प्रसिद्ध रचना **हिन्दू मैनर्स, कस्टम्स एंड सेरेमोनिस** में एक सक्षिप्त राम-कथा मिलती है (पृ० ६१९-२४, तीसरा संस्करण) जो वाल्मीकीय कथा से अनेक स्थलों पर भिन्न है, उदाहरणार्थ कंकेयी राम से अनुरोध करती है कि वह अपना राज्याधिकार भरत को प्रदान करे, हनुमान् समुद्र की धारा पर चलकर लका पहुँचते हैं।

अंतिम को छोड़कर निम्नलिखित रचनाओं में कोई पूर्ण राम-कथा नहीं पाई जाती, लेकिन इनमें राम-चरित के किसी न किसी तत्त्व की ओर निर्वेश किया गया है।

## (१५) बोले ले गोज (१७वीं श० ई०)

बोले ले गोज की रचना में (रेंजे एन ऑप्टेकनिय, एमस्टरडम १६६०) सीता-हरण तथा हनुमान् के लका से सीता को राम के पास ले आने की कथा मिलती है।

१ दे० जी० बी० टार्निये ट्रावल्स इन इंडिया (लन्दन १८८९), भाग २, पृ० १९१-१९५।

(१६) पी० एफ० बिनजेनजा मरिया (१७वीं श० ई०)

इनकी रचना 'इल बियाजियो अल इंडिये ओरियेन्टालि' रोम में १६७२ ई० में प्रकाशित हुई थी। इसमें सीता का जन्म लंका में माना गया है।

(१७) सीगेनबाल्म (१८वीं श० पूर्वार्द्ध)

इनकी रचना का अंग्रेजी अनुवाद १८६९ में मद्रास से प्रकाशित किया गया है। मूल जर्मन, जो १८वीं शताब्दी के प्रारम्भ में लिखी गई थी, केवल १८६७ई० में प्रकाश में आ सकी।

(१८) एन्० मानुच्ची

इनकी 'स्टोरिया डी भोगोर' (१६५३-१७०८) में धोबी के कारण सीता-त्याग का उल्लेख किया गया है तथा राम परमेश्वरी के पुत्र माने गए हैं।

(१९) लेट्रेस एडिफ़ियन्ट

यह जेसुइट मिशनरियों के पत्रों का संग्रह है, जो पेरिस में प्रकाशित किया गया है। १३वें भाग (१७१८ ई०) में अग्निजा सीता का जन्म-वृत्तान्त (पृ० १४०) तथा शूर्पणखा-पुत्र-वध का एक नया रूप (पृ० १७२) मिलता है।

(२०) बिओगो गोंसाल्वेस (सन् १६१५ ई०)।

इन्होंने अपना 'हिस्तोरिया बो मालाबार' केरल में लगभग सन् १६१५ ई० में लिखा था। इसका सम्पादन तथा प्रकाशन सन् १९५५ ई० में मुस्टर से हुआ है। द्वितीय भाग के नवें अध्याय में रावण के अत्याचार तथा विष्णु के अवतार होने से प्रारम्भ होकर रावण-वध के बाद रामेश्वर-तीर्थ की स्थापना तक वाल्मीकीय कथानक का संक्षेप प्रस्तुत किया गया है। अन्तर यह है कि राम विष्णु के अवतार तथा लक्ष्मण-भरत-शत्रुघ्न क्रमशः शेष, शल और चक्र के अवतार माने जाते हैं। लक्ष्मण शूर्पणखा के कान और नाक के अतिरिक्त उसके स्तन भी तलवार से काटते हैं; राम हनुमान के कानों में कुण्डल देखते हैं, जिससे हनुमान राम की सेवा स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनकी माता ने उनसे कहा था: जब तुम अपना स्वामी देखोगे, तभी तुम्हारे कान में कुण्डल दिखाई देंगे। हनुमान के कुण्डलों का प्रसंग पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १, सेरी राम, रामकेसि तथा रामकियोन में भी मिलता है (दे० अनु० ५१२)।

चतुर्थ भाग  
राम-कथा का विकास

- १४—बालकांड
- १५—अयोध्याकांड
- १६—अरण्यकांड
- १७—किष्किंधाकांड
- १८—सुन्दरकांड
- १९—युद्धकांड
- २०—उत्तरकांड
- २१—उपसंहार



## अध्याय १४

### बालकांड

#### १—वाल्मीकीय बालकांड

३३१. क । बालकांड की कथावस्तु

##### (१) भूमिका (सर्ग ० १-४)

नारद का वाल्मीकि से अयोध्याकांड से लेकर युद्धकांड तक की राम-कथा का कथन (सर्ग १), श्लोकोत्पत्ति; नारद से सुनी हुई राम-कथा को श्लोकबद्ध करने की वाल्मीकि की आज्ञा (सर्ग २), अनुक्रमणिका (सर्ग ३), वाल्मीकि का कुशल को अपना काव्य सिखाना और उनका राम के सम्मुख उसे सुनाना (सर्ग ४) ।

##### (२) दशरथयज्ञ (सर्ग ५-१७)

अयोध्या का वर्णन, राजा, नागरिक, मंत्री और पुरोहितों का वर्णन (सर्ग ५-७) ।

अश्वमेधयज्ञ का संकल्प (सर्ग ८); ऋष्यशृंग की कथा (सर्ग ९-११); श्रुष्यशृंग द्वारा अश्वमेध (सर्ग १२-१४) ।

श्रुष्यशृंग द्वारा पुत्रोच्छेद्यज्ञ, देवताओं की विष्णु से अवतार लेने की प्रार्थना; पायस प्राप्त कर दशरथ का उसे अपनी पत्नियों में बाँटना (सर्ग १५-६); देवताओं का अप्सराओं और गंधर्वियों से वानरों की उत्पत्ति करना (सर्ग १७) ।

##### (३) राम का जन्म तथा प्रारम्भिक कृत्य (सर्ग १८-३१)

राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म । विश्वामित्र का आगमन (सर्ग १८) और अपने यज्ञ की रक्षा के लिए दशरथ से राम-लक्ष्मण को माँगना (सर्ग १९-२१) ।

राम-लक्ष्मण का विश्वामित्र के साथ गमन; सरयू तट पर विश्वामित्र से बला और अतिबला की प्राप्ति (सर्ग २२); गंगा-सरयू के संगम पर विश्वामित्र द्वारा काम-दहन की कथा (सर्ग २३); मलद और करुण की कथा (सर्ग २४) ।

साठका की कथा (सर्ग २५), राम द्वारा उसका वध (सर्ग २६), राम को दिए गये आयुधो की सूची (सर्ग २७-२८), सिद्धाश्रम पर वामनावतार की कथा (सर्ग २९), मारीच का समुद्र में निक्षेप और सुबाहु का वध (सर्ग ३०), मिथिला के लिए प्रस्थान (सर्ग ३१) ।

#### (४) पौराणिक कथाएँ (सर्ग ३२-६५)

विश्वामित्र के वश की कथा (सर्ग ३२-३४), हिमवान् की पुत्रियाँ; गंगा का स्वर्गारोहण, उमा का शिव से विवाह, कार्तिकेय-जन्म (सर्ग ३५-३७) ।

सगर-पुत्रो का पाताल में भस्म होना, भगीरथ द्वारा गंगावतरण, जह्नु द्वारा गंगा का पिया जाना और मुक्त होकर भगीरथ का अनुसरण करते हुए पाताल में सगर-पुत्रो का उद्धार करना (सर्ग ३८-४४) ।

समुद्रमन्थन की कथा (सर्ग ४५-४७), गौतम द्वारा इन्द्र और अहल्या को दिए गए शापो की कथा, अहल्योद्धार (सर्ग ४८-४९), जनक द्वारा विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण का स्वागत (सर्ग ५०) ।

विश्वामित्र की कथा - शतानन्द द्वारा विश्वामित्र के ब्राह्मण बनने की कथा, राजा विश्वामित्र का वसिष्ठ को परास्त न कर सकने के कारण ब्राह्मण बनने का निश्चय (सर्ग ५१-५६), उनका राजर्षि बनना त्रिशकु की कथा (सर्ग ५७-६०) । अबरीष के यज्ञ में क्षुन शेष का बलिदान, विश्वामित्र का ऋषि बनना मेनका की सफलता एवं रभा की असफलता और अंत में विश्वामित्र का ब्रह्मर्षि बनना (सर्ग ६१-६५) ।

#### (५) राम-विवाह (सर्ग ६६-७७)

धनुर्भंग जनक द्वारा धनुष तथा सीता के अलौकिक जन्म की कथा, उनकी सीता-विवाह-विषयक प्रतिज्ञा । राजाओ की असफलता और उनका आक्रमण (सर्ग ६६) । राम द्वारा धनुर्भंग । दशरथ का बूलावा और मिथिला में उनका आगमन । (सर्ग ६७-६९)

विवाह वसिष्ठ द्वारा दशरथ के वश का परिचय, जनक का अपना वंश-वर्णन । चारों भाइयों का विवाह (सर्ग ७०-७३) ।

परशुराम उत्तरीय पर्वतो पर विश्वामित्र का गमन । दशरथ के मार्ग में अपशकुन और परशुराम का आगमन । वंणव धनुष चढ़ाकर राम द्वारा परशुराम की पराजय (सर्ग ७४-७६), अयोध्यागमन, भरत और शत्रुघ्न का प्रस्थान, राम की लोकप्रियता (सर्ग ७७) ।

## ख । बालकांड का विश्लेषण

### तीन पाठों में विभिन्नता :

३३२. प्रचलित वाल्मीकि रामायण के दाक्षिणात्य पाठ में रामादि की जन्म-तिथि (शैत्रे नावमिके तिथौ दे० १८,८) तथा उसी अवसर पर राशियों के संगम का उल्लेख किया गया है, जो अन्य दोनों पाठों में नहीं मिलता<sup>१</sup> ।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित पौराणिक कथाएँ केवल दाक्षिणात्य पाठ में पाई जाती हैं—कश्यप की तपस्या, जिसके फलस्वरूप उन्होंने वामनावतार में हरि को पुत्रस्वरूप प्राप्त किया था (२९, १०-१७); जह्नु का गंगा-पान (४३, ३४-४१); विष्णु का मोहिनी रूप धारण कर अमृत चुराना (४५, ४०-४३); विष्णु का कूर्मावतारवर्णन (४५, २७-३२)

गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठों में शान्ता को दशरथ की पुत्री माना गया है (दे० आगे अनु० ३४३) तथा उनमें एक तीसरी अनुक्रमणिका पाई जाती है, जिसमें रामायण के सात कांडों की कथावस्तु की ओर निर्देश किया गया है (गौ० रा० सर्ग ४, प० रा० सर्ग ३) । इसके अतिरिक्त इन दोनों पाठों में दो सर्ग मिलते हैं, जिनमें भरत और शत्रुघ्न की यात्रा तथा राजगृह में निवास का कुछ विस्तार सहित वर्णन किया गया है (दे० गौ० रा० बालकाण्ड सर्ग ७९-८० तथा प० रा० अयोध्याकांड सर्ग १-२) । दाक्षिणात्य पाठ में इसका उल्लेख मात्र मिलता है ।

### बालकांड की उत्पत्ति

३३३. आठवें अध्याय में समस्त बालकांड के प्रक्षिप्त माने जाने के कारण दिए गए हैं; अतः बहुत सम्भव है कि वाल्मीकिकृत रचना में अयोध्या, दशरथ तथा उनके पुत्रों के परिचय के बाद अयोध्याकांड की कथावस्तु का वर्णन प्रारम्भ हुआ हो । महाभारत के द्रोणपर्व, हरिवंश, विष्णु-पुराण आदि के प्राचीन वृत्तान्तों में भी वनवास से ही लेकर रावण-वध तक की राम-कथा का वर्णन किया गया है ।

१. यह पाँचवीं श० ई० अथवा इसके बाद का प्रक्षेप है । दे० क्वाटर्ली जनरल मिथिक सोसायटी, भाग १२, पृ० ७३ ।

कथानक के दृष्टिकोण से पाठों की विस्तृत तुलना के लिए, दे० प्रस्तुत लेखक का निबन्ध : दी जेनेजिस ऑव दी वाल्मीकि रामायण रिशान्वास्त, ज० ऑ० इ० भाग ५, पृ० ६६-९४; वाल्मीकि रामायण के तीन पाठ; नागरीप्रचारिणी पत्रिका; वर्ष ५८; पृ० १-३५ ।

प्रस्तुत बालकांड के निरीक्षण से उसकी उत्पत्ति और विकास के निम्न-विक्रम सोपानो का कुछ आभास मिलता है। दो स्थलो को छोड़कर बालकांड में और कहीं भी अवतारवाद की ओर निर्देश नहीं किया गया है। यहाँ नहीं, बरन् उसकी शेष सामग्री से भी स्पष्ट है कि मूल बालकांड के रचनाकाल में राम विष्णु के अवतार नहीं माने जाते थे, इसके प्रमाण आठवें अध्याय में दिये गए हैं। अतः ये दोनों स्थल (अर्थात् दशरथ के पुत्रेष्टियज्ञ तथा राम-परशुराम भेट का वर्णन) बालकांड के अन्तिम विकास के समय जोड़ दिए गए होंगे। पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रक्षिप्त होने के स्पष्ट प्रमाण बालकांड में मिलते हैं। सर्ग ८ में दशरथ सुतार्थ अश्वमेध यज्ञ करवाने का सकल्प करते हैं। सर्ग १३ और १४ में इस अश्वमेध यज्ञ का वर्णन किया गया है। १४वें सर्ग में ब्राह्मणों को दक्षिण दिए जाने के उल्लेख के बाद ऋष्यशृंग दशरथ को आश्वासन देते हैं कि उनके चार पुत्र उत्पन्न होंगे—

भविष्यति सुता राजश्चत्वारस्ते कुलोद्बहा ।। ५९ ॥

ऋष्यशृंग के इस आश्वासन के पश्चात् पुत्रेष्टि की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है। फिर भी इसके अनन्तर पुत्रेष्टियज्ञ का वर्णन प्रारम्भ होता है (सर्ग १५-१७), जिसमें विष्णु के अवतार लेने का विस्तृत वर्णन किया गया है। यह होते हुए भी १८वें सर्ग के प्रारम्भ में अश्वमेध ही की समाप्ति पर (विद्युत्ते तु कनौ तस्मिन्मह्यमेधे) देवताओं तथा राजाओं के प्रस्वान का उल्लेख किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि पहले १४वें सर्ग के पश्चात् १८वाँ सर्ग ही आता था।

पौराणिक कथाओं का बाहुल्य बालकांड तथा उत्तरकांड की एक विशेषता है। गंगावतरण (सर्ग ३८-४४) एक स्वतन्त्र काव्य था, जो बरव में अपने श्रवणफल सहित बालकांड की अन्य पौराणिक कथाओं के साथ रखा गया है। विष्णुवामिन की कथा (सर्ग ५१-६५) में अशुद्ध श्लोको का बाहुल्य उसे एक स्वतन्त्र रचना सिद्ध करता है।<sup>१</sup> बालकांड की अन्य पौराणिक कथाएँ भी राम-कथा से कोई सम्बन्ध नहीं रखती हैं, अतः बहुत सम्भव है कि वे भी प्रारम्भिक बालकांड में विद्यमान नहीं थीं। ९वें सर्ग से लेकर १२वें तक में ऋष्यशृंग की जो पौराणिक कथा है वह ८वें सर्ग की पुनरावृत्ति मात्र है।

१. एच० याकोबी इस रामायण, पृ० २६।

३३४. उपर्युक्त प्रश्नों को हटाकर जो निम्नलिखित सामग्री रह जाती है, इसे हम बालकांड का प्रारम्भिक रूप मान सकते हैं।

सर्ग १-४	भूमिका
सर्ग ५-७	अयोध्या का वर्णन
सर्ग ८, १३ और १४	दशरथ के अश्वमेध का वर्णन
सर्ग १८-३१	राम का जन्म तथा प्रारम्भिक कार्य (ताटका वध, विश्वामित्र-यज्ञ की रक्षा)
सर्ग ६६-७३	राम का विवाह।
सर्ग ७७	अयोध्या में प्रत्यागमन।

## २—बालकांड का विकास

३३५. अयोध्याकांड से लेकर युद्धकांड तक की राम-कथा पर आदिकवि की छाप स्पष्ट दिखलाई पड़ती है। घटनाएँ इस प्रकार संबद्ध हैं कि आधिकारिक कथा-वस्तु की गति अबाध रूप से आगे बढ़ रही है। अतः बाद की राम-कथाओं में इन कांडों के कथानक का अपेक्षाकृत कम विकास हुआ है। बालकांड तथा उत्तरकांड की परिस्थिति दूसरी है। प्रारम्भ ही से इनकी कथावस्तु की कोई विशेष एकता नहीं थी। फलस्वरूप इन दोनों कांडों में सबसे अधिक परिवर्तन तथा परिवर्द्धन किया गया है।

निम्नलिखित बालकांड-सम्बन्धी विषयों में इतनी विभिन्नता पाई जाती है जवना इनके विकास का वर्णन इतना विस्तृत है कि तत्सम्बन्धी सामग्री अलग-अलग परिच्छेदों में रखी गई है : अवतारवाद, राम का बालचरित, राम-सीता-विवाह, सीता की जन्म-कथा। बाद की राम-कथाओं में प्रायः बालकांड की पौराणिक कथाओं (दि० सर्ग ३२-६५) का अभाव है अतः इनका कोई विकास नहीं हो पाया है। यहाँ पर बालकांड की शेष कथावस्तु के विकास पर प्रकाश डालना है।

## क। दशरथ की वंशावली

३३६. इक्ष्वाकु-वंशावली के निरूपण में पर्याप्त विभिन्नता पाई जाती है। अधिकांश पुराणों तथा वाल्मीकि रामायण में प्रधान अन्तर यह है कि पौराणिक साहित्य में इक्ष्वाकु से राम तक ६३ राजाओं के नाम दिये जाते हैं किन्तु रामायण में इनकी संख्या केवल ३६ है। इसके अतिरिक्त रामायण के ३६ नामों में से केवल १८ नाम

दोनों वंशावलियों में विद्यमान हैं। संभव है कि रामायण में केवल उन राजाओं के नाम उल्लिखित हैं, जिनका राज्याभिषेक हुआ था।'

राम-साहित्य की दो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्राचीन रचनाओं में भी वंशावली के विषय में एकरूपता नहीं है। बाल्मीकि की सूची के अनुसार २३वाँ नाम दिलीप है; २६वाँ रघु, ३८वाँ अज तथा ३९वाँ दशरथ (दे० बालकांड, सर्ग ७०)। कालिदास के रघुवंश तथा हरिवंश पुराण (१, १५, २४-२६) के अनुसार दिलीप, रघु, अज और दशरथ में क्रमशः पिता-पुत्र का सम्बन्ध है। श्री रायकृष्णदास<sup>१</sup> के अनुसार इसका समन्वय यह है कि इस वंश में दिलीप तथा रघु नामक दो-दो राजा रह चुके हैं; द्वितीय दिलीप का नाम खट्वाग तथा द्वितीय रघु का नाम दीर्घबाहु था। इस प्रकार रघुवंश का क्रम ठीक सिद्ध हो जाता है। जो कुछ भी हो, बहुत सी परवर्ती रचनाओं में कालिदास की वंशावली ही प्रामाणिक मानी गई है, जैसे प्रतिमानाटक (अंक २), अग्निपुराण (ककुत्स्थ, रघु, अज, दशरथ; अध्याय ५, ३), लिग-पुराण (१, ६१), ब्रह्मपुराण (८, ८५-८६), पद्मपुराण का गौडीय पाताल खण्ड, भविष्यपुराण (प्रतिसर्ग पर्व १, २, ३-६), उदारगाथ, कृत्तिवास रामायण (१, ६२) तोरवे रामायण (१, ३) आदि।

पद्मचरियं (पर्व २१-२२) में दशरथ की विस्तृत वंशावली इस प्रकार है (बाल्मीकि रामायण में दिये द्रुये नाम रेखांकित है)। विजय, पुरन्दर, कीर्तिधर, सुकोशल, हिरण्यगर्भ, नद्युध, सौवास, सिंहरथ, वचरथ, चतुर्मुख, हेमरथ, यशोरथ, पद्मरथ, मृगरथ, दाशिरथ, रविरथ, भान्धाता, उदयरथ, प्रतिवचन, कमलबन्धु, रविशत्रु, वसन्ततिलक, कुबेरदत्त, कुंयु, सरथ, विरथ, रथनिर्घोष, मृगारिदम, हिरण्यनाभ, पंजस्थल, ककुत्स्थ, रघु, अनरण्य, दशरथ। अनरण्य के दो पुत्र माने जाते हैं—अनन्तरथ तथा दशरथ किन्तु अनन्तरथ अपने पिता अनरण्य के साथ वीक्षा ले लेते हैं, जिससे दशरथ को राज्याधिकार मिलता है।

ज्योतानी रामायण में सहस्रबाहु दशरथ के पुत्र माने गये हैं तथा राम-लक्ष्मण सहस्रबाहु के ही पुत्र हैं। सेरी राम में नामावली इस प्रकार है: नबी आदम, दशरथ रामन, दशरथ चक्रवर्ती तथा दशरथ। श्याम के रामजातक में दशरथ को रावण का चाचा माना गया है—ब्रह्मा के पुत्र तप्परमेस के दो पुत्र थे, दशरथ तथा विरल्लोक (विश्रवा)। तप्परमेस यह देखकर कि दशरथ अच्छा योद्धा नहीं है, अपने कनिष्ठ पुत्र को ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं, जिससे दशरथ राज्य छोड़कर

१. दे० पुराणम् (वाराणसी) भाग २, पृ० १३७।

२. दे० वही, पृ० १४४-१४७।

अन्यत्र अपनी एक नई राजधानी का निर्माण करते हैं। (इस कथा में वैश्रवण तथा दशरथ का एकीकरण किया गया है)। दशरथ का भतीजा रावण भी एक नई राजधानी (लका) का निर्माण करता है तथा दशरथ की पुत्री को हर लेता है। बाद में दशरथ के दो पुत्र राम तथा लक्ष्मण अपनी बहन शान्ता के अपहरण का प्रतिकार करने के लिये रावण को पराजित करते हैं। रावण की राजधानी की यात्रा में तथा वापसी में भी राम और लक्ष्मण दोनों अनेक विवाह करते हैं। उन विवाहों से जो पुत्र उत्पन्न होते हैं, वे दूसरे राम-रावण युद्ध में राम की सहायता करेंगे, ऐसा उल्लेख है। बाद में रावण के साथ सधि की जाती है तथा रावण और शान्ता का विवाह सम्पन्न हो जाता है।<sup>१</sup> इस भूमिका के पश्चात् ही रामायण की कथा प्रारम्भ होती है, जिसमें रावण द्वारा सीताहरण के कारण एक नया युद्ध छिड़ जाता है।

परवर्ती राम-कथाओं में दशरथ के पूर्व-जन्मों की भी चर्चा होती है। इसके अनुसार दशरथ अपने पूर्व जन्म में कश्यप (अनु० ३६७), स्वायम्भुवन्तु (३६८), धर्मदत्त (३६९), राजा कुमुद (१९४) अथवा राजा कुन्तल (१९५) थे।

## ख । दशरथ के विवाह

३३७. दशरथ के विवाहों के विषय में अनेक कथाएँ मिलती हैं, जिनका यहाँ संक्षेप में वर्णन किया जाता है।

आनन्द रामायण (१, १, ३२-७४) में दशरथ-कौशल्या विवाह का विस्तृत वर्णन किया गया है। ब्रह्मा रावण के पास जाकर कहते हैं कि दशरथ तथा कौशल नरेश की पुत्री कौशल्या का विवाह शीघ्र ही होने वाला है, इन दोनों का पुत्र तुम्हारा वध करेगा। इसपर रावण सरयू में दशरथ की नौका तोड़कर उनको पराजित करता है। दशरथ तथा सुमंत्र एक नौका-खण्ड पर समुद्र की ओर बह जाते हैं। इतने में रावण कौशल्या को हर लेता है और उसे एक पेटिका में रखकर तिमिगल नामक मत्स्य की रक्षा में छोड़ देता है। तिमिगल उस पेटिका को एक द्वीप पर रखकर किसी अन्य मत्स्य से युद्ध करता है। दशरथ तथा सुमंत्र उस द्वीप में पहुँचते हैं और पेटिका को देखकर उसे खोल देते हैं। तद्दुपरान्त दशरथ तथा कौशल्या गांधर्व विवाह करते हैं और तीनों पेटिका में छिप जाते हैं। अनन्तर रावण ब्रह्मा के सामने डींग मारता है कि उनकी भविष्यवाणी सूठी सिद्ध हुई। ब्रह्मा से यह सुनकर कि उन दोनों का विवाह हो चुका, रावण पेटिका को मँगवाता है और उसे खोलकर कौशल्या, दशरथ तथा सुमंत्र को देखता है। ब्रह्मा रावण को तीनों का वध करने से रोक लेते हैं। अनन्तर पेटिका

१. पालक पालाम में भी इससे मिलती-जुलती कथा पाई जाती है।

साकेत भेजी जाती है, जहाँ सुमित्रा, कँकेयी तथा सात सौ अन्य स्त्रियों से भी दशरथ विवाह करते हैं। भावार्थ रामायण (५, ९), पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १३, स्वयंभुव रामायण तथा रामचरितमानस के कुछ सस्करणों के एक प्रक्षेप में इस कथा का भी उल्लेख किया गया है।

**पञ्चमचरियं** (२२, १०६-१०७) के अनुसार पथ (राम) की माता का नाम अपराजिता था और वह अरुहस्थल के राजा सुकोशल तथा अमृत प्रभा की पुत्री थी। गुणभद्र के उत्तरपुराण में राम की माता का नाम सुबाला माना गया है। पूर्व जन्म विषयक कथाओं के अनुसार कौशल्या पहले अविति (दे० अनु० ३६७), शतरूपा (अनु० ३६८), कलहा (३६९), वीरमती (१९४) अथवा सिन्धुमती (१९५) थीं।

३३८. वाल्मीकि रामायण में केकय की पुत्री कँकेयी के स्वयंवर का उल्लेख नहीं मिलता। **पञ्चमचरियं** (पर्व २४) में इस स्वयंवर का पहले-पहल वर्णन हुआ है। इसके अनुसार कौतुकमगल नगर के राजा शुभमति तथा उसकी पत्नी पृथ्वीश्री की पुत्री कँकेयी के स्वयंवर का आयोजन किया गया था।

उस समय दशरथ तथा जनक रावण के भय से गुप्त बेश में भिन्न-भिन्न देशों का भ्रमण कर रहे थे और सयोग से कँकेयी के स्वयंवर में भी पहुँच गये। कँकेयी ने दशरथ को चुन लिया। इसपर स्वयंवर में आये हुये अन्य राजाओं के साथ दशरथ का युद्ध होने लगा, जिसमें कँकेयी दशरथ का रथ हाँकने लगी।

विवाह सम्पन्न होने के पश्चात् दशरथ और जनक अपनी-अपनी राजधानी लौटे। घर पहुँचकर दशरथ ने कँकेयी से संग्राम में रथ हाँकने के पुरस्कार-स्वरूप एक वर माँगने के लिए कहा। कँकेयी ने उत्तर दिया "इस समय तो कोई वर माँगने की आवश्यकता नहीं है, जब माँगूगी तभी देना।"

**कृत्तिवास रामायण** (१, २५) के अनुसार गिरिराज नगर में आयोजित कँकेयी के स्वयंवर में वृष्वी भर के राजा आमन्त्रित हुये थे किन्तु इसमें युद्ध का उल्लेख नहीं है। माधवदेवकृत **असनीया बालकांड** (अध्याय ८-१०) में भी कँकेयी के स्वयंवर का वर्णन मिलता है।

**सत्योपाख्यान** में कँकेयी तथा दशरथ का विवाह इस प्रकार वर्णित है। किसी दिन नारद दशरथ के पास पहुँच कर केकय की पुत्री के सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं तथा यह भी कहते हैं कि कँकेयी की हस्तरेखा से प्रतीत होता है कि उसे एक महान् पुत्र उत्पन्न होगा। बाद में दशरथ एक देवयौगिनी को कँकेयी के पास भेजते हैं, जो कँकेयी से दशरथ की प्रशंसा करके दशरथ की पत्नी बनने की इच्छा उसके मन में उत्पन्न करती है। कँकेयी विरह के कारण उदासीन हो जाती है, जिसपर उसकी माता, कारण



जानकर, केकय से दशरथ-कैकेयी का विवाह करवाने का अनुरोध करती है। बाद में केकय दशरथ को बुलाकर इस शर्त पर अपनी पुत्री देते हैं कि कैकेयी के पुत्र को राज्य अवश्य दिया जाय (दे० अध्याय ५-७)।

३३९. सुमित्रा के साथ दशरथ के विवाह का वाल्मीकि रामायण में न तो कोई वर्णन किया गया है और न सुमित्रा का परिचय मिलता है। प्राचीन काल से वह मगध नरेश की पुत्री मानी गई है (दे० रघुवश ९, १७)। पञ्चमचरियं (१२, १०७-१०८) के अनुसार वह कमलसंकुलपुर के राजा सुबधुतिलक की कैकेयी नामक पुत्री थी, दशरथ ने उसके साथ विवाह किया तथा उसका नाम सुमित्रा रखा। कृत्तिबास रामायण (१, २६) में इसके विवाह का वर्णन मौलिक प्रतीत होता है। सिंहल के राजा सुमित्र ने अपनी पुत्री सुमित्रा के विवाह का निमंत्रण दशरथ को भेजा था। कौशल्या तथा कैकेयी से यह कह कर कि मैं मृगया खेलने जाता हूँ, दशरथ ने सुमित्र का निमंत्रण स्वीकार किया। विवाह की द्वितीय रात को दशरथ ने अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ अयोध्या के लिये प्रस्थान किया। बगाल में उस रात को अशुभ मानकर उसे काल रात्रि कहते हैं। इस अशुभ रात्रि को दशरथ ने सुमित्रा के साथ बिताया, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह बाद में दशरथ द्वारा उपेक्षित हुई। सुमित्रा के अन्तःपुर में प्रवेश करते समय कौशल्या और कैकेयी को आशंका हुई; वे सोचने लगी—“यह हमसे सुन्दर है; दशरथ हमारी उपेक्षा करेंगे।” अतः दोनों ने पार्वती-शंकर की पूजा करके वर माँगा कि सुमित्रा अभागिनी हो। बाद में सुमित्रा को प्रमाद हुआ; जिससे सब सपत्नियों में सुन्दर होते हुये भी दशरथ उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगे तथा कैकेयी को सबसे अधिक चाहने लगे। असमीया बालकांड (अध्याय ११) में भी सिंहल द्वीप के राजा सुमित्र की कन्या का दशरथ के साथ विवाह वर्णित है।

३४०. वाल्मीकि रामायण तथा अधिकांश परवर्ती राम-कथाओं के अनुसार दशरथ की तीन पटरानियों का उल्लेख है और उनके नाम प्रायः कौशल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी ही रखे गये हैं। पञ्चमचरियं के अनुसार राम की माता अपराजिता थी तथा गुणभद्र के अनुसार उसका नाम सुबाला था।

कुछ जैन तथा बौद्ध राम-कथाओं में पटरानियों की संख्या चार तक बढ़ा दी गई है। इसका कारण यह है कि पुत्रों की संख्या चार थी। रविषेण, हेमचन्द्र आदि के अनुसार दशरथ की ये चार रानियाँ थीं—अपराजिता (कौशल्या), सुमित्रा, कैकेयी तथा सुप्रभा (शत्रुघ्न की माता)। पद्मपुराण के पातालखण्ड (अध्याय ११५) में चार पटरानियों के नाम मिलते हैं; भरत की माता का नाम सुरूपा है तथा शत्रुघ्न की

माता का नाम है सुवेधा। दशरथ कथानम् तथा पाश्चात्य वृत्तान्त न० १४ में भी चार पटरानियों का उल्लेख है; किन्तु इनके नामों का अभाव है।

राम-कथाओं का एक अन्य वर्ग मिलता है, जिसमें दशरथ की केवल दो महिषियों की चर्चा है। इसका प्राचीनतम उदाहरण प्रसिद्ध दशरथ जातक है। तिम्बती तथा खोतानी रामायणों के अनुसार भी दशरथ की केवल दो पटरानियाँ थीं। इसी प्रकार हिन्देशिया की राम-कथाओं में दशरथ के केवल दो विवाहों का उल्लेख मिलता है। सेरी राम तथा हिकायत महाराज रावण में दशरथ अपनी नई राजधानी का निर्माण करते समय बाँसों के समूह में सिंहासन पर बैठी हुई एक सुन्दर स्त्री को देखते हैं, जिसका नाम मद्रुदारी है। दशरथ तथा मद्रुदारी के विवाहोत्सव में बलियादारी नामक एक उपपत्नी टूटने वाली पालकी को संभालती है। इसपर दशरथ उसे अपनी धर्मपत्नी बनाकर उसके भावी पुत्र को राज्य दिलाने की प्रतिज्ञा करते हैं। जावा के सेरत काण्ड में दशरथ बाँस के समूह में पहले बलियादारू नामक अप्सरा को देखकर उसके साथ विवाह करते हैं तथा बाद में उसी स्थान पर बांदोदरी को भी प्राप्त करते हैं। बांदोदरी अपना नाम देवीरागो में बदल देती है। रावण के उसे प्राप्त करने के प्रयत्न का वर्णन सीता की जन्म-कथा के अन्तर्गत किया जायगा (दे० आगे अनु० ४२८)। पाश्चात्य वृत्तान्त न० ११ में भी दशरथ की केवल दो पटरानियों का उल्लेख है। भुंजा माधव-दास के उडिया विचित्र रामायण में २१ पटरानियों की चर्चा है, जिनमें से तीन श्रेष्ठ है।

दशरथ की स्त्रियों की संख्या में बहुत मतभेद है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने वनवास के लिये प्रस्थान करते समय अपनी ३५० माताओं से विदा ली थी (२, ३९, ३६)। पउमचरिय (२८, ७१) दशरथ की ५०० उत्तम स्त्रियों का उल्लेख करता है। आनन्द रामायण के अनुसार दशरथ ने तीन महिषियों के अतिरिक्त ७०० और विवाह किए थे (१, १, ७२)। कृत्तवाम रामायण (१, २९) तथा सारलादास के महाभारत में दशरथ की ७५० स्त्रियाँ मानी गई हैं। असमीया बालकाण्ड (अध्याय ११) में इनकी संख्या ७०० है। दशरथ जातक में दशरथ की १६००० स्त्रियों की चर्चा है।

विहीर जाति की राम-कथा में दशरथ की स्त्रियों की संख्या सात है तथा जावा के सेरत काण्ड में दो महिषियों के अतिरिक्त छः और पत्नियों का उल्लेख किया गया है।

ग । दशरथ की सन्तति

३४१. वाल्मीकि रामायण में दशरथ के चार पुत्रों का वर्णन किया गया है, जिनमें से लक्ष्मण और शत्रुघ्न यमल माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त उदीच्य पाठ में

उनकी एक पुत्री शान्ता का भी उल्लेख है, शान्ता विषमक सामग्री का अलग विश्लेषण किया जायगा (दे० आगे अनु० ३४३) ।

विमल सूरि के पञ्चमखण्ड (दे० २५, १४) में पहले-पहल भरत तथा शत्रुघ्न यमल माने गये हैं, बाद की कुछ राम-कथाओं में भी भरत तथा शत्रुघ्न सहोदर भाई कहे गये हैं, उदाहरणार्थ सषदास की वसुदेवहिण्डि, गुणभद्र का उत्तरपुराण, सथाही राम-कथा, मराठी भावार्थ रामायण (१, ६) । जात्रा के सेरत काण्ड में दशरथ की दो पत्नियों के दो-दो पुत्र उत्पन्न होते हैं, ज्येष्ठा के राम-भरत तथा कनिष्ठा के लक्ष्मण-शत्रुघ्न । हिकायत महाराज रावण में राम-लक्ष्मण कनिष्ठा के पुत्र माने जाते हैं और भरत-शत्रुघ्न ज्येष्ठा के पुत्र । सेरी राम में भी राम और लक्ष्मण मद्दारी के पुत्र माने जाते हैं, इस रचना में दशरथ की एक पुत्री की भी चर्चा है, जो भरत-शत्रुघ्न की सहोदरी है और जिसकी माता का नाम बलियादारी है ।

मेरी राम के पातानी पाठ के अनुसार लक्ष्मण भाई न होकर राम के सखा मात्र है तथा राम स्वयं विष्णु के सेनापति के पुत्र है । एक अन्य विकृत वृत्तान्त के अनुसार राम परमेश्वरी के पुत्र माने जाते हैं (दे० पाश्चात्य वृत्तान्त, न० १८, भाग ३, पृ० ३४३) ।

भरत तथा लक्ष्मण में से कौन ज्येष्ठ है इसके विषय में बाल्मीकि रामायण के पाठों में मतभेद है । दशरथ-जातक की भाँति उदीच्य पाठ में भरत कनिष्ठ माने जाते हैं (दे० गी० रा० १, १९, १०, प० रा० १, १४, ५) । लेकिन दाक्षिणात्य पाठ में लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न कनिष्ठ हैं । फिर भी दाक्षिणात्य पाठ के एक स्थल से ऐसा प्रतीत होता है कि भरत कनिष्ठ ही थे । युद्ध के बाद राम से मिलने के अनन्तर भरत ही लक्ष्मण का अभिवादन करते हैं

ततो लक्ष्मणमासाद्य संबेहीं च परंतपः ।

अथान्यबाबयत्प्रीतो भरतो नाम चाब्रवीत् ॥४१॥

(६, १२७)

जैन उत्तरपुराण, दशरथ जातक तथा प्रतिमा नाटक में भी (दे० अक ३) भरत लक्ष्मण के अनुज माने गये हैं । फिर भी अपेक्षाकृत प्राचीन काल से अधिकांश राम-कथाओं के अनुसार भरत लक्ष्मण के अग्रज हैं, उदाहरणार्थ अग्निपुराण, कूर्मपुराण, ज्योत्स्ना की रामायण-मजरी । रघुवश में भी ऐसा माना गया है, इसके फलस्वरूप युद्ध के पश्चात् लक्ष्मण ही भरत का अभिवादन करते हैं (दे० १३, ७३) ।

भरत तथा लक्ष्मण के विषय में उपर्युक्त विभिन्नता को लेकर भरतज्येष्ठ्यनिर्णय की रचना की गई है, जिसमें भरत को ज्येष्ठ सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है (दे० मद्रास कैटलॉग न० आर० ३४९२ सी) ।

३४२. बहुत सी विवेची राम-कथाओं में दशरथ के केवल दो पुत्रों का उल्लेख किया गया है। तिब्बती रामायण में दशरथ की दो पत्नियों के एक-एक पुत्र होता है। स्रोतानी रामायण में भी राम और लक्ष्मण का उल्लेख किया गया है। किन्तु इस रचना में दोनों सहस्रबाहु के पुत्र तथा दशरथ के पाँच माने जाते हैं। इसी प्रकार सेरी राम की राफल्स हस्तलिपि में केवल राम-लक्ष्मण की चर्चा है। राम जातक तथा पालक पालाम में भरत-शत्रुघ्न का निर्देश नहीं मिलता, लेकिन इनमें राम-लक्ष्मण के अतिरिक्त शान्ता का भी उल्लेख पाया जाता है।

दशरथ जातक के अनुसार दशरथ की महिषी को तीन सन्तानें थी—राम, लक्ष्मण तथा सीता। इस महिषी की मृत्यु के पश्चात् ही दशरथ ने एक दूसरी को महिषी के पद पर नियुक्त किया था। उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। मुनिचन्द्र सूरि (१२वीं श० ई०) के द्वारा हरिभद्र कृत उपदेशपद की टीका में कौसल्या सुमित्रा तथा कैकेयी के एक-एक पुत्र का उल्लेख मिलता है अर्थात् राम लक्ष्मण तथा भरत (दे० गाथा १४)। इसी प्रकार ब्रह्मचक्र में दशरथ की तीन महिषियों के एक-एक पुत्र की चर्चा है। जावा के सेरत काण्ड में राम-लक्ष्मण-भरत-शत्रुघ्न के अतिरिक्त दशरथ की छ और सन्तानों का उल्लेख किया गया है।

३४३ वाल्मीकीय रामायण के विभिन्न पाठों में शान्ता के विषय में मतभेद नहीं है। दक्षिणात्य पाठ में दशरथ तथा रोमपाद की घनिष्ठता की ओर निर्देश किया गया है (अगराजेन सख्य १ ११ ३ सख्य सबबर्क बॉब तथा तं प्रत्यपूजयत् १, ११ १८)। साथ-साथ इसका भी स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया गया है कि शाता रोमपाद की ही पुत्री थी (दे० १ ९ १३ और १ ११ १९) जिसे रोमपाद ने ऋष्यशृंग को पत्नीस्वरूप प्रदान किया था (दे० १ १० ३२)। सुमत्र के परामर्श के अनुसार दशरथ रोमपाद के यहाँ जाकर निवेदन करते हैं कि ऋष्यशृंग अयोध्या में अश्वमेध का अनुष्ठान करें। अतः ऋष्यशृंग सपत्नीक दशरथ के साथ अयोध्या आते हैं इस अवसर पर कहीं भी सकेत मात्र भी नहीं मिलता कि शान्ता अपने मायके वापस आ गई है (१ ११, ३०)। इसके अतिरिक्त दशरथ को "अनपत्य" कहा गया है (१, ११ ५)। गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठों में भी शान्ता लोमपाद की पुत्री मानी गई है—शांता स्वर्णां दुहितरम् (दे० गौडीय रामायण १, ८, २६, प० १, ८, २५)।

१ लक्ष्मण चट्टोपाध्याय न शान्ता-समस्या का विस्तृत विश्लेषण किया है। दे० दि प्रॉब्लेम ऑफ शांतास पैरेटेज, आबर हेरिटेज (कलकत्ता), भाग २, (१९५४), प० ३५३-३७४।

२ उबीष्य पाठों में रोमपाद के स्थान पर लोमपाद ही रखा गया है।

महाभारत में लोमपाद को 'सखा दशरथस्य' कहा है (३, ११०, १९) तथा इसका कई स्थलों पर स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि लोमपाद ने अपनी पुत्री शान्ता ऋष्यभृंग को प्रदान किया था (दे० ३, ११०, ५; १२, २२६, ३५; १३, १३७, २५)।

हरिवंश पुराण (१, ३१, ४६), मत्स्य पुराण (४८, ९५), वायु पुराण (९९, १०३) तथा ब्रह्म पुराण (१३, ४०) इन सब में शान्ता को लोमपाद की ही पुत्री माना गया है। फिर भी यह असंभव नहीं कहा जा सकता है कि रामायण के दक्षिणात्य पाठ के कुछ द्विघटक स्थलों के कारण ही शान्ता दशरथ की पुत्री मानी जाने लगी। सुमत्र दशरथ से कहते हैं कि—ऋष्यभृंगस्तु जामाता पुत्रांस्तथ विद्यास्य (दे० १, ९, १९)। यहाँ पर सदर्भ के कारण ऋष्यभृंग को रोमपाद का जामाता समझना चाहिये किन्तु व्याकरण की दृष्टि से वह दशरथ के जामाता भी हो सकते हैं। इसी कारण टीकाकार गोविन्दराज लिखते हैं—“जामाता रोमपादस्य दशरथस्यापि वा। दशरथस्यौरसी शांता वत्ता रोमपादस्य।”

इसके अतिरिक्त सर्ग ११ का निम्नलिखित उद्धरण ध्यान देने योग्य है :

इक्ष्वाकूणां कुले जातो भविष्यति सुधार्मिकः।

नाम्ना दशरथो राजा श्रीमान्सत्यप्रतिश्रवः ॥ २ ॥

अंगराजेन सख्यं च तस्यराजो भविष्यति।

कन्या चास्य महाभागा शान्ता नाम भविष्यति ॥ ३ ॥

इसमें 'अस्य' स्पष्ट रूप से अंगराज से सम्बन्ध रखता है किन्तु अमरेश्वर ठाकुर के संस्करण में पता चलता है कि बंगाल की कुछ हस्तलिपियों में 'अस्य' के स्थान पर 'तस्य' मिलता है, जिससे शान्ता दशरथ की पुत्री सिद्ध होती है। इसी श्लोक के अनन्तर गौडोय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठों में दशरथ द्वारा अपनी पुत्री शान्ता को प्रदान करने का वृत्तान्त दिया गया है।

अंगराजोऽनपत्यस्तु लोमपादो भविष्यति।

स राजानं दशरथं प्रार्थयिष्यति भूमिपः ॥ ४ ॥

अनपत्याय मे कन्यां सखे दातुं त्वमर्हसि।

शान्तां शांतेन मनसा पुत्रार्थं वरवर्जिनीं ॥ ५ ॥

(गी० रा० सर्ग १०; प० रा० सर्ग ९)

उदीच्य पाठों के उसी सर्ग में लोमपाद ऋष्यभृंग के पास जाकर दशरथ के विषय में कहते हैं :

अनेन मेऽनपत्याय वत्सेयं वरवर्जिनी।

यावते पुत्रकृत्याय शान्ता प्रियतसात्मजा ॥ २५ ॥

अतः स्पष्ट ही है कि गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठों के अनुसार शान्ता दशरथ की ही पुत्री थी, जिसे दशरथ ने अपने निःसन्तान सखा लोमपाद को प्रदान किया था। उदीच्य पाठों की यह धारणा दक्षिणात्य पाठ की दृढ्यता में उत्पन्न तो हो सकी है, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इसका वास्तविक कारण अन्यत्र ढूँढना चाहिये। हरिवंश, मत्स्य, वायु तथा ब्रह्म नामक पुराणों के अनुसार अगराज चित्ररथ के पुत्र के दो नाम थे : दशरथ तथा लोमपाद। अतः शाता पहले अंगराज दशरथ की पुत्री तो मानी गई थी, किन्तु अयोध्यानरेश (अज-पुत्र) दशरथ कहीं अधिक विख्यात थे, अतः शान्ता बाद में उन्हीं दशरथ की पुत्री मानी जाने लगी होंगी। हरिवंश का उद्धरण इस प्रकार है :

अथ चित्ररथस्यापि पुत्रो दशरथोऽभवत् ।

लोमपाद इति ख्यातो यस्य शाता सुताऽभवत् ॥ ४६ ॥

(पर्व १, अध्याय ३१)

परवर्ती रचनाओं में बहुधा अयोध्यानरेश दशरथ की पुत्री शान्ता का उल्लेख किया गया है; उदाहरणार्थ विष्णुपुराण (४, १८, १८), भवभूति का उत्तर-रामचरित (अंक १ की प्रस्तावना), स्कंद पुराण (नागर खण्ड, अध्याय ९८); पद्मपुराण के गौडीय पातालखण्ड (अध्याय १२), आनन्द रामायण, (१, १, १६-१७), असमीया बालकाण्ड (अ० १८), मराठी भावार्थ रामायण, सारलादास का उडिया महाभारत। भावार्थ रामायण में इंद्र दशरथ को शाता तथा ऋष्यभृग का विवाह सम्पन्न करने का परामर्श देते हैं (१, १)।

अगर गोविन्दराज का उद्धरण दिया गया है (१, ९, १९), जिसमें वह शान्ता को दशरथ की औरसी पुत्री मानता है। इसी प्रकार सर्ग ११ में रोमपाद तथा दशरथ के जो 'सबधकम्' का उल्लेख है, उसे राम वर्मा तथा गोविन्दराज यह अर्थ देते हैं कि शान्ता दशरथ की पुत्री थी, जिसे उन्होंने रोमपाद को प्रदान किया था (दे० १, ११, १८)।

कृतिवास (१, २९) के अनुसार दशरथ ने निःसन्तान लोमपाद को अपनी पहली सन्तान देने की प्रतिज्ञा की थी। अतः जब उनकी पत्नी (भागव राजा की पुत्री) एक कन्या को जन्म देती है, दशरथ उसका नाम हेमलता रखकर उसे लोमपाद के यहाँ भेजते हैं। बाद में हेमलता नाम का उल्लेख नहीं मिलता, किन्तु दशरथ द्वारा दी हुई कन्या का नाम शान्ता ही माना जाता है।<sup>१</sup> बंगाल की राम-कथाओं में दशरथ की

१. बगवासी संस्करण (१३२१) के पृ० ४५ की पादटिप्पणी में एक छंद उद्धृत है, जिसमें इसका नाम 'कान्ता' रखा गया है।

पुत्री का प्रायः उल्लेख मिलता है। अद्भुताचार्य के रामायण में इसका नाम शांता ही है, किन्तु चन्द्रावती कृत रामायण में कुकुआ नामक कैकेयी की एक पुत्री की चर्चा है (दे० विनेशचन्द्रसेन, पृ० १९७)। कहा जाता है कि सुवर्चस रामायण में शान्ता के प्रति सीता के शाप तथा उसके पक्षि-योनि प्राप्त करने की कथा पाई जाती है (दे० ऊपर अनु० २०६)।

विदेश की कुछ ही राम-कथाओं में दशरथ की पुत्री का उल्लेख है। हिन्देशिया के सेरी राम में इसका नाम कीकवी है और वह भरत-शत्रुघ्न की सहोदरी मानी जाती है। श्याम के राम जातक तथा पालक पालाम में दशरथात्मजा शांता का विवाह रावण के साथ सम्पन्न हो जाता है (दे० अनु० ३३६)। दशरथ जातक में सीता को दशरथ की पुत्री माना गया है (दे० ऊपर अनु० ५१)।

शान्ता की जन्मकथा माधवदासकृत विचित्र रामायण के अनुसार इस प्रकार है। इन्द्र के यहाँ जाते समय दशरथ ने उतावली के कारण गोमाता तथा मुनि ताराक्ष्य की अयज्ञा की थी और मुनि ने उन्हें निम्सन्तान होने का शाप दिया था। लौटते समय दशरथ फिर उस मुनि से मिले। दशरथ की अनुनय-विनय को सुनकर मुनि ने शाप बदलकर कहा—तुम्हारी पहली सन्तान एक लडकी होगी; तुमको उसे ऋष्यशृंग को देना चाहिये। ऋष्यशृंग से यज्ञ करवा कर तुम्हें पुत्र उत्पन्न होंगे। बाद में शान्ता के स्वयंवर के अवसर पर परशुराम आ पहुँचते हैं तथा ऋष्यशृंग के साथ कन्या का विवाह कराने का आदेश देते हैं, इसपर एक वेश्या को भेजा जाता है, जो ऋष्यशृंग को ले आती है और ऋष्यशृंग तथा शान्ता का विवाह सम्पन्न हो जाता है।

### घ। अहल्या का उद्धार

३४४. शतपथ ब्राह्मण से लेकर वैदिक साहित्य के अनेक ग्रन्थों में इन्द्र और अहल्या की कथा का बीज मिलता है, क्योंकि इनमें इन्द्र को अहल्यायार कहकर पुकारा गया है।<sup>१</sup> वैदिक साहित्य के टीकाकारों ने अहल्या की कथा को रूपक मात्र माना है तथा उस रूपक की अनेक प्रकार से व्याख्या की है। अहल्या भूमि (जिसमें हल नहीं चलाया गया है) तथा वर्षा के अधिष्ठाता देवता इन्द्र का संबंध स्वाभाविक ही प्रतीत होता है। परवर्ती साहित्य में अहल्या की कथा का पर्याप्त विकास हुआ तथा उसके उद्धार का संबंध राम से जोड़ा गया है।

१. दे० शतपथ ब्राह्मण (३, ३, ४, १८); मैकडॉनल-कीय, वैदिक इंडेक्स-अहल्या; डॉ० धीरेन्द्र वर्मा, अहल्या-उद्धार की कथा का विकास, विचार-धारा, पृ० २९-३४। जैमिनीय ब्राह्मण (२, ७९) तथा षड्विंश ब्राह्मण (१, १, २०) अहल्या को मंत्रेयी की उपाधि दी गई है।

महाभारत में गौतम को अहल्या का पति माना गया है। वास्तव में वैदिक साहित्य में लिखा है कि इन्द्र अपने को गौतम कहलवाते थे : कौशिक ब्राह्मण गौतम बुवागेति (शतपथ ब्रा० ३, ३, ४, १८; जैमिनीय ब्रा० २, ७९)। षड्विंश ब्राह्मण (१, १, २४) में इसके विषय में निम्नलिखित कथा मिलती है : देवता तथा असुर युद्ध कर रहे थे। गौतम दोनों सेनाओं के बीच तपस्या कर रहे थे। इन्द्र ने उनके पास जाकर निवेदन किया कि वे देवताओं के गुप्तचर बन जायें। गौतम ने अस्वीकार कर दिया, जिसपर इन्द्र ने गौतम का रूप धारण कर गुप्तचर बन जाने का प्रस्ताव रखा, गौतम ने इसे स्वीकार किया। इस कथा के आधार पर तथा इन्द्र के 'अहल्याया' नाम को दृष्टि में रखकर यह माना जाने लगा होगा कि अहल्या के पति का नाम गौतम ही था।<sup>१</sup>

अहल्या की वशावली के विषय में हरिवंश पुराण (१, ३२, २८-३२) में माना गया है कि मुद्गल, मौद्गल, इन्द्रसेन और वध्यश्व मे क्रमशः पिता-पुत्र का संबंध था। वध्यश्व तथा मेनका की दो सन्तान थी—दिवोदास तथा अहल्या। अहल्या ने गौतम की पत्नी बनकर शतानन्द को जन्म दिया। अहल्या के पिता का नाम विष्णु पुराण (४, १९, ६१) में बृहदश्व, मत्स्यपुराण (५०, ६) में विन्ध्याश्व तथा भागवत पुराण (९, २१, ३४) में मुद्गल ही माना गया है।

वाल्मीकीय उत्तरकाण्ड में पहले-पहल अहल्या की उत्पत्ति तथा गौतम-अहल्या के विवाह के विषय में निम्नलिखित वृत्तान्त मिलता है। ब्रह्मा ने दूसरे प्राणियों के सर्वश्रेष्ठ अंग लेकर एक ऐसी स्त्री का निर्माण किया, जिसमें 'हल' (कुरूपता) का संबंधा अभाव था और उसका नाम अहल्या रखा। इन्द्र अहल्या की अभिलाषा करते थे, किन्तु ब्रह्मा ने उसे धरोहर के रूप में गौतम ऋषि के यहाँ रखा। बहुत वर्षों के बाद गौतम ने उसे ब्रह्मा को लौटाया और ब्रह्मा ने तपस्वी गौतम की मिडि देखकर उन्हें अहल्या को पत्नीस्वरूप प्रदान किया।<sup>२</sup>

१. ऋग्वेद (१, १०, ११) के समय से कौशिक इन्द्र का एक नाम रहा है। अतः षड्विंश ब्राह्मण का वाक्यांश—कौशिको हि स्वर्ना ब्राह्मण उपन्देति (१, १, २२) का अर्थ नहीं है कि इन्द्र कौशिक का रूप धारण कर अहल्या से मिलने जाया करते थे। इस अर्थ के आधार पर सायण मानते हैं कि अहल्या के पति का नाम कौशिक ही था।
२. कृतिवास रामायण के अनुसार (१, ५९) ब्रह्मा ने पहले १००० सुन्दरियों की सृष्टि की थी और बाद में उनके सीदर्य से अहल्या का निर्माण किया। ब्रह्मा द्वारा अहल्या की सृष्टि होने के कारण उसे ब्रह्मा की पुत्री भी कहा जाता है (दे० अध्यात्म रामायण १, ५, ३५)। रामकियेन से गौतम-अहल्या-विवाह का एक अन्य रूप मिलता है (दे० आगे अनु० ५१४)।



ब्रह्मपुराण (अध्याय ८७) में इस वृत्तान्त का विकसित रूप पाया जाता है। इसके अनुसार ब्रह्मा ने गौतम को अहल्या के पालन-पोषण का भार सौंपा था। अहल्या की यौवन-प्राप्ति पर समस्त देवता, मुनि, दानव, यक्ष तथा राक्षस उसे मर्याने लगे, किन्तु इन्द्र ने विशेष आग्रह किया। यह देखकर ब्रह्मा ने कहा जो पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके सर्वप्रथम मेरे पास आवे, उसी को अहल्या दी जायगी। इसपर समस्त देवता पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने निकले, किन्तु गौतम ने अर्धप्रसूता सुरभि तथा शिव-लोक की प्रदक्षिणा की और अहल्या को प्राप्त किया। आनन्द रामायण में इस कथा क्री और सकेत किया गया है—ब्रह्मणा निर्मिताऽहल्या द्विमुखी योःपरिष्कामस् वसत पुत्र गौतमाय (१, ३, १८)।

पद्मचरित्रं (पर्व १३) के अनुसार अहल्या ज्वलनसिंह तथा वेगवती की पुत्री है, जिसने अपने स्वयंवर के अवसर पर राजा इन्द्र को ठुकराकर राजा नन्दिमाली (अथवा आनन्दमालिवर) को चुन लिया था। बाद में नन्दिमाली को वैराग्य हुआ और उन्होंने दीक्षा ली थी। किसी दिन इन्द्र ने उस ध्यानस्थ नन्दिमाली को बाँधा था, जिसका परिणाम यह हुआ कि इन्द्र रावण से हार गये। पाश्चात्य वृत्तान्त न० १ में अहल्या को भूल से विश्वामित्र की पत्नी माना गया है।

गौतम तथा अहल्या की सन्तति के विषय में विभिन्न उल्लेख मिलते हैं। महा-भारत में उनके पुत्र चिन्कारी (दे० १२, २५८, ४) तथा एक पुत्री की चर्चा है, जिसका विवाह गौतम ने अपने प्रिय शिष्य उत्तक के साथ कराया था (दे० प्रचलित महाभारत, पर्व १४, अध्याय ५६)। इसके अतिरिक्त गौतम-पुत्र शरद्वान्<sup>१</sup> का भी उल्लेख है, जो सरकण्डो के साथ उत्पन्न हुआ था (दे० आदि पर्व, १२०, २)। वाल्मीकि रामायण (दे० १, ५१, २) तथा महावीरचरित आदि राम-नाटक में जनक के पुरोहित षातानन्द को गौतम तथा अहल्या का पुत्र माना गया है। राम-कथाओं का एक अन्य वर्ग भी मिलता है, जिसके अनुसार अजना, वालि तथा सुग्रीव, अहल्या की सन्तान हैं (दे० आगे अनु० ३४७)।

३४५. गौतम-पत्नी अहल्या के साथ इन्द्र के दुराचार का वर्णन पहले-पहल महाभारत में मिलता है, जहाँ चिरकारिता की प्रशंसा करते हुए गौतम के पुत्र चिरकारी का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है।<sup>१</sup> अपनी स्त्री के व्यभिचार से क्रुद्ध होकर गौतम

१ हरिवंश पुराण (१, ३२, ३२) में अहल्या-पति का नाम शरद्वान् माना गया है। महाभारत में अहल्या-पुत्र शरद्वान् गौतम भी कहलाता है (दे० १, १२०, ५)।

२ दे० शांतिपर्व, अध्याय २५८। उद्योग पर्व में इन्द्र के दुराचार का उल्लेख मात्र किया गया है, दे० ५, १२, ६।

ने चिरकारी को अहल्या का बध करने का आदेश दिया तथा वन चले गये। अपने स्वभाव के अनुसार चिरकारी ने अपने पिता की इस आज्ञा पर बहुत समय तक विचार किया। इतने में गौतम वन में सोचने लगे कि मैंने अपनी निर्दोष पत्नी के बध का आदेश देकर अच्छा नहीं किया। इन्द्र ब्राह्मण के वेष में मेरे आश्रम आये; मैंने उनका आतिथ्य-सत्कार किया। बाद में जो दुःखद घटना हुई, उसमें मेरी स्त्री का कोई दोष नहीं था—अत्र चाकुशले जाते स्त्रिया नास्ति व्यतिक्रमः (२५८, ४६)। अतः वह घर लौटे तथा अपनी पत्नी को सकुशल पाकर अपने पुत्र की चिरकारिता की प्रशंसा करने लगे। महाभारत के कई स्थलों पर इन्द्र के प्रति गौतम के शाप का उल्लेख है, किन्तु अहल्या को महाभारत में सर्वत्र निर्दोष ही माना गया है। वाल्मीकीय रामायण के उत्तरकाण्ड (सर्ग ३०) के अनुसार भी अहल्या निर्दोष है किन्तु बालकाण्ड (सर्ग ४८) में कहा गया है कि जिज्ञासा से प्रेरित होकर अहल्या ने इन्द्र को गौतम के वेष में पहचानते हुये भी उनका प्रस्ताव स्वीकार किया था :

मुनिवेषं सहस्रासं विज्ञाय रघुनन्दन ।

मतिं चकार दुर्भेधा देवराजकुतूहलात् ॥ १९ ॥

परवर्ती कथाओं में इस बात पर प्रायः बल दिया जाता है कि अहल्या ने इन्द्र को नहीं पहचाना था।<sup>१</sup> ब्रह्मपुराण (अध्याय ८७) का वृत्तान्त इस प्रकार है। गौतम अपनी पत्नी के साथ ब्रह्मगिरि पर तप करते थे। अहल्या के विवाह के पहले से ही इन्द्र उस पर आसक्त हुये थे; अतः गौतम की अनुपस्थिति में इन्द्र गौतम का रूप धारण कर अहल्या के पास आया कन्ते थे, किन्तु अहल्या उन्हें गौतम समझती थी—**न बुबोध त्वहल्यातं जारं मेने तु गौतमम्** (श्लोक ४४)। किसी दिन संयोगवश आश्रम में दोनों ही गौतम दिखाई पड़े। आश्रमवासी यह आश्चर्य देखकर तथा इसे तप का प्रभाव समझकर गौतम से कहने लगे

भगवन्किमिदं चित्रं बहिरन्तश्च वृश्यसे ।

प्रिययाजन्तः प्रविष्टोऽसि तत्र च बहिर्भवान्

अहो तपःप्रभावोऽयं नामारूपधरो भवान् ॥ ४८ ॥

१. विनेश चन्द्र सेन द्वारा सम्पादित कृतिवास रामायण के अनुसार इन्द्र अपने ही रूप में आकर अहल्या की बुद्धि को झूट करने में सफल हैं। कंब रामायण (१, ९) तथा रगनाथ रामायण (१, २९) में अहल्या को दोषी माना गया है।

यह सुनकर गौतम अपने घर गए तथा इन्द्र ने गौतम के आगमन पर विडाल का रूप धारण कर लिया।<sup>१</sup>

वाल्मीकीय बालकाण्ड के अनुसार इन्द्र ने देवताओं के पास जाकर कहा था कि गौतम की तपस्या में विघ्न डालकर तथा उनमें क्रोध उत्पन्न कर मने देवताओं का उपकार किया है (दे० १, ४९, २)। परवर्ती रचनाओं में इन्द्र के इस उद्देश्य को अधिक महत्त्व दिया गया है। असमीया बालकाण्ड (अध्याय ३८) के अनुसार इन्द्र गौतम की घोर तपस्या देखकर डर गए थे। वह उस तपस्या में विघ्न डालने के विचार से उनके आश्रम में आ गए, किन्तु अहल्या को देखकर आसक्त हो गए। रंगनाथ रामायण (१, २९) में भी माना गया है कि गौतम की तपस्या में विघ्न डालने के उद्देश्य से इन्द्र ने अहल्या का सतीत्व नष्ट किया था।

ब्रह्मवैवर्त पुराण में इन्द्र के दुराचार का दो स्थलों पर वर्णन किया गया है (दे० कृष्ण-जन्म खण्ड, अध्याय ४७ और ६१)। दोनों वृत्तान्त अहल्या को निर्दोष मानते हैं। अध्याय ६१ के अनुसार इन्द्र कामशास्त्र में अपनी पहुँच का उल्लेख करते हुए अहल्या को प्रलोभन देते हैं तथा शची को अहल्या की दासी बनाने की प्रतिज्ञा करते हैं। अहल्या अविचलित रहकर घर जाती है और गौतम को सब कुछ बतलाती है। बाद में इन्द्र गौतम का रूप धारण कर अहल्या के साथ रमण करते हैं, किन्तु सर्वज्ञ मुनि घर लौटकर उनको शाप देते हैं।<sup>१</sup>

कृत्तिवास रामायण (१, ५९) में इन्द्र को गौतम का प्रियतम शिष्य माना गया है; उन्होंने गौतम का वेष धारण कर अहल्या के साथ रमण किया। बाद में गौतम घर पहुँचे और अहल्या के शरीर पर श्रृंगार के लक्षण देखकर इन्द्र का दुराचार जान गए। इन्द्र आश्रम में ही निवास करते थे तथा बुलाये जाने पर पुस्तके काँख में दबाये गौतम के पास आए।

रंगनाथ रामायण (१, २९) तथा तत्त्वसंग्रह रामायण (१, २५) के अनुसार इन्द्र ने भुर्गे का रूप धारणकर रात्रि में ही बाँग दी और गौतम को भ्रम में डाला कि पी फटने पर है।<sup>१</sup>

१. विडाल का रूप धारण करने की कथा कथासरित्सागर (दे० आगे अनु० ३४७), पद्मपुराण (सृष्टिखण्ड ५१, ५७), कम्ब रामायण (१, ९, ७६), बलरामदास रामायण आदि में भी मिलती है। पद्मपुराण के अनुसार गौतम ने ध्यानस्थ होकर इन्द्र का पाप जान लिया था।

२. बलरामदास रामायण में भी इन्द्र के पहले अपने ही रूप में तथा बाद में गौतम के रूप में अहल्या के पास आने का वर्णन है।

३. हिन्दी विश्रामसागर में भी इस प्रकार का निर्देश मिलता है—  
सुनि मुनि ये तमचुर सम बानी (अध्याय ७)।

३४६. अधिकांश रचनाओं के अनुसार गौतम अचानक घर पहुँचकर इन्द्र तथा अहल्या दोनों को शाप देते हैं; कुछ ही वृत्तान्तों में उनकी पुत्री भी उनका कोप-भाषण बन जाती है (दे० आगे अनु० ३४७)। वाल्मीकीय उत्तरकाण्ड के अनुसार गौतम शाप देकर अपने ही आश्रम में निवास करते हैं, किन्तु बालकाण्ड के अनुसार उन्होंने अहल्या को वहाँ छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान किया।<sup>१</sup>

गौतम के शाप के कई रूप मिलते हैं। महाभारत के अनुसार इस शाप के कारण इन्द्र की दाढ़ी पीली पड़ गयी थी—अहल्याधर्वणनिमित्तं हि गौतमाध्वरिश्मभ्युत्तमिन्द्रः प्राप्तः<sup>२</sup>। वाल्मीकीय उत्तरकाण्ड में लिखा है कि गौतम ने इन्द्र को पराजित होने का शाप दिया, जिसके फलस्वरूप मेघनाद ने इन्द्र को हरा दिया था। इसके अतिरिक्त गौतम ने कहा कि मनुष्यों के इस प्रकार के पापों का आधा दोष इन्द्र का ही रहेगा और इन्द्र (अथवा किसी भी भावी सुरेन्द्र) का पद कभी स्थिर नहीं हो पायेगा (दे० सर्ग ६०, ३२-३५)। लिग पुराण (अध्याय २९) में किसी शाप का उल्लेख नहीं है, किन्तु यह माना गया है कि गौतम इन्द्र का वृषणकाट करने भूमि पर फेंक दिया था:

इन्द्रस्यापि च धमंज छिन्नं तु वृषणं पुरा ।

ऋषिणा गौतमेनोष्या क्रुद्धेन विनिपातितम् ॥ २७ ॥

वाल्मीकि के बालकाण्ड के वृत्तान्त में गौतम शाप द्वारा इन्द्र को नपुंसक बना देते हैं।<sup>३</sup> बालकाण्ड के इस शाप का उल्लेख ५२वर्ती रचनाओं में तो मिलता है<sup>४</sup>, किन्तु गौतम-शाप का सर्वाधिक प्रचलित रूप यह है कि इन्द्र के शरीर में सहस्र भ्रम प्रकट हूयें; दे० ब्रह्मपुराण (८७, ५९); स्कन्द-पुराण (नागरखण्ड, अ० २०७); कथा-सरित्सागर (३, १७); पद्मपुराण (५, ५१, २८), अध्यात्म रामायण (१, ५, २६);

१. अध्यात्म रामायण में भी गौतम हिमालय जाते हैं (१, ५, ३३)।
२. दे० शांति पर्व ३२९, १४ (१)। महाभारत के एक अन्य स्थल पर इसका उल्लेख मात्र किया गया है कि अहल्या के कारण इन्द्र को शाप दिया गया था; दे० १३, १५३, ६ (यह सदर्भ गीता प्रेस के संस्करण का है)।
३. इस शाप के कारण इन्द्र का वृषण भूमि पर गिर गया (सर्ग ४८)। अगले सर्ग में देवताओं द्वारा इन्द्र को मेघ का वृषण दिलाने का वर्णन है। महाभारत के अनुसार विश्वामित्र ने ही इन्द्र को इस प्रकार का शाप दिया था—कौशिकनिमित्तं चंद्रो मुष्कक्रियोमं मेघवृषणत्वं वाचापः (दे० शांति पर्व, ३२९, १४(२))।
४. दे० पद्मपुराण (सृष्टिखण्ड ५१, २९), बलरामदास रामायण, तत्त्व-संग्रह रामायण आदि।

कथं रामायण (१, ९); ब्रह्मवैवर्त पुराण (कृष्णजन्मखण्ड, अध्याय ४७ और ६१); आनन्द रामायण (१, ३, १९); बलरामदास रामायण, तत्त्वसंग्रह रामायण (१, २५); तोरवे रामायण (१, १२); कृत्तिवास रामायण (१, ५९)। इन सब रचनाओं में प्रायः इसका उल्लेख मिलता है कि इन्द्र बाद में सहस्रभगवान् से सहस्रनयन बन गये। ब्रह्मपुराण के अनुसार गौतमी नदी में स्नान करने से इन्द्र में यह परिवर्तन हो सका था किन्तु ब्रह्मवैवर्त पुराण में इन्द्र को इसके लिये एक सहस्र वर्ष तक सूर्य की आराधना करनी पड़ी। इस रचना में गौतम के दो अन्य शायों का भी उल्लेख है—“पूर्णेवर्षे च सततं बोनिमांशं त्वन्नाप्नुहि” और “अष्टधी भव” (दे० अध्याय ४७, ३१-३२)। बलरामदास तथा कव रामायण के अनुसार गौतम ने ब्रह्मा के अनुरोध पर अपना शाप बदलकर इन्द्र को सहस्रनयन बना दिया था।<sup>१</sup> कृत्तिवास (दे० १, ६०) के अनुसार इन्द्र के अश्वमेध-यज्ञ करने पर उनमें यह परिवर्तन आ गया है। पद्मपुराण (५, ५१, ४८) के अनुसार इन्द्र देवी के वरदान के फलस्वरूप सहस्राक्ष बन गये थे।

माघवदेवकृत असमीया बालकाण्ड (अध्याय ३८) में इस संबंध में निम्न-लिखित कथा मिलती है। इन्द्र भिक्षार्थी ब्राह्मण का रूप धारण कर गौतम के आश्रम से चले गये थे। रास्ते में गौतम से भेंट होने पर इन्द्र कांपने लगे; गौतम को यह देखकर सन्देह हुआ और उन्होंने इन्द्र को पहचान कर उन्हें (नपुंसक तथा सहस्रभगवान बनने का) दोहरा शाप दिया। इन्द्र अपनी यह लज्जाजनक दशा देख कर एक पथ-कोष में छिप गये। बहुत दिनों के बाद शची ने बृहस्पति से पूछा कि इन्द्र कहाँ हैं। दुर्गा से इन्द्र के छिपने का स्थान जानकर बृहस्पति ने वहाँ आकर उन्हें दुर्गा की पूजा करने का परामर्श दिया। इन्द्र की पूजा से सन्तुष्ट होकर दुर्गा ने कहा कि मैं शाप दूर करने में असमर्थ हूँ; किन्तु मैं उसे बदल सकती हूँ; इसपर दुर्गा ने इन्द्र को सहस्रनयन बना दिया था। घर पहुँच कर इन्द्र ने अश्विनीकुमारों को बुलाया और उन्होंने इन्द्र को अज का अण्डकोष लगाया। इसी कारण से अज पवित्र हो गया है तथा पितृ-कार्य में इतकना मांस चढ़ाया जाता है।

महाभारत में अहल्या के प्रति किसी शाप का उल्लेख नहीं है। वाल्मीकीय उत्तरकाण्ड के अनुसार गौतम ने अहल्या से कहा कि तुम्हारे सौन्दर्य के कारण यह अनर्थ

१. वास्तव में सहस्रनयन अथवा सहस्राक्ष उपाधि महाभारत के आदिपर्व से लेकर इन्द्र के लिये प्रयुक्त हुई है (दे० अध्याय २१, १२)। इसकी उत्पत्ति की भी कथा दी गई है; तिलोत्तमा को देखने की अभिप्राया में इन्द्र स्वतः सहस्राक्ष बन गये थे (दे० आदिपर्व २०३, २६)।

हुआ है, अतः अब से लेकर तुम अकेली ही सुन्दर नहीं होगी; सभी लोग तुम्हारे सौन्दर्य के भागी बन जायेंगे :

तस्मान्नूपवती लोके न त्वमेका भविष्यसि ॥

रूपं च ते प्रजाः सर्वा गमिष्यन्ति न संशयः (सर्ग ३०, ३७-३८) ।

बालकाण्ड (सर्ग ४८) के वृत्तान्त में गीतम अहल्या को आदेश देते हैं कि वह अदृश्य होकर राम के पहुँचने तक तपस्या करे :

इह वर्षसहस्राणि बहूनि निवसिष्यसि ॥ २९ ॥

वातभक्षा निराहारा तप्यन्ती भस्मशायिनी ।

अवक्ष्या सर्वभूतानामाश्रमेऽस्मिन्वसिष्यसि ॥ ३० ॥

अनन्तर गीतम यह भी कहते हैं कि राम का आतिथ्य-सत्कार करने के पश्चात् तुम पूर्ववत् अपना शरीर धारण कर मेरे पास आओगी अर्थात् अपने पूर्वरूप में मेरे साथ रहोगी—स्वं वपुर्धारयिष्यसि (४८, ३२) । संभवतः इस वाक्यांश के कारण यह धारणा उत्पन्न हुई कि अहल्या शापवश शिला बन गई थी । शाप का यह परिणाम पहले-पहल रघुवंश (११, ३४) में पाया जाता है । आगे चलकर पाषाणभूता अहल्या का बहुत सी रचनाओं में उल्लेख मिलता है; उदाहरणार्थः नृसिंह पुराण (अध्याय ४७); स्कन्दपुराण (रेवाखण्ड, अ० १३६, नागरखण्ड, अ० २०८); कथा-सरित्सागर (३, १७), महानाटक (३, १७); बह्मिपुराण (पृ० १८२); कब रामायण (१, ९); रगनाथ रामायण (१, २९), सारलादासकृत महाभारत (मध्य पर्व पृ० २०३); कृत्तिकास रामायण (१, ५९); ब्रह्मवैवर्त पुराण (कृष्णजन्म खण्ड, अ० ४७ और ६१); गणेश पुराण<sup>१</sup>; पद्मपुराण (उत्तरखण्ड, अ० २६९ तथा गौडीय पातालखण्ड, अ० १६); आनन्द रामायण (१, ३, १६); राघवोल्लास काव्य (सर्ग ६); तोरवे रामायण (१, १२); रामचरितमानस (१, २१०); गीतावली (१, ५७); असमीया बालकाण्ड; सूरसागर (नवम स्कंद, पद ४६६); सत्योपाख्यान (२, ५); मराठी भावार्थ रामायण (१, १४); तत्त्वसंग्रह रामायण (१, २५), पाश्चात्य वृत्तान्त न० १० आदि ।

रामकियेन के अनुसार गीतम ने अहल्या को इसी उद्देश्य से पत्थर बनने का शाप दिया था कि नारायण के रामावतार के समय वह सेतु बनाने के काम में आ जाय और इस प्रकार सदा के लिये सागर में दफनायी जाय (अध्याय ६) ।

१. दे० सातवलेकर, श्री रामायण महाकाव्य का बालकाण्ड (१९४३)  
पृ० ५५६ ।

गौतम के शाप का एक अन्य रूप कम प्रचलित है, इसके अनुसार अहल्या नदी बन गई थी। ब्रह्मपुराण (८७, ५९) में शाप इस प्रकार है—शुष्कनदी नद्य तथा जानन्य रामायण (१, ३, २३) के अनुसार अहल्या जनस्थान में नदी के रूप में प्रकट हुई। पद्मपुराण (सृष्टिलखण्ड ५१, ३३) के अनुसार गौतम के शाप के कारण अहल्या का शरीर सूख गया था—अस्थिचर्मसमाविष्टा निर्मासा।

योगवासिष्ठ के रचयिता ने पौराणिक कथा के अनुकरण पर एक अन्य अहल्या और इन्द्र को एक दूसरे के अनन्य प्रेमियों के रूप में चित्रित किया है। कथा इस प्रकार है

इन्द्रद्युम्न नामक राजा की पत्नी अहल्या ने किसी दिन गौतम की पत्नी अहल्या तथा इन्द्र की कथा सुनी, जिससे वह अपने नगर के सुन्दर ब्राह्मण-कुमार इन्द्र पर आसक्त हुई। रानी ने ब्राह्मण-कुमार को देखना चाहा। एक सखी इन्द्र को रानी के पास ले आई, जिससे दोनों में परम अनुराग उत्पन्न हुआ। और वे उस समय से बहुधा मिलते थे। राजा ने वृत्तान्त सुनकर दोनों को दण्ड दिया, किन्तु एक दूसरे के प्रेम में मग्न रहने के कारण उनको इस शारीरिक दण्ड का अनुभव ही नहीं हुआ। यहाँ तक कि हाथियों के पैरों के नीचे डाले जाने पर अथवा अग्नि में फेंके जाने पर भी उनको दुःख नहीं हुआ। दोनों का प्रेम नष्ट करने में असफल होकर राजा भरत नाम के ऋषि के पास गए और उन्होंने उनसे दोनों को शाप देने की प्रार्थना की। भरत ने ऐसा ही किया और दोनों के शरीर शापवश भूमि पर गिर पड़े। दोनों मृगयोनि में उत्पन्न होकर साथ ही रहते थे। बाद में दोनों पक्षी बने और इसके बाद ब्राह्मण-दम्पति के रूप में प्रकट होकर एक-दूसरे में अनुरक्त रहे। इसके पीछे भी उनके अनेक जन्म हो गए, लेकिन दोनों प्रत्येक जन्म में एक दूसरे को प्रेम करते रहे (दे० उत्पत्ति प्रकरण, सर्ग ८९)।

३४७. अहल्या की कथा का एक अन्य रूप भी मिलता है, जिसमें अजनी उसकी पुत्री मानी गई है। इस कथा का बीज कथासरित्सागर में विद्यमान है, जहाँ अजना का उल्लेख नहीं है। गौतम ऋषि दिव्य ज्ञान द्वारा अपनी पत्नी अहल्या का इन्द्र के साथ व्यभिचार जानकर अकस्मात् घर पहुँचे, इसपर इन्द्र ने मार्जार का रूप धारण कर लिया। गौतम के पूछने पर अहल्या ने प्राकृत में—एसो ठिअो खु मञ्जारो (एव स्थितः खलु मार्जारः), इसके दो अर्थ हैं—यह मार्जार है अथवा यह मेरा जार है। उत्तर सुनकर गौतम ने इन्द्र और अहल्या दोनों को शाप दिया, अहल्या को शिला बन

१ अपभ्रंश में सिरा (शिला) का अर्थ "शिला" तथा "नदी" दोनों हो सकता है, संभव है इसी कारण से गौतम के शाप का यह रूप प्रचलित हुआ।

जाने का तथा इन्द्र को सहस्रयोनि हो जाने का (दे० ३, १७)। इस वृत्तान्त पर आधारित अंजनी के विषय में निम्नलिखित कथा पंजाब में प्रचलित है—गौतम ने गगा-स्नान से लौटकर अपनी पुत्री अंजनी से पूछ लिया था कि घर में कौन है। अंजनी ने उत्तर दिया—“भांजार” (भांजार अथवा माँ का जार)। इस हृष्यता के कारण गौतम ने अपनी पुत्री को गर्भवती हो जाने का शाप दिया और फलस्वरूप उसने हनुमान को जन्म दिया (दे० मैकॉज़िफ, दि० सिख रेलिजन, भाग ६, पृ० ५२ और अनु० ६७२)। इस कथा के विकसित रूप में गौतम की पत्नी अहल्या की तीन सन्तानें हैं—अंजनी (गौतम की पुत्री) और दो पुत्र बालि और सुग्रीव, जिन्हें गौतम तो अपनी सन्तान समझते हैं, किन्तु वास्तव में वे इन्द्र और सूर्य के पुत्र हैं (दे० आगे अनु० ५१४)।

३४८. महाभारत में अहल्या की कथा के प्रसंग में राम का उल्लेख नहीं होता। राम द्वारा अहल्योद्धार का प्राचीनतम रूप वाल्मीकि रामायण में सुरक्षित है। उत्तरकाण्ड के अनुसार गौतम ने अहल्या को आश्वासन दिया कि विष्णु-अवतार राम के दर्शन-मात्र से वह पवित्र हो जायेगी (तं ब्रह्मसि यदा भद्रे ततः पूता भविष्यसि; सर्ग ३०, ४३)। बालकाण्ड के वृत्तान्त में राम के विष्णुत्व की ओर निर्देश नहीं किया गया है। गौतम ने अहल्या से कहा—“तपस्या करो तथा राम के आने पर उनका आतिथ्य-सत्कार करने के बाद मेरे पास लौटो। राम के आगमन तक वह शाप के प्रभाव से अदृश्य होकर तपस्या करती है। विश्वामित्र से यह कथा सुनकर राम तथा लक्ष्मण आश्रम में प्रवेश करते हैं। उसी समय शाप की अवधि समाप्त हो जाती है; अतः वे अहल्या को देखने में समर्थ हैं और ऋषि-पत्नी के पैर छूते हैं:

शापस्यान्तमुपागम्य तेषां दर्शनमागता ॥ १६ ॥

राघवौ तु तत्रा तस्याः पादौ जग्मूस्तदा ।'

राम-लक्ष्मण का आतिथ्य-सत्कार करने के पश्चात् (पाद्यमर्घ्यं तथातिथ्यं चकार सुसमाहिता) अहल्या अपने पति के पास लौट जाती है (सर्ग ४९)।

अधिकांश परवर्ती रचनाओं के अनुसार अहल्या वास्तव में शिला बन गई थी और राम उसे अपने चरण के स्पर्श से पुनर्जीवन प्रदान करते हैं; उदाहरणार्थ:

१. दाक्षिणात्य पाठ के अनुसार अहल्या ने भी राम-लक्ष्मण के पैर छुये—  
'स्मरन्ती गौतमवचः प्रतिजग्राह सा हि तौ'। यह अद्वैतलोक प्रक्षिप्त है; इसके स्थान पर उदीच्य हस्तलिपियों में प्रायः मिलता है—'सा च तौ पूजयामास स्मृत्वा गौतमवामितम् ।'



महानाटक (३, १७); आनन्द रामायण (१, ३, २०); ब्रह्मवैवर्त पुराण (कृष्ण-खण्ड, अध्याय ४७ और ६१); आदि। कृत्तिवास के अनुसार राम ने अहल्या के मस्तक पर ही अपना पीर रखकर उसे पाषाण में से प्रकट किया था।

स्कन्द पुराण की कथा में शैव सम्प्रदाय का प्रभाव स्पष्ट है। इसके अनुसार राम ने हाथ से शिला का स्पर्श करके अहल्या का उद्धार किया और उसे विभिन्न तीर्थों की यात्रा करने का आदेश दिया। अहल्या ने ऐसा किया और अनेक तीर्थों में हरलिङ्ग की स्थापना की (दे० नागरखण्ड, अ० २०८)।

पद्मपुराण के अनुसार गौतम ने अपने शाप के अन्त के विषय में अहल्या को आश्वासन दिया कि राम किसी दिन सीता तथा लक्ष्मण के साथ इस आश्रम में आवेंगे तथा तुमको "शुष्करूपा प्रतिमा" के रूप में देखकर वसिष्ठ से पूछ लेंगे कि यह मूर्ति क्या है। वसिष्ठ से पूर्व वृत्तान्त सुनकर राम तुमको निर्दोष घोषित करेंगे; तब तुम दिव्य रूप धारण कर मेरे पास आओगी: दिव्यरूपं समास्थाय भवद्गुहं चागमिष्यसि (दे० सृष्टिखण्ड, अध्याय ५१)।

नदी-रूपा अहल्या का उद्धार दो प्रकार से वर्णित है। ब्रह्मपुराण में राम का उल्लेख नहीं है, गौतमी नदी से मिलने पर अहल्या ने अपना पूर्व रूप धारण किया था—तया तु संगता देव्या (गौतम्या) अहल्या गौतमिया पुनस्तद्रूपमभवत् (८७, ६६)। आनन्द रामायण के अनुसार राम ने मिथिला जाते समय पाषाणभूता अहल्या का उद्धार किया था, किंतु उस रचना में कल्पभेद का भी उल्लेख है, जिसके अनुसार राम ने वनवास के समय नदी-रूपा अहल्या का स्पर्श करके उसको शाप मुक्त किया था: रामेण भ्रमत्तारण्ये स्वर्गाश्रयस्पर्शसिमुद्धृता नदीरूपा अहल्या (१, ३, २१)।

रामभक्ति से अनुप्राणित रचनाओं में प्रस्तुत वृत्तान्त का वातावरण नितान्त बदल गया है। अध्यात्म रामायण का रचयिता पाषाणभूता अहल्या की कथा से अनभिज्ञ नहीं था (दे० केवट वृत्तान्त १, ६, ३) फिर भी उसने माना है कि अहल्या शिला पर खड़ी होकर तपस्या करती रही (लिख्त बुवुंसे शिलायामाश्रमे भव; १, ५, २७) राम ने उस आश्रयशिला का अपने चरण से स्पर्श किया और उसको अपना विष्णु-रूप दिखाया। अहल्या ने राम का विधिवत् पूजन किया और अनन्तर एक विस्तृत स्तुति में राम के ब्रह्मस्वरूप का निरूपण किया तथा भक्ति का वरदान माँगा (१, सर्ग ५)। अहल्या की स्तुति को राघवोल्लास काव्य (सर्ग ७) तथा रामचरित-मानस में भी एक महत्त्वपूर्ण स्थान मिला है। इस तरह "अहल्या-उद्धार की यह प्रसिद्ध

पौराणिक कथा ब्राह्मण-ग्रन्थों के अहल्याजार इन्द्र से प्रारम्भ होकर अनेक रूप धारण करने के उपरान्त अहल्या-तारक राम की भक्ति में लय हो जाती है' ।<sup>१</sup>

अधिकांश रचनाओं के अनुसार राम ने मिथिला की यात्रा में अहल्या का उद्धार किया था। फिर भी अनेक राम-कथाओं में राम के वनवास के समय इस घटना का वर्णन किया गया है। महानाटक में अगस्त्याश्रम से चले जाने के उपरान्त राम अहल्या का उद्धार करते हैं (दे० अंक ३)। रामलिंगामृत में राम सीता की खोज करते हुये शिलामयी अहल्या को शाप से मुक्त कर देते हैं (दे० सर्ग ६)। आनन्द रामायण में भी वनवास के समय इसका वर्णन किया गया है। रामायण ममीही के अरण्यकाण्ड में राम द्वारा पाषाणभूता अहल्या के उद्धार की कथा मिलती है। काश्मीरी रामायण के अरण्यकाण्ड के प्रारम्भ में राम सीता से अहल्या का परिचय कराते हैं।

नाटककारों ने राम-कथा को बदलने में कभी सकोच नहीं किया है। जानकी-परिणय में अहल्योद्धार की कथा इस प्रकार है। सीता-स्वयंवर के पूर्व राक्षसी द्वारा निर्मित एक माया-सीता के प्राणों को सकट में देखकर राम आत्महत्या करने के उद्देश्य से एक चट्टान पर से नीचे कूदना चाहते हैं। लेकिन राम के स्पर्श से इस चट्टान से प्रकट होकर अहल्या राम को राक्षसी माया का रहस्य बताती है।<sup>२</sup>

## ड। परशुराम

३४९. वाल्मीकि रामायण में परशुराम के तेजोभग का प्रसंग बालकाण्ड के विकास के अन्तिम सोपान का है इसका उल्लेख ऊपर हो चुका है (दे० अनु० ३३३)। महाभारत के रामोपाख्यान अथवा विमलसूरि के पउमचरिय में इस घटना की ओर कहीं भी निर्देश नहीं मिलता। महाभारत के अनेक स्थलों पर परशुराम की कथा का वर्णन किया गया है, किन्तु पूना के प्रामाणिक संस्करण में राम द्वारा उनके तेजोभग का उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया है। अतः यह प्रसंग अपेक्षाकृत अर्वाचीन प्रतीत होता है।

राम-कथाओं में प्रायः परशुराम के दो कार्यों की ओर निर्देश किया जाता है, एक मातृवध तथा दूसरा क्षत्रियों का विनाश। दोनों का वर्णन पहले-पहल महाभारत में

१ दे० डॉ० धीरेन्द्र वर्मा विचारधारा, पृ० ३४।

२ केवट का वृत्तान्त (दे० आगे अनु० ४३२) पाषाणभूता अहल्या के उद्धार पर आधारित है, इसी वृत्तान्त के फलस्वरूप कुछ रचनाओं में यह कल्पना कर ली गई है कि वानर-सेना ने राम को पैंरो से सेतु का स्पर्श नहीं करने दिया (दे० आगे अनु० ५८१)।

किया गया है। परशुराम जमदग्नि तथा रेणुका के पाँचवें पुत्र थे। किसी दिन उन्होंने जमदग्नि की आज्ञा शिरोधार्य कर अपने परशु<sup>१</sup> से अपनी माता का मस्तक काट डाला और अपने इस आज्ञापालन के फलस्वरूप वर पाकर उसे फिर जिलाया था (दे० ३, अध्याय ११६)। महाभारत के अनुसार परशुराम ने पृथ्वी को इक्कीस बार क्षत्रिय-विहीन कर दिया त्रिःसप्तकुरवः पृथिवीं कृत्वा निःक्षत्रियां पुरा (दे० १, ५८, ४)। कथा इस प्रकार है। कार्तवीर्य सहस्रार्जुन ने जमदग्नि की कामधेनु के बछड़े को चुराया था, जिसपर परशुराम ने उनका वध किया था। बाद में सहस्रार्जुन के पुत्रों ने परशुराम की अनुपस्थिति में जमदग्नि को मार डाला। प्रतिकारस्वरूप परशुराम ने पृथ्वी को इक्कीस बार क्षत्रियविहीन करके उसे कश्यप को प्रदान किया और महेन्द्र पर्वत पर निवास करने लगे (दे० वनपर्व, अध्याय ११३-११७, शातिपर्व, अध्याय ४९)।

अर्वाचीन राम-कथाओं में परशुराम का कई अवसरों पर उल्लेख होता है। वेदान्त रामायण में वाल्मीकि राम को परशुराम की कथा सुनाते हैं (दे० ऊपर अनु० १८३)। शान्ता-स्वयंवर (दे० अनु० ३४३) तथा दशरथयज्ञ (अनु० ३५८) के अवसर पर परशुराम के आगमन का वर्णन किया गया है। कृत्तिवास रामायण के अनुसार परशुराम ने दशरथ को शब्दभेदी वाण चलाना सिखलाया था (दे० १, २३) तथा शिव की आज्ञा से जनक के पास शिव-धनुष ले आये थे (दे० अनु० ३९२)। भावार्थ रामायण के अनुसार उन्होंने जनक को सीता-स्वयंवर के अवसर पर धनुष की परीक्षा लेने का परामर्श दिया था (दे० १, १७)।

३५०. वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम-परशुराम के संघर्ष का कारण यह है कि क्षत्रिय-विरोधी परशुराम दशरथ राम के पराक्रम तथा उनके द्वारा धनुर्भंग के विषय में सुनकर उनके साथ द्वन्द्व-युद्ध करना चाहते हैं। वे विष्णु-न्वाप लिये आते हैं और राम से निवेदन करते हैं कि इसे चढाकर वे अपने को योग्य प्रतिद्वन्दी सिद्ध करें। विष्णु-न्वाप का इतिहास इस प्रकार है विश्वकर्मा ने दो धनुषों का निर्माण किया था। एक शिव के लिये और एक विष्णु के लिये। किसी दिन विष्णु तथा शिव में युद्ध होने वाला था कि विष्णु के ठुकार मात्र से शिव का यह धनुष ढीला पड़ गया

१ प्रचलित महाभारत के एक श्लोक के अनुसार परशुराम ने गधमादन पर्वत पर महादेव को सन्तुष्ट कर अनेक प्रकार के शस्त्र तथा अत्यन्त तेजस्वी कुठार प्राप्त किया था। पूना का प्रामाणिक संस्करण यह श्लोक प्रक्षिप्त मानता है; दे० १२, ४९, २९, पाद-टिप्पणी।

और शिव हार गये। बाद में शिव ने अपना धनुष विदेह के राजा देवरात को दी दिवा तथा विष्णु ने अपना धनुष भृगुवंशी ऋचीक को (बालकाण्ड, सर्ग ७५)।

अतः वाल्मीकि तथा अधिकांश राम-कथाओं के अनुसार राम-परशुराम-संघर्ष का कारण यह है कि परशुराम एक सुयोग्य प्रतिद्वन्दी क्षत्रिय से युद्ध करना चाहते हैं। नृसिंह पुराण में पहले-पहल एक अन्य कारण का उल्लेख मिलता है। परशुराम राम को यह चुनौती देते हैं: या तो राम नाम छोड़ दो अथवा भरे साथ युद्ध करो (स्थज एवं रामसंज्ञां तु मया वा संमरं क्रुह; अध्याय ४७, १४६)। अध्यात्म रामायण तथा आनन्द रामायण में जो कारण दिया गया है, वह वाल्मीकीय बालकाण्ड तथा नृसिंह पुराण के कारणों का सम्मिलित रूप है, परशुराम कहते हैं:

त्वं राम इति नाम्ना मे चरसि क्षत्रियाद्यम ॥

द्वन्द्वयुद्धं प्रयच्छाशु यदि त्वं क्षत्रियोऽसि वं ।

(अध्यात्म १, ७, ११, आनन्द रा० १, ३, ३५०)

हिन्देशिया के सेरी राम तथा कम्बोडिया की रामकेत्ति में भी राम नाम ही संघर्ष का कारण माना गया है।

राम-नाटकों में इसका एक तीसरा कारण मिलता है। अध्यात्म रामायण में परशुराम शिव के धनुष की अवज्ञा करते हुये कहते हैं कि यह तो पुराना तथा जर्जर है—पुराणं जर्जरं चापं भक्त्या त्वं कल्पते मुधा (१, ७, १२), किन्तु राम-नाटकों में परशुराम को शिव का शिष्य माना गया है और वे अपने गुरु के प्रति किये हुये अनादर का प्रतिकार करने जाते हैं। इस कारण का प्रथम उल्लेख महावीरचरित में मिलता है—रावण-मंत्री माल्यवान के उकसाने पर (अंक २, १२) परशुराम हर्षापभंजक राम का दमन करने के लिये मिथिला में आ पहुँचते हैं (अंक २, १७)। असमीया बालकाण्ड में भी परशुराम के क्रोध का कारण यह है कि उनके गुरु शिव का धनुष तोड़ा गया है (अध्याय ४४)। परवर्ती रचनाओं में परशुराम को बहुधा शिव के शिष्य अथवा शैव-संन्यासी के रूप में चित्रित किया गया है, उदाहरणार्थ: अनर्ब-राघव (४, ३२); बाल रामायण (अंक ४); महानाटक (१, १८); प्रसन्नराघव (इसमें धनुर्भंग के पूर्व भी परशुराम का दूत आकर जनक से निवेदन करता है कि शिव-धनुष का अनादरन किया जाय। दे० अंक ३, ३८); रामगीतगोविन्द (सर्ग २, १२); रामचरितमानस (१, २६८)। कृत्तिवास दो कारणों का उल्लेख करते हैं—परशुराम के गुरु शिव के धनु का अपमान तथा राम का नाम (मम सम करि राखियाछ पुत्र नाम, दे० १, ६३)। रंगनाथ रामायण (१, ३७) में तीनों कारणों की चर्चा है।

३५१. बाल्मीकि रामायण (तथा अधिकांश परवर्ती राम-कथाओं) के अनुसार परशुराम विवाह के पश्चात् अयोध्या की यात्रा में राम को चुनौती देने आते हैं। वास्तव में दोनों का युद्ध होता ही नहीं, क्योंकि ज्यों ही राम विष्णु चाप चढ़ाते हैं, परशुराम निस्तेज होकर राम को विष्णु के रूप में प्रणाम करते हैं। राम चढ़े हुये बाण से परशुराम के तपीबल द्वारा संचित लोक<sup>१</sup> नष्ट करते हैं और परशुराम महेन्द्र पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं (सर्ग ७६)।

अवभृत् रामायण (सर्ग ९) तथा महाभारत के एक प्रक्षिप्त<sup>२</sup> अंश में राम ने धनुष चढ़ाकर परशुराम को अपना विराट् रूप दिखलाया और अनन्तर बाण छोड़कर उनका तेज ले लिया, जिससे परशुराम ने होश में आकर राम को विष्णु-अवतार मानकर प्रणाम किया तथा उनकी आज्ञा लेकर वे महेन्द्र पर्वत को चले गये। पाश्चात्य वृत्तान्त न० १३ के अनुसार राम ने क्षत्रिय-विध्वंस के प्रायश्चित्त के लिये तप करने के उद्देश्य से परशुराम को महादेव के पास भेज दिया। रामकेर्त्ति में रामपरमसू को एक क्रूर यक्ष माना गया है, राम उनसे कहते हैं कि मैं नारायण का अवतार हूँ। इसपर रामपरमसू प्रमाण के रूप में चाहते हैं कि राम उनका चाप उठा लें। राम लीलापूर्वक बाये हाथ से उस धनुष को उठाकर बाण चढ़ाते हैं, जिसपर रामपरमसू घुटने टेककर क्षमा माँगते हैं तथा राम को अपना धनुष तथा अपने ऐन्द्रजालिक बाण भी अर्पित करते हैं।

कृत्तिवास के रामायण में सीता यह देखकर कि परशुराम धनुष लिये आते हैं, इस प्रकार आशंका प्रकट करती हैं—एक धनुष तोड़कर रघुनाथ ने मेरे साथ विवाह किया, अब भृगु मुनि एक और धनुष लाये हैं। न जाने मेरी कितनी सपत्नियाँ होंगी (१, ६३)। गोविन्द रामायण में सीता की यह आशंका इस प्रकार व्यक्त की गई है:

तोर शरासन संकर को जिमि

मोहि बर्यो तिमि और बरेंगे (पु० ३४)।

अध्यात्म रामायण (१, ७), आनन्द रामायण (१, ३, ३७७), राघवोत्थलास काव्य (सर्ग १२), रामचरितमानस आदि में प्रस्तुत वृत्तान्त का वातावरण नितान्त

१. भावार्थ रामायण (१, २६) में इस घटना को एक आध्यात्मिक अर्थ दिया गया है। राम ने परशुराम का अहंकार नष्ट किया था, जिससे परशुराम को अपने तप द्वारा संचित लोक में जाने की इच्छा नहीं रही।

२. वै० प्रचलित महाभारत ३, ९९, ३४ आदि तथा पूना का प्रामाणिक संस्करण, आरण्यक पर्व, परिशिष्ट १, नं० १४।

बदल दिया गया है। तेजोभंग के पश्चात् परशुराम द्वारा राम की स्तुति को सर्वाधिक महत्त्व दिया जाता है और परशुराम अचल रामभक्ति का वरदान प्राप्त कर चले जाते हैं। राघवोल्लास काव्य में परशुराम राम की प्रभावपूर्ण बातों से ही शान्त हो जाते हैं। राम को उनका धनुष नहीं चढ़ाना पड़ता है। परशुराम अपने सभी अस्त्र-शस्त्रों को वही राम के चरणों पर छोड़कर प्रस्थान करते हैं। **कांड रामायण** (१, २२) के अनुसार परशुराम-तेजोभंग के पश्चात् देवता लोग आकाश में दिखाई देकर पुष्प-वृष्टि करते हैं और राम विष्णु-धनुष वरुण को अर्पित कर देते हैं।

महावीरचरित से लेकर अधिकांश राम-नाटकों में परशुराम के मिथिला में आगमन का वर्णन किया गया है; उदाहरणार्थ, अनघराघव, बालरामायण, महा-नाटक, प्रसन्नराघव। इन नाटकों के प्रभाव के कारण रामचरितमानस, रामचन्द्रिका तथा गोविन्द रामायण में तेजोभंग-वर्णन मिथिला में ही रखा गया है।

इन वृत्तान्तों की एक अन्य विशेषता यह है कि इस प्रसंग को अपेक्षाकृत अधिक महत्त्व दिया जाता है तथा राम-परशुराम के वाग्मुद्द का विस्तृत वर्णन मिलता है। परशुराम का क्रोध बहुत उग्र रूप धारण कर लेता है और वह राम का वध करने की बार-बार धमकी देते हैं (दे० महावीरचरित २, ३२, ३, १६ आदि)। प्रस्तुत प्रसंग के प्रारंभिक वर्णनों के अनुसार लक्ष्मण इसमें कोई भाग नहीं लेते।

राजशेखर के बालरामायण के अनुसार दशरथ तथा इसके अनन्तर परशुराम भी राम-सीता-विवाह के पश्चात् ही मिथिला पहुँचते हैं। विश्वामित्र का आदेश पाकर लक्ष्मण ही नारायणीय धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, जिसपर जनक लक्ष्मण और ऊर्मिला के विवाह का प्रस्ताव करते हैं (अंक ४, ७५)। इसके बाद विश्वामित्र के सुझाव के अनुसार भरत-माण्डवी तथा शत्रुघ्न-श्रुतकीर्ति के विवाह भी निश्चित हो जाते हैं।

**प्रसन्नराघव** (तथा उसपर आधारित रामचरितमानस तथा कृत्तिवास रामायण) में लक्ष्मण राम-परशुराम के वाग्मुद्द में भाग लेकर परशुराम का अपमान करते हैं। रामचन्द्रिका में भरत (७, २२) तथा शत्रुघ्न (७, २८) भी परशुराम को सम्बोधित करते हैं तथा अन्त में महादेव स्वयं आकर दोनों रामदेवों को समझाकर शान्त कर देते हैं (७, ४३)।

भारतीय राम-कथाओं में प्रायः राम-परशुराम के किसी युद्ध का वर्णन नहीं किया गया है; फिर भी महावीरचरित (अंक ३, ४८), अनघराघव (अंक ४, ५६) और प्रसन्न-राघव (अंक ४, ४२) के अनुसार राम तथा परशुराम युद्ध करने के उद्देश्य से रंगमंच

से चले जाते हैं। राम के वैष्णव धनुष चढ़ाने पर परशुराम का तेज नष्ट हो जाता है, जिससे युद्ध की नीबूत नहीं आती; परशुराम राम का यथार्थ स्वरूप पहचानकर तपस्या करने जाते हैं। शंकरदेवकृत रामचिंजय में कथा इस प्रकार है : अयोध्या के रास्ते में परशुराम ने राम का वध करने का प्रयत्न किया, क्योंकि राम ने उनके गुरु का धनुष तोड़ डाला था। इन्द्रयुद्ध में राम ने परशुराम को पराजित किया तथा उनका स्वर्ग जाने का मार्ग सदा के लिये बन्द कर दिया था। तोरवै रामायण (१, १७) के अनुसार राम ने अपने तोमर से परशुराम का परशु आकाश में फेंक दिया तथा बाद में अपने रथ से उतरकर परशुराम के हाथों से वैष्णव धनुष भी छीन लिया।

विदेशी राम-कथाओं में राम तथा परशुराम का सघर्ष और उग्र रूप धारण कर लेता है। खोतानी रामायण के अनुसार राम ने वाण मारकर परशुराम का वध किया। कथा इस प्रकार है : किसी दिन दशरथ ने परशुराम के पिता के आश्रम पर उनकी कामधेनु को देखा था तथा बाद में उनका पुत्र सहस्रबाहु उसे चुराने आया। अपने पिता के प्रति किए हुए अन्याय का प्रतिकार करने के उद्देश्य से परशुराम ने तपस्या की, कुठार प्राप्त किया तथा दशरथ के पुत्र सहस्रबाहु का वध किया। बाद में सहस्रबाहु के पुत्र राम तथा लक्ष्मण परशुराम की खोज में निकले; अन्त में राम ने वाण मारकर उन्हें मार डाला।

हिन्देशिया के सेरी राम के अनुसार पुष्पराम राम को आदेश देते हैं कि वह अपना नाम छोड़ दे। राम के अस्वीकार करने पर दोनों का इन्द्रयुद्ध दोपहर से संध्या तक चलकर अनिश्चित रहता है। अगले दिन राम का वाण पुष्पराम का पीछा करता है; स्वर्ग, पाताल तथा महासागर पारकर पुष्पराम राम की शरण लेते हैं और उनको विष्णु का अवतार मानकर क्षमा-याचना करते हैं। रामचिंजय के अनुसार राम ने इन्द्रयुद्ध के अन्त में अपने को नारायण के रूप में प्रकट किया। इसपर रामासुर ने राम को ईश्वर का धनुष प्रदान किया। राम ने उसे ले लिया और आकाश में फेंक दिया, जिससे आवश्यकता पड़ने पर वह धनुष उनके काम आ सके (दे० अध्याय १३)।

३५२. महाभारत में परशुराम की कथा का अनेक स्थलों पर वर्णन किया गया है; किन्तु इनमें कहीं भी उनके विष्णुत्व की ओर संकेत नहीं मिलता। फिर

१. अनघराघव में लिखा है : विमर्षक्षमं प्रवेशान्तरमवतरामः; प्रसन्नराघव में : समरक्षमं क्षमामवतरामः। गोविन्दरामायण में दोनों सेनाओं का तुमुल युद्ध वर्णित है, किन्तु राम-परशुराम का कोई इन्द्र-युद्ध नहीं होता।

भी नारायणीय उपाख्यान में उनका विष्णु के अवतारों में उल्लेख किया गया है (दे० १२, ३२६, ७७)। पर्वती रचनावर्गों में विष्णु के अवतारों की सूची में उनका नाम प्रायः आया है; दे० हरिवंश (१, ४१, ११२-१२०; २, २२; २, ४८); विष्णु पुराण (१, ९, १४३); भागवत पुराण (१, ३, २०; २, ७, २२)।

बाल्मीकि रामायण में परशुराम-तेजोभंग के वर्णन में परशुराम के विष्णुत्व का उल्लेख नहीं मिलता। नृसिंह पुराण प्राचीनतम रचना है, जिसमें उनके तेजोभंग के प्रसंग में परशुराम के अवतार होने का संकेत किया गया है। राम के धनुष चढ़ाने पर परशुराम का वंणव तेज उनके शरीर से निकल कर राम के मुख में प्रविष्ट हुआ—परशुरामस्य ज्ञेहान्निष्क्रम्य वंणवत् पश्यतां सर्वभूतानां तेजो राममुखेऽविशत् (दे० अध्याय ४७, १४८-१४९)। अध्यात्म रामायण (१, ७, २४), आनन्द रामायण (१, ३, ३६४-३६६), पद्मपुराण (उत्तरखण्ड, २६९, १६२), रामचन्द्रिका<sup>१</sup> तथा पारुवात्य वृत्तान्त न० १३ में भी तेजोभंग के प्रसंग के अन्तर्गत ही परशुराम के वंशावतार होने का उल्लेख किया गया है।

### च । नवीन सामग्री

३५३. बाल्मीकि के पश्चात् की राम-कथाओं में बालकाण्ड के कथानक के अन्तर्गत प्रचुर मात्रा में संबंधा नवीन सामग्री रखी गई है।

(१) भिन्न-भिन्न प्रकार की भूमिकाओं के अतिरिक्त प्रायः अवतार के कारणों का विस्तृत निरूपण किया गया है (दे० आगे अनु० ३६६-३७४)।

उन भूमिकाओं में बहुधा सूर्यवंश अथवा इक्ष्वाकुवंश के राजाओं का इतिहास भी दिया गया है। कालिदासकृत रघुवंश, बंगीय पातालखण्ड, कृत्तिवास रामायण इसके विशेष उदाहरण हैं। रावण की कथा भी बहुत-सी रचनाओं में प्रारंभ में ही वर्णित है (दे० आगे अनु० ६४३)।

(२) दशरथ के विभिन्न विवाहों का तथा अन्ध-मूनि-पुत्र-वध का भी प्रायः राम-कथा के प्रारंभ में वर्णन किया जाता है (दे० अनु० ३३७-३४० और ४३३)।

(३) कृष्ण बाललीला के अनुकरण पर बहुधा राम की बाललीला का भी किंचित् वर्णन मिलता है (दे० अनु० ३७९-३८०)। इसके अतिरिक्त भृशुण्डी

१. महादेव स्वयं आकर परशुराम को यह कहकर शांत करते हैं: "एकं तुम वीर्यं न कोऽपि एकं नाम कहायै"; दे० रामचन्द्रिका ७, ४५।



तथा हनुमान् के साथ बालक राम की मित्रता की भी कल्पना कर ली गई है (दे० अनु० ३८१-३८२) ।

(४) राम के प्रारंभिक कृत्यों के वर्णन में अनेक सर्वथा नवीन प्रसंग आ गये हैं; उदाहरणार्थ म्लेच्छों से युद्ध, गुह से बैत्री, तीर्थ-यात्राएँ, वैराग्य, रासलीला (दे० अनु० ३८३-३८७) ।

(५) सीता-स्वयंवर (अनु० ३९४-३९८) तथा राम-सीता के पूर्वानुराग (दे० अनु० ४०३) का भी बहुधा वर्णन किया जाता है, जो वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता ।

(६) वालकाण्ड की कथावस्तु के अन्तर्गत आगे चलकर शृंगार रस का भी प्रवेश हुआ है । जानकीहरण (सर्ग ८) और महानाटक (अंक २) में विवाह के उपरान्त राम और सीता के संभोग का वर्णन किया गया है । जानकीहरण (सर्ग ३) तथा कम्ब रामायण (१, १३-१७) में दशरथ की क्रीडा का भी विस्तृत वर्णन मिलता है । सत्योपाख्यान के उत्तरार्द्ध में राम तथा सीता के जल-विहार (सर्ग २० और २९), वन-विहार (सर्ग २१), अशोकवन में सीता की मानलीला (सर्ग २५), होलिकोत्सव (सर्ग २८) आदि का चित्रण किया गया है ।

### ३—अवतारवाद

#### क । दशरथ-यज्ञ

३५४. वाल्मीकि रामायण में दशरथ के पुत्रेष्टि-यज्ञ के वर्णन के अंतर्गत अवतार-वाद का विस्तृत निरूपण किया गया है । प्रस्तुत अध्याय के प्रथम परिच्छेद में (दे० ऊपर अनु० ३३३) उस पुत्रेष्टि-यज्ञ का समस्त प्रसंग प्रक्षिप्त होने के तर्क दिए गए हैं । पुत्रेष्टि-यज्ञ का विकास दिखलाने के पूर्व यहाँ पर पहले उन रचनाओं का उल्लेख करना है, जिनमें दशरथ के यज्ञ का कोई निर्देश नहीं मिलता ।

महाभारत के रामोपाख्यान में अवतारवाद का उल्लेख तो किया गया है, लेकिन उसमें कहीं भी दशरथ के किसी भी यज्ञ का संकेत नहीं मिलता (दे० ३, २६०) । प्राचीन महापुराणों में अर्थात् हरिवंश, विष्णुपुराण, वायुपुराण तथा भागवत पुराण में जो संक्षिप्त राम-कथाएँ मिलती हैं, उनमें कहीं भी दशरथ-यज्ञ की ओर निर्देश नहीं किया गया है । पश्चिमोत्तरीय पाठ के एक प्रक्षिप्त स्थल के अनुसार देवताओं के लिए युद्ध करने के पश्चात् दशरथ ने एक वर प्राप्त किया था । उन्होंने देवताओं से एक पुत्र माँग और देवताओं ने कहा कि तुम्हारे चार पुत्र होंगे (दे० ५, ९६, ५३-६०) ।

बौद्ध तथा जैन राम-कथाओं में अवतारवाद का अभाव स्वाभाविक है; फल-स्वरूप इन रचनाओं में दशरथ के किसी यज्ञ का निर्देश नहीं मिलता है।

बाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख हुआ है कि पुत्र-प्राप्ति के लिए तपस्या करते हुए भी दशरथ के कोई पुत्र नहीं था :

सुतार्यं तप्यमानस्य नासीद्वंशकरः सुतः ॥ १ ॥

(बालकाण्ड, सर्ग ८)

स्कंध पुराण के दो स्थलो पर दशरथ की इस तपस्या का वर्णन किया गया है। नागरखंड में दशरथ के शनैश्वर से युद्ध करने के बाद इन्द्र उनसे कहते हैं कि अपुत्रस्य गतिर्नास्ति। इसपर दशरथ १०० वर्ष तक कात्तिकेयपुर में तप करने जाते हैं। इसके अन्त में जनार्दन प्रकट होते हैं और चार रूप धारण कर दशरथ के पुत्र बनने की प्रतिज्ञा करते हैं (कृत्वा रूपचतुष्टयम्)। बाद में दशरथ को चार पुत्र और एक पुत्री के प्राप्त होने का उल्लेख किया गया है (दे० अध्याय ९६-९८)। प्रभासखण्ड में भी पुत्र-प्राप्ति के लिये प्रभास में दशरथ के तप करने तथा शिवलिंग स्थापित करने का निर्देश किया गया है (दे० अध्याय १७१)।

बाराह पुराण (अध्याय ४५) में इसका उल्लेख किया गया है कि दशरथ ने वसिष्ठ के परामर्श के अनुसार रामद्वादशी-व्रत का पालन किया था, जिसके फल-स्वरूप विष्णु उनकी सन्तान के रूप में प्रकट हुए। सारलादास के उडिया महाभारत में दशरथ की पुत्र-प्राप्ति की कथा इस प्रकार है : इन्द्र के यहाँ से लौटते समय दशरथ ने कपिला का अपमान किया था तथा कपिला ने उन्हें शाप दिया था। बाद में दशरथ कपिला को बाघ के आक्रमण से बचाते हैं तथा उससे यह वरदान प्राप्त करते हैं कि उनके चार पुत्र उत्पन्न होंगे<sup>१</sup>।

ग्राम-गीतों में भी दशरथ के तपस्या करने तथा किसी योगी के प्रसाद से पुत्र प्राप्त करने का उल्लेख मिलता है (दे० कविता-कौमुदी, भाग ५, पृ० १४ और १६)। बिहोर राम-कथा के अनुसार किसी ब्राह्मण को अपने ज्येष्ठ पुत्र देने की प्रतिज्ञा करने के बाद दशरथ उसके जादू द्वारा चार पुत्र प्राप्त करते हैं। संथाल जाति में प्रचलित कथा के अनुसार दशरथ ने किसी योगी से चार आम प्राप्त कर उन्हें अपनी पत्नियों

१. इस घटना का वर्णन पद्मपुराण (गौडीय पाताल खण्ड, अध्याय ५-६; उत्तरखण्ड, अध्याय १९८-१९९) तथा रघुवंश के प्रथम सर्ग में दिलीप के विषय में किया गया है। शांता की जन्म-कथा में भी यह प्रसंग आ गया है (दे० अनु० ३४३)।

को खिलाया और फलस्वरूप तीनों पत्नियों गर्भवती हुईं। ब्रज लोकसाहित्य में भी इससे मिलती-जुलती कथा का संकेत पाया जाता है (दे० भारतीय साहित्य, आगरा), वर्ष २, अंक ३, पृ० ६९)।

जावा के सेरत काण्ड, तिम्बती तथा खोतानी रामायणों में भी दशरथ के किसी यज्ञ का उल्लेख नहीं किया गया है। तिम्बती रामायण के अनुसार दशरथ ने ५०० कैलास-निवासी ऋषियों से पुत्र-प्राप्ति के लिये प्रार्थना की थी। उन्होंने दशरथ को एक फल दिया था जिसे उनकी दो पत्नियों ने खाया था। फलस्वरूप दोनों को गर्भ रह गया। असमीया बालकाण्ड में अथक मुनि का दिया हुआ फल दशरथ की पुत्र-प्राप्ति में सहायक माना गया है (दे० अनु० ४३३)। सेरी राम के एक पाठ के अनुसार एक योगी ने दशरथ को सन्तान-प्राप्ति के उद्देश्य से चार "बा-जहर" नामक पत्थर प्रदान किये थे, एक अन्य पाठ के अनुसार दशरथ को एक सहस्र हाथियों का वध करने का परामर्श दिया गया था (दे० आगे अनु० ४३३)।

३५५. वाल्मीकि रामायण में दशरथ के दो यज्ञों का वर्णन किया गया है। सुमंत्र के परामर्श के अनुसार दशरथ अगराज के यहाँ जाकर ऋष्यश्रुग को अयोध्या ले आते हैं और पुत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से उनके द्वारा अश्वमेध-यज्ञ करवाते हैं (दे० सर्ग ८-१४)। अनन्तर ऋष्यश्रुग पुत्रेष्टि-यज्ञ भी करते हैं। उसी अवसर पर देवता, गधर्व, सिद्ध, परमर्षि आदि अपना-अपना हविर्भाग ग्रहण करने के उद्देश्य से (भागप्रतिग्रहाभंस्) एकत्र होकर ब्रह्मा से निवेदन करने लगे कि आप के दिये हुये वर के बल पर रावण हम लोगों को तग करता है (सर्वाभ्यो ब्राषते); आप उसके वध का उपाय निकालिये। ब्रह्मा उत्तर देते हैं कि मनुष्य से उसका वध संभव है। उसी समय विष्णु आ पहुँचे तथा उन्होंने देवताओं का यह प्रस्ताव स्वीकार किया कि वह दशरथ की सन्तति बन कर रावण का वध करें। तब अग्निदेव पुत्रेष्टि-यज्ञ की अग्नि में प्रकट होकर दशरथ को पायस प्रदान करते हैं। दशरथ उस पायस को अपनी तीन पत्नियों में बाँट देते हैं, जिससे तीनों गर्भवती हो जाती हैं (सर्ग १५-१६)। अनन्तर विष्णु-अवतार राम की सहायता करने के लिए देवता ब्रह्मा की आज्ञानुसार अप्सराओं और गन्धर्वियों से वानरों की उत्पत्ति करते हैं (सर्ग १७)।

३५६. वाल्मीकि रामायण में पहले दशरथ के अश्वमेध-यज्ञ ही का वर्णन किया गया था; बाद में पुत्रेष्टि-यज्ञ का वर्णन भी जोड़ दिया गया है। परवर्ती राम-कथाओं में प्रायः केवल पुत्रेष्टि-यज्ञ का वर्णन किया गया है; उदाहरणार्थः

१. ये पत्थर कुछ जानवरों के पक्वाशय में उत्पन्न होते हैं; पहले उनका चिकित्सा में प्रयोग होता था।

रघुवंश, नृसिंह पुराण (अ० ४०), भट्टिकाव्य, रामायण ककविन्, जानकी-हरण, सेरी राम, रामकियेन, पद्मपुराण (पातालखण्ड, अध्याय ११२ तथा उत्तर-खंड, अध्याय २६९), अध्यात्म रामायण, रामचरितमानस आदि ।

ब्रह्मपुराण में दशरथ वसिष्ठ से परामर्श करते हैं कि श्वषणकुमार-वध का प्रायश्चित्त किस प्रकार किया जाये । इसपर अश्वमेध-यज्ञ का आयोजन किया जाता है तथा यज्ञ के समय एक आकाशवाणी सुनाई पड़ती है कि राजा दशरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र के प्रसाद से पापमुक्त हो जायेंगे (दे० अध्याय १२३) । अन्य राम-कथाओं में भी दशरथ का यज्ञ, जिसके फलस्वरूप उन्होंने रामादि पुत्रों को प्राप्त किया था, वास्तव में अंध-मुनिपुत्र-वध के प्रायश्चित्त के लिये आयोजित किया गया था । अंध-मुनिपुत्र-वध के कई वृत्तान्तों में दशरथ को पुत्र-प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाने का परामर्श दिया जाता है (दे० अनु० ४३३) ।

३५७. आगे चलकर पुत्रेष्टि-यज्ञ के वर्णन में हनुमान, विभीषण, सीता और वानर-सेनापतियों के जन्म की ओर भी निर्देश किया गया है । आनन्द रामायण के अनुसार एक गीष ने कंकयी का पायस उसके हाथ से छीन लिया तथा उसे अंजनी पर्यंत पर फेंक दिया; इसपर अन्य रानियों ने अपने पायस का कुछ अंश कंकयी को दे दिया (दे० १, १) । भावार्थ रामायण में इससे मिलती-जुलती कथा पाई जाती है (दे० अनु० ६७७) । अन्य रचनाओं में कहा जाता है कि कंकयी को क्रोध हुआ था, क्योंकि दशरथ ने सर्वप्रथम उसे पायस नहीं दिया था । वह भान कर रही थी कि एक चील ने आकर उसके हाथ से पायस को छीन लिया और उसे अंजनी के मुख में गिरा दिया । फलतः अंजनी को गर्भ हुआ और उसने हनुमान जी को जन्म दिया ।

दक्षिण भारत के एक वृत्तान्त में यज्ञ के पश्चात् ऋषि ने दशरथ से उनकी पत्नियों के नाम पूछे थे । भूल से दशरथ के मुँह से कंकसी (रावण की माता) का नाम निकला । इसपर ऋषि ने पायस के चार भागों के पाँच भाग बना दिये । अनन्तर जब दशरथ अपनी पत्नियों के यहाँ गये थे, एक काक ने पायस का एक भाग चुरा लिया और वह उसे कंकसी के पास लाया । उसे खाने के फलस्वरूप कंकसी ने विभीषण को जन्म दिया (दे० पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १) ।

सेरी राम तथा रामकियेन में सीता के जन्म का संबंध पुत्रेष्टि-यज्ञ से स्थापित किया गया है । सेरी राम में एक काक पायस का घण्टमांश चुराता है । इसपर राजक

१. दे० आनन्द रामायण (१, १, ९६), भावार्थ रामायण (१, १); पाश्चात्य-वृत्तान्त नं० १३; ई० मूर, दि हिन्दू पंथेयॉन, पृ० ३१५; पी० थोमस, लेजेंड्स ऑव इंडिया, पृ० ८० ।

२. दे० ई० मूर, वही; पी० थोमस, वही ।

कहता है कि यह काक-दशरथ की पत्नी के पुत्र राम के द्वारा मारा जावेगा तथा जो इस पायस को खायेगा, उसे एक पुत्री उत्पन्न होगी, जिसका विवाह राम के साथ होगा। बाद में रावण उस पायस को खाता है। रामकियेन के अनुसार दशरथ-यज्ञ के पायस की सुगन्ध लंका तक पहुँच गई। मन्दोदरी ने रावण से उसे माँगा। उसपर रावण ने काकना नामक राक्षसी को पायस चुराने का आदेश दिया। राक्षसी ने काक का रूप धारण कर पायस का अष्टमांश चुराया और उसे मन्दोदरी को दे दिया। फलस्वरूप मन्दोदरी ने सीता को जन्म दिया (दे० अध्याय १०)। मुद्गंला माधवदास कृत बिबिध रामायण के अनुसार डाकिनियाँ आकर पुत्रेष्टि-यज्ञ के धूँएँ का पान करती हैं। वे गर्भवती हो जाती हैं और मानर-सेना के २५ सेनापतियों को जन्म देती हैं।

३२८. परवर्ती रचनाओं के दशरथ-यज्ञ-वर्णन में अनेक गौण परिवर्तन किये गये हैं।

भट्टिकाव्य तथा रामायण कविविन् मे दशरथ-यज्ञ का वर्णन तो किया गया है, लेकिन किसी दिव्य पुरुष द्वारा दिए गए पायस का उल्लेख नहीं मिलता। भट्टिकाव्य में रानियाँ यज्ञ के पश्चात् पायस के स्थान पर द्रुतोच्छिष्ट का कुछ अंश खाती हैं (दे० सर्ग १)। अग्निष्ठाकृत अवर्षीन रचनाओं में अग्नि के स्थान पर विष्णु स्वयं यज्ञानि में से प्रकट होकर पायस प्रदान करते हैं; उदाहरणार्थ : पद्मपुराण का फतालखण्ड (अध्याय ११२, २३) और उत्तरखण्ड (अध्याय २६९, ४७); कृत्तिकास रामायण (१, ४१); बलरामदास रामायण; रामरहस्य (२, १४२)।

बृहद्बर्मपुराण (पूर्व खण्ड, अध्याय १८) के अनुसार जब विष्णु देवताओं को आश्वासन देते हैं कि मैं दशरथ के पुत्र राम के रूप में अवतार लूँगा, उसी अवसर पर शिव हनुमान के रूप में राम की सहायता करने की प्रतिज्ञा करते हैं। अध्यात्म रामायण का वृत्तान्त इस प्रकार है : रावण आदि राक्षसों के भार से व्यथित होकर पृथ्वी गौ का रूप धारण कर देवताओं तथा मुनियों के साथ ब्रह्मा की शरण लेती है। इसपर ब्रह्मा सब को ले जाकर सीरसमूत्र के तट पर विष्णु के पास आते हैं, उनकी स्तुति करते हैं तथा उनसे निवेदन करते हैं कि वे मनुष्य का रूप धारण कर देवशत्रु का वध करें। विष्णु कथमपि को प्रदत्त वर का उल्लेख करते हुए लक्ष्मी सहित अवतार

१. विष्णु पुराण (अंश ५, अध्याय १) के अनुसार पृथ्वी ने वैद्यगण के भार से पीड़ित होकर देवताओं तथा ब्रह्मा के साथ विष्णु की शरण ली थी तथा कृष्णावतार का आश्वासन प्राप्त किया था। भागवत पुराण (स्कंध १० अध्याय १) में इसी अवसर पर पृथ्वी के गौ का रूप धारण करने का उल्लेख है।

लेने की प्रतिज्ञा करते हैं। वाल्मीकि रामायण की भाँति तब ब्रह्मा देवताओं को आदेश देते हैं कि वे अपने-अपने अंश से वानर वंश में पुत्र उत्पन्न करें (बालकाण्ड अध्याय २)।

पद्मपुराण के गौडीय पाताल खण्ड में शान्ता अपने पिता दशरथ के पास आकर अपने पति ऋष्यशृंग की शक्ति का वर्णन करती है। यह सुनकर दशरथ ऋष्यशृंग द्वारा पुत्रेष्टि-यज्ञ करवाने का संकल्प करते हैं (दे० अध्याय १४)। पद्मपुराण के एक अन्य स्थल पर नामदेव नामक साधु दशरथ को पुत्रेष्टि-यज्ञ की विधि बतलाते हैं (दे० पाताल खण्ड, अध्याय ११२)।

कृत्तिवास रामायण (१, ३५) के अनुसार दशरथ अपने मंत्रियों को बुलाकर कहते हैं—“मेरी अवस्था अब ९००० वर्ष की हो गई है; अन्धक मुनि ने मुझे वर दिया था कि ऋष्यशृंग द्वारा यज्ञ का आयोजन करके पुत्र प्राप्त करूँगा। यह ऋष्यशृंग कौन है?” इसपर वसिष्ठ ऋष्यशृंग की कथा सुनाते हैं। तब दशरथ लोमपाद के यहाँ जाकर ऋष्यशृंग को अयोध्या ले आते हैं तथा यज्ञ सम्पन्न हो जाता है (अध्याय ३९)। सारलाबास के उड्डिया महाभारत (वन पर्व पृ० २२८) में ऋष्यशृंग लोमपाद की राजधानी में दशरथ के लिये यज्ञ करते हैं और दशरथ पायस अयोध्या ले जाते हैं। माधवबास के विचित्र रामायण के अनुसार परशुराम पुत्रेष्टि-यज्ञ के अवसर पर आ पहुँचते हैं तथा आदेश देते हैं कि जो ज्येष्ठ पुत्र होगा, उसे मेरा ही नाम देना। काश्मीरी रामायण में नारायण स्वप्न में दशरथ को दर्शन देकर कहते हैं कि मैं तेरा पुत्र बन जाऊँगा। अनन्तर वसिष्ठ से परामर्श लेकर दशरथ पुत्रेष्टि-यज्ञ का आयोजन करते हैं। पादचात्य-वृत्तान्त न० १ के अनुसार विद्वामित्र ने वन में दशरथ के लिये यज्ञ चढ़ाया था (दे० अध्याय १)।

## ख। अवतारवाद का विकास

३५९. अवतारवाद के प्रथम रूप के अनुसार विष्णु ने चार अंशों में अवतार धारण किया था। पायस के विभाजन में अवश्य पर्याप्त विभिन्नता पाई जाती है; फिर भी चारों भाई विष्णु ही के अशावतार माने गये हैं। दाक्षिणात्य पाठ में कहा गया है कि पायस के विभाजन के समय कौशल्या को आधा भाग मिला था, सुमित्रा को एक चतुर्धांश और एक अष्टमांश तथा कंकेयी को एक अष्टमांश (दे० सर्ग १६, २६)।

१. उदीच्य पाठ (तथा रामचरितमानस) में पायस का विभाजन इस प्रकार है—कौशल्या को आधा, कंकेयी को एक चतुर्धांश और सुमित्रा को दो अष्टमांश। रघुवंश, अध्यात्म रामायण तथा कृत्तिवास में चारों भाई एक-एक चतुर्धांश से जन्म लेते हैं।

किंतु आगे चलकर तीनों भाई भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न विष्णु के एक-एक चतुर्थांश से समन्वित माने जाते हैं (दे० सर्ग १८, १३-१४)। ऐसा प्रतीत होता है कि यह अन्तिम रूप सबसे प्राचीन है और चारों भाई ही विष्णु के चतुर्थांश माने जाते थे। हरिवंश, विष्णुपुराण, वायुपुराण आदि में विष्णु के चार रूपों में प्रकट होने का उल्लेख मिलता है :

**कृत्वात्मानं महाबाहुश्चतुर्था प्रभुरीश्वरः। (हरिवंश १, ४१, १२२)**

फिर भी प्रारंभ ही से राम को सबसे अधिक महत्त्व दिया गया था तथा महा-भारत में विष्णु के राम-रूप में ही प्रकट होने का उल्लेख किया गया है।

३६०. अशावतार का एक अन्य रूप भी मिलता है, जिसमें पांचरात्र के एक सिद्धान्त का सहारा लिया गया है। इस सिद्धान्त के अनुसार नारायण चतुर्व्यूह के रूप में आविर्भूत हैं अर्थात् वासुदेव, सकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध। विष्णुधर्मोत्तर पुराण (अध्याय २१२) तथा नारद पुराण (उत्तरखण्ड, अध्याय ७५) के अनुसार राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न क्रमशः उपर्युक्त चतुर्व्यूह से अभिन्न हैं।

३६१. बाद की अधिकांश रचनाओं में राम विष्णु के पूर्णावतार माने गये हैं। प्रारंभ में भरत तथा शत्रुघ्न को छोड़कर केवल लक्ष्मण के अवतारवाद का उल्लेख किया जाता है। तिब्बती रामायण में राम तथा लक्ष्मण क्रमशः विष्णु तथा विष्णु के पुत्र के अवतार माने गये हैं। अन्य रचनाओं में केवल राम तथा लक्ष्मण का उल्लेख है, जो विष्णु तथा शेष के अवतार हैं; उदाहरणार्थ नृसिंह पुराण (अध्याय ४७), बेबीभागवत (३, ३०), जावा का सेरत काण्ड, रामचरितमानस, पादचात्य-वृत्तान्त नं० १३। परवर्ती साहित्य में लक्ष्मण को प्रायः शेष का अवतार माना गया है।

अर्वाचीन रचनाओं में भरत तथा शत्रुघ्न के अवतारत्व के विषय में सर्वाधिक प्रचलित धारणा यह है कि वे क्रमशः पांचजन्य शंख तथा सुदर्शन चक्र के अंशावतार हैं। अध्यात्म रामायण में लिखा है—भरतशत्रुघ्नी शंखचक्रे (दे० १, ४, १८); शंख-

१. सेरी राम के एक पाठ में राम को विष्णु से अभिन्न माना गया है, दूसरा पाठ उन्हें विष्णु का वंशज मानता है। प्रथम पाठ में इसका भी उल्लेख किया गया है कि राम क्रुद्ध हो जाने पर सहस्रस्कंध विष्णु का रूप धारण कर लेते हैं (१००० सिर, २००० भुजायें, २००० पैर)।

यको ह्ये भरतं क्षत्रियं (दे० ३, २, १६) । आनन्द रामायण में भी इसका स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया गया है :

शंखो बभूव भरतः श्रीविष्णोः सख्यसत्करे ।

वामे करे बभूवाथ शत्रुघ्नश्च सुदर्शनम् ॥

(९, ६, १६)

निम्नलिखित रचनाओं में इसी प्रकार का निर्देश मिलता है—पद्यपुराण (उत्तर खण्ड, २६९, ९३-९५), सत्योपाख्यान (२, ४-५), रामरहस्य (अध्याय ३) ।

अध्यात्म रामायण के एक अन्य स्थल पर भरत को चक्र का तथा शत्रुघ्न को शंख (धर) का अवतार माना गया है—बभूवतुश्चक्रधरौ च दिव्यौ कंकेयिसुनुर्लवणान्तकश्च (उत्तरकाण्ड, ९, ५७) । उदारराघव (सर्ग २), तत्त्वसंग्रह रामायण (१, १४), काश्मीरी रामायण (२, १३) तथा बलरामदास के रामायण में भरत-शत्रुघ्न को चक्र-शंख का अवतार माना गया है ।

भरत तथा शत्रुघ्न के अवतारत्व के विषय में लिखपुराण (२, ५, १४७-१४८) और अर्द्धभूत रामायण में लिखा है कि विष्णु की दाईं तथा बाईं बांह क्रमशः भरत तथा शत्रुघ्न के रूप में प्रकट हुई थीं (दे० सर्ग ४, ६६-६७) । पाश्चात्यवृत्तान्त नं० १ के अनुसार चक्र तो भरत में अवतरित हुआ, किन्तु अनन्त ने लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न दोनों में अवतार लिया था (दे० अध्याय १) । इयाम के रामकियेन में भरत को चक्र का तथा शत्रुघ्न को गदा का अवतार माना गया है (दे० अध्याय २) ।

खारलादासकृत महाभारत के अनुसार विष्णु राम में अवतरित हुए, क्रद्धा शत्रुघ्न में, इन्द्र भरत में तथा महादेव लक्ष्मण में (दे० वनपर्व, पृ० २२८) ।

३६२. रामभक्ति के विकास के साथ अवतारवाद का भी विकास हुआ । राम-तापनीय उपनिषद् से लेकर छमस्त रामभक्ति-विषयक रचनाओं में राम को विष्णु के अवतार के अतिरिक्त परब्रह्मा का भी अवतार माना गया है (दे० अर्द्धभूत रामायण, बालकाण्ड, अध्याय १) ।

बहुत सी रचनाओं में राम तथा शिव की अभिन्नता पर विशेष रूप से बल दिया गया है । पद्यपुराण के पातालखण्ड (अध्याय ४६) में राम शिव से कहते हैं—हम दोनों में शो कोण अन्तर देखते हैं, वे न केवल मूल हैं, किन्तु उनको नरक की यातना भी भोगनी पड़ेगी ।



क्यास्ति हृदये शर्षो भक्तो हृदये त्यहम् ।

आख्योरन्तरं नास्ति मूढाः पश्यन्ति दुर्ध्रुवः ॥ २० ॥

ये भवे विदधत्यद्वा आख्योरेकरूपयोः ।

कुंभीपाकेषु पश्यन्ते नराः कल्पसहस्रकम् ॥ २१ ॥

कृत्तिवास रामायण के महिरावण-वध प्रसंग के अन्तर्गत दुर्गा हनुमान से कहती हैं कि राम शिव के गुरु हैं तथा दोनों में वस्तुतः अन्तर नहीं है—शिवरामे अभेद कहेन शूलपाणि (दे० ६, अध्याय ८४) ।

इसी प्रकार आनन्द रामायण (मनोहरकाण्ड सर्ग ७ और १२), रामलिगामृत (सर्ग १९) तथा धर्मखण्ड (अध्याय ९८) में राम तथा शिव के अभेद का प्रतिपादन किया गया है ।

अध्यात्म रामायण के अयोध्याकाण्ड के प्रथम सर्ग में नारद राम को स्मरण दिलाते हैं कि वह विष्णु, शिव, ब्रह्मा तथा सूर्य से अभिन्न है तथा तदनुसार लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती तथा प्रभा सीता में अवतरित हैं :

त्वं विष्णुर्जानकी लक्ष्मीः शिवस्त्वं जानकी शिवा ।

ब्रह्मा त्वं जानकी वाणी सूर्यस्त्वं जानकी प्रभा ॥ १३ ॥

आनन्द रामायण के राज्यकाण्ड में राम तथा कृष्ण की अभिन्नता का उल्लेख किया गया है—राम एवात्र कृष्णस्स कृष्ण एवात्र राघवः ॥ उभयोर्मान्तरम् (सर्ग ३, ११४) । तत्त्व-संग्रह रामायण के प्रारम्भ में लिखा है कि विभिन्न रचनाओं में राम निम्नलिखित देवताओं के अवतार माने जाते हैं—शिव; ब्रह्मा; हरिहर; त्रिमूर्ति; सच्चिदानन्द परब्रह्म । बलरामबास तो विष्णु को रामादि चार भाइयों में अवतरित मानते हैं तथा लक्ष्मी को सीता में किन्तु अरण्यकाण्ड के मगलाचरण तथा दण्डकारण्य के वृत्तान्त में उन्होंने उड़ीसा के लोकप्रिय देवताओं से राम, सीता और लक्ष्मण की अभिन्नता का प्रतिपादन किया है । तदनुसार राम, सीता, लक्ष्मण क्रमशः जगन्नाथ, सुमद्रा तथा बलभद्र से अभिन्न हैं ।<sup>१</sup> बौद्ध रचनाओं में राम को बोधिसत्त्व माना जाता है तथा बौद्ध इतिहास और राम-कथा के अन्य पात्रों की अभिन्नता का उल्लेख होता है ।<sup>१</sup>

१. आनन्द रामायण (९, ५, ४४) में भी लक्ष्मण-बलराम की अभिन्नता का उल्लेख है ।

२. दे० दशरथ जातक (अनु० ५१), अनामकं जातकम् (अनु० ५२), दशरथ कथाकम् (अनु० ५३), खीतानी रामायण (अनु० ३१२), रामकेति (अनु० ३२४), रामजातक (३२७) ।

श्याम देश के पालक पालाम (दे० अनु० ३२७) के अनुसार दशरथ ने देवताओं से एक ऐसे पुत्र की याचना की थी जो रावण को पराजित करने में समर्थ हो। इसपर इन्द्र ने बोधिसत्त्व को भोज दिया, जो दशरथ के दोनों पुत्रों में प्रकट हुये। ब्रह्मचक्र (अनु० ३२८) के अनुसार लंका की जनता को रावण के शासन से पीड़ित देखकर इन्द्र ब्रह्मा के पास गये तथा उन्होंने रावण से युद्ध करने की आज्ञा माँगी। ब्रह्मा ने अनुमति दी तथा कई देवताओं को, जिनमें बुद्ध भी सम्मिलित थे, पृथ्वी पर भेज दिया। ये देवता राम- लक्ष्मण तथा भरत के रूप में जन्म लेते हैं।

३६३. जैन साहित्य में राम-कथा के प्रधान पात्रों के पूर्वजन्म की कथाओं को अपेक्षाकृत अधिक महत्त्व दिया गया है। पट्टमचरियं के अनुसार राम के तीन पूर्व जन्मों का उल्लेख है; इसके अनुसार वह क्रमशः एक व्यापारी का पुत्र धनदत्त, विद्या-धर राजकुमार नयनानन्द तथा राजकुमार श्रीचन्द्र कुमार थे। लक्ष्मण किसी पूर्व जन्म में धनदत्त (राम) का भाई वसुदत्त था; बाद में वह हरिण के रूप में प्रकट हुआ तथा कई बार जन्म लेने के पश्चात् वह दशरथ के पुत्र में अवतरित हुआ।<sup>१</sup>

गुणभद्र के उत्तर पुराण में जो कथा मिलती है, उसमें राम-लक्ष्मण अपने पूर्व जन्म में भाई न होकर अन्तरंग मित्र माने जाते हैं। लक्ष्मण राजा प्रजापति का पुत्र चन्द्रचूल था तथा राम राजमंत्री का विजय नामक पुत्र। दुराचरण के कारण राजा ने दोनों को प्राणदण्ड की आज्ञा दी थी, किन्तु मंत्री उनको एक महाबल नामक साधु के पास ले गया। साधु ने कहा कि ये तो वासुदेव तथा बलदेव बनने वाले हैं। चन्द्रचूल तथा विजय दीक्षा लेकर तप करने लगे तथा स्वर्ग में क्रमशः मणिचूल तथा सवर्णचूल देवता बन गए; अगले जन्म में वे लक्ष्मण तथा राम के रूप में प्रकट हुए (दे० संधि ६७, ९० आदि)।

३६४. सीता का लक्ष्मीत्व राम के विष्णुत्व का एक स्वाभाविक विकास प्रतीत होता है। सीता तथा लक्ष्मी की अभिन्नता का उल्लेख बाल्मीकि रामायण के एक अपेक्षाकृत अर्धाधीन सर्ग में पाया जाता है, जिसमें अग्नि-परीक्षा के अवसर पर देवता आकर राम की विष्णु-रूप में स्तुति करते हैं (दे० ६, सर्ग ११७, २७)। इस सर्ग में राम, कृष्ण तथा विष्णु तीनों की अभिन्नता का भी उल्लेख किया गया है। यह बाल्मीकि रामायण का एक मात्र स्थल है, जहाँ कृष्ण का नाम आया है। उत्तर-कांड में कुशध्वज की पुत्री वेदवती की कथा मिलती है, जिसके अनुसार वेदवती सीता

१. दे० पर्व १०३। लक्ष्मण तथा रावण का कई जन्मों तक परस्पर विरोध चलता रहा। दे० आगे अनु० ४१०।

के रूप में प्रकट होती है (दे० सर्ग १७)। इस कथा की रचना उस समय की गई होगी, जब सीता तथा लक्ष्मी की अभिन्नता की भावना व्यापक नहीं हो पाई थी।

सीता के लक्ष्मीत्व का उल्लेख दाक्षिणात्य पाठ के उत्तरकांड के ३७वें सर्ग के बाद के प्रक्षिप्त सर्गों में भी मिलता है, लेकिन ये सर्ग अन्य पाठों में नहीं पाये जाते (दे० ७, ३७ प्र० सर्ग ३ और ४)।<sup>१</sup>

वायु, ब्रह्मांड और विष्णु जैसे प्राचीन महापुराणों में तथा रघुवंश में सीता तथा लक्ष्मी की अभिन्नता की ओर निर्देश नहीं किया गया है, यद्यपि इन रचनाओं में राम विष्णु के अवतार माने गये हैं। हरिबंश (१, अध्याय ४१), भागवत पुराण (९, अध्याय १०), ब्रह्मपुराण (२१३, १२९), देवीभागवत पुराण (३, २८, १३), अभिवेक नाटक (अनु० २२७), रामकियेन (अध्याय २ और १०), पद्मपुराण (६, २६९, ९९) तथा अधिकांश अर्वाचीन रचनाओं के अनुसार सीता तथा लक्ष्मी अभिन्न ही है।

रामतापनीय उपनिषद् में पहले-पहल सीता तथा प्रकृति की अभिन्नता का उल्लेख किया गया है। बाद के साम्प्रदायिक साहित्य में लक्ष्मी के अतिरिक्त सीता मूल-प्रकृति, योगमाया तथा परमशक्ति (दे० अध्यात्म रा० १, ७, २७) भी मानी जाती है :

एषा सा जानकी लक्ष्मीयोगमायेति विश्रुता ॥ ११ ॥

(अध्यात्म रामायण २, ५)

मूलप्रकृतिरित्येके प्राहुर्मयिंति केचन ॥ २२ ॥

(वही ३, ३)

३६५. सीता के अवतार-तत्त्व<sup>२</sup> के विषय में अन्य उल्लेख भी मिलते हैं। सौर पुराण में कहा गया है कि जनक ने तपस्या द्वारा पार्वती को सन्तोष दिया था और फलस्वरूप पार्वती उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुईं।

पार्वत्यंशस्तमुद्भवा जनकेन पुरा गौरी तपसा तोषिता यतः।

(अध्याय ३०, ५१)

महाभागवत पुराण के अनुसार सीता और लक्ष्मी अभिन्न तो हैं, लेकिन लक्ष्मी स्वयं देवी के अंश से उत्पन्न मानी जाती हैं (दे० अध्याय ३६)। स्कन्द पुराण के

१. वेदवती की कथा का जैनी रूप आगे अनु० ४१० में देखें। सीता के पूर्वजन्म की एक अन्य कथा गुणभद्र के उत्तरपुराण में मिलती है (दे० अनु० ४१२)।

२. सीता और सुभद्रा की अभिन्नता का अनु० ३६२ में उल्लेख हो चुका है।

माहेश्वर खण्ड के अनुसार ब्रह्म-विद्या सीता के रूप में अवतरित हुई (दे० अध्याय ८, ९५)। अध्यात्म रामायण के अनुसार सीता निम्नलिखित देवियों से अभिन्न हैं : लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती, और प्रभा (दे० ऊपर अनु० ३६२)। आनन्द रामायण में सीता तथा दुर्गा की अभिन्नता का प्रतिपादन किया गया है (दे० मनोहरखण्ड, अध्याय १२, श्लोक २६ और ३९)।

श्याम के राम-जातक में रावण ने इन्द्र का रूप धारण कर स्वर्ग की रानी को धोखा दिया। रावण से प्रतिकार लेने के लिये वह सीता के रूप में प्रकट होती है। इसके अनुसार इन्द्राणी सीता में अवतरित है। पालक पालाम में भी इस प्रकार की कथा मिलती है। अद्भुत रामायण में अम्बरीष की पुत्री श्रीमती सीता के रूप में प्रकट हुई (दे० आगे अनु० ३७३)।

### ग। अवतार के कारण

३६६. प्रारंभ में रावण-वध ही विष्णु के राम के रूप में प्रकट होने का उद्देश्य कहा गया है (दे० वाल्मीकि रामायण १, १६)। बाद में भगवद्गीता के अनुकरण पर रामावतार के विषय में विष्णु अवतारों के सामान्य उद्देश्य का भी उल्लेख होने लगा :

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अन्यत्पानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥ ७ ॥

परिभ्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मस्तंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ ८ ॥

(भगवद्गीता, अध्याय ४)

रामभक्ति के पल्लवित होने के पश्चात् इसका भी प्रायः उल्लेख मिलता है कि अपने भक्तों को भवसागर के पार पहुँचाने अथवा उनको अपना सगुण रूप दिखलाने के उद्देश्य से निर्गुण ब्रह्म राम के रूप में प्रकट हो जाते हैं।

१. अर्वाचीन राम-कथाओं में प्रायः कहा गया है कि जय-विजय नामक विष्णु के द्वारपाल सनकादि के शाप से वशीभूत होकर रावण-कुम्भकर्ण के रूप में प्रकट हो गये थे। रामचरितमानस में इसका भी उल्लेख मिलता है कि इन दोनों के हित के लिये भगवान् ने राम का अवतार धारण कर लिया।

मुकुत न भए हते भगवाना । तीनि जन्म द्विज बचन प्रवाना ।

एक बार तिन्ह के हित लागी । बरेउ शरीर भवत अनुरागी ।

(बालकाण्ड, १२३, १-२)

रावण-कुम्भकर्ण के पूर्व जन्म की अन्य कथाओं के लिए दे० आगे अनु० ६४८।

रामावतार के इस उद्देश्य के अतिरिक्त विष्णु के अवतार धारण करने के कई कारणों का उल्लेख मिलता है। इसके मन्वन्ध में अनेक बर्गे अथवा शापो की कथाएँ पाई जाती हैं।

### (अ) वर

३६७. कश्यप-अदिति का सम्बन्ध पहले-पहल वामनावतार मात्र के साथ माना जाता था, बाद में कृष्ण और राम की कथाओं के प्रसंग में भी उनका उल्लेख मिलता है। विकास की रूपरेखा इस प्रकार है। वामनावतार की प्राचीनतम कथाओं में (दे० अनु० १४१) कश्यप-अदिति की चर्चा नहीं है किन्तु महाभारत के आदि पर्व (१, २७) में कश्यप तथा विनता की तपस्या का वर्णन किया गया है जिसके फलस्वरूप उनको दो पुत्र (अरुण तथा गरुड) प्राप्त हुये। महाभारत के अन्य स्थलों पर अदिति की आराधना (३, १३५ ३) तथा तपस्या (१३, ८३ २६-२७) का उल्लेख मिलता है जिसमें वह विष्णु की माँ बन सकी।<sup>१</sup> हरिवंश पुराण (३, अध्याय ६७-६९) में देवता, कश्यप तथा अदिति मन्त्र मिलकर १००० वर्ष तक तपस्या करते हैं और अन्त में विष्णु में यह वरदान प्राप्त करने हैं कि वह वामन के रूप में अदिति के गर्भ में जन्म लेकर बलि को परास्त करे। वाल्मीकि रामायण के दाक्षिणात्य पाठ (१, २९, १०-१७) तथा ब्रामन पुराण (अध्याय २८-२८) में भी कश्यप तथा अदिति की तपस्या एवं वरप्राप्ति का वर्णन किया गया है।

महाभारत के शांति पर्व में विष्णु के विषय में लिखा है—अदित्याः सप्तरात्रं तु पुराणं गर्भतां गत (१२ ४३ ६), बहुत सी हस्तलिपियों में 'सप्तरात्र' के स्थान पर 'सप्तधा' पाठ मिलता है। संभव है इसी कारण से वामनावतार के अतिरिक्त अदिति का सम्बन्ध अन्य अवतारों में भी जोड़ा गया है। मत्स्य पुराण (अध्याय ४७, ९), ब्रह्माण्ड पुराण (२, ७१, २०० और २३८), ब्रह्मवैवर्त पुराण (कृष्णजन्म-खण्ड, अध्याय ७) आदि में कश्यप-अदिति को वसुदेव-देवकी से अभिन्न माना गया है।

भागवत पुराण के अनुसार सुतपा तथा वृश्नि ने स्वायम्भू मन्वन्तर में १२००० वर्ष तक तपस्या करके भगवान् से वर प्राप्त किया कि वह तीन बार उनके पुत्र बन जायें। फलस्वरूप भगवान् वृश्निगर्भ (सुतपा-पुत्र), उपेन्द्र अथवा वामन (कश्यप-पुत्र) तथा कृष्ण (वसुदेव पुत्र) के रूप में अवतरित हुये (दे० स्कन्ध १०, अध्याय ३, ३२-४५)।

१ मत्स्य पुराण में भी अदिति की यह तपस्या उल्लिखित है (दे० अध्याय २४३, ९)।

अपेक्षाकृत अर्वाचीन रचनाओं में कश्यप-अदिति के दशरथ कौशल्या के रूप में प्रकट होने का उल्लेख मिलता है उदाहरणार्थ—अध्यात्म रामायण का बालकाण्ड (२ २५ ३ ३२ ४ १४ १६) रामचरितमानस (१ १८७) काश्मीरी रामायण (अयोध्या काण्ड न० १३) । आदि पुराण में नन्द के एक स्वप्न का विवरण किया गया है जिसके अनुसार बहु अपन पूवजन्म में दशरथ था (अध्याय १६) । कृतिवास रामायण में विष्णु कश्यप अदिति की ओर निदर्शन करते हुए देवताओं से कहते हैं कि दशरथ तथा कौशल्या न मरी सेवा की और न उनको यह वर दे चुका है कि मैं तुम्हारे घर में जन्म उगा (दे० वा०काण्ड अ० ३०) ।

३६८ ब्रह्मा के पुत्र स्वायम्भू मन की तपस्या<sup>१</sup> का प्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है—प्रजा की कामना में प्ररित होकर वह आराधना तथा तपस्या में प्रवृत्त हुए (दे० १ ८ १ ७) । विष्णु पुराण में स्वायम्भू की सृष्टि उसकी तपश्चर्चा शतरूपा<sup>२</sup> की प्राप्ति तथा इन दोनों की मानसि का वर्णन किया गया है (दे० १ अध्याय ७) । भागवत पुराण में भी स्वायम्भू के विरक्त हो जान राज्य छोड़ देन तथा अपनी पत्नी के साथ वन में तपस्य करने की कथा वर्णित है (दे० स्कंध ८ अध्याय १) । देवीभागवत पुराण में अनन्तर स्वायम्भू मन न १०० वर्ष तक तपस्या तथा देवी की आराधना की थी तथा अन्त में उनमें यह वर मांगा—सर्पाकार्ये विघ्ना नश्यन्तु मे (दे० १० १ २१) । देवीन उनको अकटक राज्य तथा पुत्रों की प्राप्ति का आश्वासन दिया—राज्य निष्कटक तेऽस्तु पुत्रा वशकरा अपि (दे० १० २ ३) ।

उपरोक्त कथाओं में किसी अवतार का उल्लेख नहीं होता सभवतः व्यवस्वत मन की कथा के प्रभाव के कारण अर्वाचीन रचनाओं में स्वायम्भू मन की तपस्या तथा अवतारवाद का सम्बन्ध स्थापित किया गया है । पद्मपुराण के उत्तरखण्ड के अनुसार स्वायम्भू न १०० वर्ष तक तपस्या करके विष्णु से यह वर प्राप्त किया था कि विष्णु तीन जन्मों में उनके पुत्र बन जाय । तदनुसार स्वायम्भू शतरूपा क्रमशः दशरथ-कौशल्या

- १ प्रजा प्राप्ति के उद्देश्य से तप करने का उल्लेख तैत्तिरीय उपनिषद् में परमात्मा के विषय में (दे० २ ६ १) तथा प्रश्नोपनिषद् में प्रजापति के विषय में हुआ है—प्रजाकामो वै प्रजापति स तपोऽस्तप्यत (दे० १ ४) ।
- २ महाभारत में स्वायम्भू की पत्नी का नाम सरस्वती है (दे० ५ १५ १४) बाद में प्रायः शतरूपा ही का उल्लेख मिलता है । शत पुराण (१ ९१ १) में भी स्वायम्भू आदि मुनियों की साधना का उल्लेख किया गया है ।
- ३ मनु व्यवस्वत की तपस्या तथा फलस्वरूप प्रजापति के मत्स्यावतार की कथा महाभारत (दे० ३ १८५) तथा परवर्ती रचनाओं में विस्तार सहित वर्णित है ।

वसुदेव-देवकी तथा कलियुग में शमल ग्रामवासी ब्राह्मण हरिगुप्त तथा उनकी पत्नी देवप्रभा के रूप में प्रकट होते हैं (दे० अध्याय २६९)। रामरहस्य (सर्ग १) तथा तत्त्वमग्रह गमायण (१ १३) में भी इससे मिलनी जुलनी कथा पाई जाती है। राम-रहस्य में हरिगुप्त के स्थान पर हरिभक्त का उल्लेख है और तत्त्वसग्रह रामायण में मनु अंतिम बार विष्णुव्रत के रूप में प्रकट होकर कल्कि के पिता बन जाते हैं।

रामचरितमानस (१ १४१) तथा पाश्चात्य वृत्तान्त न० १३ में भी मनु शतरूपा तथा दशरथ-कौशल्या की अभिप्रता का उल्लेख है।

३६९ स्कन्दपुराण के वैष्णवखण्ड (अध्याय २८) पद्मपुराण (उत्तरखण्ड अध्याय १०९) तथा आनन्द रामायण (१ ४ ११७ १७०) में विष्णुभक्त धर्म-दत्त तथा कलहा की कथा दी गई है जिसके अनुसार दोनों क्रमशः दशरथ तथा कंकेशी के रूप में प्रकट हुए हैं। सवृत्त रामायण में भी इस प्रकार का वृत्तान्त मिलता है (दे० ऊपर अनु० १९३)।

### (आ) शाप

३७० भृगु शाप की कथा के प्राचीनतम रूप में किमी अवतार विशेष का उल्लेख नहीं किया गया है। मत्स्यपुराण के अनुसार भृगु की पत्नी का वध करने के कारण भग न विष्णु का सात बार मनुष्यी म अवतार धारण कर लन का शाप दिया— तस्मात्त्व सप्तकृत्वेषु भानुषेवूपपत्स्यसे (अध्याय ४७ १०६)। लिगपुराण में भृगु के शाप के फलस्वरूप विष्णु के दम अवतारों का उल्लेख है

भृगोरपि च शापेन विष्णु परमवीर्यवान् ।

प्रातुर्भावान् वश प्राप्नो दु खितश्च सवा कृत ॥ २६ ॥

(अध्याय २९)

वायुपुराण (अध्याय ९७) ब्रह्माण्ड पुराण (२ अध्याय ७२) और देवीभागवत पुराण (४ अध्याय १२) में भी ऐसी कथा मिलती है। बाल्मीकि रामायण के एक स्थल के अनुसार जो केवल दाक्षिणात्य पाठ में मिलता है भृगु न विष्णु को बहुत वर्षों तक पत्नी वियोग सहन का शाप दिया था। इस शाप के फलस्वरूप रामावतार में सीता त्याग की घटना हुई थी (दे० उत्तरकाण्ड सर्ग ५१)। वल्लि पुराण में भृगु शाप रामावतार का कारण माना गया है (दे० पृ० १७०)। योगवासिष्ठ के अनुसार विष्णु न भृगु की पत्नी का वध किया था और इसपर भृगु न शाप दिया कि तुम भी स्त्री के वियोग से व्याकुल हो जाओग। इस शाप के वशीभूत विष्णु राम के रूप में प्रकट हुये (दे० वैराग्य प्रकरण, सर्ग १, ६१)।

३७१. योगवासिष्ठ में दो अन्य शापों का भी उल्लेख किया गया है, जिनके कारण विष्णु को राम का अवतार धारण करना पड़ा। किसी दिन विष्णु ब्रह्मपुरी गये थे, जहाँ सनत्कुमार को छोड़कर सबों ने उनका स्वागत किया था। इसपर विष्णु ने सनत्कुमार को कामानुर बन जाने का शाप दिया तथा प्रन्युत्तर में सनत्कुमार ने विष्णु को 'अज्ञानी' हो जाने का शाप दिया (दे० १, १, ५९-६०)। एक अन्य अवसर पर नृसिंहरूपधारी विष्णु ने देवशर्मा की पत्नी को डराया था, जिससे वह मर गई थी। इसपर देवशर्मा ने विष्णु को पत्नी-वियोग भोगने का शाप दिया था। (दे० योगवासिष्ठ १, १, ६३-६४)।

३७२. स्कन्द पुराण (वैष्णव खण्ड, कार्तिकमास माहात्म्य, अध्याय २०-२१), शिवमहापुराण (रुद्र महिता, युद्ध-खण्ड, अध्याय २३), पद्मपुराण (उत्तर खण्ड, अध्याय १६ और १०५), योगवासिष्ठ रामायण (१, १, ६२) आनन्द रामायण (१, ४, ८०-११०) तथा लोमश रामायण (दे० अनु० १९४) में वृन्दा-शाप का वर्णन किया गया है। दैत्य जलधर शिव से युद्ध करते हुए अपनी पत्नी वृन्दा के सतीत्व के कारण अजेय है। इसपर विष्णु ने जय-विजय की सहायता से वृन्दा का गतीत्व नष्ट कर दिया था। वृन्दा ने जय-विजय को, जिन्होंने उसे राक्षस के रूप में डराया था, राक्षस बन जाने का शाप दिया तथा विष्णु को, जिन्होंने उसे जलधर के रूप में धोखा दिया था, यह शाप दिया कि तुम मनुष्य बनोगे और ये दोनों तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे। नृसिंहरूप रामायण में राम स्वयं वृन्दा-शाप को भीता-हरण का कारण मानते हैं (दे० ३, १६)।

स्कन्दपुराण (अध्याय २१) में वृन्दा का शाप इस प्रकार है

यौ त्वया मायया द्वाःस्थौ स्वकीयौ वसितौ मम ।

तावेव राक्षसौ भूत्वा भार्या तव हरिष्यन्तः ॥ २८ ॥

पद्मपुराण के उत्तर खण्ड (अध्याय १६) में यह शाप बदल दिया गया है

अहं मोहं यथा नीता त्वया मायातपस्विना ।

तथा तव वर्धुं मायातपस्वी कोऽपि नेष्यति ॥ ५५ ॥

रामचरितमानस में विष्णु के वृन्दा का सतीत्व नष्ट करने का उल्लेख मात्र किया गया है। कथा में इस प्रकार परिवर्तन किया गया है कि जलधर ही रावण के रूप में प्रकट होकर और राम के हाथ से मरकर परमपद प्राप्त कर लेता है।

छल करि टारेउ तामु ब्रत, प्रभु सुर कारज कीन्ह ।

अब तेहि जानेउ मरन तब, आप कोप करि दीन्ह ॥१२३॥

तासु आप हरि कीन्ह प्रबाना । कौतुक निधि कृपाल भगवाना ॥

तहाँ जलधर रावन भएऊ । रन हति राम परम पव दएऊ ॥

(बालकाण्ड)



३७३. नारद के मोह तथा विष्णु के प्रति उनके शाप की कथा अर्वाचीन है, किन्तु उस कथा के तत्त्व प्राचीन साहित्य में विद्यमान है। महाभारत में नारद तथा पर्वत का अनेक स्थलों पर साथ-साथ उल्लेख किया गया है। नारद-पर्वत का सम्बन्ध मामा-भानजे का माना जाता है—**मातुलो भागिनयेष्व** (१२, ३०, ५)। दोनों द्रौपदी-स्वयंवर के अवसर पर आकाश में दर्शक बनकर उपस्थित है (१, १७८, ७) तथा साथ-साथ इन्द्रलोक की यात्रा करते हैं (३, ५१, १२)। शांति पर्व में दोनों सृजय के यहाँ पहुँचते हैं तथा उनकी पुत्री के कारण एक दूसरे को शाप देते हैं। नारद पर्वत की स्वर्ग-गति रोक लेते हैं तथा पर्वत शाप देते हैं कि नारद सृजय की पुत्री के साथ विवाह करने के पश्चात् 'वानरमुख' हो जायेंगे। नारद सृजय की पुत्री से विवाह करके वास्तव में 'वानरमुख' बन जाते हैं, किन्तु बाद में नारद-पर्वत मिलकर एक दूसरे को शापमूक्त करते हैं (दे० अध्याय ३०-३१)।<sup>१</sup>

महाभागवत पुराण प्राचीनतम रचना प्रतीत होती है, जिसमें नारद का शाप सूर्यवंश में विष्णु के जन्म तथा सीता के हरण का कारण माना गया है (दे० ११, १०७-११२)। अब्भूत रामायण में कथा इस प्रकार है। अम्बरीष की पुत्री श्रीमती को देखकर नारद तथा पर्वत दोनों उसको अम्बरीष से माँगते हैं। अम्बरीष कहते हैं कि कन्या जिसे चुन लेगी वही उसका पति बन जायगा। इसपर नारद तथा पर्वत दोनों अलग-अलग विष्णु के पास जाकर एक दूसरे को 'वानरमुख' दिलाते हैं। विष्णु हँसकर दोनों की प्रार्थना पूरी करते हैं। स्वयंवर के समय श्रीमती नारद तथा पर्वत को न देखकर केवल दो बानरों को तथा दोनों के बीच में सुन्दर युवक के रूप में विष्णु को देखती हैं। वह विष्णु के गले में माला डाल देती हैं और विष्णु उसे बँकुठ ले जाते हैं। बाद में नारद तथा पर्वत विष्णु और श्रीमती को राम और सीता के रूप में प्रकट होने का शाप देते हैं।<sup>२</sup> शिवमहापुराण में जो कथा मिलती है वह रामचरितमानस के

१. जैन राम-कथाओं में नारद-पर्वत के यज्ञ-विषयक विवाद का विस्तृत वर्णन मिलता है। पर्वत हिंसात्मक यज्ञ का पक्ष लेता है तथा नारद इसका विरोध करते हैं (दे० पउमचरिय पर्व ११; गुणभद्र का उत्तरपुराण सध ६७, २५९ आदि)। पउमचरिय के अनुसार नारद ब्राह्मण ब्रह्मरुचि तथा वरकुर्मी के पुत्र हैं; जबकि नामक देवता नारद को शास्त्र तथा आकाशगामिनी विद्या सिखलाते हैं और नारद देवर्षि बन जाते हैं। पउमचरिय ने नारद को ब्राह्मण कथाओं के अनुसार समीपतज्ञ, विनोदी तथा कलहप्रिय के रूप में चित्रित किया।

२. दे० सर्ग ३-४। लिंग पुराण (उत्तरार्द्ध, अध्याय ५) में भी विष्णु की माया के कारण श्रीमती नारद-पर्वत को वानर के रूप में देखती हैं तथा विष्णु को माला प्रदान करती हैं, किन्तु इस वृत्तान्त में नारद के किसी शाप का उल्लेख नहीं मिलता।

वृत्तान्त के अधिक निकट है। श्रीमती को प्राप्त करने के लिए नारद ने विष्णु के पास जाकर हरिरूप माँगा। विष्णु ने उसे हरि अर्थात् बानर का मुख दिया और स्वयं श्रीमती के स्वयंवर में जाकर उसे प्राप्त किया। उस स्वयंवर में दो शिवगणों ने नारद का उपहास किया और नारद के शाप के कारण वे रावण और कुम्भकर्ण बन गए। नारद ने विष्णु को यह शाप दिया—तुम मनुष्य बनकर वानरों के साथ विरह का दुःख भोगो (दे० रूद्रसंहिता, सृष्टिखण्ड, अध्याय ३-४)। रामचरितमानस में अबरीष की पुत्री श्रीमती के स्थान पर सीलनिधि की पुत्री विश्वमोहिनी का उल्लेख किया गया है (दे० बालकांड १३०, २-४)। बलरामदास के रामायण में अबरीष की पुत्री का नाम लीलावती है (दे० किष्किन्धा काण्ड)।

अद्भुत रामायण के एक अन्य स्थल के अनुसार, लक्ष्मी ने किसी अवतार पर स्वर्ग में नारद का अपमान किया था, इसपर नारद ने उनको राक्षसों के यहाँ जन्म लेने का शाप दिया, जिसके फलस्वरूप लक्ष्मी मदादरी की पुत्री बन गई (दे० सर्ग ६)। बलरामदास के अनुसार लक्ष्मी ने जय-विजय के साथ अन्याय किया था और इसी कारण उनको सीता के रूप में अवतार लेना पड़ा (दे० अनु० ६४८)।

३७४. प्रामाणिक वाल्मीकीय रामायण में नारद का उल्लेख नहीं था किन्तु प्रचलित रामायण से लेकर परवर्ती राम-कथाओं की एक विशेषता यह है कि इनमें नारद का महत्त्व बढ़ता जाता है।

प्रचलित रामायण के सर्वप्रथम सर्ग में नारद वाल्मीकि को रामचरित का सार सुनाते हैं। उत्तरकाण्ड के अनुसार नारद ने किसी दिन रावण को यम पर आक्रमण करने के लिए उकसाया था (दे० सर्ग २०-२१) तथा ब्राह्मण-कुमार की अकाल मृत्यु के रहस्य का उद्घाटन किया था (दे० सर्ग ७४)। पश्चिमोत्तरीय पाठ मात्र में शर-पाश के प्रसंग में नारद की चर्चा की गई है—नारद राम को उनके नारायणत्व का स्मरण दिलवाकर गरुड को बुलाने का परामर्श देते हैं (दे० प० रा० ६, २७, ७-४१)। गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठों में कुम्भकर्ण के जगाये जाने के पश्चात् उनका एक अपेक्षाकृत लम्बा भाषण उद्धृत किया गया है, जिसमें वह कहता है कि नारद ने मुझे विष्णु-अवतार द्वारा रावण-वध की योजना से अवगत कराया था (दे० गौ० रा० ६, ४०; प० रा० ६, ४१)। दक्षिणात्य पाठ के एक प्रक्षेप के अनुसार नारद ने रावण को श्वेत द्वीप में भेज दिया, जहाँ रावण स्त्रियों द्वारा बुरी तरह से हराया जाता है (दे० ७, ३७ प्रक्षिप्त सर्ग ५)।

परवर्ती रचनाओं में राम-कथा में नारद के हस्तक्षेप का बार-बार उल्लेख मिलता है। वह दस्यु वाल्मीकि के हृदय-परिवर्तन का साधन बन जाते हैं (दे० अनु० ३८); दशरथ तथा जनक को विभीषण के आक्रमण से बचाते हैं (दे० अनु० ३३८); अनावृष्टि के समय दशरथ को परामर्श देते हैं (दे० कृत्तिवास रामायण १, २७); उनके शाप के कारण राम, सीता, रावण तथा कुम्भकर्ण प्रकट हो जाते हैं (दे० ऊपर अनु० ३७३); उनके परामर्श पर जनक पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं (अनु० ४०७) तथा मन्दोदरी अपनी पुत्री को स्वर्णपेटिका में बन्द करके किसी दूर देश में गाड़ने का आदेश देती है (अनु० ४१८ और ४१०)।

पउमचरिय, अध्यात्म रामायण, पद्य पुराण (पाताल खण्ड) तथा बृहत्कोशल खण्ड में सीता-स्वयंवर के अवसर पर नारद के हस्तक्षेप का उल्लेख किया गया है (दे० अनु० ३९४, ३९५, ४०३)।

नारद राम और रावण के बीच में सघर्ष उत्पन्न करने के उद्देश्य से पृथ्वी पर उतरते हैं (दे० बाल रामायण, अंक २, विष्कम्भ), अयोध्या में पहुँचकर राम को अवतार का उद्देश्य स्मरण दिलाकर उनसे अनुरोध करते हैं कि वह राज्याभिषेक अस्वीकार करें (अनु० ४४३), जयत को राम के पास भेज देते हैं (अनु० ४३९)। सीता-हरण के लिये रावण को उकसाते हैं (अनु० ४८६), सीता को माया-सीता की सृष्टि करने का परामर्श देते हैं (अनु० ५०५), पपा सरोवर के तट पर विरही राम से भेट करने जाते हैं (अनु० ४७६) और वालि-वध के बाद राम को देवी-पूजा करने का उपदेश देते हैं (अनु० ५२३)। समुद्रलघन के बाद हनुमान् उनके आश्रम में पहुँचते हैं (अनु० ५३१) और लका में ही सीता की खोज करते हुये नारद से भेट करते हैं (अनु० ५३८)। कुम्भकर्ण-वध के बाद नारद आकर राम की स्तुति करते हैं (अनु० ५८९) तथा रावण-वध के बाद देवताओं के लिये रावण की मुक्ति का रहस्योद्घाटन करते हैं (दे० अनु० ५९९)। पउमचरिय के अनुसार वह लका में विलंब करते हुये राम को उनकी माता का विरह समझाते हैं (अनु० ६०५)। तोरवे रामायण में शम्भूक-वध के एक नवीन रूप में नारद का उल्लेख मिलता है (अनु० ६३२), तथा पउमचरिय के अनुसार नारद ही लव-कुश-युद्ध के लिए उत्तरदायी हैं (दे० अनु० ७४६)। आनन्द रामायण के अनुसार नारद न शत्रुघ्न के पुत्र यूपकेतु तथा मदनसुन्दरी के विवाह का प्रबन्ध किया था (दे० विवाह काण्ड, सर्ग ८) तथा सीता को तुलसी-यत्र-सन्धि की शिक्षा दी थी (दे० राज्यकाण्ड, सर्ग २२)।

तुलसीदास ने नारद को एक आदर्श रामभक्त के रूप में चित्रित किया है। रामचरितमानस के उत्तरकाण्ड में कहा गया है कि नारद अयोध्या आया करते थे

तथा वहाँ नये-नये चरित्र देखकर ब्रह्मलोक में उनका गुणगान करते थे :

**बारबार नारद मुनि आर्वाहं । चरित पुनीत राम के गावर्हं ॥**

**नित नव चरित देखि मुनि जाहीं । ब्रह्मलोक सब कथा कहाहीं ॥**

(दे० ७, ४२, २-३) । तुलसी ने एक अन्य स्थल पर नारद की राम-स्तुति उद्धृत की है (दे० ७, ५१) । इसके अतिरिक्त गरुड-चरित के अन्तर्गत इसका उल्लेख किया गया है कि नारद ने राम को शरपास में मुक्त करने के उद्देश्य से गरुड को लका भेज दिया था तथा बाद में मोह-ग्रस्त गरुड को ब्रह्मा के यहाँ जाने का आदेश दिया (७, ५८-५९) ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रामाणिक रामायण में भले ही नारद का नाम तक न आया हो, किन्तु परवर्ती राम-कथाओं में हमें पग-पग पर नारद के दर्शन मिलते हैं ।

## ४—राम का बालचरित

### क । जन्म

३७५. वाल्मीकीय रामायण के दक्षिणात्य पाठ के एक अपेक्षाकृत अर्वाचीन प्रक्षेप में राम तथा उनके भाइयों की जन्मतिथि चैत्र शुक्ल नवमी बताई गई है (दे० ऊपर अनु० ३३५) । परवर्ती रचनाओं में इस तिथि का प्रायः उल्लेख किया जाता है । उदाहरणार्थ अध्यात्म रामायण (१, ३), पद्मपुराण (उत्तर खण्ड, अध्याय २६९); कृत्तिवासीय रामायण (१, ४२), रामचरितमानस (१, १९१); भावार्थ रामायण (१, ६) ।

राम-जन्म के अवसर पर अलौकिक घटनाओं का वर्णन प्राचीन काल से चला आ रहा है । **पद्मचरित** (पर्व २५) में राम तथा लक्ष्मण के जन्म के पूर्व उनकी माताओं के शुभ स्वप्नों का उल्लेख मिलता है । राम की माता ने स्वप्न में सिंह, सूर्य तथा चन्द्रमा को देखा था; दशरथ ने सुनकर कहा था—हे सुन्दरी, ये स्वप्न उत्तम पुरुष का जन्म सूचित करते हैं (**इमे वरपुरिसं सुन्दरि पुसं निवेएन्ति**) । इसी प्रकार सुमित्रा ने हाथ में कमल धारण करती हुई लक्ष्मी को तथा किरणों से प्रज्वलित चन्द्र और सूर्य को स्वप्न में देखा, इसके अतिरिक्त उसने पर्वत के शिखर पर स्थित होकर सागर तक फँली हुई पृथ्वी को देखा । पद्मचरित के अनुसार राम की माता ने 'महापुरुषवेदी' (महापुरुष का जन्म सूचित करने वाले) स्वप्न देखे थे । प्रथम स्वप्न में उन्होंने सफेद हाथी, दूसरे में सिंह, तीसरे में सूर्य और चौथे में चन्द्रमा देखा था । सुमित्रा ने स्वप्न में देखा कि लक्ष्मी और कीर्ति आदरपूर्वक सिंह का अभिषेक कर रही हैं । फिर देखा कि मैं स्वयं किसी ऊँचे पर्वत पर चढ़कर समुद्र रूपी मेखला से अलङ्कृत

पृथ्वी को देख रही हूँ। इसके बाद उन्होंने देदीप्यमान किरणों से युक्त, सूर्य के समान सुशोभित, रत्नों से खचित धूमता हुआ सुन्दर चक्र देखा था।<sup>१</sup>

यह असंभव नहीं कहा जा सकता है कि पउमचरिय के प्रभाव से कालिदास ने रघुवंश (१०, ६०-६४) में लिखा है कि रामादि के जन्म के पूर्व दशरथ की रानियों को यह स्वप्न दिखाई देता था कि कमल, खग, गदा, धनुष और चक्र लिए कोई बौना-सा पुरुष हमारी रक्षा कर रहा है, गहड़ हमे आकाश में उड़ाकर ले जा रहे है, लक्ष्मी हाथ में कमल का पत्रा लेकर हमारी सेवा कर रही हैं, और सप्तर्षि भी वेद-पाठ करते हुए हमारी उपासना कर रहे है। अपनी रानियों से स्वप्नों के विषय में सुनकर दशरथ प्रसन्न हुए और समझ गए कि मैं जगद्गुरु का पिता बन रहा हूँ। असमीया बालकांड (अध्याय २३) में भी इसका उल्लेख है कि रामादि के जन्म के पूर्व तीनों माताओं ने गहड़ पर आरूढ़ नारायण को स्वप्न में देखा था।

कालिदास ने राम-जन्म का अत्यन्त काव्यमय वर्णन किया है। "बालक के तेज से मूतिकागृह के दीपकों की ज्योति मन्द पड़ गई थी" तथा उस समय "ससार के सारे दोष भाग गए और चारों ओर गुण ही गुण फँल गए मानों स्वर्ग भी विष्णु भगवान् का अनुमरण करता हुआ पृथ्वी पर उतर आया हो"—अन्वागादिचि हि स्वर्गो गां गतं पुरुषोत्तमम् (१०, ७२)। अनन्तर कालिदास लका में उस समय घटने वाले अपराणकुनों का उल्लेख करते हुए कहते है कि रावण के मुकुटो से कुछ मणि पृथिवी पर गिर पड़े मानों राक्षसों की लक्ष्मी अपने दुर्भाग्य पर आँसू बहा रही हो:

दशाननकिरीटेभ्यस्तत्क्षणं राक्षसश्रियः।

मणिव्याजेन पर्यस्ताः पृथिव्यामभ्रुविन्धवः ॥७५॥

कालिदास ने इस प्रसंग को आगे बढ़ाकर लिखा है कि उस समय रावण का मुकुट भूमि पर गिर गया तथा अन्य अपराणकुनों के अतिरिक्त एक आकाशवाणी भी सुनाई पड़ी कि दशरथ के घर में विष्णु का जन्म हुआ है। इसपर रावण ने विचार किया कि शंशव में ही उन्हें मारने में मेरा कल्याण है और उसने पता लगाने के उद्देश्य से शुक-सारण को अयोध्या भेज दिया। दोनों राक्षस जाकर शिशु को प्रणाम करते हैं, भक्ति का धरदान माँगकर लका लौटते है तथा रावण को आश्वासन देते है कि उसकी आशंका निर्मूल ही है (दे० १, ४५)।

१. दे० पर्व २५, १-१८। गुणभद्र के उत्तरपुराण में भी राम की माता के शृभ स्वप्नों का (दे० ६७, १४८) तथा कैंकेयी के पाँच महाफल देने वाले स्वप्नों का (६७, १५१) उल्लेख किया गया है—सरःसुर्येन्नुफलमक्षेत्र-सिंहान् महाफलान् स्वप्नान्। परवर्ती जैन साहित्य में भी इन स्वप्नों को पर्याप्त महत्त्व दिया गया है।

अध्यात्म रामायण (१, ३, १३-३५) प्राचीनतम रचना है जिसमें इसका वर्णन किया गया है कि शिशु राम जन्म लेते ही अपनी माता के सामने अपने विष्णु-रूप में प्रकट हुए। कौशल्या "नीलोत्पलबलस्यामः पीतवासाश्चतुर्भुजः" बालक को देखकर भगवान् के रूप में उनकी स्तुति करने लगती हैं तथा अन्त में उनसे निवेदन करती हैं कि वह अपना सुकोमल विश्वरूप ग्रहण करे। इसपर राम अपनी माता को उनके पूर्वजन्म की तपस्या तथा वर-प्राप्ति (दे० ऊपर अनु० ३६७) का स्मरण दिलाकर बालक का रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रसंग का आधार स्पष्टतया भागवत पुराण (१०, ३) है, जिसमें बालक कृष्ण द्वारा वसुदेव-देवकी के सामने विष्णु-रूप प्रदर्शन, वसुदेव-देवकी द्वारा उनकी स्तुति, देवकी द्वारा बालक-रूप ग्रहण करने का निवेदन तथा कृष्ण द्वारा पूर्व-जन्म में वसुदेव-देवकी की तपस्या और वर-प्राप्ति का उल्लेख बहुत कुछ एक ही शब्दावली में वर्णित है। अध्यात्म रामायण के अनुकरण पर परवर्ती राम-कथाओं में भी प्रायः राम के कौशल्या के सामने अपने विष्णु-रूप में प्रकट हो जाने की कथा मिलती है, उदाहरणार्थ—पद्मपुराण (उत्तर खण्ड, २६९, ८० आदि); आनन्द रामायण (१, २, ४); रामचरितमानस (१, १९१); रामरहस्य (सर्ग ३), भावार्थ रामायण (१, ६), राघवोत्थास काव्य (सर्ग ४), तत्त्वसंग्रह रामायण (१, १४)।

रघुवश की भाँति रामलिंगामृत (सर्ग २) तथा कृत्तिवास रामायण (१, ४१) के अनुसार राम जन्म के पूर्व ही एक स्वप्न में अपनी माता कौशल्या को विष्णु रूप में दिखाई पड़े।

रामचरितमानस के अनुसार काक भृशुण्डी तथा शिव दोनों मनुष्य का रूप धारण कर रामजन्ममहोत्सव<sup>१</sup> के अवसर पर अयोध्या आये थे (दे० १, १९५, ४)।

३७६. भगवद्गीता (अध्याय ११) के अनुसार कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट् रूप दिखलाया था तथा भागवत पुराण (१०, ७, ३५-३७) के अनुसार यशोदा ने बालक कृष्ण के मुँह में समस्त ब्रह्माण्ड देखा था। कुछ ही अर्वाचीन रचनाओं में इस प्रकार की कथा राम के विषय में भी मिलती है। रामलिंगामृत (सर्ग २, २४) तथा रामचरितमानस (१, २०१-२०२) में राम के अपनी माता कौशल्या को अपना विराट् रूप दिखलाने का वर्णन किया गया है। पद्म पुराण के उत्तरखण्ड (२६९, ८०) के अनुसार राम ने अपना विष्णु-रूप प्रकट करते समय अपने विद्व-रूप का भी उद्घाटन किया था।

१. इस जन्मोत्सव का प्राचीनतम उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है : उत्सवदश्च महालासीवयोष्यायां जनाकुलः (दे० १, १८, १८)।

अन्य अर्वाचीन रचनाओं में इसका उल्लेख मिलता है कि राम ने रामायण के अनेक अन्य पात्रों को भी अपना दिव्य रूप दिखलाया था; उदाहरणार्थ—परशुराम को (दे० अनु० ३५१); हनुमान को (दे० अनु० ५१२); भुशुण्डी को (दे० अनु० ३८१); अभिषेक के अवसर पर अपने अतिथियों को (पद्मपुराण, उत्तर खण्ड, अध्याय २७०, ४२) ।

कृष्ण-कथा का यह प्रभाव बाललीला की अन्य घटनाओं में भी परिलक्षित है; विशेषकर राम की नटखटी के वर्णन में (दे० अनु० ३७९) राक्षसों के आक्रमण के वृत्तान्तों में (दे० अनु० ३८०) तथा वनश्रीडा और रासलीला के प्रसंग में (दे० अनु०-३८७) ।

३७७. वाल्मीकि रामायण में वसिष्ठ द्वारा नामकरण के अवसर पर राम तथा लक्ष्मण के नामों के विषय में कहा गया है—रामस्य लोकरामस्य (१, १८, २९), लक्ष्मणो लक्ष्मिवर्धनः (१, १८, २८) तथा लक्ष्मणो लक्ष्मसंपन्नो (१, १८, ३०) ।

अर्वाचीन रचनाओं में चारों नामों का स्पष्टीकरण किया जाता है । अध्यात्म रामायण की धारणा सर्वाधिक प्रचलित है<sup>१</sup>—रमणाद् राम इत्यपि ॥ भरणाद् भरतो नाम लक्ष्मणं लक्षणान्वितं शत्रुघ्नं शत्रुहन्तारमेव गुरुभाषत (१, ३, ४०-४१) । पद्मपुराण के पाताल खण्ड में ब्रह्मा स्वयं आकर जातकर्म सम्पन्न करते हैं; इस प्रसंग में राम की “त्रिभुवनाभिरामता” तथा लक्ष्मण की “रूपशौर्यादिलक्ष्मीशोभयता” का उल्लेख किया गया है । दूसरे भाइयों के विषय में लिखा है—भवं भारतासारयतीति भरतः शत्रून्हन्तीति शत्रुघ्नः (दे० अध्याय ११२, ३३-३४) । पद्मपुराण के उत्तर-खण्ड (अध्याय २६९) के अनुसार वसिष्ठ द्वारा जातकर्म सम्पन्न होता है; केवल राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के नामों का कारण बताया गया है । राम के विषय में लिखा है :

श्वियः कमलवासिन्या रमणोऽयं महाप्रभुः ।

तस्माच्छ्रीराम इत्यस्य नाम सिद्धं पुरातनम् ॥७४॥

इसके बाद लक्ष्मण को ‘शुभलक्षण’ तथा शत्रुघ्न को ‘दिवशत्रुप्रतापन’ कह कर पुकारा गया है ।

१. तुलसीदास ने अध्यात्म रामायण के आधार पर लिखा है :

सो सुख धाम राम अस नामा । अखिल लोक दायक विश्रामा ॥

विश्व भरन पीषन कर जोई । ताकर नाम भरत अस होई ॥

जाकेँ सुमिरन ते रिपु नासा । नाम सत्रुहन बेद प्रकासा ॥

लच्छन धाम राम प्रिय सकल जगत आधार ॥

गुरु वसिष्ठ तेहि राखा लछिमन नाम उदार ॥१९७॥

(बालकाण्ड)

कृत्तिवास ने भरत के सम्बन्ध में लिखा है :

पृथिवीर भार सहिबेन अचिरत ।

तँइ हेसु तौर नाम हइल भरत ॥ (१, ४७)

### ख । बाललीला

३७८. वाल्मीकि रामायण में एक ओर राम-लक्ष्मण और दूसरी ओर भरत-शत्रुघ्न की विशेष आत्मीयता का उल्लेख किया गया है (दे० १, १८, २९-३२) । प्रायः सभी परवर्ती राम-कथाओं में भी इसकी चर्चा मिलती है और यह भी बताया जाता है कि पायस का जो अंश कौशल्या ने सुमित्रा को दिया था उससे लक्ष्मण उत्पन्न हुए थे और यही राम-लक्ष्मण की घनिष्ठता का कारण है; यह भरत-शत्रुघ्न पर भी लागू है (दे० अध्यात्म रामायण—पायसांशानुसारतः १, ३, ४२) । कृत्तिवास रामायण में इस प्रसंग को और विस्तार दिया गया है । इसके अनुसार दशरथ ने सुमित्रा की उपेक्षा करके केवल कौशल्या तथा कैकेयी को पायस प्रदान किया था ।<sup>१</sup> सुमित्रा को उदास देखकर कौशल्या ने यह कहकर उसको अपने पायस का आधा भाग दिया था—अगर तुमको पुत्र हुआ तो वह मेरे पुत्र के साथ रहा करेगा, जिस पर सुमित्रा ने प्रतिज्ञा की थी—मेरा पुत्र तुम्हारे पुत्र का दाम होगा । अनन्तर कैकेयी ने भी वही शर्त रखकर सुमित्रा को अपने पायस का आधा भाग प्रदान किया (दे० १, ४१) । असमीया बालकांड (अध्याय २३) में भी सुमित्रा को इसी शर्त पर पायस के दो भाग मिलते हैं ।

३७९. वाल्मीकि के बाद की रचनाओं में राम की बाललीला के वर्णन में भागवत पुराण की कृष्ण-बाललीला का अनुकरण किया गया है । अध्यात्म रामायण में राम की नटखटी, मन्थन की चोरी, वरतनों का फोड़ना आदि वर्णित हैं (दे० १, ३, ४७-५८), जो स्पष्टतया भागवत पुराण पर निर्भर हैं (दे० दशम स्कंध, ८वाँ अध्याय) । यह वर्णन आनन्द रामायण (१, २) और रामरहस्य (सर्ग ३) में भी पाया जाता है । पद्मपुराण (पातालखण्ड, अ० ११२) में लिखा है कि बालक राम ने दशरथ पर अन्न फेंक दिया—अन्नं वामकरेण गृहीत्वा राजनि विक्षेप । सत्योपाख्यान (पूर्वाह्न, अ० २५) में राम द्वारा जलपात्र में प्रतिबिंबित चन्द्रमा को पकड़ने की चेष्टा का वर्णन है ।

तुलसीदास ने भी अपनी कवितावली (१, १-७) तथा गीतावली (१, ७ आदि) में राम की बाललीला का वर्णन सूरसागर में वर्णित कृष्ण बाललीला जैसा ही किया है ।

१. सुमित्रा के दुर्भंगा होने का कारण ऊपर स्पष्ट किया गया है (दे० अनु० ३३९) ।



३८०. कई रचनाओं में बालक राम पर राक्षसों के आक्रमण का भी वर्णन किया गया है। पद्मपुराण के पाताल खण्ड (अध्याय ११२, ३९-४६) के अनुसार एक ब्रह्मराक्षस बाल्या का रूप धारण कर आता है और राम को गिराकर मूर्च्छित कर देता है। दमिष्ठ मंत्र पढ़कर राक्षस को शाप से मुक्त करते हैं। ब्रह्मराक्षस अपना परिचय देकर कहता है कि मैं वेदगवित ब्राह्मण था और परधन हथियाने के कारण ब्रह्मराक्षस बन गया था। पद्मपुराण के गौडीय पाताल खण्ड (अध्याय १५) में बालक राम एक पुष्पनिर्मित धनु से एक राक्षस को मार डालता है जो मृग के रूप में आया था। भृशुण्डी रामायण में भी भागवत पुराण का प्रभाव स्पष्ट है। "रावण द्वारा भेजे गये राक्षस बाल्यावस्था में ही राम को समाप्त करने का प्रयत्न करते हैं, किन्तु वे स्वयं मारे जाते हैं। उनके डर से दशरथ राम को गुप्त स्थान पर भेज देते हैं। मरुत्पार गोपप्रदेश में गोपेन्द्र मुखित और उनकी स्त्री मागल्या राम का पालन-पोषण करने हैं।" कृत्तिका में ये राक्षस रामभक्त बन जाते हैं (दे० अनु० ३७५)।

३८१. काक भृशुण्डी की कथा का पहले-पहल योगवासिष्ठ में वर्णन किया गया है। इसके अनुसार काक भृशुण्डी और उसके भाइयों का पिता चंडनामक काक (अलवगा देवी का वाहन) है तथा उनकी माताएँ ब्राह्मी भगवती के रथ की हसियाँ हैं। पिता के कहने से वे सुमेरु पर्वत पर निवास करने गए जहाँ भृशुण्डी के सब भाई मर गए, लेकिन भृशुण्डी निर्विकार और चिरजीव रहे (दे० निर्वाण-प्रकरण, सर्ग १४-२४)। योगवासिष्ठ के इस भृशुण्डी-उपाख्यान में कही भी उसके पूर्वजन्म अथवा उसकी राम-भक्ति का उल्लेख नहीं किया गया है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में उसके पूर्वजन्मों की भी कथा दी गई है, पूर्व कल्प के एक कलियुग में वह अयोध्यावासी शूद्र था। गुरु का मत्कार न करने के कारण वह शिव-शाप से सर्प हो गया। बाद में वह गुरु तथा शिव की कृपा से सगुणरूप राम का उपासक ब्राह्मण बन गया और अंत में लोमम-ऋषि के शाप से उसे काक-योनि प्राप्त हुई (दे० दौ० ९५-११४)।

रामचरितमानस के अनुसार काक भृशुण्डी तथा शिव दोनों मनुष्य के रूप में राम-जन्म-उत्सव के उपलक्ष्य में अयोध्या गए थे (दे० १, १९५, ४)। सत्योपाख्यान में रामभक्त काक भृशुण्डी राम को शङ्कुलि (एक प्रकार की पूरी) खाते देखकर उनके नारायणत्व पर सदेह करता है। परीक्षा करने के उद्देश्य से उसे वह राम के हाथ

१. दे० भगवती प्रसाद सिंह, रामभक्ति में रसिक सम्प्रदाय, पृ० ९७। खोतानी रामायण के अनुसार रानी ने राम और लक्ष्मण को परशुराम के आक्रमण से बचाने के उद्देश्य से उनको १२ वर्ष तक भूमि के अन्दर छिपा रखा था। (दे० अनु० ३५१)।

से छीन कर भाग जाता है। लेकिन राम गहड़ पर आरूढ़ होकर तीनों लोकों में उसका पीछा करते हैं। अंत में काक राम की शरण लेता है और निश्चल भक्ति का वरदान पाकर अपने आश्रम लौटता है। अनंतर शिव तथा भृशुण्डी दोनों के, ब्राह्मण के वेश में राम को देखने के लिये अयोध्या जाने का उल्लेख है (दे० २६वाँ अध्याय)।

रामचरितमानस के उत्तरकाण्ड (दो० ७५) में भृशुण्डी गहड़ से कहता है कि मेरा इष्टदेव बालक राम है। वह प्रत्येक रामावतार में राम की बाललीला देखने जाता है तथा पाँच वर्ष तक बालक राम की संगति में बिताता है। अनन्तर वह अपने मोह की कथा सुनाता है—किमी दिन राम की बाललीला देखकर (**प्राकृत सिमु इव लीला देखि**) भृशुण्डी के मन में उनके नारायणत्व के विषय में सन्देह उत्पन्न हुआ। इसपर राम भृशुण्डी को पकड़ने आगे बढ़े और भृशुण्डी भाग गया, किन्तु वह आकाश में दूर तक उड़ता हुआ भी राम की भुजा अपने पास ही देखता रहा। अन्त में भयभीत होकर भृशुण्डी ने अपनी आँखें बन्द कर ली और अपने को अयोध्या में पाया। राम उनके सामने हँसते हुये खड़े थे और भृशुण्डी ने उनके मुख में प्रवेश कर राम के शरीर के अन्दर बहुत से ब्रह्माण्ड देख लिये। इस प्रकार भृशुण्डी का मोह दूर हुआ (दे० दो० ७७-८३)।

३८२. बालक राम तथा हनुमान् की मित्रता की कथा का कोई प्राचीन आधार नहीं मिलता। रामचरितमानस के अप्रामाणिक सस्करणों के एक श्लोक तथा विश्राम-मागर (बीसवाँ सस्करण, सन् १९५९ ई०, पृ० ४१८) में इसका वर्णन किया गया है।

अर्वाचीन रचनाओं में यह प्रसंग अपेक्षाकृत विस्तार सहित वर्णित है। शंकर मदारी वन कर हनुमान् को अयोध्या ले आते हैं। बालक राम बदर को देखकर उसपर मुग्ध हो जाते हैं। मदारी बदर को अयोध्या में छोड़कर चला जाता है। हनुमान् राम के साथ रहकर बहुत दिनों तक उनकी सेवा तथा मनोरजन करते हैं तथा बाद में राम द्वारा किष्किन्धा भेजे जाते हैं।

### ग। प्रारंभिक कृत्य

३८३. **वाल्मीकि रामायण** (१, १८, ३१) में इसका उल्लेख मात्र किया गया है कि जब राम मृगया खेलने जाते हैं, लक्ष्मण धनुष लेकर उनका साथ देते हैं तथा उनकी रक्षा करते हैं। **अध्यात्म रामायण** (१, ३, ६२-६३) के अनुसार राम

१ दे० शान्तनुबिहारी द्विवेदी का 'भक्तराज हनुमान्,' पृ० १३; सत्यदेव चतुर्वेदी का 'अमितवेग' पृ० १६ तथा सुदर्शन सिंह का 'श्री हनुमान् चरित्,' पृ० २८।

नित्यप्रति लक्ष्मण के साथ दुष्ट पशुओं को मारने के लिये बन जाते थे। रामचरित-मानस में उन पशुओं को पवित्र कहा गया है तथा उनके स्वर्ग जाने का भी उल्लेख है—**पावन मृग भारीह . . . . .** जे मृग रामबान के भारे, ते तनु तजि सुरलोक सिधारे (दे० १, २०५, १-२)। सत्योपाख्यान में इस आखेट का अपेक्षाकृत विस्तृत वर्णन मिलता है। राम और उनके भाई अनेक पशुओं को मारते हैं जो वध किये जाने पर दिव्य रूप धारण कर अपना परिचय देते हैं। राम का मारा महिष अपने को नारद द्वारा शापित विल्व बताता है (दे० पूर्वाह्न, अध्याय ४१); इसी प्रकार भरत का मारा मिहू भद्रराज द्वारा शापित कलिंग देश निवाणी शंकर नामक ब्राह्मण (दे० अध्याय ४७) तथा शत्रुघ्न का मारा हुआ हाथी ऋषि सुदर्शन द्वारा शापित एक 'मद्यपाननिरत' ब्राह्मण था (दे० अध्याय ४८)।

इन सबों के शापो की अवधि रामावतार के कारण समाप्त हो जाती है। इस प्रकार राम का आखेट भी मुक्तिप्रद माना गया है। सत्योपाख्यान में राम द्वारा एक किरात की मूर्ति का भी वृत्तान्त मिलता है। किसी दिन राम मृगया के समय एक तराकृति पल्मीक देखते हैं, जो उनके स्पर्शमात्र में दिव्य देह धारण कर अपना परिचय देता है। वह डिंडिर नामक किरात था जो साधुओं के सदुपदेश से तपस्या करने लगा था। वह रामावतार का रहस्य जानता है तथा राम द्वारा रावण-वध की भविष्यद्-वार्ता कर्ता है। अन्त में राम उनको वैकुण्ठ-नास का वरदान देते हैं (दे० अध्याय ४२)। किसी दिन चारो भाई आखेट करते हुए ऋष्यशृंग के आश्रम में पहुँचकर अपनी बहन शान्ता से भी मिलते हैं (दे० अध्याय ४९)।

**कृत्तिवास रामायण** में मृगया के वर्णन में दो नए तत्त्व मिलते हैं। किसी दिन राम मागीच का देख लेते हैं जो अपने को मृग में बदलकर जनक के राज्य में शरण लेने भाग जाता है (दे० १, ४९)। कृत्तिवास के अनुसार ब्रह्मा ने मृगया के कारण राम-लक्ष्मण की थकावट देखकर इन्द्र को भेजा कि वह उस मृगाल में अमृत भर दे जिसे दोनों भाई खाने वाले हैं। इस प्रकार वनवास के समय उनको भूख नहीं लगेगी—**मृगाल भितर तुमि राख गिया मुधा, सुधापाने रामेर ना लागिबेक क्षुधा**। (दे० १, ४९)। यह इन्द्र द्वारा सीता को प्रदत्त हवि का स्मरण दिलाता है (दे०-अनु० ५००)।

- विश्वामित्र के आगमन के पूर्व ही राम की वीरता के विषय में **बृहत्कोशल खण्ड** तथा **पउमचरियं** में कुछ सामग्री मिलती है। बृहत्कोशल खण्ड के अनुसार दशरथ ने राम को शम्बरामुर का वध करने भेजा था (दे० अध्याय ४) तथा पउमचरियं के अनुसार राम तथा लक्ष्मण ने म्लेच्छों को हरा दिया था, जो जनक के राज्य पर आक्रमण करने की तैयारियाँ कर रहे थे (दे० पर्व २७)।

३८४. बाल्मीकि रामायण के अयोध्याकाण्ड में गृह के विषय में कहा गया है कि वह राम का सखा है—तत्र राजा गृहो नाम रामस्यात्मसमः सखा (२, ५०, ३३)। सत्योपाख्यान में वनवास के पूर्व ही राम के गृह से मृगया की शिक्षा प्राप्त करने का वर्णन किया गया है (दे० पूर्वार्द्ध, अध्याय ४३)। बलरामदास रामायण में राम शिकार खेलते समय अपनी सेना से अलग हो जाते हैं तथा गृह से मिलकर उनके साथ सख्य करते हैं। राम-गृह-सख्य का विस्तृत वर्णन कृत्तिवासीय रामायण में मिलता है।

किसी दिन दशरथ अपने पुत्रों के साथ गंगा-स्नान करने गये। गृहक चाण्डाल तीन करोड़ चाण्डालों को साथ लेकर दशरथ की सेना को रोक लेता है तथा राम को देखने की इच्छा प्रकट करता है। दशरथ राम को रथ में छिपाकर गृहक से मुक्त करते हैं और गृहक को हराकर तथा उसके हाथ बाँधकर रथ पर रखवाते हैं। इसपर गृहक पैर के अँगूठे से वाण मारता है। राम जिज्ञासा से प्रेरित होकर यह कौतुक देखने आते हैं। तब गृहक राम के दर्शन पाकर उनको अपने पूर्व-जन्म की कथा सुनाता है कि उस जन्म में मैं वसिष्ठ का पुत्र वामदेव था। जिस दिन दशरथ ने अध-मुनि-पुत्र सिन्धु का वध किया था और अपने उग पाप के प्रायश्चित्त का उपाय पूछने के लिये वह वसिष्ठ में मिलने आये थे उस समय मेरे पिता वसिष्ठ घर पर नहीं थे, मैंने ही दशरथ को तीन बार राम-नाम का जप करने का परामर्श दिया। बाद में मैंने अपने पिता को सारा प्रसंग कह सुनाया, उनपर वसिष्ठ ने क्रुद्ध होकर मुझे चाण्डाल बन जाने का शाप दिया—“एक रामनाम कोटि ब्रह्महत्या हरे। तिन बार रामनाम बलालि राजारे” ॥ अन्त में वसिष्ठ ने मुझमें कहा कि दशरथ के घर में राम का जन्म होगा, उनके चरणस्पर्श से तुम शाप में मुक्त होगे। मैं वही वसिष्ठ-पुत्र वामदेव हूँ और पिता के शाप के कारण ही गृहक के रूप में उपस्थित हूँ। गृहक ने यह कथा सुनकर राम दशरथ की अनुमति से गृहक के बधन अपने हाथ से काटने है तथा लक्ष्मण की जलाई हुई अग्नि को साक्षी बना कर गृहक से मित्रता करते हैं (दे० १, ५३)।

माधवदेवकृत असमीया बालकाण्ड (अध्याय २७) में इस वृत्तान्त का एक अन्य रूप मिलता है। दशरथ किसी दिन अपने चार पुत्रों के साथ गंगा की तीर्थ-यात्रा करने गये थे। जहाँ राजकुमार स्नान करते थे वहाँ एक गृह नामक चंडाल ने भी स्नान करने का हु.साहस किया था। राजा के अनुचरों ने उसे पकड़ कर राजा के सम्मुख उपस्थित किया। राम भी वहाँ थे और राम को देखकर गृह को अपना पूर्व-जन्म याद आया। उसने कहा—“मैं ब्राह्मण था, किंतु गंगा की उपेक्षा करने के कारण गंगा ने मुझे इस प्रकार शाप दिया कि अभी चाण्डाल बन जाओ, किन्तु बाद में राम को देखकर मुक्त हो जाओगे।

३८५. योगवासिष्ठ रामायण (वैराग्य प्रकरण, सर्ग ३), आनन्द रामायण (१, २, २९) तथा भावार्थ रामायण (१, ७) में विश्वामित्र के आगमन के पूर्व राम की तीर्थयात्राओं का उल्लेख किया गया है। सत्योपाख्यान (पूर्वाह्न, अध्याय १८) में इसका वर्णन विवाह के पश्चात् ही रखा गया है; अन्य रचनाओं में रावण-वध के बाद राम की तीर्थयात्राओं का वर्णन मिलता है (दे० अनु० ६३६)। सेरी राम के अनुसार राम तथा लक्ष्मण विवाह के पूर्व तीन महीने तक नीलपुर्व नामक मूनि के यहाँ रहकर तपस्या करते हैं तथा उनमें जादू सीख लेते हैं। नीलपुर्व उनको एक धनुष तथा नागस्कन्द पतील देव नामक तपस्वी उनको तीन बाण प्रदान करते हैं।

३८६. योगवासिष्ठ रामायण में राम के १६ वर्ष की अवस्था में विरक्त हो जाने तथा वसिष्ठ के उपदेश के प्रभाव से फिर अपने कर्त्तव्य-पालन के लिये तपस्य करने का वर्णन किया गया है (दे० वैराग्य प्रकरण, सर्ग ५)। उदारराघव (सर्ग २) तथा भावार्थ रामायण (१, ८) में भी राम के इस वैराग्य का उल्लेख मिलता है। रामचन्द्रिका में रावण-वध के बाद अयोध्या में पहुँचकर राम के विरक्त हो जाने की चर्चा है (दे० प्रकरण २४)।

३८७. रामलिंगामृत के द्वितीय सर्ग में राम की बाललीला के अनन्तर उनकी वन-क्रांदा का भी उल्लेख किया गया है। कृष्ण-कथा का यह अनुकरण बृहत्कोशल खण्ड में और आगे बढ़ा दिया गया है तथा विवाह के पूर्व राम की रासलीला का विस्तृत वर्णन किया गया है (दे० अध्याय १-५)।

३८८. वाल्मीकि रामायण में विष्वामित्र सदाहु तथा मारीच से अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राम की सहायता माँगने आते हैं (दे० १, १९)। सत्योपाख्यान के अनुसार विश्वामित्र ने शिव के आदेश के अनुसार ही ऐसा किया था (दे० उत्तरार्द्ध अध्याय ४)। कृत्तिवास में विश्वामित्र के आगमन का कारण यह माना गया है कि राक्षसों के उत्पात से मिथिला-प्रदेश को यज्ञ-हीन देखकर जनक ने विश्वामित्र से निवेदन किया कि वह राम को ले आये (दे० १, ५४)। रामकेर्ति विश्वामित्र-यज्ञ के प्रसंग से ही प्रारंभ होता है। एक असुर महाकाय काक का रूप धारण कर विश्वामित्र के यज्ञ में विघ्न करता है। इस 'काकनासुर' का वध कराने के लिये विश्वामित्र अयोध्या जाकर राम तथा लक्ष्मण को अपने यहाँ ले आते हैं। रामकिषेन (अध्याय ११) में भी राम द्वारा काकनासुर के वध का वर्णन मिलता है, किंतु इस रचना में स्वाहु (सुबाहु) और मारिश (मारीच) दोनों काकनासुर के पुत्र माने जाते हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि इस अवसर पर दशरथ द्वारा विश्वामित्र को धोखा देने के प्रयत्न की कथा पूर्व भारत में उत्पन्न हुई है तथा वहाँ से हिन्देशिया तक फैल गई है।

यह वृत्तान्त कृत्तिवास रामायण, सारलादास महाभारत, बिहीर नामक आदिवासी जातियों की राम-कथा तथा सेरी राम में मिलता है। कृत्तिवास रामायण (१, ५६) के अनुसार दशरथ ने राम तथा लक्ष्मण के स्थान पर भरत तथा शत्रुघ्न को विश्वामित्र के साथ भेज दिया। सरयूतट पर पहुँचकर विश्वामित्र ने राजकुमारों से कहा—यहाँ से दो पथ हैं पहले पथ से जाने में हमें तीन दिन लगेंगे, दूसरे पथ से हम तीसरे पहर पहुँच जायेंगे किन्तु इस पथ पर ताड़का राक्षसी का भय रहता है। भरत ने उत्तर दिया—“दूसरे पथ से हमें क्या प्रयोजन है।” यह सुनकर विश्वामित्र समझ लेते हैं कि दशरथ ने उनको धोखा दिया है और वह अयोध्या लौटकर राम की माँग लेते हैं। एक आदिवासी कथा (दे० अनु० २७२) में विश्वामित्र का प्रस्ताव इस प्रकार है—पहला मार्ग सुगम है और सुन्दर नगर की ओर ले जाता है, दूसरा मार्ग भयकर वन की ओर ले जाता है जहाँ व्याघ्र, ऋक्ष आदि हिंसक पशु रहते हैं।

सेरी राम में महारीसी कली (सीता के पोष्य पिता) स्वयं आकर दशरथ से निवेदन करने है कि उनके पुत्र सीता के स्वयंवर में भाग लें। दशरथ भरत तथा शत्रुघ्न को उनके साथ भेज देते हैं। कली उनको चार मार्गों में से चुनने देते हैं, जिनमें क्रमशः १७, २०, २५ और ४० दिन लगेंगे। अन्तिम मार्ग निरापद है अन्य मार्गों में क्रमशः राक्षसी गंडे और नागिन का भय रहता है। भरत और शत्रुघ्न लम्बा मार्ग चुन कर अयोध्या ठहरते हैं, कली लौटकर दूसरी बार राम और लक्ष्मण को साथ ले जाते हैं राम १७ दिन का मार्ग चुनकर जगीन नामक राक्षसी का वध करते हैं।

३८९ वाल्मीकि रामायण में विश्वामित्र के साथ राम तथा लक्ष्मण के प्रस्थान से लेकर मिथिला में पहुँचने तक का वृत्तान्त ३४ सर्गों में वर्णित है। इसकी अधिकांश सामग्री पौराणिक कथाय है जिनका प्रायः उस प्रदेश में कोई सम्बन्ध है जिसे विश्वामित्र पार कर रहे हैं। यात्रा के पूर्वार्द्ध में विश्वामित्र कामदहन (सर्ग २३), ताड़का (सर्ग २४) तथा वामनावतार (सर्ग २९) की कथाएँ और मिथिला के राक्षसों में विश्वामित्र-वध गंगा का स्वर्गारोहण, शिव-उमा-विवाह, गंगावतरण, समुद्र-मथन तथा अहल्या की कथा सुनाते हैं (सर्ग ३२-४८)। मिथिला में शतानन्द विश्वामित्र के ब्राह्मण बनने का वृत्तान्त सुनाते हैं (दे० सर्ग ५१-६५)। इन कथाओं में से केवल अहल्या की कथा का राम-कथा के साथ सीधा सम्बन्ध है, इसका विकास ऊपर निरूपित किया जा चुका है (दे० अनु० ३४४-३४८)।

वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्वामित्र ने सरयू-तट पर पहुँचकर राम को बला तथा अतिबला नामक मंत्र प्रदान किए जिनको जपकर राम ज्ञान प्राप्त करेंगे तथा

मूत्र-प्यास आदि पर विजयी होंगे (सर्ग २२)। बाद में विश्वामित्र द्वारा राम को विभिन्न अस्त्र दिए जाने का वर्णन किया गया है (सर्ग २७-२८)। कुछ परवर्ती रचनाओं में बला-अतिबला के स्थान पर जया-विजया का उल्लेख है (दे० भट्टिकाव्य २, २१)। असमीया बालकाण्ड (अध्याय २७) के अनुसार दशरथ ने किसी अवसर पर अपने चार पुत्रों के साथ भरद्वाज-आश्रम की यात्रा की थी। वही राम ने स्वप्न में देखा कि इंद्र मंत्र अभिषेक करके मंत्र सिखलाते हैं और धनुष-बाण भी प्रदान करते हैं। जागने पर राम ने अपने हाथों में धनुष देखा और मन में मंत्र का उच्चारण किया।

सिद्धाश्रम में पहुँचने के पूर्व ही राम ताटका का वध करते हैं (सर्ग २६), आश्रम में यज्ञ-रक्षा करते समय वह सुबाहु और अन्य राक्षसों को मार डालते हैं तथा मारीच पर मानवास्त्र चला कर उसको गतयोजन की दूरी पर समुद्र में फेंकते हैं। परवर्ती रचनाओं में राम के इन प्रारम्भिक कृत्यों में अधिक परिवर्तन नहीं किया गया है। प्रधान विकास यह है कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम के बाणों से विद्ध ताटका भूमि पर गिरकर मर जाती है किन्तु अध्यात्म रामायण (१, ४), पद्म पुराण (उत्तरखण्ड अध्याय २६९, १२१), रामचरित-मानस आदि में ताटका के दिव्य रूप धारण कर स्वर्गलोक के लिये प्रस्थान करने का वर्णन मिलता है। कृत्तिवास के अनुसार राम द्वारा मारे हुये राक्षसों की संख्या तीन करोड़ है। सेरी राम में राम के जग्गीन (ताटका) के अतिरिक्त महाकाय गंडे तथा सूरनागिन का वध करने का वर्णन है। ऊपर इसका उल्लेख हो चुका है कि रामकेर्त्ति में ताटका, सुबाहु आदि के स्थान पर काकनासुर के वध का वर्णन किया गया है (दे० अनु० ३८८)।

## ५—राम-सीता-विवाह

### क। धनुर्भंग

३९० प्रचलित वाल्मीकि रामायण में राम द्वारा धनुर्भंग के पश्चात् चारों भाइयों के विवाह का वर्णन किया गया है। महाभारत के रामोपाख्यान में, जो रामायण के किसी प्राचीन रूप पर निर्भर है, न तो धनुर्भंग और न राम को छोड़कर अन्य भाइयों के विवाह का निर्देश किया गया है (दे० ३, २६१)। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारम्भ में केवल राम-सीता-विवाह का उल्लेख मिलता था। धनुर्भंग तथा अन्य भाइयों का वृत्तान्त बाद में जोड़ दिया गया होगा। इस अनुमान की पुष्टि इस बात से होती

है कि बाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड में लक्ष्मण को स्पष्ट शब्दों में विवाहित कहा गया है ।<sup>१</sup>

बाल्मीकि के कथानक का विकास दिखलाने के पूर्व उन रचनाओं का उल्लेख करना है जिनमें महाभारत की भाँति धनुर्भंग का प्रसंग नहीं मिलता । गुणभद्रकृत उत्तरपुराण में विद्वामित्र के स्थान पर जनक ही दशरथ से राम तथा लक्ष्मण को अपने यज्ञ की रक्षा के लिये माँगते हैं तथा राम को पुरस्कारस्वरूप अपनी दत्तक पुत्री सीता प्रदान करते हैं । तिब्बती रामायण के अनुसार सीता कृपकों द्वारा पाली जाती है; इन्हीं कृपकों के अनुरोध से वनवासी राम अपनी तपस्या छोड़कर सीता के साथ विवाह करते हैं । खोतानी रामायण में वनवास के समय राम तथा लक्ष्मण दोनों ही के सीता से विवाह का उल्लेख किया गया है । दशरथ जातक में राम वनयास के पश्चात् अपनी सहोदरी बहन के साथ विवाह करते हैं । दोनों अन्य बौद्ध कथाओं में राम के विवाह का उल्लेख नहीं किया गया है (दे० अनामक जातकम् तथा दशरथ कथानम्) ।

३९१. बाल्मीकि रामायण के अनुसार विद्वामित्र जनक के यज्ञ के अवसर पर राम-लक्ष्मण को मिथिला ले जाते हैं (सर्ग ३१) और वहाँ पहुँचकर जनक से शिव-धनुष दिखलाने की प्रार्थना करते हैं । इसपर जनक कहते हैं कि शिव ने मेरे पूर्वज देवराज को यह धनुष दे दिया था । सीता के भूमि से प्रकट होने के पश्चात् जनक ने प्रण किया था कि जो शिव-धनुष चढा सके, उसी को सीता पत्नीस्वरूप दी जायेगी । बहुत से राजाओं ने प्रयत्न किया तथा असफल होने पर उन्होंने मिथिला का अवरोध किया । जनक ने देवताओं की भेजी हुई सेना से उनको पराजित किया (सर्ग ६६) । अनन्तर राम धनुष चढाकर उसे तोड़ते हैं जिसपर दशरथ को बुलाया जाता है तथा राम के अतिरिक्त लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न भी क्रमशः ऊमिला, माडवी तथा श्रुतकीर्त्ति से विवाह करते हैं (सर्ग ६७-७३) ।

राम-विवाह के इस वृत्तान्त में धनुर्भंग को एक महत्वपूर्ण स्थान मिला है । उपर्युक्त रचनाओं को छोड़कर सब राम-कथाओं में धनुर्भंग का वर्णन प्रायः बाल्मीकि के

१. दे० ३, १८, ३ । अयोध्याकाण्ड के एक प्रक्षिप्त अंश में लक्ष्मण-ऊमिला की चर्चा है ; दे० आगे अनु० ४३१ (७) । सुन्दरकाण्ड में इसका उल्लेख किया गया है कि राम का साथ देने के लिए लक्ष्मण ने अपूर्व सुख-सम्पदा तथा वरागताओं का परित्याग किया था—प्रिया यास्य वरागताः (दे० ५, ३८, ५४) । भरत राम के पूर्व ही विवाह कर चुके थे, इसका निर्देश बालकाण्ड में मिलता है (दे० १, ७३, ४) । अयोध्याकाण्ड में एक स्थल पर भरत के विवाहित होने का उल्लेख किया गया है (दे० २, ५३, ११) ।



अनुसार किया गया है। महावीरचरित के अनुसार विश्वामित्र के आश्रम में ही राम-लक्ष्मण सीता-ऊर्मिला को देखकर उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। उसी आश्रम में रावण एक वृत्त द्वारा सीता को माँगता है तथा राम द्वारा धनुर्भंग भी किया जाता है (दे० अंक १)। जनार्दनचरित में भी रावणदूत शौष्कल मिथिला में आकर रावण की ओर से सीता को माँगता है तथा धनुष-परीक्षा को रावण के अयोग्य बताता है। राम के धनुर्भंग के पश्चात् चारों भाइयों के विवाह का निश्चय हो जाने पर शौष्कल रावण के पास लौटता है (अंक ३)। सत्योपाख्यान में वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता-स्वयंवर का वर्णन किया गया है, जिसमें बहुत से राजा धनुष-परीक्षा में असफल होते हैं। लेकिन इसमें प्रहस्त के आगमन का भी उल्लेख किया गया है, जो कहता है कि शिव के प्रति श्रद्धा रखने के कारण रावण धनुष-परीक्षा में सम्मिलित होना अस्वीकार करता है। उस स्वयंवर के पश्चात् ही वाल्मीकि के अनुसार राम द्वारा धनुर्भंग का वर्णन मिलता है (दे० उत्तरार्द्ध, सर्ग ३)। देवीभागवत पुराण में रावण सीता से कहता है कि मैंने तुमको जनक से माँगा तक, किन्तु उन्होंने धनुष-परीक्षा में सफलता ही विवाह की शर्त रखी थी। शिवचाप के भय से मैं तुम्हारे स्वयंवर में सम्मिलित नहीं हुआ (शिवचापभयान्नाहं सम्प्राप्तस्तु स्वयंवरे; दे० स्कन्ध ३, अध्याय २८)।

उपर्युक्त वृत्तान्तों तथा रघुवंश आदि अधिकांश प्राचीन राम-कथाओं में वाल्मीकि के अनुसार धनुर्भंग के अवसर पर अन्य राजाओं की उपस्थिति का उल्लेख नहीं किया गया है तथा प्रायः चारों भाइयों के विवाह का निर्देश मिलता है।

३९२. वाल्मीकि रामायण के बालकाण्ड के अनुसार देवताओं ने देवरात को शिव का धनुष दे दिया था (दे० १, ३१ तथा १, ६६), किन्तु परशुराम के तेजोभंग के प्रसंग में कहा गया है कि शिव ने स्वयं ही देवरात को अपना धनुष दिया था (दे० ऊपर अनु० ३५०)। अयोध्याकाण्ड में सीता अनुसूया से कहती है कि देवरात से प्रसन्न होकर बहण ने उसे एक धनुष प्रदान किया था (दे० २, ११८, ३९)। षट्षट्-काण्ड, बालरामायण (४, ५४), अष्टवाल्मीक रामायण (१, ६, ७०), आनन्द रामायण (१, ३, ५६), पद्मपुराण के बंगीय उत्तरखण्ड<sup>१</sup> तथा रामकियेन (अध्याय १२) आदि में ऐसा उल्लेख भी मिलता है कि शिव ने उस धनुष से त्रिपुर को नष्ट किया था।

सत्योपाख्यान (उत्तरार्द्ध, अध्याय २) तथा बृहत्कोशलखण्ड (अध्याय ६) में शिव जनक को स्वप्न में दर्शन देकर कहते हैं कि धनुर्भंग करने वाला ही सीता के साथ विवाह करे।

१. ज० ए० सो० व० १८४२, पृ० ११२१।

अनेक राम-कथाओं के अनुसार जनक ने ही उस धनुष को प्राप्त किया था। **बभ्रुपुराण** के पाताल खण्ड के अनुसार जनक को चिन्ता होती है कि राम के साथ सीता का विवाह किस प्रकार निश्चित हो। वह शिव-पार्वती से प्रार्थना करते हैं और शिव उसे अजगव<sup>१</sup> नामक धनुष प्रदान करते हैं, जिसे तोड़ने में राम ही समर्थ होंगे (दे० अध्याय ११२)। **कृत्तिवास** में भी जनक ही यह धनुष शिव से प्राप्त करते हैं। **ब्रह्मा** ने शिव से निवेदन किया था कि वह ऐसी युक्ति निकाल लें जिससे राम को छोड़कर किसी अन्य वर के साथ सीता का विवाह न हो। इसपर शिव ने परशुराम को अपना धनुष देकर आदेश दिया—मेरा यह धनुष लेकर जनक के घर में रख देना तथा जनक से कहना कि वही सीता के साथ विवाह करे जो इस धनुष को तोड़ सके (दे० १ ५१)। **कादमीरी रामायण** के अनुसार शिव ने जनक को इस शर्त पर एक धनुष दिया था कि जो उसे चढ़ा सके, वही सीता के साथ विवाह करे (दे० बालकाण्ड न० ५)। **सेरी राम** के अनुसार देवताओं ने यह धनुष किसी महर्षि की हड्डियों से बनाया था, शिव ने उसे ब्रह्मा को दिया और ब्रह्मा ने उसे सीता के पोष्य पिता को समर्पित किया था। जावा के **सेरत काण्ड** में भी सीता के पोष्य पिता के एक आकाश से गिरा हुआ धनुष प्राप्त करने का उल्लेख किया गया है। **रामकेतु** के अनुसार जनक ने सीता का अपूर्व सौंदर्य देखकर मंत्रों द्वारा एक दिव्य धनुष की सृष्टि की थी तथा यह प्रण किया था कि जो यह धनुष उठाने में समर्थ हो उसी को मैं सीता को प्रदान करूँगा (सर्ग १)।

**आनन्द रामायण** (१, ३, ५७) तथा **भावाथ रामायण** (१, १७) में कहा गया है कि जो शिव-धनुष जनक के पास है उससे परशुराम ने क्षत्रियों का २१ बार नाश किया था। **जैन पञ्चमखरिय** के अनुसार विद्याधर चंद्रगति वज्रावर्त नामक धनुष मिथिला पहुँचा देते हैं और इससे राम के बल की परीक्षा होती है (दे० सर्ग २८)। एक अन्य वृत्तान्त के अनुसार सीता धनुष के साथ-साथ यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुई थी (दे० आगे अनु० ४२४)।

**आनन्द रामायण** (१, ३, ५८), **भावाथ रामायण** (१, १७), **बिहोर राम-कथा**, **पाश्चात्य वृत्तान्त** न० १३ आदि बहुत-सी अर्वाचीन राम-कथाओं के अनुसार सीता

१. शंकरदेव कृत असमीया **रामविजय** के अनुसार एक आकाशवाणी ने यह घोषित किया था कि शिव के अजगव नामक धनुष पर शर-संधान करने वाला ही सीता का पति बन सकता है।
२. दे० कविताकौमुदी ५वाँ भाग, पृ० १४९। राम इकबाल सिंह राकेश कृत मैथिली लोकगीत पृ० १२३। डब्लू वार्ड, ए० व्यू ऑव दि हिस्ट्री, लिटरेचर एंड मिथोलोजी ऑव दि हिन्दूस, भाग ३, पृ० १८०। शिवनन्दन

के शिव-धनुष को उठा लेने के पश्चात् ही जनक ने प्रण किया था कि जो उस धनुष को तोड़ेगा उसी से सीता का विवाह होगा। आनन्द रामायण (१, ३, ६०) में कहा गया है कि सीता के उस कार्य से जनक ने सीता के लक्ष्मी-अवतार होने का रहस्य जान लिया। भावार्थ रामायण (१, १७) के अनुसार परशुराम ने जनक के महल में सीता को धनुष के साथ खेलते हुए देखा तथा जनक को यह सुभाव दिया कि जो यह धनुष भंग करने में समर्थ हो वही सीता का पति बन जाय।

### ख। सीता-स्वयंवर

३९३. बाल्मीकि रामायण में सीता के स्वयंवर का उल्लेख किया गया है; उस अवसर पर बहुत से राजा शिव-धनुष को चढ़ाने में असमर्थ ही रहे और उन्होंने बाद में मिथिला पर आक्रमण किया। उस घटना के बहुत काल बाद (सुदीर्घस्य तु कालस्य) राम ने धनुष तोड़ दिया और सीता से विवाह किया (दे० बालकांड, सर्ग ६६ तथा अयोध्याकांड, सर्ग ११८)।

बाद की राम-कथाओं में सीता-स्वयंवर तथा राजाओं के आक्रमण दोनों घटनाओं का राम से सम्बन्ध स्थापित किया गया है। सीता-स्वयंवर में रावणदुत अथवा रावण ही के आगमन का भी प्रायः उल्लेख मिलता है।

३९४. पञ्चमखण्ड प्राचीनतम रचना है, जिसमें राम सीता-स्वयंवर में धनुष चढ़ाते हैं। कथा इस प्रकार है—राम ने म्लेच्छों के विरुद्ध जनक की सहायता की थी और जनक ने उन्हें सीता को देने की प्रतिज्ञा की थी। यह सुनकर कि सीता तथा राम का विवाह निश्चित हुआ है नारद को सीता के दर्शन करने की अभिलाषा हुई। मिथिला जाकर नारद ने सीता के भवन में प्रवेश किया। उन्हें अचानक आते देखकर सीता भयभीत हुई; वह भागकर छिप गई तथा नारद को महल से निकाला गया।

सहायकृत “श्री गोस्वामी तुलसीदास जी” में सीता के धनुष उठाने की निम्नलिखित प्रचलित कथाओं का उल्लेख किया गया है (पृ० ४०६)—

- क. सीता ने सखियों के सग खेलते समय उठा लिया।
  - ख. खेलते समय उनकी ओढ़नी में लगकर हट गया।
  - ग. यह समझकर कि धनुष की पूजा के लिये पिता जी को दूर जाते कष्ट होता है सीताजी उसे घर उठा लाई।
  - घ. माता के सावकाश नहीं रहने से धनुष के स्थान को पूजा के निमित्त एक दिन लीपने गई और उसे हटा कर उन्होंने चौकोर चौका लगा दिया।
१. स्वयंभूदेव के पञ्चमखण्ड के अनुसार सीता ने दर्पण में नारद का प्रतिबिम्ब देखा था तथा मूर्च्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी; उनकी सहेलियाँ चिल्लाने लगीं तथा नारद को बाहर निकाल दिया गया (संधि २१)।

प्रतिकार करने के उद्देश्य से नारद ने भामण्डल के उद्यान में सीता का चित्र बना दिया, जिसे देखकर भामण्डल सीता पर आसक्त हुआ। बाद में नारद भामण्डल से मिलकर बताते हैं कि यह चित्र किसका है। भामण्डल की विरहावस्था देखकर उसके पालक पिता चंद्रगति ने एक विद्याधर को यह आदेश देकर मिथिला भेज दिया कि जनक को किसी-न-किसी तरह यहाँ ले आओ। वह विद्याधर मायावी घोड़े का रूप धारण कर जनक को ले आया तथा चन्द्रगति ने जनक के सामने भामण्डल तथा सीता के विवाह का प्रस्ताव रख दिया। जनक ने उत्तर दिया कि मैं राम से प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। चन्द्रगति के अनुरोध करने पर जनक राम-सीता-विवाह की यह शर्त स्वीकार करते हैं कि राम को पहले ब्रह्मावर्त धनुष चढ़ाना होगा। इसपर चन्द्रगति ने जनक तथा धनुष, दोनों को मिथिला पहुँचा दिया। स्वयंवर का आयोजन हुआ तथा सभी राजाओं को बुलाया गया। राम भी लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न के साथ मिथिला आए; और उन्होंने स्वयंवर में धनुष चढ़ा दिया। बाद में लक्ष्मण ने भी ऐसा ही किया; उनका पराक्रम देखकर विद्याधर राजाओं ने लक्ष्मण को १८ कन्याओं को प्रदान किया (दे० पर्व २८)।

३९५. परवर्ती रचनाओं में राम प्रायः अन्य राजाओं की उपस्थिति में अर्थात् सीता-स्वयंवर के अवसर पर धनुष चढ़ाते हैं। उदाहरणार्थ—नृसिंह पुराण (अध्याय ४७); भागवत पुराण (९, १०); अध्यात्म रामायण (१, ६, २४), कब रामायण (१, १२); द्विपद रामायण (१, २८), मैथिली-कल्याण (अंक ५); सूरसागर (९, ४६७), रामकेर्ति (संग १)। अध्यात्म रामायण के अनुसार नारद जनक के पास पहुँचकर राम तथा सीता के अवतार का रहस्य प्रकट करते हैं तथा दोनों के विवाह का आयोजन करने को कहते हैं (दे० १, ६, ६५); इसपर जनक सीता-स्वयंवर की घोषणा करते हैं। पद्मपुराण (पाताल खण्ड) में नारद के अनुरोध पर सीता-स्वयंवर का आयोजन किए जाने का वर्णन मिलता है। अपने पुत्रों का विवाह करने के उद्देश्य से दशरथ ने नाना देशों में दूतों को भेज दिया। इनमें से एक क्षीघ्र लौट कर यह समाचार ले आया कि विदर्भ (!) देश के राजा विदेह की पुत्री वैदेही राम के संबंधा योग्य है। इसपर वसिष्ठ को भेजा जाता है जो लग्न निश्चित करके अयोध्या लौटते हैं। अनन्तर दशरथ विवाह-मंगल गाती हुई युवतियों आदि के

१. रविषेण के पद्मचरित में दो चापों की धर्चा है; राम ब्रह्मावर्त को चढ़ाते हैं तथा लक्ष्मण सागरावर्त को (दे० पर्व २८)। रामकियेन में लिखा है कि लक्ष्मण ने सीता के प्रति राम का प्रेम जानकर धनुष चढ़ाना अस्वीकार किया (अध्याय १२)।

साथ भिखिला के लिये प्रस्थान करते हैं; जनक उनका स्वागत करते हैं तथा उनको विदेह नगर के पश्चिम के एक महल में ठहराते हैं। अब नारद आ पहुँचते हैं और वे अगले दिन होने वाले विवाह के लिये जनक द्वारा आमंत्रित किए जाते हैं; नारद उत्तर देते हैं कि यह विवाह के लिए उपयुक्त मुहूर्त नहीं है। नारद, गार्ग्य आदि के साथ परामर्श करने के बाद जनक दशरथ की अनुमति से सीता-स्वयंवर के लिए अन्य राजाओं को भी बुला भेजते हैं। उसी रात को जनक शिव से अजगव नामक धनुष प्राप्त कर लेते हैं जिसे राम को छोड़कर कोई भी राजा चढ़ाने में असमर्थ होगा (दे० अध्याय ११२, ४९-९०)।

३९६. ऊपर इसका उल्लेख किया गया है कि महावीरचरित, अनघंराघवं तथा सत्योपाख्यान में एक रावणदूत की चर्चा है, जो सीता को माँगने आता है (दे० अनु० ३९१)। निम्नलिखित रचनाओं में सीता-स्वयंवर में ह्रीं रावणदूत<sup>१</sup> के आगमन तथा उसी अवसर पर राम द्वारा धनुर्भंग का वर्णन मिलता है—महानाटक (१, २१-२२); देवीभागवत पुराण (३, २८); राम-रहस्य (४, ५८)।

३९७. अधिकांश अर्वाचीन रचनाओं में राम तथा रावण दोनों सीता-स्वयंवर में विद्यमान हैं। प्राचीनतम रचना जिसमें उस अवसर पर रावण की उपस्थिति का उल्लेख है राजशेखर कृत बालरामायण है; इस नाटक के अनुसार रावण ने धनुष-परीक्षा को अस्वीकार किया था।

प्रसन्नराघव में रावण तथा वाणासुर दोनों आकर धनुष चढ़ाने का असफल प्रयत्न करते हैं, इसपर रावण सीता का हरण करने का संकल्प प्रकट करके चला जाता है। पद्मपुराण का पातालखण्ड (अध्याय ११२), बलरामबास रामायण, रामचरित-मानस, कवितावली, आनकीमंगल, रामचन्द्रिका आदि रचनाएँ भी सीता-स्वयंवर में रावण तथा वाणासुर के आगमन का उल्लेख करती हैं।

निम्नलिखित राम-कथाओं में सीता-स्वयंवर के अवसर पर राम तथा रावण की उपस्थिति का निर्देश मिलता है—आनन्द रामायण (१, ३, ३०); भावार्थ रामायण (१, १८); रामलिंगामृत (सर्ग ३); धर्मखण्ड (अध्याय २८); तोरवे रामायण (१, १५); गुजराती रणयज्ञ, हिकायत सेरी राम, पातानी रामा-कथा, जावा का सेरत काण्ड, ब्रह्मचक्र, रामजातक, पाश्चात्य वृत्तान्त नं० ३, ४, ७, ८, १३। आनंद रामायण (१, ३, ७७-८५) के अनुसार रावण ने धनुष उठाने का प्रयत्न किया, किंतु धनुष उलट गया और रावण उसके नीचे दबकर छटपटाने लगा। जब कोई भी

१. इसका नाम प्रायः शौष्कल माना जाता है।

धनुष नहीं उठा सका तब विश्वामित्र ने राम को रावण के प्राण बचाने का आदेश दिया । तोरवे रामायण का वृत्तान्त इससे मिलता-जुलता है ।

बलरामदास रामायण के अनुसार रावण पुष्पक में बैठा हुआ राम द्वारा धनुर्नग देखकर डरता है और लंका वापस जाता है । बलरामदास तथा कृतिवास के अनुसार रावण ने राम के आगमन के पूर्व ही धनुष चढ़ाने का प्रयास किया था (दे० १, ५२) । सेरी राम में इसका उल्लेख मिलता है कि इन्द्रजित् भी विद्यमान है, किन्तु वह इसीलिये धनुष के पास नहीं जाता कि वह "पुत्री-कोमाल-देवी" नामक अपनी प्राणप्यारी सहधर्मिणी को एक सपत्नी देने के लिए तैयार नहीं है ।

३९८. अर्वाचीन रामकथाओं में बहुधा स्वयंवर के वर्णन में देवताओं की उपस्थिति का भी उल्लेख हुआ है । पद्मपुराण के पाताल-खण्ड (अध्याय ११२, ९९-१०३) के अनुसार महेंद्र, सूर्य और वायु ने धनुष चढ़ाने का निष्फल प्रयास किया था । बलरामदास रामायण में इन्द्र मात्र के असफल प्रयास का वर्णन किया गया है । रामकैति में भी ब्रह्मा, इन्द्र, शिव, वायु, अग्नि आदि ३३ देवताओं की चर्चा है जो एक-एक करके धनुष-परीक्षा में अनुत्तीर्ण होकर चले जाते हैं ।

कुछ रचनाओं में अन्य राजाओं की असफलता के पश्चात् शिव राम को धनुष तोड़ने का आदेश देते हैं—उदाहरणार्थ धर्मखण्ड (अध्याय २८), और तत्त्वसंग्रह रामायण (१, २९) ।

कम्ब रामायण (१, २१), रामलिंगामृत (सर्ग ३) और रामगीतगोविन्द में भी स्वयंवर के अवसर पर देवताओं की उपस्थिति का उल्लेख है । रामचरितमानस में तुलसीदास देवताओं के मनुष्य का रूप धारण करने की चर्चा करते हैं तथा अन्य देवताओं के आकाश में स्थित स्वयंवर देखने का उल्लेख करते हैं :

देखहि सुर नभ चढ़े विमाना (१, २४६)

देव बनज धरि मनुज सरीरा (१, २५१)

३९९. मुषीव द्वारा राम की परीक्षा का वृत्तान्त हिन्देशिया की राम-कथाओं में सीता-स्वयंवर ही के अवसर पर रखा गया है । सेरत कांड के अनुसार सीता के पौष्य पिता रेसिकल ने एक आकाश से गिरा हुआ धनुष प्राप्त किया और संकल्प किया कि जो उस धनुष के चलाये हुये बाण से सात ताल वृक्ष विद्ध कर सकता है, उसी को सीता पत्नीस्वरूप दी जायेगी । रावण केवल छः वृक्षों का छेदन कर सकता है । लक्ष्मण की सहायता से राम सफलता प्राप्त करते हैं; ये सात ताल एक साँप की पीठ

पर चकाकार खड़े हैं और लक्ष्मण ने उस साँप को दबाकर उसे सीधा किया था । पाताली पाठ की कथा इस वृत्तान्त से मिलती-जुलती है ।<sup>१</sup>

सेरी राम तथा हिकावत्त महाराज रावण में ७ वृक्षों के स्थान पर चालीस का उल्लेख किया गया है, जिनमें रावण केवल ३८ छेदने में समर्थ है । सेरी राम में महरीसी कली राम की एक अन्य परीक्षा भी लेते हैं । सीता को मूर्तिवत् खड़ी रहने का आदेश देकर महरीसी कली उनको एक मन्दिर में छिपाते हैं जहाँ एक सहस्र मूर्तियाँ हैं । राम सीता की खोज करते हुये मन्दिर में पहुँचते हैं और मूर्तियों को गुदगुदाकर सीता का पता लगाते हैं । एक अन्य पाठ के अनुसार राम मूर्तियों की आँखों पर पुष्प मारकर सीता को खोज निकालते हैं । पाश्चात्य वृत्तान्त नं० ३ में धनुष चढ़ाने के अतिरिक्त लक्ष्य-भेदन की भी परीक्षा होती है, जिसमें रावण के निष्फल प्रयत्न के बाद राम सफलता प्राप्त कर लेते हैं ।

सेरी राम में सीता के पोष्य पिता विवाह के पूर्व राम से काकासुर का वध करने का निवेदन करते हैं । यह काकासुर यज्ञ में प्रयुक्त होने वाला दूध पीकर यज्ञों में विघ्न डाला करता है । राम का वाण काक का पीछा करता हुआ समुद्र पार कर एक टापू पर पहुँच जाता है; काक भयभीत होकर प्रतिज्ञा करता है कि आगे चलकर वह महारीसीकली को कष्ट नहीं देगा । राम का वाण काक का यह सन्देश लेकर मिथिला वापस आता है । इसके बाद विवाह का आयोजन होता है ।

### ग । विवाहोत्सव

४००. वाल्मीकीय बालकाण्ड में राम-सीता के अतिरिक्त अन्य तीन भाइयों के विवाह का भी वर्णन किया गया है । लक्ष्मण सीता की बहन ऊर्मिला से तथा भरत-शत्रुघ्न क्रमशः जनक के भाई कुशध्वज की पुत्रियों मांडवी-श्रुतकीर्ति से विवाह करते हैं (दे० सर्ग ७३) । प्रायः सभी राम-कथाओं में ऐसा ही वर्णन मिलता है, किन्तु इस सामान्य नियम के अपवादों का अभाव नहीं होता । गुणभद्र के उत्तरपुराण; तिब्बती रामायण, खोतानी रामायण तथा बौद्ध जातकों का उल्लेख हुआ है जिनमें सीता का विवाह ही वर्णित है (दे० ऊपर अनु० ३९०) । निम्नलिखित रचनाओं में भी केवल राम तथा सीता के परिणय का उल्लेख हुआ है—भट्टिकाव्य (२, ४३); रामायण ककविन; सेरी राम; रामकेर्ति; रामकियेन; रामलिंगामृत; दामोदर मिथ्य द्वारा सम्पादित महानाटक । कुछ अन्य राम-कथाओं में राम तथा लक्ष्मण मात्र के विवाह का उल्लेख है—उदाहरणार्थ वल्लिपुराण (पृ० १८३); पद्मपुराण का गौडीय उत्तर खण्ड । पञ्चमचरित्यं में राम के अतिरिक्त भरत के विवाह का वर्णन मिलता है ।

१. इस प्रसंग का मूल स्रोत भारतीय है; दे० आगे अनु० ५१६ ।

राम-सीता-विवाह के कारण भरत को उदास देखकर कैकेयी ने भरत-सुभद्रा के विवाह का प्रस्ताव किया; सुभद्रा जनक के भाई जनक की कन्या है। इसपर सुभद्रा के स्वयंवर का आयोजन होता है जिसमें वह भरत को चुन लेती है। अनन्तर राम तथा भरत दोनों का विवाहोत्सव मनाया जाता है (दे० पर्व २८)।

राम के विवाह के वर्णन में कवियों ने प्रायः अपने समाज की तत्कालीन लोक-रीतियों का निरूपण किया है; इसका विश्लेषण राम-कथा से सीधा सम्बन्ध नहीं रखता।

कुछ अर्वाचीन रचनाओं में विवाहोत्सव में देवताओं के आगमन का उल्लेख मिलता है। तत्त्वसग्रह रामायण शिव तथा ब्रह्मा की उपस्थिति का उल्लेख करता है (१, ३०)। रामचरितमानस के अनुसार देवता विमान पर चढ़कर राम का विवाह देखने आते हैं (१, ३१४, ३), ब्राह्मण का रूप धारण कर विवाहोत्सव में भाग लेते हैं (१, ३१९, छद) तथा होम के समय प्रकट होकर पूजा स्वीकार करते हैं (सुर प्रकट पूजा लेहि, दे० १, ३२३, छन्द)। इसके अतिरिक्त उनकी स्त्रियाँ भी छत्रवेद्य में परछन के अवसर पर राम की आरती उतारती हैं:

सच्ची सारवा रमा भवानी । जे सुरतिय सुचि सहज सयानी ॥

कपट नारि बर वेध बनाई । मिलीं सकल रनिवासहि जाई ॥३१८॥

कृतिवास रामायण में राम-सीता के विवाह के अवसर पर चन्द्रमा के नृत्य का भी वर्णन मिलता है। देवताओं को आशका थी कि यदि विवाह शुभ मुहूर्त्त पर सम्पादित हो सका तो राम-सीता का विधोग असंभव होगा। इसीलिये उन्होंने चन्द्रमा को विवाहोत्सव में भेज दिया। चन्द्रमा ने नर्तकी का रूप धारण कर अपने नृत्य से सबों को मंत्रमुग्ध किया था, जिससे किसी को मुहूर्त्त का ध्यान नहीं रहा। अतः शुभ मुहूर्त्त के बीत जाने के बाद ही विवाह सम्पन्न हुआ (दे० १, ६२)।

४०१. विवाह के समय राम तथा सीता की अवस्था का संभवतः आदि रामायण में निर्देश नहीं किया गया था। प्रचलित वाल्मीकि बालकाण्ड में दशरथ विश्वामित्र से कहते हैं कि राम की उम्र १६ वर्ष से कम है (ऊनचौडश वर्ष; १, २०, २); इसी काण्ड के अन्त में (दे० १, ७७, १४) तथा प्रक्षिप्त सीता-अनसूया-संवाद के अन्तर्गत विवाह के समय सीता की 'पतिसंयोगसुकुम्भ' अवस्था का उल्लेख किया गया है

१. रविषेण के पद्यचरित के अनुसार उसका नाम लोकसुन्दरी था (दे० २८, २५८)।



(दे० २, ११८, ३४) । बालकाण्ड के अन्त में कहा गया है कि विवाह तथा वनवास के बीच में बहुत समय बीत गया (बहूनुतून्; १, ७७, २५) । अरण्यकाण्ड के रावण-सीता-संवाद के एक प्रक्षिप्त अंश के अनुसार सीता विवाह के पश्चात् १२ वर्ष तक अयोध्या में रही थीं (दे० ३, ४७, ४) तथा निर्वासन के समय राम-सीता की अवस्था क्रमशः २५ और १८ की थी (दे० ३, ४७, १०-११) । इसका अर्थ यह है कि विवाह के समय राम और सीता की उम्र क्रमशः तेरह और छ वर्ष थी । अयोध्याकाण्ड के एक अन्य स्थल के अनुसार राम की अवस्था निर्वासन के समय १७ वर्ष की थी (दे० २, २०, ४५) । सुन्दरकाण्ड में सीता-हनुमान-संवाद के अन्तर्गत सीता के १२ वर्ष तक अयोध्या में निवास करने का उल्लेख हुआ है (दे० ५, ३३, १७) ।

परवर्ती रचनाओं में भी राम-सीता की अवस्था के विषय में मतभेद का अभाव है । अधिकांश रचनाओं में तथा विशेषकर काल-निर्णय रामायणों (अनु० १७९) में विवाह के समय राम-सीता की अवस्था क्रमशः १५ और ६ वर्ष मानी गई है, उदाहरणार्थ स्कंद पुराण (ब्राह्मखण्ड धर्मारण्यखण्ड, अध्याय ३०) तथा पद्मपुराण का पातालखण्ड (अध्याय ३३) ।

विवाह तथा वनवास के बीच १२ वर्ष बीत गए थे; इसका भी प्रायः उल्लेख किया गया है—दे० कालनिर्णय रामायण (अनु० १७९), अध्यात्म रामायण (१, १, ३७); आनन्द रामायण (१, ५, १३१); पद्मपुराण का उत्तरखण्ड (२६९, १८०) । आनन्द रामायण के अनुसार राम ने छ वर्ष की अवस्था के पूर्व ही विवाह किया था (दे० १, ४, २५) ।

४०२. नृसिंह पुराण (अध्याय ४७) से लेकर अनेक राम-वधाओं में सीता-स्यंकर के पश्चात् अन्य राजाओं के आक्रमण का वर्णन किया गया है । अपने भाइयों की सहायता से राम उन राजाओं को पराजित करते हैं । पद्मपुराण के पातालखण्ड (अध्याय ११२), तोरवे रामायण (१, १५), असमीया बालकाण्ड (अध्याय ४१), असमीया रामविजय तथा मलय के सेरी राम में इस युद्ध का उल्लेख किया गया है । आनन्द रामायण (१, ४) में इस युद्ध का वर्णन एक अन्य अवसर पर रखा गया है । जनक ने दशरथ को कुटुम्ब के साथ दीवाली के अवसर पर निमंत्रित किया था । उत्सव के पश्चात् अयोध्या के रास्ते में स्वयंवर में पराजित राजाओं ने आक्रमण किया तथा राम ने अपने भाइयों की सहायता से उनको हरा दिया था ।

### घ । पूर्वानुराग

४०३. आठवीं शताब्दी ई० से लेकर विवाह के पूर्व राम तथा सीता के पारस्परिक आकर्षण और प्रेम का उल्लेख मिलता है । महावीरचरित में विश्वामित्र सीता और

ऊर्मिला को अपने आश्रम में बुलाते हैं, जहाँ राम और लक्ष्मण उनको देखकर आकण्ठित हो जाते हैं (दे० अंक १)। **आनकीहरण** में धनुर्भंग के बाद, किन्तु विवाह के पूर्व, सीता के विरह का वर्णन किया गया है (दे० सर्ग ७)। परवर्ती रचनाओं में इस पूर्वानुराग के वर्णन में उत्तरोत्तर विकास हुआ है। राम-कथाओं का एक वर्ग है जिसमें स्वयंवर में ही राम को देखकर सीता के अनुरक्त हो जाने का वर्णन किया गया है। **महानाटक** के प्रथम अंक में कहा गया है कि धनुष की कठोरता तथा राम की कोमलता देखकर सीता ने अपने पिता की प्रतिज्ञा पर खेद प्रकट किया था और इसका भी उल्लेख है कि राम ने धनुर्भंग के पूर्व ही सीता की प्रेममय मुस्कराहट देखी थी (स्मरस्मरं, छंद १९)। **कल्कि पुराण** (३, ३, २९) के अनुसार राम सीता के कटाक्ष से प्रेरणा लेकर धनुष चढ़ाते हैं (**जनकजेक्षितैरर्चिर्चितः**)। **आनन्द रामायण** (१, ३, १११-१२०) में कहा गया है कि स्वयंवर के समय राम को सभा के आगम में देखकर सीता प्रेम-विह्वल हो जाती है, वह अपनी सखी से कहती है कि यदि पिता जी राम को छोड़कर किसी अन्य पुरुष से मेरे विवाह का आयोजन करेंगे तो मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। तब वह देवताओं से प्रार्थना करती है कि वे राम के लिये धनुष को पुष्पवत् बना दें तथा राम के सफल होने पर चौदह वर्ष तक वनवास करने का व्रत लेती है। **कृत्तिवास रामायण** (१, ६०-६१) तथा **बलरामवास रामायण** में भी स्वयंवर के समय राम को देखकर सीता की प्रेमवशा तथा उनकी देवताओं से विनय का वर्णन मिलता है।

राम-कथाओं के एक अन्य वर्ग के अनुसार सीता ने राम को मिथिला में प्रवेश करते देख लिया था तथा उसी क्षण उनके हृदय में राम के प्रति प्रेम अंकुरित हुआ था। **तमिल कम्ब रामायण** में इस प्रकार का प्रथम वर्णन मिलता है—राम के मिथिला में प्रवेश करते समय राम और सीता एक दूमरे को देखते हैं और दोनों में प्रेम उत्पन्न होता है।

“कल्पनातीत सौंदर्य से युक्त सीता इस प्रकार कन्याभवन पर खड़ी थी कि राम-लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के पीछे-पीछे उसी कन्याभवन के निकट होकर गये। संयोग-वश राम की दृष्टि सीता पर पड़ी और इसी समय सीता की दृष्टि भी राम पर पड़ गई। फिर क्या था ? नेत्रों ने नेत्रों को ग्रस लिया। अत्यन्त सुशचिपूर्ण होने के कारण एक दूसरे का रसास्वादन करने लगे। हसी के द्वारा दोनों के चित्त भी जुड़कर एक हो गये। तदनन्तर दोनों अपनी सुध-बुध खो, एक-दूसरे के परवश हो, महान् व्यक्ति राम ने भी सीता को निहारा और उसने भी राम को निहारा” (१, १०, ३५)।<sup>१</sup>

१. दे० डॉ० सु० शंकर राजू नायडू, कम्बर और तुलसी, (मद्रास १९५६) पृ० ६२।

कम्बर ने उसी दशवें पटल में सीता तथा राम दोनों के रात्रि में विरह का विस्तृत वर्णन किया है। गोविन्द रामायण में भी सीता प्रासाद की छत पर से राम को मिथिला में पहुँचते देखती हैं और राम-सीता में पारस्परिक प्रेम उत्पन्न होता है। असमिया बालकाण्ड (अध्याय ३९) में इसका वर्णन किया गया है कि मिथिला में प्रवेश करते हुए राम को देखकर सीता मुग्ध हो गई थीं तथा उन्होंने राम के साथ ही विवाह करने का प्रण किया था। रामकियेन (अध्याय १२) के अनुसार राम जनक की राजधानी में पहुँचकर सीता को महल के शरोखे में देखते हैं जिसके फलस्वरूप दोनों उसी क्षण एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। सीता के प्रति राम का प्रेम जानकर लक्ष्मण धनुष चढ़ाने में समर्थ होते हुये भी उसे नहीं उठाते हैं।

राम-सीता के पूर्वानुराग के चित्रण में कुछ कवियों ने पुष्पवाटिका में राम और सीता के साक्षात्कार की कल्पना की है। प्रसन्नराघव (दे० अनु० २३७) में राम सीता को चडिकायतन की ओर जाते हुये देखते हैं तथा छिपकर सीता और उनकी मखियों की बातचीत सुनते हैं; बाद में दोनों के एक दूसरे को देखकर आकर्षित हो जाने का वर्णन किया गया है। भँखिलीकल्याण नाटक (दे० अनु० २३९) में सीता तथा राम के पूर्वानुराग, दोनों के विरह-वर्णन तथा अभिसारिका सीता का भी चित्रण किया गया है। प्रसन्नराघव के आधार पर रामचरितमानस तथा गीतावली में तुलसीदास ने जनकपुर की वाटिका में राम-सीता के पारस्परिक दर्शन का वर्णन किया है। शौपथ रामायण (दे० अनु० १९७) तथा मैद रामायण (दे० अनु० २०३) में भी वाटिका-प्रसंग मिलता है।<sup>१</sup>

साहित्य दर्पण में विप्रलम्भ-पूर्वराग के दो कारण अर्थात् श्रवण तथा दर्शन उल्लिखित हैं। काव्यशास्त्र के ग्रन्थों में कई प्रकार के दर्शन माने जाते हैं—प्रत्यक्षदर्शन, स्वप्नदर्शन तथा चित्रदर्शन। राम-सीता-पूर्वराग के प्रसंग में इन सब कारणों की चर्चा मिल जाती है। प्रत्यक्षदर्शन-विषयक कथाओं का उल्लेख ऊपर हो चुका है। राघवोल्लास काव्य के द्वादश सर्ग में स्वप्न-दर्शन को सीता के पूर्वराग का कारण माना गया है। “सीता सबरे रोती-रोती जगकर रात में देखे स्वप्न को अपनी प्रिय सखी को सुनाती हैं—एक सुन्दर पुरुष-रत्न स्वप्न में मुझे मिला था, कोमल स्वच्छ तुलसीदल की माला उसके गले में थी। .....उसी समय जनक-पुत्री ने कोलाहल सुना। पूछा कि यह कैसा कोलाहल हो रहा है। शीघ्र ही पता लगाकर एक भृगुनयनी ने कहा—अरी विशाल भाल वाली जनकनन्दिनी, घर के भीतर क्या छिपी हो, इधर गवाक्ष पर

१. साकेत (सर्ग १) में पुष्पवाटिका के प्रसंग में लक्ष्मण-अमिला के पूर्वानुराग का भी चित्रण है।

जाकर देखो। एक सुन्दर पुरुष आ रहा है, उसका नाम राम है, अलौकिक सौंदर्य-समन्वित है। सीता सखियों के साथ राम को देखती है। राम की रूपमाधुरी पर मुग्ध होकर चेतना-शून्य हो जाती है। अन्त में किसी प्रकार सीता होश में लाई जाती हैं। राम को देखने के लिये पुन गवाक्ष पर जाना चाहती है, सखियों के मना करने पर उत्तर देती हैं कि राम के दर्शन से तो शायद प्राण निकले, किन्तु उनके विद्योग से तो मरण निश्चित है—**रामेक्षणं प्राणहर कदाचित् भुवं मूर्ति वास्यति तद्विद्योगः।**<sup>१</sup>

भृशुषुडी रामायण के अनुमार राम मिथिला में पहुँचकर एक पक्षी द्वारा सीता के पास अपना चित्र भेज देते हैं, चित्र-दर्शन में सीता उन्हें प्राप्त करने के लिये उत्कण्ठित होती हैं।<sup>२</sup> बृहत्कौशलखण्ड में गुण-श्रवण पूर्वराग का कारण माना गया है। एक तपस्विनी से राम के कार्यों का गुणगान सुनकर अष्टवर्षीय सीता विरह से व्याकुल होने लगती है, जिसपर महादेव जनक को स्वप्न में दिखाई पड़ते हैं तथा स्वयंवर का आयोजन करने को कहते हैं (दे० अध्याय ६)।

### ड। राम का एकपत्नीव्रत

४०४. वाल्मीकि ने राम को 'सत्यपराक्रम' क्षत्रिय, आज्ञाकारी पुत्र तथा 'स्वदारनिरत' पति के रूप में चित्रित किया है। परवर्ती राम-कथाओं में राम को प्रायः 'एकपत्नीव्रत' भी माना गया है, यह वाल्मीकीय आदर्श का स्वाभाविक विकास प्रतीत होता है।

प्रस्तुत विषय का विश्लेषण करते समय हमें स्मरण रखना चाहिए कि उच्चाशय मानव का चित्र अकित करते हुए भी वाल्मीकि का दृष्टिकोण यथार्थवादी ही है, अतः उनकी रचना में यत्र-तत्र ऐसी उक्तियाँ भी मिल जाती हैं जो परवर्ती राम-कथाओं के मर्यादावाद को आघात पहुँचाती हैं। अयोध्याकाण्ड के एक ही स्थल पर राम की स्त्रियों की ओर सकेत किया गया है, कैकेयी को उभाडती हुई मथरा कहती है कि राम के अभिषेक के बाद उनकी स्त्रियाँ फूली नहीं समाएँगी—**हृष्टा खलु भविष्यन्ति रामस्य परमाः स्त्रियः।**<sup>३</sup> समुद्र के तट पर प्रायोपवेशन के वर्णन में "अनेकधा परम नारियों की भुजाओं से स्पृष्ट राम की बाँह का उल्लेख मिलता है—**"भुजः परम-नारोयामभिवृष्टमनेकधा"** (६, २१, ३)। यद्यपि असह्य स्थलों पर सीता के

१ दे० राघवप्रसाद पाण्डेय, तुलसीदासकालीन राघवोल्लास काव्य, मैथिली शरण गुप्त अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० ७०४।

२ दे० भगवती प्रसाद मिह, राम-भक्ति में रसिक सम्प्रदाय, पृ० ९८।

३ दे० २, ८, १२। उदीच्य पाठ में यह इस प्रकार बदल दिया गया है—**भुजः युक्ता भिया बहुधा रामपत्नी भविष्यति** (गी० ७, ६, प० रा० १०, ६)।

प्रति राम के प्रेम की चर्चा है फिर भी कैंकेयी से भरत के युवराजाभिषेक का समाचार सुनकर राम कहते हैं कि पिता की आज्ञा पर मैं भरत को अपना राज्य, अपनी सम्पत्ति, अपना जीवन तथा सीता को भी सहर्ष अर्पित कर सकता हूँ :

अहं हि सीतां राज्यं च प्राणानिष्ठाण्वनानि च ।  
हृष्टो भ्रात्रे स्वयं दद्यां भरताय प्रचीदितः ॥७॥

(२, सर्ग १९)

शरपाश में बद्ध लक्ष्मण के लिये विलाप करने वाले राम की यह उक्ति प्रसिद्ध ही है :

किं नु मे सीतया कार्यं लब्धया जीवितेन वा ।  
शयानं यो ऽद्य पश्यामि भ्रातरं युधि निजितम् ॥५॥  
शक्या सीतासमा नारी मर्त्यलोके विचिन्वता ।  
न लक्ष्मणसमो भ्राता सचिवः सांपरायिकः ॥६॥

(युद्धकाण्ड, सर्ग ४९)

अपनी माता से राम के वनवास का समाचार सुनकर भरत यह आसका प्रकट करते हैं—कचिन्न परदारान्वा राजपुत्रो ऽभिमन्यते (२, ७२, ४५) ।

उपर्युक्त उद्धरणों का उत्तरदायित्व वाल्मीकि का है अथवा रामायण के प्राचीन गायको का, इसका निर्णय करना असंभव है । इस समस्या का जो भी समाधान हो किन्तु विवाह-संबंध के विषय में तथा सीता के प्रति राम के निश्चल प्रेम के विषय में जो सामग्री रामायण में मिलती है, इस पर परवर्ती रचनाओं के 'एकपत्नीव्रत' का आदर्श आधारित है ।

आदिकाव्य के एक स्थल पर 'एकपत्नीव्रत' की प्रशंसा की गई है (दे० २, ६४, ४३) । राम के साथ वन जाने के लिये अनुरोध करते समय सीता यह तर्क देती हैं

१. अग्नि-परीक्षा के समय सीता के प्रति राम के कठोर वाक्य यहाँ अप्रासंगिक हैं, क्योंकि अग्नि-परीक्षा का समस्त वृत्तान्त प्रक्षिप्त है (दे० अनु० ५६६) । युद्ध-काण्ड का १०१वाँ सर्ग भी प्रक्षिप्त है (दे० अनु० ५३५); इसमें राम कहते हैं—**बेशे बेशे कलत्राणि....तं तु वेशं न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरः** (दे० १०१, १४) । इसी प्रकार जिस सर्ग में सीता राम के चरित्र पर सन्देह प्रकट करती हैं (५, २८, १४), अधिक संभव है कि वह भी प्रक्षिप्त है (दे० अनु० ५३०) ।

कि धर्मविधि के अनुसार विवाह होने पर स्त्री परलोक में भी अपने पति की होकर रहती है<sup>१</sup>

इहल्लोके च पितृनिर्घा स्त्री यस्य महाबल ।

अविभर्त्ता स्वधर्मेण प्रेत्यभावेऽपि तस्य सा ॥१८ ॥

(२, २९)

वाल्मीकि रामायण में सीता के प्रति राम के प्रेम का बहुत से स्थलों पर चित्रण किया गया है, सीता से उनका वियोग तथा सीता के लिये उनका विलाप अनेक सर्गों का धर्म्य-विषय है (दे० ३, ६०-६६, ३ ७५, ४, २७-२८, ४, ३०, ५, ६६, ६ ५) । सीता राम को 'स्ववारनिरत' (३ ९, ६) तथा अपने प्रति 'स्विरानुराग' (२ ११८ ८) मानती है तथा यह विश्वास प्रकट करती है कि राम का प्रेम कभी नष्ट नहीं हो सकता (५ २६ ३९) । राम को निर्वासन दिलाने वाली कैकेयी भरत की उपर्युक्त आज्ञाका मुनकर उत्तर देती है—त रामः परदारान्त क्षुभ्यामपि प.यति (२ ७२ ४८) ।

आदिकाव्य में राम के इस चरित्र-चित्रण के आधार पर उत्तरकाण्ड के व्यासों ने यह माना है कि सीता-त्याग के बाद राम ने दूसरा विवाह नहीं किया (दे० ७, ९९ ८) । अत एकाक्ष अपवादों को छोड़कर परवर्ती राम-कथाओं की धारणा यह है कि राम एकपत्नीव्रत था । आनन्द रामायण में राम स्वयं कहते हैं कि सीता को छोड़कर सभी नागियाँ उनके लिये कौशल्या के समान ही है

अन्यत्सीता विना ऽन्या स्त्री कौशल्या सदृशी मम ॥

न क्रियते परा पत्नी मनसाऽपि च चिंतये ॥१३॥

(विलास काण्ड, सर्ग ७)

आनन्द रामायण के उसी सर्ग में यह भी माना गया है कि रामावतार में एक-पत्नीव्रत रखने के फलस्वरूप कृष्णावतार में उनको बहुत सी पत्नियों मिलेगी । राम-चरित्र के इस आदर्श को न स्वीकार करनेवाली प्राचीनतम रचनायें जैन रामायण हैं । विमलसूरि के पउमचरित्र (अनु० ६०) तथा गुणमद्र के उत्तरपुराण (अनु० ६४) और उनपर आधारित जैन राम-कथाओं में लक्ष्मण की १६००० तथा राम की ८००० पत्नियों की वर्या है । रमिक सम्प्रदाय के राम-साहित्य पर कृष्णलीला की गहरी छाप है, अतः उसमें राम को बहुपत्नीक माना गया है । भृशुण्डी रामायण में राम

१. वसिष्ठ की यह उक्ति भी द्रष्टव्य है—आत्मा हि वाराः सर्वेषां वारसंघहृत्सिनाम्  
(२, ३७, २४) ।

की दो पटरानियों के अतिरिक्त सहस्रों पत्नियों का उल्लेख है (दे० अनु० १८०); बृहत्कोशलखण्ड (दे० अनु० १९१) में भी राम के बहुत से विवाहों का वर्णन किया गया है।<sup>१</sup> विदेश की रचनाओं में राम को प्रायः एकपत्नीव्रत ही माना गया है; रामजातक इसका एकमात्र अपवाद प्रतीत होता है (दे० अनु० ३२७)। एक ही रचना में अर्थात् खीतानी रामायण में सीता राम तथा लक्ष्मण दोनों से विवाह करती हैं; उस देश के बहुपतित्व के आधार पर इस प्रकार की कल्पना उत्पन्न हुई होगी।

### ६—सीता की जन्म-कथा

४०५. प्रारम्भिक राम-कथाओं में सीता के कुल-परम्परा सम्बन्धी तथ्यों के अभाव के कारण अनेक प्रकार की एक दूसरी से सर्वथा भिन्न कथाएँ प्रचलित हो गई हैं। जनक, रावण और दशरथ तीनों सीता के पिता माने गए हैं। अतः राम-कथा के विकास में सीता-जन्म के वैभिन्न्य की एक अलग समस्या प्रतीत होती है। इसे सुलझाने के लिए उन भिन्न-भिन्न रूपों की प्राचीनता और सापेक्षिक महत्त्व को ध्यान में न रखने के कारण अनेक विद्वानों ने बहुत चिंत्य प्रस्ताव किए हैं। उनके अनुसार सीता पहले दशरथ की पुत्री और राम की सहोदरी बहन मानी जाती थी। इसके बाद वह रावण की पुत्री बनाई गई है और अंत में अयोनिजा सीता (जनक की दत्तक पुत्री) की कल्पना कर ली गई है। प्रस्तुत परिच्छेद में इस जन्म-कथा के भिन्न-भिन्न रूपों के संक्षिप्त वर्णन के साथ-साथ इसके विकास की रूप-रेखा खींचने का भी प्रयत्न किया जाएगा। आरम्भ में उन कारणों का स्पष्टीकरण किया जाएगा जो हम विश्वास की पुष्टि करते हैं कि सीता पहले जनक की औरस पुत्री मानी जाती थी, तदुपरान्त वाल्मीकि के अनुसार भूमिजा सीता के अलौकिक जन्म का वर्णन किया जायगा। यह आख्यान सर्वाधिक प्रचलित तथा महत्त्वपूर्ण है और सीता की अर्वाचीन जन्म-कथाओं का भी आधार प्रमाणित हुआ है। वाल्मीकि से भिन्न कथाओं में एक बात प्रायः सर्वत्र वर्णित है और वह यह है कि मिथिला में परित्यक्त होने के पूर्व सीता का सम्बन्ध लंका से भी स्थापित किया जाता है। अंत में दशरथ जासक तथा हिंदेशिया की जन्म-कथाओं का वर्णन किया जाएगा जिनमें दशरथ सीता के पिता माने गए हैं। इनके कम महत्त्व का प्रमाण यह है कि शताब्दियों तक अज्ञात होने के कारण इन कथाओं का भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सका।

१. डॉ० भगवती प्रसाद सिंह के अनुसार नृत्यराघवमिलन में राम की पटरानियों की संख्या ८ मानी गई तथा सिद्धान्त तत्त्वदीपिका में उनकी असंख्य विवाहित स्त्रियों की चर्चा है (दे० राम-भक्ति में रसिक सम्प्रदाय, पृ० २६०)।

४०६. सीता की जन्म-कथा के भिन्न-भिन्न रूपों का परिचय निम्नलिखित तालिका में दिया जाता है :

### क । जनकात्मजा

महाभारत, हरिवंश, पउमचरियं, आदि वाल्मीकि रामायण ।

### ख । भूमिजा

- (१) प्रचलित वाल्मीकि रामायण तथा अधिकांश राम-कथाएँ ।
- (२) दशरथ तथा मेनका की मानसी पुत्री . वाल्मीकि रामायण के उदीच्य पाठ ।
- (३) वेदवती अथवा लक्ष्मी के अवतार ।

### ग । सीता और लंका

#### (अ) रावणात्मजा

- (१) बसुदेव त्रिण्डि; गुणभद्रकृत उत्तरपुराण; महाभागवत पुराण ।
- (२) काश्मीरी रामायण, पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १६ ।
- (३) लिम्बती तथा खोतानी रामायण ।
- (४) सेरत काण्ड, सेरीराम का पातानी पाठ ।
- (५) राम कियेन, (रामकेत्ति ?)
- (६) रामजातक, पालकपालम ।

#### (आ) पद्मजा

- (१) दशमस्तारचरित (११ वी श० ई०)
- (२) गोविंदराज का वाल्मीकि रामायण का पाठ ।

#### (इ) रक्तजा

- (१) अबुधुत रामायण (१५वी श० ई०) ।
- (२) सिंहल द्वीप की राम-कथा, विविध भारतीय वृत्तान्त ।

#### (ई) अग्निजा

- (१) आनन्द रामायण (१५वी श० ई०); भावार्थ रामायण ।

#### (उ) फल अथवा वृक्ष से उत्पन्न

- (१) पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १९ ।



(२) पावनात्य वृत्तान्त नं० १।

(३) बह्वचक्र।

### घ। दशरथात्मजा

(१) बजरथ जातक।

(२) जावा के राय केरिन्ग, मलय के सेरी राम तथा हिकायत महाराज रावण।

\* \* \*

### क। जनकात्मजा सीता

४०७ बहुत सम्भव है कि राम-कथा-सम्बन्धी प्राचीन गाथाओं में तथा आदि रामायण में भी सीता जनक की औरस पुत्री मानी जाती थी। महाभारत में चार राम-कथाएँ पाई जाती हैं किन्तु अयोनिजा सीता के अलौकिक जन्म की ओर कही भी निर्देश नहीं किया गया है। सर्वत्र वह जनकात्मजा है। रामोपाख्यान के आरम्भ में लिखा है

विदेहराजो जन्कः सीता तस्यात्मजा विभो।

(दे० ३, २५८ ९)

हरिवंश (१, ४१) की राम-कथा में भी सीता की अलौकिक उत्पत्ति का तनिक भी उल्लेख नहीं मिलता। प्रचलित बाल्मीकि रामायण में भूमिजा सीता के जन्म का प्राचीनतम वर्णन पाया जाता है। प्रमाणिक काठो में (२-६) उसका उल्लेख केवल निम्नलिखित तीन स्थलों पर किया गया है—अनसूया-सीता-सवाद अशोकवन में सीता को देखने पर हनुमान का विलम्ब तथा अग्निपरीक्षा। अनसूया-सीता-सवाद तथा अग्निपरीक्षा, ये दो वृत्तान्त समुचित कारणों से प्रक्षिप्त माने जाते हैं (दे० आगे अनु० ४३१ और ५६५)। हनुमान का विलाप सुन्दरकाठ के १६ वे सर्ग में दिया गया है। इस सर्ग में हनुमान १५वें सर्ग के विषय को ही कुहराते और विस्तार देते हैं, अतः इस सर्ग को बाद का विकास मानने में कोई विशेष आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

उपर्युक्त विश्लेषण के अनुसार बहुत सम्भव है कि आदि रामायण में सीता मिथिला की राज-कन्या और जनक की पुत्री के रूप में वर्णित थी। वास्तव में रामायण के अनेकानेक स्थलों पर<sup>१</sup> इसका उल्लेख किया गया है कि सीता जनक के कुल में

१ दे० १, १, २७, ५, १३, १४, २, २८, ३, ३, ४७ ३। लोक-पाहित्य में भी सीता को जनक की औरसी पुत्री माना गया है। उदाहरणार्थ ब्रज प्रदेश में एक गीत प्रचलित है जिसके अनुसार सीता भाट की बेटा थी। शिकार खेलते समय राम उनका पत्थर प्राप्त कर लेते हैं तथा बाद में

उत्पन्न हुई थीं। जैन षडम्बरियं के अनुसार जनक की पत्नी विदेहा से सीता अपने यमल भ्राता भ्रामंडल के साथ उत्पन्न हुई थी (पर्व २६)। जन्म होते ही इस भ्रामंडल को एक देवता ने उठा लिया था और किसी अन्य राजा के यहाँ छोड़ दिया था। वाल्मीकि रामायण में जनक के किसी पुत्र का कहीं उल्लेख नहीं है, किन्तु ब्रह्माण्डपुराण (३, ६४, १८), विष्णुपुराण (४, ५, ३०) तथा वायुपुराण (८९, १२) आदि में भानुमान जनक का पुत्र कहा गया है। अतः सम्भव है कि षडम्बरियं के वृत्तान्त में ऐतिहासिक तत्त्व विद्यमान हो। कालिका पुराण (अध्याय ३८) में ऐसा उल्लेख है कि नारद निस्सन्तान जनक को यज्ञ कराने का परामर्श देते हुए कहते हैं कि यज्ञ के प्रभाव से दशरथ को चार पुत्र उत्पन्न हुए हैं। तदनुसार जनक यज्ञ के लिए क्षेत्र तैयार करते समय एक पुत्री के अतिरिक्त दो पुत्रों को भी प्राप्त करते हैं।

## ख। भूमिजा सीता

४०८. सीता की अलौकिक उत्पत्ति का वर्णन वाल्मीकि रामायण में दो बार कुछ विस्तारपूर्वक किया गया है; कतिपय अन्य स्थलों पर भी इसके संकेत मिलते हैं।<sup>१</sup> एक दिन जब कि राजा जनक यज्ञ-भूमि तैयार करने के लिए हल चला रहे थे, एक छोटी सी कन्यका मिट्टी से निकली। उन्होंने उसे पुत्री-स्वरूप ग्रहण किया तथा उसका नाम सीता रखा। सीता-जन्म का यह वृत्तान्त अधिकांश राम-कथाओं में मिलता है। विष्णुपुराण में यह भी कहा गया है कि जिस यज्ञ के लिए जनक भूमि तैयार कर रहे थे वह 'पुत्रार्थम्' था। जनक की उस पुत्रकामेष्टि का उल्लेख षष्ठीपुराण के उत्तरखंड के वंगीय पाठ में भी मिलता है। उस वृत्तान्त के अनुसार भूमि में एक सुवर्ण धनुष मिला था जिसे खोल देने पर जनक ने एक कन्यका को देखा तथा उसे सीता का नाम देकर ग्रहण किया।

संभव है कि भूमिजा सीता की अलौकिक जन्म-कथा सीता नामक कृषि की अविष्ठात्री देवी के प्रभाव से उत्पन्न हुई हो। कृषि की उस देवी से सम्बन्ध रखनेवाली सामग्री का वर्णन प्रस्तुत प्रबन्ध के प्रथम अध्याय में किया गया है। मैं यह नहीं कहता

अपने पिता 'जसरथु' से जनक के पास पत्र लिखवाते हैं। उत्तर में जनक कहते हैं—“हम तीं के भाट-भिंसारिया और तुम राजा महाराज, हमें पुनं कैसें होइगी सजनई” (दे० भारतीय साहित्य, आगरा, वर्ष २, अंक ३, पृ० ७४)।

१. दे० १, ६६ तथा २, ११८ (वर्णन के लिए) और ५, १६; ६, ११६; ७, १७; ७, ९८; ७, ३७ प्र० ३, ५ (उल्लेख के लिए)।

कि यह वैदिक देवी और रामायणीय सीता अभिन्न हैं। वैदिक सीता ऐतिहासिक न होकर सीता अर्थात् लांगल-पद्धति के मानवीकरण का परिणाम है। किन्तु यह असम्भव नहीं है कि किसी निश्चित कुलपरम्परा के अभाव में ऐतिहासिक राजकुमारी सीता की जन्म-कथा पर कृषि की अधिष्ठात्री देवी सीता के व्यक्तित्व का प्रभाव पडा हो।

साथ ही यह भी सर्वथा सम्भव प्रतीत होता है और ऐसा मानना निश्चय ही अधिक स्वाभाविक भी है कि 'सीता' नाम के कारण ही, जिसका अर्थ ही लांगलपद्धति (हल से खीची हुई रेखा) है, लोगों ने यह कल्पना आरम्भ कर दी कि यह लांगलपद्धति से निकली थी। ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं कि किसी का नाम उसकी जन्म-कथा का कारण बन गया है (दे० अनु० ७७९)। तैत्तरीय ब्राह्मण की सीता सावित्री की कथा से ज्ञात होता है कि प्राचीन वैदिक काल में ही कन्याओं के नामों में सीता भी एक नाम था (दे० ऊपर अनु० ८)।

४०९. बाल्मीकि रामायण के गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठों में उपर्युक्त भूमिजा सीता की जन्म-कथा का परिवर्द्धन किया गया है। तीनों पाठों में सीता स्वयं अग्नि की पत्नी अनसूया को अपनी जन्म-कथा बताती हैं। गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठों में यह वर्णन अधिक विस्तृत है। कथा इस प्रकार है :

'राजा जनक की कोई सन्तान नहीं थी। एक दिन जब वह यज्ञ की भूमि में हल चला रहे थे उन्होंने आकाश में लावण्यमयी अप्सरा मेनका को देखा और मन में सन्तानार्थ उसके साहचर्य की अभिलाषा की। इस पर एक आकाशवाणी सुनाई दी जिससे उन्हें विश्वास दिलाया गया कि मेनका के द्वारा उन्हें एक पुत्री प्राप्त होगी जो सौंदर्य में अपनी माता मेनका के समकक्ष होगी। आगे बढ़कर जनक ने भूमि से निकली हुई सीता को देखा। पुनः आकाशवाणी सुनाई दी—मेनकायाः समुत्पन्ना कन्येयं मानसी तव (मेनका से उत्पन्न यह कन्या तुम्हारी मानस पुत्री है)।'

क्षेत्रेण्डुकुत रामायणवर्जरी (दे० ३४४-३४६) में भी यह कथा पाई जाती है। इस कथा से यह आभास मिलता है कि प्राचीन काल में सीता की समुत्पत्ति के विषय में कोई एक वृत्तान्त सर्वप्रामाणिक नहीं माना जाता था। ईस्वी की प्रारम्भिक शताब्दियों से लेकर बाल्मीकि रामायण की सीता-जन्म-कथा की अपूर्णता का अनुभव होने लगा था। गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठ का उपर्युक्त वृत्तान्त उस कथा को पूर्ण बनाने का प्राचीनतम प्रयत्न प्रतीत होता है।

भाष्यकारोंद्वारा कृत असमीया रामायण (३, १) में सीता की जन्म-कथा वाल्मीकि रामायण के गौडीय पाठ से मिलती-जुलती है, किन्तु कृत्तिवास ने प्रस्तुत वृत्तान्त को एक नया रूप दिया है। मेनका के स्थान पर जनक ने उर्वशी को देख लिया था तथा काममोहित हो जाने के कारण उनका तेज भूमि पर गिर गया था, जिससे पृथ्वी गर्भ-वती हुई। बहुत समय बाद जनक ने हल जोतते समय भूमि में से एक डिम्ब प्राप्त कर लिया था और उसमें से सीता निकली थी। बलरामदास (अरण्यकाण्ड) लिखते हैं कि हल जोतते समय जनक ने मेनका को देखकर उसी के समान एक कन्या प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की थी। मेनका ने उनकी यह इच्छा जानकर उनको आश्वासन दिया कि मुझसे भी सुन्दर कन्या तुमको प्राप्त होगी।

४१०. वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाण्ड (सर्ग १७) में जो वेदवती की कथा मिलती है वह भी उस समय उत्पन्न हुई होगी। इस वृत्तान्त में सीता के पूर्व जन्म का वर्णन किया गया है, अतः उसकी उत्पत्ति के समय सीता के लक्ष्मी के अवतार होने का सिद्धान्त सर्वमान्य नहीं था। कथा इस प्रकार है:

‘ऋषि कुशध्वज की पुत्री वेदवती नारायण को पतिरूप में प्राप्त करने के उद्देश्य से हिमालय में तप करती है। उसके पिता की भी ऐसी ही अभिलाषा थी। किसी राजा को अपनी पुत्री प्रदान करने से इनकार करने पर कुशध्वज का उस राजा द्वारा बध किया गया था। किसी दिन रावण की दृष्टि उस कन्या पर पड़ती है। उसके रूप-लावण्य से विमोहित होकर वह उसे उसके केशों से पकड़ता है। अपना हाथ असि के रूप में बदलकर वेदवती उससे अपने केशों को काटकर अपने को विमुक्त करती है। अनन्तर वह रावण को शाप देकर भविष्यद्वाणी करती है कि मैं तुम्हारे नाश के लिए अयोनिजा के रूप में पुनः जन्म ग्रहण करूँगी। अंत में वह अग्नि में प्रवेश करती है और बाद में जनक की यज्ञभूमि में उत्पन्न होती है।

श्री महावीरभागवत पुराण (९, १६) तथा ब्रह्मवैवर्तपुराण (प्रकृति खंड, अध्याय १४) में इस कथा में परिमार्जन किया गया है। कुशध्वज और उसकी पत्नी मालवती लक्ष्मी की उपासना करते हैं और उनसे उनको पुत्रीस्वरूप में प्राप्त करने का वर पाते हैं। जन्मग्रहण करते ही लक्ष्मी वैदिक मंत्रों का गान करती हैं; इस कारण उन्हें वेदवती का नाम दिया जाता है। कुछ समय के उपरान्त वह हरि को पतिरूप में

१. वे० १, ४०। यह प्रसंग पूर्णचन्द्र दे, पूर्णचंद्र शील, ताराचौद दास, बंगवासी प्रेस, सुबोधचन्द्र मजूमदार आदि के संस्करणों में मिलता है। दिनेशचन्द्र ने उसे छोड़ दिया है किन्तु उनके संस्करण में भी जनक को पृथ्वी में से एक डिम्ब मिल जाने का उल्लेख है।

वरण करने के लिए तप करने लगती हैं तथा रावण द्वारा अपमानित हो जाने पर वह उसे शाप देती हैं कि मैं तेरे विनाश का कारण बन जाऊँगी। अनन्तर वह योग के बल पर अपना शरीर त्याग देती हैं और बाद में सीता के रूप में उत्पन्न होती हैं। यह स्पष्ट है कि सीता तथा लक्ष्मी की अभिन्नता के विश्वास की प्रेरणा से वेदवती की कथा को यह नवीन रूप दिया गया है।<sup>१</sup>

हृत्तिवास रामायण (७, १७) के अनुसार कुशध्वज जिस समय वेदपाठ कर रहे थे उस समय उनके मूँह से एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने वेदवती ही रखा था। क्षुभ नामक दैत्य ने कुशध्वज को मार डाला और वेदवती तपस्या करने गईं। रावण से अपमानित हो जाने पर वह अग्नि तैयार कर उसमें प्रवेश कर गईं तथा सीता के रूप में प्रकट हुईं। बलरामदास रामायण के अनुसार वेदवती सागर के तट पर तपस्या करती थी; रावण के अपमान के पश्चात् वह उसे शाप देती हैं तथा अपने तपोबल द्वारा आग उत्पन्न करके उसमें प्रवेश करती हैं। कुछ दिन बाद रावण वहाँ आकर देख लेता है कि वेदवती का शरीर नहीं जला है, अतः वह उसे पुष्पक पर लाद कर लका ले जाता है। धर पहुँच कर वह मन्दोदरी को आदेश देता है कि उसका मांस भोजन के लिये तैयार किया जाय। नारद के परामर्श से मन्दोदरी दूसरा मांस तैयार करती है तथा वेदवती की लाश समुद्र में बहा देती है। वरुण उसे जम्बूद्वीप में पहुँचाता है, जहाँ जनक उसे सीता के रूप में हल चलाते समय प्राप्त कर लेते हैं। पद्मचरियं का वेदवती-वृत्तान्त स्पष्टतया वाल्मीकीय कथा का विस्तार मात्र है। सागरदत्त की पुत्री गुणमती की सगाई धनदत्त (भावी राम) के साथ हुई थी। उसकी माता रत्नप्रभा उसे धनी श्रीकान्त (भावी रावण) को देना चाहती थी। फलस्वरूप धनदत्त के भाई वसुदत्त (भावी लक्ष्मण) तथा श्रीकान्त इन्द्रयुद्ध में एक दूसरे का वध करते हैं। दोनों हरिण बन जाते हैं तथा गुणमती भी मर कर एक ही प्रदेश में हरिणी के रूप में प्रकट हो जाती है। उसी के कारण दोनों फिर एक दूसरे को मार डालते हैं। अनेक जन्मों के बाद गुणमती पुरोहित श्रीभूति की वेदवती नामक कन्या बन जाती है।<sup>१</sup> स्वायंभू नामक राजकुमार वेदवती को पत्नीस्वरूप चाहता है, किन्तु श्रीभूति उसे अपनी पुत्री को देना अस्वीकार करता है। इसपर स्वायंभू श्रीभूति की हत्या करके वेदवती के साथ बलात्कार करता है। वेदवती उसे शाप देकर (मैं तेरे नाश का कारण बनूँगी) श्राविका का

१. सीता के अवतारत्व के विषय में ऊपर देख लें, अनु० ३६४-३६५।

२. किसी दिन वेदवती ने सुदर्शन मूनि की निन्दा की थी; इससे वह अपने अगले जन्म में लोकापवाद का शिकार बनीं।

जीवन अपनाती है; बाद में वेदवती तथा स्वयंभू क्रमशः सीता तथा दशमुख के रूप में जन्म लेते हैं (पर्व १०३)।

माघवदेव कृत असमीया बालकाण्ड में सीता की जन्म-कथा भूमिजा सीता तथा वेदवती की कथाओं का मिश्रित रूप है। कथा इस प्रकार है—भगवान ने राम के रूप में अवतार लेने की प्रतिज्ञा की थी; इसके बाद लक्ष्मी ने उनसे पूछ लिया था कि मैं क्या करूँ। उन्होंने उत्तर दिया कि तुम जनक के यहाँ जन्म लो (अध्याय २२)। बाद में लक्ष्मी पृथ्वी पर उतरकर एक पर्वत के शिखर पर बैठ गई। रावण उन्हें देखकर आसक्त हुआ और नीचे उतरकर उनके पास आ पहुँचा। लक्ष्मी ने रावण को डाँटा—तुमको मारने के लिये भगवान पृथ्वी पर उत्पन्न हो चुके हैं। यह कहकर वह सागर में कूदकर अतर्धान हो गई। तब सागर में सौ योजन का द्वीप ऊपर आया और लक्ष्मी उसपर विराजमान थी। अनन्तर वसुमती ने आकर लक्ष्मी को आदर-पूर्वक अपने गर्भ में धारण कर लिया। बाद में लोगों ने यज्ञ के लिये हल जोतते समय पृथ्वी में एक रक्तमय डिम्ब पाया तथा उसे द्वीप के पास के मिथिला नगर में ले गए। राजा जनक ने डिम्ब तोड़कर उसमें से एक कन्या को निकाला (दे० अध्याय २६)।

### ग। सीता और लंका

४११. रामायण की अलौकिक सीता-जन्म-कथा में परिवर्द्धन किया जाना अत्यन्त स्वाभाविक है। भूमि में पड़ी हुई कन्यका आखिर आई कहीं से? वह रावण के नाश का कारण क्यों सिद्ध हुई? वेदवती की कथा में इन प्रश्नों का उत्तर मिलता है; सीता-हरण के पूर्व ही सीता-रावण-संबंध का इस कथा में प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। बाद की बहुत सी राम-कथाओं में यह संबंध अधिक निकट हो जाता है। जनक द्वारा प्राप्त होने के पूर्व सीता का किसी-न-किसी तरह लंका से संबंध स्थापित किया गया है। बलरामदास रामायण की कथा के अतिरिक्त यह संबंध चार सर्वथा भिन्न रूप धारण करता है। साहित्य में उल्लेख के काल-क्रमानुसार इनका यहाँ निरूपण किया जाता है।

#### (अ) रावणात्मजा

४१२. सीता-जन्म की कथाओं में, जिनका हमें यहाँ पर विश्लेषण करना है, सर्वाधिक प्राचीन तथा प्रचलित कथा वह है जिसमें सीता को रावण की पुत्री माना गया है। भारत, तिब्बत, खोतान (पूर्वी तुर्किस्तान), हिन्देशिया और श्याम में हमें यह कथा मिलती है। भारतवर्ष में इस कथा का प्राचीनतम रूप वसुदेवहिण्डि (दे० ऊपर अनु० २५३) में सुरक्षित है। इसके अनुसार विद्याधर मय ने रावण के पास आकर

उसके साथ अपनी पुत्री मन्दोदरी के विवाह का प्रस्ताव रखा । शरीर के लक्षणों का ज्ञान रखने वाली ने कहा कि मन्दोदरी की पहली सन्तान अपने कुल के नाश का कारण बनने वाली है (कुलक्षयहेतु) । रावण मन्दोदरी का सौंदर्य देखकर मोहित हो चुका था, अतः उसने उसकी पहली सन्तान को त्याग देने का निर्णय करके उसके साथ विवाह किया । बाद में मन्दोदरी ने एक पुत्री को जन्म दिया तथा उसे रत्नों के साथ एक मंजूषा में रखकर मंत्री को आदेश दिया कि उसे कहीं छोड़ दिया जाय । मंत्री ने उसे जनक के खेत में रख दिया । बाद में जनक से कहा गया कि यह बालिका हल की रेखा से उत्पन्न हुई है । जनक ने उसे ग्रहण किया तथा महारानी धारिणी को सौंप दिया । गुणभद्र के उत्तरपुराण की निम्नलिखित कथा में वेदवती वृत्तान्त तथा वसुदेवहिण्डि की कथा का समन्वय किया गया है—“अलकापुरी के राजा अमितवेग की पुत्री राजकुमारी मणिमती विजयार्थ (विन्ध्य) पर्वत पर तप करती थी । रावण ने उसे प्राप्त करने का प्रयास किया । सिद्धि में विघ्न उत्पन्न होने के कारण मणिमती ने क्रुद्ध होकर निदान किया कि मैं रावण की पुत्री बनकर उसके नाश का कारण बन जाऊँगी । उस निदान के फलस्वरूप वह मन्दोदरी के गर्भ से उत्पन्न हुई । उसका जन्म होते ही लंका में भूकम्प आदि अनेक अपशकुन होने लगे । यह देखकर ज्योतिषियों ने कहा कि यह कन्या रावण के नाश का कारण होगी । इसपर रावण ने मारीच को यह आदेश दिया कि वह उसे किसी दूर देश में छोड़ दे । मंदोदरी ने कन्या को द्रव्य तथा परिचायक पत्र के साथ-साथ एक मंजूषा में रख दिया । मारीच ने उसे मिथिला देश की भूमि में गाड़ दिया जहाँ वह उसी दिन कृषकों द्वारा पाई गई । कृषक उसे जनक के पास ले गए । मंजूषा को खोलकर जनक ने उसमें से कन्यका को निकाल लिया तथा उसे पुत्रीवत् पालने का आदेश देकर अपनी पत्नी वसुधा को सौंप दिया ।’

स्पष्ट है कि यह वृत्तान्त वेदवती की कथा पर आधारित है और सीता की धर्म-माता वसुधा का नाम यह भी सूचित करता है कि रचयिता वाल्मीकि की उस कथा से परिचित था जिसमें सीता को पृथ्वी की पुत्री माना गया है । महाभागवत बेबीपुराण (१० अध्याय ११वीं श० ६०) में भी इसका उल्लेख है कि सीता मंदोदरी से उत्पन्न हुई थी और बाद में वह पृथ्वी से आविर्भूत हुई थी :

१. दे० पर्व ६८ । सोमसेन के जैन रामपुराण में पउमचरियं तथा उत्तरपुराण के वृत्तान्तों का समन्वय किया गया है । सीता रावण और मंदोदरी की पुत्री थी और मिथिला में गाड़ी गई । जिस दिन जनक की रानी से भामंडल उत्पन्न हुआ और एक देव द्वारा उठा लिया गया था उसी दिन एक कृषक ने जनक की वह मंजूषा दे दी जिसमें सीता पड़ी थी ।

सीता मंदोदरीपत्न्ये संभूता चावलपिनी ।

क्षेत्रज्ञा तनयाप्यस्य रावणस्य रघूत्तम ॥ ६२ ॥

(अध्याय ४२)

तेलुगु द्विपद रामायण (१, २७) तथा दक्षिण भारत की एक अन्य कथा में (दे० पाश्चात्य वृत्तान्त न० १७) भी सीता के एक मंजूषा में पाये जाने का उल्लेख किया गया है, यद्यपि उन रचनाओं में रावण का निर्देश नहीं है।

४१३. सीता की जन्म-कथाओं का एक ऐसा वर्ग भी मिलता है जिसके अनुसार रावण की पुत्री जन्म के पश्चात् समुद्र अथवा नदी में फेंकी जाती है। काश्मीरी रामायण में कथा इस प्रकार है—'मंदोदरी रावण की अनुपस्थिति में एक पुत्री को जन्म देती है। जन्मपत्र से पता चलता है कि यह बालिका अपने पिता की मृत्यु का कारण बनेगी और यदि उसका विवाह हुआ तो वह वनवासिनी बनकर लंका का नाश करेगी। यह सुनकर मंदोदरी उसके गले में एक पत्थर बाँधकर उसे किसी नदी में फेंकवा देती है।' एक अन्य कथा के अनुसार रावण स्वयं उस कन्यका को मंजूषा में बंद कर समुद्र में फेंकने की आज्ञा देता है और जनक उसे समुद्र-तट पर प्राप्त करते हैं (दे० पाश्चात्य वृत्तान्त न० १६)। उपर्युक्त कथा का निम्नलिखित रूप भी मिलता है—'एक ब्राह्मण ने किसी बालिका के विषय में रावण से कहा था कि यह तुम्हारे निघन का कारण बनेगी। उस समय से रावण ने उसपर कड़ा पहरा लगा दिया। जब यह कन्यका केवल छ' मास की थी किसी दिन इतने जोरो की वर्षा हुई कि उसके पास के समस्त व्यक्ति पानी में डूबकर मर गये किन्तु वह कन्यका मंजूषा में होने के कारण जल प्रवाह के द्वारा सिंहलद्वीप से दूर किसी नदी के पुलिन पर पहुँच गई। कहा जाता है कि इस कन्या ने बाद में उस राम से विवाह कर लिया, जिसके द्वारा रावण की हत्या हुई।'।

४१४. भारत के निकटवर्ती देशों की राम-कथाओं में इससे मिलती-जुलती कथाएँ पाई जाती हैं। तिब्बती और खोस्तानी रामायणों में (जो सम्भवतः नवीं शताब्दी के हैं) रावण की पुत्री अपनी जन्मकुडली के कारण परित्यक्त की जाती है और उसे एक पेटिका में रखकर जल में फेंक दिया जाता है। किन्तु जनक के स्थान पर तिब्बती ग्रंथ के

१. दे० सी० नीबुहर : वायाज अन अरावी, भाग २, पृ० २२। रंगनाथ रामायण (१, ३२) और रामायण मसीही में भी सीता के एक मंजूषा में पाए जाने का वर्णन मिलता है (दे० अनु० ३०९)। स्वायंभू रामायण में मंदोदरी के गर्भ से सीता के जन्म का वर्णन किया गया है (दे० अनु० २०४)।



अनुसार एक कृष्क तथा स्रोतानी ग्रंथ के अनुसार एक ऋषि उस कन्या की रक्षा और भरण-पोषण करते हैं।

४१५. जावा के सेरत कांड में भी रावण की महिषी एक पुत्री को जन्म देती है जो श्री का अवतार थी। माता को मालूम हुआ था कि यदि उसकी संतान पुत्री है तो वह भविष्य में रावण की प्रेमिका बनेगी। इस कारण माता अपनी पुत्री को एक पेटिका में बन्द करके समुद्र में फेंकवाती है। बाद में मतिलि निवासी कल नामक एक ऋषि उस शिशु को पाते हैं, उसे पालते हैं और उसका नाम सीता रखते हैं। समुद्र में प्रक्षिप्त शिशु की स्थानपूर्ति के लिए चिबीसन (विभीषण) नामक जादूगर बादलों से एक शिशु को खींचता है; इससे उसका नाम मेघनाद रखा जाता है। इस कथा में 'मंतिली' शब्द मिथिला का स्मरण दिलाता है; इस तरह स्पष्ट होता है कि इस वृत्तान्त का संबंध वाल्मीकीय सीता-जन्म-कथा से है।

सेरी राम के पातानी पाठ के अनुसार रावण की महिषी एक कन्यका को जन्म देती है जिसके मुँह का तालू काला है। इस कारण ज्योतिषी कन्या को अशुभ मानते हैं और वह समुद्र में फेंकी जाती है। एक मकर उसे डूबने से बचाता है और मरुतो से प्रार्थना करता है कि वह उसे उठा ले। इसपर मरुत उसे एक ऋषि की वाटिका में एक पक्ष पर रख देते हैं। ऋषि उसे प्राप्त कर उसका पुत्रीवत् पालन करते हैं। इस वृत्तान्त पर पद्यज्ञा सीता की कथा का भी प्रभाव पड़ा है (दे० अनु० ४१८)।

४१६. कम्बोदिया के रामकौस्तिक के अनुसार जनक यमुना के तीर पर यज्ञ के लिए हल चलाते हुए सीता को एक बड़े पर देखते हैं और उसे प्राप्त करके पुत्री के रूप में स्वीकार करते हैं। इस कथा में इसका निर्देश नहीं किया गया है कि सीता कहीं से आई किन्तु एक तो रामकौस्तिक की हस्तलिपियाँ अपूर्ण हैं तथा दूसरे राम कियोम में, जो रामकौस्तिक पर निर्भर माना जाता है, लंका का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अतः रामकौस्तिक की कथा भी सीता-जन्म-कथाओं के प्रस्तुत वर्ग के अंतर्गत रखी जा सकती है।

श्याम देश के राम कियोम में सीता की जन्म-कथा का विस्तार-सहित वर्णन किया गया है। दशरथ-यज्ञ के पायस का अष्टमांश खाकर मवोदरी एक कन्यका को जन्म देती है जो वास्तव में लक्ष्मी का अवतार है (दे० ऊपर अनु० ३५७)। विभीषण आदि ज्योतिषियों से यह जानकर कि यह कन्यका मेरे वंश का नाश करेगी रावण उसे विभीषण की देता है। विभीषण उसे एक घड़े में रखकर नदी में फेंकवाता है। नदी में एक कमल उत्पन्न होता है जो घड़े का आधार बन जाता है। लक्ष्मी की दिव्य शक्ति से यह घड़ा जनक के पास पहुँचता है। जनक उस समय वन में नदी के किनारे पर तप

करते हैं। घडा उठाकर वह उसे वन ले जाते हैं तथा एक पेड़ के नीचे खोदकर यों प्रार्थना करते हैं—‘यदि यह कन्या राजा के रूप में नारायणावतार की रानी बनने वाली है तो इस स्थान पर एक कमल उत्पन्न हो जो उस घडे को ग्रहण कर सके’। उसी क्षण एक कमल उत्पन्न होता है, जनक उमपर घड़ा रखकर और उसे मिट्टी से ढँककर पुनः तपस्या करने जाते हैं। इस तपस्या में सतोष न पाकर जनक १६ वर्ष के बाद अपनी राजधानी लौटने का निश्चय करते हैं, किन्तु ढूँढ़ने पर भी वह उस घडे को कहीं भी नहीं पाते हैं। सेना बुलाई जाती है लेकिन सैनिक भी खोज में असफल हैं। अंत में जनक हल चलाने जाते हैं और घडा अपने आपसे हलपद्धति में प्रकट होता है। इसमें एक अत्यन्त सुन्दर युवती पथ पर बँठी हुई दिखाई पड़ती है। सीता से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सीता रखा जाता है (दे० अध्याय १०)। इस मिश्रित वृत्तान्त में गुणभद्रकृत उत्तर-पुराण तथा हिंदेमिया की सीता-जन्म की कथाओं के समन्वय का प्रयत्न किया गया है तथा साथ-साथ पद्मजा सीता के वृत्तान्त का भी सहारा लिया गया है।

४१७. श्याम के रामजातक तथा पालक पालाम में सीता को इंद्राणी का अवतार माना गया है। रामजातक के अनुसार रावण ने इंद्र का रूप धारण कर इंद्राणी को धोखा दिया। प्रतिकार के उद्देश्य में वह मदोदरी के गर्भ से जन्म लेती है। विभीषण के परामर्श के अनुसार शिशु को त्यक्त किया जाता है और एक ऋषि उसे प्राप्त करके उसका पालन-पोषण करते हैं। पालक पालाम में रावण इंद्र के यहाँ इंद्रजाल की शिक्षा ले रहा था। इंद्राणी ने सीता के रूप में जन्म लेकर अपने पिता रावण पर छुरी का प्रहार किया; इसपर बालिका को बेड़े पर रखकर समुद्र में बहाया जाता है तथा किसी टापू पर रहने वाले ऋषि उसको पुत्रीवत् पालते हैं।

### (आ) पद्मजा सीता

४१८. शंभेंद्र-कृत ब्रह्मावतार-चरित में सीता के जन्म की एक सर्वथा भिन्न कथा वर्णित है। रामायण की भूमिजा सीता की कथा इसमें स्वीकृत है, साथ ही सीता और लक्ष्मी का अभेद भी। लक्ष्मी के अनेक नामों में एक नाम पद्मा है और इस नाम से सम्भवतः पद्मजा सीता की कथा की आधारभूमि तैयार की हो।

रावण एक विशिष्ट स्थान पर बार-बार ज्मता है; वह आरम्भ में वहाँ एक पर्वत देखता है, तत्पश्चात् नगर देखता है, फिर जंगल देखता है, उसके बाद एक विस्तृत गड्ढा और अंत में एक कमलयुक्त सुन्दर सरोवर। वहाँ एक लिंग स्थापित कर रावण सरोवर के कमलों से शिव की उपासना करता है। एक कनकपथ पर

उसे एक कन्यका दृष्टिगत होती है जो लक्ष्मी ही है। वह उसे पुत्री के रूप में ग्रहण कर लंका ले आता है और मंदोदरी को दे देता है। नारद एक दिन मंदोदरी के यहाँ पहुँचते हैं और उसकी गोद में उस कन्यका को देखकर कहते हैं कि यह कन्या बाद में रावण की प्रेमपत्नी बनेगी (कन्या भविष्यति अभिलाषभूमि ज्यल्लेखस्य)। यह सुनकर मंदोदरी उस कन्यका को स्वर्ण पेटिका में बंद करके किसी दूर देश में गाड़ आने का आदेश देती है। यज्ञ के लिए स्वर्ण हल चलाते हुए जनक उसे प्राप्त करते हैं (दे० ७०-१०४)।

तोरवे रामायण (१, १६) का निम्नलिखित वृत्तान्त संभवतः इस कथा से प्रभावित हुआ है। हल जोतते समय जनक ने पृथ्वी के नीचे कमलों का एक सरोवर पाया तथा वहाँ एक सुवर्ण पद्म पर विराजमान एक शिशु को देखा। इस अलौकिक दृश्य से भयभीत होकर जनक लक्ष्मी के इस पवित्र स्थान को छोड़ देने की बात सोच रहे थे कि नारद आ पहुँचे। मुनि ने जनक को यह आदेश दिया—“सीता नाम रखकर इस शिशु का पालन करो; विष्णु भी अवतार लेने वाले हैं और सीता को पत्नीस्वरूप ग्रहण करेंगे। समय आने पर तुम इसके स्वयंवर का आयोजन करना तथा शिव-धनुष चढ़ाने वाले को इसका पति घोषित करना।”

४१९. सीता की उत्पत्ति की यह कथा बहुत प्रचलित नहीं है। फिर भी सेरी-राम के पातानी पाठ तथा राम कियेन के वृत्तान्ती पर इसका प्रभाव पडा है। इसके अतिरिक्त वाल्मीकि रामायण के टीकाकार गोविंदराज के पाठ में भी यह पाई जाती है। उसके अनुसार वेदवती एक पृथ्वी में पुनः उत्पन्न होती है। रावण उसे पद्म पर बँधे हुए देखता है और अपने यहाँ ले जाता है। एक लक्षणज्ञ मंत्री उसे चेतवनी देता है कि वह कन्या उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनकर रावण उसे समुद्र में फेंक देता है। कन्या बच जाती है और जनक द्वारा पाई जाती है।<sup>१</sup>

(इ) रक्तजा सीता

४२०. सीता-जन्म की अनेक अर्वाचीन कथाओं में सीता ऋषियों के रक्त से उत्पन्न मानी जाती है। अब्भुत रामायण में इस कथा का प्रथम तथा विस्तृत वर्णन मिलता है (दे० सर्ग ८)।

रावण दिग्विजय करते-करते दंडकारण्यवासी ऋषियों से राजकर लेता है। द्रव्य के अभाव में वे रावण को कुछ रक्त की बूँदें प्रदान करते हैं जो ऋषि गुत्समद के पात्र में एकत्र किया जाता है। उस पात्र में कुश का किंचित् रस था जिसमें गुत्समद

१. दे० रामायणम्। गुजराती प्रिंटिंग प्रेस, उत्तर कांड, सर्ग १७, श्लोक ३३ के बाद का प्रक्षेप।

के मंत्रों के फलस्वरूप लक्ष्मी विद्यमान थीं। रावण उस पात्र को लंका ले जाता है और मंदोदरी को उसे यह कह कर दे देता है: 'इसमें तीव्र विष भरा है'। कुछ समय बाद रावण दूसरी विजययात्रा के लिए चला जाता है। यह सुनकर कि रावण परस्त्रियों के साथ रमण करता है मंदोदरी आत्महत्या के विचार से उस रक्त का पान कर लेती है और गर्भवती हो जाती है। इसपर वह तीर्थयात्रा के लिये निकलती है और गर्भपात करके कुष्क्षेत्र में भ्रूण गाढ देती है। बाद में जनक के यज्ञ के लिए वहाँ हल जोतते समय एक कन्या भूमि से निकलती है। जनक उसे पुत्रीवत् ग्रहण कर उसका नाम सीता रखते हैं।

४२१. उपर्युक्त कथा का निर्देश सिंहल द्वीप की राम-कथा में भी मिलता है।<sup>१</sup> भारत में इसके भिन्न-भिन्न रूप पाए जाते हैं। एक कथा के अनुसार मंदोदरी केवल जिज्ञासा से प्रेरित होकर कतिपय रक्तबिंदुओं का पान कर लेती है और फलस्वरूप बाद में एक कन्या को जन्म देती है। रावण के कोप की आशंका से वह उस शिशु को उसी रक्त के पात्र में रखकर समुद्र में छोड़ देती है। जनक के राज्य में पहुँचकर कन्या कृषकों द्वारा जनक के पास ले जाई जाती है।<sup>२</sup>

उत्तरभारत की एक अन्य कथा इस प्रकार है। जनक ने महादेव के धनुष के प्रभाव से रावण को कई बार पराजित किया था। अद्भुत रामायण के वृत्तान्त के अनुसार रावण राजस्व के स्थान पर ऋषियों का रक्त लेता है। इसपर ऋषि शाप देते हैं कि इस रक्त से तुम्हारा नाश होगा। रावण उस शाप की अवज्ञा करता है और उस रक्त को एक घड़े में रखकर उसे लंका ले जाता है। उस समय से लंका के राज्य में अनावृष्टि आदि अनिष्ट घटित होते हैं। शास्त्री रावण से कहते हैं कि जब तक यह रक्त लंका में विद्यमान है विपत्तियों का अन्त नहीं होगा। यह सुनकर रावण जनक से प्रतिकार लेने के उद्देश्य से उस घड़े को मिथिला में गडवाता है। अब वहाँ भी वे ही अनिष्ट घटित होने लगते हैं। मन्त्री राजा को रानी के साथ जाकर हल जोतने का परामर्श देते हैं। ऐसा करते हुए जनक उस घड़े को प्राप्त करते हैं जिसमें ऋषि-रक्त से उत्पन्न सीता दिखलाई पड़ती है। इसके बाद सब अनर्थ शांत हो जाते हैं (दे० पादचात्य वृत्तान्त नं० १३)। अन्यत्र भी इसका उल्लेख किया गया है कि मिथिला में रक्त गाड़ा गया था, कन्या नहीं।<sup>३</sup>

१. दे० ई० एं० भाग ४५, सप्लेमेंट।

२. दे० सेक्रेड बुक्स ऑव दि हिन्दूस, भाग २६, पृ० २३९।

३. दे० सेक्रेड बुक्स ऑव दि हिन्दूस, वही, दूसरी कथा। बिहोर राम-कथा में भी उपर्युक्त कथा का निर्देश मिलता है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि अनावृष्टि के निवारण के लिए हल जोतते हुए जनक को सीता मिल गई थीं।

( ई ) अग्निजा सीता

४२२. लंका के साथ सीता के सम्बन्ध का अंतिम रूप आनन्द रामायण में उपलब्ध है। सीता-जन्म का यह वृत्तान्त वेदवती की कथा पर आधारित प्रतीत होता है। कठोर तपस्या के उपरान्त राजा पद्माक्ष ने लक्ष्मी को पुत्रीरूप में प्राप्त किया था और उसका नाम पद्मा रखा था। पद्मा के स्वयंवर के अवसर पर मुद्ग हुआ और उसका पिता पद्माक्ष मारा गया। यह देखकर पद्मा ने अग्नि में प्रवेश किया। एक दिन वह अग्निकुंड से निकलकर रावण द्वारा देखी जाती है जिस पर वह शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश करती है। किन्तु रावण अग्नि को बुझा देता है और उसकी राख में पांच दिव्य रत्न देखकर उन्हें एक पेटिका में रख देता है और लंका ले जाता है। लंका में कोई भी उस पेटिका को उठा नहीं सकता है। उसे खोला जाता है और उसमें एक कन्यका मिलती है। मदीदरी के परामर्श से यह पेटिका मिथिला में गाड़ दी जाती है। बाद में उसे एक शूद्र पाता है जो एक ब्राह्मण के लिए खेती कर रहा था। वह ब्राह्मण, जनक को वह पेटिका प्रदान करता है और उसे खोलकर तथा उसमें एक कन्या को देखकर उनको उसे पुत्रीरूप में स्वीकार करते हैं।<sup>१</sup>

( उ ) फल तथा वृक्ष से उत्पन्न

४२३. दक्षिण भारत के एक वृत्तान्त के अनुसार लक्ष्मी एक फल से उत्पन्न होती है और वेदमुनि नामक एक ऋषि द्वारा उनका पालन-पोषण होता है। उनका नाम सीता है और बाद में वह समुद्रतट पर तपस्या करने जाती है। उनके सौंदर्य के विषय में सुनकर रावण उनके पास पहुँचता है जिस पर वह अग्नि में प्रवेश कर भस्मीभूत हो जाती है। राख को एकत्र कर वेदमुनि उसे एक स्वर्णयष्टि में बंद कर देता है। बाद में यह यष्टि रावण के पास पहुँच जाती है जो उसे अपने कोषागार में रख देता है। कुछ समय के उपरान्त उस यष्टि से आवाज सुनाई पड़ती है। उसे खोला जाता है और उसमें एक लघु कन्यका के रूप में परिणत सीता दिखाई देती है। ज्योतिषी कहते हैं कि यह कन्या सिंहल के नाश का कारण सिद्ध होगी; इस कारण रावण उसे एक स्वर्ण मंजूषा में बंद करके समुद्र में फेंक देता है। यह मंजूषा लहरों पर तैरती हुई बंगाल की ओर बह जाती है और गंगा में प्रविष्ट होकर एक खेत तक पहुँच जाती है। वहाँ ऋषक उसे देखते हैं और अपने राजा को दे देते हैं।<sup>२</sup>

१. दे० आ० रा० १, ३, १८८-२७५। पाश्चात्य वृत्तान्त नं० ९ में भी वही कथा पाई जाती है लेकिन वह अपूर्ण रह गई। भाषार्थ रामायण की अग्निजा सीता विषयक कथा आनन्द रामायण पर निर्भर है (दे० १, १५)।

२. दे० पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १९, भाग १३, पृ० १३९।

इस कथा में वेदवती के वृत्तान्त का प्रभाव स्पष्ट है। जिस फल से सीता का जन्म माना गया है वह अवश्य सीताफल ही है।

४२४ अच्युतानन्द के हरिवंश (पृ० ९९०) तथा दक्षिण भारत के एक वृत्तान्त में द्रौपदी की उत्पत्ति की कथा का अनुकरण किया गया है। महाभारत में द्रौपदी वेदों से उत्पन्न मानी गई है (दे० १ १५५ ४१ कुमारी चापि पांचाली वेदिमध्यात्समुत्पिता)। अच्युतानन्द के अनुसार सीता जनक की पुत्रष्टि के अग्निकुंड से उत्पन्न हुई थी।

दक्षिण भारत की कथा इस प्रकार है। योगी का रूप धारण कर ईश्वर लवा में निवास करते हैं और उसमें अनकानक उत्पात करते हैं। बाद में वह नगर के एक फाटक पर पहुँचा देना स्वीकार करते हैं। वहाँ वह बहुत राख एकत्र करते हैं जिसमें से एक बहुत ऊँचा पेड़ उत्पन्न होता है। इसके बाद योगी चले जाते हैं और रावण उस पेड़ को चार टुकड़ों में काटकर समुद्र में बहा देना का आदेश देता है। एक टुकड़ा जनक के राज्य में पहुँचता है। मंत्री उसे यज्ञ की अग्नि में जलान का परामर्श देते हैं। ऐसा किय जान पर सीता एक धनुष के साथ साथ अग्नि से उत्पन्न हो जाती है। धनुष में लिखा है—जो धनुष तोड़गा उसी के साथ इस कन्या का विवाह होगा (दे० पा० वृ० न० १)।

४२५ ब्रह्मवृक्ष (दे० अनु० ३२८) की कथा में भी यह माना गया है कि सीता एक वृक्ष से उत्पन्न हुई थी। रावण की बाटिका के एक वृक्ष से किसी दिन एक कन्यका पैदा हुई। माली उसे रावण के पाम ल गया। रावण को देखकर कन्या ने यक्षिणी का रूप धारण कर लिया। इस पर रावण ने उसे घड में बंद कर समुद्र में बहा दिया। वह घडा कन्नक नामक नगर के पास समन्द्रतट पर जा पहुँचा। वहाँ के राजा को कोई सन्तान नहीं थी किसी ऋषि ने उस राजा को उस घडा का रहस्य बता दिया। राजा ने जाकर उसे प्राप्त किया तथा उसमें से कन्या को निकालकर अपनी ही पुत्री की तरह उसका पालन-पोषण किया।

### (ऊ) उपसंहार

४२६ सीता जन्म के य समस्त विभिन्न रूप वाल्मीकि रामायण में वर्णित भूमिजा सीता के अलौकिक जन्म की घटना को स्वीकार करते हैं। उन वृत्तान्तों पर वेदवती की कथा की प्राय गहरी छाप पाई जाती है, जिनमें यह प्रभाव स्पष्ट नहीं है वे सीता तथा लक्ष्मी के अमद को स्वीकार करते हैं और उनकी उत्पत्ति वाल्मीकि के बहुत बाद ही सम्भव हुई होगी। अतः वाल्मीकि रामायण में वर्णित भूमिजा सीता की जन्मकथा और वेदवती के वृत्तान्त को ही सबसे प्राचीन और अन्य जन्मकथाओं

कात्रीज तथा आचार मानना सर्वथा युक्तिसंगत प्रतीत होता है। वेदवती का वृत्तान्त भूमिजा सीता की जन्मकथा की एक प्रतिमात्र है। सम्भवतः सीता की कुल-परम्परा-सम्बन्धी तथ्यों के अभाव की पूर्ति करने के उद्देश्य से भूमिजा सीता के वृत्तान्त की सृष्टि की गई हो। सम्भव है कि सीता कृषि की अभिष्टानी देवी के व्यक्तित्व का प्रभाव भूमिजा सीता के वृत्तान्त पर पडा है। किन्तु अधिक सम्भव यह है कि सीता के नाम के (उसका कारण अर्थ लागलपद्धति है) भूमिजा सीता का वृत्तान्त उत्पन्न हुआ है।<sup>१</sup>

### घ। दशरथात्मजा

४२७. दशरथ जातक मे राम, लक्ष्मण और सीता दशरथ की महिषी की सन्तान हैं। उस महिषी के मरने के पश्चात् ही नवीन पटरानी भरत को जन्म देती है। सर्वप्रथम डॉ० ए० वेबर ने और उनके बाद बहुत से विद्वानों ने दशरथ जातक को राम-कथा का प्राचीनतम रूप माना है। इस समस्या का पूरा विश्लेषण निबन्ध के छठे अध्याय मे किया गया है। निष्कर्ष यह निकला है कि दशरथ जातक का कथानक या तो रामायण ही पर अथवा रामायण से मिलती-जुलती किसी अन्य राम-कथा पर निर्भर है। प्रस्तुत विश्लेषण से स्पष्ट है कि सीता-जन्म-संबंधी कथाएँ जो बाल्मीकि रामायण से भिन्न हैं और विशेष रूप से वे कथाएँ जिनमे रावण सीता का पिता माना गया है इन सब कथाओं का आधार बाल्मीकि रामायण का वेदवती का वृत्तान्त ही है। अतः उन विद्वानों का यह मत जिसके अनुसार सीता प्रथम दशरथ की पुत्री, बाद में रावण की पुत्री और अंत में अयोनिजा मानी गई हैं सर्वथा निर्मूल सिद्ध होता है।<sup>१</sup>

४२८. अत मे सीता जन्म का एक अन्य रूप भी प्रस्तुत करना है जिसमें वह दशरथ की पुत्री मानी गई है। यह रूप हिंदेशिया की निम्नलिखित राम-कथाओ मे मिलता है : जावा का राम कैलिंग, मलय का सेरी राम तथा हिंकायत महाराज रावण। इसका अन्यत्र कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है; कथा इस प्रकार है :

१. अंत में सिंहलद्वीप की एक कथा का उल्लेख भी आवश्यक है जिसके अनुसार एक देवी के वस्त्र स्नान करते समय चुरा लिये गये थे; राम ने उसे अन्य वस्त्र देकर उससे विवाह कर लिया। दे० ई० ए० भाग ४५, सप्लेमेट।
२. दे० डब्लू० स्टूटरहाइम · राम-लेगेन्डन उरु राम-रेलिफ्स इन इंडीनेजियन, पृ० १०५। जे० विलुस्की. इ० हि० क्वा० भाग १५, पृ० २८९। उडीसा में वहाँ के मुख्य इष्टदेवताओं के कारण सीता को सुभद्रा से अभिन्न माना गया है (दे० ऊपर अनु० ३६२)। इसमें दशरथ जातक का प्रभाव देखना अनावश्यक है।

दशरथ की पटरानी मंदोदरी के सौंदर्य का वर्णन सुनकर रावण दशरथ के पास जाता है और मंदोदरी की याचना करता है। मंदोदरी यह देखकर कि उसका पति उसे दे देने को समुद्यत सा हो रहा है अपने भवन में जाती है और जादू के द्वारा एक दूसरी मंदोदरी उत्पन्न करती है जिसे रावण ले जाता है। बाद में वास्तविक मंदोदरी से सच वृत्तान्त सुनकर दशरथ खबड़ाते हैं। यह नई मंदोदरी अक्षतयोनि है जिससे रावण को धोखे का पता चलेगा। अनन्तर दशरथ लका जाते हैं और छिपकर उस नवीन मंदोदरी से मिलते हैं। बाद में रावण-मंदोदरी का विवाह मनाया जाता है और मंदोदरी के एक पुत्री उत्पन्न होती है। उसकी जन्मकुण्डली से पता चलता है कि उसका पति रावणहंता सिद्ध होगा, अतः पेटिका में बंद करके उसे समुद्र में फेंका जाता है। महर्षि कली उसे पाते हैं और उसका पालन-पोषण करते हैं।

ये महर्षि कली जावा के सेरत कांड के ऋषिकल ही प्रतीत होते हैं, जिसको वहाँ मंतिलि (मिथिला) का निवासी बताया गया है। दशरथ की पत्नी के रूप में मंदोदरी का उल्लेख अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता। यह असम्भव नहीं है कि ऐसी कल्पना दशरथ जातक के कारण उत्पन्न हुई हो जिसमें सीता को दशरथ की पुत्री माना गया है। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि यह वृत्तान्त रावण द्वारा पार्वती के स्थान पर मंदोदरी को प्राप्त करने की कथा का विकृत रूप है (दे० आगे अनु० ६५०)।

इस कथा का उत्तरार्द्ध जावा के सेरत कांड से और उपर्युक्त अन्य कथाओं से मिलता-जुलता है, जिनमें सीता रावण-मंदोदरी की पुत्री मानी गई हैं।



## अध्याय १५ अयोध्याकांड

### १—बाल्मीकीय अयोध्याकांड

४२६ क। अयोध्याकांड की कथावस्तु।

(१) राम का निर्वासन (सर्ग १-४४)

पुनरावृत्ति : भरत और शत्रुघ्न का अश्वपति के यहाँ रहना, राम की लोकप्रियता और गुणकथन (सर्ग १, १-३४)।

राम के युवराज्याभिषेक की तैयारी (सर्ग १, ३५ से सर्ग ६ तक)।

मंथरा-कैकेयी-संवाद—दो वर माँगने के विषय में मंथरा की सफलता (सर्ग ७-९)।

दशरथ-कैकेयी-संवाद—दशरथ द्वारा दो वरों की स्वीकृति (सर्ग १०-१४)।

दशरथ के पास राम का आगमन—दशरथ के सम्मुख कैकेयी का समाचार-कथन (सर्ग १५-१९)।

राम-कौशल्या-संवाद—लक्ष्मण और कौशल्या द्वारा निर्वासन का विरोध। राम का उनको समझाना। कौशल्या द्वारा विदा और मंगलाकांक्षा (सर्ग २०-२५)।

राम-सीता-संवाद—वन की भ्रंशकरता से राम का सीता को भयभीत करना; अंत में साथ चलने की स्वीकृति देना (सर्ग २६-३०)। लक्ष्मण का आग्रह और राम द्वारा साथ ले चलने की स्वीकृति (सर्ग ३१)।

प्रस्थान—दान-वितरण, राम का राजा के पास जाना (सर्ग ३२-३४), सुमंत्र के द्वारा कैकेयी की भर्त्सना (सर्ग ३५), दशरथ का राम के साथ सेना भेजने का प्रस्ताव; कैकेयी की आपत्ति (सर्ग ३६)। कैकेयी द्वारा दिए हुए बल्कल का धारण करना (सर्ग ३७)। दशरथ द्वारा कैकेयी की भर्त्सना (सर्ग ३८)। सुमंत्र का रथ लाना, कौशल्या द्वारा सीता की शिक्षा, विदा (सर्ग ३९-४०)। विलाप-कलाप, दशरथ की मूर्च्छा, कौशल्या का विलाप और सुमित्रा का सान्त्वना देना (सर्ग ४१-४४)।

## (२) चित्रकूट की यात्रा (सर्ग ४५-५६)

अयोध्यानिवासी—उनका रथ के साथ जाना; तमसा के पास रात्रि-निवास; उनके सोते समय तीनों का सुमन्त्र के साथ प्रस्थान (सर्ग ४५-४६)। लोगों का विलाप और अयोध्या लौटना (सर्ग ४७-४८)।

गुह—वेदश्रुति और गोमती के पार गुह का मिलन (सर्ग ४९-५०)। लक्ष्मण और गुह का राम का गुणकथन करते हुए रात्रि व्यतीत करना (सर्ग ५१)। सुमन्त्र को विदा करके गुह की नौका पर गंगा पार करना (सर्ग ५२)।

भरद्वाज—राम का विलाप और लक्ष्मण की सान्त्वना; यमुना और गंगा के संगम पर भरद्वाजाश्रम में जाना; भरद्वाज की चित्रकूट-निवास की मन्त्रणा (सर्ग ५३-५४)। यमुना को पार करना, चित्रकूट पहुँचना, वाल्मीकि से मिलन. लक्ष्मण द्वारा एक पर्णशाला का निर्माण (सर्ग ५५-५६)।

## (३) दशरथ-मरण (सर्ग ५७-७८)

सुमन्त्र का लौटना—सुमन्त्र से राम का संदेश सुनकर दशरथ की मूर्च्छा और विलाप। सुमन्त्र द्वारा कौशल्या को सान्त्वना (सर्ग ५७-६०)।

दशरथ-मरण—कौशल्या की भर्त्सना से दशरथ का मूर्च्छित होना (सर्ग ६१-६२)। दशरथ द्वारा अधमुनि-पुत्र-वध की कथा, दशरथ-मरण, विलाप (सर्ग ६३-६६)।

भरत का राज्य अस्वीकृत करना—भरत का बुलाया जाना और अयोध्या-आगमन; कंकेयी द्वारा राज्य-ग्रहण का अनुरोध। भरत की भर्त्सना और मन्त्रियों के सम्मुख राज्य को अस्वीकृत करना तथा उनका कौशल्या से अपने निरपराधी होने का आश्वासन (सर्ग ६७-७५)।

दशरथ की अन्त्येष्टि—भरत द्वारा अन्त्येष्टि-क्रिया और दान-वितरण। भरत और शत्रुघ्न का विलाप, शत्रुघ्न द्वारा भंथरा की ताड़ना (सर्ग ७९-११५)।

## (४) भरत की चित्रकूट-यात्रा (सर्ग ७९-११५)

प्रस्थान—भरत का पुनः राज्य को अस्वीकार करना और यात्रा की आज्ञा देना; सभा में वसिष्ठ का भरत को समझाना परन्तु उनका न मानना, प्रस्थान और शृंगवेरपुर आगमन (सर्ग ७९-८३)।

गुह और भरद्वाज—भरत द्वारा गुह का सदेह-निवारण, गुह; का लक्ष्मण की वार्ता का उल्लेख करना तथा राम का शयन-स्थल दिखलाना (सर्ग ८४-८८); गंगा पार करना। भरद्वाज का तपःशक्ति से आतिथ्य-सत्कार (सर्ग ८९-९२)।

**चित्रकूट आगमन**—चित्रकूट को देखकर भरत का सेना रोकना (सर्ग ९३) । राम द्वारा चित्रकूट और मदाकिनि की शोभा का वर्णन, सेना को निकट आते देख लक्ष्मण का आक्रोश और राम का उनको शांत करना (सर्ग ९४-९७) । भरत और शत्रुघ्न का राम के निकट जाना, राम का कुसल-प्रश्न (सर्ग ९८-१००) ।

**राम द्वारा प्रत्यागमन की अस्वीकृति**—भरत का दशरथ-भरण का समाचार देना और राम से राज्य-ग्रहण का अनुरोध । राम का अस्वीकार करना (सर्ग १०१-१०२) । राम का विलाप और दशरथ के लिए जल-क्रिया करना (सर्ग १०३) । माताओं का आना (सर्ग १०४) । सभा में भरत का अनुरोध और राम की अस्वीकृति (सर्ग १०५-१०७) । जाबालि-वृत्तान्त (सर्ग १०८-१०९), वसिष्ठ का आग्रह भरत द्वारा प्रायोपवेशन की धमकी । लौटने पर राज्यग्रहण का राम द्वारा आश्वासन (सर्ग ११०-१११) । ऋषियों की आकाशवाणी सुनकर भरत का पादुकाएँ लेकर वापस जाना (सर्ग ११२) ।

**भरत का प्रत्यागमन**—भरद्वाज से मिलकर भरत का जन-शून्य अयोध्या में लौटना । राज्यसिंहासन पर पादुकाएँ स्थापित कर भरत का नन्दिग्राम में निवास (सर्ग ११३-११५) ।

#### (५) राम का चित्रकूट से प्रस्थान

राक्षसों के उपद्रव से तपस्वियों का चित्रकूट-त्याग और राम से भी आग्रह, राम का अस्वीकार करना (सर्ग ११६) । बाद में चित्रकूट त्याग कर राम का अत्रि के आश्रम में जाना । सीता-अनसूया-सवाद, अनसूया का माला-बन्ध-आमूषण-अगराग प्रदान करना, सीता का अपना जीवन-वृत्तान्त कहना (सर्ग ११७-११८) । प्रस्थान (सर्ग ११९) ।

### ख । अयोध्याकांड का विश्लेषण

#### तीनों पाठों में विभिन्नता

४३०. कथानक के दृष्टिकोण से अयोध्याकांड के तीन पाठों में कोई महत्त्वपूर्ण अन्तर नहीं पाया जाता है । निम्नलिखित वृत्तान्त केवल दाक्षिणात्य पाठ से मिलते हैं :

- (१) कँकेयी की माता के अपने पति द्वारा त्यक्त किये जाने की कथा (सर्ग ३५) ।
- (२) प्रातः राम को न देखकर अयोध्यावासियों का विलाप (सर्ग ५७) ।

(३) वाल्मीकि से राम, सीता तथा लक्ष्मण की भेंट (सर्ग ५६, १६-१७) ।

इसके अतिरिक्त दक्षिणात्य पाठ का १८वाँ सर्ग गौडीय पाठ में नहीं मिलता तथा १०९ वें सर्ग का पश्चिमोत्तरीय पाठ में अभाव है ।

गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठों में एक ब्राह्मण द्वारा कंकैयी को शाप दिये जाने का उल्लेख है, जिसके फलस्वरूप शापबोधमोहिता कंकैयी ने मंथरा पर विश्वास किया था (गौ० रा० ८, ३३-३७ तथा ५० रा० ११, ३७-४१) ।

केवल पश्चिमोत्तरीय पाठ में कंकैयी के दिग्धाबल प्राप्त करने की कथा मिलती है, जिससे वह दशरथ को बचाने में समर्थ हुई थी (५० रा० ११, ४२ आदि) ।

**प्रक्षेप**

४३१. अयोध्याकांड का कोई भी महत्त्वपूर्ण कथांश प्रक्षिप्त नहीं है । निम्न-लिखित प्रक्षेप उल्लेखनीय है :

(१) प्रथम सर्ग के प्रारम्भिक श्लोक (१-३५) बालकांड के अंतिम श्लोकों की पुनरावृत्ति मात्र होने के कारण प्रक्षिप्त माने जाते हैं ।

(२) डॉ० याकोबी का अनुमान है कि आदिरामायण में राम के प्रस्थान के अनन्तर उनकी चित्रकूट तक की यात्रा का वर्णन किया गया था । अतः सम्भव है कि सर्ग ४१-४९ प्रक्षिप्त हों । सर्ग ५० के प्रारम्भ से पता चलता है कि राम उस समय अयोध्या के निकट ही थे ।

(३) ऐसा प्रतीत होता है कि अंबुनि-पुत्र-वध का प्रसंग आदि रामायण के पूर्व ही प्रचलित था । अतः बहुत संभव है कि सर्ग ६३-६४ की अधिकांश सामग्री प्रक्षिप्त हो (दे० आगे अनु० ४३३) ।

(४) दशरथ की मृत्यु से लेकर भरत के चित्रकूट में आगमन तक की कथा (सर्ग ६६-९३) अपेक्षाकृत अधिक विस्तारपूर्वक वर्णित है तथा इसमें बहुत पुनरावृत्तियाँ भी पाई जाती हैं । अतः यह स्पष्ट है कि यह अंश वाल्मीकिकृत रामायण में इतना विस्तृत नहीं था ।

(५) १००वाँ सर्ग स्पष्टतया प्रक्षिप्त है । इसमें राम भरत से उनके राज्य के विषय में बहुत से प्रश्न पूछते हैं मानो भरत दीर्घकाल तक शासन कर चुके हों; अनन्तर १०१वें सर्ग के प्रारम्भिक श्लोक में कहा गया है कि राम प्रश्न पूछने लगे (प्रष्टुं समुपचकमे) । वास्तव में १००वें सर्ग की सामग्री महाभारत से उद्धृत की गई है (दे० सभापर्व, अध्याय ५०) ।

(६) जाबालि का वृत्तान्त भी निश्चित रूप से प्रक्षिप्त है। राम के अयोध्या न लौटने के दृढ़ सकल्प

प्रवेक्ष्ये बंडकारध्वमहमप्यविलम्बयन् ।

आभ्यां तु सहितो वीर वंदेह्या लक्ष्मणेन च ॥ (१०७, १६)

के पश्चात् भरत के प्रत्युपवेशन का प्रसंग आना चाहिए :

एवमुक्तेन रामेण भरतः प्रत्यनन्तरम् ।

उवाच विपुलोरस्कः स्रुतं परमबुर्भनाः ॥१२॥

इह तु स्थण्डिले शीघ्रं कुशानास्तर सारथे ।

आर्यं प्रत्युत्वेक्ष्यामि याचन्मे संप्रसीवति ॥१३॥ (सर्ग १११)

प्रचलित पाठों में राम के सकल्प के पश्चात् जाबालि लोकायत दर्शन का प्रतिपादन करने लगते हैं (सर्ग १०८)। राम जाबालि को प्रत्युत्तर देकर अपना सकल्प पुनः प्रकट करते हैं (सर्ग १०९, १-२९)। इसके अनन्तर राम के प्रत्युत्तर का सारांश उपजाति छंदों में दोहराया जाता है, (सर्ग १०९, ३०-३९); इस अंश में, जो केवल दाक्षिणात्य पाठ में मिलता है, राम बुद्ध को चोर और नास्तिक कहते हैं। यह समस्त १०९वाँ सर्ग पश्चिमोत्तरीय पाठ में नहीं मिलता। इसके अनन्तर वसिष्ठ राम की बंशावली सुनाकर राज्यभार स्वीकार करने के लिए राम से अनुरोध करते हैं (सर्ग ११०)।

(७) डॉ० याकोबी के अनुसार चित्रकूट से प्रस्थान करने के पश्चात् राम आदि के अत्रि के आश्रम में जाने का वृत्तान्त प्रक्षिप्त है (सर्ग ११७, ५ से कांड के अंत तक)। प्रामाणिक रामायण में बालकांड की घटनाओं का निर्देश नहीं मिलता, लेकिन सीता-अनसूया-संबाद के अंतर्गत लक्ष्मण-उर्मिला के विवाह का उल्लेख किया गया है, यद्यपि अरण्यकांड में लक्ष्मण को अविवाहित कहा गया है। इसके अतिरिक्त इस अंश में अयोनिजा सीता का तथा दक्ष-यज्ञ के अवसर पर बरुण के देवरात को धनुष देने का उल्लेख मिलता है। अन्यत्र देवताओं द्वारा देवरात को धनुष-दान का उल्लेख किया गया है।

(८) उपर्युक्त प्रक्षेपों के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर भी परस्पर-विरोधी बातें पाई जाती हैं, जिससे स्पष्ट है कि आदि-कवि की रचना अपने मूल रूप में हमारे सामने नहीं है। उदाहरणार्थ, राम कौशल्या से कहते हैं कि मैं वन में मांस का सेवन नहीं करूँगा :

कन्दमूलफलंजीवन्हित्वा धुनिवदानिष्यम् (सर्ग २०, २९)

लेकिन आगे चलकर राम के मांस खाने का कई स्थलों पर उल्लेख किया गया है (दे० अयोध्या कांड ५२, १०२; ५४, १७, ५५, ३२; ९६, १-६)।

## २—अयोध्या काण्ड का विकास

४३२. अयोध्याकाण्ड के कथानक का अधिक विकास नहीं हुआ है। इसकी प्रधान कथावस्तु राम का निर्वासन है; इससे सम्बन्ध रखनेवाली सामग्री तीसरे परिच्छेद में रखी गई है। यहाँ पर अयोध्याकाण्ड के कुछ अन्य प्रसंगों पर विकास की दृष्टि से विचार किया जायगा।

### क। राम की चित्रकूट-यात्रा

पउमचरियं को छोड़कर जहाँ वन-भ्रमण का विस्तृत वर्णन किया गया है, (पर्व ३३-४२), राम की इस यात्रा के वर्णन में अधिक परिवर्तन नहीं मिलता।

(१) जावा के रामायण कर्कबिन् (३, १५) के अनुसार राम ने सुमंत्र को भी अन्य नागरिकों के साथ छोड़ दिया तथा लक्ष्मण और सीता के साथ छिपकर वन की ओर चल दिए। सेरी राम में अयोध्या से राम के चले जाने के तुरन्त बाद दशरथ मर जाते हैं किन्तु राम उनकी अत्येष्टि के लिए लौटना अस्वीकार करते हैं। रात में राम अपना दिव्य रथ अयोध्या वापस भेजकर सीता और लक्ष्मण के साथ वन की ओर प्रस्थान करते हैं। प्रातःकाल जनता राम को न देखकर रथ के चिह्नों पर चलते हुये अयोध्या में लौटती है।

(२) महाभारत के रामोपाख्यान में गुह का उल्लेख नहीं किया गया है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम चित्रकूट की यात्रा करते समय अपने सखा गुह (निषादों के राजा) के यहाँ पहुँचकर वहाँ रात बिताते हैं। गुह लक्ष्मण तथा सुमंत्र के साथ रात भर सोते हुये राम और सीता की रक्षा करता है तथा अगले दिन नौका मंगाकर राम-सीता-लक्ष्मण को गंगा के उस पार पहुँचाता है। अनेक परवर्ती रचनाओं में इस स्थान पर केवट का वृत्तान्त रखा गया है और इसी की टीका पर राम गंगा पार करते हैं। सेरी राम के अनुसार राम ने बहुत समय तक किकूकन तथा उनकी पत्नी माई रानी सूरी का आतिथ्य-सत्कार ग्रहण किया था। रामचरितमानस के अनुसार गुह यमुना तक राम के साथ चला आया था।

राम तथा गुह की मंत्री का वर्णन तथा गुह के पूर्व जन्म की कथा बालकाण्ड के अन्तर्गत रखी गई है (दे० अनु० ३८४)। अध्यात्म रामायण (६, १६, १८) तथा

परवर्ती राम-कथाओं में राम के अभिषेक के अवसर पर गुह की उपस्थिति का उल्लेख मिलता है ।

(३) राम के चरण धोने का अनुरोध करने वाले केवट का प्राचीनतम उल्लेख महानाटक में मिलता है (दे० ३, २०) । उस नाटक में अहल्योद्धार का वृत्तान्त राम की चित्रकूट-यात्रा के वर्णन में रखा गया है तथा अहल्योद्धार के अनन्तर ही केवट का प्रसंग आ गया है । अधिकांश रचनाओं में अहल्या के उद्धार की कथा बालकाण्ड में मिलती है : अतः केवट का वृत्तान्त भी बहुधा उसी काण्ड के अंतर्गत रखा गया है, उदा० अध्यात्म रामायण (१, ६), आनन्द रामायण (१, ३, २४-२८), रामरहस्य (सर्ग ४), कृत्तिवास रामायण (१, ६०) । सारलादास महाभारत (सभापर्व पृ० २१७), बलरामदान रामायण, सूरसागर, रामचरितमानस तथा कवितावली में महानाटक के अनुसार ही केवट की कथा चित्रकूट यात्रा के अन्तर्गत मिलती है । राम-लिंगामृत में इसका वर्णन राम और लक्ष्मण के सीता की खोज करने समय किया गया है (सर्ग ६) । कहा जाता है कि चान्द्र रामायण में केवट के पूर्वजन्म की कथा का वर्णन है (दे० ऊपर अनु० २०२) ।

(४) वाल्मीकि से राम के मिलने जाने का वृत्तान्त वाल्मीकीय दक्षिणात्य पाठ के एक प्रक्षेप में पाया जाता है । अध्यात्म रामायण में वाल्मीकि इस अवसर पर रामनाम का महत्त्व दिखलाने के उद्देश्य से अपनी आत्मकथा सुनाते हैं (दे० २, ६, ४२-८८), रामचरितमानस में भी राम और वाल्मीकि की भेंट का वर्णन किया गया है ।

(५) तुलसीदास ने एक तापस की वन्दना तथा सीता के साथ ग्राम-वधुष्टियों का संवाद चित्रकूट की यात्रा के वर्णन के अन्तर्गत रखा है । इन दोनों प्रसंगों का उल्लेख अन्य रचनाओं में भी मिलता है । धर्मलण्ड (अध्याय ९८) के अनुसार शिव ब्राह्मण का रूप धारण कर राम से मिलने आते हैं; महानाटक (३, १५-१६) तथा बलरामदास रामायण में सीता तथा ग्रामवासियों के संवाद का विवरण दिया गया है । आनन्दरामायण (१, ६, ७४) में भी इसका उल्लेख है कि इंद्रादि देवताओं ने मार्ग में राम का सत्कार किया था ।

### ख । अंधमुनि-पुत्र-वध

४३३. बौद्ध साम्भ्रातक में बनारस के राजा पिलियक द्वारा अन्ये दुकूलक तथा पारिका के पुत्र साम के वध का वर्णन किया गया है (दे० ऊपर अनु० ८४) । इसमें दशरथ का निर्देश नहीं मिलता जिससे प्रतीत होता है कि अंधमुनि-पुत्र-वध का वृत्तान्त राम-कथा से स्वतंत्र रूप में प्रचलित था । वाल्मीकि रामायण (सर्ग ६३-६४)

में दशरथ राम के निर्वासन के बाद कौशल्या को अपनी मृत्यु के कारण के विषय में निम्नलिखित कथा सुनाते हैं—“मैं तुमसे विवाह करने के पूर्व किसी समय रात्रि में सरयू के तीर पर मृगया खेलने गया था। उस समय एक तपस्वी अपने अन्धे माता-पिता के लिये घड़े में पानी भरने आया। उसे हाथी समझकर मैंने उसे शब्दबेधी वाण से आहत किया। समीप आने पर उस तपस्वी ने अपना परिचय दिया और मुझे आश्रम का रास्ता बताकर निवेदन किया कि मैं उसके शरीर से वाण निकाल लूँ। मेरे वाण निकालते ही वह मर गया। तब मैं घड़ा लेकर उसके माता-पिता के पास आया और दुर्घटना का समाचार सुनाया। उसके माता-पिता के अनुरोध करने पर मैं उन्हें उनके पुत्र के पास ले गया और उन्होंने पुत्र की उदकक्रिया को सम्पन्न किया। उसके बाद ही वह दिव्य रूप धारण कर एक विमान पर दिखाई पड़ा तथा अपने माता-पिता को शीघ्र ही अपने पास आने का निमन्त्रण देकर स्वर्ग चला गया। अनन्तर अन्धमुनि मुझे यह शाप देता हुआ अपनी पत्नी के साथ चिता की अग्नि में प्रवेश कर गया :

पुत्रव्यसनजं दुःखं यदेतन्मम सांप्रतम् ।

एवं त्वं पुत्रशोकेन राजन्कालं करिष्यसि ॥५४॥ (सर्ग ६४)

रामायण के दक्षिणात्य पाठ में उस पुत्र के नाम का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन अन्य पाठों में उसका नाम यज्ञदत्त रखा गया है (दे० गी० रा० ६६, ६; प० रा० ७०, ६)। आगे चलकर उसके अन्य नाम भी प्रचलित हो गये हैं—**श्वषण** (आनन्द रामायण १, १, ८८), **श्वषणकुमार** (दे० ब्रह्मपुराण अध्याय १२३) अथवा **श्वषण** (दे० काश्मीरी रा०, भावार्थ रा०, आदि); **सिन्धु** (दे० पद्मपुराण, गौडीय पाताल खण्ड, अध्याय १४; कृत्तिवास का रामायण; माधवदेव का असमीया बालकाण्ड); **सुरेचन**<sup>१</sup>, **ताण्डव** (तोरवे रामायण)।

वाल्मीकि रामायण के तीनों पाठों के अनुसार उसकी माता बूढ़ा है; केवल गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठ उसके पिता को ब्राह्मण मानते हैं—**ब्राह्मणेन त्वहं ज्ञातः शूद्रायां** (गी० रा० ६५, ४३)। दक्षिणात्य पाठ के अनुसार इसका पिता वैश्य ही माना गया है—**शूद्रायां वैश्येन ज्ञातो नरवरराजिषि** (दा० रा० ६३, ५१)।

आगे चलकर इसका प्रायः उल्लेख किया गया है कि वह ब्राह्मण नहीं है :

द्विजेतरतपस्विषुत (रघुवंश ९, ७६) ।

न ब्रह्महा त्वं (उदारराचन सर्ग १) ।

ब्रह्महत्या स्पृशेन्न त्वां वैश्याञ्छूँ तपसि स्थितः (अध्यात्म रा० २, ७, २७) ।

आनन्द रामायण में भी उसे वैश्य माना गया है (दे० १, १, ८८) ।

१. दे० कम्बररामायण २, ७९। सुरेचन के तीन पूर्वजनों का भी उल्लेख है, जिनमें उसका नाम क्रमशः काश्यप, वृशेश और चलभोज था।



परवर्ती वृत्तान्तों में इस कथा को अनेक प्रकार से विस्तार दिया गया है। रंगनाथ रामायण (२, २२) में यज्ञदत्त विमान पर से अपने पिता से निवेदन करता है कि वह दशरथ पर क्रोध न करें। अस्तमीया बालकाण्ड (अध्याय १५) में अधकमुनि ऋष्यभृंग को बुलाकर पुत्र-प्राप्ति के उद्देश्य से यज्ञ करने का परामर्श दशरथ को देते हैं। इसके अतिरिक्त वह दशरथ को एक श्रीफल प्रदान करते हुये कहते हैं कि इसे खाकर उनकी रानियाँ गर्भवती हो जायेंगी। दशरथ ने घर पहुँचकर यह श्रीफल कौशल्या को दे दिया और उसने सुमित्रा तथा कँकेयी के साथ उस फल को खा लिया। तोरषे रामायण (२, ५) के अनुसार अंधमुनि-पुत्र एक ताण्डव नामक वंश्य था जो कचे पर बांस लगाकर अपने अंधे माता-पिता को सभी तीर्थस्थानों में ले जाता था। जब दशरथ ने उसका वध किया था, तब केवल काशी-तीर्थ में जाना शेष था। आनंद रामायण (१, ११, ८८) के अनुसार भी श्रवण उनको काशी ले जा रहा था।

एक श्रवण रामायण का उल्लेख मिलता है जिसके विषय में कहा गया है कि इसमें श्रवणकुमार की मातृ-पितृ-भक्ति, श्रवण-विवाह तथा श्रवण-वध का वर्णन मिलता है (दे० अनु० २०८)।

हिन्देशिया के सेरीराम में अंधमुनि-पुत्र के वध का निम्नलिखित रूप पाया जाता है।

एक वृद्ध तपस्वी बमदिव (ब्रह्मदेव) ने दशरथ से कहा था कि एक सहस्र हाथियों का वध करने के पश्चात् तुम्हारे चार पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न होगी। इस कारण दशरथ निरन्तर आखेट करते हैं और १०००वें हाथी के स्थान पर भूल से एक अंधे ब्राह्मण के पुत्र का वध करते हैं।

श्याम की लाओ भावा के पञ्चतंत्र में बिना विचार किए कार्य करने के दुष्टान्त के रूप में दशरथ की कथा पाई जाती है (दे० ऊपर अनु० ३२७)। कथा इस प्रकार है—मृगया खेलते हुए दशरथ एक आश्रम में पहुँचते हैं जहाँ एक पुत्र अपने अंधे माता-पिता की सेवा में अपना जीवन बिताता है। दशरथ से प्रार्थना की जाती है कि वह हानिकर हाथियों से आश्रम की रक्षा करें। एक वृक्ष पर बैठकर दशरथ दिन-रात हाथियों को मारते हैं। किसी रात वह सो जाते हैं और वृक्ष के नीचे की आवाज से जाग जाते हैं। पुत्र उस समय जल लेने जा रहा है। हाथी सजसकर दशरथ उसे वाण से मारते हैं। अपने पुत्र की मृत्यु सुनकर दोनों वृद्ध शोक के कारण मर जाते हैं। -

कृत्तिवास रामायण के अनुसार सिन्धु ने अपने पूर्वजन्म में एक कपोत मार डाला था और कपोती ने उसे शाप दिया था। उसी शाप के फलस्वरूप वह अब

इस जन्म में दशरथ द्वारा मारा जाता है (दे० १, ३०)। कृत्तिवास ने अन्धक मुनि की विपत्ति का भी कारण दिया है। अन्धक स्वयं दशरथ से कहते हैं कि मुनि त्रिजट के धूलधूसरित चरणों को देखकर मुझे घृणा हुई थी। उनकी चरण-रज लेते समय मैंने अपनी आँखें बन्द कर ली थी जिससे मैं अब अंधा बन गया हूँ। अन्त में अन्धक दशरथ को ऋष्यशृंग द्वारा यज्ञ कराने का आदेश देते हैं तथा यह भी कहते हैं कि दशरथ के घर में हरि का जन्म होगा (दे० १, ३१)।

### ग। भरत की चित्रकूट-यात्रा

४३४. वाल्मीकि रामायण में दशरथ का मरण, भरत का अयोध्या आकर राज्य अस्वीकृत करना<sup>१</sup>, दशरथ की अन्त्येष्टि तथा भरत की चित्रकूट-यात्रा विस्तार-पूर्वक वर्णित है (सर्ग ५७-११५)। परवर्ती राम-कथाओं में इस सामग्री में अपेक्षाकृत कम परिवर्तन किया गया है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार शत्रुघ्न संहरा को पीटते है, किन्तु आनन्द रामायण (१, ६, ९६) तथा भावार्थ रामायण (२, ११) में भरत यह कार्य स्वयं करते हैं। भावार्थ रामायण के अनुसार भरत ने दशरथ की अन्त्येष्टि के बाद राम की पादुकाओं को सिंहासन पर रख कर चित्रकूट के लिए प्रस्थान किया। चित्रकूट पहुँच कर भरत तथा लक्ष्मण के युद्ध तथा राम द्वारा दोनों को अलग करने का भी वर्णन मिलता है (भावार्थ रामायण २, १५)। वाल्मीकि रामायण में भी भरत के आगमन पर भरत और कंकेयी का वध करने के लिये लक्ष्मण उद्यत है (२, ९६, २३-२६)। भावार्थ रामायण के अनुसार भरत तभी वापस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं जब वाल्मीकि आकर पूरा रामायण सुनते हैं, जिसके अनुसार भरत का अयोध्या लौटना राम की महिमा के लिए आवश्यक है (दे० २, १७)। रामचन्द्रिका (१०, ३९) में मन्दाकिनी स्त्री का रूप धारण कर भरत को समझाती है। कबरामायण (२, १२, १३१) में एक आकाशवाणी भरत को उनके कर्तव्य के विषय में उपदेश देती है।

महावीरचरित में भरत मिथिला में ही राम की पादुकाएँ ग्रहण करते हैं और राम वहीं से वन के लिए प्रस्थान करते हैं, बाद में भरत की किसी वन-यात्रा का

१ वाल्मीकि ने भरत को 'नि स्वार्थ' की मूर्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। उसी कारण से बाद में भरत को दास्य भक्ति का आदर्श माना गया है, यह विशेष रूप से तुलसीदास के भरत के विषय में कहा जा सकता है। फिर भी वाल्मीकि के यथायंवादी दृष्टिकोण के कारण आदिवाक्य के एकाध स्थलो पर राम के मन में भरत के प्रति सन्देह होने का उल्लेख किया गया है, उदाहरणार्थ राम सीता से कहते हैं कि भरत के सामने तुम मेरी कभी भी प्रणाम न करो (२, २६, २४)।

उल्लेख नहीं मिलता। कृतिवास रामायण (२, १६) में क्लृपेयी भरत से इतना बरती हैं कि वह मथुरा के साथ अयोध्या में ही रह जाती हैं। रामचरितमनस में जनक के चित्रकूट में आगमन का विस्तृत वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि शबण रामायण (दे० ऊपर अनु० २०८) के अनुसार भी जनक चित्रकूट गये थे। इस प्रसंग का अन्यत्र उल्लेख नहीं मिलता।

सेरी राम में भरत का आगमन बालिबध के पश्चात् वर्णित है। एक पाठ के अनुसार राम-लक्ष्मण की माता सीताहरण का समाचार सुनकर भर जाती है। अन्त्येष्टि के बाद भरत-शत्रुघ्न किष्किन्धा आकर राम से राज्य सभालने का अनुरोध करते हैं। राम के अस्वीकार करने पर वे उनकी पादुकाएँ माँग कर तथा उनको अपने मुकुट पर धारण कर राजधानी लौटते हैं। दूसरे पाठ के अनुसार दशरथ के देहान्त के पश्चात् भरत-शत्रुघ्न राम को राज्य अर्पित करने के लिए किष्किन्धा आते हैं।

४३५ वाल्मीकि रामायण में कौशल्या दशरथ के लिए राम द्वारा अर्पित इगुदी की खली का पिण्डदान देखकर विलाप करने लगती हैं (दे० २, १०४)। परवर्ती रचनाओं में राम अथवा सीता द्वारा पिण्डदान का विभिन्न अवसरों पर उल्लेख किया गया है।

ब्रह्मपुराण (अध्याय १२३) के अनुसार दशरथ अपने निर्वासित मुत्रों को दर्शन देकर ब्रह्महत्या के कारण अपनी नरक-यातना का वर्णन करते हैं और उनसे गीतमी-तट पर पिण्डदान करने का निवेदन करते हैं। अनन्तर राम द्वारा पिण्डदान का उल्लेख है जिसके फलस्वरूप दशरथ नरक से मुक्ति प्राप्त करते हैं। काश्मीरी रामायण का वृत्तान्त ब्रह्मपुराण पर निर्भर प्रतीत होता है, दशरथ से उनकी नरक-यातना के विषय में सुनकर राम यमलोक जाते हैं और तक्षक का बध करके दशरथ को पितृलोक में पहुँचाते हैं (अयोध्या काण्ड, न० ११५)। स्कन्द-पुराण के प्रभास-क्षेत्र-माहात्म्य में दशरथ राम को स्वप्न में दिखाई देते हैं और राम ब्राह्मणों से परामर्श कर उनके द्वारा पिण्डदान की धर्मक्रिया करवाते हैं (अध्याय १११)। पद्म पुराण के सृष्टिस्रष्ट (अध्याय २८ ४८-९०) में भी वनवास के समय राम के इसी स्वप्न-दर्शन तथा फलस्वरूप श्राद्ध के आयोजन का वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण (दे० अध्याय १४३) के अनुसार राम अयोध्या में लौट आने के पश्चात् पितृ-कर्म के लिये गयाशिर जाते हैं। प्रतिमा नाटक में दशरथ का श्राद्ध योग्य रीति से सम्पन्न करने की राम की चिन्ता का उल्लेख मिलता है (दे० अनु० ४९५)।

अनेक अपेक्षाकृत अर्वाचीन राम-कथाओं में राम के स्थान पर सीता द्वारा पिण्ड-दान होने का वर्णन किया गया है। शिव महापुराण (ज्ञान संहिता, अध्याय ३०)

में राम और लक्ष्मण दशरथ के श्राद्ध की सामग्री ले आने के लिए गाँव जाते हैं। विलम्ब होने पर सीता, श्राद्धकाल की किञ्चित् अवधि शेष समझकर स्वयं श्राद्ध की क्रिया करती हैं। अनन्तर दशरथ प्रकट होकर कहते हैं—'मैं दशरथ हूँ, तुम्हारे सफल श्राद्ध से मैं तृप्त हुआ। बाद में राम के अप्रण करने पर दशरथ उनसे कहते हैं—'किमर्थं ह्यते पुत्र ह्यनया तपिता वयम्।

आनन्द रामायण में गरुड़ पुराण की तरह राम अपने अभिवेक के बाद सीता के साथ तीर्थयात्रा करते हुए गया पहुँचते हैं। सीता फल्गु में स्नान करने जाती है तथा महेश्वरी की पूजा करने के उद्देश्य से १०८ बालूपिण्ड तैयार करती हैं। इस अवसर पर धरती में से दशरथ का हाथ प्रकट हो जाता है और सीता एक-एक करके १०८ पिण्ड दशरथ के हाथ में रख देती हैं। सीता भयभीत होकर यह वृत्तान्त छिपा रखती है। बाद में राम पिण्ड चढ़ाने जाते हैं किन्तु दशरथ का हाथ प्रकट नहीं होता जिससे सब को आश्चर्य होता है। तब सीता अपना रहस्य प्रकट कर कहती है कि दशरथ मुझसे पिण्ड ग्रहण कर चुके हैं। राम साक्षी चाहते हैं; इसपर सीता एक-एक करके आम वृक्ष, फल्गु नदी, ब्राह्मणों, विडाल, गाय तथा अश्वत्थ से अपने पक्ष में साक्ष्य देने का निवेदन करती है। सब अस्वीकार करते हैं और सीता से अभिशप्त हो जाते हैं। अन्त में सूर्य सीता का समर्थन करते हैं, जिस पर दशरथ विमान पर आ पहुँचते हैं तथा राम को आश्वासन देते हैं—'प्राह त्वया तारितोऽहं नरकादतिदुस्तरात् भूमिल्याः पिडमानेन जाता मे तृप्तिवत्तमा (यात्रा काण्ड सर्ग ६, १११)।

सारलादास के महाभारत तथा कृत्तिवास के रामायण में जो वृत्तान्त मिलता है, वह आनन्द रामायण की कथा से अधिक भिन्न नहीं है, किन्तु इन दोनों रचनाओं में माना गया है कि यह घटना वनवास के समय की है। सारलादास के अनुसार चित्रकूट निवास के समय राम अनेक तीर्थ यात्राएँ करते हैं। किसी दिन वह 'रामगया' पहुँचे तथा पितृकर्म के लिये गैडा आवश्यक समझकर वह लक्ष्मण के साथ उसी की खोज में शिकार खेलने गए। सीता ब्रह्मा के पुत्र फल्गु नदी के सरक्षण में रामगया में रह गई; राम को समय पर न आते देखकर सीता ने राम के पूर्वजों को सात बालू-पिण्ड समर्पित किए। दशरथ का हाथ प्रकट हुआ जिससे सीता को मालूम हुआ कि दशरथ का देहान्त हो चुका है। सीता ने फल्गु से निवेदन किया कि वह इस घटना को राम

१. उस शाप के फलस्वरूप आम वृक्ष फलहीन, फल्गु अधोमुखी (अन्तःसलिला) विडाल की रूँछ अस्तुद्य, गाय का मुख अपवित्र तथा अश्वत्थ 'अचलदल' बन गया। ब्राह्मणों से सीता ने कहा—'युष्माकं नाऽत्र संतृप्तिः कदा ब्रह्मैर्भविष्यति ॥१०३॥ ब्रह्मार्थं सकलान् देवान् अमर्षं दीनरूपिणः।

से छिपा रखें। इसपर फल्गु ने सीता से अनुचित प्रस्ताव किया और ठुकराये जाने पर ब्राह्मणों से कहा कि सीता ने पिण्डदान किया है। ब्राह्मण दक्षिणा के लिये अनुरोध करने लगे तथा राम के प्रत्यागमन तक प्रतीक्षा करना अस्वीकार किया। इसपर सीता ने अपने कपड़े दे दिये तथा पद्मपत्रों से अपना शरीर ढँक लिया। वापस आकर सारा वृत्तान्त जान लेने पर राम ने फल्गु तथा गया के ब्राह्मणों को शाप दिया।<sup>१</sup> कृत्स्निवास के अनुसार दशरथ की मृत्यु के एक वर्ष बाद उनका श्राद्ध उचित रीति से सम्पन्न करने के लिए राम और लक्ष्मण अगठी बेचन चले जाते हैं। इनमें सीता फल्गु के किनारे खेळती है और दशरथ दर्शन देकर कहते हैं—भूख की पीडा अमह्य हो उठी है, रेत का पिण्ड देकर मेरी भूख शान्त कर दो। बाद में ब्राह्मण तुलसी और फल्गु सीता के पक्ष में साक्ष्य देना अस्वीकार करते हैं जिससे सीता उनको शाप देती है। वटवृक्ष मात्र सीता का समर्थन करता है और राम तथा सीता दोनों से आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है।<sup>२</sup>

दुर्गाविरकृत असमीया गीतिरामायण में भी इस प्रसंग का बगन मिलता है। इसमें सीता चन्द्रमा सूर्य वायु पृथ्वी फल्गु तथा ब्राह्मणों को शाप देती है। बलरामदास रामायण का तद्विषयक वृत्तान्त आनन्द रामायण की उपर्युक्त कथा से मिलता-जुलता है किन्तु राम स्वयं फल्गु नदी को अतः सलिला वन जान का शाप देते हैं, फल्गु के अनुनय करने पर सीता उसे यह वरदान देती है कि तुम वर्षा ऋतु में अवश्य प्रकट होगी (अरण्यकांड)।

४३६ राम की पादुकाओं का वृत्तान्त वाल्मीकि रामायण के तीन पाठों में कुछ भिन्न है जिससे यह आभास मिलता है कि यह प्रसंग सम्भवतः बाद में जोड़ दिया गया हो।

दक्षिणात्य पाठ में भरत राम की हेमभूषित पादुकाएँ ले जाने की राम से प्रार्थना करते हैं (दे० दा० रा० २, ११०-१११)। गौडीय पाठ में भरत के प्रस्थान के समय शरभग राम को कुशपादुकाओं का एक जोड़ा भेंट देते हैं और वनिगठ के अनुरोध से राम भरत को इन्हें प्रदान करते हैं। माघवकदली तथा बलरामदास के रामायणों में भी कुशपादुकाओं की चर्चा है।

१ दे० कृष्णचरण साहू, राम-कथा इन सारला महाभारत। जर्नल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च भाग १, अंक २, पृ० ५६।

२ राम कहते हैं—अमर अक्षय हो। सीता कहती हैं—शीतकाल में उष्ण, ग्रीष्मकाल में शीतल तथा सर्वदा पत्रों से विभूषित बने रहो।

पश्चिमोत्तरीय पाठ में न तो शरभग का और न कुशपादुकाओं का उल्लेख हुआ है, लेकिन वसिष्ठ के कहने पर राम भरत को अपनी पादुकाएँ देते हैं।

बशरथ आतक में कहा जाता है कि अमात्य राम को इन पादुकाओं के सामने राजकार्य करते हैं। अन्याय होते ही पादुकाएँ एक दूसरे पर आघात करती हैं तथा ठीक निर्णय होने पर वे शान्त रहती हैं।

### घ। राम का चित्रकूट में निवास

४३७. दाक्षिणात्य पाठ में चित्रकूट की केवल एक पर्णशाला का उल्लेख है (दे० ५६, २०), लेकिन गौडीय (दे० ५६, २०) तथा पश्चिमोत्तरीय पाठ (दे० ६०, २०) में लक्ष्मण द्वारा दो पर्णशालाओं का निर्माण हुआ था, ऐसा उल्लेख है।

४३८. जावा के सेरी राम के अनुसार राम घास से सात लडकियों तथा पाँच लडको की सृष्टि करते हैं, जिससे राम, सीता, लक्ष्मण तीनों निश्चित होकर एकाग्रता से साधना कर सकते हैं।

४३९. मुन्दरकाड में सीता अभिज्ञान-स्वरूप हनुमान् को काक-वृत्तान्त सुनाती है। किसी दिन राम सीता की गोद में सो रहे थे; उस समय एक मांसलोभी काक (इंद्र का पुत्र) सीता के स्तनों पर आघात करने लगा। जागकर राम ने ब्रह्मास्त्र पर दर्भ रख कर उसे काक पर चलाया। कहीं भी शरण न पाकर काक राम के पास लौटा और एक आँख ब्रह्मास्त्र को देकर बच गया (दे० रा० ५, ३८)। हनुमान् राम के पास लौट कर इसी वृत्तान्त को दोहराते हैं (दे० रा० ५, ६७)।

इस वृत्तान्त का आदिरामायण के अयोध्याकांड में उल्लेख नहीं था। दाक्षिणात्य पाठ के सस्करणों में सर्ग ९५ के बाद एक प्रक्षिप्त सर्ग रखा जाता है, जिसमें काक-वृत्तान्त का किंचिन् भिन्न रूप से वर्णन किया गया है। भोजन के बाद सीता कीवों को खिला रही थी, कि एक काक उन्हें काट देने लगा। इसपर राम ने ईषीकास्त्र चलाकर काक को भगाया। अंत में काक ने राम की शरण ली और अस्त्र को एक आँख समर्पित कर बच गया। गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठों में यह सर्ग प्रक्षिप्त नहीं माना गया है, तथा इसकी गणना अन्य सर्गों के साथ साथ हुई है (दे० गौ० रा० २, १०५, प० रा० २, १०९)। इस सर्ग में राम द्वारा सीता के ललाट पर तिलक लगाने तथा बाद में भीमकाय वानर को देखने से भयविह्वला सीता द्वारा इस तिलक के राम के वक्षस्थल पर अंकित हो जाने का वर्णन भी मिलता है।

१. रामचरितमानस में नारद जयत को राम के पास भेज देते हैं (दे० ३, २, ५)।

चाल्मीक रामायण में यह सर्ग भरत के चित्रकूट में आगमन के पूर्व रखा गया है; कालिदास ने काक-वृत्तान्त का वर्णन भरत के प्रस्थान के पश्चात् किया है (दे० रघुवंश, सर्ग १२)। फलस्वरूप बहुत सी राम-कथाओं में इस घटना का उल्लेख कालिदास के क्रमानुसार किया जाता है, उदाहरणार्थ नृसिंहपुराण, सध्याकरनन्दिकृत रामचरित, पद्मपुराण (उत्तरकांड अध्याय २६९), रामचरितमानस, काश्मीरी रामायण।

जयन्त स्थूलसिर के शाप के कारण काक बन गया था, ऐसा कथन पद्मपुराण के उत्तरकांड के गौडीय पाठ में मिलता है<sup>१</sup>। कन्नड तोरवे रामायण के अनुसार अग्नि ने जयन्त को काक बन जाने का शाप देते हुए उसे आश्वासन दिया था कि सीता के चरण-स्पर्श से शाप से मुक्ति मिलेगी (दे० अयोध्याकांड, संधि ७)। देव-रामायण में जयत के काक के रूप में परिवर्तन की कथा का विशेष वर्णन किया गया है (दे० ऊपर अनु० २०७)। भावार्थ रामायण (२, १४) के अनुसार काक एक सुदसुव नामक गंधर्व है।

अध्यात्मरामायण के अनुसार काक ने सीता के पैर के अंगूठे को फाड़ डाला था (भत्यादांगुष्ठमारक्तं विबद्वारामिषाशया, दे० ५, ३, ५४)। आनन्द रामायण (१, ६, ८६), रामगीतगोविन्द (सर्ग ४) तथा रामचरितमानस में भी ऐसा वर्णन है।

हिन्देशिया के सेरी राम तथा-सेरत काण्ड में काक-वृत्तान्त का एक परिवर्तित रूप मिलता है (दे० अनु० ३९९)। रामकेत्ति तथा रामकियेन में विश्वामित्र यज्ञ के प्रसंग में राम द्वारा काकासुर-वध का वर्णन किया गया है (दे० अनु० ३८८)। इसके अतिरिक्त सीताहरण के ठीक पहले राम एक अन्य काकासुर का वध करते हैं (दे० अनु० ४९२)।

४४०. रसिक सम्प्रदाय की रचनाओं में चित्रकूट में राम की शासलीला का विस्तृत वर्णन किया गया है (दे० ऊपर भृगुण्डी रामायण, अनु० १८०)। दुर्गा-वर कृत असमीया गीतिरामायण में वनवास के समय चैत्र चतुर्दशी के अवसर पर एक मायामय अयोध्या की सृष्टि का वर्णन किया गया है। राम, सीता और लक्ष्मण, पिचकारी हाथ में लिये अयोध्यावासियों के साथ 'मन्नोत्सव'<sup>२</sup> मनाते हुए चित्रित किये गये हैं। इस रचना में राम और सीता का चौसर खेलना भी वर्णित है।

१. दे० जर्नल एसियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल १८४२, पृ० ११२०।

२. डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने अपनी 'प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद' नामक पुस्तक में (बंबई १९५२) इस उत्सव का वर्णन किया है (दे० पृ० १०८-१११)।

४४१. वाल्मीकि रामायण में राम के चित्रकूट से प्रस्थान करने के दो कारण बताये गये हैं :

इह मे भरतो दृष्टो मातरश्च सनागराः ।

सा च मे स्मृतिरन्वेती ताम्नित्यमनुशोचतः ॥२॥

स्कांधावारनिवेशेन तेन तस्य महात्मनः ।

हृषहस्तिकरीवेश्च उपमर्दः कृतो भृशम् ॥३॥ (२, ११७)

एक तो चित्रकूट को देखकर भरत आदि का स्मरण आता है और दूसरे भरत की सेना ने उस स्थान को मँला कर दिया है। महाभारत के रामोपाख्यान में जो कारण दिया गया है, उसका आगे चलकर बहुत उल्लेख है। राम इसलिए चित्रकूट को छोड़ देते हैं कि जनता उनके पास न आ सके (पुनराशंक्य पौरजानपवागमम् दे० ३, २६१, ३९)। अध्यात्मरामायण, आनन्द रामायण तथा रामचरितमानस में यही कारण दिया गया है।

### ३—राम का निर्वासन

४४२. अयोध्याकांड की प्रधान घटना राम का निर्वासन है। केवल दो राम-कथाओं में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। गुणभद्रकृत जैन उत्तर पुराण में रावण राजधानी के निकट के अशोकवन से सीता को हर लेता है, तथा अनाम की राम-कथा में दशानन सेना सहित दशरथ के राज्य पर आक्रमण करके सीता को अपने साथ ले जाता है।

शेष राम-कथाओं में राम के निर्वासन का बहुत कुछ वाल्मीकि रामायण के अनुसार वर्णन किया गया है। फिर भी राम के वनवास के भिन्न-भिन्न कारणों की कल्पना कर ली गई है। इसके अतिरिक्त कँकेयी की वरप्राप्ति की अनेक कथाएँ प्रचलित हो गई हैं, तथा कँकेयी के दोष-निवारण के लिए भी अनेक उपायों का सहारा लिया गया है। इन बातों से सम्बन्ध रखने वाली सामग्री पर अलग विचार किया जायगा। इसके पहले यहाँ पर गौण परिवर्तनों की ओर निर्देश किया जाता है।

४४३. महानाटक के अनुसार निर्वासन के समय भरत अयोध्या में थे (अंक ३, ५), तथा प्रतिमानाटक में भरत शत्रुघ्न के बिना अपने ननिहाल गए थे (अंक ३)। अनामकम् जातकम् तथा पाश्चात्य वृत्तान्त न० ६ और ९ में केवल राम और सीता के वनवास का उल्लेख है तथा दशरथ कथानम् में केवल राम और लक्ष्मण वन के लिए प्रस्थान करते हैं। सिंहली राम-कथा तथा तिब्बती रामायण में राम अकेले ही वन



जाते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार प्रायः सभी रामकथाएँ वनवास की अवधि १४ वर्ष की मानती हैं। दशरथ जातक में वनवास का स्थान हिमालय-प्रदेश है तथा इसकी अवधि १२ वर्ष की है। इसी तरह दशरथकथानम्, संघदास की वसुदेवहिण्डि, पाश्चात्य वृत्तान्त १, २, ३, ७, १३ आदि वनवास बारह वर्ष का मानते हैं। स्वयं-भूदेव के पउमचरित (२३, ९) में राम लक्ष्मण को १६ वर्ष तक वनवास करने का निमन्त्रण देते हैं।

अध्यात्म रामायण से लेकर अनेक राम-कथाओं में नारद के आगमन का उल्लेख किया गया है, जो राज्य अस्वीकृत करने के लिये राम से अनुरोध करते हैं, तथा उनको अवतार के उद्देश्य का स्मरण दिलाते हैं (दे० २, १ और आनन्द रामायण, १, ६; काश्मीरी रामायण, रामरहस्य (अध्याय ६), तत्त्वसंग्रहरामायण (२, ४); राम-चरितमानस के अनेक सस्करणों का क्षेपक)।

वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम के साथ वन जाने के लिये अनुरोध करते हुए सीता कहती है, ब्राह्मणों ने मेरा वनवास अतिवार्य बताया है (ब्रह्मव्यं किल मे वने दे० सर्ग २९, ८, और अध्यात्म रामायण २, ४, ७६)। आगे चलकर सीता यह भी कहती है कि मैंने जितने रामायण सुने हैं, उन सब में सीता राम के साथ वन जाती हैं (अध्यात्म-रामायण २, ४; आनन्द रामायण १, ६, उदारराघव सर्ग ५)। इसके अतिरिक्त आनन्द रामायण में सीता एक तीसरा तर्क देकर कहती हैं—मैंने स्वयंवर के समय राम को पतिस्वरूप प्राप्त करने के लिये १४ वर्ष तक वनवास का व्रत किया था। वाल्मीकि रामायण में राम के वनवास के कई अन्य परोक्ष कारणों का उल्लेख किया गया है—दशरथ द्वारा प्राणियों का वध (२, ३९, ४) और अध-मुनि-पुत्र-वध (दे० २, ६३, ११), पूर्व जन्म में कौशल्या द्वारा मायों के स्तनों का काटना (दे० २, ४३, १७) तथा स्त्रियों को पुत्रहीन करना (दे० २, ५३, १९)।

### क। वनवास के भिन्न-भिन्न कारण

४४४. वाल्मीकि रामायण के अनुसार कैंकेयी ने अपने दो बरों के बल पर भरत के लिये राज्य तथा राम के लिये १४ वर्ष का वनवास दशरथ से माँग लिया था। अतः राम के निर्वासन का यह कारण सब से प्राचीन और बाद में सब से प्रचलित और प्रामाणिक माना गया है। रामकेर्त्ति (सर्ग १) में कैंकेयी राम और लक्ष्मण दोनों के लिये १४ वर्ष का वनवास माँगती है। यह सुनकर लक्ष्मण कैंकेयी का वध करना चाहते हैं, किन्तु राम उनको शान्त करते हैं। वाल्मीकि रामायण (सर्ग २१) के अनुसार भी लक्ष्मण ने दशरथ को मार डालने का प्रस्ताव किया था और कौशल्या

में लक्ष्मण के इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। सभी राम-कथाओं में राम इस परीक्षण में खरे उतर कर अपने पिता की आज्ञा के पालन में दृढ़ रहते हैं।

४४५. दशरथ जातक तथा दशरथ कथानम् में भरत की माता के केवल एक बर का उल्लेख है, जिसके बल पर वह भरत के लिये राज्य माँग लेती है। बाद में भरत की माता के षड्यन्त्रों के भय से दशरथ अपने दो पुत्रों (राम और लक्ष्मण) को वन भेज देते हैं, और बारह वर्ष के पश्चात् लौटने को कहते हैं। अतः इन बौद्ध कथाओं के अनुसार सीतेली माँ के षड्यन्त्रों का भय निर्वासन का कारण माना जाता है।

४४६. राम-कथाओं का एक तीमग वर्ग मिलता है, जिसमें राम स्वेच्छा से वन के लिए प्रस्थान करते हैं। इसी प्रकार के प्राचीनतम वृत्तान्त बौद्ध तथा जैन साहित्य में पाये जाते हैं।

अनामक जातक में कथा इस प्रकार है। अपने मामा के आक्रमण की तयारियों के विषय में सुन कर राजा (राम) मधुर्ष के निवारण के लिये स्वेच्छा से रानी के साथ पहाड़ी वन में जाकर निवास करने लगे।

जैन षडमचरिय के अनुसार भरत को राज्य दिए जाने का समाचार सुनकर राम स्वेच्छा से सीता तथा लक्ष्मण के साथ दक्षिण की ओर प्रस्थान करते हैं।

तिम्बती रामायण के अनुसार दोनों पुत्रों में से किसे राज्य दिया जाय, अपने पिता की इस प्रकार की किकर्तव्यविमूढता के विषय में सुनकर राम स्वेच्छा से किसी आश्रम में जाकर तपस्या करने लगते हैं।

हिंदेशिया के सेरी राम में मधुरा को पीटने के कारण राम की बदनामी हो चुकी थी। सीता-स्वयंवर के समय भरत को राज्य दिये जाने का समाचार सुनकर राम राजधानी न लौटकर सीता तथा लक्ष्मण के साथ सीधे वन के लिये प्रस्थान करते हैं।

सेरी राम के एक अन्य पाठ के अनुसार राम स्वयंवर के पश्चात् घर जाते हैं। बाद में, किसी परिचारिका के अनुरोध से भरत-शत्रुघ्न की माता दशरथ से अपने पुत्रों के लिए राज्य माँग लेती है। दशरथ के सुते समय वह राम को बुलाती है, और उनको राज्य से वंचित होने का समाचार सुनाती है। यह सुनकर राम बहुत प्रसन्न होते हैं और ऋषि बनने के लिए सीता तथा लक्ष्मण के साथ वन में तपस्या करने जाते हैं।

तिहली राम-कथा में शनि की अशुभ दशा के दुष्परिणाम से बचने के उद्देश्य से राम सीता को राजधानी में छोड़ कर सात वर्ष तक वन में रहते हैं।

पाश्चात्य वृत्तान्त न० १ के अनुसार राम ताडका-वध के प्रायश्चित्त के लिए तपस्या करने जाते हैं। दशरथ उनसे बारह वर्ष के पश्चात् लौटने की प्रार्थना करते हैं। नागरिक राम के पीछे हो लेते हैं लेकिन राम उनको लौटने का आदेश देकर सीता और लक्ष्मण के साथ ही वन में प्रवेश करते हैं।

पाश्चात्य वृत्तान्त न० १० में कहा गया है कि राम १५ वर्ष की अवस्था में सीता तथा लक्ष्मण के साथ तपस्या करने गए थे।

पाश्चात्य वृत्तान्त न० १४ में अनुमान राम को एक ब्राह्मण ने शाप दिया था जिसके फलस्वरूप उनका ईश्वरीय ज्ञान लुप्त हो गया था। बाद में कँकेयी की प्रार्थना स्वीकार कर राम स्वेच्छा से वन के लिए प्रस्थान करते हैं। वनवास के परोक्ष कारणा का ऊपर उल्लेख हो चुका है (अनु० ४४३)।

### ख। कँकेयी की वरप्राप्ति

४४७ कँकेयी ने वरग की मंग्या तथा उनको प्राप्त करने के ढंग के विषय में भी पर्याप्त मात्रा में विभिन्नता पाई जाती है।

दो वर। वाल्मीकि रामायण के अनुसार देवासुर-युद्ध में दशरथ इन्द्र के लिए शम्भामुद्र के विरुद्ध युद्ध करते हैं तथा आहत होकर कँकेयी द्वारा रणभूमि से हटाये जाते हैं। इसके लिये कँकेयी दशरथ से दो वर प्राप्त करती है और बाद में इन दोनों वरों के बल पर भरत के लिए राज्य तथा राम के लिए वनवास माँग लेती है (दे० रा० २, १, १५-१७)।

पश्चिमोत्तरीय पाठ में कँकेयी की सामर्थ्य का कारण भी बताया गया है। उसने एक ब्राह्मण को प्रसन्न कर दिया था और पुरस्कारस्वरूप उनसे विद्याबल पाया था, जिसके द्वारा वह अपने पति को बचाने में समर्थ हुई। तेलुगु द्विपद रामायण (२, २) में कहा गया है कि शम्बर ने दशरथ से युद्ध करते हुए माया का सहारा लिया था लेकिन धवलग में सीखी हुई माया द्वारा कँकेयी ने शम्बर की माया का प्रभाव नष्ट करके दशरथ को बचाया था।

बहुत से ऐसे वृत्तान्त भी मिलते हैं जिनके अनुसार कँकेयी ने देवासुर युद्ध में दशरथ के रथ का अक्ष टूटा हुआ देखकर उसमें अपना हाथ रख दिया था (दे० ब्रह्म पुराण, अध्याय १२३, पद्मपुराण<sup>१</sup>, अध्यात्म रामायण २, १, ६६, आनन्द रामायण

१ दे० उत्तरकाण्ड, बगीच पाठ, जर्नल एसियाटिक सोसाइटी १८४२, पृ० ११२२।

१, १, ८५, रामकिएन, अध्याय १४)। आनन्द रामायण (१, १, ८३) के अनुसार एक मुनि ने बालिका कँकेयी की सेवा से सतुष्ट होकर उसे यह वरदान दिया था कि समय पड़ने पर तुम्हारा हाथ वज्रवठिन बन जाएगा।

भावायं रामायण (१, १) के अनुसार अधमुनि के शाप के फलस्वरूप दशरथ के राज्य में अनावृष्टि हुई। दशरथ कँकेयी को साथ ले जाकर इन्द्र के विरुद्ध युद्ध करने गये। युद्ध में शुक ने अक्ष तोड़ा किन्तु कँकेयी ने अपनी भुजा से रथ सम्हाला जिससे इन्द्र की पराजय हुई।

बाद में कँकेयी के दो बरों के लिए दो भिन्न घटनाओं का उल्लेख किया गया है। कृत्तिवास रामायण (१ ३३-३४) तथा असमीया बालकाण्ड (अध्याय १६) में शम्बर-युद्ध के अवसर पर कँकेयी को एक वर मिला था और दूसरा वर उसे दशरथ के व्रण की पीब चूमने के लिए मिला था।<sup>१</sup> पाश्चात्य वृत्तान्त न० १३ के अनुसार कँकेयी ने बिच्छू से डमे हुए दशरथ को स्वस्थ कर अपना दूसरा वर प्राप्त किया था। सेरी गम में भरत और शत्रुघ्न की माना कन्यादारी दशरथ की कमर के फोड़ की पीब चूमकर दशरथ से यह आश्वासन पाती है कि उनके पुत्रों को राज्य मिलन वाला है। प्रथम बार उनको यह आश्वासन दशरथ तथा मद्दुदारी के विवाहोत्सव के अवसर पर मिला था। उस समय उनमें उन दोनों की पालकी मन्गली थी (दे० अनु० ३४०)।

सषदास की बसुदेवहिण्डि में कँकेयी की वरप्राप्ति का वर्णन मौलिक है। प्रथम वर उनको कामशास्त्र में निपुणता के कारण दिया जाता है (रामा कंकईए सपथोवधा-रबियखणगाए तोसिओ—राजा कँकेय्या शयनोपचारविच्छक्षणया तोषितः)। दूसरे वर की कथा इस प्रकार है। किसी दिन एक सीमावर्ती राजा न दशरथ को युद्ध में कँदी बना लिया था। यह सुनकर कँकेयी ने सेना का नेतृत्व लेकर विरोधी राजा को हराया तथा दशरथ को मुक्त किया था।

४४८. एक वर। महाभारत में (दे० ३ २६१ २१) रामायण तथा पद्म-पुराण के उत्तर काण्ड के गोडीय पाठ में (पृ० ११००) कँकेयी के केवल एक वर का उल्लेख किया गया है लेकिन अभी एक वर के बल पर वह भरत के पित्र्य राज्य तथा राम के लिये वनवास मांग लेती है।

१ पाश्चात्य वृत्तान्त न० ३ में भी कँकेयी के दशरथ के अगड़े की चिकित्सा करने का उल्लेख है। लोकगीतों में कँकेयी दशरथ के पैर से काटा निकाल कर वर प्राप्त करती हैं। (दे० कविता कौमुदी ५ वाँ भाग, पृ० १०३)।

२ हिकायत महाराज रावण में इससे मिलती-जुलती कथा पायी जाती है।

पउमचरिय के अनुसार ककेयी ने अपन स्वयवर के बाद दशरथ का रथ हाँक कर अन्य राजाओं के विरुद्ध दशरथ की सहायता की थी और इस प्रकार एक वर प्राप्त किया था (दे० ऊपर अनु० ३३८) ।

दशरथ जातक तथा दशरथकथानम दानों में भरत की माता के केवल एक वर का उल्लेख है जिसके बल पर वह भरत को राज्य दिलवाती है । दशरथ जातक में कहा गया है कि भरत के जन्म के अवसर पर दशरथ ने इस वर को दिया था ।

४४९ तीन वर । ब्रह्मपुराण में देवामुर-युद्ध में कँकेयी ने अपन हाथ से दशरथ के रथ का टूटा हुआ अक्ष सभाला था । दशरथ केवल वापसी में देखते हैं कि कँकेयी क्या कर रही है । इस पर प्राम्न हाकर दशरथ उनको तीन वर प्रदान करते हैं (दे० अध्याय १२३) ।

### ग । कँकेयी का दोष-निवारण

४५० आदिकवि वाल्मीकि ने कँकेयी की दुष्टता और कुटिलता का स्पष्ट शब्दों में चित्रण किया है ।<sup>१</sup> चित्रकूट की यात्रा करते समय राम आशका करते हैं कि कँकेयी कहीं भरत को राज्य दिलाने के लिए दशरथ के प्राण न ल तथा कौशल्या-सुमित्रा को विष न खिला दे (मग ५२)

सा हि देवी महाराज कँकेयी राज्यकारणात् ।

अपि न क्वावयत्प्राणान्बृष्टवा भरतमागतम् ॥७॥

परिवर्थाद्भिर्घर्मज्ञ गर ते मम मातरम् ॥१॥

सीता भी ककयी को कलहशीला बहकर उनकी निन्दा करती है

कुलमुत्सादित सर्वं त्वया कलहशीलया (६, ३२ ४) ।

४५१ वाल्मीकि रामायण ही में कँकेयी के दोष निवारण का प्रयत्न किया गया है । भरद्वाज राम से कहते हैं कि कँकेयी को दोष नहीं देना चाहिए क्योंकि राम का निर्वासन सबों के हित का कारण सिद्ध होगा

बेजाना दानवानां च ऋषीणां भाषितात्मनाम् ।

हितमेव भविष्यद्वि रामप्रवाजनादिह ॥३१॥ (सर्ग ९२) ।

१ सुमत्र द्वारा कँकेयी की निन्दा तथा उनकी माता के त्यक्त किए जान की कथा केवल दाक्षिणात्य पाठ में मिलती है (दे० अनु० ४३०) ।

चित्रकूट में जब भरत कँकेयी की भर्त्सना करते हैं, राम स्वयं कँकेयी का पक्ष लेकर भरत को स्मरण दिलाते हैं कि दशरथ ने विवाह के अवसर पर कँकेयी के पुत्र को राज्य देने की प्रतिज्ञा की थी ।

पुरा न्यातः पिता नः स मातरं ते समुद्बहन् ।

मातामहे समाश्रीषीव्राज्यशुल्कमनुत्तमम् ॥३॥ (रा० २, १०७)

कँकेयी को निर्दोष ठहराने के लिये दशरथ की प्रतिज्ञा के अतिरिक्त गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठों में ब्राह्मण-शाप का उल्लेख किया गया है (अनु० ४३०) । कँकेयी ने किसी ब्राह्मण की निन्दा की थी और ब्राह्मण ने कँकेयी को शाप दिया था कि तुम्हारी भी निन्दा की जायगी । इस कारण "शापदोषमोहिता" कँकेयी मथुरा के जाल में फँस गई थी । इस शाप का उल्लेख रामायणमञ्जरी और कृत्तिवाम तथा बलरामदास के रामायणों में भी मिलता है ।

४५२. बिलमूरि के अनुमार कँकेयी ने भरत का वीरग्य दूर करने के उद्देश्य से उनके लिये राज्य माँगा था, उन्होंने राम के वनवास के विषय में कुछ नहीं कहा था । सीता और लक्ष्मण के साथ जब राम स्वेच्छा से चले जाते हैं तब कँकेयी अपनी सपत्नियों को शोकालुर देखकर भरत को भेज देती है कि वह राम को वापस ले आये । भरत के प्रस्थान के बाद वह स्वयं राम के पास जाकर क्षमा माँगती है तथा लौटने के लिये राम से अनुरोध करती है । राम अम्बीकार करते हैं तथा भरत को गज्याभिषेक देकर अयोध्या भेज देते हैं (मर्ग ३२) । वसुदेवहृदिष्ठि में भी कँकेयी के पश्चात्ताप का वर्णन है । धर्मलण्ड (अध्याय ३८) तथा तरुसंग्रहरामायण (२, ११) के अनुसार कँकेयी अयोध्यावासियों का दुःख देखकर द्रवित हो जाती हैं । वह राम के पास जाकर उनकी आराधना करती है तथा क्षमा माँगती हुई वापस आने के लिये अनुरोध करती है । राम उनको यह कहते हुये क्षमा प्रदान करते हैं—**देवकृते को ऽपराधः । त्वं मे मातृसमा देवि त्वयि मे नास्ति दुर्मनः ।**

जानकीहरण (१, ४२) में कँकेयी की प्रशंसा इसीलिये की गई है कि उनके दोष के कारण राक्षसों का नाश हुआ था—**यस्या दोषोदपि भुवनत्रयस्य रक्षोभय-नाशाय हेतुर्बन्धु ।**

प्रतिमानाटक में कँकेयी के दोष-निवारण के लिये एक अन्य मार्ग अपनाया गया है । ऋषि-शाप के फलस्वरूप पुत्रवियोग के कारण दशरथ का मरण अनिवार्य जानकर कँकेयी ने उस शाप की रक्षा करने के लिये तथा राम को किसी और विकट विपत्ति से बचाने के लिए बसिष्ठ, वामदेव आदि से परामर्श करने के पश्चात्, राम को वन भिजवाया था । यह सुनकर भरत उनमें पूछते हैं कि आपने १४ वर्ष का

निर्वासन क्यों दिलाया है। इस पर कँकेयी उत्तर देती है कि भूल से '१४ दिन' के स्थान पर '१४ वर्ष' मुँह से निकला था।

भवभूति के महावीरचरित तथा मुरारिकृत अनर्घराघव में कँकेयी के किसी दोष का प्रश्न नहीं उठता है। स्वयंवर के समय शूर्पणखा मथरा के वेष में मिथिला पहुँचकर दशरथ को कँकेयी का एक जाली पत्र देती है जिसमें वर के बल पर राम का निर्वासन माँगा गया था। फलस्वरूप राम, भरत को अपनी पादुकाएँ देकर, मिथिला ही से वन के लिए प्रस्थान करते हैं (दे० अंक ४)।

बालरामायण में महावीरचरित के वृत्तान्त का किञ्चित् विकसित रूप पाया जाता है। दशरथ कँकेयी के साथ इन्द्र से मिलने गये थे। इन दोनों की अनुपस्थिति का मुअवमर पाकर मायामय, शूर्पणखा तथा एक परिचारिका क्रमानुसार दशरथ, कँकेयी तथा मथरा का रूप धारण कर लेते हैं और राम-निर्वासन दिलाने का मफल प्रयत्न करते हैं (दे० अंक ६)।

अध्यात्म रामायण (२, २, ४४-४६) में मथरा तथा कँकेयी दोनों को मोहित करने के उद्देश्य से सरस्वती को अयोध्या भेजे जाने का उल्लेख किया गया है। आनन्द रामायण (दे० ८, २, ५६), रामचरितमानस आदि में भी कँकेयी का दोष सग्नवती पर लगाया गया है। बलरामदास रामायण के अनुसार दुर्बल नामक देवता दशरथ में तथा खल नामक देवता कँकेयी में प्रवेश करते हैं। रामलिंगामृत (सर्ग १२) में कँकेयी राम से कहती है कि बेबैरसे प्रेरित होकर मैंने रावण का वध करने के लिए आपको वन भेज दिया था।

४५३. वाल्मीकि रामायण के अनुसार चित्रकूट में कँकेयी मौन रहती है। आगे चलकर संभवतः पउमचरियं के अनुकरण पर अध्यात्म रामायण (२, ९, ५५-६०), आनन्द रामायण (१, ६, ११२), तौरवे रामायण (२, ६) रामलिंगामृत (सर्ग १२) तथा रामचरितमानस में कँकेयी के इस अवसर पर पश्चात्ताप प्रकट करने तथा क्षमा माँगने का वर्णन किया गया है। अध्यात्म रामायण के अनुसार उस समय राम ने कँकेयी से कहा था कि (निर्वासन के लिए अनुरोध करने वाली) वाणी मुझसे प्रेरित होकर आपके मुँह से निकली थी।

मयवे प्रेरिता वाणी तव वक्त्राद्धिनिर्गता । (२, ९, ६३)

घ । मथरा

४५४. मथरा द्वारा कँकेयी के भडकाए जाने का वाल्मीकि रामायण में कोई विशेष कारण नहीं दिया गया है। अन्य वृत्तान्तों में इसके लिए भिन्न-भिन्न कारणों की कल्पना की गई है।

- (१) महाभारत के रामोपाख्यान (दे० ३, २६०, १०) में जब राम की सहायता करने के लिए देवताओं द्वारा ऋक्षों तथा वानरों की स्त्रियों से पुत्र उत्पन्न करने का उल्लेख किया गया है, गधर्वी बुंदुभी के मथरा के रूप में प्रकट होने की चर्चा मिलती है। पद्यपुराण के पाताल स्रष्ट के गौडीय पाठ (अध्याय १५), आनन्द रामायण ( दे० १, २, २ ), कृत्तवास रामायण ( २, ४ ), वसुदेवकृत राम-कथा आदि में भी इसका निर्वेश किया गया है। तोरवे रामायण में मथरा को विष्णु-माया का अवतार माना गया है। बलरामदास के अनुसार मथरा वास्तव में गोमाता सुरभि है जिसे देवताओं ने पृथ्वी पर भेजा था।
- (२) बाद के अनेक वृत्तान्तों में मथरा को मोहित करने के लिए सरस्वती के भेजे जाने का वर्णन मिलता है (दे० अध्याय रामायण २, २, ४४; आनन्द रामायण १, ६, ४१, रामचरितमानस, काश्मीरी रामायण)। भावार्थ रामायण के अनुसार ब्रह्मा ने मथरा के मन में ईर्ष्या उत्पन्न करने के उद्देश्य से विकल्प को भेजा था।
- (३) वाल्मीकि रामायण में शत्रुघ्न राम के निर्वासन के कारण मथरा को पीटते हैं (दे० २, ७८)। बाद में राम द्वारा मथरा का उत्पीड़न बन्दवास का कारण बताया गया है :

पादौ गृहीत्वा रामेण कथिता साऽपराधतः ।

तेन वरेण सा रामं बन्दवासं च कांसति ॥ ८ ॥

(अग्निपुराण, अध्याय ५)

रामायणमजरी में भी राम के प्रति मथरा के वैर का कारण उल्लिखित है।

शंशये किल रामेण पुरा प्रणयकोपतः ।

धरणेनाहता तत्र चिरं कोपमुवाह सा ॥ (१, ६६७)

बलरामदास के अनुसार मथरा ने विवाह के अवसर पर राम का उपहास किया था और राम ने उसे पीटा था। कबरामायण (२, २, ४१, ५, ८, ३२) में इसका उल्लेख मिलता है कि लडकपन में राम ने मिट्टी के ढेलों को अपने धनुष पर चढ़ाकर मथरा के कूबर पर मारा था।

तेलुगु रगनाथ रामायण (१, १४; २, २) के अनुसार राम ने बचपन में मथरा की एक टांग को तोड़ दिया था; सेरी राम और रामकियेन (अध्याय १४) के अनुसार राम ने उसके कुन्ज में बाण चलाया था।



(५) सत्योपाख्यान (अध्याय १०-१४) के अनुसार मंथरा ने पूर्व-जन्म के वंश के कारण राम को वनवास दिलाया था। वह दैत्य विरोचन की पुत्री थी और दैत्य-देवता-युद्ध में उसने पाशों से देवताओं के विमान और वाहन बाँधे थे। इसपर विष्णु की आज्ञा से इन्द्र ने उसे वज्र द्वारा मारा था (दे० अध्याय १०-१४)।

मथरा के अगले जन्म का भी उल्लेख किया गया है। आनन्द रामायण के अनुसार वह कृष्णावतार के समय पूतना के रूप में प्रकट होगी और कृष्ण द्वारा मार डाली जायगी (दे० ९, ५, ३५), लेकिन इसी रचना के एक अन्य स्थल पर कहा गया है कि वह कस के यहाँ कुब्जा के रूप में अवतार लेगी (दे० १, २, ३)।

---

## अध्याय १६ अरण्यकांड

### १—वाल्मीकीय अरण्यकांड

४५५ क। अरण्यकांड की कथा-वस्तु

(१) दण्डकारण्य-प्रवेश (सर्ग १-१६)

**विराध**—दण्डकारण्य-निवासी ऋषियों का स्वागत (सर्ग १); विराध द्वारा सीता-अपहरण तथा राम-लक्ष्मण का उसे परास्त करना (सर्ग २-४)

**शरभंग**—राम को देख इन्द्र का आश्रम से प्रस्थान। शरभंग का राम को मुतीक्ष्ण के आश्रम भोजना। राम द्वारा राक्षसों के विरुद्ध सहायता देने की प्रतिज्ञा (सर्ग ५-६)।

**मुतीक्ष्ण**—मुतीक्ष्ण के आश्रम में रात्रि व्यतीत कर प्रस्थान (सर्ग ७-८)। सीता द्वारा अहिंसा का आग्रह; राम द्वारा राक्षसों के विरुद्ध सहायता करने की प्रतिज्ञा का उल्लेख (सर्ग ९-१०)।

**अगस्त्य**—पचासर-तड़ाग पर आगमन। राम का तड़ाग के चारों ओर के आश्रमों में दस वर्ष तक निवास। मुतीक्ष्ण से अगस्त्य-आश्रम का मार्ग पूछना। अगस्त्य द्वारा इल्वल और वातापि के वध की कथा का राम द्वारा उल्लेख। अगस्त्य का स्वागत और विष्णु-धनुष देना, फिर गोदावरी-तट पर स्थित पंचवटी का पथ-प्रदर्शन (सर्ग ११-१३)।

**जटायु**—दशरथ के मित्र और सम्पाति के भाई का जटायु से मिलना (सर्ग १४)। पंचवटी में लक्ष्मण द्वारा पर्ण-कुटी-निर्माण। लक्ष्मण का कँकेयी को दोष देना। राम का उन्हे रोक कर भरत-गुण-कथन के लिए आग्रह (सर्ग १५-१६)।

(२) शूर्पणखा (सर्ग १७-३४)

**शूर्पणखा का विरूपीकरण**—राम और लक्ष्मण से प्रवंचित होकर शूर्पणखा का सीता की ओर झपटना। लक्ष्मण का उसके नाक-कान काटना (सर्ग १७-१८)। खर के भोजे हुए १४ राक्षसों का राम द्वारा वध (सर्ग १९-२०)।

**खर-वध**—खर के १४००० सेना लेकर पहुँचने पर सीता और लक्ष्मण का गुफा में जाना (सर्ग २१-२४) । राम द्वारा राक्षसों तथा दूषण, त्रिशिर और खर का वध (सर्ग २५-३०) । अकंपन का रावण को समाचार देना और सीता-हरण के लिए प्रोत्साहित करना, मारीच से मंत्रणा (सर्ग ३१) ।

**शूर्पणखा-रावण-संवाद**—शूर्पणखा का लंका जाकर रावण की भत्सना करना और सीता के सौंदर्य का वर्णन करना, रावण का सीताहरण का निश्चय (सर्ग ३२-३४) ।

### (३) सीताहरण (सर्ग ३५-५६)

**रावण-मारीच-संवाद**—रावण का मारीच के सम्मुख सीता-हरण का प्रस्ताव रखना । मारीच का समझाना; बाद में चेटावनी देकर स्वीकार करना (सर्ग ३५-४१) ।

**कनक-मृग**—मारीच के कनक-मृग-रूप को देखकर सीता का उसके लिए प्रार्थना करना । सीता को लक्ष्मण की रक्षा में छोड़कर राम का मृग के लिए जाना । दूर जाने पर राम का मारीच को मारना । मरते समय उसका राक्षस रूप में 'सीता-लक्ष्मण' शब्द करना; सीता की लालना से लक्ष्मण का प्रस्थान (सर्ग ४२-४५) ।

**सीता-हरण**—परिव्राजक के रूप में रावण का सीता से जीवन-वृत्तान्त सुनना । प्रकट होकर रावण का बलपूर्वक सीता को अपने रथ पर ले चलना । सीता द्वारा पुकारे जाने पर जटायु का युद्ध करना और आहत होना (४६-५१) । सीता के आभूषणों का गिरना; पाँच बन्दरों की ओर सीता का आभूषण फेंकना; लंका में सीता का अचोकवन में राक्षसियों के नियंत्रण में रहना (सर्ग ५२-५६) । (एक प्रक्षिप्त सर्ग: इन्द्र का सीता के लिए हवि ले आना) ।

### (४) सीता की खोज (सर्ग ५७-७५)

**शून्य वर्णशाळा**—लौटते समय राम का लक्ष्मण से मिलना और शंकाकुल होकर लक्ष्मण को दोष देना (सर्ग ५७-५९) । शून्य कुटी देखकर राम का विलाप और लक्ष्मण की सान्त्वना । गोदावरी तट पर खोज । पुष्प तथा आभूषणों का मिलना, जटायु-युद्ध के चिह्न दिखाई देना (सर्ग ६०-६४), लक्ष्मण की सान्त्वना (सर्ग ६५-६६) ।

**जटायु**—मरण के पूर्व जटायु का रावण द्वारा सीता-हरण तथा दक्षिण की ओर प्रस्थान का उल्लेख (सर्ग ६७-६८) ।

**कबध**—लक्ष्मण का अयोमुखी को विरूप करना । कबध का बाहुविच्छेद; उसके विषय में स्थूलशिर तथा इन्द्र के शाप का उल्लेख, चिता के प्रज्वलित होने पर कबध का दिव्य रूप में सुधीव के पास जाने की मंत्रणा देना (सर्ग ६९-७३) ।

**शबरी**—पम्पासर स्थित आश्रम में शबरी का स्वागत और उमका स्वर्गारोहण । पपावर्णन और राम का विलाप (सर्ग ७४-७५) ।

## ख । अरण्यकांड का विरलेपण

### तीनों पाठों में विभिन्नता

४५६. दाक्षिणात्य पाठ के कई पूरे सर्ग अन्य पाठों में नहीं मिलते हैं ।

सर्ग ३१ अकपन रावण के पास जाकर राम द्वारा खर के वध का समाचार सुनाता है, और सीता के मौदर्य की प्रशंसा कर उनको हज लेने का परामर्श देता है । इसपर रावण भारीच के पास जाकर उसमें महायता माँगता है लेकिन भारीच राम की वीरता का वर्णन कर रावण को सीताहरण करने में रोकता है । यह सर्ग न तो गौडीय पाठ में मिलता है और न पश्चिमोत्तरीय पाठ में इन दोनों में शूर्पणखा पहले-पहल रावण को खरवध का समाचार सुनाती है ।

सर्ग ६०. सीता की खोज करते हुए राम वृक्षों तथा पशुओं को सम्बोधित करते हैं । यह सर्ग गौडीय पाठ में नहीं मिलता ।

सर्ग ६२ और ६३. इन दो सर्गों में राम-विलाप तथा सर्ग ६० की पुनरावृत्ति मात्र मिलती है । दोनों सर्ग केवल दाक्षिणात्य पाठ में पाये जाते हैं ।

इसके अतिरिक्त दाक्षिणात्य पाठ में जो लक्ष्मण द्वारा राक्षसी अयोमुखी के वध का वृत्तान्त दिया गया है (दे० सर्ग ६९, ११-१८) वह अन्य पाठों में नहीं मिलता है । दाक्षिणात्य पाठ में सर्ग ५६ के पश्चात् एक प्रक्षिप्त सर्ग मिलता है, जिसमें इंद्र द्वारा सीता के पास पायस के आने का वर्णन किया गया है । यह सर्ग अन्य पाठों में प्रक्षिप्त नहीं माना गया है (दे० आगे अनु० ५००) । तीनों पाठों की शेष विभिन्नताएँ गौण हैं ।

### प्रक्षेप

४५७. एच० याकोबी का अनुमान है कि आदिरामायण में चित्रकूट से प्रस्थान करने के बाद अरण्यकांड के ग्यारहवें सर्ग का प्राग्भ (श्लोक १-५) मिलता था

अपतः प्रययौ रामः सीता मध्ये शशोभना ।

पृष्ठतस्तु धनुष्याणिलक्ष्मणोऽनुजगाम ह ॥ १ ॥

अनन्तर पंचवटी में आगमन का वर्णन था (सर्ग १५)। इसके अनुसार विराध-वध, शारभंग-सुतीक्ष्ण-अग्रस्थ के आश्रमों में गमन तथा सीताहरण से पहले जटायुसे भेंट, ये सब वृत्तान्त वाल्मीकिकृत काव्य में नहीं पाए जाते थे। इनका आधिकारिक कथा-वस्तु के इतिहास से कोई महत्त्व भी नहीं है। भरत के प्रधान के पश्चात् शूर्पणखा के आगमन तक को ११-१२ वर्ष की अवधि का कुछ वर्णन करने के उद्देश्य से उपर्युक्त वृत्तान्त यहाँ रखे गए होंगे। एव० याकोबो का यह अनुमान न्यायमग्न प्रतीत होता है। वास्तव में अनेक ऐसी राम-कथाएँ भी मिलती हैं जिनमें राम केवल सीताहरण के पश्चात् जटायु से मिलते हैं तथा रामायण से भी ऐसी ही ध्वनि निकलती है (दे० आगे अनु० ४७०)।

इसके अतिरिक्त परम्परा विरोधी बातों से पता चलता है कि अरण्यकांड का मूलरूप हमारे सामने नहीं है। सीता-रावण-संवाद में सीता अपनी कथा सुनाती हुई कहती है कि मैंने १२ वर्ष अयोध्या में बिताये हैं और राम के निर्वासन के समय मेरी अवस्था १८ वर्ष की थी। इसके अनुसार विवाह के समय सीता की अवस्था ६ वर्ष की थी (सर्ग ४७)। वितु रामायण के कई अन्य स्थलों पर विवाह के समय सीता के उस समय पतिमयोगमुलभ' वयस का उल्लेख किया गया है।

जटायु राम से स्पष्ट शब्दों में कहता है कि रावण ने सीता का अपहरण किया है (सर्ग ६८), लेकिन आगे चलकर राम सीता के अपहर्ता नाम से अनभिज्ञ है।

## २—अरण्यकांड का विकास

४५८. अरण्यकांड की मुख्य कथा-वस्तु सीताहरण है इसके विकास की रूपरेखा अगले परिच्छेद में प्रस्तुत की जायेगी। जोय सामग्री में कोई विशेष परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन नहीं किया गया है। वाल्मीकि के कथानक के रूपानुसार कुछ गौण बातों की ओर निर्देश करना है।

### क। दण्डकारण्य-प्रवेश (सर्ग १-१६)

पहले परिच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है कि इस अंश की अविकाश सामग्री सबवत् वाल्मीकिकृत रचना में नहीं पाई जाती थी।

दक्षिणात्य पाठ में विराध के वध के बाद उसके दिव्य रूप धारण करने का उल्लेख नहीं किया गया है। यह प्रसंग गौडीय और पश्चिमोत्तरीय पाठ में (दे० गौ० रा० ३, ८; प० रा० ३, ५) तथा आगे चलकर भी प्रायः सब राम-कथाओं में मिलता है। इसके अतिरिक्त अध्यात्म रामायण में विराध राम से भक्ति की याचना करता है

(दे० ३, १, ३९) । वाल्मीकि रामायण (३, ४, १६) में वह एक तुम्बुघ नामक गन्धर्व है जो रमा के कारण कुबेर का शापभाजन बन गया था । अध्यात्म रामायण (३, १, ३८) तथा आनन्द रामायण (१, ७, १६) इसको दुर्वासा द्वारा शापित विद्याधर मानते हैं । रगनाथ रामायण (दे० ३, ३) में वह अपना परिचय देते हुए कहता है कि मेरी माता शतहृद और मरे पिता जय हैं ।

हिन्देशिया के सेरीराम में विराध के स्थान पर एक पुर्वा ईता नामक राक्षस की चर्चा है जो रावण का कृपापात्र बनने के उद्देश्य से सीता का हरण करने का निष्फल प्रयत्न करता है । जंजी रामायणों में विराधित्त नामक विद्याधर को पर्याप्त महत्त्व दिया गया है । वह खग्दूषण की सेना हराने में लक्ष्मण की सहायता करता है, उसके सेवक सीता की खोज करते हैं तथा लका के युद्ध में उसकी सेना भी राम का साथ देती है (दे० पउमचरिय पत्र ४५ तथा ५४, ३६) । हेमचन्द्र (६, ४५) उसे विराध ही कहकर पुकारता है, पउमचरिय (९, २२) के अनुसार वह चन्द्रोदर तथा अनुगधा का पुत्र है ।

४५९. राम के भिन्न-भिन्न आश्रमों में जाकर तपस्वियों से मिलने के वृत्तान्तों का इतना ही विकास हुआ है कि वाल्मीकि रामायण में राम का सत्कार केवल अतिथि के रूप में किया जाता है लेकिन अर्वाचीन रचनाओं में विष्णु के रूप में राम की स्तुति की जाती है । इस प्रकार के विकास के दो उदाहरण यहाँ पर्याप्त होंगे । शरभग के आश्रम के निकट पटुच तर राम सीता और लक्ष्मण इन्द्र का रथ स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हुये देखते हैं । उस समय इन्द्र शरभग से यह कह कर चले जा रहे थे कि राम (रावण पर) विजय पाने के बाद ही मुझे देखने के योग्य बनेंगे । अनन्तर रामादि आश्रम में प्रवेश कर शरभग के परो का स्पर्श करते हैं

तस्य पादौ च सगृह्य राम सीता च लक्ष्मण ।

निषेदुस्तदनुज्ञाता लब्धवासा निमग्नताः ॥ २६ ॥

राम के प्रश्न का उत्तर देते हुये शरभग कहते हैं कि इन्द्र मुझ ब्रह्मलोक ले जाने के लिए आगे थे किन्तु आप जैसे प्रिय अतिथि को देखे बिना मैं ब्रह्मलोक नहीं जाना चाहता था

अहं ज्ञात्वा नरव्याघ्र वर्तमानमध्वरतः ।

ब्रह्मलोक न गच्छामि त्वामदृष्ट्वा प्रियातिथिम् ॥ २९ ॥

१ दे० ३, ५, २२-२३ । रगनाथ रामायण (३, ४) में इसके विषय में लिखा है—“इन्द्र भी बहुत दुखी होकर, वनवास से खिन्न आपको न देख सकने के कारण यहाँ से चले गये हैं ।

कंबरामायण (३, २) के अनुसार इंद्र शरभंग को ब्रह्मलोक ले जाने के लिए उनके आश्रम आए थे किंतु शरभंग मोक्ष ही चाहते थे और इसी लिए उन्होंने इंद्र के साथ जाना अस्वीकार किया। राम को आते देखकर इंद्र ने परब्रह्मा तथा विष्णु अवतार के रूप में राम की स्तुति की और अनन्तर वे स्वर्ग सिंघारे। राम, लक्ष्मण तथा सीता का स्वागत करने के पश्चात् शरभंग ने चिता जलाई तथा उसमें अपनी स्त्री के साथ प्रवेश कर मोक्ष प्राप्त कर लिया।

अध्यात्म रामायणमें शरभंग राम को देखकर सहमा उठ खड़े हुए (संभ्रमाहुत्थितः दे० ३, २, २) और आगे बढ़कर उन्होंने उनकी भली भांति पूजा की। राम ने शरभंग के पैर छुए, ऐसा कोई उल्लेख अध्यात्म रामायण में नहीं मिलता। चिता पर चढ़ कर वह राम में यह प्रार्थना करते हैं—'मेरे हृदय में सर्वदा अयोध्यापति राम विराजमान रहे।'।

४६०. अगस्त्य के पास पहुँच कर राम ने उनके पैर छुए, इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में किया गया है:

जग्राहापततस्तस्य पादौ च रघुनन्दनः ॥ २४ ॥ (सर्ग १२)

अनन्तर अगस्त्य महान् धर्मचारी और प्रभावशाली राजा तथा पूजनीय अतिथि के रूप में राम का स्वागत करते हैं

राजा सर्वस्य लोकस्य धर्मचारी महारथः।

पूजनीयश्च मान्यश्च भवान्प्राप्तः प्रियातिथिः ॥ ३० ॥

१ दे० अ० रा० ३, २, १०। वाल्मीकि रामायण (सर्ग ११) में इसका उल्लेख है कि राम अगस्त्य से मिलने के पूर्व पचाप्सर-सरोवर के तट पर पहुँचे थे। माण्डकणि मुनि ने तपोबल से इसका निर्माण किया था और अपनी तपस्या को छोड़कर उसमें देवताओं द्वारा भेजी हुई पाँच अप्सराओं के साथ निवास करते थे। आनन्द रामायण (विवाहकाण्ड, सर्ग ५-७) के अनुसार कथा इस प्रकार है—पाँच गधर्वकन्याएँ और सात नागकन्याएँ उस सरोवर में जल-क्रीडा किया करती थी। एक तपस्वी ने उनको कई बार मना किया किंतु तपस्वी की साधना में बाधा उपस्थित करने के विचार से इंद्र ने उन कन्याओं को वहाँ जाते रहने के लिए उभाडा। अंत में तपस्वी ने जल-देवियों से निवेदन किया कि वे उन कन्याओं को अपने यहाँ कैदी बना ले। तपस्या समाप्त कर ऋषि तो स्वर्ग चले गए किंतु जलदेवियों ने उन कन्याओं को अपने पास रोक लिया। राक्षस-बन्ध के बहुत समय बाद राम ने उनकी मुक्ति किया तथा उनके विवाह का भी प्रबन्ध किया।

अध्यात्म रामायण के अनुसार अगस्त्य<sup>१</sup> राम का आगमन सुनकर शीघ्र ही उठकर राम के पास पहुँचे (स्वयमुत्थाय मुनिभिः सहितो द्रुतम् दे० ३, ३, ११) और उनकी पूजा की (सम्पूज्य पूजया बहुविस्तरम् दे० वही, श्लोक १६)। राम की विस्तृत स्तुति करने के उपरान्त अगस्त्य प्रार्थना करते हैं कि मेरे हृदय में आपकी भक्ति सर्वदा बनी रहे और आपके भक्तों का सत्सग मुझे प्राप्त हो।

तस्माद्वाघव सद्भक्तिस्त्वयि मे प्रेमलक्षणा ॥ ४१ ॥

सदा भूयाद्धरे संगस्त्वबभक्तैषु विशेषतः ।

वाल्मीकि रामायण के कई स्थलों पर तथा परवर्ती राम-कथाओं में भी उन आयुष्यों की चर्चा है जिन्हें अगस्त्य ने राम को प्रदान किया था। इन्द्र ने उन्हें पूर्वकाल में अगस्त्य को दिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उनकी सूची इस प्रकार है—विश्वकर्मा द्वारा निर्मित वैष्णव चाप, ब्रह्मा का दिया हुआ अमोघ शर, अक्षय-वाणों से भरे दो तरकश तथा एक हेमविभूषित खंग (दे० ३, १२, ३२-३४)। रामकियेन (अध्याय १६) के अनुसार ईश्वर ने राम के लिये अगस्त्य के यहाँ अपना कवच छोड़ दिया था जिसे पहनकर उन्होंने त्रिपुरा को हराया था। तस्वसंग्रह रामायण (३, ६) में पृथ्वी देवी प्रकट होकर सीता को जडाऊ पादुकाओं का एक जोड़ा देती हैं जिसे पहन कर राम पादपीडा तथा क्षुधा का अनुभव नहीं करेंगे।

## ख। लक्ष्मण का संयम

४६१. अध्यात्म रामायण में सभवतः लक्ष्मण के उपवास तथा जागरण का प्राचीनतम उल्लेख किया गया है। इन्द्रजित् के विषय में विभीषण राम से कहते हैं कि जिमने बारह वर्ष तक आहार और निद्रा<sup>२</sup> को छोड़ दिया हो उसी के हाथ से ब्रह्मा ने इन्द्रजित् की मृत्यु निश्चित की है।

यस्तु द्वादश वर्षाणि निद्राहारविवाजितः ॥६४॥

तेनैव मृत्युनिश्चिष्टो ब्रह्मणास्य दुरात्मनः ।

(युद्धकाण्ड, सर्ग ८)

निम्नलिखित रचनाओं में भी लक्ष्मण के इस संयम की चर्चा है:

१. कांब रामायण (३, ३) में अगस्त्य को मञ्जुर तमिल भाषा का प्रवर्तक माना गया है।
२. अध्यात्म रामायण के अरण्यकाण्ड में भी लक्ष्मण के जागरण की ओर संकेत किया गया है; दे० ३, ४, १२-१३।



आनन्दरामायण (१, ११, १७६) क, बरामायण, द्विपद रामायण, तोरवे रामायण भावार्थ रामायण (६, ३६), बिहोर राम-कथा, रामकेरि, पादचात्य वृत्तान्त न० १ और ५ । कुछ अन्य रचनाओं में अन्न तथा निद्रा के अतिरिक्त स्त्री का त्याग भी उल्लिखित है, उदाहरणार्थ कृत्तिवास रामायण, बलरामदास रामायण रामचन्द्रिका (बारह वर्ष छुआ, त्रिया, निद्रा, जीते होइ; दे० १८, ३१), सेरीराम, पादचात्य वृत्तान्त न० १३ । कृत्तिवास रामायण के उत्तरकाण्ड में प्रस्तुत प्रसंग का विस्तृत वर्णन किया गया है (दे० ७, २) । अगस्त्य राम से कहते हैं कि इन्द्रजित् के समान त्रिभुवन में कोई भी वीर नहीं था, वही उसका वध करने में समर्थ था, जिसने चौदह वर्ष तक निद्रा और आहार छोड़ दिया हो तथा उस अवधि में स्त्री का मुख भी नहीं देखा हो । यह सुनकर राम को आश्चर्य होता है और वह लक्ष्मण को बुला भंजते हैं । अगस्त्य का कथन सुनकर लक्ष्मण स्वीकार करते हैं कि मुझ में ये शक्तें विद्यमान थीं । श्रीचरणों को छोड़कर मैंने सीता की ओर दृष्टिपात नहीं किया था और इसलिए मैं नपुरी के अतिरिक्त उसके आभरणों को पहचानने में असमर्थ था (दे० अगला अनु०) । आप की ओर माता जानकी की रखवाली करते समय जब निद्रा पहले-पहले मेरी आँखों पर छा जाना चाहती थी तब मैंने क्रोध करके उसे बाण से छेदित किया तथा १४ वर्ष तक मेरे पास न आने का उसे आदेश दिया । फल देते समय आपने खाने की आज्ञा नहीं दी थी, सो मैं अपना अश भोपड़ी में रख कर उपवास करता रहा । इस पर हनुमान को फल ले आने के लिए भेजा जाता है, वह फलों से भरा हुआ तरकश देखते तो है किन्तु अहंकार हो जाने के कारण वह उसे उठाने में असमर्थ है । बाद में लक्ष्मण जाते हैं और बायें हाथ से तरकश धारण कर उसे राम के सामने रख देते हैं । गिनने पर पता चलता है कि सात दिन के फल नहीं हैं किन्तु लक्ष्मण अपनी सफाई देते हुए राम को स्मरण दिलाते हैं कि किस-किस दिन वे फल बटोरने नहीं गये थे । अन्त में लक्ष्मण विश्वामित्र की मन्त्रदीक्षा का उल्लेख करते हैं जिसके बल पर वह चौदह वर्ष तक अन्न का त्याग कर सके ।<sup>१</sup>

इस वृत्तान्त में लक्ष्मण के उपवास का जो कारण दिया गया है वह गौण परिवर्तनों के साथ अन्यत्र भी मिलता है । बिहोर राम-कथा के अनुसार लक्ष्मण को अन्न देते समय सीता कहती थी—“लो, यह तुम्हारा हिस्सा है ।” वह इसे खाने के लिये नहीं कहती, इसीलिए लक्ष्मण केवल मिट्टी खाते रहे । तोरवे रामायण (६, ४५) में भी लक्ष्मण के १४ वर्ष के उपवास, ब्रह्मचर्य तथा जागरण का उल्लेख किया गया है ।

१ कृत्तिवास ने बालकाण्ड में भी लिखा था कि इस मन्त्रदीक्षा के फलस्वरूप लक्ष्मण उपवास कर सकेंगे तथा इन्द्रजित् का वध करेंगे (दे० १, ५७) ।

कम्ब राधायण तथा द्विपद रामायण में लक्ष्मण के जागरण की कथा में निद्रा देवी का मानवीकरण किया गया है। कम्ब रामायण (२, ६, ५१) के अनुसार लक्ष्मण शृगवेरपुर में राम की रक्षा करते हुए रात भर जागते रहे। निद्रा देवी उनके सामने प्रकट हुई और लक्ष्मण ने उनसे कहा—जब हम अयोध्या में लौटकर आयेगे, तब तुम मेरे पास आना। उसपर निद्रा देवी लक्ष्मण को प्रणाम करके चली गई। द्विपद रामायण के दो स्थलों पर इस प्रसंग का उल्लेख मिलता है। कम्ब रामायण की कथा के अनुसार शृगवेरपुर में निद्रा देवी लक्ष्मण से मिलने आई थी और इपी अवसर पर लक्ष्मण ने उनसे कहा—“तुम दिन रात ऊमिला को अपनी धरण लो। (१४ वर्ष की) अवधि समाप्त होने पर मैं तुमको फिर ग्रहण करूँगा” (२ १८)। परिणाम यह हुआ कि लक्ष्मण के लौटने तक ऊमिला सोनी ही रही। अयोध्या में राम के राजतिलक के पश्चात् राजसभा के वर्णन के अन्तर्गत निद्रादेवी के विषय में निम्नलिखित कथा मिलती है (६ १६८)। उस समय निद्रादेवी लक्ष्मण को अपने वश में कर लेने का उपक्रम करने लगी। लक्ष्मण यह देखकर अचानक सभा में जोर में हँसने लगे। सभामदों ने लक्ष्मण का व्यवहार अपमान-जनक समझा और राम ने लक्ष्मण से हँसी का कारण पूछा। इसपर लक्ष्मण ने कहा— वन में निद्रा मुझपर प्रभाव डालन आई थी। मैंने उनसे कहा कि तुम चौदह वर्ष मुझ से दूर रहो। मेरी बात सुनकर वह चली गई। अब वह फिर मेरे पास आई। यह देखकर मुझे हँसी आई। लक्ष्मण का यह स्पष्टीकरण सुनकर सभा की शका दूर हुई।<sup>१</sup> रामकेति में ‘निद्रा’ नामक लक्ष्मण की एक हितैषिणी की चर्चा है जो उसे नींद देने आया करती थी। गृह के मिलन के बाद वन में प्रवेश करने के पूर्व लक्ष्मण ने उसे बुलाकर कहा—“आज से लेकर १४ वर्ष तक तुम्हें मुझे नींद नहीं दिलानी चाहिए। इस अवधि में मैं भोजन भी नहीं करूँगा अतः तुम क्षुधा को मुझमें दूर हटाकर मुझे स्वस्थ और सबल बनाए रखो।” निद्रा ने ऐसा करने की प्रतिज्ञा की थी (सर्ग १)। उसी रचना में इसका भी वर्णन किया गया है कि सीताहरण के पूर्व लक्ष्मण राम की आज्ञा लेकर अकेले ही तपस्या करने गये थे (सर्ग ३)। सेरीराम में लक्ष्मण के समय की कथा इस प्रकार है। सीता-हरण के पश्चात् राम मूर्च्छित होकर सीता के पलक पर गिर जाते हैं। लक्ष्मण चालीस दिन तक निद्रा, अन्न तथा स्त्री-प्रसंग का त्याग करते हुए राम का सिर गोद में लेकर निश्चल बैठे रहते हैं। एक आकाशवाणी लक्ष्मण के इस समय की प्रशंसा करती है तथा यह भी प्रकट करती है कि राम-सीता-वियोग १२ वर्ष के बाद समाप्त होगा।

१ दे०चा० सूर्यनारायण मूर्ति, ऊमिला की नींद। हिन्दी अनुशीलन, वर्ष ११, अंक २, पृ० ३७। उस लेख में एक तेलुगु लोकगीत का विश्लेषण किया गया है। कथावस्तु द्विपद रामायण पर आधारित है।

४६२ वाल्मीकि के आदिकाव्य में सीता-लक्ष्मण के सबंध का कोई विशेष ध्यान नहीं रखा गया था। लक्ष्मण राम तथा सीता दोनों की सेवा करते हुए सीता के साथ निस्संकोच बातचीत तथा व्यवहार करते थे। एक स्थल पर इसका उल्लेख किया गया है कि लक्ष्मण न राम तथा सीता के पैर धोए थे (दे० २ ५० ४९)। गंगा पार करन के अवसर पर राम लक्ष्मण को आज्ञा देते हैं कि वह सीता को उठाकर नाव पर रखे—सीता चारोपयान्वक्ष परिगृह्य मनस्विनीम् (दे० २ ५२ ७५)। चित्रकूट (दे० २ ५६ २०) तथा पंचवटी (दे० ३ १५ २१) में पहुँच कर लक्ष्मण के एक ही पणशाला बनाने का उल्लेख मिलता है जिसमें तीनों साथ ही निवास करते थे। रात्रि के ठीक पहले राम की आत्तवाणी सुनकर तथा अपन पति की सुरक्षा के विषय में चिन्तित होकर सीता उत्तजित हो जाती है तथा अपन देवर पर यह आरोप लगाती है कि मैंने अपने भागी पर अनुरक्त है और इसीलिए राम के साथ वन में चले आए—सुदुष्टस्तत्र वन राममहोऽनुगच्छसि मम हेतो (दे० ३ ४५ २४)। मगधत सीता के समीप उन के अन्त पर स्कन्द पुराण के नागर खण्ड (अध्याय २०) में लक्ष्मण के स्वामिद्रव्य के वत्त की नल्पना कर ली गई है। पितृकपिकातीय में पहुँचकर राम दण्ड्य के श्राद्ध का आयोजन करते हैं। सीता वही छिप जाती है और लक्ष्मण को विप्रा का मेला करनी पड़ती है। श्राद्ध के बाद सीता फिर दिखाई देती है जिससे लक्ष्मण को क्षुब्धता प्रीथ आ जाता है कि वह साँधरी के लिए पत्त तथा पैर धोने के लिए पानी ले आना अस्वीकार करते हैं। बात में कोपरकतलोचन लक्ष्मण दूर से राम को मोते हुए देखते हैं तथा उनके मन में राम का बंध करन तथा सीता को अपनी पत्नी बनाने का विचार उठता है

हृत्वन राघव सुप्त सीता पत्नीं विधाय च ।

किं गच्छामि निज स्थान विवेश वापि दूरत ॥४५॥

प्रातः राम तथा सीता दक्षिण के लिए प्रस्थान करते हैं लक्ष्मण राम-बंध का अवसर ढूँढते हुए दिन भर उनका पीछा करते हैं

लक्ष्मणोऽपि धनु सग्न्य कृत्वा तथाय सायकम् ।

अनुव्रजति पृष्ठस्थस्तस्य छिद्र विलोकयन् ॥४६॥

शाम को गोकुण पहुँचकर लक्ष्मण राम के पास जाकर अपना अपराध स्वीकार करते हैं तथा राम से क्षमा पाते हैं। लक्ष्मण आत्मशुद्धि के उद्देश्य से राम के हाथ से मृत्यु चाहते हैं नहीं तो वह अग्नि में प्रवेश करने की सोच रहे हैं। माकण्ड्य उस समय आ पहुँचते हैं तथा स्वामिद्रोह के प्रायश्चित्त के लिये बालमङ्गल-तीर्थ में स्नान करने का परामर्श देते हैं। पद्मपुराण के सृष्टि खंड (अध्याय २८ १२६ १९०) में भी

लक्ष्मण का विद्रोह तथा बंद में उनका पश्चात्ताप वर्णित है, किन्तु पद्मपुराण में सीता के प्रति आसक्ति का उल्लेख नहीं है।

ऊपर इसका उल्लेख हो चुका है कि खोतानी रामायण में, सीता को राम तथा लक्ष्मण दोनों की पत्नी माना गया है (दे० अनु० ३१०)। इस प्रकार की कल्पना वहाँ की बहुपति-प्रथा के आधार पर ही सभव हो सकी। प्राचीन काल से राम-साहित्य में लक्ष्मण के मयम की प्रशंसा मिलती है तथा सीता-लक्ष्मण संबंध के चित्रण में मर्यादावाद का ध्यान रखा गया है। प्रचलित वाल्मीकि रामायण के गौडीय (२, ५६, २०) तथा पश्चिमोत्तरीय पाठ (२ ६० २०) में लिखा है कि लक्ष्मण ने चित्रकूट में दो पर्णशालाओं का निर्माण किया था तथा परवर्ती राम-कथाओं में भी प्रायः दो सोपडियों की चर्चा है।<sup>१</sup> दाक्षिणात्य पाठ के एक प्रक्षेप में जो अन्य पाठों में नहीं मिलता लक्ष्मण कहते हैं कि वह सीता के आभूषणों में से केवल नूपुर ही पहचान सकते हैं

नाह जानामि केयूरे नाह जानामि कुण्डले ॥२२॥

नूपुरे त्वभिज्जानामि नित्य पादाभिवन्दनात् ॥

(किष्किन्धा काण्ड सर्ग ६)

सीतात्याग के समय भी लक्ष्मण सीता से कहते हैं कि मैं न चरणों को छोड़कर आपकी ओर आँख उठाकर वभी नहीं देखा है—दृष्टपूर्वं न ते रूप पादौ दृष्टौ तवानधे (दे० ७ ४८ २१)। लक्ष्मण की यह उक्ति प्रक्षिप्त है क्योंकि वह अन्य पाठों में नहीं मिलती। फिर भी उपर्युक्त उद्धरण में तथा परवर्ती राम-कथाओं में उनकी व्यापकता में पता चलता है कि जैनी रामायणों को छोड़कर राम-कथा-साहित्य में लक्ष्मण की पतादियों से समयों के रूप में देखा गया है। इसके विषय में यहाँ पर दो कथाओं का उल्लेख करना है। भावार्थ रामायण के अरण्यकाण्ड (अध्याय ८) के अनुसार राम किसी दिन नीता को लक्ष्मण की रक्षा में छोड़कर बाहर गये थे। सीता को नीद आई थी और उस नीद में उनके कपड़े अस्त-व्यस्त हो गये थे जिससे उनका शरीर अनावृत हो गया था। लक्ष्मण ने साधना में लीन रहकर उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। राम ने बापम आकर लक्ष्मण से पूछा कि स्त्री का रूप देखकर किसका मन स्थिर रह सकता है। लक्ष्मण ने उत्तर दिया—राम-भक्त का ही मन इससे प्रभावित नहीं होता। एक आदिवासी कथा (दे० अनु० २७५) के अनुसार लक्ष्मण ने

१ अध्यात्म रामायण (२ ६ ९०) के अनुसार वाल्मीकि के शिष्य एक सुविस्तीर्ण शाला बनाते हैं जिसमें दो मन्दिर हैं, तुलसीदास ने माना है कि देवता स्वयं "भञ्जु बुद्ध साला एक ललित लघु एक बिसाला" बनाने आये थे (दे० २, १३३)।

किसी मन्दिर में रहकर १२ वर्ष तक राम तथा सीता को नहीं देखा था। अन्त में वह जैवपुर में दोनों से मिलने जाते हैं। सीता उनसे कहती है कि "स्वप्न में मैंने तुमको कलसापुर के राजा के साथ युद्ध करते देखा और उसमें तुम्हारी जीत हुई थी।" लक्ष्मण इस स्वप्न के सत्य की परीक्षा लेने के लिए कलसापुर की ओर प्रस्थान करते हैं। सीता सोचती है कि मैंने लक्ष्मण को मृत्यु की जोखिम में डाल दिया है। वह महल छोड़कर लक्ष्मण को रोकने का प्रयत्न करने जाती हैं। वह क्रमशः लोमड़ी, अजीर का पेड़ तथा जलम्बोत बन जाती है और लक्ष्मण का स्पर्श पाकर अपना ही रूप धारण कर लेती है तथा लक्ष्मण की परीक्षा लेती हैं। लक्ष्मण उनकी ओर ध्यान न देकर कलसापुर की ओर आगे बढ़ने है और सीता निराश होकर घर जाती हैं। बाद में सीता स्वप्न में देवनी है कि कलसापुर में लक्ष्मण का वध हुआ, सीता ने यह जान कर राम वहाँ जाते हैं तथा लक्ष्मण का जिलाते हैं।

### ग। शूर्पणखा

४६३ अरण्यकाण्ड के प्रथम अंश में वाल्मीकीय उत्तरकाण्ड में लिखा है कि रावण ने वाङ्केन्द्र दानवद्रि विद्युज्जिह्व के साथ अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह कराया था (दे० ७, १२, २)। बाद में रावण रसानल की दिग्बिजय के अवसर पर अम्बतगर में विद्युज्जिह्व की सेवा दृग्कर अपने बहनार्ई का भी वध करता है (दे० ७, २३, १७-१८)। शूर्पणखा लका पहुँचकर रावण की भत्सना करती है तथा रावण उसको दण्डवारण्य में भेज देता है जहाँ वह खर को १६००० राक्षसों का नायक नियुक्त करता है (दे० ७, सग २६)। इस वृत्तान्त में खर को शूर्पणखा का मीमेग भाई (मानुष्वसेय, श्लोक ३७) माना गया है तथा दूषण को खर का सेनापति। अयोध्या काण्ड में खर को रावण का अनुज (रावणावरजः २, ११६-११) कहा गया है तथा अरण्यकाण्ड में भी खरशूर्पणखा का सबध भ्राता-भगिनी का है (दे० १८, २५, १९, १ और २३, २०, २५, २२, ६ और २३)। शूर्पणखा एक अन्य स्थल पर खर और दूषण दोनों को अपना भाई मानती है (भ्रातरौ खरदूषणौ; ३, १७, २३)। अन्यत्र दूषण को खर का सेनापति माना गया है (३, २२, ७)।

सेरौ राम में विद्युज्जिह्व का नाम बर्गासीगा है। किसी यात्रा से लौटकर रावण लका को चारों ओर से बर्गासीगा की जीभ से घिरा हुआ पाता है, जिससे वह शहर की रक्षा करता है, अतः रावण अपनी तलवार से उसे काट कर अतजाने अपने

१ विद्युज्जिह्व नामक राक्षस की चर्चा युद्ध काण्ड में भी मिलती है। दे० अनु० ५८३।

बहनोई का वध करता है। उस समय सूर्य पंदाकी (शूर्पणखा) गर्भवती थी; बाद में वह दसासींगा को प्रसव करती है जो अपने पिता की हत्या का प्रतिकार लेने की शक्ति प्राप्त करने के लिए तपस्या करने जाता है। शूर्पणखा के इस पुत्र की कथा पञ्चमचरियं पर आधारित है। इस रचना के अनुसार खरदूषण एक विद्याधर-वंशी राजकुमार हैं जिसका विवाह चन्द्रनखा (शूर्पणखा) के साथ हुआ है; उनका पुत्र शम्भूक लक्ष्मण द्वारा वध किया जाता है (दे० अनु० ६३१-६३२)।

सेरी राम की राफल्स हस्तलिपि में लक्ष्मण शूर्पणखा के पुत्र का वध करने के बाद उसके साथ विवाह करते हैं (दे० ऊपर अनु० ३१९)। इस कल्पना का आधार भाग्यीय कथाओं में देखा जा सकता है। पञ्चमचरियं के अनुसार लक्ष्मण चन्द्रनखा का रूप देखकर अनुरक्त हुए थे और उन्होंने किसी बहाने से राम को छोड़कर वन में उमकी खोज की थी, किन्तु उसे न पाकर लौटे (दे० ४३, ४८)। पञ्चमचरित में लक्ष्मण के इस विरह तथा खोज का उल्लेख मिलता है—युनरालोकनाकासो विरहादाकुलोऽभवत् ॥ अटवीं पादपद्याभ्यां बन्धामान्धेषणातुरः (दे० ४३, ११४-११५)। सारलावास के महाभारत (वनपर्व) में सीता सखी पाने की इच्छा से चाहती है कि लक्ष्मण शूर्पणखा से विवाह करे और राम भी इसके लिए अनुरोध करते हैं, किन्तु लक्ष्मण अस्वीकार करते हैं। बाद में वह उसके कान और नाक काट लेते हैं।

४६४. शूर्पणखा के इस विरूपीकरण की कथा का अधिक विकास नहीं हुआ है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार शूर्पणखा राम के पास आकर प्रस्ताव करती है कि वह सीता तथा लक्ष्मण का भक्षण करके उनकी पत्नी बन जाये (सर्ग १७)। राम उसको अविवाहित लक्ष्मण के पास भेज देते हैं, किन्तु लक्ष्मण आपत्ति करते हैं कि मैं राम का दास हूँ और उसको राम के पास वापस भेज देते हैं। राम की अस्वीकृति सुनकर शूर्पणखा सीता पर आक्रमण करने पर है, किन्तु राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण तलवार से उसके कान और नाक काट लेते हैं (सर्ग १८)। दक्षिणात्य पाठ में राम के सौंदर्य तथा शूर्पणखा की कुरूपता को विशेष महत्त्व दिया गया है; गौडीय पाठ में इसका स्पष्ट शब्दों में उल्लेख मिलता है कि राम के पास जाने के पूर्व शूर्पणखा ने मोहक रूप धारण कर लिया था (दे० ३, २३, १८-२५)।

निम्नलिखित रचनाओं में राम द्वारा शूर्पणखा के विरूपण का उल्लेख मिलता है—  
भागवत पुराण (९, १०, ९); गहड़ पुराण (अध्याय १४३); पद्यपुराण (पाताल खण्ड, अध्याय ३६; उत्तर खण्ड, अध्याय २६९); देवी भागवत पुराण (३, २८)।  
नृसिंह पुराण (अध्याय ४९) में पहले-पहल राम के एक पत्र की चर्चा है। उस रचना

मे शूर्पणखा राम को प्रलोभन देती हुई कहती है—**अतीव निपुणा चाहं रसिकर्मणि।**<sup>१</sup> राम द्वारा ठुकराए जाने तथा लक्ष्मण के पास भेजे जाने पर वह लक्ष्मण के नाम पत्र माँगती है, राम उस पत्र में उसकी नामिका काटने का आदेश देते हैं। **भारवार्थ रामायण (३, ८)**, **सेरी राम तथा पाश्चात्य वृत्तान्त न० ३ (अध्याय ४)** में भी राम के पत्र का उल्लेख मिलता है। **सेरी राम** के अनुसार सूरापदाकी (शूर्पणखा) अनुमान करती है कि लक्ष्मण ने उसके पुत्र का वध किया था, वह अपने रिश्तेदार गण्डस राजा दरकालहसीन (खरदूषण) के पास जाकर कहती है कि मैंने लक्ष्मण का प्रेमप्रस्ताव अम्बीकार किया था, इसीलिए उसने मेरे पुत्र का वध किया है। मन्त्री के परामर्श के अनुसार सूरापदाकी सुन्दर रूप धारण कर राम को आर्कषित करने का प्रयत्न करती है, राम उसे साधना में लीन लक्ष्मण के पास भेज देते हैं किन्तु लक्ष्मण उसकी आर दृष्टिपात भी नहीं करते। राम के पास लौटकर सूरापदाकी राम तथा सीता का अपमान करती है। तब राम उनकी पीठ पर पत्र लिखकर उसे लक्ष्मण के पास लौटने को कहते हैं। पत्र में लिखा है कि लक्ष्मण उनकी नाक तथा हाथ काटें। लक्ष्मण ऐसा ही करना चाहते हैं कि वह अपना राक्षसी रूप धारण कर लक्ष्मण को आकाश में ले जाती है। लक्ष्मण राम की आज्ञा पूरी करके राक्षसी के साथ भूमि पर गिर जाते हैं किन्तु देवताओं की रक्षा के फलस्वरूप चोट से बच जाते हैं।

कई राम-कथाओं के अनुसार लक्ष्मण ने शूर्पणखा के स्तन भी काट लिए थे, उदाहरणार्थ **कब रामायण (३, ५)**, **आनन्द रामायण (१, ७, ५५)**, **मलयाली अध्यात्म रामायण, पाश्चात्य वृत्तान्त १ और २०**। **सेरी राम** की भाँति **पाश्चात्य वृत्तान्त न० १** में भी शूर्पणखा के लक्ष्मण को ऊपर उठाने का उल्लेख है, उस वृत्तान्त में लक्ष्मण नाक और कान के अतिरिक्त उसके स्तन तथा उसके बाल भी काट लेते हैं तथा यह भी लिखा है कि उसके स्तनों के रक्त से जोके उत्पन्न हुई थी (दे० पृ० ८०)। **रामकियेम् (अध्याय १०)** के अनुसार लक्ष्मण ने उसके कान, नाक, हाथ और पैर भी काट लिये थे।

**बालरामायण (अंक ५)** के अनुसार शूर्पणखा वनवास के पूर्व ही अयोध्या के निकट राम तथा लक्ष्मण द्वारा ठुकरायी तथा विरूपित की गई थी। वह रावण के पास जाकर कहती है कि मैंने सीता को आपके योग्य समझकर उनका अपहरण करना चाहा जिससे राम-लक्ष्मण ने मेरी यह दुर्गति कर दी है। इस पर रावण उत्तर देता है—

**दाशरथिबिनायाय कारणद्वयी सम्पन्ना सीता शूर्पणखा च ।**

१ बालरामदास रामायण में भी शूर्पणखा अपनी इस निपुणता का उल्लेख करती हैं।

४६५. जैनी रामायणों में लक्ष्मण अथवा राम द्वारा शूर्पणखा के विरूपण की कथा नहीं मिलती; गुणमद्भ के उत्तरपुराण में इसका नितान्त अभाव है, किन्तु पञ्चम-चरियं (पर्व ४४) में इस विरूपण की प्रतिध्वनि अवश्य विद्यमान है। चन्द्रनखा अपने पुत्र शम्बूक (दे० अनु० ६३१) के लिए विलाप करती हुई वन में घूमती थी। राम तथा लक्ष्मण को देखकर वह मोहित हुई तथा दोनों द्वारा ठुकराये जाने पर वह अपने महल लौटी। वह अपने नाखूनों से अपना शरीर विकृत कर, अपने बाल बिखेर कर तथा धूल से घूसरित होकर अपने भवन में विलाप करने लगी। उसके पति खर-दूषण के पूछने पर उसे शम्बूक-वध का समाचार सुनाया तथा यह भी कहा कि शम्बूक के हत्यारे ने मेरा आलिंगन किया तथा मुझसे बलात्कार करना चाहा किन्तु मैं किसी न किसी तरह से अपने को छुड़ाने में समर्थ हुई।

पह्लचक्र के अनुसार शूर्पणखा अपनी दो पुत्रियों के साथ लंका-किष्किन्धा के सीमान्तों की रखवाली करती थी। किसी दिन वे राम-सीता-लक्ष्मण को देखकर उन पर आक्रमण करती हैं। लक्ष्मण शूर्पणखा की दोनों पुत्रियों को मार डालते हैं तथा राम शूर्पणखा को भाग जाने के लिए बाध्य करते हैं।

४६६. वाल्मीकि रामायण के अनुसार शूर्पणखा विरूपित हो जाने के बाद जनस्थान में अपने भाई खर के पास पहुँचकर विलाप करती है। खर राम-लक्ष्मण का वध करने के लिए शूर्पणखा के साथ १४ राक्षसों को भेज देता है। राम सबों को मार डालते हैं तथा शूर्पणखा खर के पास लौटती है (दे० सर्ग १९-२१)। खर अब अपने सेनापति दूषण को १४००० राक्षसों को एकत्र करने का आदेश देकर उन सबों के साथ राम के पास जाना है। राक्षसों की सेना आते देखकर राम आदेश देते हैं कि सीता तथा लक्ष्मण पहाड़ की किसी गुफा में छिप जाएँ (सर्ग २२-२४)। अनन्तर राम अकेले ही राक्षसों का सामना करते हैं; दूषण तथा उसकी समस्त सेना को मार कर राम अन्त में त्रिशिरा का तथा इसके बाद खर का वध करते हैं। शूर्पणखा अब रावण के पास जाती है (सर्ग ३२)। राम अकेले ही इतने राक्षसों को हराने में समर्थ हुए, इसका कारण गौडीय पाठ के अनुसार यह है कि गांधर्वास्त्र के कारण राक्षस अपने साथियों में राम का रूप देखकर एक-दूसरे को मारते थे (दे० गौ० टी० ३१, ४६-४७)। आर्जुन रामायण (१, ७, ६२) में माना गया है कि राम ने १४००० रूप धारण कर राक्षसों का सामना किया था।

१. दे० सर्ग २५-३०। दक्षिणात्य पाठ में यहाँ पर अकम्पन का वृत्तान्त मिलता है जो रावण को जनस्थान की घटनाओं से अवगत कराता है (दे० ऊपर अनु० ४५६)।



अध्यात्म रामायण तथा अन्य परवर्ती राम-कथाओं में केवल एक ही युद्ध का वर्णन है जिसमें १४००० राक्षस मार डाले जाते हैं (दे० ३५)। ब्रह्मवैवर्त पुराण (कृष्ण जन्मखण्ड ६२, ४७) में लक्ष्मण द्वारा खर-दूषण के वध का उल्लेख मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि पउमचरिय में पहले-महल लक्ष्मण को युद्ध का नायक माना गया है। उस रचना के अनुसार विराधित (दे० अनु० ४५८) की सेना की महायता में लक्ष्मण खरदूषण को हरान में समर्थ हुए। बाद में राम तथा लक्ष्मण खरदूषण के राजमहल में ठहरते हैं (दे० पर्व ४५)।

भट्टिकाव्य (४४१) सारलाबास महाभारत (वनपर्व) रामायण ककविन (४, ७१) तथा सेरी राम के अनुसार राम तथा लक्ष्मण दोनों मिलकर राक्षसों का सामना करते हैं। सेरी राम में लक्ष्मण ही राक्षस राजा दरकालहसीन (खरदूषण) का वध करते हैं युद्ध के बाद राजा का पुत्र<sup>१</sup> रावण के पास जाता है तथा सेमदारीभीना नामक मन्त्री को राज्याभिषेक दिया जाता है।

४६७ रामनाटक के अनुसार शूर्पणखा मथरा अथवा कँकेयी का रूप धारण कर राम को निर्वासित कराने का सफल प्रयत्न करती है (दे० अनु० ४५२)। कृतिवास (दे० अनु० ५००) तथा भावार्थ रामायण (५ १०) के अनुसार शूर्पणखा अशाकवन में सीता से मिलन आई थी। भावार्थ रामायण में वह सीता से रावण की पत्नी बनने का अनुरोध करती है।

४६८ गुणभद्र के उत्तरपुराण में रावण सीता-हरण के पूर्व सीता के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए शूर्पणखा को वाराणसी भेज देता है (दे० अनु० ६४)। कुछ विदेशी कथाओं में शूर्पणखा स्वयं कनकमूग बनकर सीता-हरण में अपने भाई रावण की सहायता करती है जैसे प्याम देश का ब्रह्मचक्र (दे० आगे अनु० ४९३) तथा ब्रह्मदेश के राम-नाटक (दे० अनु० ४९३ टि०) में। अनेक राम-नाटकों में शूर्पणखा छद्मवेष में सीता-हरण में सहायक है, आश्चर्य बृधामणि में वह सीता बन जाती है (दे० अनु० ४९४) तथा कृत्यारावण में वह पहले गीतमी तथा बाद में सीता का रूप धारण कर लेती है (दे० अनु० ४९६)। ब्रह्मचक्र में शूर्पणखा सीता को रावण का चित्र बनाने के लिए प्रेरित करके सीता-त्याग का कारण बन जाती है (दे० अनु० ७२४)।

१ पउमचरिय के अनुसार भी खरदूषण का पुत्र सुन्द खरदूषण-वध के बाद अपनी माता चन्द्रनखा तथा अपनी सेना के साथ लकापुरी जाता है (दे० पर्व ४५)।

४६९. ब्रह्मवैवर्त पुराण (कृष्णजन्म खण्ड, अध्याय ६२) में शूर्पणखा के अगले जन्म का भी उल्लेख किया गया है। राम से टुकराये जाने पर वह उनको शाप देती है (मम शापास्तथा रामो हृतभार्यो भविष्यति, श्लोक ४४) तथा विरूपण के पश्चात् वह रावण को उसकी सूचना देकर पुष्कर में तपस्या करने जाती है। इसके फलस्वरूप वह ब्रह्मा से यह वरदान पाती है कि वह अपने अगले जन्म में राम को पति-स्वरूप प्राप्त करेगी, इसके बाद वह अपना शरीर अग्नि में जलाकर कुब्जा के रूप में अवतार लेती है।

नीलगिरि में शूर्पणखा की अब तक पूजा की जाती है<sup>१</sup> तथा मलयाली नत्तु नामक जाति की स्त्रियाँ शूर्पणखा की सन्तान मानी जाती है।<sup>१</sup>

### घ । जटायु

४७० प्रचलित रामायण के तीन पाठों में सीताहरण के पूर्व ही जटायु से भेंट का तथा सीता की रक्षा करने की उसकी प्रतिज्ञा का उल्लेख मिलता है। सीताहरण के समय जटायु की निष्क्रियता का कारण गौडीय पाठ में यह माना गया है कि कनक-मृग के आगमन के पूर्व वह अपने सबधियों से मिलने की आज्ञा लेकर तथा शीघ्र ही वापस आने की प्रतिज्ञा करके चला गया था (दे० गौ० रा० २३, ३-१०)। अन्य पाठों के अनुसार राम सीता को लक्ष्मण तथा जटायु की रक्षा में छोड़कर कनकमृग का वध करने गए थे। दक्षिणात्य पाठ में ही इसका उल्लेख मिलता है कि हरण के बाद सीता ने सोते हुए जटायु को जगाकर उसको राम तथा लक्ष्मण के लिये एक सन्देश दिया था (दे० ४९ ३६-४०)। वाम्तव में आदि रामायण में राम केवल सीताहरण के बाद ही जटायु से मिले थे। उपर्युक्त पाठ-वैभिन्य के अतिरिक्त इसका प्रमाण यह है कि सीता की खोज करते समय राम जटायु को देखकर उसे गृध्रका रूप धारण करने वाला कोई राक्षस ममज्ञते है जिसन सीता का भक्षण किया है

अनेन सीता बंधेहो भक्षिता नात्र सशयः ।

गृध्ररूपमिदं व्यक्तं रक्षो भ्रमति काननम् ॥११॥ (सर्ग ६७)

महाभारत (३, २६३), भट्टिकाव्य (सर्ग ५), रामायण ककबिन (सर्ग ५) और उदारराघव (सर्ग ८) के अनुसार भी सीताहरण के पश्चात् ही जटायु का उल्लेख किया गया है।

१ दे० ओपर्ट, जर्मन एथनॉलॉजिकल जर्नल, भाग ३७, पृ० ७३४।

२ अनन्त कृष्ण अय्यर, बौचिन ट्राइन्स एंड कस्टम्स, भाग १, पृ० २९।

रावण-जटायु-युद्ध के वर्णन में वास्तवीक रामायण के तीन पाठों में कोई उल्लेखनीय अन्तर नहीं मिलता। जटायु रावण को देखकर सीताहरण के कारण उसकी निन्दा करता है तथा युद्ध के लिए चुनौती देता है (सर्ग ५०)। इस युद्ध में जटायु अपने नखों से रावण को ब्राह्मण करता है तथा उसके दो धनुष छीन कर नष्ट करता है। वह रथ के खरों का बध करके रथ तोड़ देता है, रथ में बँठे हुए राक्षसों को गिरा देता है तथा सारथि को भी मार डालता है जिससे रावण सीता के साथ भूमि पर गिर जाता है :

स भग्नधन्वा बिरघो हुताश्वो हृतसारथिः ।

अंकेनावाय बंधेहीं पयात भूधि रावणः ॥१९॥ (सर्ग ५१)

अब रावण के पाम केवल उसकी तलवार रह गई है। वह फिर उठकर आकाश में सीता को ले जाता है। जटायु उसके बाईं भुजाओं को काट लेता है किन्तु वे फिर उत्पन्न हो जाती है। अन्त में रावण सीता को छोड़ देता है तथा जटायु के अंग काट कर भूमि पर गिरा देता है - पक्षी पादौ च पाशर्षो च खंगमद्वय सौञ्छिन्नम् । (५१, ४२)। सीता जटायु के पास जाकर विलाप करती है किन्तु रावण उन्हें केशों से पकड़ कर (केशेषु अग्रहः; सर्ग ५२, ८) आकाश के मार्ग से लंका की ओर प्रस्थान करता है। अर्वाचीन राम-कथाओं में इस युद्ध के वर्णन में गौण परिवर्द्धन किए गए हैं।

काश्मीरी रामायण में सीता यह देखकर कि रावण जटायु को खंग से मारनेवाला है, रावण से कहती है—'उसे रक्त से सने पत्थर खिलाइए, वह उन्हें खाकर गिर जाएगा।' रावण ऐसा ही करता है और जटायु पृथ्वी पर गिर पड़ता है। इससे मिलते-जुलते अनेक वृत्तान्त पाये जाते हैं। खोतानी तथा तिब्बती रामायणों में रावण जटायु को रक्त से सने धानुओं के टुकड़े खिलाकर उसे मार डालता है। दक्षिण भारत की एक राम-कथा में रावण जटायु को अपनी जाँघ के रक्त से सना पत्थर खिलाता है (दे० पाश्चात्य वृत्तान्त न० ३)।

हिन्देशिया के सेरी राम के अनुसार रावण-जटायु-युद्ध का वर्णन इस प्रकार है। मान दिन युद्ध करने के बाद दोनों एक-दूसरे को अपना मर्मस्थान बताते हैं। रावण घोखा देकर अपने पैर का अंगूठा बताता है। इतने में सीता पक्षियों की बोली में जटायु से मर्मस्थान न कहने के लिए अनुरोध करती है। लेकिन जटायु सीता की बात टाल कर उसे (पक्ष का अग्रभाग) प्रकट करता है और रावण से मारा जाता है। जटायु के गिरने के पहले सीता अपनी अंगूठी उसके मुँह में रख देती है। रावण और जटायु के मर्मस्थलों का उल्लेख भारतीय कथाओं में भी मिलता है। भावार्थ रामायण (३, १७), तत्त्वसंग्रह रामायण (३, १५) तथा पाश्चात्य वृत्तान्त न० १ के अनुसार

जटायु रावण के घोषे में आकर अपना मर्मस्थान (पंच का अग्रभाग) प्रकट करता है और हार जाता है। रावण झूठ बोलने हुए कहता है कि मेरा मर्मस्थान पंच का अगूठा है (तत्त्वसग्रह रामायण) अथवा दाहिनी पिडली (पाश्चात्य वृत्तान्त न० १) तोरखे रामायण (३, १०) में भी इसमें मिलती-जुलती कथा पाई जाती है।

रामकेसि, रामकियेन और रामजातक के अनुसार रावण ने सीता की अगूठी छीनकर इसमें जटायु को मारा था और वह आहत होकर भूमि पर गिर गया था।

४७१. महाभारत के रामोपाख्यान के अनुसार राम और लक्ष्मण कनकमृग-वध के बाद वापस आते हुये जटायु से भेंट करते हैं जो उनसे कहता है कि रावण सीता का अपहरण कर दक्षिण की ओर भाग गया है। वाल्मीकि रामायण में दोनों पहले झोपड़ी की खाली पाने हैं, बाद में सीता को खोजते समय वे रावण-जटायु-यूद्ध के चिह्न (टूटा हुआ रथ, मारे हुये खर और मार्गध आदि) देखकर राक्षसी द्वारा सीता-वध अथवा हरण की आशंका करते हैं (सर्ग ६४)। आगे बढ़कर वे मरणासन्न जटायु से जान लेते हैं कि रावण सीता को लेकर दक्षिण की ओर चला गया है। जटायु राम-लक्ष्मण के सामने ही अपने प्राण छोड़ देता है। राम तथा लक्ष्मण विचित्र उसकी अत्येष्टि तथा उदकक्रिया पूर्ण करने हैं और सीता की खोज में दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हैं। उदात्तराघव में मरणासन्न जटायु रक्त से सनी हुई चोंच से पत्ते पर पत्र लिखकर रावण को मार्ग के लिये राम से अनुगोध करता है तथा किसी ऋषि के हाथ से पत्र भेज देता है। सेरी राम के अनुसार राम सीता की खोज करते समय किसी नदी का जल पीते हैं तथा उसके स्वाद के विगडने का कारण खोजते हैं। इस तरह जटायु का पता चलता है जो आहत होकर नदी के किनारे पड़ा हुआ है। वह राम-लक्ष्मण को अपने भाई दमदामनी (मदानि) का परिचय देकर कहता है कि वह 'दशरथानम्' नामक पहाड़ पर तपस्या करता है और मैं उसको पन्द्रह-गन्द्रह दिन पर भोजन देने जाता हूँ।

बालरामायण (६, ५६ आदि) के अनुसार मरणासन्न जटायु ने रत्नशिखड़ द्वारा सीताहरण का समाचार अपने स्वयं दशरथ के पास भेज दिया, जिसे सुनकर दशरथ ने आत्महत्या करने का विचार प्रकट किया।

वाल्मीकि रामायण में राम मृत जटायु के प्रति शुभकामना प्रकट करते हुये कहते हैं—मया स्वं समनुजातो गच्छ लोकाननुत्तमान् (६८, ३०)। परवर्ती रचनाओं में जटायु के दिव्य रूप धारण कर राम की स्तुति गाने तथा स्वर्ग लोक के लिए प्रस्थान करने का उल्लेख मिलता है (दे० अध्यात्म रामायण ३, ८)।

पञ्चमचरिय के अनुसार जटायु अपने अपवित्र शरीर का परित्याग करके पुष्पोदय के कारण देवता बन गया (सुरो जाओ; ४४, ५५) ।

४७२. वाल्मीकि रामायण के अनुसार जटायु दशरथ का सखा तथा सम्पाति का भाई है। विनता-मुत्र अरण्य के दो पुत्र थे—सम्पाति तथा जटायु (दे० १४, ३३)। दोनों किसी समय सूर्य के पास पहुँच गये थे, सम्पाति ने अपने अनुज को सूर्य की किरणों से व्याकुल देखकर उसे अपने पक्षों से ढँक लिया था। इस प्रकार जटायु तो बच गया किन्तु सम्पाति के पक्ष जल गये और वह निस्सहाय होकर विध्य पर्वत पर गिर गया था।<sup>१</sup> सीताहरण के समय जटायु की अवस्था ६०००० वर्ष की थी (दे० ३, ५०, २०)।

सेरीराम के अनुमार कीसुशीसू नामक तपस्वी ने ३०० वर्ष तक तप करने के बाद विष्णु के तीन वाहनो को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था, अर्थात् गहड, दसमपानी (सम्पाति) तथा जटायु।

महाभारत के रामोपाख्यान तथा वाल्मीकि रामायण के कई स्थलो पर जटायु को दशरथ का सखा कहा गया है।<sup>२</sup> पद्मपुराण के पातालखण्ड के गीर्डीय पाठ<sup>३</sup>, असमीय; बालकाण्ड (अध्याय १०) और कृत्तिवास रामायण में दशरथ-जटायु की इम मित्रता के विषय में निम्नलिखित वृत्तान्त मिलता है। किसी समय अयोध्या में अनावृष्टि हुई थी। नारद से इमका कारण रोहिणी नक्षत्र पर शनि का दृष्टिपात जानकर दशरथ शनि से युद्ध करने गये। शनि की दृष्टि मात्र से दशरथ का रथ टूट गया किन्तु जटायु ने उसे सम्हाला, जिसमें दशरथ की विजय हुई। इसके फलस्वरूप दोनों ने अग्नि को माक्षी बनाकर मित्रता की थी—“उभये मित्रता करे अग्नि करि साक्षी” (दे० कृत्तिवास १, २७)।

पञ्चमचरिय में जटायु तथा दण्डक की अभिप्रता का प्रतिपादन किया गया है। वाल्मीकि रामायण के उत्तर काण्ड<sup>४</sup> में अगस्त्य दण्डकारण्य के विषय में कहते हैं कि

१. दे० ४, ५८, ४-७। इस वृत्तान्त का किञ्चित् परिवर्तित रूप ४, ६१ में मिलता है।
२. दे० महाभारत ३, २६३, १; रामायण ३, १४, ३-४; ३, ६७, २७; ४, ५६, २३; ४, ५७, ९।
३. दे० अध्याय १२। स्कंद पुराण (नागर खंड, अ० ९६) तथा पद्मपुराण के उत्तरखण्ड (अध्याय ३४) में भी शनि से दशरथ की वरप्राप्ति का वर्णन किया गया है किन्तु इसमें जटायु का उल्लेख नहीं होता।
४. दे० ७, सर्ग ७९-८१। पश्चिमोत्तरीय पाठ में दण्डकारण्य की कथा अरण्य-काण्ड के अन्तर्गत रखी गई है; दे० ३, १७।

इक्ष्वाकु के १०० पुत्रों में से सबसे छोटा मूर्ख था, और अपने भाइयों का आदर नहीं करता था। उसे दडनीय समझकर इक्ष्वाकु ने उसका नाम दड ही रखा तथा उसे विन्ध्य और शैवाल के बीच का देश प्रदान किया था। दड ने किसी दिन अपने गुरु भार्गव (उषाना) के आश्रम में पहुँचकर तथा उनकी पुत्री अरजा को अकेली पाकर उसके साथ बलात्कार किया। भार्गव के शाप से इन्द्र ने राज्य के समस्त प्राणियों सहित दड को भस्म कर दिया। इस प्रकार दडकारण्य उत्पन्न हुआ था।<sup>१</sup> पञ्चमचरियं (पर्व ४१) के अनुसार एक गीध न सुगुप्ति मुनि की शरण ली थी तथा मुनि ने उसके पूर्व-जन्म की यह कथा राम को सुनाई। दडक राजा एक श्रमण का धर्म देखकर अपनी राजधानी में श्रमणों को बुलाकर उनको विशेष आदर देने लगा था। इमपर एक पापी परित्राजक ने निग्रथं मुनि वा वेष धारणकर दडक के अन्त-पुर<sup>२</sup> में अनधिकार प्रवेश किया जिससे राजा ने क्रोध में आकर सब श्रमणों को यत्रों में पेरने का आदेश दिया। एक ही श्रमण उस समय राजधानी में नहीं था, लौटकर उन्होंने अपनी क्रोधाग्नि से समस्त शहर को जला दिया और वह स्थान अब दडकारण्य<sup>३</sup> के नाम से प्रसिद्ध है। दडक चिरकाल तक पृथ्वी पर भटक कर मर गया तथा बाद में इस गीध के रूप में

- १ आनंद रामायण (७, १८ १००) के अनुसार मुनि ने कन्या की प्रार्थना स्वीकार कर शाप का अंत निर्धारित किया। अगस्त्य के आगमन पर वह देश फिर सजल होगा।
- २ पञ्चमचरिय के अनुसार दडक की पत्नी साध्वी तथा जैन धर्मावलंबिनी है (दे० ४१, २०)। पञ्चचरित (४१, ६१ और ७२) में वह दुष्टा तथा परित्राजको की भक्तिव मानी जाती है। पञ्चमचरिय (३५, ७-१०) के अनुसार वह अपने पुत्र की सहायता से जैन मुनियों पर राजकीय क्रोध की चोरी का झूठा आरोप लगाती है, बाद में पञ्चमचरिय के अनुसार जैनी श्रमण का रूप धारणकर दडक के अन्त पुर में किमी के अनधिकार प्रवेश की कथा भी दी गई है। हेमचन्द्र के जैन पुराण (५, ३३६ आदि) के अनुसार दडक कुमकारकुटनामक नगर का राजा था। उनका पालक नामक मंत्री स्कंधक मुनि से द्वेष रखता था, उसन स्कंधक के निवासस्थान पर अस्त्र छिपाकर उनपर झूठा अभियोग लगाया जिससे राजा ने पालक को स्कंधक तथा उनके ५०० सार्थियों को दड देने की आज्ञा दी। पालक ने सबों को यत्र में पेरने का आदेश दिया। स्कंधक ने तब बह्लिकुमार के रूप में प्रकट होकर सब निवासियों के साथ दडक का राज्य भस्मीभूत कर दिया और इस प्रकार दडकारण्य उत्पन्न हुआ। इस कथा में दडक की रानी जैन मुनियों का पक्ष लेती है।
३. इस कथा के बावजूद अगले सर्ग में लिखा है कि दडकगिरि के शिखर पर दडक नाम का एक महानाग था जिससे यह प्रान्त दडकारण्य के नाम से विख्यात है (दे० ४२, १४)।

प्रकट हुआ। अतः मुनि ने गीघ को सन्तुष्ट किया जिससे वह धावक धर्म में सम्मिलित हुआ तथा मुनि ने सीता से निवेदन किया कि वह उसकी रक्षा करे, राम ने उसके सिर की जटाएँ देखकर उसका नाम जटायु ही रखा।

## ड । सीता की खोज

४७३ वाल्मीकि रामायण के अरण्यकाण्ड के अन्तिम १९ सर्गों की कथावस्तु इस प्रकार है। कनकमृग-वध के बाद राम लौटकर अपवाकुन देखते हैं तथा आशका करन लगते हैं। रास्ते में ही लक्ष्मण को पाकर राम सीता को अकेली छोड़ देने के कारण उनकी भर्त्सना करते हैं तथा शोपनी के पास पहुँचकर और कहीं भी सीता को न देखकर वह उन्मत्त होकर वृक्षों तथा पशुओं को सम्बोधित करते हुए सीता का समाचार पूछते हैं।<sup>१</sup> राम द्वारा सम्बोधित हरिण दक्षिण की ओर प्रस्थान करते हैं जिससे राम लक्ष्मण भी उसी दिशा में खोज करन जाते हैं। इस खोज में वे क्रमशः जटायु, अयोधुली कबध तथा शबरी से मिलकर अन्त में पम्पा सरोवर के तट पर पहुँचते हैं। बीच-बीच में राम का विलाप तथा लक्ष्मण की साम्त्वना विस्तार सहित वर्णित है (सर्ग ५७-७५)। सेरीराम के अनुसार राम-लक्ष्मण ने सीता-हरण के पश्चात् पश्चिम की (दे० अनु० ४३८) महेरीसीकली के यहाँ भोज दिया, जिन्होंने दशरथ की राजधानी जाकर सीताहरण का समाचार सुनाया था।

जटायु (दे० अनु० ४७०-४७२) तथा शबरी (दे० अनु० ४७७-४८१) विषयक सामग्री का अलग विश्लेषण किया गया है। अयोधुली का वृत्तान्त केवल दक्षिणात्य पाठ में मिलता है, वास्तव में वह शूर्पणखा की कथा की आवृत्ति मात्र प्रतीत होती है। लक्ष्मण उस राक्षसी का प्रेम-प्रस्ताव अस्वीकार करते हुए उसके कान नाक तथा स्तन अपनी तलवार से काट लेते हैं और वह भाग जाती है (दे० सर्ग० ६९, ११-१८)।

कबध का प्रसंग वाल्मीकि रामायण में अपेक्षाकृत अधिक विस्तार के साथ वर्णित है (सर्ग ६९-७३)। राम-लक्ष्मण द्वारा भुजाएँ कट जाने के बाद कबध निस्सहाय

१ इस प्रसंग पर उन्मत्तराघव नामक नाटक (अनु० २४१-२४२) तथा विक्रमोर्ध्वशीय का चतुर्थ अंक निर्भर प्रतीत होता है, अगले अनुच्छेद (४७४) की सामग्री भी इसका स्वाभाविक विकास माना जा सकता है। सर्ग ६४ में गोदावरी से निवेदन किया जाता है कि वह सीता का समाचार बता दे किन्तु वह मौन ही रहती है (भयास्तु नवी न श्लास), इसी के आधार पर प्रसन्न-राघव में नदियों के मानवीकरण की कल्पना कर ली गई है (दे० अनु० २३७)।

होकर भूमि पर गिर गया। अनन्तर कबध ने अपने विषय में दो भिन्न शापों का उल्लेख किया। प्रथम शाप की कथा इस प्रकार है<sup>१</sup>। कबध डरावना रूप धारण कर ऋषियों को सताया करता था। इसी रूप में उसने स्थूलशिरा पर आक्रमण किया था, जिससे मृनि ने यह शाप दिया कि तुम यह भयकर रूप धारण किये रहो। उसके अनुनय करने पर स्थूलशिरा ने कहा—‘जब राम तुम्हारी भुजाएँ काटकर तुम्हारा शरीर जला देंगे तभी तुम अपना शुभ रूप फिर ग्रहण करोगे।’ दूसरी कथा के अनुसार वह दनु का सुन्दर<sup>२</sup> पुत्र था, जिसने उग्र तप करके ब्रह्मा से दीर्घायु होने का वर प्राप्त किया था और इस वर के बल पर इन्द्र को चुनौती दी थी। इन्द्र ने उसके हाथ पर काट लिए तथा सिर पर वज्र मारा जिससे उसका सिर उदर में धँस गया था। ब्रह्मा के वरदान को सत्य प्रमाणित करने के लिए इन्द्र ने उसे एक योजन की लम्बी भुजाएँ देकर तथा उसके उदर में मूँह बनाकर आश्वासन दिया कि राम-लक्ष्मण द्वारा भुजाएँ कट जाने पर तुम स्वर्ग प्राप्त करोगे। अनन्तर राम-लक्ष्मण ने उसका शरीर जला दिया और चिन्ता में से एक दिव्य पुरुष उत्पन्न हुआ जिसने आकाश में एक विमान पर विराजमान होकर राम को सुग्रीव के पास जाने का परामर्श दिया तथा पम्पा सरोवर और ऋष्यमूक का मार्ग बताकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया।

महाभारत के रामोपाख्यान (३, २६३, २५-४३) के अनुसार भुजाएँ कट जाने पर कबध भूमि पर गिर गया तथा उसके शरीर से तत्काल एक दिव्य पुरुष उत्पन्न हुआ जिसने आकाश में स्थित होकर अपना परिचय इस प्रकार दिया—‘मैं विदवावसु नामक गधर्व हूँ जो ब्रह्मा अथवा किसी ब्राह्मण के शाप<sup>३</sup> से राक्षस बन गया था। अनन्तर उसने बताया कि रावण ने सीता का हरण किया है तथा राम को सुग्रीव के पास जाने का परामर्श दिया।

१. दे० ७१, २-७। यह अंश स्पष्टतया प्रक्षिप्त है; इसी कारण से गोरेसियो ने उसे अपने संस्करण में स्थान नहीं दिया।

२. दे० ७१, ७; बाद में उसका नाम दनु ही माना गया है (दे० ७१, २०); एक पाठान्तर के अनुसार यहाँ पर भी दनु ही होना चाहिए। मूल का ‘भिया विराजितम्’ का अर्थ ‘सौबर्ष्यवस्त’ न मानकर टीकाकार ‘श्री नामक दनु का पुत्र’ अर्थ भी देते हैं। इसी कारण से भट्टिकाव्य (६, ४८) तथा रामायण ककथिन (६, ७५ आदि) में कबध को श्री का पुत्र माना गया है, जो किसी दिन मद्य के प्रभाव से एक मृनि का अनादर करके शाप का शिकार बन गया था।

३. “ब्रह्मानुशापेन”; ‘ब्राह्मणशापेन’ पाठान्तर भी मिलता है।



अध्यात्म रामायण (३, ९) तथा आर्जव रामायण (१, ७, १५१-१६१) के अनुसार कबंध 'रूपवीवनर्दपित' गंधर्वराज था, जिसने ब्रह्मा से अवध्यता का वर प्राप्त किया था। बाद में उसने अष्टावक्र नामक मुनि का उपहास किया और उनसे क्षापित होकर राक्षस बन गया। इस कथा के अनुसार कबंध के राक्षस बनने के पश्चात् ही इन्द्र ने उसके सिर पर बज्र मारा था जिससे उसके सिर पर उवर में घुस गए थे। उसके शरीर के जल जाने के बाद उसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, जो राम की स्तुति करने लगा। राम ने उसकी भक्ति से सन्तुष्ट होकर उसे अपने परमधाम को भेज दिया। अन्त में कबन्ध ने राम को शबरी के यहाँ जाने का परामर्श दिया तथा विमान पर चढ़कर विष्णुलोक के लिए प्रस्थान किया (३, १०, १-३)।

रामचरितमानस (३, ३३) में माना गया है कि दुर्वासा ने कबन्ध को शाप दिया था और राम के चरणों के दर्शन से वह शापमुक्त हो गया। राम ने कबन्ध को ब्राह्मणों की सेवा का महत्त्व समझाकर उसे परमपद प्रदान किया। रामचन्द्रिका (१२, ३३-३७) के अनुसार वह पहले इद्र के शाप के कारण गंधर्व से राक्षस बन गया था तथा बाद में इन्द्र से उसका युद्ध हुआ था। इन्द्र ने उससे कहा था कि राम द्वारा इसका उद्धार हो सकेगा।

सेरी राम में कबन्ध का उल्लेख नहीं मिलता, किंतु सुग्रीव से मिलने के पूर्व राम-लक्ष्मण एक मत्स्य-भक्षी श्यामवर्ण दाती जग्गाल नामक राक्षस से भेंट करते हैं, जिसकी लाल जटाएँ सात धनु लंबी हैं। वह राम का रंग देखकर उन्हें विष्णु का अवतार मानता है तथा राम-लक्ष्मण को मार्ग बताता है।

४७४. सौतानी रामायण तथा सेरी-राम में राम और लक्ष्मण सुग्रीव से मिलने के पूर्व १२ वर्ष तक सीता की खोज करते हैं। इस खोज के वर्णन के अंतर्गत सेरी राम में दो पक्षियों की कथा मिलती है, जिनमें से एक राम का उपहास करता है और दूसरा राम का सहायक बन जाता है। प्रथम पक्षी की चार मादाएँ हैं; वह विरही राम को देखकर उनका यह कहकर उपहास करता है कि राम अपनी एक ही पत्नी की भी रक्षा नहीं कर पाये। इसपर राम उसे अन्धा बना देते हैं, जिससे उसकी चार मादाएँ उसे छोड़कर चली जाती हैं। एक अन्य पक्षी राम को बताता है कि रावण ने सीता का अपहरण किया है। वर पाकर वह एक लम्बी ग्रीव माँग लेता है,

१. महाभारत (३, १३२) के अनुसार अष्टावक्र कुहोड नामक मुनि का पुत्र था; कुहोड ने उसे गर्भावस्था में ही यह शाप दिया था—बच्चे अबिला स्पष्टकृन्धः। समग्रा नदी में नहाकर अष्टावक्र के सीधे हो जाने की कथा पूना संस्करण के अनुसार प्रक्षिप्त है (वे० ३, १३४, ३८ टि०)।

जिससे वह सुगमता से अपना भोजन प्राप्त कर सके। बाद में एक लड़का उसे फँसाकर बाजार ले जाता है। राम अपनी अँगूठी देकर उसे खरीद लेते हैं तथा लम्बी घीब के स्थान पर उसे चार मादाओं को प्रदान करते हैं, जो उसके लिए भोजन ले आती रहेंगी।

इस प्रकार की कथाओं का मूलस्रोत भारतीय ही है क्योंकि वे सारलादासकृत महाभारत (गदापर्व) बलरामदास रामायण, दुर्गाविर कृत असमीया रामायण तथा आदिवासी वृत्तान्तों में भी पाई जाती हैं। बाण की कावम्बरी (कथामुख २०) में पप्सरोवर-व्रणन के अनन्त राम द्वारा अभिषिप्त चक्रवाक-मिथुनों का उल्लेख मात्र मिलता है।

बलरामदास रामायण की तत्संबन्धी कथाएँ इस प्रकार हैं। राम और लक्ष्मण ने पम्पा सरोवर के निकट पहुँचकर चक्रवा-चक्रवी के एक जोड़े को क्रीडा करते हुए देखा। राम ने पास जाकर उनसे पूछा कि सीता कहाँ है। चक्रवाक ने राम की निन्दा करते हुए कहा कि क्या तुम यह भी नहीं जानते कि इस समय बाधा डालना अनुचित है। इस पर राम ने यह अभिशाप दिया कि तुम दोनों का मिलन फिर कभी नहीं होगा, किन्तु जब वे राम को भगवान जानकर उनकी आराधना करने लगे तब राम ने अपना शाप बदलकर कहा कि केवल दिन में ही तुम्हारा मिलन हो सकेगा। बाद में किसी व्याध ने दोनों को फँसाकर एक टोकरी में बन्द कर दिया, वे आपस में कहने लगे कि हमारे साथ रहने से राम का वचन असत्य ही सिद्ध होगा किन्तु रात के पूर्व ही टोकरी अपने आप से खुल गई और दोनों अलग हो गए। उपर्युक्त प्रसंग अरण्य-काण्ड में वर्णित है, इसके अतिरिक्त किष्किन्धा में वक तथा कुक्कुट के विषय में भी निम्नलिखित कथाएँ मिलती हैं। वर्षाऋतु के अन्त में जब लक्ष्मण किष्किन्धा चले गये थे और राम अकेले ही माल्यवन्त पवन पर रह गए थे तब एक बगुले ने उनका विरह देखकर कहा—“तुम कैसे महात्मा हो! मूर्ख ही रोते हैं, तुम क्यों रोते हो?” उत्तर में राम ने अपनी हरण की गई पत्नी का समाचार पूछा। बगुले ने राम को आश्वासन दिया—“लड़ा का रावण सीता को ले गया है। मैंने उन्हें रोते देखा था। उनका अश्रुजल मुझपर गिर गया था और मैं सफेद हो गया। दुर्गा तुम पर प्रसन्न होगी और तुमको सीता फिर मिल जायेंगी।” राम से वर पाकर बगुले ने कहा—“वर्षा में भोजन एकत्र करने में कठिनाई होती है। मुझ यहाँ बैठे हुए आहार मिलना चाहिए।” इसपर राम ने उत्तर दिया—“तुम्हारी मादा तुमको बरमात में खाना ला देगी।” बगुले ने आपत्ति की—“वह मुझसे छोटी है, इसका जूटा खाकर मैं उपहास का पात्र बन जाऊँगा।” राम ने इसका खण्डन करते हुए कहा—“पति-पत्नी एक हैं, कोई बड़ा-छोटा है ही नहीं।” अन्त में राम ने कहा कि कार्तिक शुक्ला दशमी से पूर्णिमा

तक कोई भी आभिषेक का सेवन नहीं करेगा और तुम्हारे आदर में इस व्रत का नाम बकपत्रक रखा जायगा। बाद में एक कुक्कुट ने भी सहानुभूति प्रकट करते हुए राम से कहा कि तुम क्यों रोते हो और यहाँ पर अकेले क्यों रहते हो। राम ने उत्तर में अपना परिचय दिया तथा वनवास, सीताहरण आदि की अपनी संपूर्ण कथा सुनाई। तब मुरगे ने कहा कि रावण ने सीता का हरण किया है। राम ने यह कहकर उसे बरदान दिया कि तुम्हारे सिर पर सप्तशताब्दा लाल मुकुट रहेगा और जो तुमको मारेगा वह मरा शत्रु होगा।

अनमीया गीतिरामायण में राम द्वारा बगुले तथा पीपल वृक्ष से सीता का समाचार पूछे जाने का वृत्तान्त पाया जाता है।

सताल (दे० अनु० २७१), बिहौर (दे० अनु० २७२) तथा मुण्डा (दे० अनु० २७३) नामक जातियों में सीता की खोज के वर्णन में बगुले, गिलहरी तथा बेंर वृक्ष की कथा का वर्णन किया गया है। राम ने एक बगुले से सीता का पता पूछा था। बगुले ने उनकी अवज्ञा करके उत्तर दिया—“मुझे सीता से क्या, केवल पेट की चिन्ता है।” इस पर लक्ष्मण ने उसकी शीव को पकड़ कर खींच लिया और उम दिन से बगुले की लम्बी शीव होनी है। सन्ताली राम-कथा के अनुसार राम ने किसी वृक्ष की डालियों पर फूट-फूट कर रोती हुई गिलहरी से सीता का समाचार पूछा था। गिलहरी ने उत्तर दिया—“उन्हीं के लिए तो मैं रो रही हूँ। रावण ने सीता का हरण किया है। वह इसी रास्ते से निकल गया है।” राम ने उसकी पीठ थपथपाकर कहा—“कितनी भी ऊँची जगह से क्यों न गिरो, लेकिन तुम्हें चोट नहीं लगेगी।” मुण्डा तथा बिहौर जातियों की कथाओं में गिलहरी के रोने की चर्चा नहीं है, किन्तु उनमें राम के उसकी पीठ पर तीन रेखाएँ खींचने का उल्लेख किया गया है। सताली राम-कथा के अनुसार राम ने बेंर वृक्ष में एक चिथड़ा लटका हुआ देखा। बेंर ने राम से कहा—“रावण इसी रास्ते से सीता को ले गया है। मैंने सीता को छुटाने का प्रयत्न किया

१. सम्भवतः इसी कथा के कारण उड़ीसा में कुक्कुट रामपक्षी कह कर पुकारा जाता है।
२. बगुले की कथा असुरों के यहाँ भी मिलती है (दे० अनु० २७४)। सेरीराम की कथा में लंबी शीव पुरस्कार के रूप में मिलती है, यह पुरस्कार अधिक सार्थक प्रतीत होता है। महाभारत (१२, ११६, ६) में एक ऊँट की कथा है, जिसने भारी तपस्या के बल पर ब्रह्मा से एक 'शतयोजन' लम्बी गरदन प्राप्त की थी।
३. अन्य राम-कथाओं में सेतुबन्ध के समय गिलहरी की कथा मिलती है। दे० अनु० ५७७।

था, किन्तु मुझे उनकी साड़ी के इस चिथड़े के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिल सका।” राम ने बेर को आशीर्वाद देकर आशवासन दिया— ‘तुमको कितना ही क्यों न काटा जाय किन्तु कोई भी तुम्हारा नाश नहीं कर सकेगा।’

मुण्डा तथा बिहौर जातियों की कथा के अनुसार बेर ने सीता को छुड़ाने का प्रयत्न नहीं किया किन्तु उसने राम को सीता का मार्ग बताया, उनकी साड़ी का चिथड़ा दे दिया तथा अमरत्व का वरदान प्राप्त किया।

४७५ सीता का रूप धारण कर सती के विरही राम की परीक्षा करने का प्रथम वृत्तान्त शिव महापुराण (दे० ऊपर अनु० १६७) में मिलता है। बाद में आनन्द रामायण (१ ७ १४३) भावार्थ रामायण (३ २०) तथा रामचरितमानस की भूमिका में भी इसका वर्णन किया गया है।

४७६ पपा-सरोवर के तट पर विरही राम से नारद के मिलने और भक्ति का वरदान प्राप्त करने का वृत्तान्त न तो वाल्मीकि रामायण में मिलता है और न अध्यात्म रामायण में। इसका वर्णन रामगीतगोविन्द (४, ७) तथा रामचरितमानस के अरण्यकाण्ड के अन्त में किया गया है। वालि-वध के बाद भी नारद अथवा अगस्त्य के विरही राम से भट करन आन की कथा मिलती है (दे० आगे अनु० ५२३)। तीरवे रामायण (३ २) के अनुसार जाबालि ने राम के वनवास से भरत को दुखी देखकर राम के पास जान की प्रतिज्ञा की। उधर राम भी अयोध्या से कोई समाचार न पान के कारण रो रहे थे जब जाबालि उनसे पास पहुँच। जाबालि ने राम को सान्त्वना देते हुए नल और हरिश्चन्द्र की कथाएँ सुनाई और बाद में अयोध्या लौटे।

### च। शबरी

४७७ शबरी-प्रसंग का वाल्मीकीय आधिकारिक कथावस्तु से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं ज्ञात होता है। यह प्रसंग महाभारत के रामोपाख्यान में नहीं मिलता और अधिक संभव यह प्रतीत होता है कि आदि रामायण में भी शबरी का उल्लेख नहीं था। परवर्ती राम-साहित्य में शबरी की कथा का उत्तरोत्तर विकास हुआ है, अतः इसकी रूपरेखा यहाँ अंकित करना अपेक्षित है<sup>१</sup>।

१ आधुनिक काल तक हिन्दी साहित्यकारों ने शबरी को अपनी रचनाओं की नायिका बना दिया है। दे० गोविन्ददास कृत शबरी (दिल्ली १९६०) तथा शम्भुसाद बहुगुना का शबरीमंगल पृ० ३-४ (मानस सप्त, राम वन, १९५०)। आनन्द रामायण (मनोहर काण्ड, सर्ग १२) में जिस शबरी से राम की भेंट का वर्णन किया गया है वह दूसरी है।

बाल्मीकि रामायण के तीन पाठों में जो सामग्री समान रूप से मिलती है, उसमें शबरी की कथा इस प्रकार है। कबन्ध राम को मतंगाश्रम का मार्ग बताकर शबरी का भी इस प्रकार परिचय देता है। मतंगाश्रम के ऋषि तो चले गये किंतु उनकी "परि-चारिणी श्रमणी शबरी" अब तक वहाँ विद्यमान है और देवोपम राम के दर्शन करने के पश्चात् वह स्वर्गलोक के लिये प्रस्थान करेगी (दे० सर्ग ७३, २६-२७)। राम शबरी के आश्रम पहुँचकर तथा उनका आतिथ्य-सत्कार स्वीकार कर उसकी तपश्चर्या के विषय में प्रश्न करते हैं। इस पर शबरी उत्तर देती है कि जिस समय राम चित्रकूट पहुँचे, यहाँ के ऋषि, जिनकी सेवा मैं करती थी, स्वर्ग को चले गये। जाते समय ऋषियों ने कहा था कि लक्ष्मण के साथ राम अतिथि के रूप में यहाँ पधारेंगे; उनके दर्शन करने के पश्चात् शबरी भी स्वर्ग जा सकेगी। शबरी राम से यह भी निवेदन करती है कि मैंने आपके लिए वन के विविध कन्दमूल एकत्र कर रक्खा है—मया तु संचितं वन्यं विविधं पुरुषर्षभ (७४, १७)। तब वह अपने गुरुओं का गुणगान करती हुई राम-लक्ष्मण को मतंगवन के दर्शन कराती है। अतः मे वह उन ऋषियों के पास जाने की इच्छा प्रकट करती है तथा राम की आज्ञा लेकर अग्नि में प्रवेश करती है। तदनन्तर वह दिव्य रूप धारण कर उसमें से प्रकट हो जाती है और विद्युत् सा प्रकाश फैलाती हुई (विद्युत् सौवामिनी यथा; ७४, ३४) अपने गुरु-महर्षियों के पास पहुँच जाती है। शबरी-कथा के इस प्रथम रूप में गुरुभक्ति तथा तपस्या की महिमा पर विशेष बल दिया गया है। शरभग (अनु० ४५९) तथा अगस्त्य (अनु० ४६०) के प्रसंगों की भाँति यहाँ पर भी राम को एक महान् अतिथि के रूप में देखा गया है। भट्टिकाव्य (सर्ग ६, ५९-७१) में भी शबरी-कथा का यही रूप मिलता है। राम शबरी की साधना के विषय में प्रश्न पूछते हैं तथा शबरी आदरपूर्वक उनका आतिथ्य-सत्कार करके क्षत्रिय<sup>१</sup> के रूप में राम की वन्दना करती है तथा यह आश्वासन देकर अतर्दान हो जाती है कि सुग्रीव की सहायता से मंथिली के दर्शन शीघ्र ही प्राप्त होंगे।

४७८. अध्यात्म रामायण में शबरी-प्रसंग इस प्रकार है (३, १०, १-४४)। कबध शबरी की राम-भक्ति का उल्लेख करता है तथा राम को आश्वासन देता है कि

१. दक्षिणात्य पाठ में शबरी राम को 'देववर' की उपाधि देती है (सर्ग ७४, १२) और उनकी कृपादृष्टि के फलस्वरूप अपने को 'पूता' मानती है (७४, १३); राम भी अपने प्रति उसकी भक्ति की प्रशंसा करते हैं (गोविन्द पाठ ७४, ३१)। अन्य पाठों में इस प्रकार के उल्लेख नहीं मिलते।
२. "सर्वत्राऽऽश्रयदानमयम्" (६, ७०)। मनु के अनुसार—"क्षत्रबंधुमनामयम्" (२, १२७)।

शबरी उनको सीता के विषय में सब बातें बता देगी<sup>१</sup>। शबरी भक्तिपूर्वक राम-रुक्मण का आतिथ्य-सत्कार करती है तथा उनको अपने इकट्ठे किए हुए दिव्य फल अर्पित करती है। अनन्तर यह बताती है कि इस आश्रम में पहले उसके जो गुरु निवास करते हैं, उनके आदेशानुसार वह राम का ध्यान करती हुई उनकी प्रतीक्षा करती रही। अन्त में वह राम से पूछती है कि मैं मूढ़ स्त्री हीन जाति में उत्पन्न होते हुए भी आपके दर्शनों के योग्य क्यों ठहरी। इसपर राम कहते हैं कि पुरुषत्व, स्त्रीत्व, जाति, नाम, ब्राह्मण आदि का कोई महत्त्व नहीं है, भक्ति ही सर्वोपरि है। अनन्तर राम शबरी को नवधा भक्ति की शिक्षा देकर कहते हैं कि उन साधनों द्वारा प्रेमलक्षणा भक्ति का आविर्भाव होता है, जिससे इसी जन्म में मुक्ति मिलती है। अन्त में राम सीता के विषय में पूछते हैं—“सीता कमललोचना कुत्रास्ते केन वा नीता”। शबरी राम को उनकी मर्जता का स्मरण दिलाकर कहती है कि आप लोकाचार का अनुसरण करते हुए सीता का पता पूछने हैं। तब वह प्रकट करती है कि सीता लका में है और राम को सुग्रीव के पास जाने का परामर्श देती है। अन्त में वह अग्नि में प्रवेश करती है तथा राम के प्रसाद से मोक्ष प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अध्यात्म रामायण के रचयिता ने शबरी-कथा को रामभक्ति के गुणगान में परिणत कर दिया है। शबरी की हीन जाति को अधिक महत्त्व दिया गया है जिससे यह स्पष्ट हो जाय कि रामभक्ति भेद-भाव से ऊपर उठकर सब को मुक्ति प्रदान करती है (भक्तिर्मुक्तिविधायिनी भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य; छन्द ४४)।

परवर्ती राम-कथा-साहित्य में शबरी-कथा का रूप प्रायः अध्यात्म रामायण के अनुसार ही है उदाहरणार्थ—आनन्द रामायण (१, ७, १६०-१६६) पद्म-पुराण (६, २६९, २६५-२६८), मज्जुल रामायण (दे० अनु० १०६), रामचरित-मानस (३, ३४-३६), रामगीतावली (१७, १-८) रामचन्द्रिका (१० ४३-४६)। तत्त्व-संग्रह-रामायण (३ १७) में शबरी की महना के विषय में निम्नलिखित कथा मिलती है। गोदावरी ने राम को उत्तर देना अस्वीकार किया था तथा राम ने उसे यह शाप दिया था कि जो कोई तुझमें नहा लेगा वह चाण्डाल बन जायेगा। बाद में ब्रह्मादि देवताओं ने राम से निवेदन किया था कि वह गोदावरी को पुनः पवित्रता प्रदान करे। इसपर राम ने अपने चाप से पृथ्वी पर रेखा खींच कर गोदावरी की धारा को उस कूप से मिला दिया जहाँ शबरी नित्यप्रति नहाया करती थी।

- १ बाल्मीकि रामायण में शबरी की कथा प्रक्षिप्त है। कबध राम को सीता-सौख्य की सहायता के लिए सुग्रीव के पास जाने का परामर्श दे चुका था; अतः शबरी-प्रसंग में सीता का कोई उल्लेख नहीं मिलता।

सूरदास ने शबरी के फलों के विषय में पहले-पहल लिखा है कि ये जूठे ही थे (दे० सभा सस्करण, ५११)। बलरामदास के वृत्तान्त की विशेषता यह है कि शबरी अपने पति के साथ राम-लक्ष्मण से भेंट करती है तथा इसका भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि राम वे फल नहीं खाते हैं जिनमें शबरी के दातों के निशान नहीं थे। आनन्दतनय कृत मराठी शबरख्यान (१८वीं श०) में भी शबरी के जूठे फलों की चर्चा है।

४७९. भक्तमाल की प्रियादासकृत टीका (१८वीं श० ई०) प्राचीनतम रचना है जिसमें शबरी की पवित्रता सिद्ध करनेवाली निम्नलिखित कथा पाई जाती है। शबरी ऋषियों की सेवा करने की उत्कट अभिलाषा से प्रेरित होकर रात के पिछले पहर को उनके आश्रम में प्रवेश किया करती थी, वह ऋषियों के स्नान करने जान का मार्ग झाड़-बुहार कर साफ करती थी तथा उनके लिये लकड़ियाँ भी लाया करती थी। मतग के मन में यह जानने की इच्छा हुई कि कौन यह सब करता रहता है, अतः उनके शिष्यों ने रात में जगकर शबरी को मतग के सामने उपस्थित किया, उन्होंने शबरी को राम भक्ति की दीक्षा देकर उसे आश्रम में रहने की अनुमति दे दी। बाद में परलोक जाने के पूर्व मतग ने शबरी को आश्वासन दिया कि वह राम के दशन करेगी। किमी दिन शबरी ने अनजाने ही किसी ऋषि का स्पर्श किया और ऋषि ने उस पर अपना क्रोध प्रकट किया। फलस्वरूप जब वह ऋषि स्नान करने के लिये मगोवर के पास पहुँचा तो उसने देखा कि वह रक्त तथा कृमियों से भरा हुआ है।

बहुत दिन बीत जाने पर राम वहाँ पहुँचे तथा शबरी के यहाँ जाकर उसका आतिथ्य-सत्कार ग्रहण किया तथा उसके जूठे फल खाए। ऋषि आकर राम से सरोवर को स्वच्छ करने का निवेदन करने लग। इसपर राम ने सरोवर के अपवित्र हो जाने का रहस्य प्रकट किया और यह भी बताया कि वह शबरी के स्पर्श से फिर स्वच्छ हो जायगा (पद ९)। रघुराजसिंह की रामरसिकावली में वही कथा मिलती है किन्तु सरोवर को स्वच्छ करने की कथा इस प्रकार है कि राम पहले उसका स्पर्श करते हैं जिससे "भयो दून शोणित सर बारी", तब राम प्रकट करते हैं कि शबरी ही उसे पवित्रता प्रदान कर सकती है। मुनियों के निवेदन करने पर

शबरी सकृषि सलिल पग डारी।

तुरतहि भो निर्मल सर बारी॥

४८० शबरी की कथा आदिवासियों में अपेक्षाकृत लोकप्रिय है। मध्य भारत के कोल अपने को शबरी के बराबर मानते हैं। उनमें प्रचलित दन्तकथा इस प्रकार है।<sup>१</sup> वनवास के समय किसी दिन शबरी से राम-सीता-लक्ष्मण की भेट हुई। तीनों भूखे थे और शबरी ने उनको जगली बेर खिलाकर तृप्त किया। इसके बाद वह प्रतिदिन अपने अतिथियों के लिये बेर बटोरने जाती थी। एक दिन उसने अन्यायमानस्क होकर प्रत्येक फल का थोड़ा सा अंश खाकर अपनी टोकरी में रख लिया। घर पहुँचकर उसे पता चला कि मैंने क्या किया है और वह राम को जूठे बेर देने में हिचकती थी। राम ने अनुरोध किया और वह सीता के साथ वे फल खाने लगे। लक्ष्मण ने एक आदिवासी का जूठा भोजन स्पष्ट करना अस्वीकार किया। इस पर एक बाण ने लक्ष्मण को आहूत कर दिया, और वह तब तक अस्वस्थ रहे, जब तक उन्होंने अपना मन नहीं बदल दिया। शबरी के घर से प्रस्थान करते समय राम ने उसको वर-स्वरूप राज्य अथवा परिवार चुनने को कहा। शबरी ने परिवार चुन लिया और राम ने उसको आश्वासन दिया कि उसके असह्य बराजों को कभी भी भोजन अथवा कपड़ का अभाव नहीं होगा।<sup>२</sup>

४८१ विदेश में शबरी के पूर्वचरित के विषय में दो कथाओं का पता चला है। रामायण ककबिन के अनुसार उसने विष्णु-अवतार वाराह की लाश खाई थी जिससे उसका मुँह काला बन गया था तथा राम ने उसका मुख पोंछ कर शुद्ध कर दिया (दे० ऊपर अनु० ३१४)। रामकथेन (अध्याय १६) के अनुसार शबरी वास्तव में एक अप्सरा थी ईश्वर की सेवा में अमावधान हा जाने के कारण उसे शाप दिया गया था कि वह एक जलते हुए जगल के पास तब तक निवास करे, जब तक राम उसे आकर न बुझा दे। शबरी ने अपने अतिथि राम से निवेदन किया कि वह ऐसा करें और कृपालु राम ने उस आग को बुझा दिया जिससे शबरी ने फिर अप्सरा के रूप में स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया।

रघुराज सिंह की रामरसिकावली (पृ० ११८) में शबरी एक मुनि की पत्नी थी, जो अपन पति के साथ वन में निवास करती थी। किसी अवसर पर उसका पति वन

१ डब्ल्यू० जी० ग्रिफिन्स दि कोल ट्राइब ऑफ सेंट्रल इण्डिया (कलकत्ता, १९४६) पृ० २०७।

२ यह कथा शबरी के पति के विषय में मौन है। कोल-जाति में ऋषियों के सरोवर के अशुद्ध हो जाने का वृत्तान्त भी प्रचलित है (दे० ग्रिफिन्स, वही पृ० ९)।



में साधना करके घर लौटा और शबरी ने उसके चरण धोए, बाद में मुनि को पता चला कि उसी दिन शबरी को पुत्र उत्पन्न हुआ था। इसपर उसने अपनी पत्नी शबरी को वन में भेजते हुए यह शाप दिया—“अरी अशौच न भोहि बतायो। कस पूजन भोजन करवायो। शबरी होसि महाबन आई।” पत्नी का विलाप सुन कर मुनि ने उसे सान्त्वना देकर कहा—“करिहुँ संतन की सेवा, एहेँ तुब घर रचकुल देवा।” एक अन्य दन्त कथा<sup>१</sup> इस प्रकार है—शबरी का जन्म एक उच्च तथा सम्पन्न परिवार में हुआ था, किन्तु परतंत्रता के कारण उसे सत्संग तथा साधना के लिए अवकाश नहीं मिलता था। अतः उसने प्रार्थना की थी कि उसका अगला जन्म किसी नीच जाति में हो जिससे उसकी भक्ति-साधना में बाधा न पड़े। फलस्वरूप वह भीलों के यहाँ उत्पन्न हुई थी। विवाह-योग्य हो जाने पर उसने देखा कि घर में सँकड़ों बकरे-भैंसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। पूछने पर उसे पता चला कि उसके विवाह के अवसर पर इन सब का विलदान किया जायेगा। यह सुनकर वह बहुत खबराई तथा सब जान-वरो को मुक्त कर वह जंगल में चली गई तथा पपासरोवर के निकट शोपड़ी बनाकर ऋषियों की सेवा करने लगी।

### ३—सीताहरण

४८२. बौद्ध साहित्य के बशरथ जातक और बशरथ कथानम् में सीताहरण का उल्लेख नहीं किया गया है। बोधिसत्व राम द्वारा रावण का वध किया जाना बौद्ध आदर्श के प्रतिकूल था, अतः सीताहरण का और फलस्वरूप रावण का अभाव स्वाभाविक प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त बशरथ जातक के प्रसंग के अनुसार इसका उल्लेख अनावश्यक भी था (दे० ऊपर अनु० ८१)। महाभारत के शांतिपर्व की राम-कथा में भी सीताहरण का वर्णन नहीं किया गया है। इस अत्यन्त संक्षिप्त वृत्तान्त का प्रसंग है कि महान् राजा भी मर जाते हैं। अतः इस राम-कथा में राम तथा उनकी महिमा का ही वर्णन किया गया है, फिर भी १४ वर्ष के वनवास का उल्लेख मिलता है जिससे स्पष्ट है कि लेखक पूर्ण राम-कथा से परिचित था।

इन तीनों को छोड़कर सीताहरण तथा फलस्वरूप राम-रावण-युद्ध अन्य सभी राम-कथाओं की मुख्य आधिकारिक कथावस्तु ही है। इसके वर्णन में पर्याप्त मात्रा में विभिन्नता आ गई है। प्रस्तुत परिच्छेद में पहले सीताहरण के विभिन्न कारण दिए

१. दे० भागवत द्विद्वेषी कृत “भक्त शबरी” (मानस संघ, राम वन, सं० १९९२) पृ० ४ तथा जी० प्रियसैन, ज० रौ० ए० सो० १९१०, पृ० २७५।

गए हैं। अनन्तर इस घटना के विभिन्न रूपों का निरूपण किया गया है, और अंत में माया-सीता के विकास की रूपरेखा अंकित की गई है।

### क। सीताहरण के कारण

४८३. प्रचलित वाल्मीकि रामायण में शूर्पणखा के विरूपण को सीताहरण का मूलकारण माना गया है। विरूपित शूर्पणखा खर-सेना की पराजय देखकर लका के लिए प्रस्थान करती है तथा रावण को जनस्थान के विनाश तथा सेना-सहित खर-दूषण के बध का समाचार सुनाती है।<sup>१</sup> अनन्तर वह राम की वीरता तथा सीता के सौंदर्य का वर्णन करके कहती है कि सीता आपके योग्य हैं, उनको आप के पास ले आने के प्रयत्न में मुझे विरूपित किया गया है (भार्यार्थे तु तवानेतुमुद्यताहं बराननां विरूपितास्मि; ३४, २१)। अन्त में वह रावण को सीता का हरण करने का सुझाव देती है (दे० सर्ग ३२-३४)।

अधिक संभव यही प्रतीत होता है कि आदि रामायण में शूर्पणखा के विरूपण की कथा विद्यमान नहीं थी। युद्धकाण्ड के दो स्थल इस अनुमान के आधार हैं। रावण की सभा (सर्ग ९) में विभीषण ने सीताहरण के कारण के विषय में केवल खर का ही उल्लेख किया है। विभीषण ने कहा—राम ने रावण का क्या बिगाड़ा था कि उसने उनकी भार्या का अपहरण किया। खर ने अपनी सीमा का उल्लंघन किया था (अतिवृत्तः) और इसीलिए वह राम से मारा गया; (यह स्वाभाविक था क्योंकि) हर प्राणी को यथाशक्ति अपने प्राणों की रक्षा अवश्य करनी चाहिए :

कि च राक्षसराजस्य रामेणापकृतं पुरा ।

आजहार जनस्थानाद्यस्य भार्या यशस्विनः ॥१३॥

खरो यद्यतिवृत्तस्तु स रामेण हतो रणे ।

अवश्यं प्राणिना प्राणा रक्षितव्या यथाबलम् ॥१४॥

युद्धकाण्ड के अन्त में (सर्ग १२६) हनुमान द्वारा जो संक्षिप्त रामचरित सुनाया जाता है, उसमें पहले दण्डकारण्य के तपस्वियों की रक्षा के निमित्त राम द्वारा खर-दूषण-त्रिशिरा आदि राक्षसों के बध का वर्णन मिलता है और केवल बाद में शूर्पणखा के विरूपण का उल्लेख होता है। अतः यह असंभव नहीं कहा जा सकता है कि राक्षसों

१. ऊपर (अनु० ४५६) इसका उल्लेख हो चुका है कि दक्षिणात्य पाठ का ३१वाँ सर्ग प्रक्षिप्त है। इसके अनुसार अकम्पन ने सबसे पहले रावण को खर-बध का समाचार सुनाया था।

के बध के कारण ही रावण का विरोध उत्पन्न हुआ था। बाद में शूर्पणखा के विरूपण की कथा प्रचलित होने लगी। परवर्ती राम-कथाओं में सीताहरण का यह कारण व्यापक रूप से प्रामाणिक माना गया है। फिर भी, अन्य कारणों की भी कल्पना कर ली गई है; इनका निरूपण नीचे किया जा रहा है।

४८४. विमलसूरिकृत पउमचरियं में लक्ष्मण द्वारा चन्द्रनखा के पुत्र शम्भूक का बध सीताहरण का कारण माना गया है। यह कथा तेलुगु रंगनाथ रामायण, सारलादास के उड़िया महाभारत, कन्नड तोरवे रामायण, हिन्देशिया की अर्वाचीन राम-कथा, श्याम के रामकियेन, आनन्द रामायण तथा मराठी भावार्थ रामायण में भी मिलती है (दे० आगे अनु० ६३१-६३२)। श्याम देश की एक राम-कथा में शूर्पणखा की दो पुत्रियों का उल्लेख है, जिनका लक्ष्मण ने बध किया था (दे० नीचे अनु० ४९३)।

४८५. महावीरचरित से लेकर अनेक राम-नाटकों तथा अन्य राम-कथाओं में रावण सीतास्वयंवर के समय से ही सीता को पत्नीस्वरूप चाहता है। वह दूत को भंजता है, अपवा स्वयं सीता के स्वयंवर में आता है (दे० ऊपर अनु० ३९६)। इन राम-कथाओं में प्रायः शूर्पणखा के विरूपण की कथा भी मिलती है, लेकिन ऐसे अनेक वृत्तान्त मिलते हैं जहाँ स्वयंवर का ही उल्लेख किया गया है, उदाहरणार्थ—अनर्धराध्व, बाल-रामायण, महानाटक, पाश्चात्य वृत्तान्त नं० ७ और ८। राजशेखर के बाल-रामायण में रावण का विरह प्रधान वर्ण्य विषय बन गया है। आनन्द रामायण में उपर्युक्त तीनों कारणों का उल्लेख है।

४८६. गुणभद्रकृत उत्तरपुराण की राम-कथा में न तो शूर्पणखा के विरूपण का और न सीतास्वयंवर के अवसर पर रावण का उल्लेख किया गया है। राम-सीता-विवाह के पश्चात् नारद रावण के पास जाकर सीता के अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन करते हैं जिससे रावण सीता को हर लाने का संकल्प करता है।

रामलिंगामृत में शूर्पणखा के विरूपण के बाद ही नारद रावण से सीता के सौंदर्य की प्रशंसा करता है (दे० सर्ग ६)।

४८७. १८वीं शताब्दी के एक वृत्तान्त के अनुसार सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट में पहुँचकर राम ने अपने बहुत से शिष्यों को पुनर्जन्म का सिद्धान्त सिखाया था। उन्होंने सिंहलद्वीप में भी अपने सिद्धान्त का प्रचार करना चाहा, लेकिन रावण ने इसका विरोध किया और राम को पराजित कर सीता को उनसे छीन लिया। बाद में विभीषण की सहायता से राम ने ब्रह्मा द्वारा भेजी हुई सेना से रावण को जीत लिया (दे० पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १२)।

४८८. राम-भक्ति के पल्लवित होने के पश्चात् सीताहरण का एक और कारण दिया गया है। दाक्षिणात्य पाठ के उत्तरकाण्ड के ३७वें सर्ग के बाद जो प्रक्षिप्त सर्ग मिलते हैं, उनमें सीताहरण के कारण के विषय में निम्नलिखित कथा दी गई है। रावण किसी दिन सनत्कुमार से मिलकर उनसे जान लेता है कि जो दैत्य, दानव, राक्षस आदि हरि द्वारा मार डाले जाते हैं वे उनका पद प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि उनका क्रोध भी वरदान का रूप धारण कर लेता है—**क्रोधोऽपि देवस्य वरेण तुल्यः** (सर्ग २, २२)। इसपर रावण विचार करने लगा कि मेरा तथा हरि का संघर्ष किस प्रकार छिड़ सकता है। तब मुनि ने उसको समझाया कि त्रेतायुग में नारायण राम का रूप धारण कर लेंगे तथा अपने पिता की आज्ञा से वह लक्ष्मी-रूपी सीता के साथ वन में निवास करेंगे। अतः रावण विष्णु के हाथ से मारे जाने की इच्छा से ही सीता का अपहरण करता है—**अपहृता सीता त्वत्तो मरणकांक्षया** (सर्ग ५, ४३)। साथ-साथ यह भी माना गया है कि रावण ने सीता को लका लं जाकर माता के समान उनकी रक्षा की थी—**स्वका-मानाय यत्नेन मातेष परिरक्षिता** (सर्ग ५, ५४)। यह सामग्री केवल दाक्षिणात्य पाठ में मिलती है किन्तु अन्य पाठों में रावण-कुभकरण सवाद के अन्तर्गत (जो दाक्षिणात्य पाठ में विद्यमान नहीं है) रावण कहता है कि मैं विष्णु के हाथ से मरकर मुक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ—**निहतो गन्तुमिच्छामि तद्विष्णोः परमं पदम्** (गी० रा० ६, ४१, २५, ५० रा० ६, ४२, २४)।

परवर्ती राम-साहित्य में प्रायः सनत्कुमार-रावण का उपर्युक्त संवाद उद्धृत किया जाता है—अथवा यह माना गया है कि मोक्षप्राप्ति के उद्देश्य से रावण ने सीता का अपहरण किया था; उदाहरणार्थ—रामतापनीय उपनिषद् (४, १७), अध्यात्म रामायण (३, ५, ६०; ७, ३, ४०, ७, ४, १०), आनन्द रामायण (१, ११, २४४; १, १३, १२०-१२६), पद्म पुराण (६, २६९, २५५), रामचरितमानस (३, २३, ४), भावार्थ रामायण (६, २३), बलरामदाम रामायण, प्रेमानन्द कृत रण-यज्ञ। शिवपुराण के अनुसार रावण ने पाताल में विष्णु से प्रार्थना की थी कि तेरे हाथ से मेरी मृत्यु हो—**त्वद्धस्ताद् भगवन् मृत्युर्ममास्तु**।

४८९. सीताहरण के कई परोक्ष कारणों का भी उल्लेख मिलता है। रामावतार के कारणों के प्रसंग में विष्णु को दिए हुए भृगु, वृन्दा और नारद के वाप्यों की चर्चा

१. दे० शिवपुराण, गणपतिकृष्ण जी प्रेस, धर्मसंहिता, अध्याय १३। रावण की मुक्ति-प्राप्ति के विषय में दे० आगे अनु० ५९९।
२. इसी तरह सीतात्याग के विषय में भी विभिन्न परोक्ष कारणों की कल्पना कर ली गई है। दे० अनु० ७२५-७२९।

हो चुकी है; उन शापों के फलस्वरूप विष्णु को मनुष्य बनकर पत्नी-वियोग का दुख उठाना पड़ा, अतः ये शाप सीताहरण के परोक्ष कारण माने जा सकते हैं (दे० ऊपर क्रमशः अनु० ३७०, ३७२, ३७३)। लक्ष्मी के प्रति नारद के शाप का भी उल्लेख मिलता है (दे० अनु० ३७३)। बह्मिपुराण (पृ० १७४) में लक्ष्मी के प्रति पृथ्वी के शाप की कथा इस प्रकार है—किसी दिन ब्रह्मा तथा पृथ्वी विष्णुलोक गये थे। उनके आगमन के समय विष्णु लक्ष्मी के साथ शयन कर रहे थे, जिससे लक्ष्मी ने उनका सत्कार नहीं किया। इस पर पृथ्वी ने लक्ष्मी को यह कहकर शाप दिया कि पति से तुम्हारा वियोग होगा।<sup>१</sup>

इसके अतिरिक्त राम-कथा से सीधा संबंध रखने वाले तीन अन्य कारणों का भी उल्लेख मिलता है। इनमें से सबसे व्यापक सीता के प्रति लक्ष्मण का शाप है। इसका मूलस्रोत वाल्मीकि रामायण में सुरक्षित लक्ष्मण की इस उक्ति में देखा जा चाहिए— आज विनष्ट होने वाली तुम्हें धिक्कार है क्योंकि तुम मुझी पर शंका कर रही हो; धिक्क्यामद्य विनश्यतीं यन्मानेव विशंकसे (३, ४५, ३२)। भट्टिकाव्य में शाप का रूप इस प्रकार है—शत्रुहस्तं त्वं यास्यसि (दे० सर्ग ५, ६०)। लक्ष्मण के इस शाप का निर्देश रामायण ककविन (सर्ग ५), देवी भागवत पुराण (३, २८, ४६) अध्यात्म-रामायण (३, ७, ३६), बलरामदास रामायण आदि में भी मिलता है।

ब्रह्मवैवर्त पुराण (कृष्णजन्म खण्ड, अध्याय ६२) के अनुसार शूर्पणखा ने राम से ठुकराये जाने पर उनको यह शाप दिया कि तुम्हारी पत्नी का हरण होगा।

कुन्तिवाम के रामायण में राम-सीता-विवाह के अवसर पर चन्द्रमा का नृत्य वर्णित है। इस नृत्य के कारण मुहूर्त का ध्यान नहीं रखा गया था, जिससे बाद में सीताहरण संभव हो सका (दे० ऊपर अनु० ४००)।

## ख। सीताहरण का मूलरूप .

४९०. चिन्तामणि विनायक वैद्य का अनुमान है कि वाल्मीकिकृत आदि रामायण में सीताहरण के वृत्तान्त में कनक-मृग का कोई उल्लेख नहीं था। यह वृत्तान्त अद्भुत रस की लोकप्रियता के कारण बाद में रामायण में रखा गया है। उनका तर्क यह है कि यदि कनकमृग की घटना का वर्णन सचमुच आदिरामायण में था तो सीता-

१. इसी श्रेणी में देवताओं के प्रदत्त महादेव का यह वरदान रखा जा सकता है—  
“उत्पत्स्यति हितार्थं वो नारी रभःक्षयाबहा”। राक्षसियों के विलाप के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है (दे० रामायण ६, ९४, ३५)।

रावण-संवाद अस्वामाविक प्रतीत होता है। यदि सीता राम के विषय में इतनी चिन्तित थी कि उन्होंने लक्ष्मण को अत्यन्त कटु शब्द सुनाकर उन्हें राम की सहायता के लिए भेजा था तो इन्होंने राम के विषय में अपनी आशंका का उल्लेख रावण से क्यों नहीं किया था ? यदि उत्तर दिया जाय कि उनको रावण पर विश्वास नहीं था, इसका प्रत्युत्तर यह है कि यदि सीता रावण पर विश्वास नहीं करती थी तो उन्होंने अपनी आत्मकथा विस्तारपूर्वक क्यों सुनाई थी। वास्तव में सीता-रावण-संवाद के अन्तर्गत यह स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि सीता राम की प्रतीक्षा कर रही थी, जो लक्ष्मण के साथ मृगया खेलने गये थे—ततः सुवेधं मृगयागतं पतिं प्रतीक्षमाणा सहलक्ष्मणं तत्रा (३, ४६, ३८)। इसके अतिरिक्त सीता रावण से कहती हैं कि मेरे पति मृग, बराह आदि भारकर बहुत मास लिये लौटनेवाले है

आगमिष्यति मे भर्ता वन्यमादाय पुष्कलम् ।

वकन्तोषान्वराहवच हत्वाऽऽयायामिष बहु ॥२३॥ (सर्ग ४७)

श्री वैद्य के तर्कों की पुष्टि के लिये इन थोड़ी सी राम-कथाओं का भी सहारा लिया जा सकता है, जिनमें कनक-मृग का उल्लेख नहीं किया गया है। अनामकं जातकम् (३री श० ई०) में ऐसी कथा मिलती है कि जब राजा फल लेने चले गये थे तब एक दुष्ट नाग ने रानी का अपहरण किया था। पउम्भरियं (४थी श० ई०) के अनुसार खरदूषण अपनी पत्नी चन्द्रनखा से अपने पुत्र का वध सुनकर वन में उसे देखने गया तथा घर लौटकर इसका समाचार रावण के पास भेज दिया। रावण के विलम्ब करने पर उसने १४००० योद्धाओं के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। यह सेना आते देखकर लक्ष्मण ने राम से कहा—“मेरे रहते आपको लडना उचित नहीं है। आप यहाँ सीता की रक्षा करें। जिस समय मैं शत्रुओं से घिर कर सिंहनाद करूँ, उस समय आप अवश्य ही जन्दी आना।” लक्ष्मण राक्षसों की सेना का सामना कर रहे थे कि रावण पुष्पक पर आ पहुँचा तथा सीता को देखकर उन पर आसक्त हुआ। 'अवलोकना नामक विद्या से उसने तुरन्त सीता, राम और लक्ष्मण को जान लिया तथा सिंहनाद वाली बात भी उसने जान ली। अतः रावण ने सिंहनाद किया जिसे सुनकर राम उनकी सहायता करने चले गये। रावण ने सीता को पुष्पक पर रख दिया तथा जटायु को भूमि पर गिराकर लका की ओर प्रस्थान किया। इतने में राम लक्ष्मण के पास पहुँचते हैं तथा लक्ष्मण द्वारा वापस भेजे जाते हैं। राम लौटकर तथा शोपडी को खाली पाकर मूर्च्छा खाते हैं (दे० पर्व ४४)। कूर्म पुराण

(नवीं स० ई०) में भी रावण द्वारा अकेली वन में टहलती हुई सीता के अपहरण का उल्लेख मिलता है :

शरतीं विजने वने.....सीतां गृहीत्वा

(उत्तर विभाग, अध्याय ३४)

उपर्युक्त अपेक्षाकृत प्राचीन वृत्तान्तों के अतिरिक्त अनेक विदेशी तथा पाश्चात्य वृत्तान्त मिलते हैं जिनमें कनक-मृग का निर्देश नहीं पाया जाता है। सिंहली राम-कथा के अनुसार राम की अनुपस्थिति में सीता का हरण राजधानी से ही होता है। अनाम के राम-चरित में दशानन सेना-सहित दशरथ के राज्य पर आक्रमण करता है, और विजयी होकर सीता को अपने साथ ले जाता है।

पाश्चात्य वृत्तान्तों न० ६, ९, ११ तथा १५ में भी कनक-मृग का उल्लेख नहीं मिलता। वृत्तान्त न० ११ के अनुसार राम एक पक्षी का शिकार करने गये थे और देर होने पर सीता ने लक्ष्मण को उनकी खोज में भेज दिया था। वृत्तान्त न० १५ में कहा गया है कि जब राम अपने किसी उपद्रवी सामन्त से युद्ध करने गए थे तब मिश्रारी का रूप धारण कर रावण के नौकर ने सीता को अपने मालिक के लिए हर लिया था।

४९१. महाभारत के रामोपाख्यान में सीताहरण के समय रावण के रथ का निर्देश नहीं मिलता। वाल्मीकिरचित रामायण के एक स्थल से भी यह आभास मिलता है कि सम्भवतः मूल-कथा में रथ का उल्लेख नहीं था। किष्किन्धा कांड में सम्पाति अपने पुत्र सुपाश्वर्य का वृत्तान्त हनुमान आदि वानरों को सुनाता है। इसके अनुसार सुपाश्वर्य महेंद्र की घाटी को रोकते हुए (महेंद्रस्थ गिरेद्वारमावृत्य दे० रा० ४, ५९, १२) नीचे के मार्ग पर पहूरा दे रहा था। उस समय उसने किसी को देखा जो एक सुन्दर स्त्री को लिए जा रहा था। सुपाश्वर्य ने उन दोनों को अपने पिता को देने का निश्चय किया लेकिन उस मनुष्य ने विनीत भाव से मार्ग माँगा और सुपाश्वर्य ने उसे जाने दिया :

तत्र कश्चिन्नमया वृष्टः सूर्योद्ययसमप्रभाम् ।

स्त्रियमादाय गच्छन्वर्षं भिक्षाजनकयोपमः ॥१४॥

सोऽहमप्यवहारर्षं तौ वृष्ट्वा कृतनिश्चयः

तेन साम्ना विनीतेन पंचामनन्याचितः ॥१५॥

ग । कनक मृग

४९२. प्रचलित वाल्मीकि रामायण में कनक-मृग का वृत्तान्त इस प्रकार है (दे० सर्व ३५-४९)। विरूपित घूर्णनला से खरवध का समाचार तथा सीता के

सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर रावण मारीच<sup>१</sup> के पास जाता है तथा उससे निवेदन करता है कि वह कनकमृग का रूप धारण कर सीताहरण में सहायक बने। मारीच इस प्रस्ताव को राम के पराक्रम के कारण ही अस्वीकार करता है। वह इस पराक्रम के विषय में दो आप-बीती घटनाओं का वर्णन भी करता है। विश्वामित्र-यज्ञ की रक्षा करते समय राम ने बाण मार कर उसे शतयोजन की दूरी पर समुद्र में फेंक दिया था (दे० अनु० ३८९)। बाण में मारीच ने दो राक्षसों के साथ मृग का रूप धारण कर दण्डकारण्य में प्रवेश किया था तथा वहाँ विचरकर तपस्वियों का मांस खा जाता था। राम ने बाण मारकर उसके दो साथियों का वध किया जिससे मारीच भयभीत होकर भाग गया और अब तपस्वी का जीवन बिताता है। मारीच रावण को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देता है कि यदि वह अपने संकल्प में दृढ़ रहा तो लका का सत्यानाश होगा। रावण उसका सत्परामर्श ठुकराकर मारीच को पुरस्कार स्वरूप अपना आधा राज्य प्रदान करने की प्रतिज्ञा करता है और अन्त में यह भी धमकी देता है—यदि तुम स्वीकार नहीं करते तो मैं तुम्हारा वध करूँगा। इसपर मारीच यह जानकर कि मैं किसी भी प्रकार नहीं बच सकता शत्रु के हाथ से वीरोचित मरण चुन लेता है :

नेअन कृतकृत्योऽस्मि श्रिये चाप्यरिणा हतः ।<sup>१</sup>

मारीच की स्वीकृति के तुरन्त बाद रावण उसे अपने रथ पर बिठाकर जनस्थान की ओर प्रस्थान करता है। वहाँ पहुँचकर मारीच कनकमृग का रूप धारण कर लेता है तथा सीता का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करता है। राम तथा लक्ष्मण को बुलाकर सीता कनकमृग को दिखाती हैं तथा उसे पाने के लिये अनुरोध करने लगती हैं।<sup>१</sup> इस

१. शूर्पणखा के आगमन के पूर्व मारीच से रावण की भेट का प्रक्षिप्त वर्णन दक्षिणात्य पाठ मात्र में मिलता है (दे० अनु० ४५६)।
२. दे० रा० ३, ४१, १७। मारीच की मुक्ति-प्राप्ति के विषय में नीचे अनु० ४९९ देखें। गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठों में रावण-मारीच-संवाद सबधी दो अतिरिक्त सर्ग मिलते हैं किन्तु उनमें नवीन सामग्री नहीं है (दे० गौ० रा०, सर्ग ४६-४७; प० रा०, सर्ग ४५-४६)।
३. दक्षिणात्य (सर्ग ४३) तथा गौडीय (सर्ग ४९) पाठों के अनुसार लक्ष्मण ने इस अवसर पर यह आशंका प्रकट की थी कि यह मृग मारीच तो नहीं है। पश्चिमोत्तरीय पाठ का समानान्तर सर्ग इसका उल्लेख नहीं करता (सर्ग ४८)। दक्षिणात्य पाठ मात्र में राम मारीच के मरण पर लक्ष्मण की इस आशंका की ओर निर्देश करते हैं (सर्ग ४४)। मृग की पुकार सुनकर लक्ष्मण सीता को समझाते हुए कहते हैं कि यह मृग कोई राक्षस होगा, दे० दक्षिणात्य (४५, १७) तथा पश्चिमोत्तरीय पाठ (५०, १५)। यह उल्लेख गौडीय पाठ के समानान्तर सर्ग (५१) में नहीं मिलता। पाठों की यह विभिन्नता



पर राम सीता को लक्ष्मण की रक्षा में छोड़कर कनकमृग का शिकार करने जाते हैं। मारीच राम को दूर ले जाता है तथा अन्त में राम-बाण से आहत होकर अपना ही रूप धारण कर लेता है तथा पूर्वनिश्चित योजना के अनुसार राम की बाणी का अनुकरण करते हुए चिल्लाता है—हा सीते लक्ष्मण। राम मायावी राक्षस को मृत छोड़कर आशंका करते हुए भीमता से लौटते हैं।

उधर सीता मारीच की पुकार सुनकर तथा राम की संकट में समझकर लक्ष्मण से अनुरोध करने लगती हैं कि वह अपने भाई की सहायता करने जायें। लक्ष्मण पहले अस्वीकार करते हैं किन्तु सीता के कटु शब्द (दे० ऊपर अनु० ४६२) तथा आत्महत्या की धमकी सुनकर वह चले जाते हैं। अब रावण परिव्राजक के रूप में सीता के पास पहुँचकर उनसे आतिथ्य-सत्कार ग्रहण करने के पश्चात् अपना परिचय देता है तथा सीता के सामने लंका की महारानी बनने का प्रस्ताव रख देता है। सीता का कटु उत्तर सुनकर वह अपने राक्षस-रूप में प्रकट हो जाता है तथा उनको अपने रथ पर रखकर लंका की ओर प्रस्थान करता है।

सीताहरण का यह रूप न केवल भारतीय राम-कथा-साहित्य में सबसे अधिक व्यापक है किन्तु विदेशों में भी। तिब्बत, खोतान, हिन्देशिया, श्याम और ब्रह्म देश में कनक-मृग की कथा प्रचलित है।

महानाटक (दामोदर, ३, २७) के अनुसार राम तथा लक्ष्मण कनकमृग का शिकार करने के लिये साथ-साथ चले जाते हैं। उवात्तराघव में सीताहरण का रूप इस प्रकार है। लक्ष्मण कनक-मृग को मारने चले जाते हैं तथा रावण आश्रम के कुल-पति का रूप धारण कर राम और सीता के पास पहुँचता तथा राम की निन्दा करता

इस बात का प्रमाण है कि आदि रामायण लक्ष्मण की इस आशंका के विषय में मौन था। आदि पुराण के अनुसार राम ने इस प्रकार की आशंका प्रकट की थी (दे० ऊपर अनु० १७३)।

१. लक्ष्मण के शाप के विषय में अनु० ४८९ देखें।
२. जैन राम-कथाओं में पहले-पहल सीताहरण के समय पुष्पक का उल्लेख है (दे० अनु० ४९०)। भरत के प्रति हनुमान द्वारा कथित राम-चरित में दक्षिणात्य पाठ के अनुसार पुष्पक की चर्चा है (दे० ६, १२६, २९), किन्तु अन्य पाठों के समानान्तर सर्गों में (सौ० रा० सर्ग ११०; ५० रा० सर्ग १०७) ऐसा कोई निर्देश नहीं है। बहुत सी परवर्ती राम-कथाओं में सीताहरण के प्रसंग में पुष्पक का उल्लेख है। उदा० नृसिंह पुराण (अनु० ४९४)।

है क्योंकि उन्होंने तरुण लक्ष्मण को भोग दिया है। उसी समय एक अन्य छत्र-देवी राक्षस आकर यह समाचार देता है कि कनकमृग राक्षस में बदलकर लक्ष्मण को ले जा रहा है। इसपर राम सीता को रावण की रक्षा में छोड़कर लक्ष्मण की सहायता करने जाते हैं।

सेरीराम के अनुसार सीताहरण के ठीक पहले राम अलौकिक शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से यज्ञ कर रहे हैं। इस समय गायकनासिर नामक राक्षस काक बनकर राम का यज्ञ भंग करने आता है और राम द्वारा वध किया जाता है। तब रावण गायकनासिर के दो पुत्रों को मृग का रूप धारण करने का आदेश देता है (एक सुवर्ण और एक रजत)।

४९३. ब्रह्मषक (दे० अनु० ३२८) में सीताहरण का एक सर्वथा नवीन रूप मिलता है। रावण की बहन शूर्पणखा अपनी दो पुत्रियों के साथ लका तथा किष्किन्धा की सीमा की रखवाली करती है। किसी दिन वे राम, लक्ष्मण और सीता को देखकर उन पर आक्रमण करती हैं। लक्ष्मण शूर्पणखा की दोनों पुत्रियों का वध करते हैं तथा राम शूर्पणखा को हटने को विवश करते हैं। शूर्पणखा लका जाती है तथा स्वयं कनक-मृग बनकर सीताहरण में रावण की सहायता करती है। राम कनक-मृग का शिकार करने जाते हैं। लक्ष्मण मृग की पुकार सुनकर तथा राम को जोखिम में समझकर सीता को नंगथोरानी (पृथ्वी) को सौंप देते हैं और चले जाते हैं। रावण सीता को ले जाने का प्रयत्न करता है किन्तु पृथ्वी देवी सीता के पैर पकड़ कर रोक लेती हैं, जिससे रावण कुछ नहीं कर सकता है। राम, लक्ष्मण को देखकर सीता के विषय में चिन्ता प्रकट करते हैं किन्तु लक्ष्मण उनको आश्वासन देते हैं कि मैंने उनको पृथ्वी देवी की रक्षा में छोड़ दिया है। इसपर राम कहते हैं कि मैं पृथ्वी पर विश्वास नहीं करता। राम के इन शब्दों के विषय में जानकर पृथ्वी देवी सीता को छोड़ देती है और रावण उनको लका ले जाता है।

४९४. कनकमृग का एक परिवर्तित रूप इस प्रकार है—राम और लक्ष्मण के चले जाने के बाद रावण आकर सीता को विश्वास दिलाता है कि अब अयोध्या जाना है। इसपर विश्वास करके सीता अपने आप रथ पर चढ़ती हैं। कथा का यह रूप नृसिंह पुराण, बृहद्बर्मपुराण, गुणभद्रकृत उत्तरपुराण, आश्चर्य-चूड़ामणि नाटक तथा दक्षिण भारत के एक वृत्तान्त में पाया जाता है।

१. ब्रह्मदेश में भी गाम्बी (शूर्पणखा) कनक-मृग का रूप धारण कर लेती है। सी० कोल्मैन (दि मिथॉलॉजी ऑफ दि हिन्दूस पृ० २४) ने एक कथा सुनी थी जिसके अनुसार रावण स्वयं कनकमृग बन गया था।

मूर्तिह पुराण के अनुसार रावण सन्यासी के रूप में आकर सीता से कहता है— भरत आ गए हैं और उन्होंने आपको ले जाने के लिए मुझे भेजा है। राम भी मृग को फँसाकर अयोध्या जा रहे हैं। यह सुनकर सीता विमान पर चढ़ती हैं। इस वृत्तान्त में पाठक का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया गया है कि रावण ने सीता का स्पर्श नहीं किया (दे० अध्याय ४९)। बृहद्वर्मपुराण में रावण भिक्षु के रूप में सीता के पास आकर कहता है कि कौशल्या आपको देखने के लिए उत्सुक हैं (दे० पूर्वखंड, अध्याय १९)। दक्षिण भारत के एक वृत्तान्त में (१६०९ ई०) रावण ऋषि के वेष में एक रथ के साथ सीता के पास आता है। इस रथ पर अयोध्या के नागरिकों का रूप धारण करने वाले राक्षस बैठते हैं। रावण कहता है, हम भरत की ओर से आए हैं। राम का राज्याभिषेक होने वाला है और राम ने स्वयं अयोध्या के लिए प्रस्थान किया है (दे० पाश्चात्य वृत्तान्त न० १, पृ० ८५)। आश्चर्य-बुद्धामणि नाटक में राम और लक्ष्मण के चले जाने के बाद रावण और उसका सारथि क्रमशः राम और लक्ष्मण का रूप धारण कर सीता के पास पहुँचते हैं। रथ को दिखलाकर लक्ष्मण (सारथि) राम (रावण) से कहता है—'भरत का राज्य सकट में है। उनकी सहायता करने के लिए तपस्वियों ने यह रथ भेजा है। अनन्तर तीनों रथ पर चढ़कर चले जाते हैं। उधर शूर्पणखा, सीता के वेष में, राम के साथ बातचीत कर रही है तथा मारीच, राम के वेष में, लक्ष्मण के साथ। गुणभद्रकृत जैन उत्तरपुराण में वनवास का उल्लेख नहीं मिलता। राम सीता के साथ बनारस में निवास करते हैं। नगर के पास ही चित्रकूट नामक उपवन में सीता का हरण होता है। इस वृत्तान्त की एक और विशेषता यह है कि इसमें लक्ष्मण का उल्लेख नहीं किया गया है। मृग को मारने के लिये राम के चले जाने के बाद रावण राम के रूप में सीता के पास आकर कहता है—'मेने मृग को फँसाया है और उसे बनारस भेजा है। अब घर जाने का समय आ गया है।' यह सुनकर सीता रावण के पुष्पक पर बैठ जाती है (सीता को धोखा देने के लिए पुष्पक ने सीता की पालकी का रूप धारण कर लिया था)।

४९५. भासकृत प्रतिमानाटक में एक सर्वथा नवीन कथानक पाया जाता है। दशरथ के वार्षिक श्राद्ध के एक दिन पूर्व राम और सीता मोच रहे थे कि श्राद्ध कैसे योग्य रीति से मनाया जाए। इस पर रावण परिव्राजक का रूप धारण कर आता है

१ परिव्राजक (भिक्षु, सन्यासी, ऋषि आदि) तथा राम के रूप के अतिरिक्त रावण के और छयरूप मिलते हैं। तिब्बती रामायण में रावण पहले हाथी का और इसके बाद घोड़े का रूप धारण कर लेता है। हिंदेशिया के एक वृत्तान्त में रावण पहले एक सुवर्ण अंज के रूप में आता है। दे० ज० रो० ए० सो०, स्ट्रेट्स ब्रैच० १९१०, पृ० १५।

और अपना परिचय देकर भिन्न-भिन्न शास्त्रों का उल्लेख करता है जिनका उसने अध्ययन किया है। इनमें से एक है प्राचेतस धाढकल्पम्। राम धाढ के विषय में जिज्ञासा प्रकट करते हैं। तब रावण कहता है कि हिमालय में रहने वाले काचनपासर्व मृग से पितृ विशेष रूप से प्रसन्न हो जाते हैं। उसी क्षण मारीच इस प्रकार का मृग बनकर दिखाई देता है। लक्ष्मण उस समय आश्रम के कुलपति का स्वागत करने गए थे। अतः सीता को रावण के पास छोड़कर राम मृग के पीछे चले जाते हैं। तब रावण अपना रूप धारण कर सीता को लका ले जाता है (दे० अंक ५)।

४९६ कृत्यारावण में सीताहरण का जो रूप मिलता है उसका प्रधान उद्देश्य यही प्रतीत होता है कि लक्ष्मण पर झूठा अभियोग लगाने के दोष से सीता को बचाया जाय। कनकमृग के पीछे राम के चले जाने के बाद शूर्पणखा तपस्विनी गौतमी का रूप धारण कर सीता को नहीं दूर ले जाती है। तब वह सीता के रूप में लक्ष्मण के पाम लौटकर उनको अपने कटु शब्दों द्वारा राम की सहायता करने जाने के लिए बाध्य करती है (अंक १)। इतने में रावण सीता के पास आकर उनको यह कहकर पुष्पक पर चढ़ने के लिए विवश कर देता है— यदि तुम स्वेच्छा से पुष्पक पर नहीं चढ़ोगी तो मैं आश्रम के सब तपस्वियों का सिर काट दूँगा (अंक २)।

४९७. दक्षिण भारत के एक वृत्तान्त में सीताहरण का वर्णन इस प्रकार है— रावण स्वयं दो निरंजने वाले मृग का रूप धारण कर लेता है। सीता उसे देखकर उसके चमड़े के लिए इच्छा प्रकट करती है। राम मृग के पीछे दूर तक निकलकर अंत में उसे मार डालते हैं। उसी क्षण रावण का जीव एक साधू के शरीर में प्रवेश करता है। वह साधू पर्णशाला के पास आकर लक्ष्मण से कहता है 'तुम्हारा भाई वरियों से घिरा हुआ है उसकी सहायता करने जाओ'। सीता के अनुरोध करने पर लक्ष्मण जाते हैं और रावण सीता को लेकर लका की ओर प्रस्थान करता है (दे० पञ्चात्य वृत्तान्त न० ३ और ८)।

४९८ बाल्मीकि रामायण में सीता को लक्ष्मण तथा जटायु की रक्षा में छोड़कर राम मृग को मारने जाते हैं। ऊपर इसका उल्लेख किया गया है कि आदि रामायण में सीताहरण के पूर्व सम्भवतः जटायु से भेट नहीं हुई हो। आगे चलकर जटायु के अतिरिक्त सीता की रक्षा के प्रबन्ध के विषय में कुछ नवीन सामग्री राम-कथाओं में आ गई है।

राम की सहायता करने जाने के पूर्व लक्ष्मण सीता की रक्षा के लिये कुटी के चारों ओर धनुष से रेखा खींचते हैं, और देवताओं की शपथ खाकर कहते हैं कि जो कोई

इसके भीतर घुसेगा उसका सिर फट जायेगा। बाद में छपवेषी रावण के अनुरोध करने पर सीता उसे भोजन देने के लिये हाथ रेखा के बाहर बढ़ाती हैं और रावण उनको खींच लेता है। इस प्रकार की कथा खोतानी रामायण, सेरीराम, हिकायत महाराज रावण, श्याम तथा ब्रह्मदेश की राम-कथा (तीन रेखायें), मधुसूदन<sup>१</sup> द्वारा सम्पादित महानाटक (अंक ३, ६५), तेलुगु द्विपद रामायण (३, १८; सात रेखायें), कृत्तिवास रामायण, आनन्द रामायण (१, ७, ९८), भावार्थ रामायण (३, १५), सूरसागर (नवाँ स्कन्ध, पद ५०३ नागरी प्रचारिणी सभा संस्करण), रामचरितमानस<sup>२</sup> (६, ३६, २), असमीया गीतिरामायण, रामचन्द्रिका (१२, १८) तथा पाश्चात्य वृत्तान्तों (नं० ३, ४ और १३) में पाई जाती है। पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १३ में कहा गया है कि जब रावण रेखा को पार करना चाहता है, अग्नि की लपटें उठकर उसको भीतर घुसने से रोकती है।

मधुसूदन के महानाटक (३, ६९-७२) में रावण सीता को तुलसी देना चाहता है किन्तु सीता रेखा का उल्लंघन करना अस्वीकार करती हैं, इस पर रावण रेखा पार कर सीता को ले जाता है। सेरीराम के पातानी पाठ के अनुसार सीता रावण को एक पुष्प अर्पित करने के लिये अपना हाथ रेखा के बाहर बढ़ाती हैं। धर्मखण्ड (अध्याय ८१) तथा तत्त्वसंग्रह रामायण (३, १५) में सीता अपने पति के कुशलक्षेम के विषय में चिन्तित हैं किन्तु रावण उनकी हस्तर रेखा देखकर ही उनको उत्तर देने की प्रतिज्ञा करता है।

विहौर नामक आदिवासी जाति की राम-कथा में लक्ष्मण जाने के पहले यह कहकर सीता को अभिमंत्रित राई के शाने देते हैं—'यदि कोई आए तो उस पर दाने फेंकना। एक दाना फेंकने से वह एक घण्टा तक मूर्च्छित रहेगा। दो दाने फेंकने से वह दो घण्टे तक मूर्च्छित रहेगा इत्यादि। रावण के आने पर सीता ने एक दाना फेंक दिया और वह एक घण्टे तक मूर्च्छित रहा। इसके बाद सीता ने पुनः कई बार एक दाना फेंका। अन्त में रावण ने कहा—'इतना कष्ट क्यों करती हो। सब दाने एक साथ फेंक दो जिससे मैं मर जाऊँ।' सीता ने ऐसा ही किया और रावण भस्मीभूत हो गया। लेकिन भस्म से उठकर रावण सीता के बालों को पकड़ कर उनको ले गया।

४९९. वाल्मीकि रामायण के अनुसार मारीच मरण के पूर्व अपना राक्षस रूप धारण कर लेता है। राम-भक्ति की प्रेरणा से लिखित परवर्ती राम साहित्य में मारीच

१. दामोदर के संस्करण में (३, २७) राम स्वयं यह रेखा खींचते हैं किन्तु एक अन्य स्थल पर (४, ३) वह लक्ष्मण द्वारा खींची हुई मानी जाती है।

की सामूह्य-भक्ति की प्राप्ति का प्राय उल्लेख मिलता है। अध्यात्म रामायण के अनुसार मारीच के शरीर से निकला हुआ तेज सब के देखते-देखते राम ही में समा गया (दे० ३, ७, २०)। श्रीमद्देवीभागवत पुराण में मारीच को बैकुण्ठ के दोनों द्वारपालों का किकर माना गया है, राम द्वारा बध किए जाने के बाद वह बैकुण्ठ लौटता है (दे० ९, १६, ४०)।

५००. सीता का हरण करने के बाद रावण को जटायु का सामना करना पड़ा। लका की शेष यात्रा में एक ही घटना उल्लेखनीय है। किमी गिरिभृगु पर (सुग्रीवादि पाँच वानरो को देखकर सीता ने रावण की आँख बचाकर अपना उत्तरीय तथा अपने आभूषण उनके मध्य फेंक दिए)।

लका पहुँचकर रावण ने सीता को अपने अन्तपुर में राक्षसियों की रक्षा में छोड़ दिया तथा आठ गुप्तचरों को जनस्थान भेज दिया कि वे राम का पता लगाकर उनकी हत्या करने का प्रयत्न करें (सर्ग ५४)। बाद में रावण ने सीता का मन विचलित करने के उद्देश्य से उनको लका का वैभव दिखाया। सीता के दृढ़ रहने पर रावण ने उन्हें एक वर्ष का समय दे दिया, यदि वह इस अवधि के अन्त में स्वेच्छा से रावण के पास नहीं आयेगी तो रावण उनको खा जायेगा। तब उमने भयकर राक्षसियों को बुलाकर सीता को अशोकवन में ले जाने का आदेश दिया (सर्ग ५५-५६)।

काश्मीरी रामायण (३ २४) का वृत्तान्त इस प्रकार है। रावण ने सीता को एक वाटिका में रखकर उनकी रक्षा का भार मदोदरी को सौंप दिया। मदोदरी आकर अपनी पुत्री को पहचानती है जिसे उसने जन्म के बाद ही नदी में फेंकवा दिया था (दे० ऊपर अनु० ४१३)। सीता अपनी माता को अपना जीवन-वृत्त सुनानी है और दोनों मिलकर विलाप करती हैं।

१ दे० ऊपर अनु० ४७०। माधव कदली कुल असमीया रामायण (४, २५), असमीया गीति गमायण तथा कृत्तिकास के अनुसार (३, २१) विन्ध्याचल पर रहने वाले मुपाग्वं ने रावण को रोकना चाहा किन्तु रावण ने निवेदन किया—मुझे जाने दीजिये। आपमें कोई धैर्य नहीं है। जिसने मेरी बहन का अपमान किया है, उमी की पत्नी को ले जा रहा हूँ। (वे० अनु० ४९१)

२ दे० ३ ५४, १-२। किष्किन्धा काण्ड (सर्ग ६) में सुग्रीव राम को ये आभूषण दिखाते हैं। तत्त्वसग्रह गमायण (३, १५) के अनुसार कुछ वानरियों सीता की विवशता देखकर उनकी हँसी करती थी, इस पर सीता ने उनको यह शाप दिया कि उनकी छाती सदा अनाच्छादित रहेगी।

३ आनन्द रामायण (१, ७, १३०) में इनकी सख्या १६ है, वे कब्रध द्वारा खाए जाते हैं।

पञ्चमचरिय के अनुसार रावण ने सीता को पहले देवरमण उद्यान (४६, १५) और बाद में समन्त-कुसुम उद्यान (४६, ६६) में रख दिया था। गुणभद्र के अनुसार सीता को तन्दनवन (६८, ३०७) में रखा गया था। पारश्चात्य वृत्तान्त नं० १ में यह माना गया है कि सीता चारों ओर से अग्नि से घेरी हुई थी, इसी कारण से रावण उनको अपने महल में नहीं रख सकता था। कृत्तिवास (३, २२) के अनुसार शूर्पणखा ने अशोकवन में सीता के पास आकर उनको मार डालने की धमकी दी थी किन्तु रावण के डर से वह कुछ कर न सकी।

हरण के पश्चात् सीता के प्रति रावण का व्यवहार समझने के लिए परवर्ती साहित्य में कई मार्ग अपनाये गये हैं। एक के अनुसार रावण को यह शाप दिया गया कि अनासक्त पर-स्त्री के साथ सभोग करने से उसका सिर फट जायगा (दे० अनु० ६५४)। जैनी रामायणों में यह माना गया है कि रावण ने विरक्त पर-नारी के साथ रमण नहीं करने का व्रत<sup>१</sup> लिया था। पञ्चमचरिय (पर्व ४६) के अनुसार रावण मन्दोदरी के सामन स्वीकार करता है कि मैंने सीता का हरण किया है तथा यह भी कहता है कि यदि सीता मेरा निरस्कार करती रहेगी तो मेरे प्राण नहीं बच सकेंगे। मन्दोदरी बलप्रयोग का प्रगमर्श देती है जिस पर रावण उत्तर देता है कि यह मेरे व्रत के कारण असंभव है। अनन्तर मन्दोदरी स्वयं जाकर रावण की बात मानने के लिये सीता से अनुरोध करती है। बाद में रावण माया की सहायता से सीता को हाथी सिंह, बाघ राक्षस, बनाल और सर्पों से डराता है किन्तु यह सब होते हुये भी सीता रावण की शरण नहीं लेती। गुणभद्र के उत्तर पुराण के अनुसार रावण ने हरण के समय भी सीता का स्पर्श इमीलिए नहीं किया था कि पतिव्रता स्त्री के स्पर्श से उसकी आकाशगामिनी विद्या क्षीघ्र नष्ट हो जायगी (दे० ६८ २१३)। रावण द्वारा सीता का स्पर्श न होने के अन्य कारणों का भी उल्लेख मिलता है (दे० अनु० ५०२)। सेरी राम में माना गया है कि रावण को लका में सीता से ४० धनु दूर रहना पड़ता था (दे० अनु० ५२४)।

सुन्दरकाण्ड की घटनाओं के पूर्व सीता के लका-निवास के विषय में वाल्मीकि रामायण के एक प्रक्षिप्त सर्ग में निम्नलिखित कथा मिलती है।<sup>२</sup> सीताहरण के पश्चात्

१ पञ्चमचरिय के अनेक स्थलों पर इस व्रत का निर्देश मिलता है, उदाहरणार्थ पर्व १४, १५३, ४४, ४५, ४६, ३३, गुणभद्र के उत्तर पुराण में व्रत इस प्रकार है—**नानिच्छन्ती प्रतीच्छामि** (६८, ४८६)। बाद में रावण ने सीता को विचलित करने की जिन युक्तियों का सहारा लिया है उसका वर्णन आये किया जायगा—दे० अनु० ५४२ और ५८३)।

२ यह सर्ग दक्षिणात्य पाठ में सर्ग ५६ के अनन्तर रखा गया है, अन्य पाठों में इसे प्रक्षिप्त नहीं माना गया है (दे० गौ० रा० तथा प० रा० सर्ग ६३)।

ब्रह्मा ने इन्द्र को बुला कर उनको आदेश दिया कि सीता के पास अन्न ले जाकर उनके प्राण बचा ले। इसपर इन्द्र और निद्रा लका चले गए। निद्रा ने राक्षसों को सम्मोहित किया जिससे इन्द्र सीता के पास जा सके। इन्द्र ने सीता को राम के आगमन का आश्वासन देकर उनको क्षुधा-तृषा मिटाने-वाला पायस खिलाया। यह वृत्तान्त गौथ परिवर्तनों के साथ बृहद्भर्म पुराण (पूर्व खण्ड, अध्याय १९), श्रीमद्देवीभागवत पुराण (३ ३०) आनन्द रामायण (१, ७), कृत्तिवास रामायण (३, २३), काश्मीरी रामायण (३ २३) आदि में भी मिलता है। श्रीमद्देवीभागवत तथा काश्मीरी रामायण के अनुसार इन्द्र ने सीता को अमृत पिलाया था।

इस कथा की प्रक्षिप्तता असदिग्ध है। सुन्दरकाण्ड में सीता को 'उपवासकृशा' (५ १८) कहा गया है। जैनी रामायणों के अनुसार सीता ने यह प्रण किया था कि जब तक पति की कुशल वार्ता न मिल जाए मैं भोजन नहीं करूँगी (पउमचरिय ४६ १४, गुणभद्र कृत उत्तरपुराण ६८, २२४)।

## घ। माया सीता

५०१ बाल्मीकि रामायण में सीताहरण का जो चित्र खींचा जाता है वह किंचित् बीभत्स कहा जा सकता है। रावण एक हाथ से सीता के बाल और दूसरे हाथ से उनकी जघाओं को पकड़ कर उनको अपने ग्य पर रख देता है

अभिगम्य सुबुष्टात्मा राक्षस काममोहित ।

जघ्राह रावण सीतां बुध क्षे रोहिणीमिव ॥१६॥

वामेन सीतां पद्माक्षीं मूर्धजेषु करेण स ।

ऊर्वोस्तु दक्षिणेनैव परिजघ्राह पाणिना ॥१७॥

(अरण्यकाण्ड सर्ग ४९)

इस वर्णन की उन्नता का निवारण करने के लिए राम-कथा-साहित्य में दो मार्ग अपनाए गए हैं। सीताहरण के वृत्तान्तों का एक ऐसा समूह मिलता है जिसमें रावण सीता का हृग्न करने हुए भी उनका स्पर्श नहीं करता। दूसरा मार्ग यह है कि रावण वास्तविक सीता का हरण न करके सीता की एक छाया मात्र लका ले जाता है।

५०२ नृसिंह पुराण तथा गुणभद्र के उत्तरपुराण में सीता के स्पर्श से बचने के लिए रावण ने एक ऐसा उपाय निकाला है, जिससे सीता अपने आप विमान पर चढ़ती है। (दे० अनु० ४९४)।

दक्षिणात्य के किष्किबाकाण्ड के ६४वें सर्ग में प्रस्तुत कथा का उल्लेख है, किन्तु वह सर्ग भी प्रक्षिप्त है (दे० अनु० ५३०)।



कई अन्य वृत्तान्तों में सीता को रावण के स्पर्श से बचाने के लिए अलौकिकता का सहारा लिया गया है। तिब्बती रामायण (नवीं शताब्दी), कंब रामायण, अध्यात्म रामायण, तत्त्वसंग्रह रामायण (३, १५) आदि में रावण पृथ्वी को खोद कर सीता को भूभाग के साथ-साथ ले जाता है।

तमिल रामायण (३, ८) के अनुसार रावण ने पृथ्वी को एक योजन की गहराई तक खोद कर सीता तथा भोपड़ी को अपने रथ पर रख दिया। यह इसलिए हुआ कि उसको यों शाप दिया गया था, 'परस्त्री स्पर्श करने से तुम मर जाओगे'।

अध्यात्म रामायण में रावण केवल एक माया-सीता का हरण करता है। फिर भी यह पृथ्वी को नलों से खोद कर उस सीता का भी स्पर्श नहीं करता :

ततो विदार्यं धरणीं नखैश्चक्षुष्य बाहुभिः ॥५१॥

तोलयित्वा रथे क्षिप्त्वा ययौ क्षिप्रं विहायसा ।

(अरण्यकांड, सर्ग ७)

प्रसन्नराघव में (१४वीं श०) गोदावरी अन्य नदियों तथा सागर को सीताहरण का वृत्तान्त सुनाती है। सागर पूछता है—'अपि नाम मम बधूटिका स्पृष्टा निष्ठाधरेण'। इस पर गोदावरी उत्तर देती है—'न स्पृष्टा' और कहती है कि जब रावण ने सीता पर हाथ डालना चाहा तब अनसूया का दिया हुआ अगाराग अग्नि के रूप में सीता का आवरण बन गया था, तब रावण ने वरुणमंत्र द्वारा बादल को बुलाया और उस बादलरूपी आंचल से सीता को ढँक कर उसे ले गया (अंक ५)।

दक्षिण भारत के एक नृसिंह पुराण से मिलते-जुलते वृत्तान्त में लिखा है कि रावण के रथ में तथा लंका में भी अग्नि सीता की रक्षा करता था। इस कारण रावण न तो सीता का स्पर्श कर पाता था और न उनको महल के भीतर ले जा सकता था (दे० पाद्वाच्य वृत्तान्त न० १)। इसका उल्लेख सेरी राम के पातानी पाठ में भी हुआ है।

५०३. इस प्रकार हम देखते हैं कि भिन्न-भिन्न युक्तियों से सीता को रावण के स्पर्श से बचाया गया है। फिर भी सीता रावण के वश में हुई हो यह विचार भक्ति-भावना के लिए असह्य और असम्भव सा प्रतीत हुआ। अतः एक मायामयी सीता को वास्तविक सीता का स्थान लेना पड़ा। राम-कथा के इस महत्त्वपूर्ण परिवर्तन की उत्पत्ति और विकास पर प्रकाश डालना अपेक्षित है।

उस वृत्तान्त में दो तत्व आ जाते हैं। पहले, एक माया-सीता का हरण होता है और दूसरे वास्तविक सीता अग्नि में निवास करने जाती हैं। इन दोनों का सूत्रपात हम बाल्मीकि रामायण में देख सकते हैं।

लकाकांड में सीता को विदुज्जिह्व द्वारा निर्मित राम का एक मायामय सिर बिल्लालया जाता है (सर्ग ३२) और बाद में इंद्रजित् वानर-सेना के सामने एक मायामयी सीता का सिर काटता है (सर्ग ८१), आगे चल कर राम-कथा-साहित्य में इस प्रयोजन का और स्थलों पर भी सहारा लिया जाता है। राजशेखर के बालरामायण में सीता और उनकी धात्रेयिका (दूध-बहन) सिंदूरिका की मूर्तियाँ बनवाकर और उनके मूँह में सारिकाएँ स्थापित करके माल्यवान् बिरही रावण का मन बहलाने का प्रयत्न करता है (अंक ५)। इसी नाटक में सेतुबंध के समय राम को निरुत्साह करने के लिए सीता का एक मायामय सिर समुद्र के तट पर फेंका जाता है। अतः माया-सीता की कल्पना प्राचीन काल से चली आ रही है।<sup>१</sup> इसके अतिरिक्त सम्भव है कि बाल्मीकि रामायण की निम्नलिखित उपमा भी माया-सीता की कल्पना के लिए सहायक हो सकी हो, 'रावण ने सीता को लका में रख दिया मानो मय ने अपने महल में आमुरी माया को' :

निबधे रावणः सीतां मयो मायामिवामुरीम् । (३, ५४, १४)

टीकाकारों ने इस उपमा में मायासीता के वृत्तान्त का निर्देश देखा है। रामायण तिलक में लिखा है—मायामिवामुरीमित्यनेन मायारूपैर्बन्धा सीता या लंकाभागतेति ध्वनितम् ।

इस मायासीता के हरण के पहले वास्तविक सीता अग्नि में निवास करने जाती हैं। राम-कथा के विकास की पृष्ठभूमि पर यह भी अत्यन्त स्वाभाविक प्रतीत होता है। बाल्मीकि रामायण में अग्निपरीक्षा के अवसर पर अग्नि सीता की रक्षा करके और उनके पातिव्रत्य का साक्ष्य देकर अन्य देवताओं से अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान लेते हैं। आगे चलकर सीताहरण के प्रसंग में भी अग्नि का उल्लेख होने लगा ।

भीमहंबीभागवतम् में सीता रावण का प्रस्ताव सुनकर गार्हपत्य (अर्थात् क्षोपड़ी में स्थापित अग्नि) की ओर शरण के लिए भाग जाती हैं (स्कंध ३, अध्याय २९) ।

१. यह भी असंभव नहीं है कि महाभागवत पुराण (अध्याय ११, १६) में जो छाया-सती की कथा मिलती है वह छाया-सीता की कल्पना में सहायक हुई हो। अद्भुत रामायण में वास्तविक हरण को अवास्तविक सिद्ध करने का तर्क दिया जाता है। हनुमान् राम को सान्त्वना देते हुए कहते हैं, जिस तरह विश्व आभास है उसी तरह सीताहरण भी आभास मात्र है।

तव भार्या महाभाग रावणेन हूतेति यत् ।

विश्वं यथेदमाभासि तथेर्ष प्रतिभासि मे ॥३॥ (सर्ग १६)

रंगनायकृत तैलुगु विष्णुपद रामायण (३, १८) में लक्ष्मण अग्नि देव से प्रार्थना करके और सीता को उनकी रक्षा में सौंपकर राम की सहायता करने आते हैं। उपर्युक्त दक्षिण भारत के वृत्तान्त के अनुसार भी अग्नि सीता की रक्षा करती है और उनको रावण के स्पर्श से बचाती है। इस वृत्तान्त के एक अन्य स्थल पर सीता अग्नि की पुत्री मानी गई है (दे० पाश्चात्य वृत्तान्त न० १, पृ० १००)।

५०४. माया-सीता के हरण का वृत्तान्त पहले पहल कूर्मपुराण के पतिव्रतो-पाख्यान में मिलता है (७ वी श०)। निर्जन वन में टहलती हुई सीता ने रावण को आते देखकर और उसका अभिप्राय समझकर घर की अग्नि की शरण ली (अथाथ शरणं बह्निमावसभ्यम्) तथा बह्निघण्टक का जप किया (बह्निघण्टक जपत्वा)।

इसपर आवसभ्य से प्रकट होकर अग्नि ने एक मायामयी सीता को बनाया और (सीतामावाय रामेष्टा पावकोऽन्तरबीयत्) वास्तविक सीता को ग्रहण कर उसको छिपा दिया। तब रावण मायामयी सीता को लका ले गया। रावणवध के बाद राम ने उस मायासीता पर धका की। फलस्वरूप वह अग्नि में प्रवेश कर जल गई। तब अग्नि ने प्रकट होकर वास्तविक सीता को दिखलाया और राम ने नत-मस्तक होकर अग्नि को सनुष्ट कर दिया। इसपर अग्नि ने मायामयी सीता का रहस्य खोलकर राम से निष्कलक सीता को ग्रहण करने का अनुरोध किया तथा उनके उनके नारायणत्व का स्मरण दिलाया

गृहाण चंता विमला जानकीं बचनात्मम् ।

पश्य नारायण देवं स्वात्मान प्रबवाभ्ययम्' ॥

इस वृत्तान्त के अनुसार राम केवल अग्निपरीक्षा के समय जान जाते हैं कि वास्तविक सीता का हरण नहीं हुआ था। ब्रह्मबैवर्तपुराण के रचयिता ने इसमें किञ्चित् परिवर्तन किया है। सीताहरण के पूर्व ही अग्निदेव, ब्राह्मण के वेष में, राम के पास आकर कहते हैं—'सीताहरण का समय आ गया। मुझे सीता को देकर उसकी छाया अपने पास रख लो। अग्निपरीक्षा के अवसर पर मैं उसे लौटा दूंगा। देवताओं ने मुझे भेजा है। मैं ब्राह्मण न होकर अग्नि हूँ'। यह सुनकर राम सहमत हुए और अग्नि ने एक मायामयी सीता बनाकर उसे राम को दे दिया। तब इस रहस्य को किसी से भी न प्रकट करने का आदेश देकर अग्नि वास्तविक सीता के साथ चले गए। अग्नि-

१ दे० कूर्मपुराण, उत्तरविभाग, अध्याय ३४ (कलकत्ता संस्करण, पृ० ६९८ आदि)। नरहरिकृत कन्नड रामायण (१५०० ई०) में लक्ष्मण के चले जाने के बाद अग्नि और अन्य देवता सीता को अग्नि के गढ़ में रखकर उनका एक अष्ट मात्र पर्णशाला में छौड़ देते हैं (दे० अरण्यकांड, सधि ९)।

परीक्षा के समय जब अग्नि ने वास्तविक सीता को लौटा दिया, तब भावा-सीता ने पूछा कि मैं अभी क्या करूँ। इसपर अग्नि ने उसको पुष्कर भेज दिया। वहाँ तीन लाख वर्ष तक तपस्या करके मायामयी सीता भी लक्ष्मीपद प्राप्त कर सकी। श्रीमद्देवीभागवत पुराण में भी अग्नि राम के पास जाकर उनको एक छाया-सीता देते हैं और वास्तविक सीता को अग्नि-परीक्षा के समय तक अपने साथ रखते हैं।<sup>१</sup>

अध्यात्म रामायण में हमें मायामयी सीता के वृत्तान्त का विकसित रूप मिलता है। लेखक ने राम की सर्वज्ञता पूर्ण रूप से सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया है तथा सारे वृत्तान्त में अग्निदेव को जो प्रधानता मिली थी उसे राम और सीता को दे दी है। कथा इस प्रकार है (अरण्यकांड, सर्ग ७)।

रावण और मारीच का षड्यन्त्र जानकर राम ने एकान्त में सीता से कहा— 'रावण तुम्हारे पास भिक्षु का रूप धारण कर आवेगा, इसलिए तुम अपनी छाया को कुटी में छोड़कर अग्नि में प्रवेश कर जाओ और मेरी आज्ञा से वहाँ अव्यय रूप से एक वर्ष रहो। सीता ने वैसा ही किया। मायामयी सीता को छोड़कर वह स्वयं अग्नि में अतर्द्धात हो गई (माया-सीतां बहिः स्व्याप्य स्वयमन्तर्बधेऽजले)। रावण-वध के पश्चात् मायासीता अग्नि में प्रवेश करती है (युद्धकांड, सर्ग १२) तथा अग्नि राम को वास्तविक सीता प्रदान करते हैं (सर्ग १३)। महाभागवत पुराण में भी सीता अपनी छाया छोड़कर अतर्द्धात हो जाती हैं (अध्याय ११, १०८)।

५०५. अध्यात्म रामायण में जो मायासीता का वृत्तान्त मिलता है, यह हिन्दी राम-साहित्य में प्रामाणिक माना गया है, उदाहरणार्थ रामचरितमानस (३, २४) रामचन्द्रिका (१२, १२)। अर्वाचीन राम-कथा साहित्य में भी सीताहरण का यही रूप गौण परिवर्तनों सहित पाया जाता है।

भावार्थरामायण (३, १६) के अनुसार देवताओं को आज्ञा की कि सीता का स्पर्श करते ही रावण भस्मीभूत हो जायेगा, वे चाहते थे कि लका-युद्ध में सभी राक्षसों का नाश हो। अतः जब रावण ब्राह्मण के रूप में सीता के पास आया और सीता भिक्षा लाने के लिये पर्णकुटी के अंदर चली गई तब देवताओं ने सीता को आदेश दिया कि वह स्वयं रावण को भिक्षा न दे और देवताओं द्वारा निर्मित एक मायामयी सीता को भेज दे। इसपर सीता ने उत्तर दिया कि माया-सीता का निर्माण आप लोगो की शक्ति के बाहर है। मैं स्वयं अपनी छाया भेजकर देवताओं का कार्य सम्पन्न करूँगी।

१ दे० ब्रह्मवैवर्तपुराण, प्रकृति खंड, अध्याय १४। श्रीमद्देवीभागवत, स्कंध ९, अध्याय १६। दोनो रचनाओं में यह भी कहा गया है कि यह मायासीता आगे चलकर द्रौपदी के रूप में प्रकट हुई।

बलराजबास रामायण (उत्तरकांड) में यह माना गया है कि लक्ष्मण के चले जाने के बाद सीता ने नारद की पूर्व-शिक्षा के अनुसार अपना माया-रूप छोड़कर अग्नि में प्रवेश किया था। अग्निपरीक्षा के समय वास्तविक सीता फिर प्रकट हुई थी।

वर्षलखण्ड (अध्याय १३०) तथा तत्त्वसंग्रह रामायण (३, १३) के अनुसार नारद ने वनवास के अन्त में राम को उनके कर्तव्य (अर्थात् रावण-वध) का स्मरण दिलाया। राम ने उत्तर दिया कि रावण आ रहा है। तब राम ने लक्ष्मण के अनजान में माया-सीता का निर्माण कर मृत्यु देवी से निवेदन किया कि वह सीता के रूप में लंका में प्रवेश करे। राम ने वास्तविक सीता को अपनी छाती में छिपा लिया। लकायुद्ध के ठीक पहले राम ने सीता से कहा कि तुम्हारे रहते युद्ध में जाना दुष्कर है। इसपर सीता अपनी माता पृथ्वी की शरण में चली गई (तत्त्वसंग्रह रामायण ६, १४) तथा अग्नि-परीक्षा के समय लौटीं (वही ६, ३४-३५)।

काश्मीरी रामायण में अग्निपरीक्षा के समय माया-सीता के प्रवेश करने के बाद अग्नि १४ दिनों तक जलती रहती है, तत्पश्चात् वास्तविक सीता उसमें से निकलती है (६, ५४)।

५०६. आनन्द रामायण में माया-सीता के वृत्तान्त का एक परिवर्तित रूप मिलता है। स्वरादि-वध के पश्चात् राम सीता को तीन रूप में विभक्त हो जाने का आदेश देते हैं—रजोरूप से वह अग्नि में वास करेगी, सत्वरूप से राम के धामांग में और तमोरूप से वन में :

सीते त्वं त्रिविधा भूत्वा रजोरूपा वसानसे ॥६७॥

धामांगे मे सत्वरूपा वस छाया तमोमयी ।

पंचवट्यां वशास्यस्य मोहनार्थं वसान्त वै ॥६८॥ (सारकांड, सर्ग ७)

उपर्युक्त वृत्तान्त आनन्द रामायण को छोड़कर और कहीं नहीं मिलता। जिस तरह अन्य वृत्तान्तों में वास्तविक सीता का हरण नहीं होता उसी तरह इसमें सात्विक तथा रजोमयी सीता दोनों की रक्षा होती है और रावण केवल एक तमोमयी छाया हर लेता है।

५०७. रसिक सम्प्रदाय में भी सीताहरण को अवास्तविक माना गया है। "वास्तव में न तो सीता का हरण हुआ और न स्वयं ब्रह्म राम ने एक तुच्छ राक्षस के वध के लिए धनुष-बाण ही धारण किया था।" उस सम्प्रदाय में चित्रकूट का

१. दे० रामभक्ति में रसिक सम्प्रदाय, पृ० २८२।

रा० ३०

अत्यधिक महत्त्व है, राम "ब्रह्मरूप में अपनी आह्लादिनी शक्ति सीता जी के साथ चित्रकूट में विहार करते रहे। इस विहारलीला में कैकर्य और व्यवस्था लक्ष्मण जी करते थे, जो जीव-तत्त्व के प्रतिनिधि थे। चित्रकूट के आगे लक्ष्मी, नारायण और शेष उनके वेष में गए थे और परत्पर ब्रह्म की आज्ञा से उन्होंने ही रावण का वध कर सीतारूप लक्ष्मी का उद्धार किया"।<sup>१</sup> बाद में तीनों चित्रकूट लौटे।

५०८. मायासीता के इन सब वृत्तान्तों का अभिप्राय स्पष्ट है। उपास्य देवी की मर्यादा को रखा करने के लिए भक्ति-भावना ने सीता की एक छाया मात्र का हरण स्वीकार किया और साथ-साथ राम की सर्वज्ञता को भी पूर्ण रूप से सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया।

अतः में यूनानी साहित्य के एक ममान विकास की ओर निर्देश करना है। होमर के काव्य में हेलेन पतिता बनकर अपने अपहर्ता पैरिस के साथ स्वेच्छा से भाग निकलती है और युद्ध के बाद अपने पति मेनलोस का पुनः प्राप्त होती है। यूनानी धार्मिक विकास में वही हेलेन बाद में देवी मानी गई। फलस्वरूप भक्तों ने होमर का वृत्तान्त इष्टदेवी की मर्यादा के प्रतिकूल समझकर उसे इस तरह बदल दिया कि पैरिस हेलेन की एक छाया (ऐडोलोन = भायामयी मूर्ति, छाया) अपने साथ ले जाता है। इसी तरह भक्ति-भावना ने दोनों देशों में एक ही उपाय का सहारा लिया है। फिर भी हेलेन तथा सीता की कथाओं में किंचित् भी पारस्परिक प्रभाव मानने की कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रकार इन दोनों कथाओं का स्वतंत्र रूप से समानान्तर विकास हुआ है।

-----

१. दे० वही, पृ० २९७।

२. दे० डब्लू प्रिंज हेलेन उज्ज सीता (याकोबी मेमोरियल बाल्युम, पृ० १०३-११३)।

अध्याय १७

## किष्किंधाकांड

### १—वाल्मीकीय किष्किंधाकांड

५०९ क । किष्किंधाकांड की कथावस्तु

(१) सुग्रीव से मंत्री (सर्ग १-१२)

हनुमान्—पपासर देखकर राम की विरह-व्यथा । सुग्रीव का हनुमान को भोजना ।  
हनुमान का उनको सुग्रीव के पास ले जाना (सर्ग १-४) ।

सुग्रीव—सुग्रीव का स्वागत तथा अपनी कथा बताना । राम द्वारा बालिबध की  
प्रतिज्ञा । सुग्रीव का राम को सहायता का वचन देना तथा सीता के आभरण  
दिखलाना (सर्ग ५-६) । सुग्रीव का पुन सहायता के लिए वचन देना तथा  
अपनी कथा सुनाना (सर्ग ७-१०) ।

राम की परीक्षा—सुग्रीव द्वारा बालि की शक्ति का वर्णन । राम द्वारा बुदुभि के  
अस्थि-ककाल का फेका जाना अनन्तर राम से सात ताड तशबो के एक बाण  
द्वारा भेदे जाने पर सुग्रीव का विश्वस्त होना । किष्किंधा जाकर सुग्रीव का  
बालि से प्रथम द्वन्द्व-युद्ध । राम का सुग्रीव को न पहचानना । ऋष्यमूक  
से लौटना (सर्ग ११-१२) ।

(२) बालिबध (सर्ग १३-२८)

बालि का आहूत होना—द्वितीय बार सुग्रीव का बालि को द्वन्द्वयुद्ध के लिए ललकारना  
(सर्ग १३-१४) । तारा द्वारा रोके जाने पर भी बालि का युद्ध के लिये जाना  
तथा राम के बाण से आहूत होना (सर्ग १५-१६) ।

बालि की भर्त्सना—इन्द्र-माला के कारण बालि का जीवित रहना तथा राम को  
भर्त्सना देना; राम का प्रत्युत्तर (सर्ग १७-१८) ।

तारा-बिलाप—समाचार पाकर तारा का आना और बिलाप करना (सर्ग १९-२०) ।  
हनुमान का तारा को सान्त्वना देना (सर्ग २१) ।

**बालि-मरण**—बालि का सुग्रीव के हाथ अंगद को सौपना । सुग्रीव के इन्द्र-माला उतार लेने पर उसका मरण, बानरों और तारा का विलाप (सर्ग २२-२३) । सुग्रीव का पश्चात्ताप और राम का सान्त्वना देना (सर्ग २४-२५) ।

**वर्षा-ऋतु**—राम का प्रस्रवण पर्वत की एक गुफा में वर्षा-निवास । सुग्रीव का अभिवेक तथा अंगद का युवराज होना; राम द्वारा वर्षा-वर्णन तथा उनका विलाप (सर्ग २६-२८) ।

### (३) बानरों का प्रेषण (सर्ग २९-४४)

**शरद-ऋतु**—सुग्रीव का बानरसेना बुलाना, राम का शरद-ऋतु वर्णन तथा सुग्रीव की कृतघ्नता का उल्लेख, क्रुद्ध होकर लक्ष्मण का सुग्रीव के पास जाना (सर्ग २९-३२) ।

**लक्ष्मण-सुग्रीव-भेंट**—तारा का लक्ष्मण को शांत करना । लक्ष्मण का सुग्रीव की भर्त्सना करना । तारा तथा सुग्रीव की क्षमा-प्रार्थना । सुग्रीव की आज्ञा से सेना का आगमन (सर्ग ३३-३७) ।

**द्विर्वर्णन**—सुग्रीव का सेना के साथ राम के पास पहुँचना (सर्ग ३८-३९) । दिशाओं का वर्णन करते हुए सुग्रीव का बानरसेना को चतुर्दिक् भोजना (सर्ग ४०-४३) । विश्वास-पात्र हनुमान् का दक्षिण दिशा में भेजा जाना तथा राम का उन्हें अभि-ज्ञान रूप में अंगूठी देना (सर्ग ४४) ।

### (४) बानरों की खोज (सर्ग ४५-६७)

**असफलता**—बानरो का प्रस्थान तथा पूर्व, पश्चिम और उत्तर से बानरों का निराश लौटना (सर्ग ४५-४७) । हनुमान् और उनके साथियों की विध्यपर्वत में व्यर्थ खोज (सर्ग ४८-४९) ।

**स्वयंप्रभा**—उनका कदरा में प्रवेश; स्वयंप्रभा द्वारा सत्कार तथा आँखें बंद करवाकर उनको गुफा के बाहर ले जाना (सर्ग ५०-५२) ।

**अंगद की निराशा**—कदरा से निकल कर विध्य-तल के सागर-तट पर उनका पहुँचना । अंगद का प्रायोपवेशन के लिये प्रस्ताव । अंगद का सुग्रीव से भयभीत होना, सभी का दुःखी और निराश होना (सर्ग ५३-५५) ।

**संपाति**—संपाति के सम्मुख अंगद द्वारा जटायु-मृत्यु का उल्लेख । संपाति का वृत्तान्त पूछना और लका की स्थिति बतलाना (सर्ग ५६-५८) । उसका अपने पुत्र सुपाश्वर्य द्वारा रावण को सीता ले जाते देखने का उल्लेख करना । ऋषि निशाकर के कथनानुसार संपाति के पंखों का फिर से उग आना (सर्ग ५९-६३) ।



सागर का तट—सागर के तट पर पहुँचकर अंगद की निराशा । जाम्बवान् द्वारा हनुमान् की कथा तथा सामर्थ्य-वर्णन । हनुमान् का महेंद्र पर्वत पर अड़कर कूदने के लिए तत्पर होना (सर्ग ६४-६७) ।

## ख । किष्किधाकांड का विश्लेषण

तीनों पाठों में विभिन्नता ।

५१०. किष्किधाकांड की आधिकारिक कथावस्तु, अर्थात् सुग्रीव से मंत्री, बालिवध और वानरों के प्रेषण तथा खोज में कोई विशेष अंतर नहीं पाया जाता है ।

दाक्षिणात्य पाठ की निम्नलिखित सामग्री अन्य दोनों पाठों में नहीं मिलती :

सर्ग ३, २८-३८ । राम द्वारा हनुमान् की शुद्ध भाषा और व्याकरण के अध्ययन का उल्लेख ।

सर्ग २४ । बालिवध के पश्चात् सुग्रीव का पश्चात्ताप तथा राम द्वारा तारा की सान्त्वना ।

सर्ग २७, ५-३० । प्रस्रवणगिरि का वर्णन ।

सर्ग २८, १४-५२ । वर्षाऋतु का त्रिष्टुम में वर्णन ।

सर्ग ३०, २८-५७ । शरत् का त्रिष्टुम में वर्णन ।

सर्ग ३३, २५-६२ । तारा-लक्ष्मण-संवाद । क्रुद्ध लक्ष्मण को आते देखकर सुग्रीव उनको शान्त करने के लिए तारा को भेज देते हैं ।

इसके अतिरिक्त दाक्षिणात्य २१वाँ सर्ग (हनुमान् द्वारा तारा कीस सान्त्वना) तथा ३९वाँ सर्ग (वानर सेना का आगमन) पश्चिमोत्तरीय पाठ में नहीं मिलते, यद्यपि दोनों गौडीय पाठ में विद्यमान हैं (दे० गौ० रा० ४, सर्ग २३ और ३९) ।

गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठों में तीन वृत्तांत मिलते हैं, जिनका दाक्षिणात्य पाठ में अभाव है :

(१) राम के प्रति तारा का शाप । तारा का विलाप उदीच्य पाठों में अपेक्षा-कृत विस्तृत है; इसमें तारा राम को शाप देकर कहती है कि सीता थोड़े समय तक तुम्हारे साथ रहकर भूलल में प्रवेश करेगी (गौ० २०, १५-१६; ५० १६, ३९-४०) ।

(२) सम्पाति का अपने पुत्र सुपासर्व को बुलाना जो अंगद को अपनी पीठ पर समुद्र के उस पार ले जाने का प्रस्ताव करता है (गौ० रा० ४, ६२ तथा ५० रा० ४, ५५) ।

(३) केसरी द्वारा दिग्गज धवल का वध, जिसके लिये उसने वरस्वरूप 'मुक्त-विक्रम' पुत्र हनुमान् को प्राप्त किया था (दे० गौ० रा० ५, ३ तथा प० रा० ४, ५८) ।

प्रक्षेप ।

५११. किष्किन्धाकाण्ड की निम्नलिखित सामग्री प्रक्षिप्त है :

(१) राम का दोषनिवारण । सर्ग १७-१८ । परवर्ती साहित्य में वालिवध के दोष से राम को बचाने के लिए जो मार्ग अपनाया गया है, इसका वर्णन आगे किया जायगा (दे० अनु० ५२२) । प्राचीन काल से रामायण के गायकों ने राम के इस कार्य को न्यायसंगत सिद्ध करने का प्रयत्न किया है और महाभारत की रीति के अनुसार उन्होंने अभियोग (सर्ग १७) तथा प्रत्युत्तर (सर्ग १८) को शास्त्रीय ढंग से प्रस्तुत किया है ।<sup>१</sup> इस प्रसंग में मनुस्मृति के दो श्लोकों का भी उद्धरण किया गया है ।<sup>२</sup>

(२) दिग्दर्शन । सर्ग ४० में पूर्व दिशा का वर्णन; सर्ग ४१-४३; ४५-४७ । वानरों के प्रेषण के विषय में ४४वाँ सर्ग सबसे प्राचीन है; इसमें हनुमान राम की अंगूठी लेकर दक्षिण की ओर प्रस्थान करते हैं । अनन्तर ४८वाँ सर्ग रहा होगा जिसमें हनुमान और उनके साथियों का विन्ध्य में सीता की असफल खोज करने का वर्णन किया गया है । बाद में वानरों के प्रेषण के पहले भिन्न-भिन्न दिशाओं का जो विस्तृत वर्णन किया गया है, उसका केंद्र किष्किन्धा में न होकर उत्तर भारत में है ।<sup>३</sup> दक्षिण दिशा के वर्णन में (सर्ग ४१) हनुमान आदि का प्रेषण भी वर्णित है यद्यपि इसका ४४वें सर्ग में पुनः वर्णन मिलता है । इसमें स्पष्ट है कि यह दिग्दर्शन प्रक्षिप्त है । महाभारत के रामोपाख्यान में भी इस प्रकार का कोई वर्णन नहीं किया गया है । सर्ग ४५ में सभी दिशाओं में वानरों के प्रस्थान का वर्णन किया गया है; सर्ग ४६ में सर्ग ९-१० की पुनरावृत्ति मात्र है तथा सर्ग ४७ में दक्षिण को छोड़कर अन्य दिशाओं में भेजे हुये वानरों का प्रत्यागमन वर्णित है ।

(३) सर्ग ३१, ३२, ३५, ३७, ३९ । डॉ० याकोबी ने अरण्यकांड के एक विस्तृत अंश का प्रामाणिक पाठ निर्धारित किया है, अर्थात् ३०, ६१ से लेकर ४४, १५ तक ।<sup>४</sup>

१. दे० डब्ल्यू० हाफ्किंस; दिग्ग्रेट एपिक ऑव इण्डिया, पृ० १९। एच० याकोबी, इस रामायण, पृ० १२८ ।

२. दे० रा० ४, १८, ३१-३२ और मनुस्मृति ८, ३१८ . ३१६ ।

३. दे० एच० याकोबी, वही, पृ० ३७ ।

४. दे० जर्मन ओरियेन्टल जर्नल, भाग ५१, पृ० ६०५ ।

परिणाम यह हुआ कि ६०० श्लोकों में से लगभग १५० श्लोक मात्र प्रामाणिक सिद्ध हुए। उपर्युक्त दिग्दर्शन के अतिरिक्त सर्ग ३१-३२ (लक्ष्मण के किष्किन्धा-प्रवेश का प्रथम वर्णन), सर्ग ३५ (तारा द्वारा सुग्रीव का दोष-निवारण), सर्ग ३७ (वानर-सेना का किष्किन्धा में आगमन), और सर्ग ३९ (राम के पास वानर-सेना का आगमन) —ये सभी सर्ग डॉ० याकोबी के अनुसार प्रक्षिप्त हैं। ३९वाँ सर्ग पश्चिमोत्तरीय पाठ में नहीं मिलता।

(४) ऋषि निशाकर और सम्पाति की कथा। सर्ग ६०-६३। सर्ग ५६-५९ में सम्पाति से वानरों की भेंट का वर्णन हुआ है; सम्पाति ने वानरो को अपनी कथा तथा लंकेश रावण द्वारा सीताहरण का समाचार भी सुनाया। सर्ग ६४ में वानर सागर के तट पर पहुँच कर उसे पार करने के विषय में चिन्ता करने लगते हैं। बीच के सर्गों में सम्पाति पुनः अपनी कथा अनावश्यक विस्तार के साथ दोहराते हैं। सर्ग ६२ में इन्द्र द्वारा सीता के पास पायम के ले आने का उल्लेख है (दे० अनु० ५००), जिससे उस सर्ग की प्रक्षिप्तता की पुष्टि होती है।

(५) हनुमान् की जन्मकथा। सर्ग ६६। आदिरामायण हनुमान् की जन्म-कथा के विषय में मोन था, इसके प्रमाण बाद में दिए जायेंगे (दे० अनु० ६५९-६६१); अतः सर्ग ६६ जिसका वर्णन-विषय हनुमान् की यह जन्मकथा है, निश्चित रूप से वाल्मीकिवृत्त नहीं है।

(६) किष्किन्धा के अन्य सर्गों में भी परस्पर विरोधी उल्लेखों का अभाव नहीं है जिनका उत्तरदायित्व वाल्मीकि जैसे प्रतिभाशाली महाकवि पर नहीं लादा जा सकता है। अनेक स्थलों पर कहा गया है कि राम अथवा वानर सीता के अपहर्ता के नाम से अनभिज्ञ हैं (दे० ४, १४; ७, २; ५९, ३)। यह होते हुए भी रावण का नाम (७, १९; १७, ५०, २६, १७; आदि) तथा उनकी राजधानी लका (३५, १५) का बारबार उल्लेख किया गया है। सर्ग ५८ में सम्पाति का कहना है कि मैंने स्त्री का अपहरण करते हुए रावण को आकाश में देखा था (श्लोक १५) किन्तु अगले सर्ग में वही सम्पाति कहता है कि मैंने अपने पुत्र सुपाशर्व से सीता के अपहरण के विषय में सुना था (दे० ५९, ६)। अतः यह स्पष्ट है कि किष्किन्धाकाण्ड में उपर्युक्त प्रक्षिप्त सर्गों के अतिरिक्त और बहुत से गौण प्रक्षेप भी मिलते हैं।

## २—किष्किन्धाकाण्ड का विकास

### क। हनुमान्-सुग्रीव से भेंट

५१२. वाल्मीकीय रामायण के अनुसार सुग्रीव राम-लक्ष्मण को देखकर तथा उनको बालि के गुप्तचर समझकर भयभीत हुआ और उसने पता लगाने के लिए

हनुमान् को भेज दिया। हनुमान् भिक्षु का रूप धारण कर राम-लक्ष्मण के पास आया और उसने अपना परिचय देकर कहा कि सुग्रीव आपकी मित्रता चाहता है। राम ने सुग्रीव की सहायता करने की प्रतिज्ञा की। बाद में हनुमान् ने लक्ष्मण से सीताहरण की कथा सुनकर सुग्रीव की सहायता का आश्वासन दिया और अपने वानर रूप में प्रकट होकर तथा राम-लक्ष्मण को अपने कन्धे पर चढ़ाकर दोनों को पर्वत के शिखर पर सुग्रीव के पास पहुँचा दिया। (सर्ग २-४)।

परवर्ती साहित्य में इस वृत्तान्त में युद्ध का भी प्रयोग आ गया है।

बंगाली राम-कथाओं में "शिव-रामेर युद्ध" का वर्णन किया गया है जिसके अनुसार लक्ष्मण शिव की वाटिका में फल तोड़ने जाते हैं और द्वारपाल हनुमान में युद्ध करते हैं। देर होने पर राम स्वयं आते हैं, इतने में शिव भी पहुँचे और राम से युद्ध करने लगते हैं। युद्ध के अन्त में शिव राम को अपने द्वारपाल हनुमान् को समर्पित करते हैं और उस समय में हनुमान् शिव की सेवा छोड़कर रामभक्त हो गए।<sup>१</sup> उत्तर भारत के एक वृत्तान्त में राम के लिए फल तोड़ते समय लक्ष्मण के रुदावतार हनुमान् से युद्ध करने का वर्णन मिलता है। पगजित होकर और यह सुनकर कि लक्ष्मण राम के भाई हैं, हनुमान् राम की धारण लेते हैं और राम-लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले जाते हैं (दे० पाश्चात्य वृत्तान्त न० १३, पृ० ३३७)।

भावाच्य रामायण (४, १) के अनुसार हनुमान् राम की शक्ति की परीक्षा लेने के उद्देश्य से साल वृक्ष हाथ में लिए राम-लक्ष्मण के पास पहुँचे और उन्होंने धमकी देकर पूछा कि तुम लोग कौन हो। राम ने हनुमान् पर बाण चला कर उसे परास्त कर दिया। तब हनुमान् ने वायु का सुझाव मानकर राम से क्षमा मांग ली।

सनाली राम-कथा (दे० अनु० २७१) के अनुसार हनुमान् तरबूजों की रखवाली करता था। लक्ष्मण इनमें से कुछ लेना चाहते थे जिससे लक्ष्मण और हनुमान् में भिडन्त हुई। अंत में हनुमान् ने राम तथा लक्ष्मण दोनों को खिलाया।

कुछ अन्य राम-कथाओं में युद्ध के साथ-साथ हनुमान् के आभूषणों का भी उल्लेख होता है। सेरीराम के अनुसार हनुमान् राम का पुत्र है (दे० आगं अनु० ६७५), जन्म से ही उनके कान कुण्डलों में अलंकृत थे, एक आकाशवाणी ने अजना को आदेश दिया कि बालक का नाम हनुमान् रखा जाय और यह भी कहा कि जो व्यक्ति बालक

१ भिक्षुरूपं परित्यज्य वानर उपमास्थितः (४, ३४), अगले सर्ग में सुग्रीव के पास पहुँचने के बाद इसका पुन उल्लेख है—सती हनुमान्स्त्वय्य भिक्षुरूपमरिच्यम्: (५, १३)।

२. दे० दि० च० सेन दि बंगाली रामायन्त, पृ० ४७।

के कुण्डल देख सकेगा, वही उसका पिता है। १२ वर्ष की अवस्था में अजना ने हनुमान् से यह रहस्य प्रकट किया, उस समय से वह तपस्वी बनकर अपनी माता की देख-रेख करने लगा। बाद में अजना के पितामह सगपरदान ने हनुमान् को बालि के दरबार में जाने का परामर्श दिया तथा बोहरामा कि कुण्डलो को पहचानने वाला उसका पिता है। बालि के यहाँ जाते समय हनुमान् को भूल लगी और वह किमी पेड़ पर चढ़कर उसके फल खाने लगा। पेड़ के नीचे उसने लक्ष्मण की गोद में सिर डाले राम को सोते हुये देखा। लक्ष्मण का ध्यान आकर्षित करने के लिए हनुमान् उनपर पत्ते और फल फेकने लगा तथा अन्त में नीचे उतरकर उसने लक्ष्मण को हराकर तथा राम के सीन बाण छीनकर फिर पेड़ के पत्तों में छिप गया। इसपर लक्ष्मण ने राम को जगाया तथा हनुमान् को देखने में अपने को असमर्थ पाकर प्रार्थना द्वारा पेड़ को छोटा बना दिया जिससे हनुमान् दृष्टिगोचर हुआ। राम ने उस मफेद वानर के कुण्डलो को देखकर उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया तथा उसे उसके मामा बालि के पास भज दिया। सेरीराम के पाताली पाठ में हनुमान् राम से युद्ध करता है तथा अन्त में राम को पहचानकर उनका सहायक बन जाता है। रामकेति (सर्ग ५) के अनुसार हनुमान् वायु का पुत्र है तथा सुग्रीव द्वारा भेजा जाता है, वह लक्ष्मण को हराता है और राम उसके कुण्डल पहचानते हैं। अजना ने उससे कहा था—जो तुम्हारे कुण्डल देख सके वही तुम्हारे स्वामी हैं। इसके बाद हनुमान् सुग्रीव को समाचार देने जाता है। रामकियेन का वृत्तान्त रामकेति पर निर्भर होते हुये भी वाल्मीकीय कथा के अधिक निकट है—लक्ष्मण को हराने के पश्चात् हनुमान् अपनी माता के दिये हुये संकेत से राम को नागायण जानकर अपने को राम की सेवा में समर्पित करते हैं और राम-लक्ष्मण को सुग्रीव के पाम ले जाते हैं। (अध्याय ७ और १९)।

हनुमान् के कुण्डलो का प्रसंग भारतीय कथाओं पर निर्भर है। रंगनाथ रामायण (४, ३) के अनुसार हनुमान् ने तपस्या द्वारा ब्रह्मा से वर पाकर पूछा था—इस पृथ्वी पर मेरे मोक्ष तथा इच्छित कार्यों की सिद्धि का आचार तथा मेरा आराध्य कौन होगा। ब्रह्मा ने उत्तर दिया—“जो तुम्हारे शरीर के आभूषणों को देख सकेगा, वही तुम्हारा स्वामी और प्रभु होगा”। पद्मपुराण (पाताल खंड ११२, १३५) में लिखा है कि जब राम लक्ष्मण की गोद में सिर रखकर विश्राम कर रहे थे उन्होंने एक “मणिकुण्डल हेमपिण्ड वानरम्” को देखा था। कब रामायण (४, २, ३५), बलरामदास रामायण तथा पाश्चात्य वृत्तान्तों १ और २० में भी कुण्डलो की चर्चा है। वृत्तान्त २० के अनुसार राम को देखने पर हनुमान् ने अनुभव किया कि मेरे कानों में कुण्डल आ गए हैं तथा वृत्तान्त १ के अनुसार हनुमान् ने देखा कि उसके राम-लक्ष्मण के पास पहुँचने पर दोनों के कानों में कुण्डल प्रकट हो रहे हैं।

भाषार्थ रामायण (४, १) के अनुसार अजना ने हनुमान से कहा था कि जो तुम्हारी लंगोटी देख सकेगा वही तुम्हारा स्वामी है (इस रामायण में यह माना गया है कि हनुमान लंगोटी पहनकर उत्पन्न हुआ था) ।

बिहौर-रामकथा (दे० अनु० २७२) के अनुसार सीताहरण के बाद राम-लक्ष्मण वन में खोज कर रहे थे कि हनुमान् अपनी माता के गर्भ में से उनको पहचानकर खिल्ला उठा—दादा, रुकिये, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ । इस पर उसने जन्म लिया तथा राम-लक्ष्मण के साथ चला गया ।

अध्यात्म रामायण (४, १, १३-१६) के अनुसार हनुमान् ने भेंट के अवसर पर राम की आराधना की थी तथा अब्भुत रामायण (सर्ग १०) में उस प्रथम मिलन के अन्त में गम द्वारा हनुमान् को अपना विष्णु रूप दिखलाने का वर्णन किया गया है । कांब रामायण (४, २, ३४) के अनुसार प्रथम भेंट के अवसर पर हनुमान ने अपना शरीर बढाकर राम को अपनी शक्ति का प्रमाण दिया था ।

गुणभद्र के उत्तरपुराण के अनुसार नारद ने हनुमान् और सुग्रीव को गम के पास भेज दिया, दोनों साथ-साथ उनके पास पहुँचे थे (६४, २८६) ।

अन्त में कुछ वृत्तान्तों का उल्लेख करना है जिनमें हनुमान् के प्रस्थान करने के बाद सुग्रीव से राम की भेंट का एक सर्वथा नवीन रूप प्रस्तुत किया गया है । सेरीराम के एक पाठ के अनुसार लक्ष्मण राम के लिए पानी लाए और राम ने पीकर उसे (सुग्रीव के आँसुओं से) नमकीन पाया । कारण का पता लगाने पर सुग्रीव से भेंट हो जाती है । यही कथा रामकैलि (सर्ग ५) में भी मिलती है । सेरीराम के शोलावेर पाठ के अनुसार राम लक्ष्मण द्वारा लाये हुए पानी को पीने के बाद उसकी गोद में सिर रखकर चार दिन और रात तक एक पेड़ के नीचे सोते रहे । सुग्रीव पेड़ पर से लक्ष्मण का यह घातू-प्रेम देखकर रोने लगा । सुग्रीव के एक आँसू ने राम की छाती पर गिरकर उन्हें जगाया । राम ने इसे लक्ष्मण का आँसू समझकर उनको घर लौटने का आदेश दिया, इस पर लक्ष्मण की प्रार्थना के फलस्वरूप पेड़ के पत्ते छोटे बन गए और सुग्रीव दिखाई दिया । अनन्तर गम-सुग्रीव की मंत्री का वर्णन किया गया है । सेरतकाण्ड तथा हिकायत महाराज रावण के अनुसार वालि ने सुग्रीव को दूर वन में फँक दिया था जिससे वह अधमरा होकर एक वृक्ष की शाखाओं पर गिर गया था । राम ने उसी वृक्ष के नीचे विश्राम किया और सुग्रीव के आँसू गम पर गिर पड़े ।

## ख । वालि-सुग्रीव-चरित

५१३. प्रामाणिक वाल्मीकिकृत आदिरामायण में वालि-सुग्रीव की जन्मकथा का कोई उल्लेख नहीं था । प्रचलित वाल्मीकि रामायण के दक्षिणात्य बालकाण्ड

(१७, १०) में बालि तथा सुग्रीव को क्रमशः इन्द्र तथा सूर्य का पुत्र माना गया है। उनकी जन्मकथा दक्षिणात्य पाठ के एक प्रक्षिप्त सर्ग में मिलती है; जिसके अनुसार अगस्त्य नारद से सुनी हुई कथा राम की सुनाते हैं।<sup>१</sup> अन्य पाठों में यह कथा मुद्ग काण्ड (सर्ग ४) में रखी गई है; शुक उसे रावण को सुनाते हैं।

दक्षिणात्य पाठ की कथा इस प्रकार है—“मेरु पर्वत के शिखर पर योगभ्यास करते हुए ब्रह्मा की आँखों से आँसू निकले। ब्रह्मा के हाथ से पोंछे जाने पर ये आँसू भूमि पर गिरे और उनमें से ऋक्षरजा नामक वानर उत्पन्न हुआ जो पर्वत पर रहने लगा और प्रति दिन संध्या समय ब्रह्मा के पास आकर उनको फल-फूल चढ़ाया करता था। किसी दिन ऋक्षरजा ने मेरु पर्वत के सरोवर में से पानी पीना चाहा और उसने झुककर जल में अपना प्रतिबिम्ब देखा। वह उसे अपना शत्रु समझकर सरोवर में कूद पड़ा और एक अत्यन्त लावण्यमय नारी के रूप में उसमें से निकला। इन्द्र तथा सूर्य संयोग से उम समय आ पहुँचे और उसे देखकर दोनों आसक्त हुए। इन्द्र का तेज उसके बालों पर गिरा और उससे बालि उत्पन्न हुआ; सूर्य का तेज उसकी ग्रीवा पर पड़ा और उससे सुग्रीव उत्पन्न हुआ। इन्द्र ने अपने पुत्र को एक अक्षय सुवर्ण माला दे दी तथा सूर्य ने अपने पुत्र की सेवा में हनुमान् को नियुक्त किया। अगले दिन सूर्योदय होते ही ऋक्षरजा ने पुनः अपना वानर रूप प्राप्त किया और अपने पुत्रों के साथ ब्रह्मा के पास गया। ब्रह्मा ने ऋक्षरजा के साथ एक देवदूत को विद्वकर्मा-निर्मित किष्किन्धा भेज दिया। वहाँ पहुँचकर देवदूत ने ऋक्षरजा को वानर-राजा के पद पर अभिविक्त किया।”

अन्य पाठोंकी कथा अस्पष्ट है; उसमें न तो ऋक्षरजा का नाम आया है और न बालि-सुग्रीव के वानर होने का कारण दिया गया है। “किसी दिन प्रजापति की बाईं आँख में एक रजकण पड़ गया था। उन्होंने उसे बायें हाथ से दूर फेंक दिया था और उसमें से एक अत्यन्त सुन्दर स्त्री उत्पन्न हुई। बाद में सूर्य ने उसका आलिङ्गन किया तथा उसे यह कहकर बरदान दिया कि तुम्हें एक वीर पुत्र उत्पन्न होगा। एक अन्य अवसर पर इन्द्र उसे देखकर आकर्षित हुए और अपने हाथ से उसका स्पर्श करके उसे आशीर्वाद दिया कि तुम से बालि-सुग्रीव नामक दो कामरूपी यमल वानर उत्पन्न होंगे जो किष्किन्धा में राज्य करेंगे और उनमें से एक राम के साथ सख्य करेगा।”

१. दे० उत्तरकाण्ड, सर्ग ३७ के बाद प्रथम प्रक्षिप्त सर्ग। प्रचलित रामायण के कुछ अन्य प्रक्षिप्त स्थलों पर ऋक्षरजा को बालि तथा सुग्रीव का पिता माना गया है। उदाहरणार्थ—३, ७२, २०; ४, ५७, ५; ७, ३६, ३६।

अध्यात्म रामायण (७, ३, १-२४) तथा आनन्द रामायण (१, १३, १४०-१५२) में वाल्मीकीय दाक्षिणात्य रामायण के अनुसार वालि-सुग्रीव की जन्म-कथा का वर्णन किया गया है। भावार्थ रामायण (७, ३७) में ऋक्षरजा के स्त्री-रूप का कारण पार्वती का शाप माना गया है। किसी दिन कैलाश के एक सरोवर में शिव-पार्वती की जलक्रीडा के समय वहाँ कुछ मुनि अचानक आ गये थे, जिससे शिव तथा पार्वती को अन्तर्द्वान हो जाना पडा था। पार्वती ने शाप दिया था कि जो कोई पुरुष इसमें स्नान करेगा वह नारी के रूप में उसमें से निकलेगा। ऋक्षरजा ने उस शाप से अनभिज्ञ होकर उस सरोवर में स्नान किया था।

बलरामदास के वृत्तांत में कई नये तत्त्व पाये जाते हैं। ऋक्षरजा की उत्पत्ति की कथा इस प्रकार है। इद्र मदनिका नामक अप्सरा को अपनी सभा में अचानक हँसने के कारण यह शाप देते हैं कि वह वानरमुखी बनकर मानसरोवर के निकट पृथ्वी पर निवास करे और कश्यप से पुत्र रमव करने के बाद ही मुक्ति प्राप्त करे। अतः मदनिका मानसरोवर के निकट निवास करने लगती है। किन्ती दिन उर्वशी का सौंदर्य देखने के कारण कश्यप का वीर्यपात हो जाता है और वह अपना तेज जल में फेंक देते हैं। मदनिका उस जल का पान करके गर्भवती हो जाती है और वह यथासमय एक ऐसे पुत्र को जन्म देती है जिसका शरीर मनुष्य का है किंतु मुख वानर का है। एक शवरी उस शिशु का पालन-पोषण करती है और बाद में ब्रह्मा उसे ऋक्षनृपति का नाम देकर आरष्य के राजा के पद पर अभिषिक्त करते हैं।

ऋक्षरजा के स्त्री बन जाने की कथा भावार्थ रामायण के वृत्तान्त से साम्य रखती है। ब्रह्मा ऋक्षनृपति को पार्वती-वन के पश्चिमी भाग में प्रवेश करने से मना करते हैं किंतु ऋक्षनृपति उम निषेध की अवज्ञा करके उस वन में प्रवेश करता है और नारी के रूप में बदल जाता है। इसका कारण यह है कि शिव-पार्वती ने किसी दिन उस वन में रमण किया था किन्तु पार्वती को नृपति नहीं मिली थी जिससे उन्होंने यह शाप दिया था कि जो कोई पुरुष उस वन में प्रवेश करेगा वह नारी के रूप में बदल जाएगा।

वालि तथा सुग्रीव का जन्म वाल्मीकीय कथा के अनुसार है, अंतर यह है कि ब्रह्मा यहाँ ऋक्षरजा को परामर्श देते हैं कि वह अपने पुत्रों को दण्डकारण्य में छोड़ दे। बाद में गौतम की पत्नी अहल्या दोनों को गौतमी नदी के तट पर पाती है; गौतम और अहल्या उन दोनों का धर्मपुत्र के रूप में पालन करते हैं (इस प्रसंग में अहल्या-गौतम का उल्लेख अनु० ५१४ की कथा का स्मरण दिलाता है)। जब ये बच्चे तीन वर्ष के हो जाते हैं किकिन्धा का राजा सखद मृगया के अवसर पर गौतम से मिलता है और ऋषि को बताता है कि अजना नामक पुत्री को छोड़कर मुझे कोई सतान नहीं



है। अश्वि बालि तथा सुग्रीव को राजा के हाथों सौंप देते हैं। बाद में खड्ग बालि को राजा तथा सुग्रीव को सुवराज बनाता है।

पारवात्य वृत्तान्त न० १ के अनुसार हनुमान् ने राम की बालि-सुग्रीव की जन्म-कथा का निम्नलिखित विकृत रूप सुनाया था—अरुण किसी दिन दो स्त्रियों को सूर्य का रथ हँकते देखकर हँस पड़ा। इन पर सूर्य ने अरुण से सूर्य-रथ हँकने का निवेदन किया और अरुण ने इसे स्वीकार किया। अरुण बाद में अप्सराओं का नाच देखने गया और नारी में परिवर्तित हुआ था। इन्द्र ने उससे एक पुत्र उत्पन्न किया और उस पुत्र को प्रतिद्वन्द्वी की आधी शक्ति खीच लेने का बरदान दिया। अरुण पुन पुरुष बनकर अपने पुत्र के साथ सूर्य के पास लौटा। सारा वृत्तान्त सुनकर सूर्य ने उसका स्त्री-रूप देखने की इच्छा प्रकट की तथा अरुण से एक पुत्र उत्पन्न किया। दोनों बालकों को अगस्त्य के हाथों सौंपा गया। बढने पर उन्होंने तपस्या में सलग्न अगस्त्य पर पानी छिड़क दिया और अगस्त्य ने दोनों को वानर बन जाने का शाप दिया।

जैन राम-कथाओं में बालि-सुग्रीव की कोई जन्म-कथा नहीं मिलती। पद्मचरियं (पर्व ९) के अनुसार आदिराजा तथा इन्द्रमाली की तीन सन्तानें थी—बालि, सुग्रीव तथा श्रीप्रभा। गुणभद्र के उत्तरपुराण के अनुसार बालि तथा सुग्रीव किलकिल नामक नगर के राजा बलीन्द्र तथा उनकी पत्नी प्रियगुमुन्दरी के दो पुत्र हैं (दे० ६८, २७१)।

५१४ बालि-सुग्रीव की जन्म-कथा का एक अन्य रूप मिलता है, जिसके अनुसार दोनों गौतम की पत्नी अहल्या की सन्तान माने जाते हैं। सारलाबास महाभारत के वनपर्व में अहल्या के साथ इन्द्र के दुर्व्यवहार के विषय में निम्नलिखित कथा दी गई है। गौतम स्नान के लिए जाते समय अपनी पत्नी अहल्या का जीव अपन साथ ले जाया करते थे। किसी दिन इन्द्र और सूर्य इस निर्जीव शरीर पर आसक्त हुए। इन्द्र ने पहले उस शरीर में प्रवेश किया जिससे सूर्य उसके साथ सभोग कर सके, बाद में सूर्य ने अहल्या के शरीर में प्रवेश किया और इन्द्र ने उसके साथ रमण किया। इस प्रकार अहल्या के दो पुत्र (श्यामशील तथा जबशील) उत्पन्न हुए। अजना ने किसी दिन अपने पिता गौतम से अपने जारज भाइयों का रहस्य खोल दिया। परीक्षा लेने के उद्देश्य से गौतम ने दोनों को जल में फेंक दिया और वे वानर बन गये। गौतम ने दोनों को निस्सन्तान राजा खड्गद को प्रदान किया और राजा ने उनका नाम बालि और सुग्रीव रख दिया। अर्जुनदास कृत रामविभा में भी माना गया है कि बालि-सुग्रीव अहल्या की जारज सन्तान हैं (दे० सर्ग ४)।

१ सूर्य का उल्लेख तत्रवार्तिक (१, ३, ७) पर निर्भर है।

सौरवे रामायण (४, २) के अनुसार 'किष्किन्वा' शब्द कश्यप और कुवास्वली के किष्क नामक पुत्र से संबंध रखता है। किष्क के वंश में ऋक्षरजा उत्पन्न हुआ; उससे वालि तथा सुग्रीव का जन्म हुआ और बाद में उसने अपनी पत्नी से अंजना को भी पैदा किया था।

सेरीराम की कथा इस प्रकार है। दशरथ के द्वारपाल के पुत्र गौतम अपनी पत्नी देवी इन्द्र के साथ तपश्चर्या करते थे। देवी इन्द्र ने किसी दिन एक देवता के साथ व्यभिचार किया और फलस्वरूप वालि को प्रसव किया। अंजना अपनी माता के पाप के विषय में जानती थी किन्तु एक ऐंद्रजालिक मणि पाकर चुप रही। बाद में गौतम-पत्नी ने किसी राजकुमार के साथ व्यभिचार करके सुग्रीव को जन्म दिया। गौतम वालि और सुग्रीव दोनों को अपनी सन्तान समझते थे। वालि ने किसी दिन अपनी बहन की मणि हथियाने का प्रयत्न किया, जिससे अंजना ने क्रुद्ध होकर अपनी माता का व्यभिचार प्रकट कर दिया। इस पर गौतम ने अपने पुत्रों की परीक्षा लेने के उद्देश्य से उनको यह कहकर सरोवर में फेंक दिया—यदि वे जाजर हैं तो वानर बनकर जल से निकलें। वालि तथा सुग्रीव वानर के रूप में सरोवर से निकलकर लगुर नामक स्थान की ओर चले गए; वहाँ वालि राजा तथा सुग्रीव मंत्री बन गया। गौतम अपने घर लौटे और अपनी पत्नी का परित्याग कर तथा अपनी पुत्री को शाप देकर (दे० अनु० ६७५) स्वर्ग सिधारे।

सेरत काण्ड के अनुसार रैसि गुतम की पत्नी देवी रौतह के दोनों पुत्र सुवालि तथा सुग्रीव वास्तव में सूर्य की सन्तान हैं। उनकी बहन देवी अंजनी माँ का पाप छिपाने के लिए पुरस्कार के रूप में ऐंद्रजालिक मणि पाकर स्वर्ण-मुद्राओं की मजूषा भी चाहती है। इस पर माँ-बेटी का झगडा हुआ और गुतम ने यह कहकर मजूषा को समुन्द्र में फेंक दिया कि जो मजूषा निकालने में समर्थ हो, वही मजूषा का अधिकारी बन जाय। अंजना का प्रतिनिधि सुमन्दा तथा उसके भाई समुद्र में कूदकर मजूषा तो नहीं ही निकाल पाते प्रत्युत वानरों के रूप में बदल जाते हैं। प्रतिकार के उद्देश्य से वे उसी जल से अंजनी का मुख धोते हैं जिससे अंजनी को भी वानर-मुख प्राप्त हुआ। गुतम अपनी पत्नी को शिला बन जाने का शाप देकर तप करने चला गया।<sup>१</sup>

रामकिशेन (अध्याय ६) के वृत्तान्त में गौतम को साकेत का राजा माना गया है। निस्सन्तान होने के कारण वह अपना राज्य छोड़कर वन में तपस्या करने लगा। किसी पक्षी से यह जानकर कि निस्सन्तान होना महापाप है उसने यज्ञ का आयोजन

१. दे०हि० भू० सरकार, इण्डियन इन्फ्लुएन्सेस पृ० २०३-२०४।

किया; यज्ञ की अग्नि से एक सुन्दर कन्या प्रकट हुई जिसे गौतम ने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। कन्या का नाम कल-अचना था, उसने एक पुत्री उत्पन्न किया जिसका नाम गौतम ने स्वाहा रखा। बाद में गौतम की पत्नी की काकाशवीरी तप्य सुग्रीव नामक दो पुत्र हुए जिनके पिता क्रमशः इन्द्र और सूर्य थे। गौतम उनको अपनी ही सन्तान समझते थे। किसी दिन गौतम काकाश को कन्ये पर रखकर सुग्रीव को गोद में लिए तथा स्वाहा का हाथ पकड़कर स्नान करने जा रहे थे। स्वाहा को बहुत बुरा लगा और उसने कहा—आप अपनी सन्तान को पैदल चलने देते हैं किन्तु दूसरो की सन्तान सिर पर चढ़ाते हैं। गौतम ने इसका अर्थ पूछा और स्वाहा ने अपनी माता के व्यभिचार का रहस्य प्रकट कर दिया। गौतम को विषवाम नहीं हुआ और उन्होंने तीनों को यह कहकर नदी में फेंक दिया—मेरी सन्तान मेरे पास लौटे, दूसरो की सन्तान वानर बनकर वन में प्रवेश करे। इसका परिणाम यह हुआ कि काकाश तथा सुग्रीव वानर बनकर वन में चले गए। बाद में इन्द्र और सूर्य ने अपनी सन्तान के लिए खिदखिन नगर का निर्माण किया तथा मन्त्र द्वारा सब वानरो को बुलाकर काकाश को उनका राजा बना दिया।

रामजातक तथा पालकपालाम में वही कथा मिलती है किन्तु स्वाहा का नाम फायेंगसी तथा काकाश का नाम वालि (अथवा फालिकहन) माना गया है।

५१५ वाल्मीकि रामायण में वालि-सुग्रीव की शत्रुता के कारण के विषय में निम्नलिखित कथा मिलती है। वालि को अपने पिता<sup>१</sup> की मृत्यु के बाद राज्य मिला था और सुग्रीव उसके अधीन रहता था। दुदुभि के ज्येष्ठ पुत्र मायावी<sup>२</sup> ने किसी दिन वालि को ललकारा। वालि उसे मारने निकला और सुग्रीव उसके साथ निकल पडा। मायावी ने वालि को आसे देखकर एक बिल में प्रवेश किया। वालि सुग्रीव को बिल के द्वार पर खडा करके अन्दर चला गया। एक वर्ष बीत जाने पर सुग्रीव ने बिल में से फेंक के साथ रक्त निकलते देखकर तथा असुरों का गर्जन सुनकर समझ लिया कि वालि मारा गया है। अतः उसने पत्थर से बिल का द्वार बन्द किया और वह अपने भाई की उदक-क्रिया सम्पन्न करके किष्किन्धा लौटा। मन्त्रियों ने सुग्रीव को राजा के रूप में अभिषिक्त किया और वह न्यायपूर्वक शासन करने लगा। वालि अपने शत्रु को मार डालने के बाद लौटा, उसने सुग्रीव की अनुनय-विनय का तिरस्कार किया

१. राज्यं प्रधासतस्तस्य पितृपैतामहं महत् (१, ३), इस वाक्यांश के रचना-काल में उत्तर कांड की जन्मकथा प्रचलित नहीं थी।

२. उत्तरकांड (सर्ग १२) में मायावी तथा दुदुभि दोनों को मय-हेमा की सन्तान माना गया है।

और उसकी पत्नी रुमा को ग्रहण कर सुग्रीव को निर्वासित किया। सुग्रीव सारी पृथ्वी पर भटककर अन्त में बालि के लिये अगम्य शृष्यमूक पर्वत पर रहने लगा (दे० सर्ग ९-१०)। दिग्दर्शन के बाद सुग्रीव ने राम को पुन वही कथा सुनाई। इस द्वितीय वृत्तान्त के अनुसार असुर का नाम दुदुभी ही था, सुग्रीव के राजा बनने पर तारा तथा रुमा दोनों उसकी पत्नियाँ बन गई थी।<sup>१</sup> बालि ने सुग्रीव का सबत्र पीछा किया तब हनुमान ने सुग्रीव को मतंग के शाप का स्मरण दिलाया जिससे सुग्रीव शृष्यमूक पर रहने लगा (दे० सर्ग ४६)। अध्यात्म रामायण में मायावी को मय दानव का परमदुर्मद पुत्र माना गया है (४, १, ४७) और आनन्द रामायण में मय दानव के पुत्र दुर्मद की चर्चा है (दे० १, ८, १६)। सेरीराम के वृत्तान्त के अनुसार युद्ध के पूर्व ही गुफा को रंगभूमि के रूप में निश्चित किया गया था। बालि ने सुग्रीव से कहा था—यदि सफेद रक्त गुफा में से निकला मुझे मृत समझो, यदि लाल रक्त निकला तो शत्रु का मरण निश्चित है। वास्तव में दोनों<sup>१</sup> निकले और सुग्रीव बालि को मरा समझकर लौटा। किष्किन्धा पहुँचकर सुग्रीव ने बालि की पत्नी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और उसने सुग्रीव से एक सप्ताह की अवधि मांग ली। इसी अवधि में बालि ने लौटकर सुग्रीव को दूर तक वन में फेंक दिया जहाँ सुग्रीव तपस्वी के रूप में रहने लगा। पद्म-पुराण के अनुसार (४, ११२, १६३) बालि ने ६०,००० वर्ष पूर्व वंशरथ के अभिषेक के दिन ही सुग्रीव को निर्वासित किया था।

गुणभद्र के उत्तर पुराण (दे० ६८ २७१-२७५) के अनुसार उनके पिता ने बालि को राजा तथा सुग्रीव को युवराज बनाया था किन्तु बालि ने लोभवश सुग्रीव को निर्वासित किया था। पद्मशरिय में कथा इस प्रकार है। आदित्यरजा ने अपने पुत्र बालि को राजा तथा सुग्रीव को युवराज नियुक्त कर दीक्षा ग्रहण की थी। बाद में राम के आगमन के पूर्व ही बालि को वैराग्य हुआ और उसने अपना राज्य सुग्रीव को सौंपा था (पर्व ९)। सुग्रीव ने तारा के साथ विवाह किया और उससे अगदमट

१ पद्मपुराण (४, ११२ १६१), भावार्थ रामायण (४, अध्याय ४) आदि रचनाओं के अनुसार भी सुग्रीव ने बालि के लौटने के पूर्व तारा को पत्नी-स्वरूप अपना लिया था।

२ यह वाल्मीकि रामायण के अनुसार ही है—संक्षेपं खरिं वृद्ध्वा (९, १७)। सेरीराम में किसी असुर का उल्लेख नहीं है, बालि का प्रतिद्वन्द्वी वास्तव में महिष ही माना गया है। उम महिष ने अपने जनक का वध करके झुण्ड का स्वामी बन गया। वह वीमको की बाबियाँ नष्ट किया करता था, इसलिए वीमको ने उसे बालि से युद्ध करने को प्रेरित किया। रामकेति (सर्ग ४) में काले तथा सफेद रक्त का उल्लेख है।

तथा जयानन्द दो पुत्रों को उत्पन्न किया। साहसगति नामक विद्याधर ने भी तारा से विवाह करना चाहा था किंतु उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया गया था। साहसगति रूपपरिवर्तनकारी विद्या सिद्ध करने के उद्देश्य से हिमाचल पर साधना करने लगा। बाद में साहसगति ने सुग्रीव का रूप धारण कर उसकी पत्नी और उसका राज्य छीन लिया था।

महानाटक (५, ५१) के अनुसार तारा सुग्रीव की ही पत्नी थी जिसे बालि ने सुग्रीव से छीन लिया था। रंगनाथ रामायण (४, ४) में तारा के विषय में माना गया है कि समुद्रमंथन के समय बालि और सुग्रीव ने देवताओं की सहायता की थी। लक्ष्मी और चंद्रमा के पश्चात् देवकामिनियों की उत्पत्ति हुई। देवताओं ने उन सुन्दरियों में से तारा को बालि-सुग्रीव को दिया था और वे अपनी राजधानी लौटकर उसके साथ रहने लगे। इसके कुछ दिनों के बाद सुग्रीव ने सुषेण<sup>१</sup> की पुत्री रुमा के साथ विवाह किया। रामकियेन (अध्याय ६) के अनुसार बालि और सुग्रीव ने ईश्वर के लिए सुमेरु पर्वत को पूर्ववत् सीधा कर दिया। पुरस्कार स्वरूप बालि को एक त्रिशूल और सुग्रीव को तारा मिल गई किंतु बालि ने तारा को चुराकर उसके साथ विवाह किया।

वाल्मीकीय किष्किन्धाकाण्ड के अनुसार सुग्रीव ने बालि की वीरता का वर्णन करते हुए उसके दो कार्यों का उल्लेख किया (दे० अनु० ५१६)। परवर्ती साहित्य में रावण की पराजय बालि का सबसे महान् कार्य माना गया है। विदेशी राम-कथाओं में उस पराजय को एक नया रूप दिया गया है जिसके अनुसार अगद को मंदोदरी तथा बालि की सन्तान माना गया है तथा उनके एक और पुत्र अनील (अनूल) की भी चर्चा है (दे० अनु० ६५५)। सिंहली राम-कथा में बालि हनुमान् का स्थान लेकर लंकादहन के पश्चात् सीता को राम के पास ले जाता है। इस कथा के अनुसार बालि को विष्णु की ओर से तीन वरदान मिले थे—समुद्र पर चलने की शक्ति, अग्नि से सुरक्षा; बाण द्वारा अवध्यता।

पञ्चमचरियं (पर्व १०३, १२५-३४) में बालि के पूर्वजन्मों की कथा भी दी गई है। इसके अनुसार वह क्रमशः मृग, मघदत्त, राजकुमार सुप्रभ तथा बालि के रूप में प्रकट हुआ था।

१. वाल्मीकि रामायण में सुषेण को तारा का पिता माना गया (दे० ४, २२, १३)। सुषेण के विषय में आगे अनु० ५८६ देख लें। कम्बरामायण (४, ३, ३८ और ४, ७, १८) में माना गया है कि बालि ने अकेले ही समुद्र का मंथन किया था।

## ग । राम की बलपरीक्षा

५१६. वाल्मीकि रामायण के अनुसार ऋष्यमूक पर राम-लक्ष्मण के स्वागत के पश्चात् सुग्रीव और राम ने अग्नि की प्रदक्षिणा करके सख्य कर लिया । राम ने वालि के विरुद्ध सुग्रीव की सहायता करने की प्रतिज्ञा की और सुग्रीव ने सीता द्वारा फेंके हुए जाभरण दिखलाकर सीता की खोज करवाने का वचन दिया । बाद में सुग्रीव ने विस्तारपूर्वक वालि की शत्रुता की कथा सुनाई और राम ने उसको दण्ड देने की पुनः प्रतिज्ञा की (दे० सर्ग ५-१०) । इसपर सुग्रीव ने राम से कहा कि ध्यानपूर्वक वालि के पराक्रम का वर्णन सुनकर आगे का कार्यक्रम निश्चित कर लीजिये । तब उसने वालि की वीरता के दो उदाहरण प्रस्तुत किए ।

**दुदुभि** नामक असुर ने किसी समय समुद्र को चुनौती दी थी, समुद्र ने उसे शैल-राज हिमवान के पास भेजा और उसने दुदुभी को वालि से युद्ध करने का परामर्श दिया । अतः दुदुभी ने महिष का रूप धारण कर वाञ्छि को युद्ध के लिए ललचाया । वालि ने अपने पिता महेन्द्र द्वारा प्रदत्त काचनी माला पहन कर दुदुभि को द्वन्द्व-युद्ध में मार डाला और उसकी लाश को एक योजन की दूरी पर फेंक दिया । उस समय दुदुभी के कुछ रक्तकण मग के आश्रम में गिर पड़े, जिससे मग न वालि (और उसके अनुचरों) को यह शाप दिया कि आश्रम के एक योजन के निकट आकर मृत्यु का शिकार बन जाओगे । यही कारण है कि ऋष्यमूक पर्वत वालि के लिये अगम्य है ।

तब सुग्रीव न दुदुभि का "अभ्यन्त्रिचय" दिखलाया और उन सात साल वृक्षों की ओर निर्देश किया, जिनको वालि एक ही समय पत्रग्रहित करने में समर्थ था ।<sup>१</sup>

१ **सेरीराम** के अनुसार वह महिष ही था, उसने अपने पिता का वध किया था । **रामकियेन** (अ० २०) में माना गया है कि दुदुभि का पिता नदकाल नामक असुर था जिसे ईश्वर ने महिष बन जाने का शाप दिया । महिष का नाम दरव था, दरव का पुत्र दरवी (दुदुभि) अपने पिता का वध करके स्वयं वालि द्वारा मारा गया ।

२ दे० ११ ६७ । कुछ पक्षियों के बाद कहा गया है कि वालि ने उन माल वृक्षों का एक ही वाण में भेदन किया था (११, ७०) । एकाक्ष स्थल को छोड़कर (१२ ३, १४, १३) दक्षिणात्य पाठ में सर्वदा (अनुक्रमणिका १ १, ६६ म भी) माल वृक्षों की चर्चा है । गौडीय पाठ तथा पश्चिमोत्तरीय पाठ में ताल वृक्षों का ही उल्लेख है । परवर्ती साहित्य (अध्यात्म रामायण, अग्नि पुराण, नृसिंह पुराण महाभागवत पुराण, पद्म पुराण, आनन्द रामायण आदि) में सर्वत्र ताल वृक्षों का ही भेदन वर्णित है । कब रामायण (४, ४) में ताल वृक्षों का उल्लेख है ।

अन्त में सुग्रीव ने पूछा—एतवस्थासमं वीर्यं मया राम प्रकाशितम् । कथं तं बालिनं  
हन्तुं समरे शक्यसे नृष (११, ६८) ।

इसपर राम ने अपने पादांगुष्ठ से दुदुभि के अस्थि-कंकाल को दश योजन की  
दूरी तक फेंक दिया किन्तु सुग्रीव का सन्देह दूर नहीं हुआ (सर्ग ११) । तब राम ने  
सात ताल वृक्षों का एक ही वाण से भेदन किया; रामवाण पर्वत तथा सप्तभूमि  
पारकर अपने आप से उनके तूणीर में आ गया—भित्वा तालान्गिरिप्रस्थं सप्तभूमि  
विवेश ह.....पुनस्तूर्णं तमेव प्रविवेश ह (१२, ३-४) । यह देखकर सुग्रीव बालि  
को चुनौती देने को तैयार हुआ ।<sup>१</sup>

५१७. महाभारत के रामोपाख्यान, गुणभद्रकृत उत्तर पुराण और रामकियेन में  
राम के इन दोनों कृत्यों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है । कुछ अन्य रचनाओं में  
केवल वृक्षों के भेदन का प्रसंग उल्लिखित है; उदाहरणार्थ—नृसिंह पुराण (अध्याय  
५०) भट्टिकाव्य (सर्ग ६, ११६), रामायण ककविन (सर्ग ६), तत्त्वसंग्रह रामायण,  
पाश्चात्य वृत्तान्त न० १ और १३ । शेष राम-कथाओं में इन दोनों कृत्यों का प्रायः  
वर्णन किया गया है ।

—महावीरचरित (७, १६) अनघंराघव (अक ५) तथा कम्ब रामायण (४, ५)  
के अनुसार लक्ष्मण ने दुदुभि के अस्थिकंकाल को फेंक दिया था । रंगनाथ रामायण  
में लिखा है कि दुदुभि-बालि का द्वन्द्व युद्ध १०० वर्ष तक चलता रहा (४, ४) । सेरीराम  
में महिष के अतिरिक्त राक्षस कतीविहार (कार्तवीर्य) की चर्चा है, जिसे बालि ने  
मार डाला था; राम ने अपने पादांगुष्ठ से उसका अस्थिकंकाल समुद्र में फेंक दिया ।

—ताल वृक्षों के विषय में एक भविष्यवाणी का प्राचीन काल से उल्लेख मिलता  
है । नृसिंह पुराण के अनुसार पुराणज्ञों ने कहा था कि जो इन सात ताल वृक्षों का एक  
साथ भेदन करेगा वह बालि का वध करेगा (५०, २२) । रंगनाथ रामायण  
(४, ४), आनन्द रामायण और पाश्चात्य वृत्तान्त न० १३ में भी इस भविष्यवाणी  
की चर्चा है ।

रंगनाथ रामायण में इस पर बल दिया गया है कि वे सात ताल टेढ़े-मेढ़े ढंग  
से खड़े थे । महामाटक (५, ४४), आनन्द रामायण, पाश्चात्य वृत्तान्त न० १, सेरी

१. दे० सर्ग १२, १-१३ लंका के युद्ध में सुग्रीव का भाग अनु० ५८४ में वर्णित  
है । उत्तरकाण्ड (सर्ग १०८) के अनुसार सुग्रीव ने समुद्र को राज्य देकर  
राम के साथ स्वर्गगमन किया ।

राम, रामकेति आदि रचनावर्गों के अनुसार वे सात ताल एक सर्प की पीठ पर चक्राकार स्थित थे। आनन्द रामायण (१, ८, ३५-४६) की तत्संबन्धी कथा इस प्रकार है। बालि ने किसी गुफा में ताल वृक्ष के फल रखे थे किन्तु कोई उनमें से सात फल ले गया। बालि ने गुफा में एक सर्प देखा और उसे चोर समझकर शाप दिया कि तेरे शरीर पर सात ताल वृक्ष उगेंगे। सर्प ने यह प्रतिज्ञाप दिया—जो पुरुष उन वृक्षों को काटेगा, वह तुझे मार डालेगा। राम ने सर्प के शरीर पर चक्राकार स्थित उन वृक्षों को देखा, तब उन्होंने शेषाश लक्ष्मण<sup>१</sup> के पाँव को अपने पाँव से दबाकर उस सर्प को सीधा किया और एक बाण से सात वृक्षों को काट डाला। यह देखते हुए भी सुग्रीव का सन्देह दूर नहीं हुआ और उसने राम से बालि की माला की कथा सुनाई। कश्यप ने कठोर तप के बल पर शिव से वह माला प्राप्त की थी और बाद में उसे अपने पुत्र इन्द्र को दिया। इन्द्र ने किसी समय बालि को वह माला प्रदान की थी, इस माला की विशेषता यह है कि उसे देखकर शत्रुगण युद्ध में बलहीन हो जाते हैं। बालि उसे सदा ही पहने रहता है। इस पर राम ने जिस साँप को सात वृक्ष काट कर शापमुक्त किया उसे आदेश दिया कि वह किष्किन्धा जाकर रात्रि में बालि के सोते समय उस माला को ले जाय। साँप ने उसे चुराकर इन्द्र को दे दिया। इसके बाद ही सुग्रीव बालि से द्वन्द्वयुद्ध करने के लिये सहमत हुआ।

तत्त्वसंग्रह रामायण के अनुसार राम ने वृक्ष-भेदन के पश्चात् सुग्रीव को अपना विश्वरूप दिखलाया और उसे ज्ञानमुद्रा तथा रामसहस्रनामस्तोत्र भी सिखलाया (दे० ४, ३-४)।

- १ महानाटक के अनुसार लक्ष्मण ने अपने पैर से सर्प दबाया था। सेरत कांड की कथा अनु० ३९९ में देख लें। अन्य वृत्तान्तों में माना गया है कि राम ने सर्प को दबाकर उसे सीधा होने के लिये बाध्य किया था, दे० पाश्चात्य वृत्तान्त १, सेरी राम, रामकेति।
- २ वाल्मीकि रामायण में भी इन्द्र की माला का अनेक स्थलों पर उल्लेख हुआ है किन्तु इसकी इस विशेषता के विषय में कुछ नहीं कहा गया। तारा की एक उक्ति के अनुसार इन्द्र ने युद्ध में बालि से सन्तुष्ट होकर उसे यह माला दी थी—या दत्ता देवराजेन तव तुष्टेन सयुगे (४, २३, २८)। उत्तरकांड में माना गया है कि इन्द्र ने उसे बालि को जन्म के बाद ही दिया था (दे० अनु० ५१३)। रगनाथ रामायण (४, ९) के अनुसार बालि को यह माला मायावी से मिली थी। परवर्ती राम-कथाओं में माना गया है कि माला के कारण राम ने बालि को छिपकर मारा था (दे० आगे अनु० ५२२)। भाषार्थ रामायण (४, ४) के अनुसार कश्यप ने बालि को यह माला प्रदान की थी।



—**सेरीराम** के अनुसार राम ने सर्वप्रथम एक ही बाण से एक समस्त वन नष्ट किया; उस समय राम-धनुष की टंकार सुनकर सुग्रीव और लक्ष्मण दोनों मूर्च्छित होकर भूमि पर गिर पड़े; बाद में राम ने वृक्ष-भेदन तथा अस्थिकंकाल-निक्षेप द्वारा भी अपनी शक्ति का प्रमाण दिया ।<sup>१</sup>

—**पउमचरियं** (पर्व ४८) में सुग्रीव आदि वानर रावण से युद्ध करने से बहुत डरते हैं और लक्ष्मण उनको विश्वास दिलाने के उद्देश्य से कोटिशिला उठाते हैं । इस कोटिशिला के विषय में भी एक भविष्यवाणी प्रसिद्ध थी कि जो उसे उठा सकेगा उससे रावण की मृत्यु होगी ।

### घ । वालिवध

५१८. वाल्मीकि रामायण में वालि-सुग्रीव के दो द्वन्द्व युद्धों का वर्णन किया गया है । प्रथम द्वन्द्व युद्ध के समय राम दोनों भाइयों को पहचानने में असमर्थ थे जिससे पराजित सुग्रीव को ऋष्यमूक पर लौटना पड़ा । इसके बाद सुग्रीव को गज-पुष्प की माला पहना दी गई (सर्ग १२, १४-४२) ।

द्वितीय द्वन्द्व युद्ध का अपेक्षाकृत अधिक विस्तार के साथ वर्णन किया गया है । सुग्रीव का आज्ञान सुनकर वालि अपनी पत्नी तारा का अनुरोध ठुकराकर पुनः अपने महल से निकला, सुग्रीव से द्वन्द्व-युद्ध करते समय राम-बाण द्वारा छाती में मारा गया और मूर्च्छित हो कर भूमि पर गिर पड़ा (सर्ग १३-१६) ।

—प्रचलित वाल्मीकि रामायण में इसके अनन्तर दो प्रक्षिप्त सर्ग मिलते हैं । प्रथम सर्ग में वालि राम को उनके अक्षत्रिय-व्यवहार के कारण दोष देता है—**अधर्मेष्वस्वयाहं निहतो रणे**; मैंने आपके साथ कोई अन्याय नहीं किया था और आपने अदृश्य रहकर मुझे दूसरे के साथ युद्ध करते समय मारा है । इस पर राम अपनी सफाई में दो तर्क उपस्थित करते हैं—(१) मैंने राजा भरत का प्रतिनिधि होकर तुमको अनुज की भार्या के अपहरण के कारण समुचित दण्ड दिया है, जैसा कि मैंने सुग्रीव को प्रतिज्ञा दी थी, (२) धर्मपंडित राजपि तक मृगया खेलते हैं; तुम वानर मात्र हो, अतः किसी भी प्रकार से तुम्हारा वध करने का मुझे अधिकार है ।

वालि ये तर्क स्वीकार कर राम से क्षमा मांगता है तथा अंगद, सुग्रीव और तारा की रक्षा करने का राम से निवेदन करता है (सर्ग १७-१८) ।

१. हिन्देशिया की कथाओं में विवाह के अवसर पर भी बल-परीक्षा के प्रसंग में वृक्ष-भेदन की कथा मिलती है; दे० अनु० ३९९ ।

—तारा का आगमन, उसका विलाप तथा हनुमान् द्वारा उसकी सांत्वना तीन सर्गों में वर्णित है।<sup>१</sup> इसके अनन्तर वालि सुग्रीव को संबोधित करके अपना राज्य सौंप देता है और उससे अगद को पुत्र के रूप में ग्रहण करने का निवेदन करता है, तारा के परामर्श के अनुसार चलने तथा राम की सेवा करने का उपदेश देता है और अन्त में उसे अपनी माला प्रदान करता है। तब वह अगद को सुग्रीव का आज्ञापालन करने का आदेश देकर अपने प्राण छोड़ देता है (सर्ग २२)। तारा-विलाप, सुग्रीव-पञ्चात्ताप तथा वालि की अन्त्येष्टि के बाद किष्किन्धा में सुग्रीव के राजा तथा अंगद के युवराज बनने का वर्णन किया गया है। राम तथा लक्ष्मण वन में ही रह जाते हैं (दे० सर्ग २३-२६)।

५१९. महाभारत के रामोपाख्यान तथा नृसिंह पुराण की राम-कथा में सुग्रीव-वालिके केवल एक ही द्वन्द्व-युद्ध का उल्लेख किया गया है।

—दक्षिण भारत के एक वृत्तान्त के अनुसार वालि ने प्रथम द्वन्द्व-युद्ध के बाद सुग्रीव की छाती पर एक पर्वत रख दिया था जिसे राम ने उठा लिया (दे० पाश्चात्य वृत्तान्त न० १)।

तिब्बती और खोतानी रामायणों में द्वितीय द्वन्द्व-युद्ध के लिये सुग्रीव की पूँछ में एक दर्पण बाँधा जाता है। रामकियेन में राम अपने वस्त्र का किनारा सुग्रीव की कमर में लपेटते हैं। सेरीराम के अनुसार सुग्रीव को पहचानने के उद्देश्य से उसकी कमर में एक जड़ लपेटी गई और उसकी पूँछ के नीचे लाल रंग चढ़ाया गया था।

—सेरीराम, रामकेति तथा रामकियेन में यह माना गया है कि वालि ने आहत होने के पूर्व ही राम-बाण हाथ से रोक दिया था। सेरीराम के अनुसार वालि ने अपनी निर्दोषता के प्रमाण देने के बाद राम को उनका बाण लौटाना इसलिये अस्वीकार कर दिया कि विष्णु का बाण अमोघ है। तब उमने बाण छोड़ दिया और वह ऊपर उठकर वालि की छाती में घुस गया। आहत वालि ने राम का हाथ पकड़कर उनको अपनी पत्नी तथा अपने दो पुत्रों को सौंप दिया और हनुमान् को राम-सेवा के लिये उपयुक्त बताया। अनन्तर उसने राम का हाथ छोड़ दिया और चल बसा। राम

१. दे० सर्ग १९-२१। सर्ग २१ की सामग्री का पश्चिमोत्तरीय पाठ में अभाव है। गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठों में तारा के विलाप के अन्तर्गत राम के प्रति उसके शाप का उल्लेख है (दे० अनु० ७२६)।

किष्किन्धा जाकर वहाँ राजा के रूप में शासन करने लगे। रामकेति (सर्ग ५) में राम ने आहत बालि को जीवित रखना चाहा किन्तु बालि ने अस्वीकार किया क्योंकि पराजय तथा क्षतचिह्न के कारण अपयश होगा। उसने रामवाण छोड़ दिया और उस वाण से छेदित होकर वह मर गया।

रामकियेन (अध्याय २१) में भी बालि रामवाण हाथ से सभाल कर राम की भर्त्सना करता है जिसपर राम अपना नारायण रूप दिखलाकर बालि को उसके पापों का स्मरण दिलाते हैं। बालि अगद-सुग्रीव-हनुमान को राम की रक्षा में छोड़कर मरने के लिए तैयार हो जाता है। इसपर राम बालि का जीवन बचाने के विचार से उसमें रक्त का अर्द्धविन्दुमात्र माँगते हैं और यह आश्वासन देते हैं कि क्षतचिह्न बालि के मत्प्रमाश में भी कम चौड़ा होगा। बालि इस प्रस्ताव को अपनी मर्यादा के विरुद्ध समझकर राम-वाण अपने हृदय में घुसा कर आत्महत्या कर लेता है।<sup>१</sup> उपर्युक्त कथाओं का आधार भारतीय प्रचीन होता है। पद्मपुराण (४, ११२, १६७) में इसका उल्लेख किया गया है कि मरने के पूर्व बालि ने राम को उनका वाण लौटाया था। कम्ब रामायण के बालिवधपटल के अनुसार बालि ने आहत होने के बाद राम-वाण को अपने शरीर में बाहर निकलने के पूर्व ही अपने वलिष्ठ हाथ से पकड़ लिया था। बाद में उसके हाथ शिथिल पड़े, रामवाण बालि का शरीर भेदित कर और समुद्र जल में धुलकर राम के तूणीर में जा पहुँचा।

५२०. अधिकार अर्थात् राम-कथाओं में बालि की मुक्ति-प्राप्ति का वर्णन किया गया है। वह प्रायः नारायण के रूप में राम की स्तुति करने के पश्चात् स्वर्ग की ओर प्रस्थान करता है, दे० अध्यात्म रामायण (४, २), पद्मपुराण (४, ११२, १६६-१६९), आनन्द रामायण (१, ८ ६३), कम्ब रामायण, रगनाथ रामायण (४, ९), तोरवे रामायण (४, ४), रामचरितमानस (४, १०-११), पाश्चात्य वृत्तान्त न० १ और १३, रामकेति। सेरीराम के अनुसार उसके शरीर से एक ज्योति निकलकर आकाश में विलीन हो गई थी। रामकियेन (अध्याय ३३) में माना गया है कि बालि देवता बन गया और उसी रूप में उसने रावण का यज्ञ नष्ट किया था। तिब्बती रामायण के अनुसार राम ने ऋषियों से यह वर प्राप्त किया था

१ रामचरितमानस के अनुसार भी राम ने बालि को बचाने का प्रस्ताव किया था किन्तु बालि ने राम के दर्शन पाकर मरना ही श्रेयस्कर समझा। पाश्चात्य वृत्तान्त न० १३ में भी लिखा है कि राम ने उसी क्षण पर बालि को जीवित रखना चाहा था कि वह सुग्रीव को पत्नी और राज्य लौटा दे। बालि ने विष्णु के हाथ से मरकर स्वर्गप्राप्ति की ही चुन लिया था।

कि उनके हाथ से मारा गया मनुष्य स्वर्ग में देवता बन जाएगा और इसीलिए बालि भी देवता बन गया ।

—कुछ राम-कथाओं में बालि के अगले जन्म के विषय में माना गया है कि द्वारक युग के अन्त में बालि भील के रूप में प्रकट होकर विष्णु के अन्य अवतार कृष्ण का वध करेगा । यह कथा महाभारत के वृत्तान्त पर आधारित है । मौसल पर्व (अध्याय ५) में इसका वर्णन मिलता है कि जरा नामक व्याध ने कृष्ण को सुप्त मृग समझकर उन पर बाण चलाया था । महानाटक में इस व्याध तथा बालि की अभिन्नता का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है (५, ५७, १४, ७५) । आनन्द रामायण (१, ८, ६६-६८) के अनुसार राम ने आहत बालि से कहा था कि तुम द्वारक के अन्त में भील होकर पूर्व-वैर के कारण बाण से मेरे पैर को छदोग और इससे बाद ही मेरे हाथ से मरने के फलस्वरूप मुक्ति प्राप्त करोग । उत्तर भारत के एक वृत्तान्त (पश्चात्य वृ० न० १३ प० ३४२) में भी इसका उल्लेख किया गया है । कृतिवाम न इस प्रसंग को एक नया रूप दिया है । बालि के लिए विलाप करते हुए तारा न राम को शाप दिया था कि 'जन्मान्तर में बालि तुमका मारेगा (८ १३) ।

५२१ बालि-वध के कारण राम के प्रति अगद-वैर का कई राम-कथाओं में वर्णन किया गया है । बाल्मीकि रामायण में अगद बारबार सुग्रीव की कठोरता का उल्लेख करता है तथा इस प्रसंग में राम का भी नाम लेता है—भेतव्य तस्य सतत रामस्य च महात्मनः (४, ४९ ९), इहास्ति नो नैव भय पुरन्दरान्न राघवाद् वानर-राजतोऽपि वा (४, ५३, २६) । परवर्ती साहित्य में अगद के राम-वैर को सक्रिय रूप दिया गया है । अगद न दूतकार्य के लिये जाते समय राम के प्रति वैर तथा उनका वध करने की अभिलाषा प्रकट की थी, इसका महानाटक में स्पष्ट उल्लेख है (दे० अक ८ ३), इसके अतिरिक्त युद्ध के पश्चात् अयोध्या में पहुँचकर अगद ने राम को युद्ध के लिए ललकारा था किन्तु एक आवाशवाणी से यह जान कर वह शान्त हुआ कि बालि-वध का प्रतिकार मथुरावतार (अर्थात् कृष्णावतार) के समय बालि-रूपी भील द्वारा ही होने वाला है (अक १४, ७२-७६) । हिकायत महाराज राघव के अनुसार अगद ने राम को इन्द्र युद्ध में हरा दिया, तब राम ने विभीषण को बालि की कब्र पर भेज दिया और विभीषण बालि को जिलाकर उसे राम के पास लाया । अपने पिता को देखकर अगद शान्त हुआ, बालि अगद को राजा बनाने का आदेश देकर अतर्द्धान हुआ । इस प्रकार अगद ही वानरों का राजा बन गया ।

सारलादास के महाभारत (विराट पर्व पृ० २३) में यह माना गया है कि अगद ही ने भील के रूप में अपने पिता बालि के वध का प्रतिकार किया था । रामचन्द्रिका

(प्रकाश २६ और ३८) में अगद के वर तथा उसके गर्वनिवारण का वर्णन किया गया है।<sup>१</sup>

५२२. बालिबध के श्लोच से राम को मुक्ति करने का प्राचीनकाल से प्रयास किया गया है। वाल्मीकि रामायण के तत्संबधी प्रक्षिप्त सर्गों का सार ऊपर दिया गया है (दे० अनु० ५१८)। कम्ब रामायण के अनुसार लक्ष्मण ने बालि को यह तर्क दिया था—“राम ने सुग्रीव को शरणागत के रूप में स्वीकार किया था और वचन भी दिया कि वह तुम्हारा बध करेगा। यदि वह सामने आते तो तुम भी उनके पाँव पकड़कर शरण की प्रार्थना करते। भरे भाई का व्रत है कि वह शरणाथियों को अभयदान दे, अतः सुग्रीव को दिए हुए वचन की रक्षा के लिए वह छिपकर तुम पर तीर चलाने के लिए विवश हुए।” तत्त्व सग्रह रामायण में (४, ५) शिव भी पावंती के सामने यह तर्क प्रस्तुत करते हैं।

—आनन्द रामायण के अनुसार बालि की माला का दबकर शत्रु बलहीन बन जाते थे और इसीलिए राम ने सर्पों को माला चुराने का आदेश दिया था (दे० अनु० ५१६)। परबर्ती साहित्य में माना गया है कि राम ने माला के कारण बालि को छिपकर मारा था।<sup>२</sup> वाल्मीकि रामायण के अनुसार आहत बालि नहीं मर सकता था जब तक वह उस माला को पहनता रहा (४, १७, ५), बालि ने उसे सुग्रीव को अर्पित करते हुए कहा था कि इसमें श्री का निवास है। रामायण के टीकाकार गोविन्दराज ने लिखा है कि यह माला सामने से युद्ध के लिए आये हुए प्रतिद्वन्दी (य पुरो युद्धायामच्छति) का बल खींचकर उसे माला धारण करने वाले को प्रदान करती है (४, ११, ३९)। कम्ब रामायण (४, ७, २०, ४ ३ ४०) के अनुसार बालि का अपने प्रतिद्वन्दी के बल का अर्द्धांश मिला करता था। तत्त्व सग्रह रामायण (४, ९) के अनुसार बालि ने समुद्रमंथन के समय विष्णु से यह वर प्राप्त किया था कि सामने से लड़नेवाले शत्रु की अर्द्ध-शक्ति उसे मिलेगी।

—कुछ अन्य रचनाओं में बालिबध के कारण राम के दोष का प्रश्न उठ ही नहीं सकता। अनामक जातकम् में बालि राम का धनुष-संधान देखते ही भयभीत

- १ अगद के विषय में अनु० ५८५ भी देख ले। विदेशी राम-कथाओं में अगद को बालि और मदोदरी का पुत्र माना गया है (दे० अनु० ६५५)। राम-जातक में अगद के पिता के रूप में राम का उल्लेख है (दे० अनु० ३२७)।
२. दे० भावार्थ रामायण (४, ४)। तोरवे रामायण (४, ४) में भी माना गया है कि इंद्र द्वारा प्रदत्त माला के कारण शत्रु की आधी शक्ति युद्ध में बालि को मिला करती थी।

होकर भाग जाता है और उसका आगे चलकर कोई उल्लेख नहीं होता। **पद्मचरित्य** (पर्व ४७) के अनुसार बालि स्वेच्छा से सुग्रीव को राज्य दिलाकर श्रमण बन गया था किन्तु साहसगति नामक विद्याधर ने सुग्रीव का रूप धारणकर उसकी पत्नी तथा राज्य को छीन लिया था। राम सेना को लेकर सुग्रीव के साथ किष्किन्धा के निकट पहुँचे। साहसगति ने अपनी सेना के साथ राम का सामना किया और दोनों सेनाओं में घोर युद्ध हुआ। इस युद्ध में साहसगति ने सुग्रीव को आहत किया। सुग्रीव को धिविर में लाया गया और राम ने उससे कहा कि मैंने तुम दोनों को पहचानने में असमर्थ होने के कारण साहसगति को नहीं मारा है। इसके बाद दोनों सेनाओं में फिर युद्ध हुआ जिसमें राम ने साहसगति का वध किया। गृणभद्रकृत उत्तरपुराण (६८, ४४०-४६३) का वृत्तान्त इस प्रकार है। बालि ने राम के पास मन्देश भेजकर कहा कि रावण का सामना करने में सुग्रीव और हनुमान असमर्थ हैं, मैं ही उसका वध कर सकता हूँ। राम ने इस प्रस्ताव का कटु शब्दों में उत्तर देकर बालि का महामेघ नामक हाथी माँगा था। बालि ने उसे देना अस्वीकार किया जिसपर दोनों सेनाओं में घोर युद्ध हुआ। अन्त में लक्ष्मण ने एक तीक्ष्ण बाण से बालि का सिर काट दिया।

—राम-कथा विषयक नाटकों में प्रायः राम-बालि के द्वन्द्व-युद्ध का वर्णन किया गया है। महावीरचरित (अंक ५) में माल्यवान के उभाड़ने पर बालि राम-लक्ष्मण का मार्ग रोक लेता है और राम द्वारा द्वन्द्वयुद्ध में मारा जाता है।<sup>१</sup> मायुराजकृत उदात्तराघव में भी इस प्रकार का वर्णन मिलता है। अनर्घराघव में लक्ष्मण दुडुभि के अस्थिककाल को दूर तक फेंक देते हैं (बालि ने उसे एक वृक्ष पर रख दिया था); इसपर बालि आकर युद्ध के लिए ललकारता है और राम द्वन्द्वयुद्ध में उसका वध करते हैं (अंक ५)। महानाटक (अंक ५), जानकी हरण (अंक ६) और पाश्चात्य वृत्तान्त न० ३ में बालि का वध द्वन्द्वयुद्ध में ही माना गया है।

### छ। राम की वर्षाकालीन साधना

५२३. बाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने लक्ष्मण के साथ प्रलवण गिरि की एक गुफा में वर्षा ऋतु बिताई थी (दे० सर्ग २७-२८)। अग्नि पुराण (८, ५)

१. निर्णयसागर प्रेस द्वारा प्रकाशित महावीरचरित (सन् १९०१ ई०) के अनुसार बालि भयभीत होकर संप्रामभूमि जाते समय अतर्धान हो जाता है। इतने में राम धनुष का सधान करते हैं और एक मृग को देखकर उसका वध करते हैं। मृग दिव्य पुरुष का रूप धारण कर राम से कहता है कि 'मैं बालि हूँ; मर्त्य के शाप के कारण मैं मृग बन गया था; अब आप की कृपा से मुझे शाश्वत पद प्राप्त है (अंक ६, ५-६)।

में इसका उल्लेख मात्र किया गया है कि राम ने माल्यवान पर्वत पर चातुर्मास्य यज्ञ किया था। देवीभागवत (३, ३०) के अनुसार नारद ने बालिबध के पश्चात् राम के पास आकर कहा कि रावण पर विजय प्राप्त करने के लिये नवरात्रोपवास करना चाहिए। राम के इस उपवास के अन्त में सिंहारूडा देवी भगवती राम को दर्शन देकर रावण पर विजय का आश्वासन देती हैं। अतः राम विजयापूजा सम्पन्न करने के बाद वानर-सेना के साथ लका के लिए प्रस्थान करते हैं।

कुछ अन्य रचनाओं में राम की वर्षाकालीन शिवपूजा का वर्णन किया गया है। शिव महापुराण (वेकटेश्वर प्रेस, उमासहिता, अध्याय ३, ५३-५५) में लिखा है कि राम ने पर्वत पर शिव की आराधना की थी तथा घोर तपस्या करने के पश्चात् शिव से धनुष, बाण तथा ज्ञान प्राप्त किया था जिससे वह रावण पर विजयी हो गके। नवलकिशोर प्रेस द्वारा प्रकाशित हिन्दी शिव पुराण (शतरुद्र संहिता, अध्याय ३४-३९) में राम की डम शिवपूजा का विस्तृत वर्णन किया गया है। अगस्त्य ने राम से कहा था कि रावण को हराने के लिये शिव की शरण लेना तथा घोर तप करना अनिवार्य है। इसपर राम ने गोदावरी के निकट रामगिरि पर शिर्वालिंग की स्थापना की थी और चार महीने शिवपूजा तथा तप में बिताए। तब शिव अन्य देवताओं के साथ दिव्यद्वारों से आकर राम को धनुष तथा अस्त्र प्रदान किये। देवताओं ने शिव के आदेश पर राम को अपने-अपने अस्त्र दे दिये तथा वे राम की सहायता करने के लिए वानर और रीछ बन गये। राम ने शिव से निवेदन किया कि वह भी अवतार लेकर उनकी सहायता करे और शिव ने आश्वासन दिया कि मैं हनुमान् के रूप में तुम्हारी सहायता करूँगा। अन्त में शिव राम को अपनी गीता का ज्ञान देकर अन्तर्धान हो गये।

शिवगीता (वेकटेश्वर प्रेस) का वर्ण्य विषय उपर्युक्त वृत्तान्त से अधिक भिन्न नहीं है। इसके अनुसार अगस्त्य विरही राम को सान्त्वना और ससार की असारता के विषय में उपदेश देने आए। रावण पर विजय प्राप्त करने का उपाय राम ने उनसे पूछा और अगस्त्य ने उनको पाशुपतत्रय करने का परामर्श दिया। अतः राम शिर्वालिंग स्थापित कर चार महीने तक नित्यही उसकी पूजा और ध्यान करते रहे। अन्त में पार्वती तथा देवताओं के साथ शिव प्रादुर्भूत हुए और उन्होंने राम को दिव्यधनुष के साथ महापाशुपतास्त्र प्रदान किया। तब शिव ने देवताओं को आज्ञा दी कि वे राम को अपने-अपने अस्त्र दे दें और वानरों का रूप धारण कर उनकी सहायता करें। अन्तर्गत भगवद्गीता के अनुकरण पर इसका वर्णन किया गया है कि शिव ने अपना विश्वरूप दिखाकर राम को ब्रह्मज्ञान के विषय में शिक्षा

की थी।<sup>१</sup> अम्ब रामायण (दे० अनु० १७९) में भी माल्यवान् पर्वत पर राम द्वारा लिंगार्चन का उल्लेख किया गया है।

### च। वानरों का प्रेषण

५२४. प्रचलित वाल्मीकि रामायण में वानरों के प्रेषण का अपेक्षाकृत अधिक विस्तार से वर्णन किया गया है (सर्ग २९-४७)। इनकी अधिकांश सामग्री प्रक्षिप्त ही है (दे० अनु० ५१०-५११), शेष कथानक संक्षेप में इस प्रकार है। शरत्काल के प्रारंभ में सुग्रीव ने हनुमान के अनुरोध पर नील को सेना बलाने का आदेश दिया (सर्ग २९)। विरही राम ने सुग्रीव की निष्क्रियता की भर्त्सना करके लक्ष्मण को किष्किन्धा भ्रज दिया (सर्ग ३०)। लक्ष्मण ने किष्किन्धा में प्रवेश कर (सर्ग ३३) अकृणज सुग्रीव को धमकी दे दी (सर्ग ३४)। सुग्रीव ने दीनतापूर्वक क्षमायाचना की और लक्ष्मण के साथ राम के पास जाना स्वीकार किया (सर्ग ३६)। राम ने सुग्रीव का प्रेमपूर्वक स्वागत किया (सर्ग ३८) और सुग्रीव ने अपने साथ आए हुए वानरा को दिखाकर राम की आज्ञा मांगी (सर्ग ४०)। सुग्रीव से हनुमान् की योग्यता जानकर राम न से अभिज्ञानस्वरूप अपनी अगूठी सीप दी और हनुमान् अपने साथियों के साथ सीता की खोज में निकल पड़े (सर्ग ४४)।

—वाल्मीकि रामायण में सुग्रीव विलासिता के कारण निष्क्रिय है किन्तु सेरी-राम, रामकेर्ति (सर्ग ७) तथा रामकियेन (अध्याय २२) में इसके लिए एक अन्य कारण दिया गया है। सेरीराम का तत्त्वबन्धी निस्तृत वृत्तान्त इस प्रकार है। सम्बूरान<sup>२</sup> इन्द्र के शाप के कारण वानर बन गया था, वह बालि का परममित्र था और निकटवर्ती राज्य में वानरों पर शासन करता था। सुग्रीव सम्बूरान के कारण राम की सहायता करने से डरता था। इसपर लक्ष्मण ने एक पत्र लिखकर सम्बूरान को विष्णु अवतार राम की अधीनता स्वीकार करने का आदेश दिया। सुग्रीव और हनुमान यह पत्र सम्बूरान के पास ले गये किन्तु उसने राम के अवतारत्व पर अविश्वास प्रकट किया। रात्रि में सुग्रीव और हनुमान् सम्बूरान का अपहरण करके उसे राम

१ राम-कथा पर शैवप्रभाव के विषय में अनु० ७८३-७८४ देख लें। बल-रामदास रामायण में भी वर्षाकृतु के अंत में राम के पास अगस्त्य के आगमन का वर्णन किया गया है। मार्कण्डेय अगस्त्य के साथ आये थे और राम का विरह देखकर, उसने राम के भगवान् होने पर सदेह प्रकट किया था। अगस्त्य ने उसका समाधान करते हुए कहा कि विष्णु ने मानव शरीर धारण कर अज्ञानी बनने और रावण को मार डालने की प्रतिज्ञा की थी।

२ रामकेर्ति में इसका नाम महाजम्बु तथा रामकियेन में जम्बु है।



के पास ले गए । राम को देखकर सम्बूरान ने उनको विष्णु के रूप में स्वीकार किया तथा अपनी सेना राम की सहायता में अर्पित की । तब जम्बवान को ज्योतिष द्वारा यह ज्ञात हुआ कि सीता ने आत्महत्या का विचार छोड़ दिया है और रावण ४० अनु कभि बूरी तक सीता के निकट आने में असमर्थ है। इसपर राम ने पूछा कि जम्बवान के कथन की सच्चाई की परीक्षा लेने के लिये कौन लका जाने को तैयार है। सबों की अनिच्छा देखकर राम ने वालि का वचन याद किया (दे० अनु० ५१९) और हनुमान् को बुलाया । हनुमान् इस शर्त पर जाने के लिए तैयार हो गये कि उसे राम के साथ एक डूी पत्तल में खाने की अनुमति मिल जाय । राम ने हनुमान् को समुद्र में स्नान करने का आदेश देकर इस शर्त को स्वीकार किया । इस कथा का आधार भारतीय ही है (दे० अनु० ७०७) ।

गुणभद्र के उत्तरपुराण में हनुमान् को तीन बार लका भेजा जाता है । प्रथम बार वह सीता में ही मिलकर लौटता है (६८, ३७५); द्वितीय बार वह दूत के रूप में रावण के पास भेजा जाता है और लौटने में पूर्वं सीता से पुनः मिलता है (६८, ४३५); विभीषण की शरणागति के पश्चान् हनुमान् तृतीय बार समुद्र पार कर रावण की वाटिका नष्ट करता है और बहुत से योद्धाओं का वध करता है (६८, ५०९) ।

५२५. वाल्मीकि रामायण में राम हनुमान् को अभिज्ञान के रूप में 'स्वनामा-कौपशोभितं अंगुलीयम्' (४४, १२) सौंप देते हैं । अधिक संभव यही प्रतीत होता है कि आदि रामायण में इस अभिज्ञान का उल्लेख नहीं मिलता था; सीता द्वारा दिये हुये अभिज्ञानों के अनुकरण पर (दे० अनु० ५५०) राम द्वारा भी अभिज्ञान दिये जाने की कल्पना अत्यन्त स्वाभाविक है । महाभारत के रामोपाख्यान में राम की अंगूठी की चर्चा नहीं मिलती ।

परवर्ती रचनाओं में अनेक नवीन अभिज्ञानों की कल्पना कर ली गई है । आनन्द रामायण (१, ८, ९३-९७) के अनुसार राम ने हनुमान् को अंगूठी के अतिरिक्त अपना निज मंत्र भी दिया और सीता के भाल पर तिलक लगाने तथा उनके कपोलों पर पत्रावली की रचना करने का वृत्तान्त सुनाया । बलरामवास रामायण में काक-वृत्तान्त तथा तिलक-वृत्तान्त दोनों राम द्वारा दिये हुये अभिज्ञान माने गये हैं । तोरवे रामायण (५, ९) में अंगूठी तथा काकवृत्तान्त के अतिरिक्त चित्रकूट में जलविहार की कथा भी राम द्वारा प्रदत्त अभिज्ञान माना गया है ।

गुणभद्र के उत्तरपुराण तथा रामलियामृत में अंगूठी के साथ राम सीता के नाम पत्र भी देते हैं । तिब्बती रामायण में भी राम के पत्र का उल्लेख है ।

अभिनन्दकृत रामचरित (सर्ग ८) में राम अपनी मुद्रिका के अतिरिक्त सीता का नूपुर तथा स्तनोत्तरीय देते हैं तथा हनुमान् को अपनी बशावली भी सिखलाते हैं। भावार्थ रामायण (५, १२) में हनुमान् अभिज्ञान के रूप में सीता से कहते हैं कि जब आप बल्कल पहनने में असमर्थ थी तब राम ने आपकी सहायता की थी। रामकियेन (अध्याय २३) के अनुसार हनुमान् ने राम की मुद्रिका तथा सीता का उत्तरीय पाकर यह आपत्ति की थी कि इनसे सीता की आशका दूर नहीं होगी क्योंकि शत्रु भी इन्हें प्राप्त कर ले सकता है। इसपर राम ने पूर्वानुराग का रहस्य प्रकट किया—“जब मैं पहले-पहल मिथिला में प्रवेश कर रहा था, सीता ने अपनी खिड़की से मुझे देख लिया था और हम दोनों में प्रेम उत्पन्न हुआ था। कम्ब रामायण (४, १२) तथा बलरामदास के अनुसार भी राम ने हनुमान् को पूर्वानुराग का वृत्तान्त सुनाया था, कब रामायण में दो और घटनाओं का वर्णन किया गया था—(१) वन जानने की अनुमति न मिलने पर सीता की मूर्च्छा और क्रोध, (२) नगर निकलने के पूर्व पैदल चलने वाली सीता का प्रश्न (अरण्य कहाँ है?)।

दूसरी ओर सीता को पहचानने में हनुमान् की सुविधा के लिये राम ने कम्ब-रामायण के अनुसार (४, १२, ३३-६६) सीता का विस्तृत नख-शिख-वर्णन किया था। भावार्थ रामायण (४, १३) में राम हनुमान् से कहते हैं कि सीता की हनु पर मेरा चित्र अंकित है।

५२६ हनुमान् तथा उसके साथी विन्ध्य की गुफाओं में सीता की खोज करते हुए एक निर्जल तथा निर्जन वन में पहुँच गये। कण्डु ने अपने द्वादशवर्षीय पुत्र की अकाल मृत्यु में शोकातुर होकर उम प्रदेश को शाप दिया था। इस स्थल पर अगद ने एक असुर का वध किया। तब नृपित वानरो ने विन्ध्य की दक्षिण-पश्चिम कोटि पर ऋक्षबिल नामक गुफा से जलपक्षियों को निकलते देखा। अगद ने द्वार पर पहरा देने वाले दानवों को मार डाला और सब वानर हनुमान् के नेतृत्व में अंधेरी गुफा में प्रवेश कर गए। एक योजन तक आगे बढ़कर उन्होंने एक ज्योतिर्मय मुवर्णनगरी में एक वृद्धा तपस्विनी से भेंट की। उसने अपना परिचय देकर कहा—‘मैं मेरुसावर्णी की पुत्री स्वयंप्रभा हूँ, मय नामक दानव ने इस नगर का निर्माण किया था किन्तु

१ इसका आधार मुन्दरकाण्ड (१५, ४१-४३) में हनुमान् का यह कथन है कि जिन अभरणों का वर्णन राम ने किया था वे सीता के शरीर पर विद्यमान हैं।

२ कम्ब रामायण (४, १४) में अगद द्वारा तुमिर नामक असुर का वध स्वयंप्रभा के वृत्तान्त के बाद रखा गया है।

हेमा नामक अप्सरा पर आसक्त हो जाने के कारण इन्द्र ने मय का वध किया था । बाद में ब्रह्मा ने हेमा को यह वन प्रदान किया और मैं हेमा के लिये इसकी रखवाली करती हूँ ।' तब स्वयंप्रभा ने वानरो को भोजन दिया और आँखें बन्द कर लेने का आदेश देकर वह उनको गुफा के बाहर ले गई । वानरों को विन्ध्य, प्रथवण तथा समुद्र दिखलाकर उसने पुनः गुफा में प्रवेश किया (सर्ग ४८-५२) । उत्तरकाण्ड में मय अपनी पुत्री मन्दोदरी के साथ वन में रावण से मिलकर अपने विषय में कहता है कि देवताओं ने मुझे हेमा को प्रदान किया था और हम दोनों ने १००० वर्ष सुख से बिताये । १४ वर्ष पूर्व हेमा "दैवतकार्येण" मुझे छोड़ कर चली गई । तब मैंने एक सुवर्ण नगर का निर्माण किया और अब मैं हेमा के वियोग के कारण दुःखी होकर वहाँ निवास करता हूँ । हेमा से मुझे यह पुत्री मन्दोदरी तथा दो पुत्र दुदुभि और मायावी प्राप्त हुए थे (सर्ग १२) ।

परवर्ती राम-कथाओं में उपर्युक्त वृत्तान्त में गौण परिवर्तन किये गये हैं । स्वयंप्रभा के स्थान पर महाभारत में प्रभावती, नृसिंह पुराण में प्रभा, अग्नि पुराण में सुप्रभा, कृत्तिवास में सभवा, बलरामदाम में गिरिजा, गुजराती रामायणसार में बदरी तथा रामकियेन में पुष्पमाली नाम मिलता है ।

रामायण ककविन (सर्ग ७) के अनुसार स्वयंप्रभा वानरो को भुलाने के लिये उनको आँखें बन्द कर लेने के लिये कहती है, क्योंकि वह वानवी है और राक्षसों से मंत्री रखती है । भट्टिकाव्य के वृत्तान्त से भी वही ध्वनि निकलती है (७, ७१) । तिब्बती रामायण में भी श्री देवी की पुत्री वानरों को मोहित कर देती है जिससे उनको दिशाभ्रम हो जाता है । इस रचना में वानर एक दूसरे की पूँछ पकड़कर गुफा में प्रवेश करते हैं । कम्ब रामायण (४, १३) में भी हनुमान् की पूँछ पकड़कर वानर गुफा में आगे बढ़ते हैं ।

अभिनन्दकृत रामचरित (सर्ग ११-१२) के अनुसार अगद ने गुफा के प्रवेश द्वार पर दुर्दम नामक एक राक्षस का वध किया था तथा हनुमान् ने एक वानर-वार-सुन्दरी का प्रेम-प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया; तब सर्वांगसुन्दरी का रूप धारण कर वह हनुमान् को मोहित करने में पुनः असफल हुई और स्वयंप्रभा के आगमन पर चली गई । स्वयंप्रभा ने गुफा में अपने निवास के कारण के विषय में कहा कि मय

१. रामकियेन (अध्याय ३३) के अनुसार हनुमान् ने गुफा से प्रस्थान करने के पूर्व पुष्पमाली (स्वयंप्रभा) के साथ रमण किया था तथा उसके बाद उसे स्वर्ग भेज दिया । पुष्पमाली एक अप्सरा थी जो रंभा के हरण में मयन के राजा तबन की सहायता करने के कारण ईश्वर द्वारा अभिषिक्त थी ।

और हेमा बहुत समय तक पति-पत्नी के रूप में यहाँ रह चुके थे; हेमा किसी दिन स्वर्ग में अपने पिता से मिलने गईं और इन्द्र ने उसे वहाँ रोक लिया। तब हेमा ने मय को सूचना देने के लिए स्वयंप्रभा को भेज दिया, गुफा में पहुँचकर स्वयंप्रभा ने मय को विरह के कारण मरा हुआ पाया, स्वयंप्रभा को लौटकर हेमा को इसका समाचार देने का साहस नहीं हुआ; ऐसा न हो कि हेमा भी मर जाय। अतः स्वयंप्रभा ने मरण तक इस गुफा में तपस्या करने का निश्चय किया था। **कम्ब रामायण** (४, १३) में कथा इस प्रकार है। ब्रह्मा ने मय को यह नगर प्रदान किया था तथा स्वयंप्रभा हेमा को मय की पत्नी के रूप में वहाँ ले आई थी। थोड़े ही दिनों के बाद इन्द्र ने आकर मय का वध करके स्वयंप्रभा को दण्ड दिया कि वह राम के दूतों के आगमन तक वहाँ निवास करे। तब इन्द्र हेमा को स्वर्ग ले गये। यह वृत्तान्त सुनाने के बाद स्वयंप्रभा ने वानरो से निवेदन किया कि वे उसे गुफा से निकालने में सहायता दें। इस पर हनुमान् ने अपना शरीर बड़ाकर गुफा को खोल दिया और स्वयंप्रभा ने स्वर्ग के किन्हे प्रस्थान किया। **रंगनाथ रामायण** (८ १७) के अनुसार भी हेमा मय की पत्नी थी, इन्द्र मय का वध करके हेमा को स्वर्ग ले गये थे। स्वयंप्रभा हेमा की सखी है जो हेमा की आज्ञा से गुफा में तप करती है। **भावार्थ रामायण** (४, १४-१५) के अनुसार इन्द्र ने हेमा को भेजकर मय को गुफा के बाहर आन का प्रलोभन दिया था और इस प्रकार वह मय को मारने में समर्थ हुए।

राम-भक्ति-भाव से ओतप्रोत **अध्यात्म रामायण** (४, ६, ५१-८४) में प्रस्तुत वृत्तान्त को एक नवीन रूप दिया गया है। विश्ववर्मा की पुत्री हेमा ने अपने नृत्य से शिव को प्रसन्न कर उनसे वह दिव्य नगर प्राप्त किया था। ब्रह्मलोक के लिये प्रस्थान करते समय हेमा ने अपनी सखी स्वयंप्रभा (दिव्य नामक गन्धर्व की पुत्री) को आदेश दिया था — 'तुम यहाँ पर तपस्या करती रहो, त्रेतायुग में जब राम के दूत आवेंगे तब उनका आनिध्य-सत्कार करना।' वानरो को भोजन देने के बाद स्वयंप्रभा उनको गुफा के बाहर ले गईं और राम के पास आ गईं। उसने राम की स्तुति करने के पश्चात् भक्ति का वरदान माँग लिया और राम का आदेश पाकर बदरी-वन चली गईं, जहाँ उमने अपना शरीर छोड़कर परम पद प्राप्त किया। **आनन्द रामायण** (१, ८, १०३-१०९) तथा **रामचरितमानस** (४, २५) में भी यही कथा सक्षिप्त रूप में मिलती है।

५२७ स्वयंप्रभा की गुफा से निकलकर वानर यह जानकर निरुत्साह हो गये कि सुग्रीव की निर्धारित (एक मास की) अवधि समाप्त हुई है। अगद ने पुनः गुफा में प्रवेश कर वहाँ निवास करने का प्रस्ताव किया किन्तु हनुमान् ने इसका विरोध किया।

अन्त में सर्वों ने प्रायोपवेशन करने का निश्चय किया । सम्पाति ने उपवास करने वाले वानरों को अपने भाई जटायु का उल्लेख करते सुना और पास आकर इसका समाचार पूछा; बाद में उसने अपनी कथा भी सुनाई तथा वानरों से यह प्रकट किया कि सीता का अपहर्ता रावण एक सौ योजन की दूरी पर समुद्र के उस पार निवास करता है; इसके बाद वानरों ने परामर्श किया कि कौन समुद्र पार कर सकेगा; अन्त में जाम्बवान ने हनुमान को समुद्रलंघन करने का आदेश दिया और उसकी जन्म-कथा भी सुनाई । किष्किष्काकाण्ड के अंतिम सर्ग में हनुमान अपनी शक्ति का गुणगान करता है; जाम्बवान उसे आश्वासन देता है कि उसके लौटने तक सब वानर एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करेंगे—*स्थास्थामश्चैकपादेन धावबागमनं तव* (६७, ३४) । अन्त में हनुमान द्वारा महेन्द्र पर्वत का आरोहण वर्णित है (सर्ग ५३-६७) ।

वाल्मीकि रामायण के इस अंश में प्रक्षिप्त सामग्री का बाहुल्य है—(१) हनुमान् की जन्म-कथा (सर्ग ६६); इस पर आगे विचार किया जायगा (दे० अनु० ६५९); (२) सर्ग ५८ में सम्पाति कहता है कि मैंने रावण को एक स्त्री का अपहरण करते हुये देखा है, किन्तु अगले सर्ग के अनुसार उसने अपने पुत्र सुपाश्व से यह वृत्तान्त सुना था; अतिम कथन अधिक प्राचीन होगा । इन परस्पर-विरोधी उक्तियों के लिए वाल्मीकि उत्तरदायी हो ही नहीं सकते; (३) सम्पाति अपनी कथा को दो बार सुनाता है; द्वितीय वृत्तान्त (सर्ग ६०-६३) निश्चित रूप से प्रक्षिप्त है ।

विकास की दृष्टि से केवल सम्पाति की कथा का विश्लेषण अपेक्षित है । वाल्मीकि रामायण में सम्पाति की कथा का प्रबल रूप इस प्रकार है । सम्पाति और जटायु, दोनों भाई वृत्र के वध के बाद (इन्द्र पर) विजय प्राप्त करने की इच्छा से आकाश के मार्ग से स्वर्ग जा रहे थे । सूर्यमंडल के समीप पहुँचकर तथा जटायु को सूर्य की प्रचण्ड किरणों से संभ्रस्त देखकर सम्पाति ने उसे अपने पंखों से ढँक लिया । फलस्वरूप सम्पाति के पंख जल गये और वह बिन्ध्य पर्वत पर गिर गया । बाद में सम्पाति को जटायु के विषय में कभी भी कोई समाचार नहीं मिला था (५८, ४-७) । द्वितीय कथा कहीं और विस्तृत है । उसके अनुसार सम्पाति अपने भाई जटायु के साथ निशाकर के आश्रम में आया करते थे; अतः पंख जल जाने के बाद भी सम्पाति निशाकर से भेंट करने गया था । वहाँ पहुँचकर उसने निशाकर से कहा कि हम दोनों भाई किसी समय अपनी शक्ति की परीक्षा लेने के उद्देश्य से आकाश में सूर्य की ओर आगे बढ़ने लगे थे । सूर्य के पास पहुँचकर दोनों भयभीत हुये । जटायु पहले गिर पड़ा; सम्पाति के पंखों से आच्छादित होकर वह अनस्थान में सफुशल पहुँच गया । सम्पाति के पंख जल गये और वह निस्सहाय होकर बिन्ध्य पर गिर गया । उसने आत्महत्या करने का विचार

किया किन्तु निशाकर ने उसे यह आश्वासन दिया—राम के दूत सीता की खोज में इधर आर्येगे; तुम उनको सीता का समाचार दोगे और तब अपने पंख फिर प्राप्त करोगे। अपनी यह कथा सुनाते समय सम्पाति ने अनुभव किया कि मेरे पंख बड़ रहे हैं। तब उसने इस चमत्कार का श्रेय निशाकर को दिया और ऊपर उठकर आकाश में विलीन हो गया (सर्ग ६०-६३)। अन्य पाठों में भी सम्पाति अपना स्वास्थ्य-लाभ निशाकर का प्रभाव मानता है किन्तु गौडीय पाठ के एक प्रक्षेप में (६३, ३-६) वानर सम्पाति को अचानक स्वस्थ देखकर इस चमत्कार का श्रेय राम-लक्ष्मण को देते हैं—  
**ऊ बुद्ध राममाहारम्यं महावीर्यं च लक्ष्मणं । ययोः प्रभावात् सम्पातिरपक्षः पक्षवानभूत् ।**  
 इसपर एक आकाशावाणी ने वानरों के इस कथन का समर्थन किया।

—गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठों में सुपाश्व के आगमन का भी वर्णन किया गया है (गौ० रा० सर्ग ६२; प० रा० सर्ग ५५)। जाम्बवान ने समुद्र पार करने की सहायता माँगी और सम्पाति ने अपनी असमर्थता प्रकट कर अपने पुत्र सुपाश्व को बुलाया। सुपाश्व ने अंगद को अपनी पीठ पर समुद्र के उस पार ले जाने का प्रस्ताव किया किन्तु अंगद ने अस्वीकार किया। इन दोनों पाठों में सम्पाति अन्त में हिमालय के लिये प्रस्थान करता है। सुपाश्व के आगमन की कथा माघव कदलीकृत असमीया रामायण, कृत्तिवास का बंगला रामायण तथा बलरामदास के उड़िया रामायण में भी मिलती है। माघव कदली (४, २५) के अनुसार सुपाश्व ने अंगद तथा वानरसेना को अपनी पीठ पर चढ़ाकर समुद्र पार किया और उनको लंका दिखलाई।

—कम्ब रामायण (४, १५) के अनुसार सूर्य ने सबसे पहले सम्पाति को यह आश्वासन दिया था कि जब वानर रामनाम का उच्चारण करेंगे उस समय तुम्हारे पंख फिर निकल आयेगे। भावार्थ रामायण (४, १६) में भी सूर्य के इस आश्वासन का उल्लेख है।

—अध्यात्म रामायण (४, ८) की कथा बाल्मीकि रामायण की द्वितीय कथा पर आधारित है। निशाकर के स्थान पर मुनि का नाम चन्द्रमा माना गया है।<sup>१</sup> चन्द्रमा ने आहत सम्पाति को एक विस्तृत उपदेश देकर आत्महत्या करने से रोका था

१. आनन्द रामायण में मुनि का नाम चंद्रशर्मा है; कम्ब ने इसका नाम लोक-सारग रखा है। अध्यात्म रामायण पर आधारित आनन्द रामायण की संक्षिप्त कथा (१, ८, १११-१२१) में नया तत्त्व यह है कि सम्पाति ने अपने पुत्र से सीताहरण का समाचार सुनकर उसे सीता को न छुड़ाने के कारण बहुत डाँटा था। इसपर वह क्रुद्ध होकर चला गया और फिर कभी अपने पिता सम्पाति से नहीं मिलने आया।

तथा उसको नारायणावतार राम के दूतों की प्रतीक्षा करने का आदेश दिया था। पंखों के बढ़ जाने पर सम्पाति ने वानरों को इस प्रकार आश्वासन दिया— “जिनके नाम के स्मरणमात्र से दुष्टजन भी इस अपार संसार-सागर को पार करके विष्णु के शाश्वत पद को प्राप्त कर लेते हैं उन्हीं भगवान राम के तुम प्रिय भक्तगण हो। फिर इस समुद्र मात्र के पार करने में तुम क्यों समर्थ न होगे”। इस प्रकार हम देखते हैं कि सम्पाति की कथा धीरे-धीरे अलौकिक घटनाओं के परिवर्द्धन से विकसित होकर अन्त में भगवान द्राम के गुणगान में परिणत हुई।’

- 
१. सेरीराम के अनुसार जटायु ने मरने के पहले राम-लक्ष्मण को अपने भाई दसमपानी के पास भेज दिया था। सूर्य ने दसमपानी से कहा था कि विष्णु-अवतार राम के पुत्र हनुमान् से भेंट करने पर तुम्हारे पक्ष फिर बढ जायेंगे। महावीरचरित (अंक ५) के अनुसार जटायु ने सम्पाति के पास आकर राम के पञ्चवटी-निवास, शूर्पणखा-विरूपीकरण और स्त्र-दूषण-वध का समाचार दिया था। सम्पाति ने रावण के प्रतिकार की आशका प्रकट कर जटायु से अनुरोध किया था कि वह रामादि की रक्षा करे। तिब्बती रामायण के अनुसार वानर पदा नामक गीघ से भेट करते हैं; पदा उनको अपने पिता अगजय (जटायु) की कथा सुनाता है जो सीता को छुड़ाने के प्रयत्न में रावण द्वारा मारा गया है। इस वृत्तान्त में पदा के अनुज सपदा के पंख जल जाने की कथा भी मिलती है। खीतानी रामायण में प्रस्तुत प्रसंग को एक नया रूप दिया गया है। राजा ने खोज करने वाले वानरों से कहा था कि यदि तुम लोग सात दिनों के अंदर सीता का पता नहीं लगा सकोगे तो मैं तुम्हारी आँखें गीघों की खिलाऊँगा। अबधि के अंत में किसी वानरी ने सुना कि एक गीघ अपने बच्चों से कह रहा है—तुमको वानरों की आँखें खाने को मिलेंगी क्योंकि वानर यह भी नहीं जानते कि रावण सीता को लंकापुर ले गया है।

## सुन्दरकांड

### १.—वाल्मीकीय सुन्दरकांड

५२८. क । सुन्दरकांड की कथावस्तु

(१) लंका में हनुमान् का प्रवेश (सर्ग १-१७)

समुद्रलंघन—लघन करते हुए हनुमान् से मीनाक का आग्रह; मुरसा से भेंट; सिंहिका-वध (सर्ग १) ।

लंका-वर्णन—विडाल जितने आकार में हनुमान् का लंका में प्रवेश; लंका-देवी को परास्त करना, नगर, महल, पुष्पक, शयनागार आदि का वर्णन; सीता का पता न मिलना (सर्ग २-१२) ।

अशोक-वन—हताश होकर हनुमान् का अशोक-वन में प्रवेश और वहाँ राक्षसों से घिरी हुई सीता को देखना (सर्ग १३-१७) ।

(२) रावण-सीता-संवाद (सर्ग १८-२८)

रावण की प्रताड़ना—कामातुर रावण का सीता से अनुरोध तथा सीता की अस्वीकृति (सर्ग १८-२१) । रावण का भय दिखलाना और दो महीने की अवधि देना । सीता की भर्त्सना । सीता को समझाने के लिए रावण द्वारा राक्षसियों का नियुक्त किया जाना (सर्ग २२) ।

राक्षसियों का प्रयास—राक्षसियों का प्रयास और सीता की अस्वीकृति तथा विलाप (सर्ग २३-२६) ।

त्रिजटा का स्वप्न—त्रिजटा का राक्षस-पराजय-सूचक स्वप्न-वर्णन (सर्ग २७) । सीता-विलाप (सर्ग २८) ।

(३) हनुमान्-सीता-संवाद (सर्ग २९-४०)

सीता को शकुन होना (सर्ग २९) । हनुमान् का राम-कथा-वर्णन (सर्ग ३०-३१) । सीता का भयभीत होना (सर्ग ३२) । हनुमान् का प्रकट होना, सीता का संदेह; हनुमान् द्वारा राम का वर्णन; सीता का विश्वास करना



(सर्ग ३३-३५) । हनुमान् का राम-मुद्रिका देना और शीघ्र छुटकारे का आश्वासन; हनुमान् की पीठ पर जाने का सीता द्वारा अस्वीकार । अभिज्ञान-स्वरूप सीता का काक-वृत्तान्त सुनाना तथा झूठामणि देना । विद्या (सर्ग ३६-४०) ।

#### (४) लंका-बहन (सर्ग ४१-५५)

अशोकवन-ध्वंस—हनुमान् द्वारा अशोक-वन और चंत्य का विध्वंस तथा प्रहस्त-पुत्र जंबुमाली और रावण-कुमार अस का वध (सर्ग ४१-४७) ।

हनुमान्-बंधन—ब्रह्मास्त्र से इन्द्रजित् द्वारा बंधन । राम-दूत के रूप में हनुमान् का रावण से सीता-मुक्ति का आग्रह । विभीषण द्वारा हनुमान् की रक्षा (सर्ग ४८-५२) ।

लंका-बहन—दंड-रूप हनुमान् की पूँछ जलाई जाने की रावण द्वारा आज्ञा । हनुमान् द्वारा लंकादहन । चारणों की बातचीत से हनुमान् को सीता की रक्षा का आश्वासन (सर्ग ५३-५५) ।

#### (५) हनुमान् का प्रत्यावर्तन (सर्ग ५६-६८)

समुद्र-लंघन—हनुमान् का आकाशमार्ग से अपने साथियों के पास प्रत्यागमन और अपनी सफलता का वर्णन (सर्ग ५६-५९) । अंगद द्वारा सीता-मुक्ति का प्रस्ताव; जाम्बवान् का विरोध (सर्ग ६०) ।

मधुवन—मधुवन में पहुँच कर हनुमान् आदि का उत्पात; दधिमुख का सुषीव को समाचार देना (सर्ग ६१-६४) ।

सुखर समाचार—हनुमान् का राम से सीता के जीवित होने का समाचार कहना और अभिज्ञान देना (सर्ग ६५); राम का विलाप (सर्ग ६६); हनुमान् का काक-वृत्तान्त कहना और सीता-संवाद का उल्लेख करना (सर्ग ६७-६८) ।

### ख । सुन्दरकांड का विश्लेषण

तीनों पाठों में विभिन्नता

५२९. दक्षिणात्य पाठ के दो वृत्तान्त अन्य पाठों में नहीं पाए जाते हैं—लंका में प्रवेश करते समय हनुमान् का लंका देवी से युद्ध (सर्ग ३, २०-५१) तथा हनुमान् द्वारा चंत्यप्रासाद का विध्वंस (सर्ग ४३) ।

इसके अतिरिक्त दक्षिणात्य २३वाँ सर्ग, जिसमें सीता से अनुरोध करने वाली राक्षसियों की नामावली दी गई है, पश्चिमोत्तरीय पाठ में (सर्ग १८) तो मिलता है, लेकिन इसका गौडीय पाठ में अभाव है ।

दाक्षिणात्य पाठ (सर्ग १३, ५४-६७) तथा पश्चिमोत्तरीय पाठ (सर्ग ८, ६४-७७) के अनुसार, हनुमान् अशोकवन में प्रवेश करने के पहले देवताओं की स्तुति करते हैं। इसका उल्लेख गौडीय पाठ में नहीं किया गया है।

गौडीय (सर्ग ५२) तथा पश्चिमोत्तरीय पाठ (सर्ग ५१) का सरमाबाक्यम् नामक सर्ग, जिसमें सरमा सीता से लंका-दहन का वर्णन करती है, दाक्षिणात्य पाठ में नहीं मिलता।

### प्रक्षेप

५३०. सुन्दरकाण्ड में बहुत-सी प्रक्षिप्त सामग्री विद्यमान है। दाक्षिणात्य पाठ का प्रथम सर्ग दूसरे पाठों की अपेक्षा अधिक विस्तृत है (दे० अनु० ५३१)। लंका-वर्णन (सर्ग २-११) में पुनरावृत्ति के अतिरिक्त दीर्घ छन्दों के कई अनावश्यक सर्ग मिलते हैं। पुष्पक का वर्णन निश्चित रूप से अपेक्षाकृत अर्वाचीन है (सर्ग ७-९)। आगे चलकर भी अनावश्यक सामग्री की कमी नहीं है; उदाहरणार्थ—सर्ग १४ (अशोकवन का प्रथम विष्वंस); सर्ग २३-२६ (भयंकर राक्षसियों का वर्णन तथा उनकी घमकियाँ); सर्ग २८-२९ (पूर्वापर संबंध का अभाव; बहुत सी हस्त-लिपियों में दोनों सर्ग अविद्यमान हैं)।

—सीता-हनुमान्-संबाद की पर्याप्त सामग्री प्रक्षिप्त प्रतीत होती है। सर्ग ३२ का उत्तरार्द्ध (दीर्घ छन्द) अनावश्यक है; सर्ग ३३ में सीता के विरवस्त हो जाने के पूर्व उनका आत्मपरिचय अस्वाभाविक है; सर्ग ३५ में सर्ग ३१ की आवृत्ति तथा अनावश्यक विस्तार मात्र है; सर्ग ४० में सीता के पुनः अभिज्ञान देने का वर्णन किया गया है (सर्ग ३८ की आवृत्ति)।

—आदिरामायण में लंका-दहन (सर्ग ४१-५५) का वर्णन नहीं मिलता था; यह डॉ० याकोबी के तीन निम्नलिखित तर्कों का निष्कर्ष है।<sup>१</sup>

(१) सीता द्वारा हनुमान् की विदा का वर्णन सुन्दरकाण्ड में तीन बार किया गया है—लंकादहन के पूर्व (सर्ग ३९), लंकादहन के पश्चात् (सर्ग ५६) और राम-हनुमान्-संबाद में (सर्ग ६८)। इसका मौलिक स्थान ३९वाँ सर्ग है, क्योंकि इसमें सीता हनुमान् से एक दिन ठहरने के लिये अनुरोध करती हैं, वह लंकादहन के पश्चात् स्वाभाविक नहीं कहा जा सकता है। लंकादहन के पूर्व यह नितान्त स्वाभाविक प्रतीत होता है।

१. दे० इस रामायण, पृ० ३३-३५।

इस वर्णन की पुनरावृत्ति का कारण यह है कि लंकादहन के विस्तृत प्रक्षेप के बाद मौलिक कथावस्तु से संबंध स्थापित करना था और इसका सबसे सरल उपाय विदा का वर्णन दुहराना समझा गया है ।<sup>१</sup>

(२) हनुमान् दो बार सीता से भेंट का वर्णन करते हैं (दे० रा० ५, ६५-६८ तथा ६, १२६), लेकिन लंकादहन का कोई उल्लेख नहीं करते । इसके अतिरिक्त लंकावरोध के समय लका के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, जिसमें कहीं भी उसके दहन का निर्देश मात्र भी नहीं मिलता (दे० रा० ६, ३८-३९) ।

(३) लंकादहन के प्रसंग के अन्तर्गत हनुमान् द्वारा विरूपाक्ष तथा यूपक्ष के वध का वर्णन किया गया है (सर्ग ४६) किन्तु युद्धकाण्ड में पुनः दोनो का उल्लेख मिलता है (सर्ग ७६ और ९६) ।

यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि लंका में प्रवेश करते समय हनुमान् स्वयं कहते हैं कि यदि मैं राक्षसों द्वारा देखा गया तो राम के कार्य में बाधा पड़ जायगी :

अथि दृष्टे तु रक्षोभी रामस्य विवितात्मनः ।

भवेद् व्यर्थमिदं कार्यं रावणानर्थमिच्छतः ॥४०॥ (सर्ग २)

इसके अतिरिक्त भरद्वाज ने जो रामायण का सार सुनाया था (६, १२४), इसमें भी लंकादहन का अभाव है । यद्यपि लंकादहन का वर्णन निश्चित रूप से प्रक्षिप्त है फिर वह विभिन्न पाठों के पृथक् हो जाने के पूर्व प्राचीन काल से किष्किन्धाकाण्ड का अंग बन चुका था; इसका उल्लेख महाभारत के रामोपाख्यान (३, २६६, ६८) तथा बालकाण्ड की अनुक्रमणिकाओं (१, १, ७७; १, ३, ३३) में भी मिलता है ।

—लंकादहन के बाद मे अनावश्यक पुनरावृत्ति पाई जाती है । सर्ग ५६ में हनुमान् पुनः सीता से विदा लेते हैं । सर्ग ५८ में हनुमान् पुनः वानरों के लिये लंका की घटनाओं का वर्णन करते हैं और लंकादहन का भी उल्लेख करते हैं । सर्ग ५९-६० अस्तव्यस्त तथा पुनरावृत्ति से भरपूर हैं । मधुवन में वानरों के उत्पात का वर्णन (सर्ग ६१-६४) आधिकारिक कथावस्तु की गति में बाधा उपस्थित करता है । इसमें जो हास्यरस का प्राधान्य पाया जाता है, वह भी मूल रचना के अनुकूल नहीं है ।<sup>२</sup> समुद्र-तरण की तैयारी का जो प्रस्ताव सर्ग ६५ के अन्त में रखा गया है (सागरजले संतारः प्रविधीयताम्), इससे पता चलता है कि पहले इस सर्ग के बाद सेतुबन्ध का

१. गौडीय पाठ में विदा का पहला वर्णन (लंकादहन के पूर्व) सर्वथा हटाया गया है, जिससे पुनरावृत्ति-दोष का निवारण हुआ है ।

२. दे० एच० याकोबी, वही पृ० ३७ ।

वर्णन आता था (युद्धकाण्ड सर्ग १) ; वास्तव में बीच के सर्गों में (६६-६८) पुनरुक्ति मात्र मिलती है। सुन्दरकाण्ड की निम्नलिखित शेष सामग्री अपेक्षाकृत प्राचीन है :

- समुद्रलंघन—सर्ग १ (अंशतः)  
 लंका में हनुमान् का प्रवेश—सर्ग २, ३ (अंशतः), ४  
 लंका में सीता की खोज—सर्ग ६  
 रावण के अन्त-पुर में हनुमान् का प्रवेश—सर्ग १०-११  
 हनुमान् का अशोकवन में आगमन—सर्ग १३ (अंशतः) और १५  
 रावण-सीता-संवाद—सर्ग १८-२२  
 त्रिजटा का स्वप्न—सर्ग २७  
 हनुमान्-सीता-संवाद—सर्ग ३०, ३१, ३२ (१-५), ३४ और ३६-३९  
 हनुमान् का अपने साधियों के पास लौटना—सर्ग ५७  
 राम के पास हनुमान् का प्रत्यागमन—सर्ग ६५

## २—सुन्दरकाण्ड का विकास

### क। लंका में हनुमान् का प्रवेश

५३१. समुद्रलंघन। वाल्मीकि रामायण के दक्षिणात्य पाठ में हनुमान् के भार से महेन्द्र-पर्वत का दोलायमान हो जाना अपेक्षाकृत अधिक विस्तार से वर्णित है। दक्षिणात्य तथा पश्चिमोत्तरीय पाठों के अनुसार हनुमान् समुद्रलंघन के समय क्रमशः मैनाक, सुरसा तथा सिंहिका से भेंट करते हैं। गौडीय पाठ, अध्यात्म रामायण, आनन्द रामायण, भाषवकंदलीकृत असमीया रामायण और कृत्तिवास रामायण में क्रम इस प्रकार है—सुरसा, मैनाक, सिंहिका। कब रामायण, रंगनाथ रामायण, बलराम-दास उड़िया रामायण, तोरवे रामायण, रामचरितमानस, भावार्थ रामायण आदि में दक्षिणात्य पाठ का ही क्रम रखा गया है। इयाम के राम जातक में हनुमान् और अंगद दोनों लंका में प्रवेश करते हैं तथा सिंहली राम-कथा में हनुमान् के स्थान पर वालि लंका जाता है। शेष राम-कथाओं में हनुमान् ही समुद्र पार कर सीता का पता लगाते हैं। पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १४ के अनुसार हनुमान् समुद्र पर पैदल चलकर लंका तक पहुँच गए थे।

सेरीराम में हनुमान् कोई बृह आधार न पाकर अन्त में राम की बाहु से ही समुद्र को लौघते हैं। इस कथा में कहा गया है कि हनुमान् का वीर्य समुद्र में गिर गया तथा मच्छलिमें की रानी ने उसे खाया और गर्भवती हुई। सेरीराम के पातानी पाठ के अनुसार हनुमान् राम के कन्धे से लंका-तट पर कूदते हैं।

विहौर तथा संताल नामक आदिवासी जातियों की राम-कथा में हनुमान् समुद्र के मध्य में राम द्वारा चलाये हुये वाण पर विश्राम करते हैं। एक अन्य आदिवासी कथा के अनुसार हनुमान पहले एक वाण चलाते हैं; तब कूदकर उस पर सवार हो जाते हैं और इस प्रकार समुद्र पार करते हैं (दे० अनु० २७४)।

अनेक वृत्तान्तों के अनुसार हनुमान् अपने लक्ष्य को पार करके लंका से बहुत दूर जाकर उतरते हैं। सेरीराम में हनुमान् किसी महर्षि के आश्रम पहुँचकर उनका आतिथ्य-सत्कार स्वीकार करते हैं और महर्षि के दिये हुये पथ-अदर्शक के साथ लंका में प्रवेश करते हैं। रामकथेम (अध्याय २३) में उस अवसर पर हनुमान् के गर्व-निवारण के विषय में निम्नलिखित कथा मिलती है। हनुमान् लंका के उस पार नारद के आश्रम में पहुँचे। उन्होंने नारद से रात भर रहने का स्थान माँगा और नारद हनुमान् को एक कुटीर के पास ले गये। नारद की अलौकिक शक्ति की परीक्षा लेने के उद्देश्य से हनुमान् ने अपना आकार बढ़ाया जिस पर नारद ने भी कुटीर बढ़ाया। यह देखकर हनुमान् अपने को और बढ़ाने लगे किन्तु नारद के तपोबल से अत्यन्त ठंडी वर्षा होने लगी जिससे हनुमान् अपना स्वाभाविक आकार धारण करने के लिए बाध्य हुए। दूसरे दिन प्रातःकाल हनुमान् आश्रम के निकट एक सरोवर में नहाने गये, जहाँ नारद की प्रेरणा से एक जोंक हनुमान् की ठोड़ी में लग गई। हनुमान् उसे हटाने में असमर्थ थे; उन्होने ऋषि के पास जाकर क्षमा माँगी और जोंक तुरन्त ही गिर गई। इन दोनों विदेशी कथाओं का आधार भारतीय ही है। तोरवे रामायण (५, १) के अनुसार हनुमान् ने लंका से ७०० योजन दूर एक टापू पर उतरकर तृण-विन्दु मुनि से भेंट की तथा उनको सीताहरण का वृत्तान्त सुनाकर लंका का मार्ग पूछा। मुनि ने उत्तर दिया कि मेरी समझ में नहीं आता कि एक कायर कपि कैसे त्रिलोक-विजेता रावण की राजधानी प्रवेश कर सकेगा। तब मुनि ने हनुमान् की बलपरीक्षा लेने के उद्देश्य से कहा—मुझे पद्मासन से ऊपर उठाओ। हनुमान् पूरी शक्ति लगाकर अन्त में ऐसा करने में समर्थ हुए और मुनि ने उनको बताया कि लंका उत्तर में है जिससे हनुमान् को लौटना पड़ा।

दक्षिण भारत के एक वृत्तान्त के अनुसार हनुमान् मलय तक लौघकर वहाँ से सिंहलद्वीप पर कूद गये थे (पादचात्य वृत्तान्त नं० ८)। ज्ञानन्द रामायण (१, ९,

१७) में इसका उल्लेख मात्र किया गया है कि हनुमान् ने परलंका में पहुँचकर वहाँ रावण की बहन क्रीचा का वध किया था ।<sup>१</sup> भावार्थ रामायण (५, १८) में इस प्रसंग का किञ्चित् विस्तार सहित वर्णन मिलता है । लंका के उपनगर परलंका में रावण की बहन तथा बर्षरासुर की विधवा अपनी १८००० दासियों के साथ निवास करती थी । हनुमान् ने दासियों को समुद्र में फेंक दिया तथा क्रीचा का वध किया । यह कथा श्रीभरतकृत रामचरितमण्ड में दुहराई गई है । पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १३ (पृ० ३४९) में भी हनुमान् लंका को पार करके लंका द्वीप के दक्षिण तट पर उतरते हैं ।

५३२. हनुमान् के छद्मवेश । वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान् ने विडाल के आकार के छोटे बन्दर का रूप धारणकर लंका में प्रवेश किया था ।

सूर्ये चास्तं गते रामौ देहं संक्षिप्य मारुतिः ।

वृत्रंशकमात्रोऽथ बभूवाद्भुतवर्शनः ॥४७॥

(सुन्दरकांड सर्ग २)

बाद में इसका स्वाभाविक विकास यह हुआ कि हनुमान् वास्तव में विडाल बनकर लंका में प्रवेश करते हैं । इसका उल्लेख अनेक राम-कथाओं में मिलता है, उदाहरणार्थ :

—तूहद्वन्द्वपुराण (पूर्वखंड, अध्याय २० श्लोक २—ओतु भूत्वा) ।

—पद्मपुराण, बर्गीय पाठ, (जर्नल रो० ए० सो० १८४२, पृ० ११२६) ।

—दक्षिण भारत की १७वीं श० की दो राम-कथाएँ (पाश्चात्य वृत्तान्त न० १ और ३) ।

—उत्तर भारत की एक राम-कथा (पाश्चात्य वृत्तान्त न० १३) ।

—गुजराती नर्मदकृत रामायणसार ।

५३३. रामचरितमानस में हनुमान् मशक का छोटा रूप धारण कर लंका में प्रवेश करते हैं :

मशक समान रूप कपि घरी ।

लंकहि खलेउ सुमिरि नरहरी ॥ (५, ३, १)

भिन्न-भिन्न राम-कथाओं में हनुमान् भिन्न-भिन्न रूप धारण कर लंका में घुसते हैं । उदाहरणार्थ :

१. इस रचना के अन्य स्थल पर (१, १३, ६४) लिखा है कि रावण ने खड्ग-जिह्व के साथ अपनी बहन क्रीची का विवाहकराया था तथा दहेज में परलंका दे दी थी ।

**भ्रमर :** गुणभद्रकृत उत्तरपुराण (दे० ६८, २९८), पाश्चात्य वृत्तान्त नं० ३ और १३ ।

**मूषिका :** वह्निपुराण (पृ० २६६ अ) ।

**ब्राह्मण :** पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १, सेरीराम, गणकचरित्र । महानाटक के अनुसार हनुमान् ब्राह्मण के रूप में अशोकवन तप्यते हैं ।

**शुक :** बिहोर आदिवासी कथा ।

**काक :** पंजाब का एक लोकगीत (दे० इ० ए० भाग ३८, पृ० १५०) ।

**भैसा :** हिंदेशिया (अ० रो० ए० सो० स्ट्रेट्स ब्रैच १९१०, पृ० २०) ।

**राक्षस :** रामकियेन (अध्याय २४) ।

५३४. अध्यात्म रामायण में कहा गया है कि सीता के सामने आते समय हनुमान् ने चटक पक्षी के बराबर आकार वाले छोटे वानर का रूप धारण किया (दे० ५, ३, २०) । आनन्द रामायण की एक कथा के अनुसार हनुमान् छोटे बालक के रूप में सीता के सामने प्रकट हुये (दे० ८, ७, २९) तथा हिकायत महाराज रावण के अनुसारी एक वृद्धा के रूप में । बलरामदास रामायण के अनुसार हनुमान् ने भ्रमर का रूप धारण कर सीता-रावण-संवाद सुना था । साधव कंबली के रामायण के अनुसार हनुमान् अशोकवाटिका-विध्वंस के पूर्व एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में रावण से मिलने गये थे (दे० अनु० ५५२) । धर्मजय-कृत गणकचरित्र में हनुमान् क्रमशः ज्योतिषी, भ्रमर, विडाल तथा फिर ज्योतिषी का रूप धारण कर लेते हैं (दे० अनु० ५४२) । युद्ध तथा उत्तरकाण्ड विषयक कथाओं में भी हनुमान् के छपवेषों का उल्लेख मिलता है (दे० ५९१, ५९६, ५९८, ६१४ और ७५७) ।

५३५. लंका-देवी । वाल्मीकि रामायण के एक प्रक्षेप में, जो केवल दक्षिणात्य पाठ में मिलता है, लंकादेवी राक्षसी के रूप में हनुमान् को रोक लेती है । हनुमान् से पराजित होकर वह कहती है कि स्वयंभू ने उससे कहा था—तुम्हारी पराजय के बाद राक्षसों का नाश होगा (दे० ३, २०-५१) ।

यह वृत्तान्त बाद की अधिकांश राम-कथाओं में मिलता है, किन्तु अर्वाचीन रचनाओं में इस वृत्तान्त में रामभक्ति का भी समावेश किया गया है । अध्यात्म रामायण (५, १, ५७) में लंका-देवी हनुमान् से कहती है—आज बहुत दिनों के बाद मुझे संसार-बंधन से मुक्त करने वाली राधव की स्मृति हुई है और उनके भक्त का अति-दुर्लभ सत्संग प्राप्त हुआ है । मैं धन्य हूँ । मेरे हृदय में विराजमान दशरथनन्दन

मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। उस रचना में तथा आनन्द रामायण (१, ९, २१) में भी लंका-देवी हनुमान् से सीता के रहने के स्थान का रहस्य प्रकट करती है। राम-चण्डिका (१३, ४४) में लंका-देवी हनुमान् से पराजित हो जाने के बाद सुन्दरी का रूप धारण कर लेती है—तजि बेह भई सब ही बर नारी। लंकादेवी-वृत्तान्त के दो अन्य रूप भी मिलते हैं।

५३६. पञ्चमचरित्रं (पर्व ५२) में हनुमान् लंका में प्रवेश करते समय बन्धुमुख का वध करते हैं और इसके बाद उसकी पुत्री लंकासुन्दरी से युद्ध करते हैं। अंत में दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होकर रात भर प्रेमक्रीडा करते हैं।

५३७. राम-कथाओं का एक वर्ग पाया जाता है जिसमें लंकादेवी के स्थान पर चण्डिका का उल्लेख किया गया है।

बृहद्धर्मपुराण (अध्याय २०) तथा महाभागवत पुराण (अध्याय ३९) के अनुसार हनुमान् शिव के अवतार है और देवी लंका में निवास करती है। लंका में पहुँचकर हनुमान् देवी के मन्दिर में जाकर उनसे लंका को त्याग देने की प्रार्थना करते हैं। सीता के अपमान के कारण रावण से अप्रसन्न होकर देवी लंका छोड़ देती है।

कृत्तिवासीय रामायण में लिखा है कि शंकर ने चामुण्डा को हनुमान् के आगमन तक लंका में निवास करने का शाप दिया था। गुजराती नर्मबद्धत रामायणसार में भी हनुमान् का उग्रचण्डिका से भेंट करने का उल्लेख किया गया है।

५३८. लंका में सीता की खोज। वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन किया गया है कि हनुमान् ने मुख्य राक्षसों के महलों में (सर्ग ६) तथा रावण के अंतःपुर में सीता की अमफल खोज की थी (सर्ग १०-११)। इस वृत्तान्त के अनुसार हनुमान् किसी से नहीं मिले और छिपकर अशोकवन में चले गये। बहुत सी परवर्ती राम-कथाओं में उम अवसर पर हनुमान्-विभीषण की भेंट का वर्णन किया गया है। विमलसूरिकृत पञ्चमचरित्रं (पर्व ५३) के अनुसार विभीषण ने लंका में हनुमान् का स्वागत किया था, तथा सीता को लौटा देने के लिये रावण से आग्रह करने की प्रतिज्ञा भी की थी। गुण-भद्र कृत उत्तरपुराण में हनुमान् सीता से ही मिलकर राम के पास लौटते हैं, और राम द्वारा पुनः लंका भेजे जाते हैं जहाँ वह पहले विभीषण से मिलते हैं। विभीषण रावण को समझाने की प्रतिज्ञा करता है और हनुमान् को रावण के पास ले जाता है। रावण सीता को लौटा देने से इनकार करता है और हनुमान् सीता को प्रणाम करने के बाद राम के पास लौटते हैं (पर्व ६८, ३९०-४३५)।



अर्वाचीन राम-कथाओं में विभीषण रामभक्त माना जाता है। आनन्द रामायण (१, ९, २४) में लिखा है कि रात को सीता की खोज करते हुये हनुमान् ने राम-कीर्तन में संलग्न विभीषण को देख लिया। भावार्थ रामायण (५, १), रामचरित-मानस, गुजराती रामायणसार तथा उत्तर भारत के एक वृत्तान्त (पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १३) में भी इस प्रकार का वर्णन मिलता है। रामचरितमानस के अनुसार विभीषण ने हनुमान् से बताया कि सीता कहाँ हैं। उपर्युक्त पाश्चात्य वृत्तान्त में विभीषण स्वयं हनुमान् को सीता के पास ले जाता है। काश्मीरी रामायण (नं० २९) के अनुसार नारद से हनुमान् की भेंट हुई थी और नारद ने हनुमान् को लंका की उत्पत्ति के विषय में बता दिया था (दे० अनु० ६४४ टि०)।

५३९. अनेक अर्वाचीन राम-कथाओं में हनुमान् रात को लंका में सीता की खोज करते हुये अनेक प्रकार के उत्पात करते हैं।

आनन्द रामायण के अनुसार हनुमान् ने दीपों को बुझा दिया, बहुत से राक्षसों तथा राक्षसियों को नग्न किया, घड़ों को फोड़ डाला (१, ९, २५-२७) तथा अन्न में रावण के वस्त्र विभीषण के पलंग पर रख दिये तथा गय नामक राजस के वस्त्र रावण के पलंग पर (दे० १, ९, ६२-६३)। तत्त्वसंग्रह रामायण (५, ३) के अनुसार हनुमान् रावण तथा उसकी पत्नियों के सब वस्त्र समेट कर ले गये थे। दक्षिण भारत की एक राम-कथा में हनुमान् मन्दोदरी के बाल पलंग के खम्भे में बाँधते हैं, उसके आभरण चुराते हैं, रावण की छाती पर बैठ जाते हैं तथा दीपक बुझाकर चले जाते हैं (दे० पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १, पृ० ९६)। रामकेसि (सर्ग ६) और रामजातक में हनुमान् रावण तथा मन्दोदरी के बाल साथ-साथ बाँधते हैं और मंत्र पढ़कर लिखते हैं कि जब तक मन्दोदरी रावण के सिर में धुपड़ न मारे कोई भी गाँठ नहीं खोल सकेगा। इस प्रकार के उत्पातों के उल्लेख रामकियेन तथा सेरीराम के पातानी पाठ में मिलते हैं, जब हनुमान् युद्ध के समय छिपकर लंका में प्रवेश करते हैं (दे० अनु० ५९६)। पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १ के अनुसार हनुमान् ने लंका में सीता की खोज करते समय रावण का बन्द्रहास नामक खंग चुराया था। भावार्थ रामायण (५, ३) के अनुसार हनुमान् ने सब के देखते-देखते उत्पात मचाया था तथा रावण की सभा के दीपकों को बुझाया था।

## ख । सीता-रावण-संवाद

५४०. बात्मीक रामायण के अनुसार हनुमान् ने सीता को लंका में न पाकर अशोकवन में प्रवेश किया था और वहाँ सीता को देखा (सर्ग १३-१७)। उसी रात्रि

के अन्त में रावण अपनी पत्नियों के साथ सीता के दर्शन करने आए तथा उसने दीनता-पूर्वक सीता से निवेदन किया कि वह उसे पति के रूप में स्वीकार करें। सीता ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार<sup>१</sup> करते हुये रावण को परामर्श दिया कि मुझे राम के पास पहुँचा दो, नहीं तो राम निश्चय ही तुम्हारा वध करेंगे। इस पर रावण ने क्रुद्ध होकर कहा कि निर्धारित अवधि (दे० ऊपर अनु० ५००) के दो मास रह गए; यदि तुम इसके बाद स्वेच्छा से मेरी पत्नी नहीं बनोगी तो रसोद्भय तुम्हारा शरीर काट कर मेरे प्रातः के भोजन के लिए तैयार करेंगे :

द्वी मासौ रक्षितव्यौ मे योऽवधिस्ते मया हृतः ।

ततः शयनमारोह भ्रम त्वं वरवर्णिनि ॥८॥

द्वाम्यामूर्ध्वं तु मासान्यां भर्तारं मामलिच्छन्तीम् ।

मम त्वां प्रातराशार्थं सूवाऽच्छेत्स्यन्ति क्षण्डतः ॥९॥ सर्ग २२ ॥

यह कहकर रावण ने पहरा देनेवाली राक्षसियों को आदेश दिया कि वह सीता को उनके वश में लाने का प्रयत्न करती रहे। तब धान्यमालिनी नामक राक्षसी ने रावण का आलिगन किया तथा सीता को त्यागकर अपने साथ रमण करने का निवेदन किया। इसके बाद रावण देव-गंधर्व-नाग-कन्याओं के साथ अपने महल लौटे (सर्ग १८-२२)।

५४१. वात्सीकि रामायण में रावण के अशोकवन में आगमन का कारण उसकी कामवासना ही मानी गई है (दे० १८, ५)। पञ्चमचरियं (पर्व ५३) के अनुसार हनुमान् ने सीता की गोद में राम की मुद्रिका फेंक दी थी, उसे देखकर सीता को आनन्द हुआ। सीता के प्रसन्न होने के विषय में सुनकर मन्दीदरी तुरन्त उनके पास आकर अनुरोध करने लगी कि वह रावण को पतिस्वरूप ग्रहण करे।<sup>२</sup> सीता ने अस्वीकार किया जिससे मन्दीदरी क्रुद्ध होकर उन्हें मारने के लिए उद्यत हुई। हनुमान् ने प्रकट होकर मन्दीदरी को रोक दिया और मन्दीदरी ने जाकर रावण को यह समाचार दिया कि हनुमान् आ गए हैं।

१. दाक्षिणात्य तथा पश्चिमोत्तरीय पाठ के अनुसार सीता ने अपने तथा रावण के बीच में तृण रखा था; "तृणमन्तरतः कृत्वा" (५, २१, ३)। पहले-पहल लंका में पहुँचकर सीता ने रावण को उत्तर देने के पूर्व ऐसा ही किया था (दे० ३, ५६, १)। अरण्यकाण्ड का उल्लेख मौलिक है तथा तीनों पाठों में मिलता है; यहाँ पर इसकी आवृत्ति प्रक्षिप्त है क्योंकि गौडीय पाठ के समानान्तर सर्ग में (५, २३) इसका उल्लेख नहीं होता।

२. रविषेण के पद्यचरित में रावण उस अवसर पर मन्दीदरी को सीता के पास भेज देता है।

अध्यात्म रामायण, आनन्द रामायण (१, ९, ६९) तथा तत्त्वसंग्रह रामायण (५, ४) में रावण के आगमन का एक नया कारण दिया गया है। अध्यात्म रामायण (५, २, १५-१९) की तत्संबन्धी कथा इस प्रकार है। रावण उत्सुकतापूर्वक राम की प्रतीक्षा करता था क्योंकि उसे विष्णु के हाथ से मरकर मुक्ति की तीव्र अभिलाषा थी। उसी दिन रावण ने स्वप्न में देखा कि राम का सन्देश लेकर कोई कामरूपी वानर वृक्ष की शाखन पर बैठकर सीता को देख रहा है। रावण ने सोचा कि यह स्वप्न संभवतः सच है। अतः उसने निश्चय किया कि मैं अब अशोकवन जाकर सीता को अपने वाग्वाणों से बंधकर दुःख पहुँचा दूँ जिससे वानर यह सब देखकर राम को सुनावे और मुझे शीघ्र ही मुक्ति मिल जाय।

धर्मलक्षण (अध्याय १०५) तथा तत्त्वसंग्रह रामायण (५, ४) में हनुमान् सीता-रावण-संवाद के अन्त में रावण को भगा देते हैं। धर्मलक्षण में रावण सीता को चन्द्रहास से मार डालना चाहता है किन्तु मन्दीदरी उसको रोक देती है और हनुमान् प्रकट होकर रावण की छाती पर मुष्टि प्रहार करते हैं जिससे रावण भयभीत होकर भाग जाता है। तत्त्वसंग्रह रामायण के अनुसार भी हनुमान् ने विशालकाय रूप धारण कर रावण की छाती पर प्रहार कर उसे भगा दिया था। प्रसन्नराजब (अंक ६, ३४) में यह माना गया है कि जब रावण सीता का वध करने पर उतारू हो गया था तब हनुमान् ने रावण के हाथ में अक्षयकुमार का मस्तक रख दिया था जिसे देखकर रावण मूर्च्छित होकर भूमि पर गिर गया था। बाद में सचेत होकर वह हनुमान् को पकड़ने के लिये सीता को छोड़कर चला गया।

५४२. बाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ने सीता को प्रलोभन देने के उद्देश्य से उनको लंका का वन दिखाया था (दे० अनु० ५००) तथा बाद में दीनता-पूर्वक उनसे निवेदन किया था कि वह उसे पति के रूप में ग्रहण करें (दे० अनु० ५४०)। परवर्ती रचनाओं के अनुसार रावण ने सीता को विचलित करने के लिये अनेक उपायों का सहारा लिया था। गुणभद्र के उत्तरपुराण (६८, ३२१-३२८) में मंजरिका नामक रावण की दूती की चर्चा है, जिसने सीता को विचलित करने का असफल प्रयत्न किया था। असमीया गणकचरित में रावण की एक अन्य युक्ति का वर्णन किया गया है; कथावस्तु इस प्रकार है। रावण ने एक मायामय राम और लक्ष्मण की सृष्टि की और उनके साथ अशोकवन में प्रवेश किया। रावण चाहता था कि वे मायामय

१. पञ्चमचरिय के अनुसार रावण ने सीता को लंका में पहुँचाकर उनको अपने वध में करने के लिए माया का सहारा लिया था (दे० अनु० ५००); युद्ध के समय की युक्तिबर्णों का वर्णन अनु० ५८३ में किया गया है।

राम-लक्ष्मण रावण को पति स्वरूप ग्रहण करने का सीता से अनुरोध करें। इतने में हनुमान् चम्प्रपुर के ज्योतिषी के रूप में लंका में प्रवेश कर गये; बाद में वह भ्रमर बनकर और मालिनी के फूलों पर बैठकर मन्दोदरी के महल में पहुँच गए। मन्दोदरी के यहाँ हनुमान् ने विडाल का रूप धारण कर लिया; मन्दोदरी ने उस विडाल को खिलाया किन्तु वह उसका माणिक्य छीनकर तथा उसके स्तनों पर नखक्षत करके भाग गया। तब हनुमान् ज्योतिषी के रूप में उस समय अशोकवन में जा पहुँचे जब माया-राम रावण से जीवन की भिक्षा माँग रहा था। रावण को ज्योतिषी के गले में मन्दोदरी का कण्ठमाणिक्य देखकर आश्चर्य हुआ। हनुमान् ने उससे कहा— मुझे यह माणिक्य एक गंधर्व से मिला था जिसने मन्दोदरी के साथ अनुचित सबध रखा है तथा उसके स्तनों पर नखक्षत किया है। इस पर रावण ने क्रुद्ध होकर ज्योतिषी को पकड़ लिया तथा उससे कहा—यदि तुम्हारा अभियोग सच निकला तो इनाम मिलेगा; नहीं तो मैं तुम्हारा वध करूँगा। हनुमान् का कथन सच निकला; बाद में वह सीता के पास आए तथा उनका समाचार लेकर राम के पास लौटे। उस वृत्तान्त के अन्त में मन्दोदरी के सतीत्व का प्रभाव वर्णित है। रावण के तिरस्कार के कारण विरक्त होकर वह नारायण की स्तुति किया करती थी। बाद में उसने अपने सतीत्व की शपथ खाकर भूकम्प उत्पन्न किया, सूर्य को रोक लिया तथा इन्द्र द्वाग पुष्प-वृष्टि कराई। यह सब देखते हुये भी रावण का सन्देह दूर नहीं हुआ। मन्दोदरी की अग्नि-परीक्षा के लिए आग जलाई जा चुकी थी कि दुबरी नामक स्त्री ने आकर रावण को विश्वास दिलाया कि हनुमान् का अभियोग मिथ्या है। मन्दोदरी ने अन्त में रावण से यह अनुरोध किया—“तुमने सीता का अपहरण किया है, इसीलिये हनुमान् ने मेरा अपमान किया है। सीता को लौटाओ।”

बिहौर नामक आदिवासियों की राम-कथा (दे० अनु० २७२) में यह माना गया है कि सीता ने रावण के बलात्कार से बचने के लिये जाड़ु द्वारा अपने शरीर में भयंकर फोड़े उत्पन्न किए थे। रावण के अपेक्षाकृत अच्छे व्यवहार के कारणों का विरलेषण ऊपर हो चुका है (दे० अनु० ५००)।

५४३. वाल्मीकि रामायण के सीता-रावण संवाद के अन्तर्गत (सर्ग १८-२२) मन्दोदरी का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। सुन्दरकाण्ड के प्रक्षिप्त सर्ग ५८ में हनुमान् वानरों के लिए पुनः लंका की घटनाओं का वर्णन करते हैं। सीता-रावण-संवाद के विषय में यह कहते हैं कि सीता के अपमानजनक शब्द सुनकर रावण उन्हें मारने के लिये उद्यत हुआ किन्तु मन्दोदरी ने उसे रोक लिया तथा अपने साथ क्रीड़ा करने का रावण से अनुरोध किया था। इस वृत्तान्त के आधार पर बहुल-सी परवर्ती

रचनाओं में यह माना गया है कि मन्दोदरी सीता-रावण-संवाद के समय अशोकवन में उपस्थित थी; उवा० —रंगनाथ रामायण (५, ७); धर्मलण्ड (अध्याय १०५); अध्यात्म रामायण (५, २, ३८); आनन्द रामायण (१, ९, ८४); भावार्थ रामायण (५, ८); तोरवे रामायण (५, ३); रामचरितमानस (५, १०); आश्चर्य चूडामणि (अंक ५)। इन अधिकांश रचनाओं में मन्दोदरी रावण को सीता-वध करने से रोक लेती है। बलरामदास रामायण के अनुसार त्रिजटा ने उस अवसर पर रावण को रोका था।

काश्मीरी रामायण के अनुसार रावण ने हरण के बाद ही सीता को मन्दोदरी की देखरेख में छोड़ दिया था (दे० अनु० ५००)। गुणमद्र के उत्तरपुराण (६८, ३२८-३६४) के अनुसार रावण अपनी दूती मंजरिका के असफल प्रयत्न के पश्चात् स्वयं सीता के पास आकर अनुनय-विनय करने लगा। सीता का तिरस्कार-पूर्ण उत्तर सुनकर रावण को क्रोध आया था किन्तु मन्दोदरी ने उसे शान्त कर दिया तथा उसे स्मरण दिलाया कि सती स्त्रियों का अपमान करने से आकाशगामिनी आदि विद्याएँ नष्ट हो जाती हैं। इसपर रावण अपने महल में लौटा; मन्दोदरी सीता के पास आई तथा यह देखकर कि मेरा स्नेह बढ़ रहा है और मेरे स्तनों से दूध झर रहा है, उसने अनुमान किया कि यह मेरी पुत्री है जिसे मैंने जन्म के बाद ही छोड़ दिया था (दे० अनु० ४१२)। मन्दोदरी ने सीता से अनुरोध किया कि चाहे मरना ही क्यों न पड़े किन्तु रावण का मनोरथ पूर्ण मत करना। तब उसने यह कहकर सीता को भोजन के लिये बाध्य किया कि यदि तुम नहीं खाओगी तो मैं भी उपवास करूँगी। मन्दोदरी के चले जाने के बाद हनुमान् ने अपने को सीता के सामने प्रकट किया।

५४४. प्रामाणिक वाल्मीकि रामायण में रावण-वध के पूर्व मन्दोदरी के हस्तक्षेप का कहीं भी उल्लेख नहीं था। सुन्दरकाण्ड के एक प्रसंग के अनुसार (जो तीनों पाठों में मिलता है) मन्दोदरी ने सुन्दरकाण्ड की घटनाओं के समय रावण को सीता-वध करने से रोका था (दे० ऊपर अनु० ५४३)। उदीच्य पाठ में इसका वर्णन मिलता है कि मन्दोदरी ने प्रहस्त-वध के बाद रावण से अनुरोध किया कि वह राम से युद्ध न करे क्योंकि राम मनुष्य-मात्र नहीं है (दे० अनु० ५५८)। इसके अतिरिक्त पश्चिमोत्तरीय पाठ में रावण के यज्ञध्वंस के प्रसंग में मन्दोदरी के केशग्रहण का वर्णन किया गया है (दे० अनु० ५९७)। उत्तरकाण्ड (सर्ग १२) में मन्दोदरी के रावण के साथ विवाह का भी वर्णन किया गया है (अनु० ६५०)।

परवर्ती राम-साहित्य में मन्दोदरी को कथानक में अधिक स्थान मिला है। सीता की बहुत-सी जन्म-कथाओं में वह सीता की माँ मानी गई है (दे० अनु० ४१२-४१३)।

४१७; ४२०-४२१); सीताहरण के बाद (दे० अनु० ५००) तथा सीता-संभोग-संवाद (दे० अनु० ५४१-५४३) के समय मन्दीदरी विषयक सामग्री का निरूपण हो चुका है।

युद्धकाण्ड के कथानक में भी मन्दीदरी के हस्तक्षेप का अनेक रचनाओं में वर्णन किया गया है। पञ्चमखण्ड (७०, ३१) के अनुसार अंतिम युद्ध के ठीक पहले मन्दीदरी ने रावण के सामने यह प्रस्ताव रखा था कि मैं सीता को लेकर राम के पास जाऊँ। भावार्थ रामायण (६, ५५) में इन्द्रजित्-वध के बाद रावण मन्दीदरी की घमकी देकर बाध्य करता है कि वह असोकवन में जाकर रावण की इच्छा पूरी करने का सीता से अनुरोध करे। बहुत-सी अर्वाचीन रचनाओं में मन्दीदरी ने उसी समय रावण को सीता का वध करने से रोका था (दे० अनु० ५९३)। अष्टमाध्याय रामायण (६, १०, ४४) तथा आनन्द रामायण (१, ११, २४१-२४२) में मन्दीदरी रावण के यश-विध्वंस के बाद फिर अपने पति से सीता को लौटाने का अनुरोध करती है। राक्षस-चरितमानस में मन्दीदरी को रामचक्रवर्तिन के रूप में चित्रित किया गया है, वह अपने पति को तीन विभिन्न अवसरों पर भगवान् की शरण लेने का उपदेश देती है (सुन्दर काण्ड ३६, युद्धकाण्ड १४-१६ और ३५)। रामकथेन में मन्दीदरी के सजीवन-यश का भी वर्णन किया गया है (दे० अनु० ५९७)।

वाल्मीकीय युद्धकाण्ड (सर्ग १११) में रावण-वध के पश्चात् मन्दीदरी के विलाप का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है किन्तु आदिकाव्य मन्दीदरी के उत्तरचरित के विषय में मौन है। आनन्द रामायण और भावार्थ रामायण (६, ५५) के अनुसार मन्दीदरी रावण के वध के बाद सती बन गई थी—तब मन्दीदरी भर्त्सा सह बेहूँ विसृज्य सा द्यौः बंकुण्ठभवनं रावणेन मुबान्विता।<sup>१</sup> अनेक राम-कथाओं में मन्दीदरी और विभीषण के विवाह का उल्लेख मिलता है (दे० अनु० ५७२)।

काश्मीरी रामायण (युद्धकाण्ड, ५४) तथा असौही रामायण (अनु० ३०९) के अनुसार मन्दीदरी रावणवध के बाद सीता को राम के पास ले गई थी किन्तु कृति-वास ने माना है कि जब सीता सुवर्ण पालकी में बैठकर राम से मिलने जा रही थी उस समय मन्दीदरी ने सीता को यह शाप दिया था—तुम्हारे कारण मैंने अपने पति को खो दिया है। तुम्हारा भी आनन्द अष्टमक निरानन्द बन जायगा (६, ११४)।

मन्दीदरी की सृष्टि तथा विवाह विषयक सामग्री रावण-चरित के अन्तर्गत रखी गई है (दे० अनु० ६५०)। काश्मीरी रामायण के अनुसार मन्दीदरी वास्तव में

१ दे० आनन्द रामायण, सारकाण्ड ११, २८५। काश्मीररामायण (६, ५५) के कुछ संस्करणों में भी मन्दीदरी के सती हो जाने की कथा मिलती है।

एक अक्षरा भी जो रावण के विनाश के लिये पृथ्वी पर आई थी (दे० युद्धकाण्ड, ५३)।

### ग। त्रिजटा-चरित

५४५. वाल्मीकि रामायण के अनुसार त्रिजटा एक बूढ़ी राक्षसी<sup>१</sup> थी जो सीता का चरित्र देखकर उनकी ओर आकर्षित हुई थी और जिसने दो अवसरों पर सीता को सान्त्वना दी थी।

सुन्दरकाण्ड (सर्ग २७) का प्रसंग इस प्रकार है। रावण के चले जाने के बाद राक्षसियाँ सीता को डराने लगी थीं। त्रिजटा उन्हें डाँटकर कहने लगी कि मैंने एक भयानक स्वप्न देखा है जो राक्षसों का नाश तथा राम की विजय सूचित करता है। अमन्तर उसने विस्तार-पूर्वक इस स्वप्न<sup>२</sup> का वर्णन किया तथा अन्त में राक्षसियों से अनुरोध किया कि वे सीता से क्षमा माँग लें। सीता ने सबों को अभयदान दिया।

युद्धकाण्ड में जब इन्द्रजित् ने राम तथा लक्ष्मण को नागपाश में बँधा था (दे० अनु० ५८६) तब रावण ने सीता तथा त्रिजटा को पुष्पक पर बैठाकर रणभूमि में निस्सहाय पड़े हुये राम और लक्ष्मण को दिखलाया। सीता दोनों को मृत समझकर करुण विलाप करने लगी किन्तु त्रिजटा ने सीता को आश्वासन दिया कि राम और लक्ष्मण जीवित ही हैं। उस सर्ग में त्रिजटा ने सीता के प्रति अपने स्नेह का उल्लेख किया—स्नेहावेतद् ब्रवीमि ते (४८, २८), चारित्र्यसुखशीलत्वात्प्रविष्टासि मर्त्यमम (४८, २९)। रामायण ककचिन (सर्ग २१) के अनुसार सीता राम को शरपाश में बँधा हुआ देखने के बाद त्रिजटा से चिन्ता तैयार करने का निवेदन करती हैं किन्तु त्रिजटा अपने पिता विभीषण से मिलने जाती है और राम के कुशल-सोम का शुभ समाचार लेकर लौटती है।

५४६ त्रिजटा-चरित का परवर्ती विकास समझने के लिये सीता की अन्य हितैषिणी राक्षसियों से सबध रखने वाली सामग्री का निरूपण आवश्यक है।

१. "राक्षसी त्रिजटा वृद्धा" (५, २७, ४)। महाभारत (३, २६४, ४) में उसे "धर्मज्ञा प्रियवादिनी" कहा गया है।
- २ परवर्ती साहित्य में त्रिजटा के स्वप्न का कोई विशेष विकास परिलक्षित नहीं होता। स्वयम्भूदेवकृत पञ्चमचरित (५०, ८) तथा कृत्तिवास के रामायण (५, १५) के अनुसार त्रिजटा ने स्वप्न में हनुमान् का आगमन, लका-दहन आदि देखा था।

वाल्मीकीय सुन्दरकाण्ड में विभीषण की पत्नी तथा पुत्री की चर्चा है। सीता इनके विषय में हनुमान् से कहती है कि कला नामक विभीषण की ज्येष्ठा पुत्री ने अपनी माता के आदेशानुसार मुझसे कहा है कि विभीषण तथा अविष्य<sup>१</sup> के सत्परायणों की अवज्ञा करके रावण ने सीता को लौटाना हठपूर्वक अस्वीकार कर दिया है (५, ३७)। विभीषण की इस पुत्री के नाम के विषय में मर्तव्य नहीं है। उदीच्य पाठ के अनुसार इसका नाम मन्था था (गौ० रा० ५, ३५, १२; प० रा० ४, ३४, ११) और टीकाकार गोविन्दराज के पाठ में (५, ३७, ११) तथा जानकी परिणय में कला के स्थान पर अनला नाम मिलता है।<sup>२</sup>

सीता की अन्तिम हितैषिणी सरमा का उल्लेख वाल्मीकि रामायण के प्रामाणिक सर्गों में नहीं मिलता। युद्धकाण्ड के एक प्रक्षेप के अनुसार (दे० अनु० ५८३) रावण ने सीता को विचलित करने के उद्देश्य से सीता को राम का मायाशीर्ष दिखलाया था किन्तु सरमा ने सीता के पास आकर रावण के छल-कपट का रहस्य प्रकट किया। इसके बाद सरमा ने सीता को यह शुभ समाचार दिया कि राम समुद्र पार कर लका के निकट आ पहुँचे हैं। उसने राम के पास सीता का सन्देश ले जाने का प्रस्ताव किया किन्तु सीता ने यह निवेदन किया—“भरे विषय में रावण के निर्णय का पता लगाकर आओ।” सरमा ने ऐसा ही किया और वह सीता के पास यह समाचार लेकर आई कि रावण अपनी माता और सभासदों का अनुरोध ठुकराकर सीता को लौटाना अस्वीकार करता है। सरमा के विषय में लिखा है कि वह सीता की ‘प्रणयिनी’ सखी है जिसके साथ सीता ने मित्रता की थी (सा हि तत्र कृता मित्रं सीतया; ६, ३३, ३)। उदीच्य पाठ (गौ० रा० ५, ५२; प० रा० ५, ५१) में सरमावाक्यम् नामक सर्ग पाया जाता है जिसमें सरमा सीता के लिये लकादहन का वर्णन करती है।<sup>३</sup>

१. अविष्य के विषय में अनु० ४९ देख लें। विभीषण-संबंधी सामग्री अनु० ५६८-५७२ में सकलित है।
२. उत्तरकाण्ड में एक अन्य अनला नामक राक्षसी का उल्लेख है जो माल्यवान की पुत्री, विभीषण की मौसी (७, ५, ३६) तथा कुंभनसी की माता (७, २५, २४) है।
३. कल्किपुराण (३, १७, ४०) में कहा गया है कि सीता ने सरमा के साथ हविमणी व्रत का पालन किया था। महाभारत के रामोपाख्यान अथवा पउमचरिय में कहीं भी सरमा का उल्लेख नहीं है। आनन्द रामायण (१, १२, ४४) के अनुसार सरमा तथा त्रिजटा दोनों ने सीता के साथ पुष्पक पर अयोध्या की यात्रा की थी।



उपर्युक्त दोनों वृत्तान्तों में सरमा तथा विभीषण के किसी सम्बन्ध का संकेत मात्र भी नहीं किया गया है। सुन्दरकाण्ड में सीता-हनुमान्-संवाद के अन्तर्गत सीता-हितकारिणी के रूप में विभीषण की पत्नी का उल्लेख था; बाद में सीता की प्रिय सखी सरमा के उपकारों का वर्णन मिलता था; अतः उत्तरकाण्ड के व्यासों ने सरमा को विभीषण की पत्नी घोषित कर दोनों को अभिन्न माना है। उत्तरकाण्ड के अनुसार 'धर्मज्ञा' सरमा गंधर्वराज शैलूष की पुत्री है; इसके नाम की व्युत्पत्ति के विषय में कहा गया है कि उसने मानस नामक सरोवर के तट पर जन्म लिया था। वर्षा के कारण सरोवर की बाढ अपने तक आते देखकर शिशु रोने लगा था जिसपर उसकी माँ ने कहा था—'सरो वा वर्षत' और इसलिये शिशु का नाम 'सरमा' ही रखा गया था (७, १२, २४-२७)।

सरमा नाम के विषय में कृत्तिवास ने एक अन्य कल्पना की है। उन्होंने सरमा को लंका में सीता की एकमात्र हितैषिणी मानकर लिखा है—सीता ओ सरमा जेव बुद्धि भगिनी। हनुमान् के प्रकट होने के पूर्व सरमा सीता से मिलने आई थी; उस अवसर पर सीता ने सरमा से कहा—मै रमा हूँ, मेरे ही कारण तुम्हारा नाम सरमा रखा गया है (कृत्तिवास रामायण ५, १६)।

५४७. (१) रामायण अथवा महाभारत में कहीं भी विभीषण और त्रिजटा के किसी संबंध का निर्देश नहीं मिलता। परवर्ती साहित्य में सीता के प्रति कला तथा सरमा के उपकारों का श्रेय त्रिजटा को दिया गया; फलस्वरूप त्रिजटा को विभीषण की पुत्री अथवा उसकी पत्नी माना गया है। बहुत-सी रचनावों में त्रिजटा का विभीषण की पुत्री के रूप में उल्लेख मिलता है; उदाहरणार्थ—गोविन्दराज की टीका (५, २७, ४); कव रामायण (५, ६); बलरामदास रामायण, रामायण कफविन; सेरीराम। आनन्द रामायण के रचयिता ने त्रिजटा को विभीषण की पत्नी माना है—त्रिजटा नाम्नी विभीषणप्रियाणुया (१, ९, १०१)। वसुदेवहिण्डि तथा भावार्थ रामायण (५, १०) में त्रिजटा का विभीषण की बहन के रूप में उल्लेख हुआ है। रामकियेन (अध्याय २५) के अनुसार रावण ने विभीषण को निर्वासित कर उसकी पत्नी त्रिजटा को सीता की सेवा में नियुक्त किया था।

(२) महाभारत के रामोपाख्यान के अनुसार सीता ने हनुमान् से कहा था कि त्रिजटा ने मुझे अविध्य का यह सन्देश दिया—“राम तथा लक्ष्मण सकुशल हैं और वे वामर-सेना लेकर तुम्हें छुड़ाने आ रहे हैं। रावण से मत डरना क्योंकि नलकूबर के क्षाप के कारण वह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है (दे० ३, २६४, ५८)। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता ने उस अवसर पर कला नामक विभीषण की

पुत्री की चर्चा की है।<sup>१</sup> त्रिजटा के स्वप्न के प्रसंग के अतिरिक्त महाभारत के एक अन्य स्थल पर भी त्रिजटा का उल्लेख है; रावण-वध के बाद लंका से चले जाते समय राम ने त्रिजटा को अर्घ्य और सम्मान प्रदान किया था—त्रिजटां चार्घ्यानाम्नां योजयामास राक्षसीम् (३, २७५, ३९)।

(३) रघुबंध (१२, ७४), सेतुबंध (सर्ग ११), बलरामदास रामायण, रामायण कवचिन (सर्ग १७), सेरीराम आदि रचनाओं में राम के आवासीय के प्रसंग में त्रिजटा ही सरमा का स्थान लेती है (दे० अनु० ५८३)। प्रसन्नराघव (अंक ६) में त्रिजटा सीता के निवेदन पर आकाश में स्थित होकर (क्षेत्री भूत्वा) मेघनाद द्वारा हनुमान् के बंधन तथा लंकादहन का वर्णन करती है। उदीच्य पाठ में इस प्रसंग में सरमा की चर्चा है।<sup>२</sup> इस प्रकार हम देखते हैं कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार विभिन्न राक्षसियों ने सीता के लिये जो कुछ भी किया था, वह सब बाद में त्रिजटा का ही उपकार माना गया है। राम-कथा के कवियों ने इतने ही से सन्तोष न लेकर कथानक में त्रिजटा का स्थान और महत्त्वपूर्ण बना दिया है।

(४) प्रचलित वाल्मीकि रामायण के एक प्रक्षिप्त सर्ग में सीता के आत्महत्या-विचार का उल्लेख है (५, सर्ग २८)। प्रसन्नराघव तथा रामचरितमानस के अनुसार त्रिजटा ने इस अवसर पर सीता की रक्षा की थी (दे० अनु० ५४८)। परवर्ती साहित्य में राम के मायाशीर्ष तथा नागपाशबंधन के प्रसंग में भी त्रिजटा द्वारा सीता के आत्म-हत्या-विचार दूर करने की कथा मिलती है (दे० अनु० ५८३ और ५८६)। बल-रामदास रामायण के अनुसार त्रिजटा ने दो अन्य अवसरों पर भी सीता के जीवन की रक्षा की थी (दे० अनु० ५४३ और ५९३)।

(५) वाल्मीकि युद्धकाण्ड के अनुसार सरमा ने सीता का गुप्तचर बनकर उन्हें रावण-सभा की बातों का समाचार दिया था। परवर्ती साहित्य के अनुसार त्रिजटा ने न केवल इसी अवसर पर किन्तु युद्ध छिड़ जाने के बाद भी सीता को समय-समय पर घटनाओं से अवगत कराया था। जालरामायण (अंक ८) में इसका वर्णन मिलता है कि त्रिजटा ने सुमुख तथा दुर्मुख की सहायता से नरातक-वध, कुम्भकर्ण-आग्रण

१ कम्ब रामायण (५, ६) में भी सीता हनुमान् से कहती है कि विभीषण की पुत्री त्रिजटा ने मुझे रावण को दिए हुये शाप से अवगत किया है। यदि रावण उसके साथ मिलने की इच्छा न रखने वाली स्त्री का स्पर्श करे तो बहुर सर जायगा। बलरामदास के अनुसार सीता ने हनुमान् से कहा था—यदि मैं आज जीवित हूँ, इसका अर्थ त्रिजटा को है।

२. इसका उल्लेख कम्ब रामायण (५, ६) में भी मिलता है।

शका इन्द्रजित् के विभुशिक्षा-अवेस का समाचार सीता को पहुँचा दिया था। आत्मव्य-सम्पन्न (१, ११, १९७) के अनुसार इन्द्रजित्-वध के पश्चात् लक्ष्मण का लक्ष-नाद सुनकर सीता ने त्रिजटा को भेज दिया था और उससे युद्ध का समाचार सुनकर असभ हुई थी। राम-भक्तिसम्पन्न से भी इसका वर्णन मिलता है कि त्रिजटा ने मेघ-नाद-वध के बाद सीता के पास आकर युद्ध का समाचार सुनाया तथा राम की विजय का आश्वासन दिया था (दे० अनु० ५९८)। इसके अतिरिक्त तुलसीदास ने त्रिजटा को राम-भक्तितम माना है—राम-वस्त रति निपुण किंबोका (दे० ५, ११, १)। भाषार्थ रामायण (६, ७१) में भी राम-भक्ति के कारण त्रिजटा की प्रसादा की गई है।

बालरामायण (अंक १०) तथा आनन्द रामायण (१, १२, ४४) के अनुसार त्रिजटा ने सीता के साथ बुध्बक पर चढ़कर अयोध्या की यात्रा की थी।

(६) जैनी रामसाहित्य की प्राचीनतम रचनाओं में अर्थात् पउमचरिय, रवि-पेणकृत पद्यचरित तथा गुणभद्रकृत उत्तरपुराण में त्रिजटा का उल्लेख नहीं मिलता। स्वयम्भूदेवकृत पउमचरिउ (४९, १०) में त्रिजटा सीता की हितैषिणी नहीं मानी गई है। इस रचना के अनुसार सीता हनुमान् द्वारा फेंकी हुई राम-मूर्तिका देखकर जब आनन्दित हो उठती है तब त्रिजटा रामण के पाम बौध कर जाती है और यह कहती है “आज आपका जीवन सफल है, आज आपकी प्रतिज्ञा पूरी होगी, मृष्टारिका सीता हँस रही है”। हेमचन्द्र की रचनाओं में भी इस तरह का उल्लेख मिलता है (योगशास्त्र २०३ तथा रामायण ६, ३३३)। इसके अतिरिक्त हेमचन्द्र ने माना है कि सीता को उपवन में रखने के बाद रावण ने सीता को प्रलोभन देने के लिये त्रिजटा को ही नियुक्त किया था (योगशास्त्र ११७)। कृतिवास रामायण (५, १४) के अनुसार त्रिजटा ने सीता से अनुरोध किया था कि वह रावण की शरण लेकर रुका की पटसानी बन जाए।

(७) भारत की अपेक्षा हिन्दैशिया के राम-साहित्य में त्रिजटा को अधिक महत्त्व दिया गया है। रामायण ककबिन में त्रिजटा-चरित इस प्रकार है। सीता-रावण-संवाद के बाद ३०० राक्षसियाँ सीता को सताने और धमकी देने लगीं, एक ही त्रिजटा नामक राक्षसी ने सीता का पक्ष लिया। त्रिजटा की सहानुभूति पाकर सीता ने उसे अपने दुर्भाग्य की कथा सुनाई। बाद में दोनों मिलकर मंदिर में प्रार्थना करने गईं (सर्ग ८)। राम-लक्ष्मण के मायामय शीर्ष देखकर सीता अग्नि में प्रवेश करने की तैयारियाँ करने लगीं, और त्रिजटा ने उनका साथ देने का निश्चय किया किन्तु वह पहले अपने पिता विभीषण को इसकी सूचना देने चली गई और सुबेल पर्वत पर अपने पिता से मिलकर

यह शुभ समाचार लेकर लौटी कि राम और लक्ष्मण दोनों जीवित हैं। अनन्तर सीता ने राम-विजय के लिये अग्नि से प्रार्थना की; तब वह त्रिजटा और अन्य कुमारियों के साथ खेलने लगीं किन्तु उनका मन राम पर ही लगा रहता था (सर्ग १७)। शरपाद्य में राम को बैधा हुआ देखकर सीता ने त्रिजटा से चिंता तैयार करने का निवेदन किया, किन्तु त्रिजटा ने अपने पिता से मिलकर सीता को आश्वासन दिया है कि राम सकुशल है (सर्ग २१)। अग्नि-परीक्षा के समय त्रिजटा ने सीता के सतीत्व का साक्ष्य दिया तथा वह बाद में सीता के साथ अयोध्या चली आई (सर्ग २४)। सीता द्वारा त्रिजटा की विदाई का वर्णन अन्तिम सर्ग में किया गया है।

सेरीराम में विभीषण की पुत्री त्रिजटा को सीता पर पहरा देने वाली राक्षसियों की अध्यक्षता माना गया है। राम-लक्ष्मण का माया-शीर्ष देखकर सीता आत्महत्या करना चाहती थीं; उस समय त्रिजटा ने राम के पास जाकर सीता को प्रमाण दिया कि राम जीवित ही हैं (दे० अनु० ५८३)। सेरत काण्ड में त्रिजटा तथा जाम्बवान के विवाह का भी उल्लेख किया गया है।

### घ । सीता-हनुमान्-संवाद

५४८. वाल्मीकि रामायण के एक प्रशिष्ट अंश के अनुसार (सर्ग २८-२९) हनुमान् के आगमन के ठीक पहले सीता आत्महत्या करने का विचार कर रही हैं।<sup>१</sup> विष अथवा किसी तीक्ष्ण शस्त्र के अभाव में वह अपनी बेणी से फाँसी लगाने के विचार से अशोकवृक्ष के पास जाती हैं। इसकी एक शाखा पकड़कर वह राम-लक्ष्मण तथा अपने कुल के विषय में सोचने लगती हैं; उसी समय उनके शरीर में शुभ लक्षण प्रकट होने लगते हैं। अध्यात्म रामायण (५, ३, २) और आनंद रामायण (१, ९, १०७) में भी इस प्रकार का वर्णन मिलता है। रामकियेन (अध्याय १४) के अनुसार सीता अपने को फाँसी लगा चुकी थीं कि हनुमान् ठीक समय पर पहुँचकर गाँठ खोल देते हैं। आश्चर्यचूड़ामणि (अंक ५) में भी सीता के जल में प्रवेश कर आत्महत्या करने के विचार का उल्लेख मिलता है। उत्तर भारत के एक वृत्तान्त के अनुसार सीता ने एक वर्ष के बाद रावण की पत्नी बनने का वचन दिया था और हनुमान् के पहुँचने के समय आत्महत्या का विचार कर रही थी।<sup>१</sup>

१. सर्ग ३० में हनुमान् आशंका प्रकट करते हैं कि यदि मैं सीता से बातचीत किये बिना चला जाऊँ तो वह अवश्य ही आत्महत्या कर लेगी (श्लोक ९ और १२)।

२. दे० पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १३, पृ० ३५८। अन्य अवसरों पर भी सीता के आत्महत्या-विचार का उल्लेख मिलता है; दे० अनु० ५८३, ५८६ और ७४१।

प्रसन्नराघव (६, ३४-३५) की तत्संबन्धी कथा इस प्रकार है। असोकवन में रावण के आगमन के पूर्व सीता और त्रिजटा वार्त्तालाप कर रही थीं, रावण के चले जाने के बाद सीता ने त्रिजटा से कहा कि मैंने अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय किया है, मुझे कहीं से आग ला दो—सद्गुणय अगारखंडकम् । त्रिजटा ने यह कह कर टाल दिया कि इस स्थान में आग सुलभ नहीं है। रामचरितमानस (५, १२) का यह वृत्तान्त प्रसन्नराघव पर ही आधारित है।

५४९. बाल्मीकि रामायण में सीता से हनुमान् के मिलने की कथा इस प्रकार है।<sup>१</sup> सीता को असोकवन में देखकर हनुमान् सोचने लगते हैं कि मैं अब क्या करूँ और अन्त में यह निश्चय करते हैं कि मैं "मानुषी संस्कृत" बोलकर राम का गुणयान करूँगा (सर्ग ३०)। अनन्तर हनुमान् ने सीता के सुनने योग्य स्वर में रामचरित का संक्षिप्त वर्णन किया। सीता को सुनकर विस्मय हुआ और उन्होंने आँखें ऊपर उठाकर शिष्या वृक्ष पर हनुमान् को देखा (सर्ग ३१) और विलाप करने लगी (सर्ग ३२, १-५)। हनुमान् ने अपने को रामदूत कहकर राम के कुशलक्षेम का शुभ समाचार सुनाया। सीता को पहले तो हर्ष हुआ किन्तु अनन्तर वह हनुमान् को कामरूपी रावण समझकर सन्देह में पड़ गई (सर्ग ३४)। तब हनुमान् ने सीता को राम की मुद्रिका अर्पित की तथा आश्वासन दिया कि राम शीघ्र ही आने वाले हैं (सर्ग ३६)। सीता अब पूर्ण रूप से विश्वस्त होकर यह सन्देश देने लगी कि यदि राम मुझे जीवित पाना चाहे तो दो महीने के अन्दर आ जाएँ। तब हनुमान् ने सीता को अपनी पीठ पर राम के पास ले जाने का प्रस्ताव किया। सीता ने पहले हनुमान् की सामर्थ्य पर अविश्वास किया—कथं चास्पशरीरस्त्वं मामितो नेतुमिच्छसि (३७, ३२)। इसपर हनुमान् ने अपना शरीर बड़ाकर अपनी शक्ति का प्रमाण दिया। अनन्तर सीता ने हनुमान् के प्रस्ताव के विरोध में पाँच तर्क प्रस्तुत किए—(१) मुझे गिर जाने का भय है, (२) तुमको जाते देखकर राक्षस आक्रमण करेंगे, तुम उनके साथ युद्ध करते समय मेरी रक्षा नहीं कर सकोगे, (३) यदि तुम ही राक्षसों को मारोगे तो राम का अपयश होगा, (४) राक्षस समवत मुझे पकड़कर किसी गुप्त स्थान में रखेंगे, (५) मैं राम को छोड़कर किसी दूसरे का शरीर नहीं स्पर्श करना चाहती हूँ—भर्तुर्मंसि पुरस्कृत्य रामावन्यस्य वानर, नाहं स्पृष्टुं स्वतः पात्रमिच्छेयं वानरोत्सम (३७, ६२)। हनुमान् ने सीता के तर्क मानकर एक अभिज्ञान माँगा

यदि नोत्सहे यातुं मया सार्धमनिवृत्ते ।

अभिज्ञानं प्रयच्छ त्वं जानीयाद्वाघवो हि यत् ॥१०॥ (सर्ग ३८)

१ प्रस्तुत निरूपण में केवल प्रामाणिक सामग्री का ध्यान रखा गया है (दे० अनु० ५३०)।

सीता ने उनके काक-कृतात्त सुमासा, अपना ब्रह्मणि देविमा (सर्ग ३६) तथा हनुमान् को जाने के लिये छुटत देखकर उनसे निवेदन किया कि वह एक विष के लिये उनके पास ठहर जाएँ। हनुमान् राम के शीघ्र जाने का आश्वासन देकर चले गए (सर्ग ३९)।

५५० इस सामग्री में आगे चलकर अपेक्षाकृत कम परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन किया गया है।

(१) सीता के सामने प्रकट होते समय हनुमान् के विभिन्न छापबेषों का उल्लेख ऊपर हो चुका है (दे० अनु० ५३४)। सेरीराम के अनुसार हनुमान् ने ब्राह्मण के रूप में लका में प्रवेश किया था। वह किसी जलकूप के पास बैठकर विभ्राम कर रहे थे कि ४० महिलाएँ स्वर्ण पात्रों में जल भरने आईं। हनुमान् को पता चला कि ये सीता के स्नान के लिये पानी ले जा रही हैं, अतः उन्होंने राम की मुद्रिका एक पात्र में फेंक दी। बाद में सीता नै मुद्रिका पाकर ब्राह्मण को बुलाया।

(२) वाल्मीकि रामायण के एक प्रक्षिप्त सर्ग के अनुसार सीता के निवेदन पर हनुमान् ने राम के शरीर का “अथस्तम्ब” वर्णन किया था (सर्ग ३५)। कम्ब रामायण (५ ५ ३९-५८) और रघुनाथ रामायण (५ १४) में यह वर्णन अपेक्षाकृत अधिक विस्तार के साथ दिया गया। राम द्वारा दिए हुए अभिज्ञानो का किष्किन्धा-काण्ड के प्रसंग में उल्लेख हो चुका है (दे० अनु० ५२५)।

(३) हनुमान् की पीठ पर चढ़ना अस्वीकार करते समय सीता के उपर्युक्त सर्कों में से अन्तिम तर्क (कुलवधू-मर्यादा) को ही परवर्ती साहित्य में सर्वाधिक मान्यता दी गई है। फिर भी वाल्मीकि रामायण के प्रक्षिप्त सर्ग ५८ में सीता के केवल इस क्षत्रियोचित उत्तर का उल्लेख किया गया है—राम ही रावण को परास्त कर मुझे ले जायें—रावणमुत्पाटय रावणो मां नयसु (५८ १०१)। एक अन्य प्रक्षिप्त सर्ग में सीता पुनः इस पर बल देती हैं कि रावण के समान लुक-छिपकर मुझे ले जाना राम को शोभा नहीं देगा—उनकी कीर्ति के लिये आवश्यक है कि रावण पर विजय प्राप्त कर ले

बले समश्रैर्वि मां हत्वा रावणमाह्वये ॥

विजयी स्वपुरीं राघो नयेत्सत्स्वाम्यशक्तवत् ॥१२॥

यथाह तस्य धीरस्य वनानुपधिना हृता ।

रक्षसा तद्भयादेव तथा नार्हति रावण ॥१३॥ (सर्ग ६८)

कृष्णमीरी रामायण (५, ३४) में राम की कीर्ति विषयक सर्ग के अतिरिक्त सीता कहती हैं—रावण मेरे पिता हैं; मुझे उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करना चाहिए ।

(४) हनुमान्-सीता-संवाद विषयक प्रामाणिक सर्गों में सीता द्वारा दिये हुये केवल दो अभिज्ञानों का वर्णन है—चूडामणि तथा काक-वृत्तान्त (दे० अनु० ४३९)। महाभारत के रामोपाख्यान (३, २६६, ६६-६७) में केवल इन दोनों का उल्लेख मिलता है । वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान् मैनसिल के तिलक का स्मरण दिलाकर राम को एक तीसरा अभिज्ञान देते हैं (दे० ६५, २३) । एक प्रशिप्त सर्ग में भी सीता द्वारा इस घटना का वर्णन किया गया है; सीता के तिलक मिट जाने पर राम ने उनकी कनपटी पर मैनसिल का तिलक बनाया था—मनःशिलायास्तिलको षण्ड-पाष्वे निवेशितः (४०, ५) । अयोध्या काण्ड के एक प्रशिप्त सर्ग में तिलक के मिट जाने का कारण भी दिया गया है (दे० अनु० ४३९) ।

परवर्ती साहित्य में इन दो अथवा तीन अभिज्ञानों का प्रायः उल्लेख मिलता है । चूडामणि के अतिरिक्त सीता हनुमान् को रामायण ककबिन में एक पत्र तथा पञ्च-शरियं (५३, १२) में अपना उत्तरीय देती हैं । सेरीराम के अनुसार सीता ने हनुमान् को राम के लिये इत्र की जडाऊ मजूपा दी थी । कंब रामायण (५, ५) में काक-वृत्तान्त तथा चूडामणि के अतिरिक्त सीता ने अभिज्ञान-स्वरूप हनुमान् से कहा था कि मैंने एक बार राम से पूछा था कि अपनी एक शुकी का क्या नाम रखा जाय और राम ने उत्तर दिया—'मेरी माँ दोषहीन कैकेयी का नाम रखना' । इस रचना में ऊमिला आदि के प्रति यह सन्देश भी मिलता है कि राम के प्रिय वचनों से मैं अपनी वेदनाओं को भूल जाती हूँ तथा सीता के इस अनुरोध का भी उल्लेख है कि उनके पालतू शुक-सारिकाओं की देख-रेख का ठीक ढँग ऊमिला को सिखाया जाय ।

### ड । लंकादहन

५५१. वाल्मीकि रामायण में अशोकवन-विध्वंस तथा लंकादहन विषयक विस्तृत प्रयोग की कथावस्तु इस प्रकार है । राक्षसों की बल-परीक्षा करने तथा रावण का मन जानने के उद्देश्य से हनुमान् ने अशोकवन नष्ट किया (सर्ग ४१) । इसके बाद उन्होंने रावण के भ्रजे हुए ८०००० योद्धाओं, जम्बुमात्री, सात मंत्रि-मुत्रों, पाँच सेना-

१. सर्ग (४१-५५) । दे० ऊपर अनु० ५३० । लंकाकाण्ड में रात्रि के समय जानरों द्वारा लंकादहन का पुनः वर्णन मिलता है (सर्ग ७५) ।

पत्नियो, तथा रावणपुत्र अस्र का वध किया।<sup>१</sup> अन्त में इन्द्रजित् हनुमान् को ब्रह्मपाश से बाँध कर रावण के पास ले गया। हनुमान् ने अपने को सुग्रीव द्वारा भेजा हुआ रामदूत कहकर रावण से सीता को लौटाने का अनुरोध किया जिसपर रावण ने क्रुद्ध होकर हनुमान् का वध करना चाहा, किन्तु विभीषण की आपत्ति पर ध्यान देकर उसने दण्डस्वरूप हनुमान् की पूँछ जलाने का आदेश दिया। अतः राक्षस हनुमान् की पूँछ में कपास के पुगने कपड़े लपेटने लगे जिमपर हनुमान् ने अपना आकार बढ़ाया। तब राक्षसों ने तेल डाल कर हनुमान् की पूँछ में आग लगा दी और उनको नगर में चारों ओर घुमाया। सीता को हनुमान् की दुर्दशा का समाचार<sup>२</sup> जब मिला उन्होंने अग्नि से प्रार्थना की कि वह हनुमान् के लिये शीतल बन जाय। फलस्वरूप हनुमान् ने अग्नि की शीतलता का अनुभव किया और उन्होंने उस चमत्कार का श्रेय सीता की दयालुता राम के प्रभाव तथा अग्नि में अपने पिता की मित्रता को दिया। अन्त में हनुमान् ने अपना शरीर पहले अधिक बढ़ाकर और बाद में घटा कर अपने को बन्धनों से मुक्त किया<sup>३</sup> तथा अपना आकार फिर बढ़ाकर विभीषण के महल को छोड़कर समस्त लका को भस्म कर डाला और बाद में अपनी जलनी हुई पूँछ समुद्र में वृक्षा ली। तब हनुमान् को सीता के कुशल-क्षेम के विषय में चिन्ता हुई किन्तु शक्रुनों तथा चारणों की बातचीत से उन्हें उनके विषय में आश्वामन मिला (सर्ग ४८-५५)।

५५२. अद्भुत एवं हान्यरस की सभावनाओं के कारण लकादहन कवियों का प्रिय विषय रहा है, अतः हमके वर्णन में पर्याप्त नई सामग्री की कल्पना कर ली गई है। प्रस्तुत अनुच्छेद में वाल्मीकि रामायण के वृत्तान्त के क्रमानुसार इन सामग्री का सक्षिप्त निरूपण किया जा रहा है।

(१) अध्यात्म रामायण (५३, ६७-७१) के अनुसार हनुमान् को भूख लगी थी, उन्होंने सीता की अनुमति लेकर अशोकवन के फल खाये और बाद में प्रणाम करके चले गये। फिर कुछ दूर चलन पर उन्होंने निश्चय किया कि रावण से मिलकर जाना अच्छा है और इसलिए वे अशोकवन उजाड़ने लगे। आनन्दरामायण (१९, १२३-१३६) में इस प्रसंग को बढ़ा दिया गया है, जब हनुमान् ने अशोकवन के

१ दे० सर्ग ४२ और ४४-४७। सर्ग ४३ (चैत्यविध्वंस) केवल दाक्षिणात्य पाठ में मिलता है।

२ उदीच्य पाठ के अनुसार सरमा ने सीता के लिये लकादहन का वर्णन किया है (दे० ऊपर अनु० ५२९)।

३ सर्ग ४८ में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि राक्षसों ने ब्रह्मपाश के अतिरिक्त अन्य बन्धनों को काम में लाकर ब्रह्मपाश का प्रभाव नष्ट कर डाला था।



फल खाने की आज्ञा माँगी सीता ने अपना कंकण उतारकर कहा—“यह लो और लका की दूकानो से फलों के ढेर खरीद कर खा लो” । हनुमान् ने आपत्ति करते हुए उत्तर दिया—“मैं दूसरे के हाथ के तोड़े फल नहीं खाता, रहने दीजिए मैं ऐसे ही जाता हूँ” । उन्हें चले जाते देखकर सीता ने कहा कि जो फल पृथ्वी पर गिर पड़े है उनको चुपचाप खा लो । इसपर हनुमान् पूँछ से बाँधकर वृक्षों को हिलाने लगे और अशोकवन के सब फल खा गये । अन्त में उन्होंने वन के समस्त वृक्ष गिरा दिये । भावार्थ रामायण (५, १३) का वृत्तान्त इससे अधिक भिन्न नहीं है ।

माधवकंदली के असमीया रामायण के अनुसार सीता ने विदा के समय हनुमान् को एक मधुफल दे दिया । हनुमान् को और खाने की इच्छा हुई और उन्होंने सीता से पना लगाया कि यह फल अशोकवन का ही है । तब हनुमान् ने एक वृद्ध ब्राह्मण के वेश में रावण के पाम जाकर अपना यह परिचय दिया—“मैं सौराष्ट्र का ब्राह्मण हूँ । कल एकादशी व्रत था, मैंने सोचा कि राजा के सामने वेदपाठ करके चला जाऊँगा” । इसके बाद हनुमान् चले गए और अशोकवन में पहुँचने पर बन्दर बन कर फल खाने तथा उत्पात मचाने लगे ।

सेरीराम में तत्सवधी प्रसंग इस प्रकार है । सीता से दो आम पाकर हनुमान् ने पूछा कि ये कहाँ से आए । सीता ने उन्हें रावण की अमराई का मार्ग बताकर सावधान किया कि १०० राक्षस दिन-रात उसकी रखवाली करते हैं । हनुमान् ने वहाँ जाकर छोटे वानर के रूप में अमराई में पड़ी हुई पत्तियाँ तथा टहनियाँ बटोरकर रक्षकों को प्रसन्न किया । किसी दिन सब के सब मद्य पीकर मतवाले बन गए और हनुमान् ने सब फल खाकर बाटिका नष्ट कर डाली । दूसरे दिन रक्षक हनुमान् से पूछने लगे कि यह किसका काम है । हनुमान् के चुप रहने पर रक्षक उन्हें रावण के पास ले गए ।

गुणभद्र के उत्तरपुराण (६८, ५०८-५१५) के अनुसार हनुमान् के नेतृत्व में वानर-सेना ने विभीषण की शरणागति के पश्चात् समुद्र पारकर अशोकवन को नष्ट किया तथा उसके रक्षकों को मार डाला था ।

(२) अशोकवन-विध्वंस के अनन्तर हनुमान् के विभिन्न युद्धों का कोई विशेष महत्त्वपूर्ण विकास नहीं हुआ है । आनन्दरामायण (१, ९, १५९), तोरवे रामायण (५, ६) तथा भावार्थ रामायण (५, १७ और ३२) के अनुसार ब्रह्मा ने हनुमान् से

निवेदन किया कि तुम मेरे ब्रह्मास्त्र का मान रखो और उसमें बँधकर रावण के पास जाओ। दक्षिण भारत की एक कथा में इससे मिलता जुलता वर्णन मिलता है (पाश्चात्य वृत्तान्त नं० ३)। एक अन्य कथा के अनुसार हनुमान् ने इंद्रजित् के साथ युद्ध करते समय आहत होने का अभिनय किया था। वह निश्चेष्ट भूमि पर पड़े रहे जिससे राक्षसों ने आकर उन्हें बाँधा था। बाद में वे हनुमान् को उठाकर ले जाने में असमर्थ रहे; तब हनुमान् ने कहा कि यदि मेरे बन्धन कुछ ढीले किये जायें तो मैं चल सकूँगा। इंद्रजित् ने राक्षसों को बानर की पूँछ पकड़ने का आदेश दिया किन्तु हनुमान् सब से पीछा छुड़ाकर अपने आप रावण से मिलने गये (पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १)।

(३) भावार्थ रामायण (५, १७ और ३३), दक्षिण भारत की एक राम-कथा (पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १) तथा सेरी राम आदि रचनाओं के अनुसार हनुमान् रावण की सभा में अपनी पूँछ का कुण्डल बनाकर रावण से ऊँचे सिंहासन पर विराजमान हुए। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार का वर्णन पहले पहल अगद के विषय में किया गया था (दे० अनु० ५८५)।

(४) प्रायः समस्त कथाओं में विभीषण के बीच-बचाव का उल्लेख है। सेरीराम के अनुसार-विभीषण ने रावण को एक भविष्यवाणी का स्मरण दिलाया जिसके अनुसार एक छोटे बानर की हत्या लंका के लिए अहितकर है।

(५) राम-कथाओं में हनुमान् स्वयं सुझाव देते हैं कि उनकी पूँछ जलाई जाय। आनन्द रामायण (१, ९, १७७-१८४) के अनुसार रावण ने हनुमान् की पूँछ काटकर फेंकने का आदेश दिया था किन्तु राक्षस के हथियार (कुल्हाडा, आरा आदि) इसमें असमर्थ सिद्ध हुये। तब रावण ने हनुमान् से पूछा कि तुम्हारी पूँछ नष्ट करने का क्या उपाय है और बानर ने उसे जलाने का परामर्श दिया। अनेक पाश्चात्य वृत्तान्त (नं० १, ३, ८ और १३), भावार्थ रामायण (५, १८ और ३३), सेरीराम तथा गमकेर्त्ति आदि इसी प्रसंग का उल्लेख करते हैं।

(६) हनुमान् की पूँछ के बड़ जाने के विषय में कृत्तिवास (५, २९) लिखते हैं कि वह पचास योजन लम्बी थी, उसे तीन लाख राक्षसों ने पकड़कर दबाया था और उसमें ३० मन कपड़ा लपेट दिया गया था। उराँव नामक आदिवासी अपने को रावण के वंशज समझते हैं। उनमें लकादहन के विषय में निम्नलिखित कथा प्रचलित है।<sup>१</sup> जब हनुमान् लंका आये थे रावण ने हनुमान् की पूँछ जलाने के लिये

१. रसेल। ट्राइव्स एण्ड कास्ट्स, भाग ४, पृ० ३२०।

अपनी प्रजा के सब कपड़े ले लिये थे और उस समय से रावण की प्रजा तथा उनके वंशजों में अपने शरीर को अच्छी तरह से ढँकने के लिये कपड़ों की कमी है ।

(७) आनन्द रामायण (१, ९, १९२) में संभवतः सबसे पहले इसका उल्लेख किया गया है कि हनुमान् ने तभी अपनी पूँछ बढ़ाना बन्द किया था जब उनके मुनने में आया कि राक्षस सीता के कपड़े भी ले आने जा रहे हैं । तोरवे रामायण (५, ८), भावार्थ रामायण (५, ३३), पाश्चात्य वृत्तान्त न० ८, तथा सेरीराम में भी इससे मिलता-जुलता वर्णन किया गया है ।

(८) आनन्दरामायण (१, ९, १९५-१९९), तोरवे रामायण (५, ८), भावार्थ रामायण (५, १८) तथा पाश्चात्य वृत्तान्त न० १ में रावण की दाढ़ी के जल जाने का प्रसंग आया है । आनन्द रामायण की कथा इस प्रकार है । अपनी पूँछ में आग लगाने के व्यर्थ प्रयत्न को देखकर हनुमान् ने कहा यदि रावण स्वयं अपने मूँह से फूँक दे तो अग्नि प्रदीप्त हो सकती है । किन्तु ज्यों ही रावण ने फूँकना आरम्भ किया उसके दस सिरों के बालों तथा दाढ़ी-मूँह में आग लग गई । इसे बुझाने के लिये रावण अपने बीस हाथों से अपने मुखों पर थप्पड़ मारने लगा जिससे सभी राक्षस खिलखिलाकर हँस पड़े ।

(९) अर्वाचीन रचनाओं में लकादहन के समय राक्षसों की दुर्बला का भी वर्णन किया गया है । आनन्द रामायण (१, ९, २०९-२११) में रावण दस करोड़ राक्षसों को लेकर लड़ने निकला किन्तु हनुमान् ने लोहे के खम्भे में सब को मारा और अनन्तर करोड़ों को एक साथ पूँछ में बाँध कर लीलापूर्वक रावण के सिर पर मारा जिससे रावण मूर्च्छित हो गया । उस अवसर पर देवकन्याओं अथवा देवताओं की मुक्ति का भी उल्लेख मिलता है; उदा० तत्त्वसंग्रह रामायण (५, ९), विनयपत्रिका (३१, ३), हनुमान् बाहुक (९) । महावीरचरित (अक ७, ५) के अनुसार विभीषण ने रावणवध के बाद ही "सुरलोकबन्दिस्त्रियः" मुक्त कर दिया था । अभिनन्दनकृत रामचरित (सर्ग १९) में इसका उल्लेख मिलता है कि हनुमान् ने लंका में सीता की खोज करते समय कारावास में स्थित देवांगनाओं का विलाप सुना था ।<sup>१</sup>

१. रंगनाथ रामायण (३, ११ और ३, २२) में भी रावण के कारागार में पड़ी हुई स्त्रियों का उल्लेख किया गया है । वाल्मीकीय उत्तरकाण्ड (सर्ग २४) में रावण द्वारा मानव-देव-दानव-नाग-गंधर्वादि कन्याओं का हरण वर्णित है ।

(१०) वाल्मीकि रामायण तथा परवर्ती कथाओं में भी विभीषण के महल सुरक्षित रहने का उल्लेख है, सेरीराम के अनुसार केवल सीता का घर जलने से बच गया था। सीता के विषय में हनुमान् की चिन्ता का प्रसंग भी वाल्मीकि रामायण में मिलता है किन्तु आनन्द रामायण (१, ९, २३१) के अनुसार हनुमान् को एक आकाशवाणी द्वारा सीता के कुशल-शेम का आश्वासन मिला था। भावार्थ रामायण (५, २०) में वायु ने अपने पुत्र हनुमान् को सीता के विषय में आश्वस्त किया था।

(११) वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान ने अपनी जलती हुई पूँछ को समुद्र में डुबो कर बुझा लिया था। कृत्तिकास में हनुमान ने सीता के कहने पर उसे मुँह से बुझा कर अपना मुख जला दिया था। उन्होंने सीता से इसकी शिकायत करके कहा कि सब मेरी हँसी उड़ायेंगे। सीता ने उत्तर दिया—सभी कृष्णमुख बन जायेंगे। सताल आदिवासियों में भी इस प्रकार की कथा मिलती है। सेरीराम के अनुसार हनुमान् ने व्याकुल होकर नारद से पूँछ की आग बुझाने का उपाय पूछा। नारद ने उत्तर दिया—क्या तुम अपने छोटे कूप का उपयोग नहीं जानते हो? हनुमान् समझ गए, उन्होंने अपनी पूँछ को मुँह में रख दिया और आग बुझ गई। पारश्चात्य वृत्तान्त न० ३ में प्रस्तुत प्रसंग का एक अन्य रूप मिलता है। सीता ने हनुमान को जाते समय सावधान किया कि समुद्र के उस पार पहुँचने के पक्ष किसी भी तरह से मुड़कर पीछे की ओर नहीं देखना चाहिए। हनुमान् को रास्ते में ऐसा लगा कि प्रज्वलित लका की आग धीरे-धीरे मेरे पास आ रही है, उन्होंने सिर घुमा कर देखा जिससे उनका मुँह जल गया।

अनेक रचनाओं में हनुमान् के समुद्र में अपनी पूँछ बुझाने के वृत्तान्त में उनके पुत्र की उत्पत्ति का भी उल्लेख किया गया है (दे० अनु० ६१५)।

(१२) सेरीराम के अनुसार रावण ने लकादहन के पश्चात् स्वर्ग से एक महर्षि बुलाकर उनकी प्रार्थनाओं द्वारा लका का जीर्णोद्धार किया था। बलरामदास रामायण में यह माना गया है कि देवताओं ने विश्वकर्मा को भेज दिया था और उन्होंने एक ही रात में लका का पुनर्निर्माण किया था।

(१३) पउमचरिय (पर्व ५३) में लकादहन का अभाव है। इसके अनुसार इन्द्रजित् हनुमान् को बुलाकर लाया था। रावण ने उनको नगर में चारों ओर घुमाकर प्रजा को दिखलाने का आदेश दिया किन्तु हनुमान् अपने बन्धनों को तोड़कर तथा लका में बहुत से महल गिरा कर राम के पास लौटे।

(१४) असुर नामक आदिवासी जाति (दे० अनु० २७४) में लकादहन विषयक निम्नलिखित कथा प्रचलित है। असुरवीर अपनी पत्नी के साथ लोहा गला रहा था। हनुमान् ने पास आकर तथा लाल लोहा देखकर उसे खाना चाहा। असुर दम्पति ने उसे भगाने की बड़ी कोशिश की, किन्तु हनुमान् धौकनी पर बैठकर तथा भट्टी में गडबडी करके दोनों को तग करता रहता था। अन्त में बूढ़े ने छिपकर हनुमान् की पूँछ में कपास बाँध दिया, उसकी पत्नी ने उसपर तेल उड़ोला और आग लगा दी। हनुमान् बहुत परेशान होकर उछल-उछल कर इधर-उधर दौड़ने लगा; इस प्रकार लंका पहुँच कर हनुमान् ने उसे भस्म कर डाला। बाद में उमने अपनी पूँछ को किमी पेड़ से रगड़कर बुझा लिया था।

### च । हनुमान् का प्रत्यावर्तन

५५३. लकादहन के वर्णन के बाद सुन्दरकाण्ड के केवल दो ही सर्ग प्रामाणिक हैं। सर्ग ५७ में हनुमान् के अपने साथियों के पाम लौटने का वर्णन किया गया है। लका की घटनाओं के विषय में हनुमान् केवल यही कहते हैं कि मैंने सीता को देखा है।

अशोकवनिवासस्था दृष्ट्वा सा जनकात्मजा ॥३८॥

रक्ष्यमाणा सुघोराभी राक्षसीभिरनिन्विता ।

एकवेणीधरा बाला रामदर्शनलालसा ॥३९॥

उपवासपरिश्रान्ता मलिना जटिला कृशा ।

सर्ग ६५ में हनुमान् राम को सीता का चूडामणि देकर अपनी लकायात्रा का इस प्रकार वर्णन करते हैं—समुद्र लाघकर मैंने सीता को रावण के यहाँ देखा है। वह राक्षसियों से घिरकर आपको ही सोचा करती है। वह आपका समाचार पाकर प्रसन्न हुई तथा अभिज्ञान-स्वरूप उन्होंने चूडामणि के अतिरिक्त काक-वृत्तान्त तथा मैनसिल के तिलक के विषय में आपको स्मरण दिलाने को कहा तथा यह भी निवेदन किया कि मैं अब केवल एक महीने तक जीवित रह सकूँगी। अन्त में हनुमान् ने राम से यह प्रस्ताव किया कि समुद्र पार करने की तैयारियाँ प्रारंभ हो जायें।

सुन्दरकाण्ड के अन्त की शेष सामग्री में पुनरावृत्ति के अतिरिक्त मधुवन-ध्वंस का वर्णन तथा सीता को ले जाने का प्रस्ताव मिलता है। इस प्रस्ताव के विषय में नीचे विचार किया गया है (दे० अनु० ५५५)। मधुवन-विध्वंस-वर्णन (सर्ग ६१-६४) का कोई उल्लेखनीय विकास नहीं हुआ है अतः तत्संबंधी सामग्री का निरूपण अनावश्यक है।

५५४. परवर्ती राम-कथा-साहित्य की एकाध रचनाओं में हनुमान् के प्रत्यावर्तन के विषय में किञ्चित् परिवर्द्धन किया गया है। आनन्दरामायण के अनुसार ब्रह्मा ने लका से प्रस्थान करते हुये हनुमान् को एक पत्र दिया था जिसमें लका में हनुमान् के चरित का वर्णन था (१, ९, २८०-२८१) और जिसे हनुमान् ने बाद में राम को अर्पित किया (वही, ३०६)। भावार्थ रामायण में भी इस ब्रह्म-पत्र की चर्चा है; हनुमान् ने उसे जाम्बवान को पढ़ने के लिये दिया (५, २३) तथा बाद में लक्ष्मण ने राम के आदेशानुसार उसे सबों को सुनाया (अध्याय २६-३४)। मराठी रामविजय में इसी प्रसंग को दुहराया गया है।

मेरीराम के अनुसार राम ने लकादहन के कारण हनुमान् की भर्त्सना की थी। इसका आधार सभवतः आनन्दरामायण में वर्णित हनुमान् के गर्व-निवारण की निम्न-लिखित कथा है। ममुद्र को पुनः पार करने के पश्चात् हनुमान् ने नीचे उतरकर एक मुनि को देखा तथा गर्वान्वित होकर उनसे कहा—मैं राम का कार्य करके आ रहा हूँ, मैं यहाँ पानी पीना चाहता हूँ। मुनि ने सकेत द्वारा जलाशय का मार्ग बतलाया। इसपर हनुमान् राम-मुद्रिका (जिसे सीता ने लौटाया था), सीता-चूडामणि तथा ब्रह्मपत्र मुनि के पास रखकर जल पीने चले गये। इतने में एक वानर ने आकर राम की मुद्रिका मुनि के पास रखे हुये कमण्डल में डाल दी। लौटने पर हनुमान् ने पूछा कि मुद्रिका कहाँ है। मुनि ने भी से कमण्डल की ओर सकेत किया। हनुमान् ने कमण्डल में हजारों मुद्रिकाएँ देखकर कहा—आप मुझे बताएँ कि मेरी लायी हुई मुद्रिका कौन है। मुनि ने उत्तर दिया—जब-जब हनुमान् ने लंका जाकर तथा सीता का पता लगाकर राममुद्रिका को मेरे पास छोड़ दिया है तब तब वानरों ने इसे इस कमण्डल में गिरा दिया है; इनमें से अपनी मुद्रिका खोज निकालो। हनुमान् ने पूछा कि यहाँ कितने राम आए हैं तथा मुनि के कहने पर मुद्रिकाओं को निकालकर गिनना आरंभ कर दिया किन्तु उनका अन्त नहीं हुआ। तब हनुमान् ने सब को फिर कमण्डल में भर दिया तथा यह सोचकर गर्वरहित हो गये कि मेरे जैसे सैकड़ों हनुमान् सीता का समाचार राम के पास ले जा चुके हैं तो मेरी कौनसी गिनती है—**का गणनाऽद्य मे** (१, ९, २८३-२९८)। किष्किंधा में पहुँचकर हनुमान् ने राम को ब्रह्मपत्र तथा सीता-चूडामणि अर्पित किया, काक-वृत्तान्त सुनाया तथा बाद में भयभीत होकर मुनि द्वारा अपने गर्वनिवारण तथा मुद्रिका खो बैठने का वृत्तान्त भी कह दिया। उत्तर में राम ने मुस्कराकर कहा कि मैंने मुनि के रूप में यह कौतुक दिखलाया था—**मयैव वर्णितं मार्गं कौतुकं मुनिरूपिणा** (१, ९, ३१३)।

उदात्तराघव (अंक ४) में हनुमान् के प्रत्यावर्तन के विषय में राक्षसी माया का वृत्तान्त भी मिलता है। कथा इस प्रकार है—एक राक्षस हनुमान् का रूप धारण

कर सुग्रीव के पास आया और यह समाचार लाया कि रावण ने सीता का वध किया है। सुग्रीव ने यह सुनकर चिता तैयार करने का आदेश दिया किन्तु वास्तविक हनुमान् ने ठीक समय पर पहुँचकर सुग्रीव को बचा लिया।<sup>१</sup>

५५५. वाल्मीकि रामायण के दो प्रक्षिप्त सर्गों के अनुसार हनुमान् तथा अंगद दोनों ने राक्षसों को हराकर सीता को राम के पास पहुँचाने का प्रस्ताव अपने साथियों के सामने रखा था किन्तु जाम्बवान ने इसे अस्वीकार करते हुये कहा—एक तो हमें सीता का पता लगाने मात्र का कार्य सौंपा गया; दूसरे राम ने हमलोगों के सामने जो यह प्रतिज्ञा की है कि —“मैं सीता का ढ़ढार करूँगा”, उस प्रतिज्ञा को हम मिथ्या नहीं कर सकते।

हनुमान् ने लका में भी सीता से अपने साथ चलने का प्रस्ताव किया था। इस सामग्री के आधार पर कई राम-कथाओं में माना गया है कि हनुमान् युद्ध के पूर्व ही सीता को राम के पास ले गये थे (दे० अनु० २७८ और पाश्चात्य वृत्तान्त न० ६, १०, और १५)। सिंहली राम-कथा के अनुसार वालि ने हनुमान् का स्थान लेकर सीता को राम के पास पहुँचा दिया था। रामतापनीय उपनिषद् (४, २४) में सुग्रीव वानरो को सीता का पता लगाने के लिये भेजते समय सीता को ले आने का भी आदेश देते हैं।

---

१. भरत के विषय में भी इस तरह के वृत्तान्त मिलते हैं (दे० अनु० ६०९)।

## युद्धकांड

### १—वाल्मीकीय युद्धकांड

५५६. क । युद्धकांड की कथावस्तु

(१) लंका का अभियान (सर्ग १-४१)

**समुद्र की ओर प्रस्थान**—समुद्र की बाधा के विचार में राम की निराशा तथा सुग्रीव द्वारा सेतुबन्ध का प्रस्ताव (सर्ग १-२) । हनुमान् द्वारा लंका का वर्णन (सर्ग ३) । समुद्र तक पहुँचना तथा राम का विग्रहवर्णन (सर्ग ४-५) ।

**रावण-मभा**—मभासदो द्वारा रावण को विजय का आश्वासन तथा सीता को लौटा देने की विभीषण की मन्त्रणा (सर्ग ६-९) । दूसरे दिन विभीषण द्वारा चेतावनी, कुम्भकर्ण का जगकर रावण को दोष देना लेकिन सहायता की प्रतिज्ञा करना (सर्ग १०-१२) । पुत्रिकस्थला के कारण पितामह के शाप का रावण द्वारा उल्लेख (सर्ग १३) । इन्द्रजित् तथा रावण द्वारा निन्दित होकर विभीषण का रावण को छोड़कर जाना (सर्ग १४-१६) ।

**विभीषण की शरणागति**—सुग्रीवादि के विरोध करने पर भी हनुमान् के आग्रह के कारण विभीषण को शरण मिलना, राम द्वारा विभीषण का अभिषेक, प्रायोपवेशन द्वारा समुद्र को विवश करने की विभीषण की मन्त्रणा (सर्ग १७-१९) । शार्दूल द्वारा रावण को राम-सेना की सूचना मिलना, सुग्रीव को अपनी ओर मिलाने के लिए रावण द्वारा शुक का भेजा जाना, शुक का बधन और राम द्वारा मुक्ति (सर्ग २०) ।

**सेतुबन्ध**—तीन दिन के प्रायोपवेशन के बाद राम का समुद्र पर ब्रह्मास्त्र प्रयोग के लिए तत्पर होना । समुद्र की वितय तथा हुमकुन्त्य का ब्रह्मास्त्र द्वारा विध्वंस । सागर के कथन से नल द्वारा सेतुबन्ध और सेना का सतरण (सर्ग २१-२२) । लंका में अपशकुन तथा शुक का रावण को समाचार देना (सर्ग २३-२४) ।

**शुक्र-सारण-शार्दूल**—रावण-गुप्तचर शुक और सारण का विभीषण द्वारा बधन और राम द्वारा मुक्ति । उनका रावण को समाचार देना । शार्दूल का रावण द्वारा भेजा जाना, उगका बधन, मुक्ति और समाचार देना (सर्ग २५-३०) ।



**राम का मायामय शीर्ष**—विद्युज्जिह्व द्वारा निर्मित राम के मायामय शीर्ष का सीता को दिखलाया जाना । सीता का विलाप तथा सरमा द्वारा रहस्योद्घाटन (सर्ग ३१-३३) । सरमा द्वारा सीता को रावण-सभा का समाचार मिलना (सर्ग ३४) । मान्त्वान् का रावण को समझाना, अपशकुन होने पर भी रावण का दृढ़ निश्चय होकर नगर के प्रवेश-द्वारों की रक्षा की आज्ञा देना (सर्ग ३५-३६) ।

**लंका का अवरोध**—मुवेल पर्वत से राम का लंका-दर्शन (सर्ग ३७-३९) । सुग्रीव-रावण-द्वन्द्व (सर्ग ४०) । लंकावरोध तथा अगद का दूत-कार्य (सर्ग ४१) ।

### (२) युद्ध-प्रकरण (सर्ग ४२-११२)

**शरपाश**—रात्रि तक दोनों सेनाओं का युद्ध अगद द्वारा इन्द्रजित् की पराजय । अदृश्य-इन्द्रजित् द्वारा राम-लक्ष्मण का शरपाश में बधन (सर्ग ४२-४५) । रावण का सीता को पुष्पक से भोजन आहूत राम-लक्ष्मण को दिखलाना । सीता-विलाप, त्रिजटा को मान्त्वना (सर्ग ४६-४८) । जगकर राम का लक्ष्मण के लिए विलाप । हनुमान् द्वारा विशल्या-ओषधि को लाने के लिए सुवेष का प्रस्ताव । गरुड का राम-लक्ष्मण को स्वस्थ करना (सर्ग ४९-५०) ।

**द्वन्द्व-युद्ध**—धूम्राक्ष, वज्रदंष्ट्र, अकपन तथा प्रहस्त का वध । रावण-लक्ष्मण द्वन्द्व-युद्ध, लक्ष्मण का आहूत होना, मुष्टिप्रहार से हनुमान् का रावण को मूर्च्छित करना । राम-रावण-युद्ध, रावण की पराजय और लज्जित होकर लौटना (सर्ग ५१-५९) ।

**कुम्भकर्ण-वध**—कुम्भकर्ण का जागरण (सर्ग ६०); विभीषण द्वारा राम से कुम्भकर्ण-निद्रा की कथा का उल्लेख (सर्ग ६१) । कुम्भकर्ण द्वारा रावण की भर्त्सना । कुम्भकर्ण-सुग्रीव-द्वन्द्व । राम द्वारा कुम्भकर्ण-वध । रावण-विलाप (सर्ग ६२-६८) ।

**द्वन्द्व-युद्ध**—रावण के चार पुत्रों का (नरातक, देवान्तक, त्रिधिर, अतिकाय) तथा दो भाइयों (महोदर और महापाशर्व) का वध । रावण-विलाप, इन्द्रजित् का अदृश्य होकर युद्ध करना तथा राम और लक्ष्मण को व्यथित करना (सर्ग ६९-७३) ।

**लंकादहन**—हनुमान् का ओषधिपर्वत लाकर आहूतों तथा राम-लक्ष्मण को स्वस्थ करना (सर्ग ७४) । रात्रि में वानरों द्वारा लंकादहन (सर्ग ७५) । कम्पन, कुंभ, निकुंभ तथा मकराक्ष का वध (सर्ग ७६-७९) ।

**इन्द्रजित्-वध**—यज्ञ करके इन्द्रजित् का युद्धारम्भ (सर्ग ८०) । मायामय सीता का वानर-सेना के सम्मुख वध । राम-विलाप तथा लक्ष्मण द्वारा सान्त्वना (सर्ग ८१-८३) । विभीषण द्वारा मायामय सीता का रहस्योद्घाटन तथा निकुंभला में इन्द्रजित्-यज्ञ-

ध्वंस का परामर्श; सेना सहित लक्ष्मण का यज्ञ-ध्वंस तथा इन्द्रजित्-वध करना (सर्ग ८४-९०)। सुषेण द्वारा लक्ष्मण की चिकित्सा (सर्ग ९१)। रावण-विलाप, सुपाशर्व का रावण को सीता-वध से रोकना (सर्ग ९२)।

**विभिन्न युद्ध**—विरूपाक्ष, महीदर तथा महापाशर्व का वध (सर्ग ९३-९८); राक्षसियों का विलाप (सर्ग ९४)।

**रावण-वध**—रावण द्वारा लक्ष्मण को शक्ति लगना तथा हनुमान् द्वारा महोदय पर्वत से औषधि लाना (सर्ग ९९-१०१)। इन्द्रय का मातलि सहित भेजा जाना; राम-रावण-युद्ध का आरम्भ (सर्ग १०२-१०४)। असुर्य का राम को आदित्यहृदय नामक स्तोत्र सिखाना (सर्ग १०५), सात दिन के युद्ध के बाद ब्रह्मास्त्र से रावण-वध (सर्ग १०६-१०८)। विभीषणादि का विलाप, रावण की अत्येष्टि (सर्ग १०९-१११)। विभीषण का अभिषेक तथा राम का सीता को बुला भेजना (सर्ग ११२)।

(३) प्रत्यावर्तन (सर्ग ११३-१२८)।

**अग्निपरीक्षा**—राम का सीता को अस्वीकार करना (सर्ग ११३-११५)। लक्ष्मण द्वारा निर्मित चिता में सीता का प्रवेश (सर्ग ११६)। देवताओं द्वारा राम की विष्णुरूप में पूजा (सर्ग ११७)। अग्नि द्वारा राम को सीता का ममर्षण (सर्ग ११८)। शिव द्वारा प्रशसा, दशरथ की शिक्षा। मृत वानरों का इन्द्र द्वारा जीवित किया जाना। विभीषण का यात्रा के लिए पुष्पक प्रस्तुत करना। वानरों को दान दिया जाना (११९-१२०)।

**वापसी यात्रा**—आकाशमार्ग से राम का विभिन्न स्थानों का दर्शन करना। किष्किंधा में वानर-पत्नियों को साथ लेना। भरद्वाज से भेट (सर्ग १२३-१२४)। हनुमान् का गुह और भरत को आगमन का समाचार देना (सर्ग १२५-१२६)।

**अयोध्या-प्रवेश**—अयोध्यावासियों सहित भरत और शत्रुघ्न का राम से मिलन; नन्दिग्राम में भरत का राम को शासन सौंपना; पुष्पक का कुबेर के पास लौटाया जाना (सर्ग १२७)। रामाभिषेक, राम-राज्य-वर्णन, फलश्रुति (सर्ग १२८)।

ख । युद्धकांड का विश्लेषण

तीनों पाठों में विभिन्नता

५५७. अन्य कांडों की अपेक्षा युद्धकांड के तीनों पाठों में कहीं अधिक अन्तर पाया जाता है। दाक्षिणात्य पाठ को निम्नलिखित सामग्री का गौडीय में नितान्त अभाव है।

सर्ग १०-१५—रावण की दूसरी सभा की घटनाओं का वर्णन; दे० अनु० ५६८ (३); इसकी कुछ सामग्री (अर्थात् सर्ग १०, १४ और १५) पश्चिमोत्तरीय पाठ में मिलती है (दे० प० रा० ५, सर्ग ७६, ८७ और ८६) ।

सर्ग २० और २४—गुप्तचरों शार्दूल तथा शुक का वृत्तान्त जो २५वें सर्ग के वृत्तान्त के अनुकरण पर लिखा गया है । ये सर्ग अन्य पाठों में नहीं मिलते हैं ।

सर्ग २२, २५-४०—द्रुमकुल्य का ब्रह्मास्त्र द्वारा विध्वंस । यह वृत्तान्त पश्चिमोत्तरीय पाठ में भी मिलता है (दे० प० रा० ५, ९६) । शेष निम्नलिखित सामग्री गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय दोनों पाठों में नहीं मिलती है,

सर्ग २३—युद्ध के पूर्व लका में अपशकुन (निमित्तानि) ।

सर्ग ४० तथा ४१, १-१०—सुग्रीव-रावण-द्वन्द्व ।

सर्ग ५३-५४—अंगद-वज्रदंष्ट्र-युद्ध ।

सर्ग ६०, ८-१२—रावण के विरुद्ध अनारण्य, वेदवती, उमा, नन्दीश्वर, रभा तथा पुजिकस्थला के शापों का उल्लेख ।

सर्ग १०५—अगम्य का राम को आदित्यहृदय स्तोत्र सिखाना ।

सर्ग १२३, २०—मेतु पर शिव-प्रतिष्ठा का निर्देश ।

सर्ग १२३, २३-३८—सीता के अनुरोध से किष्किंधा में वानर-पत्नियों को पुष्पक में साथ लेना ।

५५८. उपर्युक्त सामग्री से स्पष्ट है कि उदीच्य पाठ से अलग हो जाने के पश्चात् दाक्षिणात्य पाठ में पर्याप्त मात्रा में प्रक्षेप तोड़ दिए गए हैं । दूसरी ओर अन्य पाठों में बहुत सी सामग्री मिलती है जिसका उल्लेख दाक्षिणात्य पाठ में नहीं किया गया है । निम्नलिखित वृत्तान्त केवल गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठ में मिलते हैं :

(१) निकषा-वाक्यम्—निकषा अपने पुत्र विभीषण से अनुरोध करती है कि वह रावण को समझावे, दे० अनु० ५६८ (४) ।

(२) रावण-सभा—केवल एक बार होती है लेकिन इसके वर्णन में गौडीय पाठ में सात नए सर्ग जोड़े दिए गए हैं; दे० अनु० ५६८ (५) ।

(३) दशरथ-सागर की मंत्रो का वर्णन—(दे० गौ० रा० ५, ९४, २१-२२ तथा प० रा० ५, ९६, ४३-६६) ।

(४) बालि-सुग्रीव की जन्मकथा—दाक्षिणात्य पाठ में यह वृत्तान्त उत्तर-काण्ड के ३७ वें सर्ग के बाद के प्रथम प्रक्षिप्त सर्ग में मिलता है (दे० गौ० रा० ६, ४, ३०-५० और प० रा० ६, सर्ग ४) ।

(५) रावण-मन्दोदरी-संवाद—ग्रहस्त-वध के पश्चात् मन्दोदरी रावण से अनुरोध करती है कि वह युद्ध न करे क्योंकि राम मनुष्य नहीं है (दे० गी० रा० ६, ३३ तथा प० रा० ६, ३५) ।

(६) नारद-कुम्भकर्ण-संवाद—नारद ने कुम्भकर्ण से विष्णु द्वारा रावण-वध का ग्रहस्थ प्रकट किया था । नारद के इस कथन का उल्लेख कर कुम्भकर्ण युद्ध न करने का रावण से अनुरोध करता है । रावण विष्णु द्वारा अपना वध तथा फलस्वरूप परम पद प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करता है (दे० गी० रा० सर्ग ४०-४१ तथा प० रा० सर्ग ४१-४२) ।

(७) कालनेमि-वृत्तान्त—हिमालय-यात्रा के वर्णन के अन्तर्गत हनुमान् द्वारा कालनेमि-वध, गधर्वों से युद्ध तथा रावण के भेजे हुए गधर्मों का वध (दे० गी० रा० सर्ग ८२, १८२ आदि; सर्ग ८३ और ८४, प० ग० सर्ग ८१) ।

५५९ दो वृत्तान्त केवल गाँडीय पाठ में ही पाए जाते हैं—

(१) विभीषण की कैलास-यात्रा—दे० अनु० ५६८(६) ।

(२) हनुमान्-भरत-संवाद—दे० अनु० ५८८ ।

५६०. अतः में उम सामग्री का उल्लेख करना है जो केवल पश्चिमोत्तरीय पाठ में मिलती है—

(१) विभीषण-निकषा-संवाद—दे० अनु० ५६८(६) ।

(२) समुद्र का गम और लक्ष्मण को एक कवच और अस्त्र प्रदान करना । रावण के मंत्रियों का रावण को विजय का आश्वासन देना (दे० प० रा० ५, सर्ग ९९ और १००) ।

(३) नारद-वाक्य—नागपाश के अवसर पर नारद का आना और गम को उनके नागयणत्व का स्मरण दिलाना (दे० प० रा० ६, २७, ७-४१) ।

(४) कुम्भकर्ण-वाक्य—रणभूमि में विभीषण से मिलकर कुम्भकर्ण राम की शरण लेने की उमकी दृग्दर्शिता की प्रशंसा करता है (दे० प० रा० ६, ४६, ८२-९१) ।

(५) केश-ग्रहण—विभीषण के कहने पर वानर रावण के यज्ञस्थल पर पहुँच कर उसका ध्यान भंग करने में असमर्थ है । इसपर अगद मन्दोदरी के केशों को खींच कर उसे रावण के पाम ले आता है, जिसे रावण उत्तेजित हो जाता है और फलस्वरूप उसका यज्ञ समाप्त नहीं हो पाता है (दे० प० रा० ६, ८२ और अनु० ५९७) ।

**प्रक्षेप**

५६१. तीन पाठों की उपर्युक्त विभिन्नता ने स्पष्ट है कि गायको ने युद्धकाण्ड का कलेवर बढाने में सकोच नहीं किया है। प्रारंभिक सर्गों में से निम्नलिखित सर्ग प्रक्षिप्त प्रतीत होते हैं, सर्ग १-३ (अनु० ५६७), सर्ग ६-८ (अनु० ५६८), सर्ग १०-१५ और २० (दाक्षिणात्य पाठ मात्र में मिलते हैं), सर्ग २१ (अनु० ५७४)। अतः युद्धकाण्ड के प्रारंभ की प्रामाणिक सामग्री इस प्रकार है

सर्ग ४-५—त्रानर-सेना का अभियान, राम का विलाप।

सर्ग ९ और १६—त्रिभीषण की चेतावनी, रावण द्वारा उसका अपमान तथा त्रिभीषण का लका से प्रस्थान।

सर्ग १७-१९—त्रिभीषण की शरणागति और अभिषेक।

सर्ग २२ (अशत)—मेतुबन्ध।

५६२. आदि-रामायण में मेतु-विषयक वृत्तान्त के पश्चात् अगद के दूतकार्य (सर्ग ८१) का वर्णन आता था यह डॉ० याकोबी<sup>१</sup> का अनुमान है, इसके अनुसार सर्ग २३-४० प्रक्षिप्त है। इस अनुमान का कारण यह है कि सर्ग २३ के कुछ श्लोक (२-१३) सर्ग ४१ में द्रुहण्ये गये हैं (दे० ४१ ११-२२); यदि दोनों के बीच की सामग्री हटा दी जाय तो आधिकारिक कथा-वस्तु के किमी आवश्यक अंश का अभाव नहीं परिगलित होगा। इस अंश में बालकाण्ड में वर्णित वानरों की उत्पत्ति का निर्देश मिलता है (२८ ५ और २० २७), प्रामाणिक सर्गों में बालकाण्ड की सामग्री का उल्लेख नहीं होता। इस प्रक्षिप्त अंश की मुख्य कथावस्तु इस प्रकार है—गुप्तचरो की कथाएँ (दे० अनु० ५८२) राम के मायाशीर्ष का वृत्तान्त (दे० अनु० ५८३) तथा सुबेल पर्वत के चडाव का प्रसंग अनु० (दे० अनु० ५८८)।

५६३. युद्धप्रकरण (सर्ग ४२-११२) में इतनी पुनरावृत्ति और नीरसता पाई जाती है कि यह समस्त सामग्री वाल्मीकि जैसे महान् कवि की रचना हो ही नहीं सकती। परम्पर-विरोधी सामग्री के तीन उदाहरण यहाँ पर पर्याप्त होंगे।

सर्ग ५० में गरुड के आगमन का वर्णन किया गया है, राम-लक्ष्मण मूर्च्छित होकर पड़े हुये हैं और गरुड के आने पर नागपाश से मुक्त हो जाते हैं। किन्तु सर्ग ४९ में शर-पाश-बद्ध राम के जगने का उल्लेख ही चुका था, अतः सर्ग ५० का अनावश्यक वृत्तान्त बाद का प्रक्षेप सिद्ध हो जाता है।

१ दे० वही पृ० ४३।

सर्ग ५९ में अकम्पन तथा नरातक दोनों को जीवित माना गया है किन्तु उनके वध का उल्लेख क्रमशः सर्ग ५६ तथा सर्ग ५८ में हो चुका है। इसके अतिरिक्त इस सर्ग में राम-रावण-युद्ध का वर्णन है यद्यपि आगे चलकर राम के प्रथम बार रावण से युद्ध करने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है (सर्ग १००, ४६-५२)। वास्तव में लक्ष्मण के शक्ति से आहत होने का जो वर्णन इस सर्ग में किया गया है, वह सर्ग १०० का अनुकरण मात्र प्रतीत होता है, अतः सर्ग ५९ की प्रक्षिप्तता असंदिग्ध है।

इसी प्रकार सर्ग ६९-७० को भी बाद का प्रक्षेप मानना चाहिये। यत्रतत्र इन्द्र-वज्रा छन्दो के प्रयोग के अतिरिक्त इन सर्गों की कथावस्तु इन्हे प्रक्षिप्त ठहराती है; इनमें दो राक्षसों का वध वर्णित है जो पहले ही मारे जा चुके हैं—त्रिशिरा (३, २७) और नरातक (६, ५८, २०) तथा दो अन्य राक्षसों के मरने का उल्लेख है जिनके वध का वर्णन बाद में फिर किया गया है—महोदर (६, ९७) और महापार्ष्व (६, ९८)।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि इन्द्रजित्-वध के बाद इसका स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया गया है कि उस समय तक युद्ध केवल तीन दिन से चल रहा है (दे० ९१, १६)। रावण-वध के लिए एक दिन और रखने पर यह अनुमान किया जा सकता है कि आदिरामायण में समस्त युद्ध का वर्णन इस प्रकार विभक्त किया गया था :

१ला दिन—मामूहिक युद्ध और नागपाश का प्रमग।

२रा दिन—कुम्भकर्ण का वध।

३रा दिन—इन्द्रजित् का वध।

४था दिन—रावण का वध।

युद्धकाण्ड के समस्त प्रक्षिप्त सर्गों का ठीक ठीक पता लगाना असम्भव प्रतीत होता है। कथानक के दृष्टिकोण में निम्नलिखित प्रक्षेप अपेक्षाकृत अधिक महत्त्व रखते हैं।

५६४. हनुमान् की हिमालय-यात्रा (सर्ग ७४ और सर्ग १०१)। प्रचलित वाल्मीकि रामायण में हनुमान् की इस यात्रा का दो बार वर्णन किया गया है। इस प्रसंग के प्रक्षिप्त होने का सबसे महत्त्वपूर्ण तर्क हनुमान् के समुद्र-लंघन का वर्णन है (दे० रा० ५, १)। हिमालय की यात्रा इस लंघन से कहीं अधिक असाधारण है, फिर भी इस कार्य की कठिनाई का कुछ भी वर्णन नहीं किया गया है। यदि समुद्र-लंघन तथा हिमालय-यात्रा का वर्णन दोनों एक, के ही द्वारा रचित होते तो हिमालय-यात्रा को अधिक महत्त्व दिया जाता। महाभारत के रामोपाख्यान में भी हनुमान् की हिमालय-यात्रा का उल्लेख नहीं है। सर्ग ७४ में त्रिष्टुभ छन्दों का बाहुल्य भी

प्रामाणिकता के विषय में सन्देह उत्पन्न करता है। सर्ग १०१ को हटाने से सर्ग १०० सुगमता से सर्ग १०२ से मेल खाता है।<sup>१</sup> इसके अतिरिक्त सर्ग १०० के कुछ श्लोक सर्ग १०२ में दुहराये गये हैं; इसमें भी सर्ग १०० के प्रक्षिप्त होने का निर्देश देखा जा सकता है।

५६५. अग्निपरीक्षा (सर्ग ११४-१२०)। सीता की अग्नि-परीक्षा के प्रक्षिप्त होने में बहुत कम सन्देह है।<sup>१</sup> इस प्रसंग में सीता के प्रति राम के प्रेम में जो सहसा परिवर्तन दिखाया गया है वह अप्रत्याशित ही नहीं सर्वथा अस्वाभाविक भी है। सीता-हरण के बाद राम के विरह का बहुत से सर्गों में वर्णन किया गया है; यूद्धकाण्ड के प्रारंभ में राम स्वयं कहते हैं कि मेरा विरह-जनित शोक दिनोंदिन बढ़ता जाता है।

शोकदग्ध किल कालेन गच्छता ह्यपगच्छति ।

मम चापश्यतः कान्तामहन्यहनि वर्धते ॥४॥ (सर्ग ५) ।

लकावरोध के बाद भी सीता के लिये राम की अभिलाषा का उल्लेख किया गया है : जगाम मनसा सीतां ब्रूयमानेन चेतसा (४२, ७)। इन्द्रजित् द्वारा माया-सीता के वध का समाचार सुनकर राम मूर्च्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवः शोकमूर्च्छितः ।

नियपात तत्रा भूमौ छिन्नमूल इव द्रुमः ॥१०॥ (सर्ग ८३)

इससे स्पष्ट है कि सीता के प्रति राम का प्रेम अपरिवर्तित बना हुआ था, किन्तु यह सब होते हुये भी रावण-वध के पश्चात् राम सीता को देखकर उनसे कहते हैं कि मैं अपने शत्रु के अपमान का प्रतिकार कर चुका हूँ; मुझे तुम्हारे प्रति कोई आकर्षण नहीं रहा; लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सुग्रीव अथवा विभीषण किसी को भी पति के रूप में चुन सकती हो; मुझे तुम्हारे चरित्र पर सन्देह है। अग्निपरीक्षा के बाद राम अवश्य स्वीकार करते हैं कि यैने तो तुम पर सन्देह नहीं किया किन्तु जनता की दृष्टि से तुम्हारे इस शुद्धीकरण की आवश्यकता थी। इस प्रकार का दिखावा समस्त मूल वाल्मीकि रामायण की भावधारा के विरुद्ध है और अवतारवाद स्वीकार होने के पश्चात् ही ऐसा संभव था; परवर्ती साहित्य में इस पर बारबार बल दिया जाता है कि राम

१ १००, ५५ के बाद १०२वाँ सर्ग आना चाहिए। दे० एच० याकोबी : वही, पृ० ४५।

२. दे० ए० वेबर, आँन दि रामायण, पृ० ३५। डब्लू प्रिंस, याकोबी मेमोरियल बोल्ड्युम, पृ० २०८।

को वास्तविक दुःख नहीं है, वह केवल मनुष्य-चरित करते हैं। अतः आश्चर्य नहीं होना चाहिये कि इस प्रसंग में राम तथा सीता दोनों के अवतार होने का उल्लेख है। ब्रह्मा आदि देवता प्रकट होकर राम की त्रिण्डु के रूप में स्तुति करते हैं तथा सीता को लक्ष्मी में अभिन्न मानते हैं (११७, २७)। यह वाल्मीकि रामायण का एकमात्र स्थल है, जहाँ सीता तथा लक्ष्मी की अभिन्नता का प्रतिपादन किया गया है (दे० अनु० ३६८)।

उपर्युक्त तर्कों के अतिरिक्त यह भी ध्यान देने योग्य है कि युद्धकाण्ड के अन्त में दो बार समस्त राम-कथा का सिंहावलोकन प्रस्तुत किया गया है (सर्ग १२४ और १२६), किन्तु अग्निपरीक्षा का उल्लेख नहीं होता। बालकाण्ड के प्रारम्भ की दोनों अनुक्रमणिकाओं (सर्ग १ और ३) का प्रामाणिक संस्करण अग्निपरीक्षा के विषय में मौन है।<sup>१</sup> यही नहीं, उत्तरकाण्ड भी अग्निपरीक्षा के विषय में कुछ नहीं कहता; दो स्थलों पर राम सीता की निर्दोषता के प्रमाण का उल्लेख करते हैं। प्रथम बार सीता-त्याग के समय वह केवल देवताओं के साक्ष्य की चर्चा करते हैं,<sup>२</sup> दूसरी बार वह वाल्मीकि से कहते हैं कि मैंने लका-निवास के बाद सीता को तभी ग्रहण किया जब उन्होंने अपने सतीत्व की शपथ खाई थी। यदि उम सर्ग के रचनाकाल में अग्नि-परीक्षा का वृत्तान्त प्रचलित होता तो यहाँ पर राम द्वारा अवश्य ही सीता के सतीत्व के सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण का उल्लेख हुआ होता। अतः यह मानना पड़ेगा कि उत्तरकाण्ड की आधिकारिक कथावस्तु के लिपिबद्ध होने के पश्चात् ही अग्निपरीक्षा विषयक प्रक्षेप युद्धकाण्ड का अंग बन गया है।<sup>३</sup>

महाभारत के रामोपाख्यान से भी हमारे निर्णय की पुष्टि होती है; रामायण के इस प्राचीनतम मक्षेप में कहीं भी अग्निपरीक्षा का निर्देश मात्र भी नहीं मिलता (दे० अनु० ६०१)। अग्नि-परीक्षा के बाद के दो सर्ग (११९-१२०) भी अनावश्यक हैं और प्रायः प्रक्षिप्त माने जाते हैं।<sup>४</sup> इनमें शिव राम की स्तुति करते हैं, दशरथ दिखाई देते हैं तथा इन्द्र राम का निवेदन स्वीकार कर मृत धानर-सैनिकों को जीवित कर देते हैं।

१ दे० जी० एच० भट्ट, ज० अँ० इ०, भाग ५, पृ० २९२।

२ दे० गौ० रा० ७, ४८, ६; प० रा० ७, ४७, ७। दक्षिणात्य पाठ के समानान्तर स्थल पर अग्निपरीक्षा का उल्लेख है (७, ४५, ७), जो अन्य पाठों में नहीं मिलता।

३ दे० नीलमाधव मेन। ज० अँ० इ०, भाग १, पृ० २०६।

४ दे० महाराष्ट्रीयः श्री रामायण समालोचना, भाग १, पृ० २३९।



५६६. पुष्पक में अयोध्या की यात्रा (सर्ग १२३) । यदि आदि रामायण के रचनाकाल में यह मानी हुई बात होती कि रावण के पास पुष्पक है तो सीताहरण के समय अवश्य ही रावण द्वारा इसके उपयोग का वर्णन किया गया होता किन्तु अरण्य-काण्ड में कहीं भी पुष्पक का उल्लेख नहीं मिलता (दे० अनु० ४९२) । मुन्दरकाण्ड में जो पुष्पक वर्णन-विषयक सर्ग मिलते हैं, वे भी प्रक्षिप्त हैं (दे० अनु० ५३०) । इसी तरह युद्धकाण्ड के अन्तिम सर्गों की अंतरंग परीक्षा से प्रतीत होता है कि आदि रामायण में वापसी यात्रा के प्रसंग में पुष्पक का कोई उल्लेख नहीं था । सर्ग १२३ के अन्त में पुष्पक के अयोध्या के पास पहुँचने का उल्लेख किया गया है किन्तु अगले सर्ग १२४ में वनवास की समाप्ति पर राम के भगद्वाज-आश्रम में पहुँचने का वर्णन किया गया है । लंका में राम ने विभीषण से अयोध्या के दुर्गम मार्ग का उल्लेख किया था— अयोध्यां गच्छतो ह्येव पन्थाः परमदुर्गमः (१२१, ७) ; और भगद्वाज-आश्रम में राम ने मुनि ने यह वचन मँग लिया कि अयोध्या के मार्ग में सभी वृक्ष अकाल में ही फलदार हों—अकालफलिनो वृक्षाः ।<sup>१</sup> इसके अतिरिक्त हनुमान् से समाचार प्राप्त करने के पश्चात् जब अयोध्यावासी राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तब वानर-सेना द्वारा गोमती नदी के पार करने का तथा उनके द्वारा उड़ाई हुई धूल का उल्लेख किया गया है :

मन्यं वानरसेना सा नर्बो तरति गोमतीम् ।

रजोवर्षं समुद्भूतं पश्य सालवनं प्रति ॥२८॥ (सर्ग १२७)

इन उद्धरणों के आधार पर यह अनुमान किया जा सकता है कि आदि रामायण में राम स्थल-मार्ग से ही अयोध्या लौटे थे; अतः युद्धकाण्ड के अन्त में पुष्पक-विषयक सामग्री को, विशेषकर सर्ग १२३ को, प्रक्षिप्त माना जाना चाहिए ।<sup>१</sup>

१. दे० १२४, १९ । सर्ग १२४ और १२५ में प्रत्यावर्तन के वर्णन की प्राचीनतम सामग्री सुरक्षित है । सर्ग १२५ के प्रारंभ में जो पुष्पक का उल्लेख है वह गौडीय पाठ के समानान्तर सर्ग १०९ में नहीं मिलता ।
२. महानाटक तथा कुछ अन्य रचनाओं में राम की पैदल-यात्रा का वर्णन मिलता है (दे० अनु० ६०६) । प्रचलित रामायण के अनुसार राम ने अयोध्या पहुँचकर पुष्पक को वैश्रवण के पास भेज दिया है (दे० ६, १२७) । बाद में पुष्पक राम के पास लौटा किन्तु राम ने उसे यह कहकर फिर कुबेर के पास भेज दिया कि स्मरण किए जानें पर मेरे पास आना (दे० ७, ४१) । दम्बूक-अश्व के अवसर पर राम ने पुष्पक को बुलाया (दे० अनु० ६२८) । रावण ने वैश्रवण को हराकर पुष्पक प्राप्त किया था (दे० अनु० ६५१) । आनन्द रामायण (१, १२, १६१) के अनुसार राम ने पुष्पक को आदेश दिया कि वह सुग्रीवादि को उनके स्थान पर पहुँचा दे ।

## २—युद्धकाण्ड का विकास

५६७. वाल्मीकि रामायण के युद्धकाण्ड से सबध रखनेवाली सामग्री में आगे चलकर बहुत कुछ परिवर्द्धन किया गया है तथा सर्वथा नवीन सामग्री भी जोड़ दी गई है। फिर भी आधिकारिक कथावस्तु का कोई विकास नहीं हुआ है। अधिकांश परिवर्द्धन पुनरावृत्ति मात्र ही है और इसमें बहुत उपेक्ष्य सामग्री भी मिलती है। अतः यहाँ पर कुछ अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण अथवा रोचक वृत्तान्तों का कथानक के क्रमानुसार उल्लेख अथवा निरूपण किया जाता है। अन्त में सर्वथा नवीन सामग्री प्रस्तुत की गई है (अनु० ६११-६१५)।

### क। वानर-सेना का अभियान

युद्ध-काण्ड के प्रारम्भ में राम हनुमान् की प्रशंसा करते हुए लका-दहन का उल्लेख करते हैं तथा समुद्र के कारण चिन्तित हो जाते हैं (सर्ग १)। सुग्रीव राम को विजय का आश्वासन देकर सेतु-निर्माण का आयोजन करने का निवेदन प्रस्तुत करता है (सर्ग २)। राम से पूछे जाने पर हनुमान् लका-दुर्ग तथा राक्षस-सेना की शक्ति का वर्णन करते हुए फिर लकादहन की ओर सन्केत करते हैं (सर्ग ३)। इस सामग्री में लकादहन तथा सेतु-निर्माण का जो उल्लेख मिलता है इसमें अनुमान किया जा सकता है कि ये तीनों सर्ग बाद के प्रक्षेप हैं। अगले सर्ग में स्पष्ट है कि सेतु-निर्माण का अब तक निश्चय नहीं हुआ था क्योंकि राम ने समुद्र के तट पर पहुँचकर कहा कि अब हमें समुद्र पार करने के उपाय पर परामर्श करना चाहिये—**प्राप्तो मंत्रकालो न सागर-स्येह लघने** (४ १०१)। इस सर्ग में सेना-अभियान का वर्णन किया गया है—राम तथा लक्ष्मण ने क्रमशः हनुमान् तथा अगद पर चढ़कर वानर-सेना के मध्य में समुद्र की ओर प्रस्थान किया। तट पर पहुँच कर वानर-सेना ने वृक्षों के नीचे पड़ाव डाला (सर्ग ६)। अनन्तर सीता-विग्रह से व्याकुल राम के विलाप का वर्णन किया गया है (सर्ग ५)।

परवर्ती साहित्य में वानर-सेना के अभियान के प्रसंग में अन्य सेनाओं का भी उल्लेख किया गया है। वाल्मीकीय उत्तरकाण्ड के अनुसार भरत ने सीताहरण का समाचार सुनकर सब राजाओं को बुलाया था (सर्ग ३८, २४-२५) और वे अपनी सेनाओं के साथ अयोध्या आए भी थे किन्तु युद्ध में भाग न ले सके—**भरतेन बयं पश्चात्समानता निरर्थकम्** (३९ ६)। गौडीय पाठ के अनुसार हनुमान् ने अपनी हिमालय-यात्रा के समय भरत को युद्ध का समाचार दिया था जिससे भरत काशेय, जनक, कैकय,

आदि राजाओं को बुलाकर युद्ध की तैयारियाँ करने लगे थे—समुद्रमंथन कर्तुमारभत ।<sup>१</sup> चसुदेवर्हिण्डि (सातवीं श० ई०) में माना गया है कि भरत ने सुग्रीव द्वारा युद्ध का समाचार पाकर एक क्षत्रियिनी सेना भेज दी थी जो समय पर वानर-सेना के साथ समुद्रतट पर पहुँची थी। पञ्चमखरिचं (पर्व ५५) तथा अन्य जैन राम-कथाओं में सीता का भाई भामण्डल अपनी सेना के साथ राम की सहायता करने आता है। गुणभद्र के उत्तरपुराण में राम अपनी ही सेना तथा वानर-सेना दोनों के साथ लंका पर आक्रमण करते हैं। सम्बुरान की सेना का उल्लेख अनु० ५२४ में हो चुका है।

## ख । विभीषण-चरित

५६८. वाल्मीकि रामायण तथा परवर्ती राम-कथाओं में विभीषण के विषय में विस्तृत सामग्री मिलती है। यहाँ पर इसका सिंहावलोकन प्रस्तुत किया गया है।

(१) रावण की सभा सबंधी सर्गों में से केवल दो ही प्रामाणिक प्रतीत होते हैं।<sup>१</sup> सर्ग ९ की मुख्य कथावस्तु है विभीषण द्वारा लंका के विनाश की आशंका तथा सीता को लौटाने का रावण से अनुरोध। सर्ग १६ में रावण संबंधियों की सामान्य निन्दा करते हुये (धोराः स्वार्थप्रयुक्तास्तु ज्ञातयो नो भयावहाः; श्लोक ७) विभीषण को राक्षस-कुल का कलक बताता है (शिवकुलपांसन श्लोक १६)। इस धोर भर्त्सना से घबराकर विभीषण चार<sup>२</sup> राक्षसों के साथ लंका छोड़ देता है (सर्ग १६)।

१. दे० गौ० रा० ६, ८२, १३९। प्रतिमानाटक में भरत सुमन्त्र से सीताहरण का समाचार सुनकर अन्य राजाओं के साथ लंका पर आक्रमण करने का संकल्प करते हैं (दे० ६, १६)। साकेत (सर्ग १२) में भरत-हनुमान्-संवाद के पश्चात् भरत के आदेश पर अयोध्यावासियों की रणसज्जा का विषाद वर्णन किया गया है, त्रसिष्ठ ने राम-त्रिजय का आश्वासन देकर उनको जाने से रोक लिया तथा सबों को दूरदृष्टि दिलाकर लंका की घटनाओं का साक्षी बनाया। आनंद रामायण (१, ११, ७२) में इसका उल्लेख मात्र किया गया है कि हनुमान् के चले जान के बाद भरत ने राजाओं को बुलाकर राम की सहायता करने जाने का निश्चय किया था।

२. सर्ग ६ में रावण तीन प्रकार के मंत्रियों के विषय में नीति की शिक्षा देता है; सर्ग ७-८ में विभिन्न राक्षस रावण को त्रिजय का आश्वासन देते हुये उत्तर-काण्ड में द्रिणित रावण की त्रिजय-यात्राओं का उल्लेख करते हैं। सर्ग १०-१५ गौड़ीय पाठ में नहीं मिलते।

३. युद्ध काण्ड, सर्ग ३७, के अनुसार इनके नाम इस प्रकार हैं—अनल, पनस, सम्पाति और प्रमाति। गौर्विन्दराज के पाठ में पनस के स्थान पर शरभ नाम आया है।

(२) विभीषण की शरणागति के विषय में वाल्मीकि रामायण का वृत्तान्त इस प्रकार है। विभीषण वानर-सेना के शिबिर के पास पहुँचकर अपना परिचय देते हुये कहता है कि मैं रावण का अनुज हूँ; उसने मेरे सत्परामर्श को ठुकराकर मेरा अपमान किया है, अतः मैं अपना परिवार छोड़कर राम की शरण में आ गया हूँ—**त्यक्त्वा पुत्रांश्च वारांश्च राघवं शरणं गतः** (१७, १६)। तब सुग्रीव विभीषण को मार डालने का परामर्श देते हैं किन्तु राम शरणागत को अवध्य बताकर उसे ग्रहण करते हैं :

**बद्धांजलिपुटं वीनं याचन्तं शरणागतम् ।**

**न हन्यादानृशंस्थार्यमपि शत्रुं परंतप ॥२७॥ (सर्ग १८) ॥**

अनन्तर विभीषण रावण तथा उसकी सेना की शक्ति का वर्णन करता है और युद्ध में राम की सहायता करने की प्रतिज्ञा करता है। तब राम विभीषण का राज्याभिषेक करते हैं और इसके बाद विभीषण राम को सागर की शरण लेने का परामर्श देता है। (सर्ग १९)।

(३) प्रचलित वाल्मीकि रामायण के विभिन्न पाठों में रावण-सभा तथा विभीषण की शरणागति के विषय में प्रक्षिप्त सामग्री पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। **दाक्षिणात्य पाठ** के छः सर्ग गौडीय पाठ में नहीं मिलते हैं; इनकी कथावस्तु इस प्रकार है—रावण की सभा के दूसरे दिन विभीषण ने रावण के पास जाकर अपनी चेतावनी दुहराई (सर्ग १०)। अनन्तर रावण की **द्वितीय सभा** का वर्णन किया गया है। कुम्भकर्ण ने सीताहरण के कारण रावण की भर्त्सना करने के बाद युद्ध में सहायता देने की प्रतिज्ञा की; सीता के साथ बलप्रयोग करने के महापादर्व के सुझाव का उत्तर देते हुये रावण ने ब्रह्मा के शाप का उल्लेख किया (दे० अनु० ६५४); विभीषण ने फिर लका के विनाश की आशंका प्रकट की तथा इन्द्रजित् ने उसे कायर कहकर पुकारा (सर्ग ११-१५)।

१. दे० सर्ग १७। शरणागति के वर्णन में एक विस्तृत प्रक्षेप मिलता है (१७, ३१-६८ और १८, १-२०), इसमें राम विभीषण के विषय में प्रमुख वानरो का विचार पूछते हैं तथा सुग्रीव के तर्कों का उत्तर देते हैं। प्रक्षिप्तता का प्रमाण इसमें है कि सर्ग १७ के चार श्लोक (२७-३०), सर्ग १८ में दोहराये गये हैं (१७-२०)। अधिकांश सामग्री उदीच्य पाठ में नहीं मिलती।
२. विभीषण की शरणागति के बाद सभी पाठों में रावण की सभा के मिलने का दो बार उल्लेख किया गया है—राम के मायावीर्य के प्रसंग के ठीक पहले (दे० सर्ग ३१) तथा इसके बाद (दे० सर्ग ३५)। इसके अतिरिक्त पश्चिमोत्तरीय पाठ मात्र में वानर-सेना के समुद्र-तरण के पश्चात् रावण-सभा के मिलने का वर्णन किया गया है (दे० सुन्दरकाण्ड, सर्ग १००)।

(४) दाक्षिणात्य पाठ में इसका उल्लेख मात्र किया गया है कि रावण की माता ने लंकावरोध के समय सीता को लौटाने का रावण से अनुरोध किया था; उदीच्य पाठों के अनुसार निकषा ने रावण-सभा के पूर्व ही अपने पुत्र विभीषण के पास जाकर उससे निवेदन किया कि वह रावण को समझावे ।<sup>१</sup>

(५) उदीच्य पाठों में विभीषण की शरणागति के पूर्व रावण की एक ही सभा वर्णित है किन्तु इस सभा के वर्णन में बहुत प्रलिप्त सामग्री है, जिसका दाक्षिणात्य पाठ में नितान्त अभाव है। रावण-विभीषण-संवाद के अतिरिक्त इसमें पहस्त-वाक्यम्, महोदर-वाक्यम् तथा विरूपाक्ष-वाक्यम् नामक सर्ग भी मिलते हैं; अन्त में इसका उल्लेख है कि रावण ने राम की शरण लेने का विभीषण का सकल्प सुनकर उस पर पाद-प्रहार किया था ।<sup>२</sup>

(६) राम की शरण लेने के पूर्व विभीषण पहले अपनी माता से मिलने गया था इनका उल्लेख मात्र गौडीय पाठ में मिलता है किन्तु पश्चिमोत्तरीय पाठ में विभीषण-निकषा-संवाद का पूरा वर्णन किया गया है ।<sup>३</sup> गौडीय पाठ ही विभीषण की कैलास-यात्रा का उल्लेख करता है। इसके अनुसार विभीषण अपनी माता से विदा लेकर अपने भाई वैश्रवण के पास चला गया था। कैलास पर, विभीषण वैश्रवण तथा शिव दोनों से मिला और दोनों ने उसे राम की शरण लेने का परामर्श दिया ।<sup>४</sup>

५६९. शरणागति के प्रसंग के बाहर बाल्मीकि रामायण की विभीषण-विषयक-सामग्री निम्नलिखित है :

१. दे० दा० रा० ६, ३४, २०; गौ० रा० ५, ७६; प० रा० ५, ७५। भावार्थ रामायण (५, ३५) तथा कृत्तिवास रामायण (५, ३७) में भी इसका वर्णन किया गया है। रंगनाथ रामायण (६, ३१) में कैकसी का हितोपदेश लंकावरोध के बाद ही रखा गया है।
२. दे० सुन्दरकाण्ड; गौ० रा० ८१-८७; प० रा० सर्ग ८१-९०। रावण के पाद-प्रहार का उल्लेख अभिनन्द (२३, ८७), माधव कदली, कृत्तिवास, बलरामदास, रंगनाथ, एकरनाथ तथा तुलसीदास आदि के रामायणों में भी मिलता है।
३. दे० गौ० रा० ५, ८९, ४; प० रा० ५, ९१, ४-६२। माधव कदली (५, ४०), कृत्तिवास (५, ३९), रंगनाथ (६, १४), तथा एकरनाथ (५, ३७) ने विभीषण और उसकी माता की इन भेंट का वर्णन किया है। इसका उल्लेख तोरवे रामायण में भी मिलता है (६, २)।
४. दे० गौ० ५, ८९, ५-४२। विभीषण की इन कैलास-यात्रा का वर्णन माधव कदली (५, ४०), कृत्तिवास (५, ४०), अभिनन्द (रामचरित सर्ग २४) तथा तुलसीदास ने (गीतावली ५, २७-२८) भी किया है।

(१) सुन्दरकाण्ड के अनुसार विभीषण ने सीता को लौटाने का रावण से अनुरोध किया था (दे० अनु० ५४६) तथा बाद में हनुमान् का वध करने से रावण को रोका था (दे० अनु० ५५१)। इसके अतिरिक्त इसका भी उल्लेख किया गया है कि लंकावहन के समय विभीषण का भवन सुरक्षित रहा (दे० ५, ५४, १६)।

(२) युद्धकाण्ड में विभीषण को राम के मुख्य परामर्शदाता के रूप में चित्रित किया गया है। उसके परामर्श के अनुसार राम समुद्र की शरण लेते हैं (सर्ग १९) तथा अंगद को रावण के पास भेज देते हैं (सर्ग ४१)। विभीषण गुप्तचरों शुक-सारण को (सर्ग २५) तथा बाद में शार्दूल को (सर्ग २९) पहचानकर पकड़वाता है; उसके मंत्री लंका जाकर राक्षसों की सेना का समाचार ले आते हैं (सर्ग ३७)। वह राम को कुम्भकर्ण (सर्ग ६१) तथा प्रहस्त (सर्ग ५८) का परिचय देता है। माया-सीता के वध के अवसर पर वह रावण की माया के रहस्य का उद्घाटन करता है तथा इन्द्रजित् के यज्ञ<sup>१</sup> के विध्वंस का परामर्श देता है (सर्ग ८४)।

परवर्ती साहित्य में विभीषण को ज्योतिषी तथा मायाबी माना गया है। इसका आधार युद्धकाण्ड के उस स्थल में विद्यमान है, जहाँ कहा गया है कि विभीषण ही अपनी माया के बल पर इन्द्रजित् को देखने में समर्थ था (दे० सर्ग ४६)। इसका भी उल्लेख मिलता है कि विभीषण ने सुग्रीव की (सर्ग ४६, ९) तथा बाद में राम-लक्ष्मण की (सर्ग ५०) आँखों को जल से धोया था, महाभारत के अनुसार यह जल कुबेर का भेजा हुआ था; इससे आँख धो लेने के बाद अदृश्य प्राणी दृष्टिगोचर हो जाते थे।<sup>२</sup>

युद्ध के वर्णन में विभीषण का तीन बार उल्लेख मिलता है—वह प्रथम सामान्य युद्ध में भाग लेता है (सर्ग ४३), इन्द्रजित् की सेना का सामना करता है (सर्ग ८९-९०) तथा लक्ष्मण के विरुद्ध लड़ते हुए रावण के घोड़े को मार डालता है (सर्ग १००)।

रावणवध के बाद विभीषण ने पहले अपने भाई की अन्त्येष्टि करना अस्वीकार किया था,<sup>३</sup> किन्तु राम के समझाने पर (मरणान्तानि वैराणि; १११, १००) उसने

१. पश्चिमोत्तरीय पाठ में रावण के यज्ञ का विध्वंस भी विभीषण के परामर्श से किया जाता है (दे० अनु० ५९७)।
२. 'अंतर्हितानां भूतानां वर्धनार्थम्' (दे० ३, २७३, १०)। आनन्द रामायण में भी कुबेर के भेजे हुए जल का उल्लेख है (दे० १, ११, २९)।
३. दे० ६, १११, ९४। वाल्मीकि का यह यथार्थवादी दृष्टिकोण शरणागति के समय विभीषण के इस कथन से भी स्पष्ट है—राक्षसानां त्रथे साह्यं लंका-याश्च प्रघर्षणे। करिष्यामि यथाप्राण प्रवेक्ष्यामि च वाहिनीम् (६, १९, २३)।

रावण का दाह-संस्कार सम्पन्न किया था। अतः रावण के वध पर विभीषण-विलाप-विषयक सर्ग अस्त्राभाविक प्रतीत होता है (दे० दा० रा० सर्ग १०९; गौ० रा० सर्ग ९३); शास्त्र में यह सर्ग प्रक्षिप्त है और पश्चिमोत्तरीय पाठ में नहीं मिलता।

युद्धकाण्ड के अन्त में राम विभीषण का अभिषेक करने के लिए लक्ष्मण को लंका भेज देते हैं (सर्ग ११२); बाद में विभीषण दूसरों के साथ अयोध्या जाकर राम के अभिषेक में सम्मिलित होता है (सर्ग १२१ और १२८)।

(३) वाल्मीकीय उत्तरकाण्ड (सर्ग ९) में विभीषण की धार्मिकता पर विशेष बल दिया गया है। उसके जन्म के विषय में यह कथा मिलती है—कैकसी विश्वना के पास उस समय पहुँची थी जब वह अग्निहोत्र कर रहे थे अतः उन्होंने कैकसी से कहा कि तुम्हारे पुत्र दाघण क्रूरकर्मी राक्षस होंगे। कैकसी के अनुनय करने पर विश्वना ने कहा था कि तुम्हारा अन्तिम पुत्र मेरे (ब्राह्मण) वंश के अनुरूप धर्मात्मा होगा :

पश्चिमो यस्तत्र सुतो भविष्यति शुभानने ।

मम वंशानुरूपः स धर्मात्मा च न संशयः ॥२७॥

तदनुसार विभीषण बचपन से ही धार्मिक, स्वाध्यायनिरत, नियताहार तथा जितेन्द्रिय था (९, ३९)। घोर तपस्या के द्वारा वर पाकर उसने धर्मबुद्धि को ही चुन लिया था—परमापद्गतस्यापि धर्मं मम मतिर्भवेत् (१०, ३०)। इस वर के अतिरिक्त ब्रह्मा ने विभीषण को अमरत्व भी प्रदान किया था (१०, ३५)। सुन्दरकाण्ड में विभीषण की पत्नी तथा उसकी पुत्री का उल्लेख मिलता है (दे० अनु० ५४६); उत्तरकाण्ड में सरमा विभीषण की पत्नी मानी गई है (सर्ग १२, २५)। एक अन्य स्थल पर इसका उल्लेख किया गया है कि विभीषण ने कन्याओं का हरण करने के कारण रावण की भर्त्सना की थी (दे० सर्ग २५)।

राम के अश्वमेध पर विभीषण उपस्थित था; उस अवसर पर वह ऋषियों की सेवा में लग गया था—पूजां चक्रे ऋषीणाम् (११, २९)। अपने स्वर्गारोहण के समय राम ने विभीषण को यह आश्वासन दिया कि लंका में तुम्हारा राज्य चिरस्थायी होगा :

यावत्प्रजा धरिष्यन्ति तावत्सर्वं वै विभीषण ।

राजतेषु महावीर्यं लंकास्यः स्वं धरिष्यति ॥२४॥

यावच्छत्रदधे सूर्यदधे यावत्तिष्ठति मेदिनी ।

यावच्छ मत्कथा लोके तावद्वाक्यं तवास्तिवह ॥२५॥ (सर्ग १०८)

१. उसी अवसर पर जगन्नाथ की आराधना करने के परामर्श का वृत्तान्त प्रक्षिप्त है (दे० अनु० ७८०)।

५७०. वाल्मीकि रामायण तथा परवर्ती राम-कथाओं में विभीषण की वंशावली तथा उसकी जन्म-कथा सबधी सामग्री रावण-चरित के अन्तर्गत रखी गई है (दे० अनु० ६४४-६४७)। तुलसीदास ने विभीषण को प्रतापभानु के मंत्री धर्मरश्चि का अवतार माना है (दे० अनु० ६२५); रामलिंगामृत (१, ३०) के अनुसार वह प्रह्लाद का अवतार है तथा महाभागवत पुराण की यह धारणा है कि धर्म नामक देवता विभीषण के रूप में प्रकट हुए थे—**धर्मः स्वयं तु संजातो हि विभीषणः** (३७, १४)। दशरथ-यज्ञ का एक ऐसा रूप भी मिलता है जिसके अनुसार विभीषण विष्णु का अंशावतार ठहरता है (दे० अनु० ३५७)। रामकियेन (अध्याय ४) में लिखा है कि रावण के जन्म के बाद ईश्वर ने विस्सुजन नामक देवता को आदेश दिया कि वह रावण के भाई के रूप में नारायणावतार राम की सहायता करे। तदनुसार विस्सुजन विभेक (विभीषण) के रूप में प्रकट हुए; उनके पास एक मायावी दर्पण था जिसकी सहायता से वह अज्ञान का अन्धकार दूर करने तथा भविष्य का रहस्य प्रकट करने में समर्थ था। सेरीराम, सेरतकाण्ड (दे० अनु० ४१५) आदि रचनाओं में भी विभीषण को ज्योतिषी तथा गुप्त बातों का ज्ञाता माना गया है। पउमचरिय में विभीषण की मायावी शक्ति का उल्लेख मिलता है।

भारत के परवर्ती राम-साहित्य में विभीषण को मुख्यतया राम-भक्त के रूप में चित्रित किया गया है। तुलसीदास के अनुसार विभीषण ने तपस्या द्वारा वर पाकर धर्मबुद्धि ही नहीं अपितु भगवद्भक्ति माँग ली थी—**तेहि माँयेउ भगवंत पद कमल अमल अनुरागु** (रामचरितमानस १, १७७)। अतः जब हनुमान् सीता की खोज करते हुए लंका पहुँचे उसने विभीषण को राम की स्तुति में सलग्न देखा (दे० अनु० ५३८)। रावण की सभा में वह भगवान की शरण लेने का अपने वधज से अनुरोध करता है तथा स्वयं शरणागत बनकर भगवान के रूप में राम की स्तुति करता है।<sup>१</sup> आनंद रामायण (८, ७, १२४) में समस्त रामभक्त विभीषण के अंशावतार (विभीषणाभूताः) माने गए हैं।

सरमा के अतिरिक्त त्रिजटा (दे० अनु० ५४७), पंकजसुन्दरी (दे० पउमचरिय, पर्व ८, ६२) तथा नारायण की पुत्री (सेरी राम) का उसकी पत्नी के रूप में उल्लेख मिलता है। त्रिजटा अधिकतर उसकी पुत्री मानी गई है।<sup>२</sup> कृत्तिवास रामायण में

१. कब रामायण के अनुसार विभीषण ने राम को नारायणावतार बताकर, रावण की नृसिंहावतार की कथा सुनाई थी (६, ३)। रामायण ककविन (सर्ग १३) में विभीषण को शिवभक्त माना गया है।

२. दे० अनु० ५४७। विभीषण की पुत्री वैजकाया की कथा अनु० ५७९ में देखें।



त्रिभीषण के पुत्र तरणीसेन को रामभक्त के रूप में प्रस्तुत किया गया है (वे० अनु० २८५, ३) ।

५७१. विभीषण की शरणागति के विषय में बहुत सी रचनाओं में माना गया है कि रावण ने उसे निर्वासित किया था; उदाहरणार्थ—गुणभद्र का उत्तर पुराण (६८, ४९७), रंगनाथ रामायण (७, १३), सेरीराम तथा रामजातक । रंगनाथ रामायण के अनुसार रावण ने खंग उठाकर विभीषण का वध करना चाहा किंतु प्रहस्त ने उसे रोक़ा था ।

शरणागति का समय प्रायः वाल्मीकि रामायण के अनुसार है किंतु पद्मपुराण के पाताल खण्ड (११२, २२०) में माना गया है कि विभीषण ने इन्द्रजित्-वध के बाद ही राम की शरण ली थी । सेरीराम में इस घटना को राम के समुद्र-तरण के पश्चात् रखा गया है । महावीरचरित (५, ३०) के अनुसार विभीषण क्षर-दूषण के वध के बाद लका छोड़कर अपने मित्र सुग्रीव के यहाँ रहने लगा था तथा उसने राम-सुग्रीव-भेट के पूर्व ही राम के पास आत्म-समर्पण का पत्र भेजा था ।

वाल्मीकि रामायण में विभीषण चार मंत्रियों के साथ राम के पास आता है । पउमचरियं (५५, २२) के अनुसार वह ३० अश्वीहिणी सेनाओं के साथ राम की शरण में आया था । रामायण ककविन (सर्ग १५) में भी माना गया है कि विभीषण ने अपनी सेना के साथ राम की शरण ली थी । सेरीराम में वह अपनी पत्नी तथा अपने पुत्रों के साथ राम के पास पहुँचता है । रामजातक के अनुसार रावण के दो भाई (विभीषण और इन्द्रजित्) तथा एक पुत्र (चेतकुमार) अपने-अपने परिवार के साथ राम की शरण में आये थे । सेरीराम के पातानी पाठ के अनुसार रावण के आदेश से विभीषण को बाँधकर समुद्र में फेंक दिया गया था किन्तु एक मकर से बचाया जाकर वह हनुमान् द्वारा राम के पास पहुँचा दिया गया था । दक्षिण भारत की एक कथा में विभीषण काक का रूप धारण कर राम की शरण में आता है (पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १) । एक अन्य कथा के अनुसार विभीषण तथा उसके पाँच मंत्री वानर के वेश में राम की सेना में पहुँचे थे (दे० पाश्चात्य वृत्तान्त नं० ३) ।

लंकादहन प्रक्षिप्त होने के कारण वाल्मीकि रामायण में विभीषण की शरणागति के समय हनुमान्-विभीषण के पूर्व परिचय का उल्लेख नहीं मिलता । रंगनाथ रामायण (६, १६) के अनुसार हनुमान् ने विभीषण के पक्ष में राम से अनुरोध करते हुए कहा था कि उसने मुझे वध किए जाने से बचाया था । बलरामदास रामायण में हनुमान् ने उसी अवसर पर राम से कहा था कि उसकी पुत्री त्रिजटा सीता के प्रति सद्भाव रखती है । भाषार्थ रामायण (५, ३८) के अनुसार हनुमान् ने विभीषण की शरणागति के बाद सीधे माया द्वारा एक नई लंका की सृष्टि की थी और उसी में राम द्वारा विभीषण का

अभिषेक सम्पन्न हुआ था। यह कथा आनन्द रामायण (१, १०, ४१-४५) पर निर्भर है, जिसमें इसका वर्णन मिलता है कि हनुमान् ने समुद्र-तट पर रेती की लंका (सिकतोद्-अत्रा लंका) बनाई थी, जो बाद में हनुमत्लंका के नाम से प्रसिद्ध हुई।

युद्ध के वर्णन में विभीषण विषयक नयी सामग्री कम मिलती है। सेतुबन्ध के अवसर पर उसने आपस में लड़ते हुए नल और नील को अलग कर दिया था (अनु० ५७६), नागपाश के प्रसंग में राम को गरुड़ को बुलाने का परामर्श दिया (अनु० ५८६), और कुम्भकर्ण (अनु० ५८९) तथा रावण (अनु० ५९८) के वध करने का उपाय प्रकट किया। इसके अतिरिक्त वह लक्ष्मण की चिकित्सा में भी सहायक बने (दे० अनु० ५९६)।

पउमचरिय में विभीषण पहले रावण की सहायता करता है। वह राम तथा सीता के जन्म के पूर्व दशरथ तथा जनक के वध करने का विफल प्रयत्न करता है (पर्व २३) तथा सीताहरण के पश्चात् माया के बल से लंका के चारों ओर एक दुर्गम प्राकार का निर्माण करता है (पर्व ४६)। वह रणभूमि में भी सीता को लौटाने का रावण से अनुरोध करता है (पर्व ६१ और ७३) तथा रावण-वध के पश्चात् आत्महत्या करने का प्रयास करता है किन्तु राम द्वारा रोका जाता है (पर्व ७४)। अन्त में इसका उल्लेख मिलता है कि विभीषण ने अपने पुत्र सुभूषण को राज्य सौंपकर जैन दीक्षा ली थी (पर्व ११४)।

५७२. विभीषण के उत्तरचरित के विषय में मन्दोदरी से उसका विवाह परवर्ती राम-कथाओं का सबसे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन कहा जा सकता है। साहित्य में इसका प्राचीनतम उल्लेख स्वयंभूदेवकृत पउमचरिय में मिलता है; श्रेणिक दूसरे सम्प्रदायों में राम-कथा विषयक ग्रामिक धारणाओं के उदाहरण देते हुए गौतम से कहता है कि जिस विभीषण ने परस्त्री में आसक्त रावण का वध कराया वह जननी-तुल्य मन्दोदरी को कैसे ग्रहण कर सकता था (१, १०, ९)। महानाटक के दोनों पाठों में विभीषण-मन्दोदरी विवाह का प्रसंग मिलता है। दामोदर द्वारा सम्पादित महानाटक में मन्दोदरी के प्रश्न (अतः परं भम का गति) का उत्तर देते हुए राम उसके सहगमन का विरोध करते हैं तथा विभीषण के साथ राज्य करने का परामर्श देते हैं—महाभागो न सल्लु राक्षसीनां सहगमने चर्मः। अतस्त्वया विभीषणालयमास्थाय लंकाचले राज्यं विराय मृग्यताम् (१४, ६०)। मयूसूदन के संस्करण में विभीषण पूछते हैं—किमपरं ? और राम उत्तर देते हैं कि मन्दोदरी तुम्हारी पटरानी बन जाय :

मन्दोदरी तव विभीषण पट्टराज्ञी ।

भूयाविनां च परिपाल्य बीर लंकाम् ॥ (९, १०३)

सरस्वतीकंडामरण (५, ३९४) में विभीषण-मन्दोदरी-विवाह का उल्लेख किया गया है :

मयेन निर्मिता लक्ष्म्या लंका मन्दोदरीमपि ।

रेमे मूर्ता बदाग्नीवलक्ष्मीमिव विभीषणः ॥

बहुत सी मध्यकालीन रचनाओं में माना गया है कि विभीषण ने मन्दोदरी से विवाह किया था; उदाहरणार्थ—कृत्तिवास रामायण (६, ११२); रामचरित-मानस (१, २९, ७); रामचन्द्रिका (३७, १८); बलरामदास रामायण; रामकियेन (अध्याय ३९); पाश्चात्य वृत्तान्त (१, ३ और १३)। बलरामदास के अनुसार राम ने यह सोचकर मन्दोदरी को दूसरे विवाह के लिये बाध्य किया कि मेरी पत्नी का जो अनादर हुआ उसका प्रतिकार होना चाहिये। पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १ के अनुसार रावण ने मरण के समय विभीषण के लिए मन्दोदरी को समर्पित किया था। राम-जातक के अनुसार रावण ने राम की बहन शान्ता के साथ विवाह किया था; उस जातक का एक रूप पालक पालाम नामक रचना में सुरक्षित है, जिसमें विभीषण तथा शान्ता (रावण की विधवा) के विवाह का उल्लेख मिलता है। सेरीराम के अन्त में विभीषण के साथ राम की बहन कीकवी के विवाह का वर्णन किया गया है।

सेतुबंग करवाने के अतिरिक्त (दे० अनु० ६०७) विभीषण के उत्तरचरित की दो नवीन घटनाओं का उल्लेख मिलता है। राम ने किसी समय दक्षिण की यात्रा की थी तथा उस अवसर पर विभीषण से मिलने गए थे। इस यात्रा का कारण यह भी बताया जाता है कि द्रविड़ों ने विभीषण को कारागार में बन्द किया था और राम ने उसे मुक्त कर दिया था (अनु० ६३५)। अन्य रचनाओं में कुम्भकर्ण के पुत्र या पीता के विद्रोह तथा शतस्रुव रावण द्वारा लंका से विभीषण के निर्वासन का भी वर्णन मिलता है (दे० अनु० ६४० और ६४१)।

ग । सेतुबंध

५७३. अनेक राम-कथाओं में सेतु-निर्माण का उल्लेख नहीं मिलता। विमल-सूरिकृत पञ्चमचरित्र में समुद्र नामक राजा नल द्वारा पराजित किया जाता है<sup>१</sup>। हेमचंद्रकृत जैन रामायण में राम-लक्ष्मण सेनासहित आकाश मार्ग से लंका के पास पहुँचते हैं और नल-नील द्वारा समुद्र तथा सेतु नामक राजाओं को पराजित किया जाता है (सर्ग ७)। गुणभद्रकृत उत्तर पुराण में भी राम और लक्ष्मण विमान से ही जाकर सेनासहित लंका के पास उतरते हैं (सर्ग ६८, ५२२)।

१. दे० पर्व ५४। मलयन सेरीराम पर जैन राम-कथा की गहरी छाप है; अतः सेरीराम में सेतु-निर्माण के अतिरिक्त उस अवसर पर नील और अंगद द्वारा अनेक राजाओं की पराजय का वर्णन किया गया है।

अभिषेक नाटक के अनुसार जब राम बाण चलाने के लिए तैयार हैं उस समय वरुण दिखलाई देते हैं और उनकी आज्ञा से समुद्र का जल दो भागों में बँट जाता है जिससे राम की सेना समुद्रतल से ही पार उतरती है।<sup>१</sup>

पद्मपुराण के अनुसार राम ने समुद्र के तट पर शिव से सहायता के लिए प्रार्थना की। प्रसन्न होकर शिव ने अजगन्ध घनुष को दे दिया। राम ने उस घनुष को समुद्र में फेंक दिया और उसी पर समस्त सेना ने समुद्र को पार किया (पातालखंड, अध्याय ११२)।

बिहॉर राम-कथा में हनुमान् अपनी पूंछ बढ़ाते हैं और राम तथा लक्ष्मण उसी पर समुद्र पार करते हैं। रामकिर्धेन के अनुसार सीता की खोज में हनुमान् ने इसी तरह अपने साथियों को एक नदी के उस पार उतारा था (अध्याय २३)। सेतु के स्थान पर हनुमान् की पूंछ का उल्लेख पाश्चात्य वृत्तान्त न० १ और १३ में भी मिलता है; तथा कम्बोदिया में इसके विषय में एक चित्र भी सुरक्षित है।<sup>२</sup>

५७४. (१) प्रचलित बाल्मीकि रामायण की अधिकांश सेतुबन्ध विषयक सामग्री प्रक्षिप्त प्रतीत होती है; तत्संबंधी वर्णन में अलौकिक तत्त्वों का बाहुल्य तथा तीनों पाठों का वैभिन्न्य इस अनुमान का आधार है। नल के नेतृत्व में वृक्षों तथा पत्थरों से वानरो द्वारा सेतु का निर्माण तथा बाद में वानर-सेना का समुद्र-तरण इस प्रसंग का मूल रूप रहा होगा (दे० सर्ग २२, ४१-७७)। फिर भी अपेक्षाकृत प्राचीन काल से सेतुबन्ध के वर्णन में अलौकिक तत्त्वों का समावेश किया गया है। तीनों पाठों में राम का तीन दिन तक प्रायोपवेश करने तथा क्रुद्ध होकर समुद्र को अपने बाणों से क्षुब्ध करने का वर्णन किया गया है (दे० सर्ग २१)। सागर का प्रकट होकर विश्वकर्मा के पुत्र नल<sup>३</sup> द्वारा सेतु-निर्माण का सुझाव देना भी तीनों पाठों में समान रूप से मिलता है।

(२) द्रुमकुल्य-विनाश का वृत्तान्त गीड़ीय पाठ में नहीं मिलता। अन्य पाठों में कथा इस प्रकार है। राम के बह्मिस्त्र का सधान करते ही सागर प्रकट हुए। राम ने कहा कि मेरा यह महाबाण अमोघ है; इसे कहाँ चलाऊँ। इसपर सागर ने राम को द्रुमकुल्य नामक देश के विनाश करने का सुझाव दिया, क्योंकि वहाँ

१. दे० अंक ४। जावा के राम-सिन्ता नामक आधुनिक नृत्य-प्रधान नाटक में भी सागर विभक्त हो जाता है। दे० हिन्दुस्तान स्टैटर्ड, १५ जनवरी, १९६१।
२. दे० बुलेटिन एकोल फ्रांजेस एक्सट्रेम ओरियॉन् : भाग १२, पृ० ४७।
३. प्रामाणिक सामग्री में कहीं भी देवताओं से वानरों की उत्पत्ति की ओर निर्देश नहीं किया गया है।

आभीर आदि बहुत से दस्यु निवास करते हैं। राम ने ऐसा ही किया और बाद में द्रुमकुल्य देश मरुकान्तार नाम से विख्यात हुआ। (दे० २२, २५-४०)।

(३) गौडीय पाठ में बभ्रवर-सागर की मंत्री का उल्लेख मात्र किया गया है (दे० ५, ९४, २१-२२), किन्तु पश्चिमोत्तरीय पाठ (५, ९६, ४३-६६) में सागर राम से कहते हैं कि तेरे पिता दशरथ ने मेरे साथ असुरों को हराया था तथा देवताओं से वर पाकर ब्रह्म मुझे अयोध्या ले गए थे। महीने भर उनके यहाँ रहकर मैं अन्त में अपने घर चला गया।

(४) केवल पश्चिमोत्तरीय पाठ (सुन्दर काण्ड, सर्ग ९९) में इसका वर्णन किया गया है कि समुद्र-तरण के पश्चात् समुद्र ने फिर प्रकट होकर राम तथा लक्ष्मण को कवच तथा आयुध प्रदान किए थे।

(५) पद्यपुराण के उत्तरखण्ड (अध्याय २६९) के अनुसार राम ने अपने वाणों से समुद्र को सोख लिया तथा सागर के त्रिनय करने पर वारुणास्त्र द्वारा उसमें पुनः जल भर दिया। तत्त्वसग्रह रामायण (६, ७) में इससे मिलती जुलती कथा पाई जाती है। दक्षिण भारत के एक वृत्तान्त में भी राम-वाण द्वारा समुद्र के सूख जाने का उल्लेख है (पा० वृ० न० १)। भट्टिकाव्य तथा रामायण ककत्तिन के अनुसार राम-वाण के कारण करोड़ों मछलियाँ मर जाती हैं तथा समुद्र के त्रिनय करने पर राम उन्हें पुनः जिलाते हैं (दे० सर्ग १५)। भावार्थ रामायण (५, ३९) में द्रुमकुल्य के स्थान पर महर्षत्य का उल्लेख है। राम के इस प्रश्न पर कि मैं अपना वाण कहाँ चलाऊँ सागर ने उत्तर दिया कि पश्चिम में निवास करने वाले दैत्य मरु का वध किया जाय क्योंकि मरु सागर का जल अपवित्र किया करता था।

(६) महाभारत के रामोपाख्यान में राम समुद्र में वाण नहीं चलाते हैं। सागर राम की स्वप्न में दिखाई देता है तथा नल द्वारा फेंके हुए पदार्थ न डूबने देने की प्रतिज्ञा करता है (दे० ३, २६७, ३२ आदि)। स्कन्द पुराण के सेतु माहात्म्य में भी इस प्रकार का वर्णन मिला है (दे० २रा अध्याय)। भागवत पुराण में तीन दिनों तक उपवास करने के बाद राम समुद्र पर कोप प्रकट करते हैं तथा समुद्र राम की क्रोध-पूर्ण दृष्टि से भयभीत होकर प्रकट होता है। (दे० ९, १०, १३)। महानाटक में भी राम के वाण चलाने का कोई उल्लेख नहीं है (अंक ७)।

अद्भुत रामायण में लक्ष्मण क्रोध में आकर समुद्र में कूद पड़ते हैं तथा उनके शरीर के ताप से समुद्र सूख जाता है। अनन्तर राम सीता के लिए आँसू बहाकर समुद्र पुनः भर देते हैं (दे० सर्ग १६)।

१. रंगनाथ रामायण (६, २४) में इस मित्रता का उल्लेख किया गया है।

(७) अनामकं जातकम् में इन्द्र ने लघु वानर के रूप में प्रकट होकर सेतु बनाने का परामर्श दिया। पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १४ में माना गया है कि हनुमान् ने अकेले ही सेतु का निर्माण किया था। अपने शरीर पर जितने बाल थे उतने ही पत्थर वह प्रत्येक बार ले आते थे। पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १ के अनुसार नल ने राम के वरदान द्वारा चार हाथ प्राप्त किए जिससे सेतु-निर्माण का कार्य शीघ्र ही समाप्त हो जाय।

(८) सत्वसंग्रह रामायण (६, ६) में इसका वर्णन किया गया है कि सेतुबन्ध के पूर्व सागर की पुत्री कन्याकुमारी ने राम के पास आकर विवाह का प्रस्ताव किया था। राम ने युद्ध का बहाना देकर उसे अस्वीकार कर दिया तथा सागर पर सेतु बनवाने की अनुमति मांगी।<sup>१</sup>

५७५. वाल्मीकि रामायण में समुद्र नल द्वारा प्राप्त किए हुये वर का उल्लेख करता है (पित्रा बत्तवरः; दे० ६, २२, ४१) और नल स्वयं राम से कहता है कि मुझे अपने पिता विश्वकर्मा का सामर्थ्य प्राप्त है, इसलिए मैं समुद्र में सेतु बाँध सकता हूँ। विश्वकर्मा ने नल की माता को यह कहकर वर दिया है कि तुम्हारा पुत्र मेरे समान ही होगा :

मया तु सद्गुणः पुत्रस्तव वैवि भविष्यति ॥४७॥ (सर्ग २२)

भाष्य कंदली (५, ४०) इस वर के विषय में कहते हैं कि नल को यह आश्वासन दिया गया था कि तुम्हारे स्पर्श से पत्थर नहीं डूबेंगे। रंगनाथ रामायण (६, २५) में नल की वरप्राप्ति की कथा इस प्रकार है। नल ने किसी दिन पशुकवच नामक मुनि की सभी पूजा-मूर्तियों को समुद्र में फेंक दिया : मुनि ने बालक को दण्ड नहीं देना चाहा; अतः उन्होंने उसे यह वरदान दिया—यह बालक जो कुछ समुद्र में फेंक देगा, वह जल पर ही तैरता रहेगा। इसके फलस्वरूप मुनि की मूर्तियाँ जल के ऊपर तैरने लगीं। कृत्तिवास रामायण (५, ४५) में नल कहता है कि बचपन में मैं जब अपने पिता के यहाँ था ब्रह्मा मानसरोवर के तट पर सध्या पूजा किया करते थे। मैं उनके जूटे धर्तन (जो केवल एक बार काम में लाए जाते थे) समुद्र में फेंक कर उनकी सहायता किया करता था। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर मुझे वरदान दिया कि मेरे स्पर्श से पत्थर भी जल पर तैरते रहेंगे। तुलसीदास ने नल और उसके भाई नील दोनों की वरप्राप्ति का उल्लेख किया है। (रामचरितमानस ५, ५९, १)।

१. कन्याकुमारी के विषय में अनु० ६१४ देखें।

आनन्द रामायण, भावार्थ रामायण (६, ४०) काश्मीरी रामायण, खोतानी रामायण तथा उत्तर भारत के एक वृत्तान्त में नर के स्थान पर शाप का उल्लेख किया गया है। आनन्द रामायण के अनुसार नल ने किसी ब्राह्मण का शालिग्राम गंगा में फेंक दिया था; ब्राह्मण ने उसे यह शाप दिया—तेरे स्पर्श से पत्थर आदि पानी पर तैरते रहेंगे—पाषाणवि तरिष्यति पथ्यस्तात् (१, १०, ६७)। काश्मीरी रामायण के अनुसार बल (नल) नामक वानर ने ऋषियों के कपड़े धोने अथवा पहनने के लिये किसी घोबी से अनुरोध किया था। घोबी के इनकार करने पर बल ने उसका पत्थर पानी में फेंक दिया। इसपर घोबी ऋषि के पास गया और ऋषि ने कहा कि जो कुछ नल पानी में फेंकेगा वह नाव के समान पानी पर तैरता रहेगा। वरुण ने राम को यह कथा सुनाकर अन्त में कहा कि यह वानर आपकी सेना में है (दे० युद्धकाण्ड, न० ३९ तथा पाश्चात्य वृत्तान्त न० ३)। उत्तरभारत के एक वृत्तान्त के अनुसार वरुण के एक सामन्त ने प्रकट होकर कहा कि सुधीव की सेना में दो सेनापति विद्यमान हैं; वे शापवश समुद्र के तल तक पहुँचने में असमर्थ हैं और उनके द्वारा फेंकी हुई वस्तुएँ नहीं डूब सकती हैं (दे० पाश्चात्य वृत्तान्त न० १३)।

खोतानी रामायण में नन्द नामक वानर राम से अपनी शाप की कथा सुनाता है। एक ब्राह्मण ने उसे शाप दिया था कि तुम पानी में मर जाओगे। अन्य ब्राह्मणों के अनुरोध करने पर उसने अपना शाप इस प्रकार बदल दिया—जो कुछ तुम पानी में फेंकोगे, वह नहीं डूबेगा और तुम भी नहीं।

५७६. अर्वाचीन रामायणों में सेतु निर्माण के अवसर पर बहुधा हनुमान् तथा नल के कलह का वर्णन किया गया है। रंगनाथ रामायण (६, २७) के अनुसार नल एक हाथ से लाये हुए पर्वतों को ग्रहण करता था तथा दूसरे हाथ से समुद्र में रखता था। उसके षण्ण्ड को चूर कर देने के उद्देश्य से हनुमान् सारी शक्ति लगाकर एक सात योजन लंबा पर्वत ले आये और राम ने नल को आदेश दिया कि वह उसे दोनों हाथों से ग्रहण करे। तिब्बती रामायण, सारलादासकृत महाभारत, बलरामदास रामायण तथा कृत्तिवास रामायण में इस क्षण्ड का उल्लेख है। कृत्तिवास (५, ४६) के अनुसार कलह का कारण यह है कि नल हनुमान् द्वारा लाया हुआ पर्वत बायें हाथ से पकड़ता है। ऋद्ध होकर हनुमान् एक ही बार में चार पर्वत ले आते हैं और नल उन्हें नहीं पकड़ पाता है; इसपर दोनों एक दूसरे पर अभियोय लगाने के लिये राम के पास जाते हैं।

सेरीराम में भी नल और नील हनुमान् के लाए हुए पत्थर बायें हाथ से ग्रहण करते थे। हनुमान् को इतना क्रोध हुआ कि उन्होंने अपनी पूँछ में सात पर्वतों को लपेट कर उनको आकाश में फेंक दिया जिससे चारों ओर अंधकार फैल गया। राम ने

बाद में उन गिरते हुए पर्वतों को पकड़ कर समुद्र में फेंक दिया तथा नल और नील को शिष्ट व्यवहार के लिए उपदेश दिया। बाद में तीनों एक ही पत्तल में भोजन करते हैं। सेरीराम के पातानी पाठ में कलह का कारण यह है कि पेनिकर (नल) हनुमान् के लिए हुए पर्वत पंर से स्थान पर डकेलता था; बाद-विवाद होने पर दोनों आपस में लड़ने लगे किन्तु विभीषण ने उन्हें अलग कर दिया। रामकियेन (अध्याय २६) के अनुसार हनुमान् अपने शरीर के प्रत्येक बाल में एक चट्टान बांधकर आ पहुँचे तथा नीला-बद को ललकारने लगे कि ब्रह्म शीघ्र ही सब को ग्रहण करे। नीलाबद यह नहीं कर सके जिससे दोनों में लड़ाई हुई। राम ने दोनों को दण्ड दिया; नीलाबद को सुग्रीव के स्थान पर राज्य संभालने के लिए कृष्किन्धा भेजा गया तथा हनुमान् को सात दिनों में सेतु का कार्य समाप्त करने का आदेश मिला।

नल के गर्व-निवारण के विषय में आनन्द रामायण (१, १०, १९६-२००) की कथा इस प्रकार है। राम को नल का गर्व भली भाँति ज्ञात था। अतः राम के विधान से समुद्र की तरफ नल द्वारा रखे हुए पत्थर छितरा देने लगी। इन पर नल गर्व त्याग कर अपनी कठिनाई के विषय में राम से निवेदन करने आया और राम ने परामर्श दिया कि पत्थर में नाम के दो अक्षरों से अंकित किए जायें। इस प्रकार पत्थरों का दृढ़ संयोग उत्पन्न हुआ था। भावार्थ रामायण (५, ४०) का वृत्तान्त इससे बहुत भिन्न नहीं है। नल के गर्व के कारण पत्थर डूबने लगे। हनुमान् ने कहा कि इसका कारण नल का गर्व ही है। वह राम के चरणों से पत्थरों का स्पर्श कराना चाहते थे किन्तु डर लगा कि कहीं वे पत्थर अहल्या के समान सुन्दरियां न बन जायें। अतः हनुमान् राम के राज्य से पत्थर लिए और वानरो ने अपने नखों से उन पर राम-नाम अंकित कर दिया। राम-नाम के प्रभाव से पत्थर नहीं डूब सके।<sup>१</sup>

५७७. सेतुबन्ध के निर्माण में गिलहरी की सहायता का प्राचीनतम उल्लेख आल्वार त्रिप्र-नारायण (९ श० ई०) की रचना में मिलता है।<sup>२</sup> रगनाथ, कृत्तिवास तथा बलरामदास आदि के रामायणों में इसकी चर्चा है। रंगनाथ रामायण (६, २८) की तत्संबंधी कथा इस प्रकार है। एक गिलहरी समुद्र में गोता लगाकर तट के बालू में लोट गई; इसके बाद ब्रह्म पुल पर चढ़ी तथा ऋटका देकर अपने शरीर में लगी रेत गिराती थी। तब ब्रह्म फिर समुद्र में गोता लगाकर तथा रेत में लेटकर पुल पर आती थी। राम बड़ी देर तक गिलहरी का यह कार्य देखते रहे; अंत में

१. ई० मूर की रचना में भी रामनामांकित शिलाओं का उल्लेख है। दे० दि हिन्दू पेंथेयॉन, लन्दन १९१०, पृ० १९३।

२. दे० एस० वैयापुरी पिल्लै, हिस्ट्री ऑफ़ तमिल लैन्विज एण्ड लिटरेचर (मद्रास १९५६), पृ० १२१।



सुग्रीव राम के आदेशानुसार गिलहरी को पकड़ कर राम के पास ले आये और राम ने अपना सुन्दर दाहिना हाथ उसकी पीठ पर फेरा । ' छत्तिबास ( ५, ४७ ) के अनुसार गिलहरियों का एक दल सहायता करने आया था । वे गिलहरियाँ जल में कूद-कूद कर तथा रेत में लोटकर पुल पर बालू झाड़ती थीं । हनुमान् उनको मारने लगे जिससे वे रोती हुई शरण के लिए राम के पास आईं । राम ने हनुमान् को समझाया तथा गिलहरियों की रीठ पर हाथ फेर दिया । डबलू कूक ने पंजाब में भी यह कथा पाई थी; वह लिखते हैं—'यजाब में गिलहरी रामचन्द्र की भक्तिन मानी जाती है । सेतुबन्ध के समय उसने अपनी पूँछ हिलाकर बालू के कुछ कण सेतु पर फेंक दिए और राम ने पुरस्कार स्वरूप उसकी पीठ पर तीन रेखाएँ खींची ।'

५७८. सेतु-निर्माण की बाधाओं का भी वर्णन किया गया है । सेतुबन्ध ( ७, ८ ), बालरामायण ( ८, ५२ ), रगनाथ रामायण ( ६, २५ ), तोरवे रामायण ( ६, ५ ) तथा मराठी रामत्रिजय में सेतु पर मछलियों के आक्रमण का उल्लेख किया गया है । गोस्वामी तुलसीदास ने सब जलचरों को रामभक्त बना दिया है । सेतु-निर्माण के बाद जब राम समुद्र पार करने लगे तब :

बेखन कहुँ प्रभु कवना कन्दा । प्रकट भए सब जलचर बुन्दा ॥

प्रभुहि बिलोकाहि टरहि न टारे । मन हरषित सब भए सुखारे ॥

(रामचरितमानस ६, ४)

त्रिदेशी राम-कथाओं में मछलियों के आक्रमण का प्रसंग अपेक्षाकृत विस्तार सहित वर्णित है ।

सेरीराम में रावण अपने पुत्र गंगा-महासूरा को बुलाता है, जो समुद्र की रानी गंगा महादेवी के गर्भ से उत्पन्न माना जाता है । गंगा महासूरा मछलियों को सेतु नष्ट करने का आदेश देता है । उनका आक्रमण देखकर हनुमान् समुद्र में अपनी पूँछ हिलते हैं जिससे जल पंकिल हो जाने पर मछलियाँ ऊपर आ जाती हैं और तानरो द्वारा फँसाई तथा खाई जाती हैं । बाद में एक केकड़ा सेतु पर आक्रमण करता है । हनुमान् अपनी पूँछ पानी में रखते हैं और केकड़ा उसे काटना चाहता है तब हनुमान् केकड़े को स्थल पर पटक देते हैं । वह केकड़ा इतना बड़ा है कि समस्त सेना उसे खाकर नष्ट हो जाती है । इसका उल्लेख हिकायत महाराज रावण में भी मिलता है । सेरी-

१. पाश्चात्य बृतान्त नं० १ में भी सेतु-निर्माण के समय गिलहरी की सहायता का उल्लेख है । सीता-खोज के प्रसंग में भी गिलहरी की चर्चा मिलती है (दे० अनु० ४७४) ।

२. दे० पोपुलर रलिजन एंड फोलक्लोर, भाग २, पृ० २४२ ।

राम के पातालनी पाठ में सेतु-निर्माण के समय मछलियाँ अपनी रानी की आज्ञा से सेतु को नष्ट करने लगती हैं। हनुमान् रानी के पास जाकर उससे सेतु को पुनः बनवाते हैं तथा उसके पति की अनुपस्थिति में उससे पुत्र भी उत्पन्न करते हैं। रामकैलि (सर्ग ७) के अनुसार सागर ने नागों तथा मछलियों को सेतु नष्ट करने का आदेश दिया। यह जान कर राम समुद्र में वाण चलाने के लिए उद्यत हो गए, जिस पर सागर ने प्रकट होकर क्षमा माँग ली तथा मछलियों को पत्थर ले आने को कहा। रामकियेन (अध्याय २६) में रावण अपनी नागकन्या सुवर्णमच्छा को सेतु नष्ट करने के लिए भेजता है। सुवर्णमच्छा अपनी सेना के साथ सेतु नष्ट करने लगती है। बाद में हनुमान् सुवर्णमच्छा के यहाँ जाकर उससे सेतु पुनः बनवाते हैं तथा उससे एक पुत्र मच्छानु को भी उत्पन्न करते हैं। रामजातक में नागकन्याएँ सेतु नष्ट करती हैं तथा हनुमान् आदि द्वारा लुभाए जाने पर उनके साथ क्रीड़ा करती हैं।

सेरीराम में एक घटना का वर्णन किया गया है जिसका अन्यत्र कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। सागर का एक स्थल नहीं पाटा जा सकता था। इसलिये क्रुद्ध होकर राम ने समुद्र में वाण चलाना चाहा किन्तु उसी समय एक सुन्दरी ने प्रकट होकर कहा— यह स्थल पातालभूमि जाने का मार्ग है; यहाँ अमृतमय जल है; इसे पीकर आपके सैनिक अजेय बन जायेंगे। यह सुनकर राम ने सब वानरों को उस स्थल के पानी को पीने की आज्ञा दी।

५७९. बालरामायण में रावण सेतुनिर्माण के समय त्रिमान पर चढ़कर राम के शिविर के पास पहुँचता है तथा राम के देखते एक 'यंत्रजानकी' का वध करके तथा उसका माघाशीर्ष समुद्र तट पर फेंककर लंका लीट जाता है (अंक ७, ७१-७९)। इसके पश्चात् रावण का पुत्र सिंहनाथ (जिसके पाँच मुख तथा दस भुजाएँ हैं) आकर राम को ललकारता है तथा राम द्वारा मार डाला जाता है (अंक ७, ८१)। बाद में एक प्रभञ्जनी नामक राक्षसी सोए हुए राम और लक्ष्मण को मार डालने के लिए आती है किन्तु अंगद उसका वध करता है।'

श्याम के रामजातक में एक बनावटी सीता राम-सेना की छावनी के पास की नदी की धारा में बहती हुई दिखलाई पड़ती है। बाद में पता चलता है कि वास्तव में यह एक केला वृक्ष का षड़ है जिसे रावण ने सीता के रूप में बनवाया था।

रामकियेन में इस वृत्तान्त का वर्णन सेतुबन्ध के पूर्व ही किया गया है। रावण की आज्ञा से बैष्णकाया, विभीषण की पुत्री, सीता के रूप में नदी पर मृतवत् बहती हुई

१. महानाटक के अंक ११ में श्री अंगद द्वारा प्रभञ्जनी-वध का उल्लेख है।

दिल्ललाई पड़ती है। राम उसे देखकर निराश हो जाते हैं, लेकिन हनुमान् के सन्देश प्रकट करने पर अनावटी सीता प्रञ्जलित चिता पर रखी जाती है। बेंजकाया चिल्लाकर अपने रूप में प्रकट हो जाती है। सुग्रीव द्वारा कोढ़ी से मारी जाने पर वह अपने को विभीषण की पुत्री कहती है। इसपर राम विभीषण को उसको उचित दण्ड देने का आदेश देते हैं। विभीषण के अपनी पुत्री का प्राणदण्ड की आज्ञा देने पर राम उसकी निष्पत्तता से प्रसन्न होकर बेंजकाया को हनुमान् के साथ लंका भेज देते हैं। लंका पहुँचने के पहले हनुमान् बेंजकाया को लुभाकर उससे एक पुत्र उत्पन्न करते हैं (दे० अध्याय २५)।

५८०. दाक्षिणात्य पाठ के अनुसार राम वापसी यात्रा में सीता को सेतु दिखाकर कहते हैं कि महादेव ने यहाँ मूक्षपर अनुग्रह किया था—अत्र पूर्वं महादेवः प्रसावकरोद्भिभुः। (दे० रा० ६, १२३, २०)

शिव-प्रतिष्ठा का यह निर्वेश अन्य पाठों में नहीं पाया जाता है। बाद की राम-कथाओं में सेतुबन्ध के समय शिव-प्रतिष्ठा का प्रायः उल्लेख किया गया है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि पहले राम द्वारा शिव-प्रतिष्ठा युद्ध के पश्चात् ही मानी जाती थी। नारदीय पुराण (उत्तरार्द्ध अ० ७६), नृसिंह पुराण (अध्याय ५२), कूर्म पुराण (अध्याय २१), सौर पुराण (अध्याय ३०), बृहद्मंथपुराण (पूर्व खण्ड, अध्याय २२) तथा पद्मपुराण (पातालखण्ड ११२, २२२ और सृष्टिखण्ड, अध्याय ४०) में केवल युद्ध के पश्चात् ही राम द्वारा शिवलिंग की स्थापना का उल्लेख किया गया है। स्कन्द-पुराण (ब्राह्मखण्ड, सेतुमाहात्म्य, अध्याय ७ और अध्याय ४४-४७) तथा कृत्तिवास रामायण (५, ४८ और ६, १२२) में सेतुबन्ध के समय तथा युद्ध के बाद दोनों बार इसका वर्णन किया गया है। सेतुमाहात्म्य में द्वितीय शिवप्रतिष्ठा का वृत्तान्त इस प्रकार है। युद्ध के पश्चात् गंधमादन पर्वत पर जाकर राम दण्डकारण्य से आये हुए मुनियों से पूछते हैं कि रावणवध का प्रायश्चित्त किस तरह किया जाय। वे रामेश्वर लिंग की स्थापना का परामर्श देते हैं। इस पर राम हनुमान् को शिवलिंग ले आने के लिए कैलास भेज देते हैं। वहाँ पहुँचकर हनुमान् को उसे प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। मुहुर्त बीत जाने के भय से मुनि सैकत लिंग स्थापित करने का अनुरोध करते हैं। सैकत लिंग की प्रतिष्ठा के पश्चात् पहुँचकर हनुमान् अत्यन्त दुःखित हैं। राम हनुमान् को स्थापित सैकत-लिंग उठाने की आज्ञा देते हैं लेकिन हनुमान् इसमें असमर्थ हैं और मूर्च्छित होकर गिर जाते हैं। बाद में हनुमान् अपने लाये हुए लिंग को रामेश्वर लिंग के उत्तर में स्थापित करते हैं।<sup>१</sup> इस प्रकार की कथा

१. स्कंदपुराण (अवंती खंड, अवंती क्षेत्र माहात्म्य, अ० २१) के अनुसार हनुमान् ने अवंती में भी एक लिंग स्थापित किया।

आनन्द रामायण में भी मिलती है, लेकिन इसका वर्णन युद्ध के पूर्व ही रखा गया है (दे० आ० रा० १, १०, ६९-१९४)। इस कथा के अनुसार हनुमान् को काशी भेजा गया था तथा शिव ने हनुमान् को दो लिंग प्रदान किये थे तथा बाद में समुद्र तट पर राम को दर्शन देकर बारह ज्योतिर्लिंग की कथा और रामेश्वर लिंग का माहात्म्य कह सुनाया था। भावार्थ रामायण (६, ७४-७६) की कथा आनन्द रामायण पर निर्भर है किन्तु एकनाथ ने उस घटना को युद्ध के पश्चात् ही अयोध्या की वापसी यात्रा के समय रखा है। रंगनाथ रामायण (६, १६०-१६१) की तत्सवधी कथा इस प्रकार है। विमान पर अयोध्या की यात्रा करते समय राम सीता को सेतु दिखा रहा था कि उन्होंने अचानक अपने सामने रावण की भयंकर मूर्ति देखी। इसपर विभीषण ने राम से कहा—“आपको ब्रह्महत्या का दोष लग गया है; आपको प्रायश्चित्त करना चाहिए। राम ने पुष्पक उतरवाया तथा ब्रह्मा का ध्यान किया। ब्रह्मा ने प्रकट होकर सेतु पर शिवप्रतिष्ठा करने का परामर्श दिया। अनन्तर हनुमान् का काशी भेजा जाना, मुहूर्त के बीत जाने के डर से राम द्वारा मैकत लिंग की स्थापना, हनुमान् का गर्व-निवारण आदि वर्णित है।

अर्वाचीन राम-कथाओं में शिवप्रतिष्ठा का वर्णन प्रायः सेतु-निर्माण के अवसर पर ही रखा गया है; उदाहरणार्थ अध्यात्म रामायण (६, ४, १), रामचरितमानस (६, २) आदि।

एक सथाली राम-कथा के अनुसार (दे० अनु० २७१) राम ने रावणवध के बाद संथालों के यहाँ रहकर एक शिवमन्दिर बनवाया था तथा उसमें नित्यप्रति सीता के साथ पूजा करने आते थे।

५८१. पाषाणभूता अहल्या के उद्धार की कथा के आधार पर भावार्थ रामायण (५, ४१) में माना गया है कि वानरो ने राम को उठाकर सेतु के उस पार किया था कि कहीं राम के चरणस्पर्श से सेतु के पत्थरों से सुन्दरियाँ प्रकट न हो जायँ। सेरीराम के अनुसार हनुमान् ने उस अवसर पर एक सहस्रस्कंध सिंह का रूप धारण किया था और राम ने उस पर चढ़कर सेतु पार किया था। उत्तर भारत में गौर्वर्द्धन-पर्वत के विषय में एक लोककथा प्रचलित है जिसके अनुसार हनुमान् सेतु के लिए एक पहाड़ लिए जा रहे थे कि उन्हें अचानक ज्ञात हुआ कि सेतु का निर्माण समाप्त हो गया है अतः हनुमान् उस पहाड़ को वहीं छोड़कर राम की सेवा में उपस्थित हुए। राम ने हनुमान् से कहा कि वह पर्वत मेरा परम प्रेम-पात्र है, मैं उसे अपने कृष्णावतार में सात दिनों तक अपनी उँगली पर रखकर ब्रजवासियों की रक्षा करूँगा।

सेतु-भंग का वर्णन प्रायः युद्ध के बाद ही रखा गया है (दे० आगे अनु० ६०७) । किन्तु केवल श्रीमतानी रामायण में सेना के पार होने के बाद ही सेतु को इसलिए नष्ट किया जाता है कि कोई भी युद्ध छोड़कर न भाग सके ।

### घ । लंका का अवरोध

५८२. रावण के गुप्तचरों के विषय में जो सामग्री तीनों पाठों में मिलती है, वह इस प्रकार है<sup>१</sup> । वानर-सेना के समुद्र पार करने के बाद रावण ने शुक तथा सारण को शत्रु-सेना की शक्ति का पता लगाने के लिये भेज दिया । शुक तथा सारण वानर-रूप धारण कर राम की सेना में आ गए; विभीषण ने उनको पहचान लिया और राम के सामने उपस्थित किया किन्तु राम ने उनको रावण के पास लौटने दिया । दोनों ने लंका पहुँचकर सीता को वापस देने का परामर्श दिया (सर्ग २५) । रावण ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया और सारण तथा शुक के साथ एक ऊँचे भवन पर चढ़कर वानर-सेना का निरीक्षण किया (सर्ग २६-२८) । अन्त में रावण ने शत्रुदल की प्रशंसा करने के कारण दोनों की भर्त्सना की तथा शार्दूल के नेतृत्व में नए गुप्तचरों को भेज दिया । पहले की भाँति विभीषण ने उनको पहचानकर पकड़वाया; वह शार्दूल को राम के पास ले गया और राम ने सबको मुक्त करने का आदेश दिया । शार्दूल ने लौटकर रावण को यह समाचार दिया कि राम की सेना ने सुवेल पर्वत पर पड़ाव डाला है (सर्ग २९-३०) ।

राजशेखर ने शुक-सारण को गुप्तचर न मानकर रावणदूतों के रूप में प्रस्तुत किया है । वे रावण द्वारा द्वन्द्वयुद्ध का प्रस्ताव राम के पास ले आते हैं; राम उस द्वन्द्वयुद्ध के लिए अपनी ओर से अगद को नियुक्त करते हैं; और रावण अपने पुत्र नरान्तक को चुन लेता है, जो अगद द्वारा मार डाला जाता है (दे० बालरामायण अंक ८, ३-४) ।

अध्यात्म रामायण तथा आनन्द रामायण में शुक को रामभक्त के रूप में चित्रित किया गया है, जो अपने पूर्वजन्म में एक धर्मभीष ब्राह्मण था (दे० आगे अनु० ६२५) । रामचरितमानस में भी इस कथा की ओर निर्देश मिलता है; इसके अतिरिक्त तुलसीदास ने माना है कि शुक ने राम के यहाँ से लौटकर रावण को लक्ष्मण का एक पत्र दिया था जिसमें सीता को लौटाने की चेतावनी थी (दे० ५, ५२) ।

१. गुप्तचरों का वृत्तान्त प्रसिद्ध है (दे० अनु० ५६२) । दाक्षिणात्य पाठ में शुक को दो बार भेजा जाता है । प्रथम बार रावण उसको सुग्रीव के लिए एक सन्देश देता है, जिसे सुग्रीव ठुकराता है (सर्ग २०) । बाद में शुक रावण को अपनी विफलता का समाचार देता है (सर्ग २४) । शुक के इस प्रथम प्रेषण का वर्णन अन्य पाठों में नहीं मिलता ।

रामकियेन (अध्याय २५) के अनुसार शुकसार नामक गुप्तचर गीघ बनकर राम-सेना के पास पहुँचा तथा अनन्तर वानर के रूप में राम के शिविर का निरीक्षण करने लगा। विभीषण के सकेत पर हनुमान् ने उसे पकड़ लिया। शुकसार कोड़ी की मार खाकर रावण के पास लौटा। तब रावण सन्यासी का रूप धारण कर राम के पास आया तथा युद्ध न करने का राम से अनुरोध करने लगा किन्तु राम को वृद्धसकल्प पाकर रावण लंका लौट गया।

पद्मपुराण के अनुसार अतिकाय तथा महाकाय वानरो द्वारा फँसाए गये थे; अतिकाय ने राम को शुक्राचार्य की एक भविष्यवाणी से अवगत किया था। शुक्राचार्य ने कहा था कि लंका के द्वार पर अकित 'दाहपंचवक्त्र' के विच्छिन्न हो जाने पर रावण का वध निश्चित होगा—एतेन विच्छिन्नेन रावणो हन्यते। यह सुनकर राम ने उस पंचवक्त्र को अपने व्रण से छिन्न-भिन्न कर दिया (दे० पाताल खण्ड ११२, २०८-२१०)।

५८३. राम के माया-शीर्ष का वृत्तान्त प्रक्षिप्त है (दे० अनु० ५६२)। महाभारत के रामोपाख्यान में इस प्रसंग का वर्णन नहीं मिलता; वास्तव में यह माया सीता-वध का अनुकरण मात्र है (दे० अनु० ५९१)। प्रचलित बाल्मीकि रामायण का तत्संबन्धी वृत्तान्त इस प्रकार है। शार्दूल में सारा विवरण सुनने के बाद रावण ने मायावी त्रिशुञ्जिह्व को आदेश दिया कि वह राम का मायाशीर्ष तथा माया-धनुष बनाकर दोनों को अशोकवन में ले जाय। इनमें से रावण ने सीता के पास जाकर प्रहस्त द्वारा राम के वध का समाचार सुनाया; तब त्रिशुञ्जिह्व को पास बुलाकर रावण ने सीता को राम का शीर्ष तथा धनुष दिखलाया (सर्ग ३१)। इसपर सीता कर्ण विलाप करने लगी, उसी समय मंत्रियों ने रावण को बुला भेजा; रावण के चले जाने पर राम का मायावी शीर्ष और धनुष भी अन्तर्धान हुए (सर्ग ३२)। तब सरमा ने सीता के पास आकर रावण की माया का रहस्य प्रकट किया तथा यह आश्वासन भी दिया कि राम समुद्र पार कर चुके हैं और मैंने उन्हें अपनी आँखों से देखा है (सर्ग ३३)। अनन्तर सरमा ने राम के पास सीता का सन्देश ले जाने का प्रस्ताव रखा किन्तु सीता ने उससे निवेदन किया कि वह रावण-सभा के निर्णयों का पता लगाकर आवे। सरमा ने ऐसा ही किया तथा लौटकर कहा कि रावण अपनी माता तथा मंत्रियों का सत्परामर्श ठुकराकर सीता को लौटाना हठपूर्वक अस्वीकार करता है (सर्ग ३४)।

१. दाहपंचवक्त्र का अर्थ है—काठ का बना हुआ कीर्तिमुख, वह रत्न का प्रतीक माना जाता है। दे० पुराणम् (वाराणसी), भाग २, पृ० ९७-१०६।

परवर्ती राम-कथाओं में इस वृत्तान्त में अनेक गौण परिवर्तन किए गए हैं। रघुवंश, सेतुबंध, बलरामदास रामायण, रामायण ककविन तथा सेरीराम में सरमा के स्थान पर त्रिजटा का उल्लेख है<sup>१</sup>। महानाटक (अंक १०) तथा रगनाथ रामायण (६, ३५) में एक आकाशवाणी सीता को आश्विन देती है कि यह राम का वास्तविक सिर नहीं है। आनन्द रामायण (१, ११, २२१) के अनुसार ब्रह्मा ने पहले ही सीता को बता दिया था कि रावण तुमको राम का कृत्रिम सिर दिखलाने वाला है। इस रचना में राम का शीर्ष मय का बनाया हुआ माना जाता है तथा इस घटना को मंघनाद-वध के पश्चात् रखा गया है। पाश्चात्य वृत्तान्त न० १ के अनुसार सीता ने सूर्यदेवता में प्रार्थना की थी तथा सूर्य ने अपनी एक किरण राम के शीर्ष पर डाल कर उसे कृत्रिम सिद्ध किया था। अभिषेक नाटक (अंक ५), महानाटक, बलरामदास रामायण, अग्निवेश रामायण (८२), रामायण ककविन (सर्ग १७), सेरीराम तथा रामरहस्य (क्रीडोपकरण ११) में सीता को राम-लक्ष्मण दोनों के मायामय शीर्ष दिव्यलाये जाते हैं। कृत्या-रावण (अंक ६) में प्रस्तुत प्रसंग को एक नवीन रूप दिया गया है। रावण ने दारुणिका नामक राक्षसी को सीता का वध करने का आदेश दिया था। दारुणिका को इसका साहस नहीं हुआ; अतः वह एक ऐसा उपाय काम में लाई जिससे सीता अपने आप आत्महत्या के लिए तैयार हो जाएँ। दारुणिका ने सीता के सामने एक माया-राम का वध कराया। अपने पति को मृत समझकर सीता ने आग में प्रवेश करने का निश्चय किया।

हिन्देशिया की राम-कथाओं में त्रिजटा को अपेक्षाकृत अधिक महत्त्व दिया गया है। रामायण ककविन (सर्ग १७) के अनुसार सीता ने राम-लक्ष्मण के मायामय शीर्ष देखने के पश्चात् मध्यरात्रि में आग जलाकर आत्महत्या करना चाहा। त्रिजटा सीता का साथ देने को तैयार थी किन्तु वह पहले अपने पिता विभीषण को सूचित करने गई तथा बाद में सीता के पास लौटकर उसने राम-लक्ष्मण के कुशल-क्षेम का समाचार सुनाया। सेरीराम का वृत्तान्त इस प्रकार है, रावण के निरन्तर आग्रह करने पर सीता ने किमी दिन उससे कहा—जब तक राम जीवित है, मैं कदापि तुम्हारी पत्नी नहीं बन सकती और तुम्हारे हाथ में राम का शीर्ष देखने पर ही अपने पति की मृत्यु पर विश्वास करूंगी। यह सुनकर रावण दो कैदियों का सिर काटकर<sup>२</sup> तथा उन पर मुकुट रखकर दोनों को सीता के पास ले आया। त्रिजटा ने रावण को सीता से भेंट करने नहीं

१. तोरवे रामायण (६, १२) में सरमा और त्रिजटा दोनों रावण के छलकपट का रहस्योद्घाटन करती हैं।

२. बलरामदास के अनुसार भी रावण ने उसके लिए दो राक्षसों का वध किया था।

दिया किन्तु दोनों शीर्ष ग्रहण कर उससे कहा कि कल स्नान करने के बाद आ जाना। बाद में सीता ने दोनों सिर देखकर आत्महत्या करना चाहा किन्तु त्रिजटा ने उनको यह कहकर रोक दिया कि मैं पहले सब बात का पता लगाने जाऊँगी। इसपर त्रिजटा राम के पास जाती है तथा सीता द्वारा बुना हुआ राम का कमरबन्द लिए लौटती है। दूसरे दिन त्रिजटा छल-कपट के कारण रावण की निन्दा करती है तब रावण उसे मार डालने पर उतारू हो जाता है किन्तु त्रिजटा सीता की शरण लेती है। इसके बाद रावण सीता को एक लोहे के किले में बन्द कर देता है तथा अपने किसी मंत्री की अध्यक्षता में एक पूरी सेना को इसके पहरे पर तैनात कर देता है।

महानाटक (अंक १०) में रावण की एक अन्य युक्ति का उल्लेख है। राम का मायामय शीर्ष दिखलाने के बाद रावण राम का रूप धारण कर लेता है तथा रावण के दस मायामय शीर्ष हाथ में लिए सीता के पास आता है किन्तु सरमा सीता को सावधान करती है। कब रामायण (६, १६) के अनुसार माया जनक की भी चर्चा है। रावण के आदेश पर मरुत नामक राक्षस ने जनक के वेष में आकर सीता से अनुरोध किया कि वह रावण को पतिस्वरूप ग्रहण करे।

५८४. वाल्मीकि रामायण के दक्षिणात्य पाठ मात्र में अगद-दूतकार्य के वर्णन के पूर्व ही सुग्रीव-रावण-द्वन्द्वयुद्ध का वर्णन किया गया है। कथा इस प्रकार है—राम वानर-सेनापतियों के साथ सुवेल पर्वत पर चढ़कर लंका का निरीक्षण कर रहे थे। सुग्रीव सहसा पर्वत पर से लंका के गोपुर तक कूदकर रावण के पास पहुँचा तथा उसका मुकुट छीनकर भूमि पर पटक दिया। अनन्तर सुग्रीव रावण को द्वन्द्व-युद्ध में परास्त कर राम के पास लौटा।

सुवेल-पर्वत पर आसीन राम के एक चमत्कार का बहुधा उल्लेख होता है। आध्यात्म रामायण (६, ५, ४१-४५) के अनुसार राम ने सुवेल पर्वत पर से लंका के राजभवन पर त्रिराजमान रावण को उसके मंत्रियों के साथ देखा था और उन्होंने

- 
- १ रावण की अन्य युक्तियों का ऊपर उल्लेख हो चुका है; दे० अनु० ५०० और ५४२।
२. दे० सर्ग ४०। कब रामायण (६, ९) रगनाथ रामायण (६, ३८), आनन्द रामायण (१, १०, २४९), तोरवे रामायण (६, ९) आदि रचनाओं में सुग्रीव-रावण के इस द्वन्द्वयुद्ध का वर्णन किया गया है। वाल्मीकि रामायण के सभी पाठों के अनुसार सुग्रीव ने कुंभकर्ण का सामना किया (दे० सर्ग ६७), तथा कुस (सर्ग ७६), त्रिरूपाक्ष (सर्ग ९६) और महीदर (सर्ग ९७) का वध किया।



एक ही बाण से रावण के हजारों ध्वेत छत्र तथा दस मुकुट काट डाले थे। इसपर रावण लज्जित होकर अपने भवन के अन्दर चला गया था। आनन्द रामायण (१, १०, २४६), अग्निवेश रामायण (६५) तौरवे रामायण (६ ९), भावार्थ रामायण (६, २), रंगनाथ रामायण (६, ४१), बलरामदास रामायण, रामचरितमानस (६, १२) आदि मे भी इस घटना का वर्णन किया गया है। रंगनाथ रामायण मे माना गया है कि राम का एक ही बाण विभक्त होकर एक ही समय ८०००० छत्र, ८०००० पत्ते तथा ८०००० चामर काटकर पुन राम के तूणीर मे लौट आया था। कृत्तिवास (६ ४) के अनुसार विभीषण ने रावण को पहचानकर राम को सुझाव दिया था कि रावण पर बाण चलाया जाय किन्तु ज्योंही राम ने बाण चढाया रावण भाग गया था। विदेशी राम-कथाओ मे रावण के छत्र के विषय में निम्नलिखित सामग्री मिलती है। सेरीराम के अनुसार जाम्बवान न सेतु पार करने के पूर्व ही राम से कहा कि रावण न एक नवीन भवन का निमाण किया है और इसपर ब्रह्मा के आदर मे १७ छत्र स्थापित किए है। जाम्बवान न यह भी सुझाव दिया कि राम उनको नष्ट कर दें। राम की इस आपत्ति पर कि ब्रह्मा कही क्रुद्ध न हो जायें, जाम्बवान ने उत्तर दिया कि आप विष्णु के वशज है जो ब्रह्मा से महान् हैं। रामकियेन (अध्याय २६) का वृत्तान्त इस प्रकार है। ब्रह्मा न रावण को एक चमत्कारी छत्र प्रदान किया था। जब-जब रावण उस छत्र को खोल देता था तब लका के चारो ओर गहन अंधकार छा जाता था जिससे दानर-सेना का कोई भी योद्धा लका देखने मे समर्थ नहीं हो सकता था। सुग्रीव ने क्रुद्धकर छत्र को छिन्न-भिन्न करके लका का अन्धकार दूर कर दिया।

कृत्तिवास रामायण (६, १४) मे लकावरोध के पश्चात् शिव-पार्वती-कलह का भी उल्लेख मिलता है। प्रसंग इस प्रकार है। सब देवता अन्तरिक्ष मे स्थित होकर युद्ध देखन की प्रतीक्षा कर रहे थे। पार्वती ने शंकर से अनुरोध किया कि वह अपने भक्त रावण की रक्षा कर। शंकर ने उत्तर दिया—“तुम जाकर लका की रक्षा करो। हजारो वर्ष तक तपस्या करने पर भी रावण अमरत्व का वरदान नहीं प्राप्त कर सका। अब विष्णु अवतार लेकर उसका वध करने जाए हैं। रावण नहीं बच सकता। तुम स्वर्ष ही मेरी निन्दा करती हो।” बालरामायण (८, २) में माना गया है कि रावण ने शुक-सारण को भेज देने के पश्चात् शंकर की पूजा करते समय पार्वती को स्त्री समझकर उनको प्रणाम नहीं किया था, इसी कारण गिरिजा की क्रोध हुआ और उन्होंने शंकर का (मर वेनेबाला) बायाँ हाथ सींच लिया था।

५८५. वाल्मीकि रामायण की प्रामाणिक सामग्री के अनुसार राम ने समुद्र पार कर लंका का अवरोध किया था तथा निर्भीषण के परामर्श के अनुसार युद्ध के पूर्व अंगद द्वारा रावण के पास यह सदेश भेज दिया कि यदि सीता को नहीं लौटाओगे तो मैं सब राक्षसों का नाश करूँगा। अगद के मुँह से राम का यह सन्देश सुनकर रावण ने क्रुद्ध होकर उसका व्रथ करने का आदेश दिया। चार राक्षसों ने अगद को पकड़ना चाहा किन्तु अगद चारों को उठाकर इतने वेग से एक भवन पर कूद पड़ा कि ये राक्षस निस्सहाय भूमि पर गिर पड़े। तब अगद उस भवन को ढहाकर राम के पास लौटा।

परवर्ती राम-कथा साहित्य में अंगद के व्रतकार्य को अपेक्षाकृत अधिक महत्त्व दिया गया है। महानाटक (अंक ८) तथा अभिनन्दकृत रामचरित (सर्ग १८) में पहले-पहल अंगद-रावण-संबाध का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। कृत्तिवास रामायण, रामचरितमानस तथा बलरामदाम रामायण की तत्संबधी सामग्री महानाटक पर आधारित है।

कृत्तिवास रामायण (६, १५) के अनुसार अगद ने सभा-भवन में पहुँच कर सैकड़ों रावणों को देखा था। तोरवे रामायण (६, १०) में भी अंगद राक्षसों की सभा में पहुँचकर रावण को पहचानने में असमर्थ है। पाद्वाच्य वृत्तान्त न० ३ में अंगद के ११ रावणों को देखने की चर्चा है। महानाटक (अंक ८, ३) मात्र में इसका उल्लेख किया गया है कि अगद ने रावण के सिंहासन के ऊपर चढ़कर रावण का अपमान किया था; अन्य राम-कथाओं में बहुधा माना गया है कि अगद अपनी पूँछ का कुण्डल बनाकर एक सिंहासन की भाँति उस पर बैठ गया था; उदाहरणार्थ आनन्द रामायण (१, १०, २२१); तोरवे रामायण (६, १०), भावार्थ रामायण (६, ७); कृत्तिवास रामायण (६, १५), सारलादास महाभारत (द्रोणपर्व): रामकेलि (सर्ग ८), रामकियेन (अध्याय २६), कविचन्द्र कृत अगद रायबार।

अगद द्वारा बलव्रह्मण तथा राक्षसों की पराजय के विषय में अनेक नई घटनाओं की कल्पना कर ली गई है। रामचरितमानस के अनुसार अगद ने प्रण करके पैर रोपा

१. राम ने अंगद की दक्षिण द्वार पर, हनुमान् को पश्चिम द्वार पर और नील को पूर्व द्वार पर नियुक्त करके स्वयं उत्तर द्वार पर लक्ष्मण के साथ रावण का सामना करने का निश्चय किया। सुग्रीव एक विशाल सेना के साथ बीच में डट गये। प्रसिप्त सर्ग ३७ में भी सेना के इस नियोजन का वर्णन है।
२. युद्ध के वर्णन में अगद का बारंबार उल्लेख किया गया है। इन्द्रजित् (सर्ग ४३-४४) तथा कुम्भकर्ण (सर्ग ६६) का सामना करने के अतिरिक्त अगद ने नरातक (सर्ग ६९), कपन तथा प्रज्जंघ (सर्ग ७६) और महापासवं (सर्ग ९८) का वध किया था। अगद द्वारा वज्रदंष्ट्र का वध (सर्ग ५४) केवल दाक्षिणात्य पाठ में उल्लिखित है।

था जिसे उठाने में कोटि सुभट असमर्थ ही रहे—सभा मात्त पन करि बब रोषा (६, ३४)। बहुतसी रचनाओं में अंगद के रावण पर भी प्रहार करने का उल्लेख है; उदा० नृसिंहपुराण (५२, २०); सारलादास महाभारत (द्रोणपर्व); आनन्द रामायण (१, १०, २३६); तोरबे रामायण (६, १०); भावार्थ रामायण (६, ६); रामकेर्त्ति (सर्ग ८)। कृत्तिवास ने रावण-अंगद के मल्लयुद्ध का वर्णन किया है तथा यह भी माना है कि अंगद रावण का मुकुट राम के पास ले आया था (६, १७)। भावार्थ रामायण (६, ६), बलरामदास रामायण, रामचन्द्रिका (१६, ३४) आदि रचनाओं में भी इसका उल्लेख मिलता है। रामचरितमानस (६, ३२) के अनुसार अंगद के बल-प्रदर्शन करने पर पृथ्वी हिलने लगी तथा रावण के मुकुट गिर पड़े। कुछ तो रावण ने उठाकर अपने सिर पर रखे, कुछ अंगद ने राम के पास फेक दिये थे। आनन्द रामायण (१, १०, २३७-२४२) तथा भावार्थ रामायण के अनुसार रावण के सभा-मण्डप की छत अंगद के सिर पर अटक गई थी; और राम ने अंगद को उसे वापस ले जाने का आदेश दिया था। सारलादास महाभारत के वनपर्व में इस अवसर पर अंगद द्वारा मंदोदरी का अपमान वर्णित है तथा द्रोणपर्व में माना गया है कि रावण-मुकुट के अतिरिक्त अंगद छत को काँख में दबाकर राम के पास ले आया था। तोरबे रामायण (६, १०) के अनुसार रावण की सेना के साथ अंगद का युद्ध हुआ तथा राम का आदेश पाकर हनुमान् ने अंगद को ले आने के लिए लका में प्रवेश किया था।

अनेक राम-कथाओं में अंगद के स्थान पर हनुमान् को रावण के पास भेजा जाता है। गृणभद्र के उत्तरपुराण (दे० ऊपर अनु० ५२४) के अतिरिक्त बिलंका रामायण तथा सेरीराम में भी हनुमान् अंगद का स्थान लेते हैं। बलरामदास रामायण में माना गया है कि अंगद के प्रत्यागमन के पश्चात् हनुमान् राम का वाण लेकर रावण को धमकी देने गये थे। सेरीराम में अंगद के दूत-कार्य का उल्लेख नहीं मिलता किन्तु कुम्भकर्ण के वध के बाद राम हनुमान् द्वारा रावण के पास एक पत्र भेज देते हैं, जिसमें सीता को लौटाने तथा संधि करने का प्रस्ताव है। रावण राम का प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत है बशर्ते कि उसकी बहन को विरूपित करनेवाले लक्ष्मण को बाँधकर लंका भेज दिया जाय।<sup>१</sup> रामचन्द्रिका (१६, ३२) में भी रावण निम्न-लिखित शर्तों पर सीता को लौटाने के लिये तैयार है—सुप्रीव को मारकर अंगद को राज्य दिया जाय, विभीषण को बाँधकर लंका भेजा जाय, सेतु नष्ट किया जाय, हनुमान् की पूँछ जला दी जाय तथा राम छद्र की पूजा करें।

१. सोलाबेर के पाठ तथा बलरामदास रामायण में हनुमान् के अपनी कुडलीकृत पूँछपर बैठ जाने का उल्लेख है। रावण के संधि-प्रस्तावों का उल्लेख आगे किया गया है (दे० अनु० ५९७)।

## ॐ । नाग-पाश ।

५८६. लंका को वानर-सेना से अवरोध जानकर रावण ने उसका सामना करने के लिए अपनी सेना को भेज दिया। इस प्रथम तुमुल युद्ध के वर्णन में अनेक इन्द्रयुद्धों का भी उल्लेख है किन्तु अंगद द्वारा इन्द्रजित् की पराजय तथा इन्द्रजित् के नागपाश में राम-लक्ष्मण का बंध जाना इसकी सबसे महत्त्वपूर्ण घटना है। ब्रह्मा के वरदान से अदृश्य होकर इन्द्रजित् ने बहुत से योद्धाओं को तथा अन्त में राम-लक्ष्मण को भी नागमय शरों से आहत किया जिससे राम तथा लक्ष्मण दोनों निरक्षेप्ट होकर रणभूमि में पड़े रहे। इन्द्रजित् दोनों को मृत समझकर रावण को इसकी सूचना देने गया (सर्ग ४२-४६)। यह सुनकर रावण ने सीता तथा त्रिजटा को पुष्पक पर बैठाकर रणभूमि में मूर्च्छित पड़े हुए राम-लक्ष्मण को दिखलाया। सीता दोनों को मृत समझकर विलाप करने लगी किन्तु त्रिजटा ने उनके जीवित होने के निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये—(१) रक्षा करने वाले वानर अधिक व्याकुल नहीं प्रतीत होते हैं; (२) पुष्पक विद्यवाओं का बहन नहीं करता; (३) राम तथा लक्ष्मण के मुख पर मृत्यु का त्रिकार परिलक्षित नहीं हो रहा है (सर्ग ४७-४८)। बाद में राम श्वेतना प्राप्त कर लक्ष्मण के लिए विलाप करने लगे (सर्ग ४९) और सुषेण ने यह प्रस्ताव रखा कि ओषधि ले आने के लिए हनुमान् को द्रोणाचल को भेज दिया जाय। इतने में गरुड को आते देखकर नाग भाग गये तथा गरुड के स्पर्श मात्र से राम और लक्ष्मण स्वस्थ हुए (सर्ग ५०)।

गरुड का यह आगमन प्रक्षिप्त है (दे० अनु० ५६३); पश्चिमोत्तरीय पाठ मात्र में इस प्रसंग में नारद का भी उल्लेख किया गया है—सुषेण के प्रस्ताव के बाद नारद ने राम के पास आकर उनको उनके नारायणत्व का स्मरण दिलाया तथा गरुड को

१. विभीषण को छोड़कर कोई भी इन्द्रजित् को नहीं देख सकता था; दे० ऊपर अनु० ५६९।
२. रामायण ककविन के अनुसार ब्रह्म सीता का आत्महत्या-विचार दूर करती है और अपने पिता विभीषण से मिलकर सीता के पास लौटती है तथा आश्वासन देती है कि राम सकुशल हैं (सर्ग २१)। अन्यत्र भी सीता के आत्म-हत्या-विचार की चर्चा है; दे० अनु० ४९२, ५२४, ५४८ और वाल्मीकि रामायण २, ३०, १९। तीरथे रामायण (६, १६) में त्रिजटा के स्थान पर इस प्रसंग में सरमा की चर्चा है।
३. इस तर्क का उल्लेख रंगमाच रामायण (६, ४८), रामकविवेन (अध्याय ३०) आदि में भी मिलता है।

बुलाने का परामर्श दिया<sup>१</sup>। सेतुबंध (१४, ५५) में विभीषण राम को समझाता है कि पाश के बाण वास्तव में सर्प ही हैं, जिस पर राम गरुड़ को बुलाते हैं।

महाभारत के रामोपाख्यान (३, २७३) में विभीषण स्वयं प्रज्ञास्त्र द्वारा राम और लक्ष्मण को शरपाश से मुक्त कर देता है। गोविन्द रामायण (५० १३७) के अनुसार सीता ने नाग-मंत्र पढ़कर नागपाश काट दिया था।

पढ़ नाग मंत्र संघरी पाश। पति म्यात जिबइ वित भा हुलास ॥

अनक रचनाओं में राम नागपाश द्वारा नहीं बंध जाते हैं। पउमचरिबं (पर्व ६०) के अनुसार भुजगपाश ने लक्ष्मण की पताका पर विद्यमान गरुड़ को देख लिया तथा हार मानकर भाग गया।<sup>२</sup> कंब रामायण (६, १८) में लक्ष्मण मात्र नागपाश से बंधे जाते तथा गरुड़ द्वारा मुक्त किए जाते हैं। रामकियेन (अध्याय २९) में बहुत से वानरो के साथ लक्ष्मण के नागपाश द्वारा बंध जाने का वर्णन मिलता है। राम आकर विभीषण के परामर्श से अनुसार गरुड़ को बुलाते हैं और गरुड़ के आगमन पर सभी चतना प्राप्त कर लेते हैं। अध्यात्म रामायण में नागपाश का प्रयोग पूर्ण रूप से छोड़ दिया गया है।

सेरीराम में इस प्रसंग को एक नया रूप दिया गया है। इन्द्रजित् को एक विशाल सेना के साथ आकाश-मार्ग से आते देखकर हनुमान् ने राम को परामर्श दिया कि वानर-सेना की रक्षा के लिये गरुड़ महावीर को बुलाया जाय। गरुड़ महावीर के आने के बाद इन्द्रजित् पत्थर बरसाने लगा तथा गरुड़ ने राम के आदेशानुसार समस्त वानर-सेना पर अपने पक्ष फैला दिये। बाद में गरुड़ ने पत्थरो के भार से व्यग्र होकर राम से सहायता मांगी जिस पर राम ने गरुड़ को ऊपर उठाकर तथा उसका शरीर हिलाकर उसको पत्थरो के भार से मुक्त कर दिया। इन्द्रजित् बालीस दिनों तक पत्थरो की वर्षा करता रहा और राम प्रतिदिन इसी प्रकार से गरुड़ को पत्थरो के भार से मुक्त करते रहे।

कृत्तिवास रामायण (६, २१) में गरुड़ की कृष्णभक्ति तथा हनुमान् की अनन्य रामभक्ति के विषय में निम्नलिखित वृत्तान्त मिलता है। राम ने शरपाश से मुक्त होकर गरुड़ को एक वर दिया था और गरुड़ ने राम का कृष्ण रूप देखने की अभिलाषा प्रकट की। इसपर राम ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा—मुझे उस रूप में देखकर

१ दे० ६, २६, ७-४१। रगनाथ रामायण (६, ५०), आनन्द रामायण (१, ११, ८), भावार्थ रामायण (६, ५०) आदि में श्री पश्चिमोत्तरीय पाठ के अनुसार शरद की चर्चा है।

२ इस रचना में इन्द्रजित् राम-लक्ष्मण के स्थान पर सुग्रीव-भामण्डल को भुजग-पाश से बंध लेता है।

वानर-सेना किंकर्तव्यविमूढ़ हो जायगी। तब गरुड ने अपने पंख पसार कर राम को छिपा लिया और राम ने कृष्ण रूप धारण कर लिया। हनुमान् ने योग के बल पर सारा वृत्तान्त जानकर कृष्णावतार के समय गरुड से बदला लेने का निश्चय किया (दे० अनु० ६८६)।

बाल्मीकि रामायण में सारा के पिता वानर-सेनापति सुषेण को वैद्य भी माना गया है। प्रस्तुत प्रसंग में इसकी ओर सकेत मिलता है; इसके अतिरिक्त वह इन्द्रजित्-वध के पश्चात् लक्ष्मण तथा अन्य योद्धाओं की चिकित्सा करता है (दे० सर्ग ९१) तथा हनुमान् द्वारा लाई हुई ओषधियों की सहायता से रावण-शक्ति में आहत लक्ष्मण को स्वास्थ्य-लाभ प्रदान करता है (सर्ग १०१)। अनेक परवर्ती रचनाओं में वह राक्षस-वैद्य माना गया है, जिसे हनुमान् लका से ले आते हैं, उदाहरणार्थ—महानाटक (अंक १३, १७), रामचरितमानस (६, ५५), पाश्चात्य वृत्तान्त न० १३। खोतानी रामायण में जीवक जातको के मुप्रसिद्ध वैद्य सुषेण का स्थान लेता है।

### च। हनुमान् की हिमालय-यात्राएँ।

५८७. हनुमान् की हिमालय-यात्रा-विषयक सामग्री प्रक्षिप्त है (दे० अनु० ५६४); फिर भी परवर्ती राम-कथाओं में इस प्रसंग को अपेक्षाकृत अधिक महत्त्व दिया गया है। प्रचलित बाल्मीकि रामायण में तीन अवसरों पर हनुमान् को हिमालय भेज देने की चर्चा मिलती है<sup>१</sup>।

(१) नाग-पाण के प्रसंग में इसका प्रस्ताव मात्र किया गया है क्योंकि गरुड के आगमन के कारण हनुमान् की इस यात्रा की आवश्यकता नहीं होती (दे० अनु० ५८६)। आनन्द रामायण (१, ११, १०-१८) में माना गया है कि उस अवसर पर भी सेना के लिये ओषधि ले आने के उद्देश्य से हनुमान् को हिमालय भेजा गया था।

(२) कुम्भकर्ण-वध के पश्चात् इन्द्रजित् के द्वितीय युद्ध का वर्णन मिलता है जिसमें वह अदृश्य होकर ब्रह्मास्त्र से राम-लक्ष्मण को आहत करता है तथा बहुत से योद्धाओं का वध भी करता है। जाम्बवान के आदेशानुसार हनुमान् रात को हिमालय जाते हैं तथा चार ओषधियों को न देखकर समस्त ओषधि-पर्वत ले आते हैं तथा बाद में उसे वापस ले जाते हैं। ओषधियों की सुगन्ध मात्र से सभी योद्धाओं को स्वास्थ्य-

१. इस महान् कार्य के अतिरिक्त हनुमान् रावण (सर्ग ५९) तथा इन्द्रजित् (सर्ग ८२, ८६, ८९) का सामना करते हैं और निम्नलिखित राक्षस-बीरों का वध भी करते हैं—धूम्राक्ष (सर्ग ५२), अकंपन (सर्ग ५६), विशिरो (सर्ग ७०) निकुम्भ (सर्ग ७७)।

लाभ प्राप्त हुआ' । इस प्रथम यात्रा के वर्णन में किसी विशेष घटना का उल्लेख नहीं किया गया है तथा परवर्ती रचनाओं में भी इसका कोई विकास नहीं हुआ । कम्ब रामायण (६, २१) तथा रामकियेन (अध्याय २९) में माना गया है कि इन्द्रजित् ने लक्ष्मण तथा बहुत से वानरो को ब्रह्मास्त्र द्वारा आहूत किया था । लक्ष्मण को आहूत देखकर राम रणभूमि में मूर्च्छित होकर गिर पड़े । उसी अवसर पर रावण ने सीता को पुष्पक पर बिठाकर उनको निस्सहाय पड़े हुए राम और लक्ष्मण को दिखलाया (दे० कम्ब ६, २२ तथा रामकियेन, अध्याय ३०) । सेरीराम के अनुसार इन्द्रजित् ने रात्रि के समय एक मायामय बाण द्वारा विभीषण को छोड़कर समस्त वानर-सेना को निद्रा में मग्न कर दिया तथा इन्द्रजित् पास आकर वानरो का वध करने लगा किन्तु विभीषण ने उसे भगा दिया और राम, लक्ष्मण तथा ३३ सेनापतियों को जगाया । तब राम ने मलायकीरी से 'विशल्यावीनि' को ले आने के लिए हनुमान् को भेज दिया । इसी रचना के एक अन्य स्थल पर भी हनुमान् एक पर्वत हिमालय से किष्किंधा ले आते हैं (दे० अनु० ६५५) ।

(३) हनुमान् की द्वितीय यात्रा के वर्णन का अपेक्षाकृत अधिक विकास हुआ है । इसके विषय में जो सामग्री वाल्मीकि के तीनों पाठों में मिलती है वह इस प्रकार है । रावण की शक्ति से लक्ष्मण को आहूत देखकर राम विलाप करने लगे किन्तु सुषेण ने उनको आश्वासन दिया कि लक्ष्मण जीवित हैं । इसके अनन्तर सुषेण के परामर्श के अनुसार विशल्याकरणी ओषधि' ले आने के लिए हनुमान् को भेजा गया । हनुमान् पहले की भांति समस्त ओषधि-पर्वत ले आये और सुषेण ने ओषधि पीस कर लक्ष्मण को सूँघने को दिया (दे० अनु० ५९६) । प्रस्तुत प्रसंग के वर्णन में उदीच्य पाठों में निम्नलिखित अतिरिक्त सामग्री मिलती है—कालनेमि और ग्राही का वृत्तान्त; हिमालय के गंबवों की चूनीतो तथा हनुमान् द्वारा उनका वध, ओषधि-पर्वत को वापस ले जाते समय' राक्षसों का आक्रमण तथा पराजय । भरत-हनुमान्-सवाद का प्रसंग गौडीय पाठ मात्र में मिलता है (दे० अनु० ५८८) ।

१. दे० सर्ग ७३-७४ । अध्यात्म रामायण (६, सर्ग ५) के अनुसार इन्द्रजित् ने राम तथा लक्ष्मण को छोड़कर अन्य वानर-सैनिकों को ब्रह्मास्त्र द्वारा पराजित किया था और राम ने वानर-सेना को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से हनुमान् को ओषधियाँ ले आने के लिये भेजा था । मलयालम अध्यात्म रामायण के अनुसार इसी यात्रा में हनुमान् द्वारा कालनेमि का वध हुआ था ।
२. पद्मचरित्त में इस विशल्याओषधि का मानवीकरण किया गया है । दे० अनु० ५९६ ।
३. सेरीराम के अनुसार हनुमान् ने समय के अभाव के कारण पर्वत की समुद्र में फेंक दिया था । तोरसे रामायण (६, २८) में पर्वत अपने आप अंतर्धान हो जाता है ।

कालनेमि की कथा इस प्रकार है। हनुमान् को जाते देखकर रावण ने उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए कालनेमि को भेज दिया। कालनेमि ने हिमालय जाकर तपस्वी का रूप धारण किया तथा गधमादन पर्वत के एक मायाश्रम में हनुमान् का स्वागत किया। तपस्वी ने हनुमान् को एक सरोवर के पास भेजा जिसमें एक ग्राही निवास करती थी। ग्राही ने हनुमान् को निगलना चाहा किन्तु वह स्वयं भार डाली गई; अनन्तर वह अप्सरा के रूप में प्रकट होकर तथा अपना परिचय इस प्रकार देकर वैश्रवणालय लौट गई—“मैं गंधकाली नामक अप्सरा हूँ; एक मुनि की अवज्ञा करने के कारण मुझे ग्राही बन जाने का शाप दिया गया था।” इसके बाद हनुमान् ने आश्रम लौटकर कालनेमि का वध किया। उदीच्य पाठों की यह कथा बहुत सी पद्यवर्ती राम-कथाओं में पाई जाती है। उदाहरणार्थ—अध्यात्म रामायण (६, ६-७), रंगनाथ रामायण (६, १२४); महानाटक (१३, ३२); आनन्द रामायण (१, ११, ४७), तोरवे रामायण (६, २८), माधवकदली रामायण (६, ४५), कृत्तिवास रामायण (६, ७३), बलरामदास रामायण; भावार्थ रामायण (६, ४५); रामचरितमानस, सेरीराम।

अध्यात्म रामायण तथा इस पर आधारित रामचरितमानस आदि राम-कथाओं में कालनेमि को रामभक्त के रूप में चित्रित किया गया है। इन रचनाओं में अप्सरा प्रायः कपट-मुनि (कालनेमि) का रहस्य प्रकट करती है। अप्सरा के शाप के विषय में मनभेद है, बाल्मीकि रामायण के उदीच्य पाठों के अनुसार उसने एक यात्रा के अवसर पर किसी मुनि को नहीं देखा था और इसी कारण अनजाने ही उसकी अवज्ञा की थी। आनन्द रामायण (१, ११, ५६) में माना गया है कि अप्सरा ने मुनि का प्रेम-प्रस्ताव अस्वीकार किया था। रंगनाथ रामायण (६, १२६) में अप्सरा के शाप की कथा रावण से भी सम्बन्ध रखती है। धान्यमालिनी शाण्डिल्य नामक मुनि का प्रेम-प्रस्ताव स्वीकार कर उसके यहाँ चली आई थी। उस दिन रात को रावण उसे पर्वत के शिखर पर देखकर आसक्त हुआ तथा उसके साथ रमण करके अतिकाय (दे० अनु० ६५०) को उत्पन्न किया। धान्यमालिनी उस पुत्र को रावण को सौंपकर मुनि के पास लौटी जिस पर मुनि ने उसे शाप दिया। बलरामदास के अनुसार दक्षकन्या गधवालिका ब्रह्मा के शाप से ग्राही बन

१. अप्सरा के कई नाम मिलते हैं; गंधकाली—गीर्वाण पाठ, कृत्तिवास रामायण; कपटकाली—महानाटक (१३, ३२); गंधकालिका—बलरामदास; विद्वन्माला—पश्चिमोत्तरीय पाठ (८१, ८३); विद्वन्मालिनी—भावार्थ रामायण; धान्यमाली—अध्यात्म रामायण, आनन्द रामायण; धान्यमालिनी—रंगनाथ रामायण।



गई थी। महानाटक में कंधकाली को 'रजनिचरवरा' की उपाधि दी गई है (अंक १३, ३२)।

गौड़ीय (८२, ५८) तथा पश्चिमोत्तरीय (८१, ३९) पाठों में हनुमान् से अनुरोध किया जाता है कि ब्रह्म सूर्योदय के पूर्व ही लौटें—**यावद्वाग्निर्न हीयते। सूर्योदय के पूर्व ही हनुमान् के आगमन की आवश्यकता का परवर्ती राम-कथाओं में प्रायः उल्लेख किया जाता है। कृत्तिबास रामायण (६, ७३) के अनुसार रामण के आदेशानुसार मध्यरात्रि में ही सूर्योदय हुआ था किन्तु हनुमान् ने सूर्य को अपनी काँख में दबा लिया था। भावार्थ रामायण (६, ३३) में सूर्य राम से भयभीत होकर हनुमान् के लंका में पहुँचने के पहले उदित होने का साहस नहीं करते हैं। बलरामदास रामायण के अनुसार किसी ब्राह्मणी ने अपने पातिव्रत्य के बल पर बहुत देर तक सूर्योदय का समय टाल दिया था।**

रामकियोन में कुम्भकर्ण की शक्ति से (अध्याय २८), इन्द्रजित् के ब्रह्मास्त्र से (अध्याय ३०) तथा रावण की शक्ति से (अध्याय ३३) आहत लक्ष्मण की चिकित्सा के लिए हनुमान् के तीन बार ओषधि-पर्वत ले आने का वर्णन किया गया है।

५८८. ओषधि-पर्वत के आनयन के अवसर पर भरत से हनुमान् की भेंट का प्राचीनतम वर्णन वाल्मीकी रामायण के गौड़ीय पाठ में सुरक्षित है (६, ८२, ९०-१३८)। हिमालय की ओर जाते हुए हनुमान् को देखकर भरत को कौतूहल हुआ और उन्होंने बाण मारकर हनुमान् को नीचे गिराना चाहा किन्तु हनुमान् ने अपना परिचय देकर अपनी यात्रा का उद्देश्य प्रकट किया। भरत के प्रश्न के उत्तर में हनुमान् ने वनवास से लेकर लक्ष्मण के आहत होने तक का सारा वृत्तान्त कह सुनाया तथा भरत को विजयी राम के शीघ्र प्रत्यावर्तन का आश्वासन देकर हिमालय की ओर प्रस्थान किया।

परवर्ती रचनाओं में प्रस्तुत प्रसंग में बहुधा एक स्वप्न का उल्लेख किया जाता है तथा यह भी प्रायः माना गया है कि हिमालय से लका जाते समय हनुमान्-भरत की भेंट हुई थी। महानाटक (१३, २१-३१) की कथा इस प्रकार है। सुमित्रा ने किसी रात को यह स्वप्न देखा कि एक साँप मेरी बाँई भुजा खा रहा है। उस अपशकुन की शांति के निमित्त तुरन्त यज्ञ का आयोजन हुआ। शांतिमण्डप में उपस्थित होकर भरत ने पर्वत को ले जाते हुए हनुमान् को आकाश में देखकर उन्हें बाण से नीचे गिरा दिया था। 'हा राम लक्ष्मण' पुकार कर हनुमान् मूर्च्छित हो गये तथा नसिष्ठ उनको पर्वत की ओषधियों द्वारा चेतना में लाए। युद्ध का वृत्तान्त सुनाने के पश्चात् हनुमान् ने भरत की परीक्षा लेने के उद्देश्य से कहा—“मैं थक गया हूँ; आप ही यह पर्वत लका ले चले।” यह सुनकर भरत ने पर्वत के साथ हनुमान् को बाण पर बिठाकर धनुष-

सधान किया। भरत का पराक्रम देखकर हनुमान् को सन्तोष हुआ और बाण से उतरकर उन्होंने भरत के बाहुबल की प्रशंसा की। तत्पश्चात् रुद्रावतार हनुमान् पर्वत को उठाकर चले गए और अर्द्धरात्रि में ही लंका के निकट पहुँच गए। रंगनाथ रामायण (६, १२८) के अनुसार भरत ने स्वप्न में देखा कि राम और लक्ष्मण पक के मध्य में छटपटा रहे हैं (बालमीकि रामायण में उनके एक अन्य स्वप्न का उल्लेख है, दे० २, ६९, १)। जागकर घर के बाहर निकलने पर उन्होंने वहाँ भी कई अपशकुन देख लिए तथा ब्राह्मणों को बुलाकर हवन आदि के द्वारा शातिकर्म कराया। उसी समय हनुमान् आकाश से भरत को देखकर शंका करने लगे कि यह तो राम नहीं है, किन्तु सीता और लक्ष्मण को राम कहाँ छोड़ सकते हैं, ऐसा सोचकर वह लंका की ओर चल पड़े। उधर भरत ने भी हनुमान् को देखकर उन्हें बाण से नीचे गिराने का निश्चय किया किन्तु आकाशवाणी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। तोरवे रामायण (६, ४७) में कथा इस प्रकार है। भरत ने पिछली रात में लक्ष्मण की मृत्यु सूचित करनेवाला स्वप्न देखा था और वह इस कुस्वप्न की शांति के लिए धर्मक्रिया कर ही रहे थे कि उन्होंने आकाश में हनुमान् को लंका की ओर जाते देखा तथा उन्हें अपशकुन समझकर नीचे गिराना चाहा किन्तु आकाशवाणी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। रंगनाथ रामायण की भाँति हनुमान् ने भी भरत-शत्रुघ्न को देख लिया तथा वह शंका करने लगे कि ये तो राम-लक्ष्मण नहीं हैं। आनन्द रामायण (१, ११, ६२-७०) में माना गया है कि भरत ने बाण मार कर हनुमान् के हाथ से पर्वत गिरा दिया। हनुमान् ने भरत को देखकर उन्हें राम ही समझ लिया किन्तु जब भरत पुनः बाण मारने के लिये उद्यत हुए तब उनका भ्रम दूर हुआ और उन्होंने भरत को अपने परिचय के साथ-साथ युद्ध का भी हाल कह सुनाया। अन्त में भरत ने बाण मारकर हनुमान् को पर्वत लौटा दिया और हनुमान् उसे लंका ले गए। बाद में पर्वत को पुनः अपने स्थान पर रखकर हनुमान् ने लक्ष्मण के जीवित होने का शुभ समाचार भरत को सुनाया। परवर्ती रामकथाओं में महानाटक के अनुसार प्रायः माना गया है कि भरत ने बाण मारकर हनुमान् को नीचे गिराया था; उदाहरणार्थ—सूरसागर (५९४), बलरामदास रामायण, रामचरितमानस (६, ५८), गीतावली (६, १०), काश्मीरी रामायण, साकेत।<sup>१</sup> भावार्थ रामायण (६, ४६) के अनुसार भरत ने हनुमान् को इन्द्र समझकर उन पर रामनामांकित बाण चलाया था किन्तु वह बाण रामभक्त हनुमान् को आहत नहीं करना चाहता था। अतः वह हनुमान् के पैरों को पकड़ कर उन्हें नीचे की ओर

१. दे० सर्ग ११। साकेत के अनुसार मंजीवनी औषधि पहले ही से अयोध्या में विद्यमान थी। इससे आहत हनुमान् की चिकित्सा हुई और इसी को हनुमान् लंका ले गए थे।

खींचने लगा। हनुमान ने बाण पर राम नाम देखकर समझा कि राम अयोध्या चले आए और वह भरत के पास जाकर भर्त्सना करने लगे कि आप ने अपने मित्रों को युद्ध में क्यों छोड़ दिया है। कृत्तिवास रामायण (६, ७५) में कथा इस प्रकार है। भरत ने लंका की ओर पर्वत ले जाते हुए हनुमान पर एक अस्सी लाख मन का लोहे का गेद फेंक दिया, जिससे हनुमान आहत होकर भूमि पर गिर पड़े। बाद में वसिष्ठ ने मन्त्र पढ़कर हनुमान को व्यथा दूर कर दी। हनुमान ने युद्ध का समाचार सुनाया तथा भरत की बल-परीक्षा करने के लिए उनसे कहा कि मैं अब पर्वत ले जाने में असमर्थ हूँ; यदि आप उसे एक योजन तक ऊपर उठा सकें तो काम चलेगा। इस पर भरत ने पर्वत और हनुमान को अपने बाण पर बिठाकर दोनों को शतयोजन की ऊँचाई तक पहुँचा दिया। रामचरितमानस आदि अनेक रचनाओं में भरत बाण पर बिठाकर हनुमान को लंका तक पहुँचाने का प्रस्ताव करते हैं किन्तु हनुमान इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं। काश्मीरी रामायण (नं० ४५) के अनुसार भरत ने वास्तव में ऐसा ही किया था। बलरामदास रामायण में लिखा है कि भरत और हनुमान दोनों को बड़ी लज्जा हुई थी; भरत को इसलिए कि मैंने रामभक्त पर बाण चलाया और हनुमान को इसलिए कि मैं भरत के बाण में मूर्च्छित होकर भूमि पर गिर गया हूँ। अतः दोनों ने किसी भी मनुष्य में इस घटना का उल्लेख नहीं करने की शपथ खाई थी।

### छ। कुम्भकर्ण-वध

५८९. (१) दक्षिणात्य पाठ मात्र में कुम्भकर्ण युद्ध-काण्ड (सर्ग १२) के प्रारम्भ में सीता को लौटाने का रावण से अनुरोध करता है। अन्य पाठों में अथवा महाभारत के रामोपाख्यान में कुम्भकर्ण के इस हस्तक्षेप का उल्लेख नहीं होता। दक्षिणात्य पाठ की अन्तरंग परीक्षा से भी स्पष्ट है कि यह प्रसंग प्रक्षिप्त है क्योंकि रावण के आदेशानुसार जगाये जाने पर कुम्भकर्ण सीताहरण, लंकावरोध आदि घटनाओं से अर्नाभ है (दे० सर्ग ५१)।

(२) कुम्भकर्ण की दीर्घकालीन नींद के कारण के विषय में वाल्मीकि रामायण के युद्धकाण्ड और उत्तरकाण्ड में मतभेद है (दे० अनु० ६४९)।

(३) कुम्भकर्ण की पत्नी का नाम वज्रज्वाला था (दे० रा० ७, १२, २३)। युद्धकाण्ड (७५, ४६) में कुम्भ-निकुम्भ उसके दो पुत्रों का उल्लेख है। निकुम्भ को रावण का मंत्री भी माना गया है। कुम्भकर्ण के दो अन्य पुत्रों का भी उल्लेख मिलता है, अर्थात् मूलकासुर और कुम्भगर्भ (दे० अनु० ६४१)।

१. दे० रा० ५, ४९, ११ और ६, ८, १९। एक अन्य निकुम्भ का वध युद्ध काण्ड के सर्ग ४३ में वर्णित है।

(४) दाक्षिणात्य पाठ के अनुसार कुम्भकर्ण के जगाने के विभिन्न प्रयत्नों का अतिरंजित वर्णन किया गया है। अन्त में १००० हाथी कुम्भकर्ण का शरीर कुचलकर जगाने में सफलता प्राप्त करते हैं। उदीच्य पाठों के अनुसार हाथी भी असमर्थ ठहरे किन्तु अन्ततोगत्वा नाग-राक्षस-गन्धर्व-कन्याओ के आभूषणों की झनकार, उनके संगीत और स्पर्श से कुम्भकर्ण जाग गया था (गी० रा० ३७, ५५-६३; प० रा० ३६, ५४-६२)। परवर्ती रचनाओं में कुम्भकर्ण के जागरण के वर्णन में बहुधा अप्सराओं का उल्लेख किया गया है। भावार्थ रामायण (६, २०) में गृताची, रभा, मेनका, उर्वशी आदि आठ प्रधान अप्सराओ के बुलाये जाने का वर्णन किया गया है, उर्वशी ने नारायण से प्रार्थना की थी कि वह कुम्भकर्ण से नीद का प्रभाव दूर कर दे। सेरीराम में चार दासियाँ कुम्भकर्ण की नाक में प्रवेश कर बाल उखाड़ना चाहती हैं कि वे कुम्भकर्ण की छींक से बाहर फेक डाली जाती हैं। इस रचना में कुम्भकर्ण पैरो के बाल उखाड़े जाने पर जागता है।

(५) बाल्मीकि रामायण के सभी पाठ इसमें सहमत हैं कि राम ने कुम्भकर्ण का वध किया था। उदीच्य पाठों के अनुसार कुम्भकर्ण ने रात्रण से कहा था कि नारद ने किसी दिन मुझसे विष्णु के अवतार राम का रहस्य प्रकट किया था। इसलिए रावण को राम से सधि कर लेनी चाहिए (गी० रा० ४०, ३०-५३, प० रा० ४१, ३३-५६)। उत्तर में रात्रण ने कहा कि मैं विष्णु के हाथ से मरकर परमगति प्राप्त करना चाहता हूँ—निहतो गंतुमिच्छामि तद्विष्णोः परमं पदम्। यह प्रसंग दाक्षिणात्य पाठ में नहीं मिलता किन्तु वह अध्यात्म (६, ७), आनन्द (१, ११, १४२), रगनाथ (६, ७०), भावार्थ रामायण (६, २२) और रामचरितमानस (६, ६३) आदि रचनाओं में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त पश्चिमोत्तरी पाठ (४६, ८२-९१) के अनुसार कुम्भकर्ण ने रणभूमि में विभीषण से मिलकर राम की शरण लेने के कारण उसकी प्रशंसा की थी। बाल्मीकि रामायण के अन्य पाठों में इसका उल्लेख नहीं मिलता है किन्तु यह प्रसंग अध्यात्म (६, ८), आनन्द (१, ११, १५२), कंब (६, १५), रगनाथ (६, ७९), भावार्थ रामायण (६, २५) और रामचरितमानस (६, ६४) में वर्णित है।

(६) बाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने पहले कुम्भकर्ण की भुजायें, तब उसके पैर और अन्त में उसका सिर अपने वाणों से काट दिया था। कुम्भकर्ण का सिर सूर्योदय-कालीन चन्द्रमा के समान आकाश में दिखाई पड़ा और उसने पृथ्वी पर गिर कर अनेक भवनों को ढहाया था। महालाटक (अंक ११) में हनुमान कुम्भकर्ण के सिर पर ऐसा प्रहार करते हैं कि वह हिमालय पर जाकर गिरता है। अनन्तर हनुमान उसका

कबंध पूँछ में लपेटकर आकाश में दूर तक फेंक देते हैं। कबंध रामायण (६, १५) के अनुसार राम ने कुंभकर्ण का सिर काटकर उसे समुद्र में फेंक दिया था। रंगनाथ रामायण (६, ८०) में वर्णन इस प्रकार है—“वह सिर नीचे नहीं गिरा; किन्तु वह लंका में बहुत सी ऊँची अट्टालिकाओं से टकराकर उन्हें चूर-चूर करके अत्यधिक ध्वनि करते हुए आगे निकल गया और समुद्र के विविध प्राणि-समूह को कुचलते हुए समुद्र में गिरकर डूब गया”। भाष्यार्थ रामायण (६, २८) के अनुसार कुंभकर्णका सिर कट जान के बाद आगे बढ़ने लगा और राम ने वाण मारकर उसे आकाश में पहुँचा दिया। कुंभकर्ण को एक वर मिला था कि जब तक शत्रु उसे पीठ न दिखावे उसका शरीर नहीं गिर सकता था। कुंभकर्ण का कबंध लंका की ओर जा रहा था और विभीषण ने राम से निवेदन किया कि वह क्षणमात्र के लिये पीठ दिखावे। राम ने इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया जिस पर हनुमान् ने अपनी पूँछ से राम की पीठ का स्पर्श किया। राम ने घूम कर देख लिया कि यह क्या है और उसी क्षण कुंभकर्ण का कबंध गिर गया और बहुत से राक्षस उसके नीचे दब कर मर गए। सेरीराम के अनुसार राम ने कुंभकर्ण का मित्र रावण के शिविर में फेककर बहुत से राक्षसों का वध किया था।

(७) वाल्मीकि रामायण के दाक्षिणात्य पाठ मात्र में लक्ष्मण-कुंभकर्ण युद्ध का वर्णन किया गया है (६७, १००-११५)। सम्भवतः इसके आधार पर अनेक परवर्ती रचनाओं में माना गया है कि लक्ष्मण ने कुंभकर्ण का वध किया है; उदाहरणार्थ—महाभारत का रामोपाख्यान (अध्याय २७१), स्कन्द पुराण का सेतुसाहाय्य (अध्याय ४४), विहोर राम-कथा तथा रामकेति (सर्ग ९)। दो विदेशी राम-कथाओं में कुंभकर्ण द्वारा लक्ष्मण के आहत होने का विस्तृत वर्णन किया गया है। रामकेति (सर्ग ९) के अनुसार लक्ष्मण की चिकित्सा के लिए ओषधियों के अतिरिक्त रावण के बेलन की भी जरूरत है। हनुमान् दोनों ले आते है। बेलन की खोज करते समय हनुमान् लंका में रावण तथा मन्दोदरी दोनों के बाल एक गाँठ में बाँधकर दीवाल पर लिख देते हैं कि मन्दोदरी जब अपने बाये हाथ से रावण पर धप्पड़ मारेगी तभी गाँठ खुल सकेगी।<sup>१</sup> रामकियेन (अध्याय २८) का वृत्तान्त इस प्रकार है—कुंभकर्ण ने अपनी मोक्षशक्ति नामक भाले से लक्ष्मण को मूर्च्छित कर दिया था। उनकी चिकित्सा के लिए ओषधि तथा पाँच नदियों के जल की आवश्यकता थी, जो भरत के पास है। हनुमान् पहले हिमालय से ओषधि और इसके बाद अयोध्या से वह जल ले आये।

१. अन्य रचनाओं में रावण के द्वारा लक्ष्मण के आहत होने पर हनुमान् के इस उत्पात का वर्णन किया गया है (दे० अनु० ५९६)।

(८) प्रस्तुत वृत्तान्त के वर्णन में अनेक गीण परिवर्तन उल्लेखनीय हैं। पञ्च-पुराण के पातालखण्ड (अध्याय ११२) तथा विहौर राम-कथा में रावण-वध के पश्चात् ही कुम्भकर्ण की पराजय का वर्णन किया गया है। अध्यात्म रामायण (६, ८, ३१-५२) तथा इस पर आधारित राम-कथाओं में नारद कुम्भकर्ण-वध के बाद आकर राम की प्रशंसा करते हैं। सेरीराम में कुम्भकर्ण की मृत्यु के पश्चात् युद्ध चालीस दिन तक स्थगित कर दिया जाता है। तोरखे रामायण (६ २८) के अनुसार कुम्भकर्ण जीवरत्न पहनकर लड़ता है जिससे ब्रह्म अजेय बना है। विभीषण के सुझाव पर राम उस जीवरत्न को बाण से काटकर कुम्भकर्ण का वध करते हैं। रामबाण उस जीवरत्न को राम के पास लाया और राम ने उसे विभीषण को प्रदान किया। पउमचरिय (पर्व ६१) में कुम्भकर्ण राम द्वारा कैदी बनाया जाता है तथा युद्ध के अन्त में मुक्त कर दिया जाता है।

(९) रामकियेन के वृत्तान्त में अनेक नये तत्त्व आ गये हैं। इन्द्रजित् तथा रावण के यज्ञ के अनुकरण पर माना जाता है कि कुम्भकर्ण न अपनी मोक्षशक्ति नामक भावों की शक्ति जगान के उद्देश्य से यज्ञ का आयोजन किया था, हनुमान् और अगद न इस यज्ञ को भंग किया था। लक्ष्मण को आहत करने के अतिरिक्त कुम्भकर्ण न अपना शरीर बढ़ाकर वानर-सेना की ओर बहती हुई नदी की धारा का रोक दिया था जिसे प्यासे वानरों को बहुत कष्ट हुआ। अन्त में हनुमान ने कुम्भकर्ण के पास पहुँचकर उस पर पादप्रहार किया जिससे कुम्भकर्ण भाग गया। इस रचना में कुम्भकर्ण की मुक्ति-प्राप्ति का भी उल्लेख मिलता है (अध्याय २८)।

## ज। इन्द्रजित्-चरित

५९० वाल्मीकि रामायण में इन्द्रजित् के छ युद्धों का वर्णन मिलता है। प्रथम युद्ध में इन्द्रजित् ने राम-लक्ष्मण को नागपाश में बाँधा था (दे० अनु० ५८६)। द्वितीय तथा तृतीय युद्ध में नागपाश वृत्तान्त का अनुकरण मात्र प्रतीत होता है। द्वितीय युद्ध के पूर्व इन्द्रजित् पावक को होम देकर ब्रह्मास्त्र प्राप्त कर लेता है तथा बाद में अदृश्य बनकर वानर-सेनापतियों तथा राम-लक्ष्मण को आहत करता और विजयी के रूप में लका लौटता है (दे० सर्ग ७३)। तृतीय युद्ध का वर्णन इससे अधिक मिश्र नहीं है—पावक को होम देने के पश्चात् इन्द्रजित् अपने रथ पर चढ़ता है तथा अदृश्य बनकर राम-लक्ष्मण को आहत करता है (दे० सर्ग ८०)। इन तीन युद्धों की सामान्य विशेषता यह है कि इन्द्रजित् अदृश्य रहता है। युद्ध में अदृश्य रहने की इस वरप्राप्ति का उल्लेख वाल्मीकीय उत्तरकाण्ड में मिलता है। इसके अनुसार इन्द्रजित् ने अग्निष्टोम, अश्वमेध आदि सात यज्ञों का फल प्राप्त कर लिया था तथा कामग स्यन्दन, अक्षय तूणीर आदि के अतिरिक्त उसे युद्ध में अदृश्य रहने का वरदान भी मिला था

(दे० सर्ग २५) । उत्तरकाण्ड के एक अन्य स्थल पर मेघनाद द्वारा इन्द्र की पराजय का वर्णन किया गया है । मेघनाद ने इन्द्र को पराजित करके उन्हें लका के कारावास में रख दिया था (सर्ग २९) । बाद में ब्रह्मा के नेतृत्व में सभी देवता इन्द्र को मुक्त कर देने के उद्देश्य से लका चले आए । उन्होंने मेघनाद को इन्द्रजित् की उपाधि देने के अतिरिक्त एक वर भी प्रदान कर दिया । इन्द्रजित ने यह वर माँग लिया कि युद्ध के पूर्व पावक को विधिवत् ह्रीम देने पर मेरे लिये अग्नि में से एक अश्वयुक्त रथ उत्पन्न हो और जब तक मैं उस पर रहूँ, मैं अमर बना रहूँ (सर्ग ३०) ।

इन्द्रजित्-चरित की शेष सामग्री का इस प्रकार विभाजन किया गया है—माया-रूपी सीता का वध और चतुर्थ युद्ध (अनु० ५९१), निकुंभिला में इन्द्रजित्-यज्ञ का विध्वंस (अनु० ५००), इन्द्रजित्-वध (अन्तिम दो युद्ध, अनु० ५९३), मुलोचना का वृत्तान्त (अनु० ५९४) । इन्द्रजित् की जन्मकथा-विषयक सामग्री रावणचरित के अंतर्गत रखी गई है (दे० अनु० ६५०) ।

५९१ माया-सीता-वध का वृत्तान्त सभवन आदि-रामायण में नहीं पाया जाता था क्योंकि महाभारत के रामोपाख्यान में इसका अभाव है ।<sup>१</sup> गुणभद्रकृत उत्तर-पुराण (६८ ६१२) तथा आनन्द रामायण (१, ११, २५०) में रावण स्वयं एक माया-सीता का वध करता है । आनन्द रामायण के अनुसार ब्रह्मा न आकर माया-सीता का गृह्य प्रकट किया था—**कुत्रिमं ये हता सीता । रामकोर्सि** (सर्ग ८) में रावण सीता का अपन रथ पर बिठाकर रणभूमि में आता है और राम इस डर से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं कर पाते कि कहीं सीता का वध न हो । अन्य राम-कथाओं में प्रायः **बाल्मीकि रामायण** के अनुसार माया-सीता का वध वर्णित है । इन्द्रजित् के इस चतुर्थ युद्ध का वृत्तान्त इस प्रकार है । इन्द्रजित् लका के पश्चिम द्वार से निकलकर हनुमान् तथा अन्य वानरो के सामने अपन रथ पर विद्यमान सीता का सिर काट लेता है । यह देखकर वानर भागने लगते हैं किन्तु हनुमान् का आह्वान सुनकर वे उनके नेतृत्व

१ यह असंभव नहीं कहा जा सकता है कि माया-सीता-वध के वृत्तान्त में महाभारत के माया-वसुदेव की कथा का अनुकरण किया गया हो । शाल्व के साथ युद्ध करनेवाले कृष्ण के पास एक छद्मवेशी दूत ने आकर कहा कि द्वारका में आपके पिता का वध हो चुका है, अब आपको द्वारका की रक्षा करनी चाहिये । इसके बाद कृष्ण ने देखा कि शाल्व के विमान से वसुदेव का मृत शरीर नीचे गिर रहा है । शाल्व की इस माया से प्रभावित होकर कृष्ण कुछ समय युद्ध न कर सके (दे० ३, २२) । अगले अध्याय में इन्द्रजित्-युद्ध का एक और सादृश्य पाया जाता है । शाल्व का विमान अदृश्य हो जाता है किन्तु कृष्ण शब्दवेशी वाणी से उसे पराजित करते हैं ।

मे इन्द्रजित् का सामना करते हैं। कुछ समय तक युद्ध करने के बाद हनुमान् वानरो को वापस बुलाकर राम को सीता-वध का समाचार सुनाने जाते हैं और इन्द्रजित् निकुम्बिला में प्रवेश कर यज्ञ की तैयारियाँ करने लगता है (सर्ग ८१-८२)। समाचार सुनकर राम विलाप करते हैं किन्तु विभीषण आश्वासन देता है कि रावण सीता का वध नहीं करेगा, यह अवश्य कोई माया-सीता हुई होगी

अभिप्राय तु जानामि रावणस्य दुरात्मनः ।

सीतां प्रति महाबाहो न ख घात करिष्यति ॥ १० ॥

× × ×

मायामयीं महाबाहो तां विद्धि जनकात्मजाम् ॥ १३ ॥ (सर्ग ८४)

अनेक परवर्ती राम-कथाओं में माया-सीता-वध के पश्चात् सच्चाई का पता लगाने के लिये किसी को लका भेजा जाता है। कम्ब रामायण (६, २५) में विभीषण मधुमक्खी का रूप धारण कर अशोकवन में प्रवेश कर जाता है तथा राम के पास सीता के जीवित होने का समाचार ले आता है। रंगनाथ रामायण (६, १०३) में इससे मिलता-जुलता वर्णन मिलता है, अन्तर यह है कि विभीषण लका जाने के लिए सूक्ष्म रूप धारण कर लेता है। तोरवे रामायण (६, ४१) में विभीषण के परामर्श से हनुमान को अशोकवन भेजा जाता है। बाद में माया-सीता का शव विभीषण के स्पर्शमात्र में अतर्धान हो जाता है। सेरीराम की कथा इस प्रकार है। रावण के आदेशानुसार इन्द्रजित् एक माया-सीता की सृष्टि करता है तथा बाद में लका में ही उसका वध करके इसका समाचार चारों ओर फैलाना है। यह सुनकर राम मूर्च्छित होकर भूमि पर गिर जाते हैं। विभीषण राम को चेतना में लाकर परामर्श देता है कि उस समाचार पर तुरन्त विश्वास न किया जाय। तब हनुमान् पक्षी (एक अन्य पाठ में मधुमक्खी) का रूप धारण कर लका में प्रवेश करते हैं तथा सीता के जीवित होने का समाचार लेकर लौटते हैं। रामकथेन (अध्याय ३०) में प्रस्तुत वृत्तान्त को एक नया रूप दिया गया है। युद्ध में भाग जाने के कारण शुकसागर नामक राक्षस को प्राणदण्ड की आज्ञा मिली थी। रावण ने उसे सीता का रूप धारण कर इन्द्रजित् के रथ पर चढ़ने का आदेश दिया। रथ-भूमि में पहुँचकर इन्द्रजित् ने लक्ष्मण का सामना किया लेकिन सीता को देखकर लक्ष्मण को रावण चलाने का साहस नहीं हुआ। इस पर इन्द्रजित् ने लक्ष्मण में कहा कि युद्ध का मूलकारण, सीता की ले जाओ और लका को छोड़ दो। सीता को भेज देने के लिए लक्ष्मण के कहने पर इन्द्रजित् ने कहा कि सीता को तुम्हारे पास ले आना मेरे गौरव के विरुद्ध है और उसने हँसकर माया-सीता का सिंग काटकर उसे लक्ष्मण की ओर फेंक दिया। बाद में विभीषण ने रहस्य का उद्घाटन किया।



बलरामदास रामायण के अनुसार भी सिंहनाद की बहून सुकांति ने सीता का रूप धारण कर लिया और इंद्रजित् ने उसका वध किया था ।

५९२. वाल्मीकि रामायण के अनुसार विभीषण ने राम को सावधान किया था कि निकुंभिला ने अपना यज्ञ सम्पन्न करने के पश्चात् इंद्रजित् अजेय बन जायेगा ; अतः इस यज्ञ का विध्वंस परमावश्यक है (सर्ग ८४) । विभीषण, हनुमान्, अंगद आदि वानरो को साथ लेकर लक्ष्मण ने इंद्रजित् की रक्षा करने वाली सेना पर आक्रमण किया । युद्ध का कोलाहल सुनकर इंद्रजित् अपना यज्ञ अपूर्ण छोड़कर (कर्मणि अननुष्ठिते) युद्ध के लिए उठ खड़ा हुआ (सर्ग ८५-८६) । परवर्ती राम-कथाओं में प्रायः इससे मिलता-जुलता वर्णन पाया जाता है । कम्ब रामायण (६, २६) के अनुसार विभीषण ने मधुमखली के रूप में लका में प्रवेश कर इंद्रजित्-यज्ञ का समाचार राम को दिया था । सेरीराम में माना गया है कि इंद्रजित् ने मृत राक्षसों को जिलाने के उद्देश्य से यज्ञ प्रारंभ किया था । सीता-वध की मच्चाई का पता लगाते समय हनुमान् ने बहुत से भिक्षुओं तथा महर्षियों को एक मन्दिर की ओर जाते देखा तथा उनकी वानचीत से इस यज्ञ के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली थी । इसपर लक्ष्मण तथा हनुमान् के नेतृत्व में वानर-सेना ने जाकर इंद्रजित् की सेना परास्त की थी तथा मन्दिर में से यज्ञ करने वाले पुरोहितों को भगाकर यज्ञ का विध्वंस किया था ।

५९३. वाल्मीकि रामायण में इंद्रजित्-वध का वृत्तान्त इस प्रकार है । अपना यज्ञ सम्पूर्ण किये बिना इंद्रजित् युद्ध के लिए उठ खड़ा हुआ और विभीषण को देखकर इंद्रजित् ने उसकी निन्दा की (सर्ग ८६-सर्ग ८७) । अनन्तर लक्ष्मण और इंद्रजित् ने देर तक द्वन्द्व-युद्ध कर एक दूसरे को आहत किया । इंद्रजित् के इस पंचम युद्ध के अन्त में लक्ष्मण ने इसके सारथि को मार डाला और इंद्रजित् पैदल ही लंका लौटा । इसके बाद इंद्रजित् एक नये रथ पर चढ़कर अग्निम बार घुड़ करने आया ; इस युद्ध में लक्ष्मण ने सारथि को और विभीषण ने घोड़ों को मार डाला ; अन्त में लक्ष्मण ने ऐन्द्र शस्त्र से इंद्रजित् का वध किया । बाद में सुषेण ने लक्ष्मण, विभीषण आदि की चिकित्सा की । अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण ने सीता का वध करना चाहा किन्तु सुपाश्वरि ने उसे ऐसा करने से रोका ।

१. रावण के इस संकल्प का भ्रायः सभी राम-कथाओं में उल्लेख है किन्तु रोकने वाले के विषय में मतभेद नहीं है ; महाभारत (३, २७३) तथा अग्नि पुराण (अध्याय १०) में अविध्य को, अभिनन्द कृत रामचरित (१८, ५) तथा कृतिवास (६, ६६) में मन्वोदरी को, कम्ब रामायण (६, २८) में महोदर को, माधव कंदलीकृत रामायण (६, ३७) में अरविन्द को और बलरामदास रामायण में त्रिजटा को इसका श्रेय दिया गया है ।

परवर्ती रावण-कथाओं में इन्द्रजित्-वध के वृत्तान्त के निम्नलिखित परिवर्तन उल्लेखनीय हैं। सहानाटक (१२, १९) के अनुसार लक्ष्मण ने इन्द्रजित् का कटा हुआ सिर रावण के हाथों में फेंक दिया था। कंब रामायण (६, २७) में माना गया है कि इन्द्रजित् ने लक्ष्मण के साथ युद्ध करते समय समझ लिया था कि लक्ष्मण विष्णु के अंशावतार है। अतः उसने युद्ध छोड़कर रावण से अनुरोध किया कि सीता को लौटाया जाय और राम से क्षमा-याचना की जाय। रावण ने नहीं माना और इन्द्रजित् रणभूमि लौटा। युद्ध के अन्त में लक्ष्मण ने पहले इन्द्रजित् का बायाँ हाथ और बाद में उसका सिर काट डाला। अगद ने इन्द्रजित् का सिर उठाकर उसे राम के चरणों में रख दिया। आनन्द रामायण (१, ११, १९०-१९८) के अनुसार लक्ष्मण ने इन्द्रजित् का दाहिना हाथ बाण से काटकर उसी के घर में फेंक दिया और इसी तरह उसका बायाँ हाथ भी काटकर रावण के निकट डाल दिया। अन्त में लक्ष्मण ने उसके सिर को घड़ से अलग कर धरती पर गिरा दिया और हनुमान् ने उस सिर को उठाकर राम को दिलाला दिया। रामचन्द्रिका (२८, ३४) में महानाटक के अनुकरण पर माना गया है कि लक्ष्मण ने एक तीक्ष्ण बाण से इन्द्रजित् का सिर घड़ से अलग उड़ा दिया और वह सिर सध्या करनेवाले रावण की अजली में जा गिरा।

सारसावास के महाभारत (द्रोणपर्व) में इन्द्रजित् के मर्गस्थान का उल्लेख है; विभीषण के परामर्श से लक्ष्मण ने इन्द्रजित् की नाभि में स्थित अमृतलिंग पर बाण चलाया। बहुत सी रचनाओं में यह माना गया है कि १२ वर्ष तक के उपवास के फलस्वरूप लक्ष्मण इन्द्रजित् का वध करने में समर्थ हुए।<sup>१</sup> पञ्चमचरियं के अनुसार इन्द्रजित् को कौड़ी बना लिया गया (पर्व ६१) तथा युद्ध के पश्चात् उसे मुक्त कर दिया गया (पर्व ७५)।

सेरीराम के वृत्तान्त में कई नये तत्त्व पाये जाते हैं। अपनी पत्नी कोमाल देवी से प्रेमपूर्वक<sup>२</sup> बिदा लेकर इन्द्रजित् १००० हरे रंग के घोड़ों से युक्त रथ पर चढ़कर युद्ध करने जाता है और लक्ष्मण तथा हनुमान् का सामना करने के पश्चात् अन्त में

१. दे० अनु० ४६१। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लक्ष्मण ने इन्द्रजित् के अतिरिक्त अतिकाय (सर्ग ७१) का भी वध किया; वह इन्द्रजित् द्वारा तीन बार (अनु० ५९०) और रावण की शक्ति द्वारा एक बार (अनु० ५९६) आहत किए गए। प्रसिप्त सर्ग ५९ में रावण-लक्ष्मण के इन्द्र युद्ध का वर्णन मिलता है। दाक्षिणात्य पाठ मात्र में लक्ष्मण-कुम्भकर्ण-युद्ध का उल्लेख किया गया है (सर्ग ६७)।

२. सीता स्वयंवर के प्रसंग में भी अपनी पत्नी के प्रति इन्द्रजित् के प्रेम का उल्लेख हुआ है (दे० अनु० ३९७)।

राम द्वारा मार डाला जाता है।<sup>१</sup> समाचार पाकर रावण रणभूमि में जाता है तथा इन्द्रजित् का संघ अपनी गोद में लेकर इसना हृदयविदारक विलाप करता है कि राम तथा वानर-सैनिक भी रोने लगते हैं; (किन्तु इने गिने वानर रावण को दस मुखों से विलाप करते देखकर अपनी हँसी नहीं रोक पाते हैं)। बाद में रावण स्वयं इन्द्रजित् का मृत शरीर लंका ले जाता है। कोमाल देवी अपने पति की चिंता पर चढ़कर सती हो जाती है; इन्द्रजित् और कोमाल देवी का भस्म एक स्वर्ण पात्र में सुरक्षित रखा जाता है। इसके बाद युद्ध चालीस दिन स्थगित रहता है।

५९४. सेरीराम में इन्द्रजित् की पत्नी के सहगमन की कथा का आधार भारतीय है। वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग का निर्देश मात्र भी नहीं मिलता। अपने पुत्र के लिए विलाप करते समय रावण इन्द्रजित् की पत्नियों का उल्लेख मात्र करता है—  
मातरं मां च भार्याश्च च गतोऽसि विहाय नः (६, ९२, १३)।

सुलोचना की कथा का प्राचीनतम वर्णन तेलुगु द्विषव रामायण (६, १११—११३) में मिलता है। बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् द्वारा प्रकाशित हिन्दी अनुवाद में कथा इस प्रकार है। इन्द्रजित् के वध का समाचार सुनकर सुलोचना मूर्च्छित होकर गिर पड़ी तथा सखियों की सेवा से चेतना पाकर विलाप करने लगी। इस विलाप में वह प्रकट करती है कि मेरे पिता आदिशेष ने मुझे एक मणि सौंपकर आश्वासन दिया था कि तुम युद्ध के लिए जाने समय अपने पति की इस मणि से आरती उतारोगी तो वह अजेय होगा। किन्तु इन्द्रजित् लक्ष्मण से युद्ध करने जाते समय अपनी पत्नी से नहीं मिला था।

सुलोचना रावण की अनुमति लेकर आकाशमार्ग से राम के पास चली आई तथा उसने शरणागत-वत्सल राम की स्तुति करके अपने पति के लिए जीवन-दान मांगा। राम उसकी यह प्रार्थना सुनकर इन्द्रजित् को पुनर्जीवित करने की सोच रहे थे<sup>२</sup>

१. शोलाबेर पाठ के अनुसार राम ने इन्द्रजित् के तीनों सिर राक्षसों की सेना के बीच में फेंक दिये।
२. एक प्राचीन हस्तलिपि के अनुसार इन्द्रजित् की बाईं भुजा आकाशमार्ग से सुलोचना के सामने आ गिरी और उसने अपनी तर्जनी से अपनी मृत्यु का समाचार लिख दिया। दे० अनुशीलन, वर्ष १२, पृ० १५।
३. एक अन्य पाठ के अनुसार शोषाव्रतार लक्ष्मण अपनी पुत्री सुलोचना को विषवा देसकर विलाप करने लगे थे तथा अन्त में उन्होंने उसे बर माँगने की कहा। इसपर हनुमान् ने सरस्वती से प्रार्थना की कि वह सुलोचना की जिह्वा पर बैठकर उसे पति के पुनर्जीवन का बर माँगने से रोकें। सरस्वती की प्रेरणा से सुलोचना ने अपने पति के शरीर के साथ सती हो जाने का बर माँग लिया। दे० श्री बालशीरि रेड्डी, तेलुगु भाषा में राम साहित्य। मैथिलीशरण गण्ट अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० ८०१।

किन्तु हनुमान् ने ब्रह्मा की मर्यादा की रक्षा करने का अनुरोध किया। इसपर राम ने सुलोचना को आशवासन दिया कि तुम अगले जन्म में अपने पति के साथ सुखमय जीवन बिताने के पश्चात् वैकुण्ठ प्राप्त करोगी।

तब सुलोचना रणभूमि में अपने मृत पति के पास पहुँची और उसने अपने सतीत्व की शपथ खाकर उसे जिलाया।<sup>१</sup> इन्द्रजित् आँखें खोलकर तथा अपनी पत्नी को सान्त्वना देकर फिर मृत्यु के मीन में विलीन हो गया। सुलोचना उसके शरीर के साथ लंका लौटी तथा पति की चिता पर चढ़कर सती बन गई।

आनन्द रामायण (१, ११, २०५-२१७) की कथा इस प्रकार है। सुलोचना अपने पति की कटी हुई भुजा देखकर विलाप करने लगी। तब उम भुजा ने माण लेकर अपने रक्त से लिखा—“शेष के हाथ मगकर मेने मुक्ति पाई है। तुम राम के पास जाकर मेरा मिग माँग लो ओर उमके साथ अग्नि मे प्रवेश कर मेरे पास आओ।” इसके अनुसार सुलोचना अपने पति का मिग माँगने के लिए राम के पास आई। राम ने उमसे कहा—“अदि तुम चाहती हो तो मे तुम्हारे पति को जिला सकता हूँ। अग्नि मे प्रवेश करने का विचार छोड दो। सुलोचना ने लक्ष्मण के हाथ मे मोक्षप्रद भरण दुर्लभ समझकर इम प्रन्ताव को अम्बीकार किया। सुलोचना ने मिग पाकर तथा लका से उसकी भुजाएँ लाकर अपने पति का ममस्त शरीर मिला दिया और निकुम्बिका में जाकर उसके माथ अग्नि मे प्रवेश किया। अनन्तर वह दिव्य देह धारण कर अपने पति के साथ वैकुण्ठ चली गई।

आचार्य रामायण (९, ४१) के वृत्तान्त पर शिव-भक्ति का भी प्रभाव पड़ा है। अपने पति की भुजा को देखकर सुलोचना ने शिव की आराधना की थी और शिव ने इन्द्र की भुजा मे प्रवेश करने तथा युद्ध का समाचार लिखने का आदेश दिया। शेष कथा आनन्द रामायण मे मिलती-जुलती है किन्तु सुलोचना की सखी शातिमती उसे सती बन जाने का परामर्श देती है।

सुलोचना के सहगमन की कथा अनेक अर्वाचीन राम-कथाओं में विस्तारपूर्वक वर्णित है, उदाहरणार्थ—जगत राम कृत बगाली रामायण; रामलिंगामृत (सर्ग ९); पाश्चात्य वृत्तान्त न० ८, रसिक बिहारी का रामरसायन (३, १६); विश्रामसागर (अध्याय २७); माइकेल मधुसूदन का मेघनाद-वध (सर्ग ९; इन्द्रजित् की पत्नी का नाम प्रमीला है)। जावा के रामायण ककबिन के अनुसार इन्द्रजित् की सात पत्नियों उसके साथ ही युद्ध मे चली गई थी तथा रणभूमि मे ही मारी गई (सर्ग २३)।

१. एक अन्य पाठ के अनुसार सुलोचना ने प्रार्थना द्वारा अपने पति के शरीर के सब कटं हृग् अगों को अपने पास बुलाया था। दे० बालकौरि रेड्डी, वही, पृ० ८००।

## ३। रावण-वध

५९५. स्रोतानी रामायण में रावण का वध नहीं होता, राम द्वारा आहत होकर यक्षप्रीव राजकर देने की प्रतिज्ञा करता है जिससे युद्ध स्थगित किया जाता है। जैन राम-कथाओं, जन्मसतराघव (अनु० २४२) और बिहौर राम-कथा में लक्ष्मण ही रावण का वध करते हैं। शेष राम-कथाओं में राम द्वारा रावण-वध का वर्णन किया गया है। बाल्मीकि रामायण का वृत्तान्त इस प्रकार है। महोदर, महापाशवं और विष्णुपक्ष के वध के अनन्तर रावण ने स्वयं रणभूमि में प्रवेश किया।<sup>१</sup> इस युद्ध में उसने लक्ष्मण को अपनी शक्ति में आहत किया किन्तु राम द्वारा पराजित होकर वह भाग गया (दे० सर्ग ९९-१००)। बाद में रावण एक नये रथ पर चढ़कर राम से युद्ध करने आया और इन्द्र न राम के पास अपना रथ तथा अपने सारथि मातलि को भेज दिया।<sup>२</sup> द्वन्द्वयुद्ध फिर प्रारम्भ हुआ, इसमें अपने स्वामि को मूर्च्छित देखकर रावण का सारथि रथ को रणभूमि में दूर ले चला (सर्ग १००-१०३)। चेतना प्राप्त कर रावण ने अपने सारथि को युद्ध में लौटाने का आदेश दिया और फिर राम का सामना करने आया।<sup>३</sup> राम-रावण के इस अन्तिम युद्ध के वर्णन में इसका उल्लेख मिलता है कि रावण के मित्र पुन-पुन उत्पन्न होते थे यहाँ तक कि राम ने रावण के एक सौ सिर काट दिए—  
एवमेव शत छिन्न शिरसां तुल्यवर्षसाम् (१०७, ५७)। अन्त में मातलि के परामर्श के अनुसार राम ने अगस्त्य द्वारा प्रदत्त (दे० अनु० ४६०) ब्रह्मास्त्र से रावण की छाती

- १ प्रक्षिप्त सर्ग ५९ (दे० अनु० ५६३) तथा सर्ग ९५ में भी रावण के युद्ध में भाग लेने का उल्लेख किया गया है। कम्बरामायण में रावण के तीन युद्धों का वर्णन किया गया है। वह लक्ष्मण को दो बार शूल से आहत करता है (पटल १४ और ३१) तथा अन्तिम युद्ध में राम द्वारा मारा जाता है (पटल ३५)।
- २ मातलि का प्रसंग प्रक्षिप्त है क्योंकि रावण के लिए विलाप करते समय उसकी पत्नियाँ कहती हैं जिसे देवता भी पराजित नहीं कर पाते हैं वह एक पैदल लड़ने वाले मनुष्य से मारा गया है—अवध्वो ब्रह्मतानां वस्तथा हानव-रक्षसाम्। हतः सोऽयं रणे शते मानुषेण पदातिना (११०, १५)।
३. दाक्षिणात्य पाठ मात्र में यहाँ पर इसका उल्लेख किया गया है कि अगस्त्य ने राम के पास पहुँचकर उनको विजय प्रदान करनेवाले आदित्यहृदय नामक स्तोत्र सुनाया और राम ने इसका पाठ किया था (दे० सर्ग १०५)।

को विदीर्ण कर दिया जिससे रावण निष्प्राण होकर भूमि पर गिर पड़ा।<sup>१</sup> परवर्ती साहित्य में रावण के इस अन्तिम युद्ध के वर्णन का जो परिवर्तन तथा परिवर्द्धन किया गया है उसका सिंहावलोकन नीचे दिया जा रहा है।

५९६ लक्ष्मण को रावण की शक्ति लगन का प्रसंग महाभारत में नहीं मिलता। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विभीषण ने रावण-रथ के घोड़ों का बध किया था जिस पर रावण ने रथ से उतरकर एक शक्ति नामक बरछी को विभीषण की ओर फेंक दिया किन्तु लक्ष्मण ने उस शक्ति को छिन्न भिन्न कर दिया। इसके बाद लक्ष्मण ने रावण की एक दूसरी शक्ति में विभीषण को बचाया जिससे रावण ने अन्त में मय द्वारा निर्मित अमोघा शक्ति (दे० ७ १२ २१) से लक्ष्मण की छाती को छेद दिया। राम ने इस शक्ति को निकाल कर तोड़ दिया तथा लक्ष्मण को हनुमान् आदि वानरों की रक्षा में छोड़कर रावण की रणभूमि से भागने के लिए बाध्य कर दिया (सर्ग १००)। तब लक्ष्मण के पास लौटकर राम विलाप करने लगे किन्तु मुषेण ने उन्हें लक्ष्मण के जीवित होन का आश्वासन दिया। अनन्तर हनुमान् हिमालय जाकर विशाल्याकरणी ओषधि ले आया<sup>२</sup> और मुषेण ने ओषधि को पीसकर लक्ष्मण को मूँघने के लिय दिया जिसमें लक्ष्मण स्वस्थ हो गए (दे० सर्ग १०१)।

महानाटक (अंक १३) में हनुमान् पहले रावण की शक्ति रोक लेते हैं किन्तु रावण का अनुरोध मानकर ब्रह्मा नारद को भेज देते हैं कि वह किसी-किसी तरह से हनुमान् को रणभूमि से हटा दें। नारद ऐसा ही करते हैं और रावण लक्ष्मण को आहत करने में समर्थ हो जाता है। रामचन्द्रिका (१३, ४०), पादचाल्य-वृत्तान्त न० १३ आदि में भी हनुमान् द्वारा शक्ति को रोकने की कथा मिलती है।

पञ्चमखण्ड (पर्व ६४-६५) में विशाल्योषधि का मानवीकरण किया गया है। लक्ष्मण को शक्ति लगने के पश्चात् एक विद्याधर राम से कहता है कि द्रोणमध की कन्या विशल्या के स्नानजल से ही लक्ष्मण की चिकित्सा हो सकती है। इसपर

१ दे० सर्ग १०४-१०८। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने रावण के अतिरिक्त कुम्भकर्ण (सर्ग ६७), मकराक्ष (सर्ग ७९) तथा बहुल से अन्य राक्षसों (सर्ग ९३) का भी बध किया। उन्होंने प्रथम तुमूल युद्ध में भाग लिया (सर्ग ४४) तथा वे दो बार इन्द्रजित् द्वारा आहत किए गए थे (सर्ग ४५ और ७३)। सर्ग ५९ (राम द्वारा रावण की पराजय का वर्णन) प्रसिप्त है।

२ दे० अनु० ५८७-५८८। गौडीय पाठ (८२, ४९) में केवल इसी ओषधि का उल्लेख है। अन्य पाठों में विशाल्याकरणी के अतिरिक्त सात्रवर्ष्यकरणी, संवीवकरणी तथा सधानी की भी खर्चा है; दे० बा० रा० १०१, ३१, ५० रा० ८१, ३२।

हनुमान्, कामधेनु तथा अय्यद अयोध्या जाकर भरत को सीता-हरण तथा युद्ध का समाचार सुनाते हैं तथा विशाल्या के साथ लंका लौट आते हैं। विशाल्या की चिकित्सा से स्वास्थ्यलाभ होने पर लक्ष्मण उसके साथ विवाह भी करते हैं।

सेरीराम के अनुसार रावण के रथ में १०० सिंह तथा १००० अश्व जुते हुए थे। लक्ष्मण ने उसका सामना करना चाहा किन्तु रावण ने बाण मार कर लक्ष्मण को आहत कर दिया। लक्ष्मण को रणभूमि से हटा कर राम ने विभीषण के परामर्श से हनुमान् को औषधि ले आने के लिये भेज दिया और हनुमान् ने अंजानी नामक औषधि-धर्वत राम के पास पहुँचा दिया। तब विभीषण ने कहा कि औषध तैयार करने के लिये रावण के पलग के नीचे पड़े हुये चौके की जरूरत है। हनुमान् को उसे ले आने के लिये भेजा जाता है। हनुमान् हरा भ्रमर बनकर रावण के महल में प्रवेश कर जाते हैं और रावण तथा मन्दोदरी के बाल एक गाँठ में बाँधकर उस चौके को ले जाते हैं। उसके सहारे विभीषण औषध तैयार करता है तथा लक्ष्मण को स्वास्थ्य-लाभ प्रदान करता है। प्रातःकाल हनुमान् रावण को संबोधित कर कहते हैं कि जब मन्दोदरी तुम्हारे सिर पर प्रहार करेगी तभी तुम दोनों के बालों की गाँठ खुल सकती है और रावण मन्दोदरी को ऐसा करने देता है। एक स्त्री द्वारा मारे जाने के फलस्वरूप रावण अब अजेय नहीं रहा। शोलाबेर पाठ के अनुसार हनुमान् ने चीटी के रूप में रावण के महल में प्रवेश किया तथा रावण के पलग के चारों ओर फँसे हुए साँप की पीठ पर गाँठ लुल जाने का उपाय लिख दिया था। सेरीराम के पातानी पाठ के अनुसार हनुमान् पिस्तू के रूप में एक दासी की साड़ी पर बैठ कर रावण के महल के भीतर चले गये।

राजकिशोर (अध्याय ३३) में माना गया है कि हनुमान् द्वारा लाई हुई औषधि तैयार करने के लिए निम्नलिखित वस्तुओं की आवश्यकता है—इन्द्र की घेनु का गोबर, कालनाग का चौका और रावण का बेलन। हनुमान् तीनों ले आते हैं तथा नेरीराम के वृत्तान्त की भाँति रावण का बेलन ले जाते समय रावण-मन्दोदरी के बाल एक गाँठ में बाँध देते हैं। अन्य रचनाओं में हनुमान् सीता की खोज करते समय (अनु० ५३९) अथवा कुंभकर्ण द्वारा आहत लक्ष्मण की चिकित्सा के लिये रावण का बेलन ले जाते समय (अनु० ५८९, ७) इस प्रकार का उत्पात करते हैं।

५९७. बाल्मीकि रामायण के पश्चिमोत्तरीय पाठ में (दो० अनु० ५६०) इन्द्रजित्-नभ के पश्चात् रावण ह्रीय करने जाता है। विभीषण यह जानकर राम को सावधान करता है कि इस यज्ञ को भंग करने की अत्यंत आवश्यकता है, नहीं तो रावण शिव के

१. रामचन्द्रिका (१७, ४०) के अनुसार भी विभीषण ने यही परामर्श दिया था।

प्रसाद से अजेय हो जाएगी।<sup>१</sup> हनुमान् के नेतृत्व में वानर रावण के बलस्थल पर पहुँचते हैं लेकिन वे उसका ध्यान भंग करने में असमर्थ हैं। तब अंगद हनुमान् की आज्ञा से मन्दीदरी के केशो को खींचकर उसे रावण के पास ले आता है जिससे रावण उत्तेजित होकर यज्ञ को अपूर्ण छोड़ देता है और अंगद पर आक्रमण करता है। यह प्रसंग इन्द्रजित्-यज्ञ-विध्वंस (दे० अनु० ५९२) की पुनरावृत्ति मात्र प्रतीत होता है फिर भी यह असंभव नहीं कहा जा सकता है कि इसका आधार पउमचरिय में वर्णित रावण की विद्या-साधना ही है।

पउमचरियं (पर्व ६६-६८) की कथा इस प्रकार है। रावण बहुरूपिणी विद्या की मिद्वि के लिये शातिनाथ के मन्दिर में माधना करने जाता है तथा मन्दीदरी लंका के सभी नागरिकों से आठ दिन तक शान्ति का पालन करने का निवेदन करती है। विभीषण यह सुनाकर देता है कि राम जाकर रावण को मन्दिर में से निकालकर कंदी बना ले किन्तु राम यह प्रस्ताव अस्वीकार करते हैं, तब वानरो का एक दल ध्यानस्थ रावण को धुन्ध करने के उद्देश्य से लंका में प्रवेश करता है और शातिनाथ के मन्दिर में निवास करने वाले देवताओं द्वारा नष्ट किया जाता है। इस के बाद अंगद एक दूसरे दल को लेकर मन्दिर में प्रवेश करता है। उसने रावण को बाँधा, उसके अन्तःपुर की स्त्रियों का अपमान किया तथा अन्त में मन्दीदरी को खींचकर रावण के सामने लाया किन्तु रावण विचलित नहीं हुआ और उसने बहुरूपिणी विद्या प्राप्त कर ली। गुणभद्रकृत उत्तर पुराण (६८, ५१६-५२९) के अनुसार रावण विद्याएँ सिद्ध करने के लिए आदित्यपाद नामक पर्वत पर साधना करने गया था। विभीषण के परामर्श के अनुसार राम और लक्ष्मण एक विशाल सेना के साथ जिमान पर आरूढ़ होकर लंका के निकट पहुँच गए तथा अन्य विद्याधरों को पर्वत पर जाकर उपद्रव करने का आदेश दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि रावण अपनी साधना अपूर्ण छोड़कर लंका चला आया।

बहुत सी परवर्ती राम-कथाओं में पश्चिमोत्तरीय पाठ के अनुसार मन्दीदरी के केशग्रहण तथा रावण के यज्ञ-भंग का वर्णन मिलता है। उदाहरणार्थ—कृत्यारावण (अंक ६), खीतानी रामायण, द्विपद रामायण (६, १३३-१३५), अध्यात्म रामायण (६, १०), आनन्द रामायण (१, ११, २२९), पद्मपुराण (उत्तर खण्ड, अध्याय २६९), रामचरित मानस (६, ८५), तोरखे रामायण (६, ४८), भावार्थ रामायण (६, ५६-५७), रामचन्द्रिका (प्रकरण १९), तत्त्व सङ्ग्रह रामायण (६,

१. अनेक राम-कथाओं में राम की देवी पूजा का वर्णन किया गया है; दे० अनु० ७८५।



२७), नर्मदाकृत रामायण नो सार, काश्मीरी रामायण (न० ४८), सेरीराम, राम-केति (सर्ग १०), रामकियेन, पाश्चात्यवृत्तान्त न० ३, आदि। सारलादास के उड़िया महाभारत में उस केषप्रहृण को अगद के दूतकार्य के वर्णन के अंतर्गत रखा गया है।

अनेक राम-कथाओं में इसका उल्लेख किया गया है कि रावण ने दंत्यगुरु शुक्राचार्य के परामर्श से अपना यज्ञ आरंभ किया था, उदाहरणार्थ—रंगनाथ रामायण, अध्यात्म रामायण, आनन्द रामायण, काश्मीरी रामायण, तत्त्वसंग्रह रामायण। रंगनाथ रामायण तथा तत्त्वसंग्रह रामायण में यह माना गया है कि सरमा ने वानरो को रावण के यज्ञस्थल का मार्ग दिखलाया था। वृत्तिबास का वृत्तान्त मौलिक प्रतीत होता है (दे० ६, १०३)। रावण ने शातिकर्म का आयोजन किया और इसके प्रारंभ के चण्डी-पाठ के लिए बृहस्पति को बुलाया। इसपर देवताओं ने पवन को राम के पास भेजकर चण्डीपाठ अशुद्ध करने का परामर्श दिया। विभीषण के सुझाव के अनुसार हनुमान् को भेजा गया। हनुमान् ने मन्सी का रूप धारण कर चण्डी-पाठ के दो अक्षर चाट कर मिटाए लेकिन बृहस्पति ने अम्यासवश शुद्ध ही पढ़कर सुनाया। तब हनुमान् अपने विक्रम रूप में प्रकट हुए जिससे बृहस्पति डर गए और पाठ भग हो गया था। अनन्तर हनुमान् ने ग्रन्थ छीनकर प्रथम माहात्म्य के तीन श्लोक मिटाए; चण्डीपाठ इस प्रकार अशुद्ध देखकर महेश्वरी ने कैलास के लिए प्रस्थान किया। तोरखे रामायण के अनुसार रावण ने अपना यज्ञ अपूर्ण छोड़कर अगद के शरीर के दो टुकड़े कर दिए किन्तु वानर अगद को ले गए और सुषेण ने उसे जिलाया। विदेशी राम-कथाओं में भी रावण के असफल यज्ञ का उल्लेख मिलता है। सेरीराम के अनुसार रावण अपने यज्ञ के घूँघ से राम की साँस रोकना चाहता था। रामकेति (सर्ग १०) में माना गया है कि रावण के पास विष था; वह विष रावण की प्रार्थना पूर्ण होते ही अजेंय बनने वाला था। रावण मन्दीदरी के साथ किसी पर्वत पर चला गया था किन्तु हनुमान् ने मन्दीदरी के वस्त्र छीनकर रावण का ध्यान भंग किया तथा विष का पात्र भी उलट दिया। रामकियेन (अध्याय ३१) के अनुसार हनुमान् ने मन्दीदरी को रावण के पास ले जाकर उसका पहला यज्ञ भंग किया था। बाद में रावण ने अपनी कपिलबद्ध नामक भाले की शक्ति जगाने के उद्देश्य से यज्ञ प्रारंभ कर दिया किन्तु देवताओं ने बालि को उसके पास भेज दिया, जो राम के हाथ से मरकर देवता के रूप में उत्पन्न हुआ था। बालि ने मेरु पर्वत को रावण के अग्निकुण्ड में डालकर रावण को परास्त कर दिया (अध्याय ३३)। रामकियेन में एक तीसरे यज्ञ का वर्णन है। मन्दीदरी ने उमा से सजीव-यज्ञ का रहस्य जान लिया था जिसके द्वारा अमृत प्राप्त होता है। हनुमान् रावण का रूप धारण कर मन्दीदरी के पास गए

तथा उसे अपने बाहुपाश में बद्ध करके उसका सतीत्व नष्ट किया जिससे उसका यज्ञ असफल हुआ (दे० अध्याय ३४)। इस रचना के एक अन्य स्थल पर हनुमान् तथा मन्दोदरी के रमण का भी वर्णन किया गया है (दे० अनु० ३२६)।

**काशमीरी रामायण** के अनुसार (दे० न० ४७) इन्द्रजित् तथा कुम्भकर्ण के वध के अनन्तर रावण निराश होकर कैलास पर शिव की सहायता माँगने गया था। शिव ने उसे मकेश्वर लिग देकर आश्वासन दिया कि इस लिग के लका में स्थापित हो जाने पर राम की विजय हो ही नहीं सकती तथा रावण को सावधान किया कि इस लिग को कहीं भी पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए। मार्ग में रावण को लघुशका लगी और उमने मकेश्वर लिग को नारद के हाथ में थमा दिया जो वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आ पहुँचे थे। नारद लिग को भूमि पर रख कर चले गये तथा रावण लौट कर लिग को उठाने में असमर्थ हुआ।<sup>१</sup>

अगद-दूत-कार्य के वर्णन में इसका उल्लेख किया गया है कि सेरीराम तथा रामचन्द्रिका के अनुसार रावण किन शर्तों पर सीता को लौटाने के लिए तैयार था (दे० अनु० ५८५)। अनेक राम-कथाओं में रावण के सन्धि-प्रस्तावों की चर्चा है। **पउमचरियं** (पर्व ६५) में लक्ष्मण के शक्ति-भेद के पश्चात् रावण दूत भेज कर राम को अपना आधा राज्य तथा ३००० कन्याओं को प्रदान करने का प्रस्ताव करता है, वशर्तें कि राम भानुकर्ण, इन्द्रजित् आदि कँदियों को लौटायें और सीता का त्याग दें। किन्तु राम इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं। **महानाटक** (१४, १-२) के अनुसार रावण ने अपने दूत लोहिताक्ष के द्वारा राम से कहा था कि परशुराम से प्राप्त हरप्रसादपरशु के बदले में मैं सीता को लौटाने के लिए तैयार हूँ।<sup>१</sup> राघवाभ्युदय में रावण के एक अन्य सन्धि-प्रस्ताव की चर्चा है (दे० अनु० ७९२)।

**रामकियेन** में युद्ध टालने के लिए रावण के दो अन्य प्रयत्नों का वर्णन किया गया है। सेतु-निर्माण के पूर्व रावण तपस्वी के रूप में राम के पास आ पहुँचता है और युद्ध छोड़ देने के लिए उनसे अनुरोध करता है (दे० अ० २५)। इन्द्रजित्-वध के पश्चात् रावण अपने पितामह ब्रह्मा को बुला भेजता है तथा राम पर आक्रमण का अभियोग लगाता है। इसपर ब्रह्मा राम को बुलाते हैं तथा बाद में सीता को भी।

१. कर्मनासा नदी की उत्पत्ति की कथा उस घटना में सबध रखती है। दे० डब्ल्यू क्लूक रेजिजन एड फॉल्कलॉर (१९२६), पृ० ५९। अन्य अवसरों पर भी रावण को इस प्रकार धोखा दिए जाने का वृत्तान्त मिलता है, दे० अनु० ६५०।

२. इस प्रस्ताव का उल्लेख रामचन्द्रिका (१९, १७) में भी मिलता है।

उनकी गवाही सुनकर ब्रह्मा सीता को लौटाने का आदेश देते हैं तथा रावण के अस्वीकार करने पर उसे राम के अस्त्र से मर जाने का शाप देते हैं (अध्याय ३२)।

पठञ्चरित्रं (पर्व ६९) तथा इस पर आधारित अन्य जैन राम-कथाओं में भी रावण के पश्चात्ताप का वर्णन किया गया है। बहुरूपा विद्या सिद्ध करने के पश्चात् रावण सीता से मिलने आया। सीता ने उसे ठुकराया तथा यह कहकर मूर्छित हो गई थी कि मैं तभी तक जीवित रहूँगी जब तक राम, लक्ष्मण और भामण्डल की मृत्यु का समाचार नहीं पाती। रावण सीता का पातिव्रत्य देखकर दयार्द्र हो गया और सोचने लगा कि मैंने उसका अपहरण करके पाप किया है। फिर यह समझ कर कि बिना युद्ध किये सीता को लौटाने में मेरा अपयश होगा रावण ने सकल्प किया कि मैं राम तथा लक्ष्मण को हराकर उन्हें सीता को सौंप दूँगा। रावण के चरित्र के इस उदानीकरण का प्रभाव अन्य राम-कथाओं पर भी पड़ा। तैत्तिरीय रामायण के अनुसार रावण युद्ध के लिए प्रस्थान करने के पूर्व अपनी मारी सम्पत्ति दरिद्रों में बाँट देता है, जेल के सभी कैदियों को रिहा करता है तथा यह आदेश निकालता है कि यदि मैं युद्ध में मारा गया तो विश्वासपात्र विभीषण को गद्दी पर बैठाया जाय।<sup>१</sup>

५९८. रावण-वध के पश्चिमी वृत्तान्तों में बहुधा रावण के मर्मस्थान अथवा रावण की मृत्यु की किसी गुप्त व्यक्ति का उल्लेख है। अध्यात्म रामायण (६, ११, ५३) के अनुसार रावण के नाभि-प्रदेश में अमृत रखा हुआ है, विभीषण से यह जानकर राम ने आग्नेयास्त्र में उस अमृत को मुखाया था। रावण के शरीर में स्थित अमृत का उल्लेख बहुत सी अन्य राम-कथाओं में भी किया गया है; उदाहरणार्थ आनन्द रामायण (१, ११, २७८), रगनाथ रामायण (६, १४५), धर्म-खण्ड (अध्याय १३०), तत्त्वसंग्रह रामायण (६, २९), रामचरितमानस (६, १०२), भावार्थ रामायण (६, ६३), नर्मदाकृत रामायण नौ सार, पाश्चात्य वृत्तान्त न० ६, ८ और १०।

सेरीराम तथा तत्त्वसंग्रह रामायण के अनुसार रावण ने जटायु से युद्ध करते समय मोखा देकर कहा था कि मेरा मर्मस्थान पर का अँगूठा है (दे० अनु० ४७०)। श्रोताली तथा तिब्बती रामायणों में वही रावण का वास्तविक मर्मस्थान माना गया है। दक्षिण भारत के एक वृत्तान्त के अनुसार रावण का हँसने वाला सिर उसका मर्मस्थान है।<sup>२</sup> सेरीराम में सीता हनुमान को बताती हैं कि रावण के दाहिने कान

१. दे० मैथिलीशरण गुप्त अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० ७५५।

२. दे० पाश्चात्य वृत्तान्त न० १। अन्य रचनाओं में रावण के चित्र मिलते हैं जिनमें दस साधारण सिरों के ऊपर गधे का एक सिर भी चित्रित किया गया है। दे० पा० वृ० ३ और ४।

के नीचे जो छोटा सा सिर है उसमें रावण का जीव निवास करता है। पञ्जाब में रावण की गर्दन उसका मर्मस्थान मानी गयी है।<sup>१</sup>

**कृत्तिवास रामायण** (६, १०४) के अनुसार रावण ने तपस्या करने के पश्चात् ब्रह्मा से अमरत्व का वरदान माँगा था। ब्रह्मा ने उसे आश्वासन दिया कि तुम्हारे सिर और भुजायें कट जाने पर फिर उत्पन्न होगी तथा रावण को ब्रह्मास्त्र देकर कहा—इस ब्रह्मास्त्र से तुम्हारा मर्मस्थान छेदित हो जाने पर ही तुम मर सकोगे। रावण ने बाद में यह ब्रह्मास्त्र मन्दोदरी की रक्षा में छोड़ दिया। विभीषण ने इस रहस्य का उद्घाटन किया तथा हनुमान् ने राम की अनुमति से ब्राह्मण वेश में मन्दोदरी के पास पहुँचकर कहा कि जब तक ब्रह्मास्त्र तुम्हारे पास है रावण नहीं मर सकता किन्तु मुझे आशंका है कि विभीषण कही यह न जान ले कि तुमने उसे कहीं छिपा लिया है। मन्दोदरी ने उत्तर दिया कि मैं बहुत ही सावधान हूँ, मैंने उसे इस स्तम्भ में छिपाकर रखा है। इसपर हनुमान् ने स्फटिक का स्तम्भ लाठी से तोड़ दिया तथा ब्रह्मास्त्र लेकर राम के पास लौट। **सेरीराम** का वृत्तान्त कृत्तिवास रामायण की कथा में साम्य रखता है। सीता ने हनुमान् से कहा था कि मन्दोदरी के पास रावण का मायावी स्वर्ग है, जिसकी पूजा मन्दोदरी किया करनी है। हनुमान् ने सीता के परामर्श के अनुसार मन्दोदरी के पास जाकर रावण की मृत्यु का अठ्ठा समाचार सुनाया, शोक-सतप्त मन्दोदरी ने अपना मित्र झुका लिया और उम क्षण में लाभ उठाकर हनुमान् ने रावण का स्वर्ग चुरा लिया जिससे रावण शक्तिहीन हो गया था।

**बिहोर राम-कथा** के अनुसार रावण का जीव उसके महल के भीतर एक मजूषा में सुरक्षित था। हनुमान् और लक्ष्मण दोनों ने लका में प्रवेश कर तथा उम मजूषा को खोलकर रावण का जीव मुक्त कर दिया था। **रामकियेन** (अध्याय ३५) की कथा इस प्रकार है—रावण का जीव गोपुत्र नामक रावण-गुरु के पास एक मजूषा में बन्द था और हनुमान् न अगद के साथ गोपुत्र के पास जाकर उस मजूषा को छल से प्राप्त कर लिया। **ब्रह्मब्रह्म** के अनुसार रावण ने लकादहन के पश्चात् ही अपना हृदय किसी ऋषि के यहाँ सुरक्षित रखा था, हनुमान् ने रावण का रूप धारण कर उसे प्राप्त किया था तथा राम को दे दिया। सेरीराम के पातानी पाठ की तत्संबन्धी कथा इससे मिलती-जुलती है।

**पथपुराण** (पानालखण्ड, अध्याय ११२, २०२-२२५) के अनुसार अतिकाय तथा महाकाय गुप्तचर के रूप में राम की सेवा में प्रवेश कर पकड़े गए थे; उन्होंने

शुक्र की इस भविष्यवाणी का उद्घाटन किया कि लंका द्वार पर जो लकड़ी का कीर्तिमुख है (दाश बंधववचनं), उसके छिन्न-भिन्न हो जाने से रावण की मृत्यु अवश्यभावी है। राम ने बाण मार कर उस कीर्तिमुख को नष्ट कर दिया था।

महानाटक (१४, २६) के अनुसार राम ने विश्व का कल्याण दृष्टि में रखकर रावण के बसस्थल पर बाण नहीं चलाया; राम जानते थे कि रावण के हृदय में सीता का निवास था, सीता के हृदय में राम तथा राम में समस्त भुवनावली विद्यमान थी। रामचरितमानस (६, ९९) में भी इसकी चर्चा की गई है; उस रचना में त्रिजटा सीता को आशवासन देती हैं कि सिरों के कट जाने पर रावण व्याकुल होकर तुमको भूल जायगा; तभी राम उसके हृदय में बाण मार कर उसका वध करेंगे।

रावण-वध के वर्णन में अनेक गीण परिवर्तन किए गए हैं जिनका उल्लेख यहाँ आवश्यक है। महाभारत (३, २७४, ८) के अनुसार रावण ने अन्तिम युद्ध के समय राम तथा लक्ष्मण का रूप धारण करनेवाले बहुत से मायामय योद्धाओं को उत्पन्न किया था; रावण की इस माया का उल्लेख कुछ परवर्ती राम-कथाओं में भी मिलता है; उदाहरणार्थ रामचरितमानस (६, ८९)। महाभारत (३, २७४, ३१) में माना गया है कि राम का ब्रह्मास्त्र रावण को इस प्रकार जला देता है कि राख भी शेष नहीं रही। बलरामदास रामायण में राम रावणवध के समय अपना शरीर बड़ाकर कृत्तान्तक रूप धारण कर लेते हैं। तत्त्वसंग्रह रामायण (६, ३१) के अनुसार राम ने रावण का वध करने के लिए परमेश्वर का रूप धारण कर लिया; तोरषे रामायण (६, ५१) में भी माना गया है कि रावण ने अपने वध के पूर्व राम का विश्वरूप देखा था। उस रचना के अनुसार अगस्त्य ने युद्ध के समय ही राम को त्रिमूर्ति नामक बाण दिया और राम ने उसी बाण से रावण को मार डाला था।

५९९. वाल्मीकि रामायण के अनुसार विभीषण ने राम के अनुरोध से अपने भाई रावण का दाह-संस्कार विधिवत् सम्पन्न किया था (दे० ऊपर अनु० ५६९, २)। एकाध राम-कथाओं में अम्बोबरी रावण की चिता पर चढ़कर सती हो गई थी (दे० अनु० ५४४)। एक अन्य परम्परा के अनुसार रावण की चिता जलती रही। आनन्द रामायण (राज्यकाण्ड, सर्ग २०) में तत्संबंधी कथा इस प्रकार है। रावण-वध के बहुत काल बाद तक अयोध्या में रात को एक आवाज सुनाई दिया करती थी जिसका रहस्य बसिष्ठ ने यह कहकर प्रकट किया कि रावण ने जिस शरीर से वारम्बार ब्रह्महत्या की थी वह शरीर आज भी जल रहा है। हनुमान् प्रतिदिन लकड़ी के सौ भार (प्रत्यहं काण्डभारशतम्) उसकी चिता पर डाला करते हैं। इसका एक अन्य कारण यह है कि रावण ने राम से एक ऐसा वर माँगा था जिससे

लोग उसका स्मरण किया करे। राम ने उत्तर में कहा था—तुम्हारा शरीर जलने वाली भाग की आवाज सप्तद्वीप के लोगों को सुनाई देती रहेगी।

कृत्तिवास रामायण (६, १०९) में भी जलती चिता का उल्लेख है। रणभूमि में मन्दोदरी को देखकर तथा उसे सीता समझकर राम ने उसे “सौभाग्यवती” होने का आशीर्वाद दिया। त्रास्तविकता ज्ञात होने पर राम ने कहा—“चिता सदैव प्रज्वलित रहेगी, इससे तुम्हारा सौभाग्य चिरस्थायी होगा।”

हिन्देशिया की राम-कथाओं में रावण के जीवित रहने का उल्लेख है। सेरीराज में राम द्वारा पराजित तथा आहत रावण रणभूमि में पड़ा रहता है। सीता की अग्नि-परीक्षा के बाद भरत और शत्रुघ्न लका पहुँचते हैं तथा रावण को देखने की इच्छा प्रकट करते हैं। राम अपने भाइयों के साथ रावण से मिलने आते हैं तथा उसके साथ बातचीत भी करते हैं। यह प्रसंग महाभाग्न का स्मरण दिलाता है जहाँ पाण्डव मरणासन्न भीष्म के दर्शन करने आते हैं। हिकायत महाराज रावण में भी माना गया है कि रावण जीवित है और कल्प के अन्त में पुनः भगवान् के शत्रु के रूप में प्रकट होने वाला है।

अर्वाचीन राम-कथाओं में प्रायः अध्यात्म रामायण के अनुसार रावण की सायुज्य मुक्ति का उल्लेख है उदाहरणार्थ आनन्द (१, ११, २८३) और भावाचं (६, ६३) रामायण। अध्यात्म रामायण (६, ११, ७८) में रावण का जीव ज्योति का रूप धारण कर राम के शरीर में प्रवेश करता है, देवताओं के आश्चर्य करने पर नागद उनको समझाते हैं कि रावण ने द्वेषभाव से निरन्तर हृदय में राम का स्मरण किया था और इस कारण उमने मुक्ति प्राप्त की है। मुक्ति-प्राप्ति के उद्देश्य से ही रावण ने सीताहरण किया था (दे० अनु० ४८८)।

पाश्चात्य भूतान्त न० १ के अनुसार राम रावण के नी सिर तथा १८ भुजाय काटकर उसे इस शर्त पर जीवित रहने देना चाहते थे कि रावण सोना को लौटाये। इसपर रावण मन्दोदरी के पास गया और मन्दोदरी ने उसे राम के हाथ से मरकर मुक्ति प्राप्त करने का परामर्श दिया। स्कंद पुराण (माहेस्वर खण्ड, अध्याय ८, १३३) में रावण की शिव-सायुज्यमुक्ति का उल्लेख मिलता है।

## अ। अग्निपरीक्षा

६००. प्रचलित बाल्मीकि रामायण (सर्ग ११२-११३) में अग्नि-परीक्षा की कथा इस प्रकार है। रावण-वध तथा विभीषण के असिधेक के बाद राम ने हनुमान् द्वारा सीता को अपनी विजय का समाचार भेज दिया; हनुमान् सीता का यह

सन्देश लेकर सीते—इच्छामिच्छामि भर्तारं मकलवत्सलम् (११३, ४७) । अगले सर्ग में राम का इस अचानक बदलता है; वह विभीषण को आदेश देते हैं कि सीता को मेरे पास ले आओ—दिव्यांगरागां वैदेहीं दिव्याजरणभूक्तिस्तम् । इह सीतां शिरःस्नातामुवत्वाद्य वा चिरम् ॥७॥ विभीषण से राम की यह आज्ञा सुनकर सीता कहती हैं—अस्नात्वा इच्छामिच्छामि भर्तारं राजसेध्वर (११); किन्तु विभीषण राम की आज्ञा के पालन के लिये अनुरोध करता है । अतः स्नान के पश्चात् ही सीता मूल्यवान् वस्त्र तथा आभूषण पहने शिविका पर चढ़कर राम से मिलने जाती हैं । विभीषण ध्यानस्थ राम के पास पहुँचकर सीता के आगमन का समाचार देता है । तब शिविका को पाम लाने के लिए विभीषण के अनुचर बानरों की भीड़ हटाने लगे; इसपर राम क्रुद्ध होकर विभीषण को आदेश देते हैं कि सीता सब बानरों के देखते पैदल ही मेरे पास आवे । राम की यह आज्ञा सुनकर लक्ष्मण, सुभीष तथा हनुमान् को बहुत दुःख हुआ (बभ्रुवुर्ध्वंविता भृशम्) । अनन्तर सीता अत्यन्त लज्जित होकर तथा विभीषण के पीछे-पीछे चलकर अपने पति के पास आई—लज्जया स्वधस्त्रीयन्ती स्वेषु यात्रेषु मंथिली, विभीषणेनानुगता भर्तारं साम्यवर्तत (११४, ३३) । सीता को अपने पास खड़ी हुई देखकर राम उनसे कहने लगे—मेने तो अपने शत्रु के अपमान का प्रतिकार किया है किन्तु मुझे तुम्हारे चरित्र पर सन्देह है । जिस स्त्री ने दूसरे के घर में निवास किया है उसे कौन पुरुष ग्रहण कर सकता है । मुझे तुम्हारे प्रति कोई आकर्षण नहीं रहा, तुम जहाँ चाहो चली जाओ :

प्राप्तचारिप्रसन्नेहा मम प्रसिन्धुः स्थिता ॥७॥

कः पुमास्तु कुले जातः स्त्रियं परमहोषिताम् ।

तेजस्वी पुनराद्यत्तात् सुहृत्सलोभेन धेतसा ॥११॥

नास्ति मे स्वव्यभिचर्त्तंगो यद्येष्टं मम्यतामिति ॥२१॥

लक्ष्मणे वाच भरते क्रुपं ब्रुवि यथासुखम् ॥२२॥

शत्रुध्वं वाच सुधीषे राक्षसे वा विभीषणे ।

× × ×

नहि त्वां रावणे वृष्ट्वा दिव्यक्यां मनोरमाम् ।

मर्वयत्यचिरं सीते स्वगृहे पर्यवस्थिताम् ॥२४॥

(सर्ग ११५)

१. 'दिव्यांगराग' का उल्लेख प्रक्षिप्त सीता-अनुसूया-संवाद का स्मरण दिलाता है (दे० अनु० ९ और ४३१) ।
२. राम का इस समय ध्यानस्थ होना अस्वाभाविक तथा मूल रामायण की भाव-धारा के प्रतिकूल है ।

राम के ये कठोर शब्द सुनकर सीता ने अपने सतीत्व की शपथ साईं तथा लक्ष्मण द्वारा चिता तैयार कराकर वे उसमें तुरन्त प्रवेश कर गईं (सर्ग ११६)। अनन्तर देवता प्रकट हुए तथा सीता के पक्ष में साक्ष्य देकर विष्णु के रूप में राम की स्तुति करने लगे (सर्ग ११७)। अन्त में अग्नि देवता ने सीता के साथ भाग में से निकलकर तथा उनके सतीत्व का साक्ष्य देकर सीता को ग्रहण करने का राम से अनुरोध किया। उत्तर में राम ने कहा कि मुझे सीता के चरित्र के विषय में सन्देह नहीं था किन्तु एक तो रावण के यहाँ रहने के बाद सीता को इस शुद्धि की आवश्यकता थी; दूसरे, यदि मैं सीता को यों ही ग्रहण करता तो लोग मुझ पर कामात्मा होने का आक्षेप लगाते :

अवश्यं चापि लोकेषु सीता पावनमर्हति ।

वीर्यकालोचिताहीयं रावणांतःपुरे शुभा ॥१३॥

बालिशो बत कामात्मा रामो बशरचात्मजः ।

इति बध्यति मां लोको जानकीमविशोध्य हि ॥१४॥

(सर्ग ११८)

६०१. सीता की अग्निपरीक्षा का यह वर्णन वाल्मीकि रामायण में प्रक्षिप्त है (दे० अनु० ५६५)। अतः महाभारत में सीता की अग्निपरीक्षा का अभाव स्वाभाविक ही है। रामोपाख्यान (अध्याय २७५) में विभीषण तथा अविद्य सीता को राम के पास ले आते हैं, और राम सीता की शपथ तथा वायु, अग्नि, वरुण और ब्रह्मा के साक्ष्य से मन्नुष्ट होकर सीता को ग्रहण करते हैं तथा देवताओं से तीन वर प्राप्त कर लेते हैं—(१) धर्म में स्थिर बुद्धि, (२) शत्रुओं से अजेयता; (३) मृत वानरो का पुनर्जीवन।

महाभारत के अतिरिक्त प्राचीन पुराणों में भी अग्निपरीक्षा का निर्देश नहीं मिलता, उदाहरणार्थ हरिवंश, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण, भागवत पुराण, नृसिंह पुराण। इसी तरह निम्नलिखित रचनाओं में सीता की अग्निपरीक्षा का अभाव है—अनामक जातकम्, श्याम का राम जातक, खोतानी और तिब्बती रामायण, गुणभद्र-कृत उत्तरपुराण।

पञ्चमचरित्रं (पर्व ७६) में भी राम और सीता के पुनर्मिलन के समय देवताओं की पुष्पवृष्टि तथा सीता की निर्मलता के पक्ष में उनके साक्ष्य के अतिरिक्त किसी भी परीक्षा का उल्लेख नहीं मिलता किन्तु इसका वर्णन एक अन्य अवसर पर रखा गया है। सीता-त्याग तथा सीता के पुत्रों द्वारा राम-सेना से युद्ध के पश्चात् राम उन पुत्रों के साथ अयोध्या लौटे। वहाँ पहुँचकर सुग्रीव, हनुमान् आदि राम से अनुरोध करने लगे कि ब्रह्म सीता को पुनः ग्रहण कर लें। राम ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया बशर्ते



कि सीता लोगों को अपने सतीत्व का प्रमाण दें। तब सुषीमादि सीता को अयोध्या ले आये और सीता ने कहा—मैं तुला पर चढ़ सकती हूँ, आग में प्रवेश कर सकती हूँ; लोहे की तपी हुई लम्बी छड़ चारण कर सकती हूँ अथवा मैं उग्र विष भी पी सकती हूँ। राम ने अग्निपरीक्षा को ही उचित समझा और एक तीन सौ हाथ गहरा अग्निकुण्ड खोदने का आदेश दिया। आग प्रज्वलित होने पर सीता ने अपने सतीत्व की शपथ खाकर उसमें प्रवेश किया। सीता के प्रवेश करते ही अग्निकुण्ड स्वच्छ जल से भर गया जो धीरे-धीरे उमड़ कर सर्वत्र फैल गया और बढ़ता गया। यह देखकर जनता सीता से प्रार्थना करने लगी और सीता ने जल छू कर उसे सीमित कर दिया। तब सबों ने बावड़ी के मध्य में सहस्रदल कमल पर विराजमान सीता को देखा। राम ने पास जाकर सीता में क्षमा-याचना की तथा अपने माथ अयोध्या में निवास करने का अनुरोध किया किन्तु सीता उम प्रस्ताव को ठुकराकर जैन दीक्षा लेने के उद्देश्य से चली गई (दे० पर्व १०१-१०२)।

कथासरित्सागर में राम द्वारा सीता की परीक्षा का तो उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन त्याग के पश्चात् वाल्मीकि के आश्रम में पहुँचकर सीता की परीक्षा का निम्नलिखित वृत्तान्त मिलता है। आश्रम के अन्य ऋषि सीता के सतीत्व पर सन्देह करने हैं और अपने चले जाने का मकल्प वाल्मीकि से प्रकट करते हैं। यह सुनकर सीता स्वयं कोई भी परीक्षा लेने का प्रस्ताव करती है। इसपर ऋषि टीटिभा की कथा मुनाते हैं जिसके सतीत्व को प्रमाणित करने के लिए लोकपालों ने टीटिभ-सरोवर का निर्माण किया था। उस टीटिभ-सरोवर के तट पर जाकर सीता अपने सतीत्व की शपथ खाकर जल में प्रवेश करती है। इस पर पृथ्वी देवी प्रकट होकर सीता को अपनी गोद में ले लेती हैं, और सरोवर के उस पार पहुँचाती हैं (दे० ९, ५१)। यह देखकर ऋषि राम को शाप देना चाहते हैं, लेकिन सीता के अनुरोध पर ऐसा नहीं करते।

६०२. अन्य रचनाओं में प्रायः वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता की अग्निपरीक्षा का वर्णन किया गया है। एक महत्त्वपूर्ण अन्तर यह है कि अधिकांश मध्यकालीन रामायणों में माया-सीता (दे० अनु० ५०४-५०६) अग्नि में प्रवेश करती हैं और वास्तविक सीता उसमें प्रकट हो जाती हैं। आनन्द रामायण के अनुसार सीता अपने हरण के पूर्व तीन रूपों में विभक्त हो गई थी; वह उस अवसर पर फिर एक हो जाती हैं (१, १२, ११)। कृत्स्नवास रामायण (६, ११४) में मन्दोदरी का शाप अग्निपरीक्षा का कारण माना गया है। मन्दोदरी ने राम के दर्शनो की आशा से आनन्दमग्न सीता को यह कहकर शाप दिया—तुम्हारा यह

अनन्द अकस्मात् निरानन्द हो आया। लका की स्त्रियों ने भी उस अवसर पर सीता को शाप दिया।

राधायण मसीही में मन्दोदरी सीता को राम के पास ले आती है और राम स्वयं सीता को आय में डालते हैं। सेरीराम में हनुमान् चिता तैयार करते हैं; चिता की सारी लकड़ी अल जाने के बाद तक सीता निरापद खड़ी रहती है। ब्रह्मचरु के अनुसार सीता ने राम का सन्देश देकर आग जलाने का आदेश दिया। सीता के अग्नि में प्रवेश करते ही अग्नि बुझ गई।

६०३. अन्य वृत्तान्तों में सीता की निर्मालसित परीक्षाओं का उल्लेख मिलता है—विषले सापो से भरे हुए घड़े में हाथ डालना; मस्त हाथियों के सामने फेंका जाना; सिंह और व्याघ्र के वन में त्याग किया जाना; अत्यन्त तप्त लोहे पर चलना (दे० पाश्चात्य वृत्तान्त ३ और १३)।

कृष्णदेव उपाध्याय द्वारा सम्पादित भोजपुरी ग्रामगीत (पृ० १३७) में सीता की अन्य परीक्षाओं का भी वर्णन किया गया है। उस संग्रह के एक गीत के अनुसार सीता ने,

- (१) अग्नि को हाथ में लिया तब वह बिल्कुल ठंडी हो गई।
- (२) सूर्य को अपने हाथ में उठा लिया और वह हाथ में उठाते ही अस्त हो गया।
- (३) सर्प को अपने हाथ में लिया तब वह फन फंलाकर बँठ गया।
- (४) गंगा को हाथ में लिया, तब गंगा बिल्कुल सूख गई।
- (५) तुलसी को अपने हाथ में लिया तब तुलसी जी बिल्कुल ही सूख गई।

## ट । वापसी यात्रा

६०४. प्रचलित वाल्मीकीय युद्धकाण्ड के अन्तिम सर्गों की सक्षिप्त कथावस्तु इस प्रकार है। अग्निपरीक्षा के पश्चात् राम विभीषण का आतिथ्य-सत्कार अस्वीकार कर उससे अयोध्या की यात्रा का प्रबन्ध करने का निवेदन करते हैं। विभीषण पुष्पक प्रस्तुत करता है; राम की अनुमति पाकर सुग्रीव अपने बानरों के साथ तथा विभीषण अपने अमात्यों के साथ पुष्पक पर चढ़ते हैं (सर्ग १२१-१२२)। अथके सर्ग में राम सीता को सम्बोधित करके लका से अयोध्या तक की समस्त यात्रा का वर्णन करते हैं। भरद्वाज-आश्रम में पहुँचकर राम अयोध्या का समाचार प्राप्त कर लेते हैं तथा हनुमान् को गुह और भरत के पास भेज देते हैं (सर्ग १२४-१२५)।

हनुमान् से संक्षेप में रामचरित सुनकर भरत राम के आगमन के लिये अयोध्या सज्जन का आवेष्ट देते हैं। जनता भरत के साथ नविग्राम में राम का स्वागत करती है। भरत राम को राज्य-भार सौंप देते हैं तथा राम का अभिषेक विधिवत् सम्पन्न किया जाता है (सर्ग १२६-१२८)।

६०५. पञ्चमचरित्यं (पर्व ७७-७८) के अनुसार राम तथा लक्ष्मण ने रावण-वध के बाद लंका में प्रवेश कर वहाँ के राजमहल में ६ वर्ष बिताए। अन्त में नारद ने राम के पास आकर पुत्र-वियोग के कारण शोकसन्तप्त अपराजिता की दयनीय दशा का वर्णन किया; इसके फलस्वरूप राम-लक्ष्मण ने साकेत की यात्रा करने का निश्चय किया। सेरीराम में भी राम बहुत समय तक लंका में निवास करते हैं, जहाँ ससार भर के राजा आकर राम को सम्मान देने आते हैं। भरत, शत्रुघ्न तथा राम की बहन किकेयी देवी भी लंका में राम से मिलने आते हैं तथा वही विभीषण का किकेयी देवी के साथ विवाह सम्पन्न हो जाता है। बाद में महरीसी कली आकर सीता के जन्म का रहस्य प्रकट करते हैं (दे० अनु० ४२८) और मन्दूदाकी अपनी पुत्री सीता को पहचान लेती है। एक वर्ष तक लंका में रहकर राम के सभी भाई विभीषण के साथ अयोध्या लौटते हैं। विभीषण अयोध्या से वापस आते समय एक रम्य पर्वत देखते हैं, और राम के सामने इसका गुणगान करते हैं। फलस्वरूप राम उस पर्वत पर दुर्यापुरी नामक नगर बनवा देते हैं और रावण के मंत्री को लंका में छोड़कर लंका के कुंने हुए लोगों के साथ अपनी इस नयी राजधानी को बसा लेते हैं। राम लक्ष्मण को युवराज, हनुमान् को सेनापति तथा विभीषण को वजीर नियुक्त कर तथा संसार भर से धन, कला अथवा विज्ञान से सम्पन्न लोगों को बुलाकर न्यायपूर्वक राज्य करने लगते हैं। रामकियोन (अ० ३८) के अनुसार राम ने प्रस्थान करने के पूर्व आशाकर्ण नामक दासस का वध किया तथा सेतु पार करने के पश्चात् हनुमान् ने रावण के पुत्र प्रलयकल्प को मार डाला। वह पातालवासिनी कला-अग्नी का पुत्र था, जो पाताल से निकलकर अपने पिता के वध का प्रतिकार करना चाहता था।

६०६. गुणभद्रकृत उत्तरपुराण (६८, ६५९) के अनुसार राम-लक्ष्मण की वापसी यात्रा दिविजय का रूप धारण कर लेती है, जिससे वे केवल ४० वर्ष बाद अपनी राजधानी पहुँच पाते हैं। शेष राम-कथाओं में प्रायः वाल्मीकि रामायण के अनुसार ही अयोध्या की यात्रा का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार सुधीव अपने वानरों के साथ तथा विभीषण अपने मंत्रियों के साथ राम-सीता-लक्ष्मण से मिलकर अयोध्या की यात्रा करते हैं। दाक्षिणात्य पाठ मात्र में (६, १२३, २३-३८) सीता के अनुरोध करने पर तारा आदि वानरियाँ भी पुष्पक पर चढ़कर राम की राजधानी

जाती हैं। अध्यात्म रामायण (६ १४ ८) आनन्द रामायण (१ १२ ५६) आदि रचनाओं में भी ज्ञानरियो की इस यात्रा का उल्लेख है। बालरामायण (अंक १०) और रामायण कवचिन (सग २४) के अनुसार त्रिजटा न सीता के साथ अयोध्या की यात्रा की थी। आनन्द रामायण (१ १२ ४४) में कृतज्ञ सीता त्रिजटा और सरमा दोनों को अपन साथ अयोध्या ले जाती हैं।

बाल्मीकि रामायण की अतरंग परीक्षा से स्पष्ट है कि आदि रामायण पुष्पक के विषय में मौन था (दे० अनु० ५६६)। निम्नलिखित रचनाओं में रामादि स्थल से ही अयोध्या लौट जाते हैं—महानाटक (१४ ६६) सारलादाम उडिया महाभारत (सभापव) पाश्चात्य वृत्तान्त (न० २ ३ और ४) रामकियन (अध्याय ३८) ब्रह्मचक्र मथाली राम कथा (अनु० २७१)।

६०७ बहुत सी राम कथाओं में सेतुभंग का उल्लेख है। खानानी रामायण के अनुसार सेतु को पार करने के पश्चात् ही उम नष्ट किया गया था जिसमें राम-सना का कोई भी योद्धा यद्द छोड़कर भाग न सक। सेतुभंग प्रायः रावण-वध के बाद अयोध्या की यात्रा के समय वर्णित है उदाहरणार्थ—स्कन्दपुराण का सेतुमाहात्म्य अध्याय ३०) रगनाथ रामायण (६ १६१) आनन्द रामायण (१ १२ ४८), तोरव रामायण (६ ५४) कृत्तिवास रामायण (६ १०१) तत्वसंग्रह रामायण (६ ३५) पाश्चात्य वृत्तान्त न० २ ३ ४ ० अलबन्नी का भारत (अग्रजी संस्करण १ ३०७)। स्कन्द पुराण के नागर खण्ड (अध्याय १०१) तथा पद्मपुराण के सृष्टि खण्ड (अध्याय ३५ १३५) में रावण वध के बहुत काल बाद राम की लका-यात्रा के अवसर पर सेतुभंग का वर्णन किया गया है। इस घटना में कई कारणों का उल्लेख मिलता है। सेतुमाहात्म्य में विभीषण लका की सुरक्षा को दृष्टि में रख कर राम से निवेदन करता है कि सेतु का भजन किया जाय। रगनाथ रामायण तथा तत्त्वमग्रहरामायण में भी यही कारण दिया गया है। स्कन्द पुराण के नागर खण्ड तथा पद्म पुराण के सृष्टि खण्ड में विभीषण राम से कहते हैं— जिज्ञासा से प्रेरित होकर मनुष्य लका आयग और मरी आजा का तिगस्कार करके राक्षस उन्हे ल्हा जायग। कृत्तिवास रामायण में नागर स्वयं निवेदन करता है कि मरा बन्धन अब तोड दिया जाय। पाश्चात्य वृत्तान्त न० २ में राम इसीलिये सेतु नष्ट करते हैं कि कोई भी राक्षस उनका पीछा न कर सके। पाश्चात्य वृत्तान्त न० ४ के अनुसार यह इसलिय हुआ कि कोई भी लका वा मोना न चुरा ले जाय।

६०८ यथायवादी बाल्मीकि के अनुसार राम न भरद्वाज-आश्रम में पहुँचकर हनुमान को इसलिय भरत के पाम भज दिया था कि वह राम के प्रति भरत के भावों

की परीक्षा के सकें, क्योंकि यह सर्वथा संभव था कि राज्य करते-करते भरत का मन बदल गया हो—कश्यप नार्वर्तवेग्नवः (१२५, १६) । यदि भरत वास्तव में अपने लिए राज्य चाहते हैं तो राम उनका विरोध नहीं करना चाहेंगे—प्रशास्तु बलुवां सर्वाभिलिखाम् (१२५, १७) । राम की यह आशाका निर्मूल सिद्ध हुई; राम के आगमन का समाचार सुनकर भरत आनन्दित हुए ।

बलरामदास के रामायण में इस अवसर पर हनुमान् के गर्वनिवारण की कथा मिलती है । राम के साथ भरद्वाज आश्रम में पहुँचकर हनुमान् को यह सोचकर गर्व उत्पन्न हुआ था कि मैं राम के लिये कितने महान् कार्य कर चुका हूँ । राम ने यह जानकर हनुमान् को किसी बहाने आश्रम के पास के वन में भेज दिया । उस वन में अष्टकि अथवा अष्टक नामक असुर (वैष्णवी माया के अवतार) ने हनुमान् को परास्त कर उन्हें तभी जाने दिया जब हनुमान् तत्रतापूर्वक राम का स्मरण करने लगे ।

६०९. राम-नाटको में पहले-पहल रावण-वध के पश्चात् राक्षसों के छल-कपट का वर्णन किया गया है, जिससे भरत आत्महत्या का विचार करने लगे । उवात्तराघव (८वीं श०) में तीन छषवेशी राक्षसों का अयोध्या में आगमन वर्णित है । पहला राक्षस वसिष्ठ के शिष्य का रूप धारण कर भरत के पास यह कहने आता है कि मैंने सुना है कि लक्ष्मण युद्ध में मारे गये है । अनन्तर एक दूसरा राक्षस नारद के रूप में आकर कहता है कि राम का भी देहान्त हुआ है और सीता अकेली ही अयोध्या आ गई है । अन्त में एक राक्षसी सीता का रूप धारण कर भरत को अपने पति तथा देवर्षी की मृत्यु का समाचार सुनाती है । यह सुनकर भरत सरयू में अपना शरीर त्याग देने का सकल्प करते हैं किन्तु हनुमान् ठीक समय पर पहुँचकर उनको ऐसा करने से रोक लेते हैं । हनुमान् राक्षसों की माया का एक और उदाहरण देते हैं—एक राक्षस ने सुमन्त के रूप में राम को भरत के मरणासन्न होने का समाचार दिया था (अंक ६) । जानकीपरिणय में छषवेशी शूर्पणखा अयोध्या में राम-वध का मिथ्या समाचार फैलाती है (दे० अनु० २४४) । उल्लाहराघव में कापरिक नामक रावण का गुप्तचर मुनि का रूप धारण कर भरत को यह समाचार देता है कि राम-लक्ष्मण का वध करने के पश्चात् रावण पुष्पक पर चढ़कर अयोध्या पर आक्रमण करने वाला है । इसपर सेना को बुलाया जाता है तथा कौशल्या और सुमित्रा चिता पर बैठने की तैयारियाँ करने लगती हैं । पुष्पक के आने पर भरत विभीषण पर बाण चलाना ही चाहते हैं किन्तु वसिष्ठ सब जानकर उनको रोक लेते हैं (अंक ८) ।

अनेक अन्य राम-कथाओं के अनुसार भरत चौदह वर्ष की समाप्ति पर राम को न पाकर तथा उनको मृत समझकर आत्महत्या की तैयारियाँ करने लगे थे कि हनुमान्

ने आकर उसकी रीका था; उदाहरणार्थ आनन्द रामायण (१, १२, ६५); कंब रामायण (६, ३७); रंगनाथ रामायण (६, १६३); आचार्य रामायण (६, ७८) । रंगनाथ रामायण में गृह तथा क्षत्रुज के आत्महत्या-विचार का भी उल्लेख है । रामकथेन (अ० १८) के अनुसार भरत और क्षत्रुज दोनों चिता में प्रवेश करने के लिए तैयार थे ।

६१०. युद्धकाण्ड के अन्तिम सर्ग में वाल्मीकि ने संक्षेप में अपने काव्य का निर्वहण प्रस्तुत किया है । भरत ने राम को राज्य लीटाते हुए कहा कि मैं बोरों आदि के कारण दुःसह राज्यभार संभालने में असमर्थ हूँ :

किशोरवद्गुरुं भारं न बाहुमहमुत्सहे ॥३॥

वारिवेगेन महता मित्रः सेतुरिव भरन् ।

दुर्बन्धनमिवं मन्ये राज्यच्छिद्रमसंबृत्तम् ॥४॥

राम ने समारोह के साथ नगर में प्रवेश किया तथा वसिष्ठ ने अगले दिन राम तथा सीता का राज्याभिषेक सम्पन्न किया । अनन्तर राम पहले ब्राह्मणों को तथा बाद में विभीषण, सुग्रीवादि वानरों को दान देकर निष्कण्टक राज्य करने लगे । राम ने लक्ष्मण को युवराज बनाना चाहा किन्तु लक्ष्मण ने उस पद को अस्वीकार किया जिससे भरत युवराज बन गए । राम १०००० वर्ष तक राज्य करते रहे और उन्होंने अन्य यज्ञों के अतिरिक्त अपने पुत्रों के साथ दस बार अश्वमेध यज्ञ सम्पन्न किया था । रामराज्य के गुणगान तथा रामायण की फलश्रुति पर वाल्मीकिकृत आदिकाव्य समाप्त हो जाता है । उत्तरकाण्ड (सर्ग ३७-४०) में रामाभिषेक के लिए आमंत्रित राजाओं तथा सुग्रीव, विभीषण, हनुमान् आदि की विदा का पुनः वर्णन किया गया ।

आनन्द रामायण (१, १२, ८४) के अनुसार राम भरत का आलिगन करने के पश्चात् बहुत से रूप धारण कर एक ही समय सबों से मिले थे । प्रायः समस्त राम-कथाओं में वाल्मीकि के अनुसार ही राम का अभिषेक वर्णित है किन्तु देवताओं की उपस्थिति को अधिक महत्त्व दिया गया है; उदाहरणार्थ अध्यात्म रामायण (६, १५, ५०), आनन्द रामायण (१, १२, ११५) । अभिषेक नाटक (अंक ७) के अनुसार राम का अभिषेक लका में सम्पन्न हुआ था तथा प्रतिमा नाटक (अंक ७) के अनुसार दण्डकारण्य में ।

अध्यात्म रामायण (६, १६, २६) तथा आनन्द-रामायण (१, १२, १६९) के अनुसार राम ने लक्ष्मण को युवराजपद पर अभिषिक्त किया था । पञ्चमचरियं (पर्व ८०-८५), गुणमद्रकृत उत्तरपुराण (६८, ६६३) आदि जैन राम-कथाओं में लक्ष्मण तथा राम दोनों का अभिषेक किया जाता है । पञ्चमचरियं के अनुसार इस

अभिवेक के पूर्व ही अरत विरक्त होकर जैन दीक्षा लेते हैं। बहुत सी मध्यकालीन रचनाओं में विद्या के अवसर पर हनुमान् की राम भक्ति-विषयक सामग्री मिलती है जिसका निकृपण हनुमन्चरित के अन्तर्गत रखा गया है (दे० ७०६-७०७)। बलरामदास रामायण के अनुसार सीता ने रामाभिवेक के भोजन के अवसर पर अनेक रूप धारण कर सब अतिथियों को परोसा था। रामचंद्रिका (प्रकाश २५) में अभिवेक के पूर्व वसिष्ठ द्वारा राम के वैराग्य का निवारण वर्णित है। पद्मपुराण (६, २७०, ४२) में राम ने अभिवेक के अवसर पर अतिथियों को अपना दिव्य रूप दिखलाया था।

### ठ । नवीन सामग्री

६११. वाल्मीकि रामायण के बाद की राम-कथाओं में युद्धकाण्ड के कथानक में सर्वथा नवीन सामग्री भी मिलती है जिसका यहाँ उल्लेख करना उचित होगा। पउमचरियं में पहले-पहल युद्ध के पूर्व राक्षस-राक्षसियों तथा रावण-मन्दोदरी की शृंगारपूर्ण चेष्टाओं का वर्णन किया गया है (दे० पर्व ५६, १३-२६ और पर्व ७०, ५१-६१)। सम्भवतः पउमचरियं के अनुकरण पर अनेक अन्य महाकाव्यों में युद्ध-काण्ड के कथानक के अन्तर्गत राक्षस-राक्षसियों का संभोग-शृंगार वर्णित है; उदाहरणार्थ सेतुबंध (सर्ग १०); भट्टिकाव्य (सर्ग ११); रामायण ककविन (सर्ग १२); जानकीहरण (सर्ग २६); अभिनन्द कृत रामचरित (सर्ग १८); कम्ब-रामायण (६, २४); रामलिंगामृत (सर्ग ८)।

६१२. भानुराज की कथा अब तक केवल वयाम के राक्षसियेन (अध्याय २६) में मिली है। समुद्र पार करने के पश्चात् रामसेना ने लंका के निकट पहुँचकर एक मनीहर माया-वन देखा था। रामसेना को आकर्षित करने तथा भूमि के नीचे खींच लेने के उद्देश्य से भानुराज ने यह मायावन अपने सिर पर धारण किया था। हनुमान् ने उसकी भाषा जानकर भूमि में प्रवेश किया तथा उसे मार डाला।

६१३. भस्मलोचन की कथा कई रूपों में प्रचलित है। यह हरिवंश (२, ५७), विष्णुपुराण (५, २३) आदि के मुचुकुंद-वृत्तान्त से साम्य रखती है। कृत्ति-बास रामायण (५, ४७) के अनुसार भस्मलोचन नामक राक्षस की दृष्टि जिस पर पड़ती थी, वह उसी क्षण भस्मीभूत हो जाता था। इस कारण भस्मलोचन प्रायः अपनी आँसों की चमड़े के परदे से ढके रहता था। जब राम-सेना समुद्र पार कर लंका की ओर बढ़ रही थी तब रावण ने उसके विरुद्ध भस्मलोचन को भेज दिया। विभीषण के परामर्श से राम ने ब्रह्मास्त्र छोड़कर भस्मलोचन के सामने असंख्य दर्पण रख दिये थे

१. आचार्य रामायण में हनुमान् को उसी समय स्त्री राज्य भेजा गया (दे० अनु० ६८७)।

जिन पर दृष्टि डालकर भस्मलोचन जल गया था। सेरीराल में बीलावीस को रावण का पुत्र माना गया है। कुम्भकर्ण-वध के बाद रावण ने उसे पाताल से बुलाकर राम-सेना के नाश करने का आदेश दिया। विभीषण से बीलावीस की विनाशक दृष्टि के विषय में जानकर राम ने लोहे का एक विस्तृत दर्पण बनवाया और हनुमान् ने अपनी पूँछ से इस दर्पण को बीलावीस के सामने रख दिया। उसमें अपना प्रतिबिम्ब देखकर बीलावीस भस्मीभूत हुआ।

रामकियेन (अध्याय ३१) में कई मायावी योद्धाओं की चर्चा है। सहस्सतेज नामक राक्षस अपनी गदा के अग्रभाग में जिमकी ओर इगारा करना था, वह तत्काल मर जाता था।<sup>१</sup> हनुमान् अपने को वालि का दाम कहकर सहस्सतेज का विश्रामपात्र बन जाते हैं, वह उमकी गदा प्राप्त कर लेते हैं तथा सहस्सतेज के सहस्र सिंघ काटकर राम के पास लौटते हैं। अनन्तर साग आदित्य राम-सेना का सामना करने आता है। साग आदित्य के पास मायावी दर्पण था, जिसपर उम दर्पण का प्रतिबिम्बित प्रकाश पड़ता था वह तुरन्त मर जाता था। वह दर्पण ब्रह्मा की रक्षा में था। यह जानकर कि रावण ने साग आदित्य को बुलाया है अगद ने साग आदित्य के राज्यपाल का रूप धारण कर लिया तथा ब्रह्मा के पास जाकर उस दर्पण को प्राप्त किया। इस प्रकार अपने दर्पण में वंचित होकर साग आदित्य राम द्वारा मारा गया। रामकियेन के उमी अध्याय में रावण के अमफल यज्ञ के पश्चात् हनुमान् दो और मायावी योद्धाओं का वध करते हैं। सद्दामुर युद्ध करते समय देवताओं के आयुद्ध अपने पास बुला सकता था। यह जानकर हनुमान् ने वानरों को आदेश दिया कि वे बादलों में छिपकर देवताओं द्वारा सद्दामुर के लिये भेजे हुए आयुद्ध छीन लें। तब हनुमान् ने सद्दामुर को युद्ध के लिये आह्वान किया। सद्दामुर ने देवताओं के आयुद्ध बुलाये किन्तु बादलों में छिपे वानरों ने सबको हथियाया जिससे हनुमान् उसे मार डालने में समर्थ हुए। अनन्तर विरुचबंग के युद्ध का वर्णन किया गया है, वह एक अदृश्य घोंडे पर चढ़कर स्वयं अदृश्य बन सकता था। राम ने उसका सामना किया तथा उसका अदृश्य घोड़ा मार डाला किन्तु विरुचबंग एक माया-विरुचबंग की सृष्टि कर स्वयं आकाश नामक पर्वत की ओर भाग गया। वहाँ पर उसकी भेंट एक वानरी से हुई जिसने उसे समुद्र की फेन में छिप जाने का आदेश दिया। वह वानरी वास्तव में एक शापित अप्सरा थी जो विरुचबंग की खोज में हनुमान् की सहायता करने के पश्चात् ही अपने शाप से मुक्ति

१. यह गदा शिव द्वारा मधु को प्रदत्त शूल का स्मरण दिलाती है, जो मधु के प्रतिद्वन्द्वी को भस्मीभूत कर देता था (दे० वाल्मीकि रामायण ७, ६१, ९)। इस कथा का एक अन्य रूप भी रामकियेन में मिलता है (दे० अनु० ६४८)।



पा सकती थी। हनुमान् ने उसके साथ रमण किया तथा उसकी सहायता से विरूचबन का पता लगाकर उसका वध किया।

६१४. महीरावण की कथा अपेक्षाकृत अधिक प्रचलित है। जैमिनी भारत के मौरावणचरित (दे० अनु० १८६) के अनुसार मौरावण रावण का सखा है। वह रावण को आश्वासन देता है कि मैं राम-लक्ष्मण को पाताल-लका ले जाकर दुर्गा को बलि के रूप में समर्पित करूँगा। विभीषण यह जानकर वानरो को सावधान करता है जिसपर हनुमान् विशाल रूप धारण कर अपने शरीर से समस्त रामसेना की रक्षा करते हैं। मौरावण पहले दो गुप्तचरो को भ्रज देता है तथा बाद में माया-विभीषण के रूप में आकर वानरो को माया-वूर्ण से सुलाता है तथा राम-लक्ष्मण को एक पेटिका में बन्द कर दोनों को पाताललका के भद्रकालीगृह में रख देता है। बाद में हनुमान् सूक्ष्म रूप धारण कर पथनाल मार्ग से पाताल में प्रवेश करते हैं। वहाँ वह बहुत देर तक द्वन्द्वयुद्ध करने पर भी द्वारपाल को परास्त करने में असमर्थ है, अन्त में पता चलता है कि यह द्वारपाल मत्स्यराज नामक उनका पुत्र है (दे० अनु० ६१५)। तब हनुमान् फिर सूक्ष्म रूप धारण कर मत्स्यराज की सहायता से पाताललका में प्रवेश करते हैं। बाद में हनुमान् मौरावण की बहन दुर्दण्डी के जलपात्र में छिपकर राजभवन के अन्दर जा पाते हैं। जब हनुमान् मौरावण को चुनौती देकर उसका वध नहीं कर पाते हैं तब दुर्दण्डी हनुमान् के लिये इस रहस्य का उदघाटन करती है कि मौरावण के प्राण गजधानी से ३० योजन की दूरी पर रहनेवाले सात भृगो में निवास करते हैं। हनुमान् जाकर उनका वध करते हैं तथा बाद में मौरावण को पराम्न कर दुर्दण्डी के पुत्र नील-मेघ को कँद से छुड़ाता है। नीलमेघ मौरावण की पुत्री नीलकेशी से विवाह कर राजा बन जाता है तथा हनुमान् अब तक मीये हुए राम-लक्ष्मण को लका ले जाते हैं।

आनन्द रामायण के अनुसार अश्विनीकुमार शापवश राक्षस-योनि प्राप्त कर ऐरावण-मौरावण के रूप में प्रकट हुए और दोनों रावण के मित्र बन गए थे (दे० ७, सग १८)। लका-युद्ध के समय उनके हस्तक्षेप का वृत्तान्त उपर्युक्त मौरावण-चरित से निम्नलिखित बातों में भिन्न है। ऐरावण तथा मौरावण दोनों आकाशमार्ग से हनुमान् की बढ़ाई हुई पूँछ के दुर्गम परिघ को पारकर निद्रामग्न राम तथा लक्ष्मण को ले जाते हैं। हनुमान् अपने पुत्र मकरध्वज से यह जानकर कि राम-लक्ष्मण कामाक्षा-देवी के मन्दिर में हैं सूक्ष्म रूप धारण कर उस मन्दिर में प्रवेश करते हैं। वह देवी की वाणी का अनुकरण करके अवेश देते हैं कि राम तथा लक्ष्मण को जीवित ही मेरे सामने उपस्थित किया जाय। इस प्रकार मुक्ति पाकर राम-लक्ष्मण ऐरावण-मौरावण को एक ही बार मार डालते हैं किन्तु दोनों पुन-पुन पुनर्जीवित हो जाते हैं। अन्त में

ऐरावण की भोगपत्नी हनुमान् को इस बात पर दोनों की मृत्यु का उपाय प्रकट करने के लिये तैयार है कि राम उसे पत्नीस्वरूप ग्रहण करें। हनुमान् यह प्रस्ताव स्वीकार करते हैं बशर्ते कि उसका पलक राम के भार से न टटे। तब वह कहती है कि ऐरावण-मैरावण के शयमागार मे जो भ्रमर रहते हैं वही अमृत लाकर लाकर दोनों को पुनर्जीवित करते हैं। हनुमान् एक भ्रमर को छोड़कर सब को मार डालते हैं, वह भ्रमर हनुमान् के आदेश पर ऐरावण की भोगपत्नी के पलक की लकड़ी को भीतर से खाकर खोलला बना देता है। अन्त मे राम ऐरावण-मैरावण दोनों का वध करते हैं तथा ऐरावण की भोगपत्नी को आशवासन देते है कि अगली बार कन्याकुमारी के रूप मे प्रकट होकर वह तीसरे जन्म मे द्वार पर मे उनकी पत्नी बन सकेगी।<sup>१</sup> इसके बाद हनुमान् राम को तथा मकरध्वज लक्ष्मण को लका पहुँचा देते हैं (दे० १ ११ ७३-१३०)।

कृत्तिवास ने (६ ७९ ८७) महीरावण की कथा को अपेक्षाकृत अधिक विस्तार से वर्णन किया है। इस वृत्तान्त की विशेषता यह है कि इसमे हनुमान् के पुत्र की चर्चा नहीं होती और महीरावण का रावण का पुत्र माना गया है। वास्तव मे महीरावण अष्टावक्र द्वारा अभिशप्त शक्रधनु नामक गधर्व था। रावण ने उसे निकषा के परामर्श से बुलाया था किन्तु विभीषण न पक्षी के रूप मे दोनों की मन्त्रणा सुनकर राम को सावधान किया था जिससे हनुमान् पूँछ बहाकर चारो ओर से लका की रक्षा करते थे, इसके अतिरिक्त राम न आकाश मे बिष्णु-चक्र रख दिया तथा नल ने पाताल मे माया का विस्तार किया। महीरावण न क्रमश दशरथ कौशल्या तथा जनक के रूप मे आकर हनुमान् को धोखा देन का असफल प्रयत्न किया, अन्त मे वह विभीषण के रूप मे शिविर मे प्रवेश कर तथा मायाचूण से राम-लक्ष्मण को निद्रामग्न करके दोनों को अपन भवन मे ले गया। पातालपुर मे पहुँचकर हनुमान् ने किसी बूढ़ी से जान लिया था कि राम-लक्ष्मण कहाँ हैं। अत उन्होंने मक्खी के रूप मे महीरावण के महल मे जाकर राम-लक्ष्मण को प्रणाम किया तथा बाद मे महामाया मन्दिर मे देवी को राम का समाचार सुनाया। देवी न राम शिव की अभिप्रता का उल्लेख करके महीरावण के वध की युक्ति बताई। जब राम तथा लक्ष्मण देवी के मामने उपस्थित किये जायेंगे, उनको महीरावण मे कहना चाहिये कि हम माष्टाग प्रणाम करना नहीं जानते हैं, हमें दिख-लाइये। महीरावण के प्रणाम करने पर उमे देवी की तलवार से मार डालना चाहिये। देवी के इस निर्देश के अनुसार हनुमान् ने महीरावण का वध किया। इसके बाद महीरावण की पत्नी युद्ध करने आई, हनुमान् न उस पर पाद-प्रहार किया जिससे उमके

१ आनन्द रामायण के अन्य स्थल (याजाकाण्ड, सर्ग ७) के अनुसार कन्या-कुमारी जाम्बवी के रूप मे प्रकट होगी। तत्त्वसग्रह रामायण (६, ६) में भी इसकी ओर निर्देश किया गया है।

धर्म से चार तिर काके अहिरावण का जन्म हुआ जो तुरन्त हनुमान् का सामना करदे गया तथा हनुमान् से मारा गया ।

महीरावण का वृत्तान्त निम्नलिखित रचनाओं में भी पाया जाता है—माकाश रामायण (६, ५१-५४), कन्नड मैरावण कालम, गुजराती नमंकथा कोथ (पृ० २२३), पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १३, काशीराज कृष्ण बंगाली दानपत्रं । रामलियाम्बुह (सर्ग ८) के अनुसार अहिरावण तथा महीरावण राम-लक्ष्मण को पाताल ले गये थे और हनुमान् ने अपने पुत्र मकरध्वज की सहायता से दोनों का वध किया । पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १ में रावण स्वयं राम-लक्ष्मण का हरण करता है । बिहोर राम-कथा के अनुसार कुम्भकर्ण राम-लक्ष्मण को ले जाकर उनको काली की समर्पित करना चाहता था किन्तु लक्ष्मण ने कुम्भकर्ण को मार डाला ।

विदेशी वृत्तान्तों में केवल राम को पाताल ले जाने की कथा मिलती है; उदाहरणार्थ मेरीगम, रामकथेन (अध्याय २७), रामजातक, पाश्चात्य वृत्तान्त नं० ७, तथा कम्बोडिया का एक प्राचीन चित्र ।<sup>१</sup> सेरीराम की कथा इस प्रकार है । रावण का पुत्र पाताल महारायन हनुमान् का रूप धारण कर वानर-सेना में प्रवेश कर जाता है और राम को माया-रूप में निद्रामग्न कर उन्हें अपने भवन ले जाता है । बाद में हनुमान् राम की खोज में पाताल जाकर एक राजकुमारी से भेंट करते हैं जो अपने पुत्र के म्लान के लिये जल ले जानेवाली है । ज्योतिषियों ने बताया था कि वह पुत्र पाताल महारायन का उत्तराधिकारी बनेगा; अतः महारायन ने उसे राम के साथ मार डालने का निश्चय किया है । हनुमान् उसके पुत्र को राजा बनाने की प्रतिज्ञा करते हैं और वह हनुमान् को छिपकली के रूप में अपने जलपात्र में छिपाकर किले के अन्दर ले जाती है । फाटक पर हनुमान् अपने पुत्र हनुमान् तृगंग से द्वन्द्वयुद्ध कर उसकी सहायता अस्वीकार करते हैं तथा पाताल महारायन को हराकर सोये हुये राम को लंका ले जाते हैं । राम तभी जागते हैं जब विभीषण उनके चेहरे पर से माया-रूप धो डालता है । अगले दिन राम रणभूमि में ही पाताल महारायन का वध करते हैं । सेरीराम के जेलावेर पाठ की कथा कहीं अधिक विस्तृत है । मेरावणचरित के अनुसार पाताल महारायन पहले दो सेनापतियों को भेज देता है; बाद में वह कीट का रूप धारण कर हनुमान् का शरीर पार कर जाता है तथा क्रमशः सुधीव, आम्बवान तथा विभीषण के वेश में महल में घुसने का असफल प्रयत्न करता है । रात के पिछले पहर वह राम को ले जाकर पद्मनाल के मार्ग से पाताल में प्रवेश करता है । जिस राजकुमारी से हनुमान् को भेंट होती है वह अमीर अरब (अहिरावण ?) की बहन है । अमीर अरब रावण

१. बुलेटिन एकोल फ्रांसेस एक्स्ट्रेम ओरियन, भाग १२, पृ० ४७ ।

का मामा है जिसने अपने भानजे को कंद में रख दिया है। हनुमान् पत्नी का रूप धारण कर राजकुमारी को जलपात्र में छिप जाते हैं तथा बाद में अमीर अरब का वध कर उसके भानजे को राजा बनाते हैं।

रामकथेन में मंयरव को सहमालिवन (माल्यवान ? दे० वा० रा० ७, सर्ग ५) का रोता माना गया है; उनके गृह सुमेष ने उसका जीव मक्खी के रूप में त्रिकूट पर्वत पर छिपा दिया था। वह मायाचूर्ण से वानरों को मुलाता है और राम को हनुमान् के मुंह से निकालकर पानाल ले जाता है। हनुमान् वहाँ जाकर पहले अपने पुत्र मच्छानु तथा बाद में विरक्वन नामक मंयरव की बहन से भेंट करते हैं। विरक्वन को आदेश मिला कि वह एक हण्डा जल से भर दे, उसमें उसका पुत्र उबाला जाने वाला है। विरक्वन हनुमान् को पद्मतनु के रूप में अपने दुपट्टे में छिपाकर राम के पास पहुँचाता है तथा मंयरव के वध की युक्ति भी बताता है। हनुमान् राम के साथ लका लौटने के पहले विरक्वन के पुत्र वंयविक को राजा तथा मच्छानु को युवराज नियुक्त करते हैं।

६१५. हनुमान् के पुत्र की उत्पत्ति के विषय में भिन्न-भिन्न वृत्तान्त मिलते हैं। जमिनी भारत, गुजराती तर्कशास्त्र आदि के अनुसार लकादहन के पश्चात् जब हनुमान् समुद्र में तहाने गए थे, तब एक मछली (अथवा मकरी) ने उनका स्वेद पान कर लिया, जिसके कारण वह गर्भवती हो गई। आनन्द रामायण (१, ११, ८८) और भाषार्थ रामायण (५, २०) के अनुसार उस अवसर पर हनुमान् का श्लेष्मा एक मकरी के द्वारा खाया गया था और फलस्वरूप उसे एक पुत्र मकरध्वज उत्पन्न हुआ। अन्य रामकथाओं के अनुसार लका की वापसी में हनुमान् ने मकरी के साथ समोग किया था (दे० पाश्चात्य वृत्तान्त न० ७ और ८)।

सेरीराम में माना गया है कि समुद्र-लघन के समय हनुमान् का वीर्य गिर गया था और मछलियों की रानी उसे खाकर गर्भवती हो गई। सेरीराम के शास्त्री पाठ तथा हिकायत महाराज रावण में सेतुबन्ध के समय मछलियाँ अपनी रानी की आज्ञानुसार सेतु को नष्ट करने लगती हैं। इसपर हनुमान् उसके पास जाकर वीर सेतु को पुनः बंधवाकर उससे पुत्र उत्पन्न करते हैं। रामकथेन (अध्याय २६) के अनुसार रावण ने अपनी पुत्री नागकन्या सुवर्णमच्छा को सेतु नष्ट करने के लिये भेज दिया और हनुमान् ने उससे मच्छानु नामक पुत्र उत्पन्न किया। इसी रचना (अंक २५) में विभीषण की पुत्री बेंजकाया तथा हनुमान् के अमुराफद नामक पुत्र का भी उल्लेख है।

१—वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड

६१६. क। उत्तरकांड की कथावस्तु

(१) रावण-विरत (सर्ग १-३६) (उत्तरकांड का यह भाग अगस्त्य द्वारा कथित है।)

बंधवण—विश्रवा-देववर्णिनी के पुत्र बंधवण का चतुर्थ लोकपाल तथा धनेश बनना और पुष्पक प्राप्त कर उनका लंका-निवास (सर्ग १-३)।

राक्षस-बंध—प्रहेति तथा हेति के बंध में उत्पन्न राक्षसों का लंका-निवास तथा विष्णु द्वारा पराजित होने पर उनका पाताल-प्रवेश (सर्ग ४-८)।

रावण का जन्म—विश्रवा-कंकसी से दशप्रोव, कुभकर्ण, शूर्पणखा तथा विभीषण का जन्म। बंधवण में ईर्ष्या होने के कारण तीनों भाइयों की तपस्या तथा ब्रह्मा से वरप्राप्ति (सर्ग ९-१०)। रावण की आशंका से बंधवण का लंका-त्याग तथा कैलास पर निवास; राक्षसों का लंका में प्रवेश। मय-मुता मंदोदरी से रावण का विवाह (सर्ग ११-१२)।

रावण की प्रथम विजय-यात्रा—बंधवण को पराजित कर रावण का पुष्पक की प्राप्ति करना (सर्ग १३-१५)। रावण को नन्दि-शाप। रावण का कैलास को उठाना तथा शिव से 'रावण' नाम तथा चंद्रहाम खग को प्राप्ति करना (सर्ग १६)। वेदवती का रावण को शाप देना (सर्ग १७)। रावण द्वारा अनेक राजाओं की पराजय तथा राजा अनारण्य का उसे शाप देना (सर्ग १८-१९)। नारद की प्रेरणा से रावण का यम पर आक्रमण तथा ब्रह्मा द्वारा यम से रावण की रक्षा (सर्ग २०-२२)। शूर्पणखा के पति विष्णुजिह्व का रावण द्वारा वध और वरुण-पुत्री की पराजय (सर्ग २३)। (पाँच प्रसिद्ध सर्ग : बलि से रावण की भेंट, सूर्य तथा चन्द्र-लोक की यात्रा और कपिल से भेंट)।

रावण के अन्य युद्ध—रावण द्वारा अनेक कन्याओं और पत्नियों का हरण और शूर्पणखा को खर तथा वृषण के साथ बंधकारण्य भोज देना। कुभनसी के द्वारा मधु की रक्षा। नलकूबर का क्षाप (सर्ग २४-२६)। मेघनाद द्वारा इन्द्रबंधन तथा देवताओं की प्रार्थना से मुक्ति। देवताओं से मेघनाद की वरप्राप्ति—किसी भी युद्ध के पूर्व

यज्ञ कर लेने पर वह अजेय होगा (सर्ग २७-३०) । अर्जुन कार्तवीर्य तथा बालि द्वारा रावण की पराजय (सर्ग ३१-३४) ।

**हनुमत्कथा**—हनुमान् की जन्म-कथा और चरित (सर्ग ३५-३६) ।

(२) **सीतात्याग** (सर्ग ३७-८२)

**अतिथियों का प्रस्थान**—अभिषेक के दूसरे दिन राम का ऋषियों, राजाओं, वानरो तथा राक्षसों द्वारा अभिवादन (सर्ग ३७) ।

(पाँच प्रक्षिप्त सर्ग : बालि और सुग्रीव की जन्म-कथा, रावण का मुक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से सीताहरण का निश्चय, श्वेतद्वीप में स्त्रियों द्वारा रावण की पराजय) ।

जनक, युवाजित् तथा प्रतापदं का प्रस्थान । दो मास पश्चात् सुग्रीव, अगद, हनुमान्, विभीषण तथा वानरो, राक्षसों और ऋक्षों के प्रस्थान (सर्ग ३८-४०) । पुष्पक का प्रत्यागमन तथा राम द्वारा विदा (सर्ग ४१) ।

**सीतात्याग**—आश्रमों को देखने जाने की सीता की दोहड़ । लोकापवाद के कारण वाल्मीकि आश्रम में सीता को छोड़ने की गम की आज्ञा (सर्ग ४२-४५) । गंगा के उम पार लक्ष्मण का सीता को त्याग का समाचार देना, सीता का विलाप (सर्ग ४६-४८) । वाल्मीकि का सीता को आश्रय देना (सर्ग ४९) । सुमित्र का लक्ष्मण को सीता-त्याग का कारण बतलाना (सर्ग ५०-५२) ।

**नृग, निमि और ययाति की कथाएँ**—गम द्वारा लक्ष्मण को नृग, निमि तथा ययाति की कथाओं का सुनाया जाना (सर्ग ५३-५९) ।

(तीन प्रक्षिप्त सर्ग : राम से न्याय माँगने की इवान की कथा, गृध्र तथा उलूक की कथा) ।

**शत्रुघ्न-चरित**—भार्गव च्यवन के आग्रह से राम का लवण का वध करने के लिए शत्रुघ्न को भेजना (सर्ग ६०-६४) । शत्रुघ्न का वाल्मीकि-आश्रम में रात्रि व्यतीत करना तथा उमी गात्रि में कुश-लव का जन्म (सर्ग ६५-६६) । शत्रुघ्न द्वारा लवण-वध और मन्वपुरी का वसाया जाना । बारह वर्ष बाद राम के पास लौटते समय वाल्मीकि के आश्रम में शत्रुघ्न का रामायण-मान सुनना । राम से मिलकर उनका अपने राज्य में वापस जाना (सर्ग ६७-७२) ।

**शम्बूक-वध**—ब्राह्मण-पुत्र की मृत्यु पर नागद का शूद्र की तपस्या को उसका कारण बताना । राम का दक्षिण जाकर शम्बूक-वध करना ; अनन्तर अगस्त्य से दण्ड-कारण्य की कथा सुनना (सर्ग ७३-८२) ।

(३) **अदवमेध** (सर्ग ८३-१११)

**अश्वमेध-वाहात्म्य**—राजसूय-यज्ञ का भरत द्वारा विरोध । लक्ष्मण का अश्वमेध का प्रस्ताव तथा उसके माहात्म्य में इन्द्र की ब्रह्महत्या से अश्वमेध द्वारा शुद्धि की कथा सुनाना (सर्ग ८३-८६) । राम द्वारा डला के अश्वमेध से पुरुषत्व प्राप्त करने की कथा (सर्ग ८७-९०) ।

**अश्वमेध में सीता का पृथ्वी-प्रवेश**—नैमिष वन में अश्वमेध के अवसर पर कुशलव का सभा के सामने रामायण-गान करना (सर्ग ९१-९४) । कुशलव को सीता-पुत्र जानकर राम का वाल्मीकि के पास संदेश भेजना और सभा के सम्मुख अपनी शुद्धि का साध्य देने के लिए सीता से अनुरोध करना (सर्ग ९५) । सीता की शपथ; पृथ्वी का सीता को अपने साथ ले जाना, राम द्वारा सीता को लौटा देने का व्यर्थ अनुरोध (९६-९८) । कुशलव द्वारा उत्तरकांड का गान, सभा-विसर्जन, माताओं की मृत्यु (सर्ग ९९) ।

**विजय-यात्राएँ**—भरत के पुत्रों (तक्ष-पुष्कल) का तक्षशिला तथा पुष्कलवती में राज्य-स्थापन (सर्ग १००-१०१) । लक्ष्मण के पुत्रों (अगद-चंद्रकेतु) का अगदीप और चंद्रकान्त में राज्य-स्थापन ।

**लक्ष्मण-मृत्यु**—काल का राम को अपना विष्णुरूप प्राप्त करने का स्मरण दिलाना । दुर्वासा के अप्रह्म से लक्ष्मण का गम तथा काल के पास जाना और इसके कारण लक्ष्मण का सख्यु-प्रवेश (१०२-१०६) ।

**स्वर्गगमन**—राम का कुशल को कुशावती में और लव को श्रावस्ती में राज्य देना । अपने पुत्रों (मुवाहु और शत्रुघातिन्) को राज्य देकर शत्रुघ्न का अयोध्या आना । सुग्रीव और वानरों का आना । विभीषण और हनुमान् को अमरत्व का वरदान (१०७-१०८) । राम का अपने भाइयों के साथ विष्णुरूप में तथा वानरों का अक्षानुसार देवताओं में प्रवेश । नागरिकों की स्वर्गप्राप्ति । फलश्रुति (सर्ग १०९-१११) ।

**ख । उत्तरकांड का विश्लेषण**

**तीनों पाठों में विभिन्नता**

६१७. उत्तरकांड के तीन पाठों में इतनी ही विभिन्नता पाई जाती है, कि दाक्षिणात्य पाठ में भृगु द्वारा विष्णु को शाप सीतात्याग का कारण माना गया है । इनको कम विभिन्नता में पता चलता है कि उत्तरकांड की रचना अन्य कांडों के बाद हुई है । इसका उल्लेख दूसरे अध्याय में ही लुका है (दे० अनु० २२) ।

दाक्षिणात्य पाठ के मस्करणों में उत्तरकांड के २३वें सर्ग, ३७वें सर्ग तथा ५९वें सर्ग के पञ्चान् क्रमशः पाँच, पाँच तथा तीन प्रक्षिप्त सर्ग उद्धृत किए जाते हैं, जिनकी गणना अन्य सर्गों के साथ-साथ नहीं की गई है । इनकी अधिकांश सामग्री अन्य पाठों में नहीं मिलती ।

### उत्तरकांड की उत्पत्ति

६१८. समस्त उत्तरकांड प्रक्षिप्त है। इसके प्रमाण आठवें अध्याय में दिए गए हैं (दे० अनु० ११५)। उत्तरकांड की सामग्री के विश्लेषण से स्पष्ट है कि इसकी रचना भिन्न-भिन्न कवियों द्वारा हुई है। प्रचलित बाल्मीकि रामायण में दो ही विस्तृत अंश ऐसे हैं, जिनमें अष्टाद्व प्लोको का बाहुल्य पाया जाता है, अर्थात् विश्वामित्र की कथा (बालकांड, सर्ग ५७-६५) तथा रावण-चरित (उत्तरकांड, सर्ग १-३६)। अष्टाद्वियों का यह बाहुल्य इन दोनों वृत्तान्तों को प्रक्षेप सिद्ध करता है।<sup>१</sup>

रावणचरित के बाद राम के अभिषेक के लिए आए हुए अतिथियों की विदाई का पुनः वर्णन किया गया है (सर्ग ३७-४०); इसका प्रथम वर्णन युद्धकांड के अंत में हुआ था। रावणचरित जैसे विस्तृत प्रक्षेप जोड़ने के पश्चात् आधिकारिक कथावस्तु से संबंध स्थापित करने के लिए इसकी यहाँ पुनरावृत्ति की गई है। अतः उत्तरकांड का मूल-रूप सीतात्याग के वर्णन से प्रारम्भ हुआ होगा (सर्ग ४२-५२)। शेष सामग्री से पौराणिक कथाओं को तथा शम्बूक-वध की कथा<sup>२</sup> को हटाने पर जो वृत्तान्त रह जाता है, वह उत्तरकांड का प्रारम्भिक रूप प्रतीत होता है, अर्थात् शत्रुघ्न-चरित तथा कुश-लव-जन्म, राम का अश्वमेध तथा कुश-लव द्वारा रामायण-गान, सीता का भूमि-प्रवेश, रामादि के पुत्रों की राज्यस्थापना, लक्ष्मण की मृत्यु तथा राम का स्वर्गारोहण।

## २—उत्तरकांड का विकास

६१९. उत्तरकांड के प्रथम ३६ सर्गों में रामायण की आधिकारिक कथा-वस्तु से भिन्न एक स्वतन्त्र कथानक का वर्णन किया गया है। तत्संबंधी सामग्री दो अलग परिच्छेदों में रखी गई है (दे० नीचे ३, रावण-चरित और ४, हनुमच्चरित)। सीता-त्याग तथा कुश-लव-चरित का विकास अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत है। अतः इन दोनों वृत्तान्तों का वर्णन अलग किया गया है (दे० परिच्छेद ५ और ६)। राम-कथा की समाप्ति अनेक रूपों में वर्णित है। इस महत्त्वपूर्ण विषय का विश्लेषण 'राम-कथा का निर्वहण' नामक अंतिम परिच्छेद में किया जाएगा। प्रस्तुत परिच्छेद में उत्तरकांड की शेष कथा-वस्तु से सम्बन्ध रखनेवाली गौण सामग्री का वर्णन करना है। उत्तरकांड की नृग, निमि आदि विषयक पौराणिक कथाओं का राम-कथा से कोई सम्बन्ध नहीं है और इनका अर्वाचीन राम-कथाओं में प्रायः अभाव है।

१. दे० एच याकोबी, इस रामायण, पृ० २६।

२. शम्बूक-वध एक स्वतन्त्र कथा प्रतीत होती है, जो बाद में जोड़ दी गई है।



## क । शत्रुघ्न-चरित

६२०. वाल्मीकि रामायण के प्रामाणिक काण्डों में शत्रुघ्न-विषयक सामग्री नगण्य है। सभ्य है कि इस अभाव की पूर्ति करने के उद्देश्य से उत्तरकाण्ड के रचयिताओं ने शत्रुघ्न द्वारा लवण-वध तथा मधुपुरी की स्थापना का वर्णन किया है (सर्ग ६०-७२)। कथा इस प्रकार है। भार्गव च्यवन के नेतृत्व में यमुनातट-निवासी तपस्वी किमी दिन राम के पाम पहुँचकर लवण नामक गक्षम में रखा भाँगने लगे। लवण का पिता मधु धामिक था, उसने शिव से एक अजेय शूल प्राप्त कर लिया था और उसे यह वरदान मिला था कि जब तक यह शूल उसके पुत्र के हाथ में रहेगा वह अवध्य होगा—अवध्यः सर्वभूतानां शूलहस्तो भविष्यति (६१, २४)। इस शूल के बल पर लवण अब तपस्वियों को सताया करता था। राम ने शत्रुघ्न का अभिषेक कर उनको लवण का वध करने तथा यमुना पर राजधानी बसाने का आदेश दिया। शत्रुघ्न ने एक विशाल सेना को मधुवन की ओर भेज दिया तथा बाद में अकेले ही वाल्मीकि के आश्रम होकर मधुवन की यात्रा की। शत्रुघ्न ने वाल्मीकि के यहाँ एक रात बिताई; वाल्मीकि ने उन्हें मोदास की कथा सुनाई (अनु० ६२१-६२७) तथा उसी रात्रि में कुश-लव का जन्म हुआ (दे० अनु० ७३९)। दूसरे दिन शत्रुघ्न ने पश्चिम के लिए प्रस्थान किया; उन्होंने च्यवन से मिलकर लवण द्वारा मान्धाता-वध की कथा सुन ली तथा लवण का वध करने के पश्चात् वह मधुपुरी में राज्य करने लगे। बारह वर्ष बीत जाने पर शत्रुघ्न ने राम से मिलने जाने का निश्चय किया। अयोध्या की यात्रा करते हुए वह फिर वाल्मीकि के यहाँ ठहरे तथा उन्होंने इस अवसर पर रामचरित का गान सुन लिया। 'अयोध्या पहुँचकर शत्रुघ्न ने राम के पास रहने की इच्छा प्रकट की किन्तु राम ने क्षत्रिय-धर्म का उल्लेख करके (प्रजा हि परिपाल्या अन्नधर्मेष ७२, १४) उन्हें केवल सात दिन तक अयोध्या में रहने की अनुमति दी।

उत्तरकाण्ड में दो अन्य अवसरों पर शत्रुघ्न का उल्लेख किया गया है। उन्होंने राम के अश्वमेध में भाग लिया (सर्ग ९१) तथा लक्ष्मण की मृत्यु के पश्चात् उन्होंने अपने पुत्र सुबाहु को मधुरा में तथा शत्रुघाती को वैदिश में राज्यसिंहासन पर बँटाकर (सर्ग १०७-१०८) राम तथा भरत के साथ वीणव लेज में प्रवेश किया (सर्ग ११०)।

१. वाल्मीकि तथा शत्रुघ्न की इस द्वितीय भेंट के वर्णन में न सीता और न उनके पुत्रों का उल्लेख है।

## ख । सौदास की कथा

६२१. वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाण्ड के अनुसार वाल्मीकि ने शत्रुघ्न को सौदास की कथा सुनाई थी । इस कथा का विकास अत्यन्त रोचक है । ऋग्वेद के अनुसार मुदास् नामक राजा के दो पुरोहित थे—विद्वामित्र तथा वसिष्ठ । उन दोनों पुरोहितों में वैर उत्पन्न हुआ; वैदिक साहित्य के कई स्थलों पर (विद्वामित्र की प्रेरणा से) सौदासो द्वारा वसिष्ठ के पुत्र का वध तथा यज्ञ के प्रभाव से सौदामो पर वसिष्ठ की विजय उल्लिखित है, बृहद्देवता (अध्याय ६) में यह माना गया है कि वसिष्ठ ने मुदास को राक्षस बन जाने का शाप दिया था । "सौदासा" का मूल अर्थ है मुदास् के अनुचर किन्तु बाद में सौदाम का अर्थ मुदास का पुत्र माना गया और मुदाम् के स्थान पर सौदास को शाप दिए जाने की कथा प्रचलित हुई । इस कथा पर बौद्ध ममार में सुप्रसिद्ध सुतसोम नामक जातक का प्रभाव पड़ा, अतः यहाँ पर सर्व-प्रथम सुतसोम विषयक नामग्री का मिहावलोकन किया गया है (दे० अनु० ६२२) । ब्राह्मण धर्म के यथो मे सौदास की कथा के दो रूप मिलते हैं—एक महाभारत का रूप जिसमें वसिष्ठ दूमरों द्वारा अभिषेक सौदाम को मुक्त करने है (अनु० ६२३), दूसरा, रामायण का रूप जिसके अनुसार वसिष्ठ ने सौदाम को राक्षस बन जाने का शाप दिया था (अनु० ६२४) । दोनों में समान रूप से यह तत्त्व विद्यमान है—नरमामाहार प्रदान करने के कारण सौदाम को १२ वर्ष तक राक्षस बनना पड़ा । सौदामीय कथा के कई रूपान्तर भी मिलते हैं जिनके द्वारा राम का महत्त्व तथा उनकी दयालुता का प्रतिपादन किया गया है (अनु० ६२५) ।

६२२. सुतसोम की कथा ममस्त बौद्ध ममार में ध्याप्त है । पाली तथा मस्कृत साहित्य के अतिरिक्त इस जातक के कई रूप चीनी अनुवादों में सुगंधित हैं । तिब्बत तथा हिन्दैशिया में भी सुतसोम की कथा पाई जाती है । यहाँ पर केवल पाली महासुत सोम जातक का माराण दिया जायगा । सुतसोम इन्द्रप्रस्थ के राजा कोरव्य का राज-कुमार था जो तक्षशिला में ब्रह्मदत्त के पुत्र कल्माषपाद का सहपाठी होने के बाद अपने पिता के स्थान पर राजा बन गया । कल्माषपाद भी वाराणसी का राजा बन गया । वह अपने पूर्वजन्म में नरमक्षक यज्ञ था; इस कारण वह नित्यप्रति मांसाहार किया करता था । किसी दिन कुत्ते राजा का भोजन ले गये और रसोद्ध्ये ने हाल में भरे हुए मनुष्य की जीभ पकाकर परोम दी । राजा ने उस भोजन को पसन्द किया तथा रसोद्ध्ये ने इसका रहस्य प्रकट किया । इसपर राजा ने प्रतिदिन नरमांस तैयार करने

१. विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत लेखक के 'पुरुषाद सौदास' नामक निबंध में देल लें । भारतीय साहित्य, आगरा, वर्ष ५, अंक २, पृ० ७-२७ ।

का आदेश दिया । राजा ने पहले सब कैदियों को छाया ; इसके बाद रसोइया नागरिकों का वध करने लगा जिससे जनता में खलबली मच गई । अन्त में रसोइया रंगे हाथों पकड़ा गया और उसने कहा कि राजा को नरमांस की जरूरत है । तब राजा तथा रसोइये दोनों को निर्वासित किया गया । राजा वन में मनुष्यों का वध किया करता था और रसोइया इनका मांस भूनकर परोसता था । किमी दिन राजा अपने रसोइये को भी खा गया । एक बार ऐसा हुआ कि एक ब्राह्मण के अपहरण के कारण लोगों ने राजा का पीछा किया जिसमें राजा के पैर में चोट लगी । राजा ने एक वृक्ष-देवता से यह प्रतिज्ञा की—अच्छा होने पर मैं तुझे भारतवर्ष भर के १०१ राजकुमारों को अर्पित करूँगा । सात दिन में उसका घाव भर गया (उसका वास्तविक कारण यह था कि उसने इस अनधि भर में अनशन किया था) , इमे वनदेवी का वरदान समझकर वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिये तैयार हो गया । अपने पूर्वजन्म के साथी यक्ष में मंत्र पाकर वह शीघ्रगामी बन गया और उसने एक सौ राजाओं को कैद कर लिया । इसके बाद उसने वृक्षदेवता के आदेश में सुतसोम को भी पकड़ लिया । सुतसोम ने उस दिन जाने समय किमी ब्राह्मण को आश्वस्त्य दिया था कि स्वान में लौटकर मैं आपकी वान गुन लूँगा, अतः उसने नरभक्षक में निवेदन किया कि मुझे ब्राह्मण के प्रति अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने का अवसर दिया जाय । नरभक्षक ने उसको ब्राह्मण के पास जाने की अनुमति दी । सुतसोम ब्राह्मण के पास जाकर, उसमें चार गाथाएँ मीत्वकर और बदले में ब्राह्मण को चार हजार मुद्राये देकर, कल्माषपाद के पास लौटा । कल्माषपाद ये चार गाथाएँ सुनकर प्रसन्न हुआ और उसने सुतसोम को चार वर मांगने की अनुमति दी । सुतसोम ने निम्नलिखित चार वर उससे मांगे—(१) मैं आपको एक सौ वर्ष तक जीवित देख सकूँ; (२) आप उन एक सौ राजकुमारों को न खाये, (३) आप उनको उनके राज्य में वापस भेज दें; (४) आप नर-मांस-भक्षण त्याग दें । तब दोनों में देर तक वार्तालाप हुआ, इसके फलस्वरूप कल्माषपाद ने अपनी आदत को छोड़ना स्वीकार कर लिया । सुतसोम के अनुरोध पर राजाओं ने कल्माषपाद के विरुद्ध कुछ नहीं करने की प्रतिज्ञा की; अन्त में सुतसोम ने कल्माषपाद को उसका राज्य वापस दिला दिया । जिस स्थान पर नरभक्षक के हृदय का परिवर्तन हुआ, वहाँ कम्मासदम्प नामक नगर बस गया ।

बौद्ध साहित्य की परवर्ती रचनाओं में ब्रह्मदत्त के पुत्र मांसाहारी कल्माषपाद को तथा सुदास के पुत्र सौदास को अभिन्न माना गया है और सौदास के मामाहारी बनने का कारण यही बताया गया है कि वह सिंहनी की सन्तान है । कथा का यह रूप जातकमाला के सुतसोमजातक, लकावतारसूत्र, सिंहसौदास-मांसभक्षनिवृत्ति के चीनी अनुवाद, भद्रकल्यावदान आदि में सुरक्षित है । जैनी ग्रन्थों में भी सिंहसौदास

की शर्चा है (दे० पद्मचरिय २२, ७२-९५) । महाभारत के अष्टमेोध पर्व (अध्याय ५६-५८) में सत्यसंघ उत्तक तथा सौदास के विषय में जो कथा मिलती है उसपर बौद्ध सुतसोम जातक की छाप स्पष्ट है ।

६२३. महाभारत के आदिकाण्ड (अध्याय १६६-१६८) में सौदास की कथा इस प्रकार है । राजा कल्माषपाद किसी दिन मृगया के समय वन में वसिष्ठ के ज्येष्ठ पुत्र शक्ति से भेंट करते हैं । भाग देने के प्रश्न पर विवाद छिड़ जाने पर राजा शक्ति पर कोड़े का प्रहार करते हैं, जिस पर शक्ति राजा को पुरुषाद बन जाने का शाप देते हैं । वसिष्ठ के वैगी विश्वामित्र छिपकर दोनों का विवाद सुन लेते हैं तथा वसिष्ठ का अनर्थ चाहकर किकर नामक राक्षस को आदेश देते हैं कि वह कल्माषपाद के शरीर में प्रवेश करे ।

बाद में किसी दिन एक ब्राह्मण ने कल्माषपाद से मामिष भोजन माँगा । अपने रमोद्भये से यह जानकर कि माम अप्राप्य है राक्षस-ग्रस्त राजा ने ब्राह्मण को नर-माम म्बिलाने का आदेश दिया । रमोद्भये ने ऐसा ही किया जिससे ब्राह्मण ने शक्ति के शाप का स्मरण दिलाकर राजा को पुरुषाद राक्षस बनने का पुनः शाप दे दिया । राक्षस के ग्रहण तथा उपर्युक्त दो शापों के फलस्वरूप कल्माषपाद वास्तव में नरभक्षक बन गया । उमने सर्वप्रथम शक्ति का मक्षण किया, अनन्तर विश्वामित्र के आदेश से किकर राक्षस ने राजा को वसिष्ठ के मौ पुत्रों को खाने के लिये प्रेरित किया । अपने समस्त पुत्रों की हत्या का समाचार सुनकर वसिष्ठ ने आत्महत्या का अनेक प्रकार से असफल प्रयत्न किया । बहुत समय बाद वन में कल्माषपाद में वसिष्ठ की भेंट हुई और वसिष्ठ ने अभिन्नित जल द्वारा राजा को, जो १० वर्ष तक राक्षस-ग्रस्त रह चुका था, मुक्त कर दिया । इसपर कल्माषपाद ने वसिष्ठ से निवेदन किया कि वह उसके लिये सतति उत्पन्न करें ।<sup>१</sup> वसिष्ठ राजा के साथ अर्याध्या आकर तथा रानी का गर्भाधान कराकर अपने आश्रम लौटे । बाद में महिषी ने एक पुत्र प्रसव किया जिसका नाम इसलिये अदमक रखा गया कि १० वर्ष तक गर्भ धारण करने के पश्चात् माता ने 'अदम' से अपना उदर खोल दिया था ।

वैदिक साहित्य में वसिष्ठ-विश्वामित्र का पारस्परिक वैर प्रसिद्ध है, महाभारत की उपर्युक्त कथा में भी इस वैर को सौदास की कथा का आधार बना दिया गया है । वैदिक साहित्य तथा महाभारत की कथा का एक महत्त्वपूर्ण अन्तर्ग्रह है कि महाभारत के अनुसार वसिष्ठ शाप नहीं देते; उन्हें वह कल्माषपाद को शाप से मुक्त करते हैं ।

१. इस निवेदन का कारण अन्यत्र स्पष्ट किया गया है (दे० आदिकाण्ड, अध्याय १७३) ।

अतः कल्माषपाद के राक्षस बन जाने के तीन अन्य कारण दिये जाते हैं—(१) शक्ति का शाप; (२) विश्वामित्र की प्रेरणा से किकर नामक राक्षस का आवेश; (३) नरमासाहार के कारण किसी ब्राह्मण का शाप। इस अन्तिम कारण में सुतसोमजातक का प्रभाव देखा जा सकता है; सुतसोमजातक में साधारण मास के अभाव में राजा को नरमांस परोसा जाता है जैसा कि यहाँ पर अन्य मास अप्राप्य होने पर ब्राह्मण को नरमांस दिया जाता है।

बृहदेवता में माना गया है कि वसिष्ठ ने अपने सौ पुत्रों के वर्ध के कारण सुदास को शाप दिया था किन्तु महाभारत में सुदास शापग्रस्त हो जाने के पश्चात् ही वसिष्ठ के पुत्रों का भक्षण करता है जैसा कि सुतसोमजातक में कल्माषपाद, नरभक्षक बनने के बाद ही, १०१ राजाओं का वलिदान तैयार करता है। जानक में बोधिसत्व सुतसोम नरभक्षक को उपदेश देकर व्यसन छोड़ देने के लिए प्रेरित करता है, जैसा कि महाभारत की कथा के अनुसार वसिष्ठ ने अभिमत्रित जल छिड़ककर कल्माषपाद को शाप-मुक्त किया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि महाभारत की कथा पर सुतसोमजातक की गहरी छाप है।

कल्माषपाद नाम का वैदिक साहित्य में सर्वथा अभाव है। यह नाम महामुतसोम जातक (गाथा ८७२), महाभारत तथा रामायण के उत्तरकाण्ड तीनों में समान रूप से मिलता है। इन रचनाओं में से महामुतसोमजातक की गाथाएँ सब से प्राचीन हैं, अतः अधिक संभव यही प्रतीत होता है कि कल्माषपाद का नाम बौद्ध साहित्य में पहले-पहल प्रयुक्त हुआ था। महाभारत, रामायण तथा पुराणों में सुदास, मित्रसह तथा कल्माषपाद तीनों नाम दिये गये हैं।<sup>१</sup> सुदास के पुत्र सुदाम का निजी नाम मित्रसह था; बाद में बौद्ध साहित्य के प्रभाव से उनको कल्माषपाद का नाम भी मिला होगा। हरिवंश पुराण<sup>२</sup> में इस पर बल दिया गया है कि सुदास दो नामों से विख्यात था :

१ रामायण के बालकाण्ड (७०, ४०) में कल्माषपाद; अयोध्याकाण्ड के एक प्रक्षिप्त स्थल पर (११०, २९) कल्माषपाद तथा सुदास और उत्तरकाण्ड की कथा में तीनों नाम आये हैं। दक्षिणात्य पाठ में (७, ६५, १० और १७) सुदास के पुत्र को वीर्यसह तथा मित्रसह कहा गया है किन्तु वह लिपिक की भूल होगी क्योंकि रामायण के अन्य पाठों में सुदास ही को मित्रसह का नाम दिया गया है (दे० गौड़ीय पाठ ७, ७१, ११; पश्चिमोत्तरीय पाठ ७, ६८, १०)।

२. दे० १, १५, २१। यह श्लोक ब्रह्माण्ड पुराण (३, ६३, १७६), लिंग पुराण (पूर्वाह्न ६६, २७), वायु पुराण (२, २६, १७६) आदि में भी मिलता है।

सुदासस्य सुतस्त्वासीत् सौदासो नाम पाण्डिः ।

ख्यातः कल्माषपादो वं नाम्ना मित्रसहरतथा ॥

भागवत पुराण (९, ९, १८) में कहा गया है कि सौदास को कहीं मित्रसह तथा कहीं कल्माषाघ्न के नाम में पुकारा जाता है ।

ततः सुदासस्तत्पुत्रो मदयन्तीपतिर्नृप ।

आहुर्मित्रसहं यं वं कल्माषाघ्नमुत बवचित् ॥

६२४. पर्वर्णी पुराणों तथा राम-कथा-साहित्य में महाभारत की कथा की अपेक्षा रामायण की सौदासीय कथा को प्रामाणिक माना गया है । इस कथा की विशेषता यह है कि इसमें विश्वामित्र का उल्लेख तक नहीं होता । सौदाम की दुर्गति का कारण यह माना जाता है कि उसने मृगया के समय किसी राक्षस को मार डाला था तथा उस राक्षस के माथी के पङ्कज के कारण उसने अनजान में वसिष्ठ को नगमांस परोसा था और फलस्वरूप वसिष्ठ का कोप-भाजन बन गया । रामायणीय कथा की एक अन्य विशेषता यह है कि इसमें सौदास के दूसरे नाम 'कल्माषपाद' की व्युत्पत्ति के विषय में एक सर्वथा नवीन कथा मिलती है । रामायण का वृत्तान्त इस प्रकार है ।

सौदाम ने मृगया के समय व्याघ्र का रूप धारण करने वाले दो राक्षसों को देखकर उनमें से एक का वध किया । प्रतिकार कामकल्प करके दूसरा राक्षस अतर्द्वान् हो गया । बाद में सौदाम ने वसिष्ठ द्वारा अश्वमेध-यज्ञ का आयोजन किया । यज्ञ के अन्त में उस राक्षस ने वसिष्ठ का रूप धारण कर सामिप भोजन माँगा तथा राजा ने इसे तैयार करने का आदेश दिया । बाद में राक्षस नगमान का भोजन हाथ में लिए रसोड्य के रूप में राजा के सामने उपस्थित हुआ । राजा ने अपनी पत्नी मदयन्ती के साथ वसिष्ठ को यह भोजन परोस दिया । इसे सामिप जानकर वसिष्ठ ने राजा को यह शाप दिया—'भोजनमेतत्ते भविष्यति । शाप सुनकर निर्दोष सौदाम को क्रोध हुआ और वह हाथ में जल लेकर वसिष्ठ को प्रतिशाप देने को उद्यत हो गया किन्तु मदयन्ती ने उसे रोक लिया । इसपर सौदाम ने यह 'क्रोधमय, तेजोऽलसमन्वित' जल अपने ही परो पर छिड़क फिँका । फलस्वरूप उसके परो पर धब्बे पड़ गए और उस समय में सौदास कल्माषपाद के नाम से विख्यात हो गया । राक्षस के कपट के विषय में सुनकर वसिष्ठ ने अपने शाप के प्रभाव को १२ वर्ष तक ही सीमित कर दिया । अतः कल्माषपाद ने १२ वर्ष तक शाप का दण्ड भोगने के बाद अन्त में पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लिया ।

१ "राक्षसद्वय" (दे० ६५, ११) । भागवत पुराण, स्कन्द पुराण तथा भावार्थ रामायण के अनुसार दोनों में ब्रातृत्व का संबंध था । कृत्तिसास ने उनको दम्पति माना है ।

तीन पुराणों में सूर्यवंश के वर्णन के अन्तर्गत सौदासीय कथा रामायण के अनुसार दी गई है; अर्थात् विष्णु पुराण (४, ४, ३८-५८); भागवत पुराण (९, ९, २०-२५); स्कंद पुराण (३, ३, २)। भागवत तथा स्कन्द पुराणों में किसी यज्ञ की चर्चा नहीं होती; राक्षस रसोदय के रूप में सौदास के घर में निवास करता है तथा भोजन में निमग्नित कुलगुरु वसिष्ठ के लिये नरमांस तैयार करना है। स्कन्द पुराण के अनुसार कथा का निर्वहण इस प्रकार है—शाप समाप्त होने पर कन्माषपाद अपनी राजधानी लौटना है तथा वसिष्ठ द्वारा मन्त्रि प्राप्ति कर वह पुनः वन के लिये प्रस्थान करता है, जहाँ मूर्त्तमती ब्रह्महत्या पिमाची के रूप में उसे मताती रहती है। वर्षों तक त्रिभिन्न तीर्थों का भ्रमण करने पर वह मुक्त नहीं हो पाता। अन्त में गौतम के परामर्श के अनुसार वह गोकर्ण में निवृत्त-दर्शन के फलस्वरूप ब्रह्महत्या दोष से मुक्त हो जाता है।

मराठी भावार्थ रामायण (७, ५९), कृत्स्निवाम रामायण (१, १९) आदि परवर्ती रचनाओं में भी वाल्मीकि रामायण के वृत्तान्त की सौदास की कथा का आधार माना गया है।

कृत्स्निवास ने सौदास की शापमुक्ति को एक नवीन रूप दिया है। इसके अनुसार वसिष्ठ ने कहा था कि ११ वर्ष तक राक्षस होने के बाद सौदास गंगा-दर्शन द्वारा शाप-मुक्त होगा। इस अवधि के अन्त में एक ब्रह्मदंत्य से सौदास की भेंट हुई, दोनों छः महीने तक द्वन्द्व युद्ध करने के पश्चात् मित्र बन गये। वह ब्रह्मदंत्य शापवश दंत्य बन गया था और सौदास की भाँति गंगाजल द्वारा ही मुक्ति पाने वाला था। तब ऐसा मयोग हुआ कि किमी दिन भ्रमंज ऋषि मित्र पर गंगाजल का घड़ा लेकर दोनों के सामने से ही जा रहे थे। सौदास के अनुरोध पर ऋषि ने कुण से दोनों अभिजातों के शरीर पर गंगाजल छिड़ककर उनको शाप-मुक्त कर दिया।

६२५. राम-कथा-साहित्य में सौदास की कथा के तीन रूपान्तर मिलते हैं। इनकी सामान्य विशेषता यह है कि कोई व्यक्ति अनजान में मामाहार परोमने के कारण ब्राह्मण का शाप-भाजन बन जाता है तथा राम द्वारा मुक्त किया जाता है। अन्तिम दो कथाओं के अनुसार किसी शत्रु के षडयन्त्र के कारण नरमांस परोसा गया था तथा तीसरी कथा में यह माना गया है कि राजा प्रतापमानु ब्राह्मणों का कोप-भाजन बनकर रामायण के प्रतिनायक राक्षस-रावण के रूप में प्रकट हुआ था।

वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाण्ड में सर्ग ५९ के अनन्तर तीसरे प्रक्षिप्त सर्ग में निम्नलिखित कथा मिलती है। गौतम नामक ब्राह्मण ने किसी दिन राजा ब्रह्मदन्त के यहाँ जाकर भोजन माँगा। संयोगवश गौतम के आहार में कुछ मास पड़

गया जिससे गौतम ने राजा को गीघ बन जाने का शाप दिया । राजा के सविनय निवेदन करने पर गौतम ने कहा कि इक्ष्वाकुवध के यशस्वी राजा राम के स्पर्श से तुम मुक्त ही जाओगे । गौतम के शाप के कारण ब्रह्मदत्त गीघ बन गया और राम का स्पर्श पाकर वह दिव्यरूपधारी पुरुष के रूप में परिणत हो गया ।<sup>१</sup>

अध्यात्म रामायण (६, ५, ५-२४) तथा आनन्द रामायण (१, १०, २१५-२१९) में रावण के गुप्तचर शुक के पूर्वजन्म के विषय में निम्नलिखित कथा मिलती है । शुक नामक वनवासी ब्राह्मण देवताओं के हित में लग्न रहने के कारण राक्षसों का शत्रु बन गया था । एक दिन अगस्त्य मुनि उसके आश्रम पधारे; इम अवसर से लाभ उठाकर वज्रदण्ड नामक राक्षस ने अगस्त्य का रूप धारण कर लिया और सामिप्य भोजन के लिए शुक में आग्रह किया । अनन्तर वज्रदण्ड ने शुक की पत्नी को मूर्च्छित कर दिया और स्वयं उसी का रूप धारण कर अगस्त्य को नरमास परीमा और बाद में अनर्द्धान हो गया । इमपर अगस्त्य ने शुक को यह कहकर शाप दिया—“तुमने मुझे अभक्ष्य नरमाम खाने को दिया अतः तुम नरभक्षी राक्षस बन जाओ ।” शुक द्वारा इम शाप का कारण पूछे जाने पर मुनि ने राक्षस की कर्तव्य को जान लिया । उनका शाप व्यर्थ तो नहीं हो सका, किन्तु अगस्त्य ने शुक को आश्वामन दिया कि तुम राक्षस के रूप में रावण के सहायक बन जाओगे; राम के आगमन पर तुम रावण का दूत होकर राम के दर्शन पाओगे और शापमुक्त हो जाओगे । तब रावण के पास लौटकर तथा उसे तत्त्व-ज्ञान का उपदेश देकर परमपद प्राप्त करोगे । तदनुसार लकायुद्ध के समय शुक ने रावण-दूत बनकर राम के दर्शन पाये तथा रावण के पास लौटकर उसको सद्गुपदेश दिया । इमके अनन्तर वह फिर ब्राह्मण शरीर प्राप्त कर बन चला गया ।

गोम्बामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के बालकाण्ड में रामावतार-हेतु के रूप में पांच कथाओं का वर्णन किया है । अन्तिम कथा इस प्रकार है—

“कैकय देश का राजा सत्यकेतु अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रतापभानु को राज्य देकर बन चला गया । प्रतापभानु अपने मंत्री धर्मरुचि तथा अपने अनुज अरिमर्दन की सहायता से समस्त राजाओं को हराकर पृथ्वीमण्डल का एकमात्र राजा बन गया । किसी दिन मृगया के समय प्रतापभानु अपने साथियों से अलग होकर एक आश्रम में पहुँचा जहाँ

१. यह कथा किञ्चित् परिवर्तन सहित पद्मपुराण के सृष्टिलक्षण्ड (अध्याय ३४, ११८-१२६) में मिलती है ।

२. रामचरितमानस में इस कथा का निर्देश मात्र किया गया है, दे० ५, ५७ ।



मुनि के छत्रबेध में एक राजा रहता था जिसका देश प्रतापभानु ने छीन लिया था । कपट-मुनि ने राजा का आतिथ्य-सत्कार किया तथा उसे यह परामर्श दिया कि वह वर्ष भर नित्यप्रति एक लाख ब्राह्मणों के लिए भोजन का प्रबन्ध करे । मुनि ने राजा को आश्वासन दिया कि वह स्वयं रसोइया बनकर अपने पुण्य के बल पर ब्राह्मणों को खिलायेगा और तीन दिन के बाद राजपुरोहित का रूप धारणकर राजा की सेवा में उपस्थित होगा । मुनि का आश्वासन पाकर राजा निश्चिन्त होकर सोने लगा । अब कालकेतु नामक राक्षस कपटमुनि के पास आया । (कालकेतु ही शूकर के रूप में राजा को भटकाकर कपटमुनि के पास ले गया था, उसके वर का कारण यह था कि प्रतापभानु ने कालकेतु के एक सौ पुत्रों तथा दस भाइयों का वध किया था) । मुनि के आदेशानुसार राक्षस ने सोये हुए राजा को घर पहुँचा दिया और राजा के पुरोहित का हरण कर उसे किसी पहाड़ी गुफा में रख दिया । तब वह पुरोहित के रूप में राजधानी में रहने लगा । तीन दिनों के बाद प्रतापभानु ने एक लाख ब्राह्मणों को भोजन का निमन्त्रण दिया और राक्षस ने भोजन में ब्राह्मण का मास मिला दिया । राजा परोसेने लगा था कि आकाशवाणी सुनाई पड़ी और उसमें सब ब्राह्मणों को घर जाने का परामर्श दिया गया क्योंकि रसोई 'भूसुर मासू' की बनी थी । इस आकाशवाणी को सुनकर ब्राह्मणों ने प्रतापभानु को चार दिन में मरकर परिवार सहित राक्षस बन जाने का शाप दे दिया । तदनन्तर पुनः आकाशवाणी हुई कि राजा निर्दोष है । राजा ने रसोई-घर में जाकर देखा कि भोजन और रसोइया दोनों वहाँ में गायब हैं । उसने ब्राह्मणों की बहूत अनुनय-विनय की किन्तु उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों का शाप नहीं टल सकता ।

कालकेतु पुरोहित को फिर राजमहल पहुँचाकर कपटमुनि के पास लाँटा । तब मुनि ने प्रतापभानु के समस्त शत्रुओं को बुलाकर उसकी राजधानी पर आक्रमण किया । उस युद्ध में प्रतापभानु अपनी सेना तथा परिवार सहित मारा गया । समय पाकर प्रतापभानु रावण के रूप में प्रकट हुआ, अरिमर्दन कुम्भकर्ण हुआ तथा धर्मरुचि ने विभीषण का रूप धारण किया । राजा का शेष परिवार और परिचर लका के राक्षस बन गए ।<sup>१</sup>

६२६. सौदास तथा सुतसोम की कथाएँ मूलतः दो सर्वथा भिन्न तथा एक दूसरे से पूर्ण रूपेण स्वतंत्र वृत्तान्त हैं । महाभारत की सौदासीय कथा पर सुतसोम जातक के कथानक का प्रभाव सुस्पष्ट है (दे० अनु० ६२३), किन्तु रामायणीय कथा

१. दे० बालकाण्ड, दो० १५३-१७६ । रामदास गौड़ का कहना है कि अगस्त्य रामायण तथा मंजुल रामायण में भानुप्रताप अरिमर्दन की कथा का वर्णन किया गया है (दे० हिन्दुत्व, पृ० १९७) । दोनों रामायण अप्राप्य हैं ।

मे जो नरमासाहार-प्रदान बसिष्ठ के शाप का कारण माना गया है वह भी बौद्ध-साहित्य का प्रभाव प्रतीत होता है। महाभारत तथा रामायण की सौदासीय कथा में तथा उन कथा के तीनों रूपान्तरो में भी किसी ब्राह्मण का शाप सौदास की दुर्गति का कारण माना गया है। अतः जहाँ बौद्ध मुत्सोम जातक के विभिन्न रूपों का प्रधान उद्देश्य मांसाहार के कुपरिणाम का प्रतिपादन है वहाँ सौदासीय कथा का लक्ष्य ब्राह्मण-शाप का महत्त्व दिखलाना है। सौदासीय कथा के तीन रूपान्तरो के नायक (ब्रह्मदत्त, शुक और रावण) राम के सम्पर्क में शापमुक्त हो जाते हैं। प्रतापभानु की कथा के अनुसार रावण वास्तव में एक घर्मभीरु राजा था जिसने अपने शत्रु के षड्यंत्र से ब्रह्मणो का शापभाजन बनकर अपनी दयनीय दशा द्वारा भगवान को अवतार लेने के लिये बाध्य किया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक दीर्घकालीन विकास के अन्त में सौदास की कथा भक्त-वत्सल भगवान राम के गूणगान में परिणत हो गई है।

६२७. वाल्मीकि रामायण के दो अन्य स्थलों पर नरमांस-भक्षण का उल्लेख है। अरण्यकाण्ड (११, ५५-५६) में निम्नलिखित कथा मिलती है। इन्वल नामक अमुर ब्राह्मण का रूप धारण कर ब्राह्मणों को श्राद्ध के लिये निमंत्रण दिया करता है तथा उनको अपने भाई वातापि का माम खिलाया करता था। भोजन के अनन्तर वह यह कहकर अपने भाई को बुलाया करता था—**वातापे निष्कमस्व**। ये शब्द सुनकर वातापि ब्राह्मणों के शरीर से निकलकर उनका वध किया करता था। इस प्रकार महत्सो ब्राह्मणों की हत्या हुई, अन्त में अगस्त्य ने दोनों अमुरों को मार डाला। उत्तरकाण्ड (सर्ग ७७-७८) में श्वेत की कथा इस प्रकार है। विदर्भ के राजा श्वेत ने बिना भिक्षादान दिय तपस्या की थी जिमसे ब्रह्मलोक प्राप्त करने के पश्चात् भी उसे पृथ्वी पर लौटकर अपने ही मृत शरीर में अपनी भुव शान्त करने का आदेश मिला। अगस्त्य ने श्वेत से एक आभूषण का दान स्वीकार कर उसे उस षण्णित कार्य से मुक्त किया।<sup>१</sup> जावा के रामायण ककविन के अनुसार श्वरी का मुख माम-भक्षण के कारण काला पड़ गया तथा राम ने उसे शुद्ध किया था (दे० अन्० ४८१)।

### ग। शम्बूक-वध

६२८. शम्बूक-वध के वृत्तान्त के दो संबंधा भिन्न रूप मिलते हैं। एक वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाण्ड पर निर्भर है और दूसरा जैन पञ्चमचरित्र के वृत्तान्त पर।

१ पद्मपुराण (मृष्टिखण्ड ३३, ६०-१३२) तथा आनन्द रामायण (गज्य काण्ड १७, ५८-८५) में भी श्वेत की कथा मिलती है। अद्भुत रामायण (सर्ग ६) में श्वेत की कथा का परिवर्तित रूप पाया जाता है। भुवनेश नामक राजा उल्लू के रूप में जन्म लेकर अपने शव को खाने के लिये बाध्य किया जाता है।

## (अ) उत्तरकाण्ड की कथा (सर्ग ७३-८२)

राम नारद से जान लेते हैं कि एक शूद्र की तपस्या ही किसी ब्राह्मणपुत्र की अकाल मृत्यु का कारण है, अतः वह पुष्पक के सहारे उस शूद्र का पता लगाकर उसका वध करते हैं। उसी क्षण देवता प्रकट होकर राम की प्रशंसा करते हैं और राम को वर प्रदान कर इसका स्पष्ट शब्दों में उल्लेख करते हैं कि राम के कार्य से वह शूद्र स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त न कर सका—स्वर्गभाङ्गं नहि शूद्रोऽयं त्वत्कृते रघुनन्दन (७९, ८)। राम मृत ब्राह्मणपुत्र के पुनर्जीवन का वरदान माँग लेते हैं तथा अगस्त्य से मिलकर अयोध्या लौटते हैं। अगस्त्य उस अवसर पर राम को श्वेत राजा (अनु० ६२७) तथा दण्डकारण्य (अनु० ८७२) की कथा सुनाते हैं।

पद्यपुराण के मृष्टिखण्ड (अध्याय ३२, ८९) तथा उत्तरखण्ड (अध्याय २३०, ४७) में भी देवताओं के वरदान से द्विजपुत्र के पुनर्जीवित हो जाने का उल्लेख है।

६२९. महाभारत के एक श्लोक में शम्बूक-वध का उल्लेख किया गया है जिसमें ब्राह्मण-पुत्र देवताओं के वरदान से नहीं किन्तु राम के धर्म से पुनर्जीवित माना गया है :

श्रूयते शम्बूके शूद्रे हते ब्राह्मणदारकः ।

जीवतो धर्ममासाध्य रामात्सत्यपराक्रमात् ॥६२॥

(शांतिपर्व अध्याय १४९)

कालिदास के रघुवंश तथा भवभूति के उत्तररामचरित के अनुसार शम्बूक-वध के द्वारा ही ब्राह्मण-पुत्र पुनर्जीवन प्राप्त करता है।

रघुवंश में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि राजा के द्वारा दंड दिये जाने के कारण वह शूद्र मुक्ति प्राप्त कर सका है :

कृत्तबन्धः स्वयं राज्ञा लेभे शूद्रः सतां गतिम् ।<sup>१</sup>

तपसा दुश्चरेणापि न स्वभार्गविलंघिना ॥५३॥

(१५ वाँ सर्ग)

१. रामायण के एक प्रक्षिप्त सर्ग में एक श्लोक पाया जाता है जिसमें राजा द्वारा बन्धितों के स्वर्ग-प्राप्ति का उल्लेख है।

राजमिर्धुतदंडाश्च कृत्वा पापानि मानवाः ।

निर्मलाः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥३१॥

(किंकिकाण्ड, सर्ग १८)

यह श्लोक मनुस्मृति (८, ३१८) में भी मिलता है।

उत्तररामचरित के द्वितीय अंक में शम्भूक अपने बंध के अनन्तर दिव्य पुरुष के रूप में शकट डूँकर राम से कहता है कि मैं आपके प्रसाद ही से शाश्वत पद प्राप्त करूँगा ।

परवर्ती राम-कथाओं में भी देवताओं के वरदान का उल्लेख नहीं है । किन्तु राम द्वारा शम्भूकबंध की क्रिया ही ब्राह्मणपुत्र के पुनर्जीवन तथा शम्भूक की स्वर्गप्राप्ति दोनों घटनाओं का कारण मानी गई है ।<sup>१</sup>

६३०. आनन्द रामायण (७, १०, ५०-१२२) में प्रस्तुत कथा का परिवर्धित रूप मिलता है । पंचवर्षीय ब्राह्मण बालक के माता-पिता को प्रतिज्ञा दी गई कि यदि उनका पुत्र पुनर्जीवित नहीं होगा तो बदले में उनको कुंश और लव मिल जाएँगे । इस प्रतिज्ञा के बाद राम ने व्रत से लोगों के साथ पुष्पक पर चढ़कर अपने राज्य में अन्न का पता लगाना चाहा । इतने में शृगवेरपुर की ओर से एक ब्राह्मण विधवा अपने पति के शव के साथ आ पहुँची । राम ने उसे जिलाने की प्रतिज्ञा की तथा प्रस्थान करने के पूर्व घोषित किया कि जब तक मैं लौट न आऊँ कोई भी शव न जलाया जाय । तपस्या करने वाले शूद्र के पाम पहुँच कर राम ने उसे वरदान दिया; शूद्र ने अपने उद्धार के अनिश्चित अपनी जाति के लिये सद्गति माँगी । राम ने राम-नाम का जप और कीर्तन शूद्रों की सद्गति का उपाय बताया । इसपर शूद्र ने उत्तर दिया कि कलियुग में शूद्र लोग बड़े मूर्ख होंगे; सदा खेतीबारी के कामों में व्यस्त रहकर उनको जप-कीर्तन आदि के लिये समय कहाँ मिलेगा । राम ने उत्तर दिया कि वे लोग एक-दूसरे से मिलकर नमस्कार करते हुए राम-राम कहेंगे और इसी से उनका उद्धार होगा और तुम भी आज मेरे हाथ से मरकर वैकुण्ठ जाओगे । इतने में अयोध्या में पाँच शव और एकत्र हुए—एक क्षत्रिय, एक वैश्य, एक सेली, एक लोहार की पुत्र-वधू तथा एक शमार की लड़की । राम ने शूद्र का बंध करके सबों को जिला दिया ।

#### (आ) पञ्चमचरित की कथा

६३१. पञ्चमचरित (पर्व ४३) के अनुसार खरदूषण, रावण का भाई न होकर, किसी अन्य विद्याधरवश का राजकुमार है, जिसने रावण की बहन चन्द्रनखा से विवाह किया है । उन दोनों का पुत्र शम्भूक सूर्यहास नामक खग प्राप्त करने के उद्देश्य से साधना करता है । १२ वर्ष की तपस्या के पश्चात् खग प्रकट होता है । सयोग से लक्ष्मण, जो राम तथा सीता के साथ वन में निवास करते हैं, वहाँ पहुँचते हैं । खग

१. उदाहरणार्थ अध्यात्म रामायण (७, ४, २६) । दे० डब्लू प्रिंज, राम एण्ड शम्भूक, जर्मन जर्नल ऑफ इंडोलोजी एंड इरानिस्तिक, भाग ५, पृ० २४१ ।

को देखकर वह उसे उठाते हैं और पास के बाँस को काटकर शम्बूक का सिर भी काट लेते हैं। चंद्रनखा अपने पुत्र से मिलने आया करती है। उसे मरा हुआ देखकर वह विलाप करते-करते वन में भटकते फिरती है और राम तथा लक्ष्मण के पास पहुँचती है। उन दोनों पर आसक्त होकर तथा दोनों से अस्वीकृत होकर वह अपने पति खरदूषण तथा रावण को लक्ष्मण द्वारा शम्बूक-वध की सूचना देती है। इस प्रकार शम्बूक-वध राम-रावण-युद्ध तथा सीता-हरण का कारण बन गया है।

६३२. पउमचरिथं का यह वृत्तान्त किञ्चित् परिवर्तन सहित अनेक राम-कथाओं में पाया जाता है। तेऽगु द्विपद रामायण में शूर्पणखा का पति विद्युज्जिह्व रावण के विरुद्ध विद्रोह करने के कारण रावण द्वारा मारा जाता है। बाद में उसका पुत्र जम्बुमाली अथवा जम्बुकुमार अपनी माता शूर्पणखा से समस्त वृत्तान्त सुनकर रावण से प्रतिकार लेने के उद्देश्य में एक दिव्य खग की साधना करने जाता है। खग प्रकट होने पर लक्ष्मण उसे देखते हैं और वास की झाड़ी पर वह यह खग चलाकर संयोग से तपस्या करते हुए जम्बुकुमार का वध करते हैं (दे० अरण्यकांड, १०)। माग्लादास कृत महाभारत में भी लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा के पुत्र का वध उल्लिखित है। एक अन्य उडिया रचना भृशुआ माधवदास कृत विचित्र रामायण में इस पुत्र का नाम जपामुर रखा गया है।

आनन्द रामायण में भी शूर्पणखा के पुत्र सांब राक्षस का उल्लेख है, जो ब्रह्मा से एक दिव्य खग प्राप्त कर उसी खग से लक्ष्मण द्वारा मारा जाता है (दे० १, ७, ४१-४३)। भावार्थ रामायण (३, ८) की कथा आनन्द रामायण पर निर्भर है। कन्नड तोरवे रामायण में प्रस्तुत वृत्तान्त का परिवर्तित रूप मिलता है। शम्बूक राक्षस इन्द्रपद प्राप्त करने के लिए वन में इतने काल से तपस्या कर रहा था कि एक बल्मीक उसके शरीर के चारों ओर बन गया था। इन्द्र और नारद व्याध के रूप में लक्ष्मण के पास आकर उनको मृगया खेलने का निमंत्रण देते हैं। लक्ष्मण के चले जाने के बाद इंद्र एक बराह की सृष्टि करते हैं जो इन्द्र की प्रेरणा से शम्बूक के बल्मीक की ओर जाता है। लक्ष्मण उसे देखकर एक वाण से बराह तथा शम्बूक दोनों का वध करते हैं (दे० अरण्यकांड, संधि ३)।

दक्षिण भारत के एक वृत्तान्त के अनुसार शूर्पणखा का पुत्र किसी तपस्वी के आश्रम में जाकर पेड़ों के फल खाने लगा। तपस्वी ने उसे पेड़ बन जाने का शाप दिया। शूर्पणखा के बहुत विनय करने पर तपस्वी ने शाप इस प्रकार बदल दिया कि जब विष्णु राम के रूप में आकर उस वृक्ष की एक शाखा काट लेंगे तब शूर्पणखा का पुत्र मुक्ति प्राप्त करेगा (दे० पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १९, भाग १३, पृ० १७२)।

बाबा के सेरसर्काष में एक बाण द्वारा सुरपंदकी के पुत्र के वध का उत्सव मिलता है। सेरी राम के अनुसार शूर्पणखा का पुत्र दसासींगा (दे० अनु० ४६३) अपनी तपस्या द्वारा चंद्रवाली नामक खग प्राप्त करता है तथा संयोग से लक्ष्मण द्वारा वध किया जाता है।

दयाम के राम कियेन (अध्याय १७) में सेरी राम से मिलता जुलता वृत्तान्त मिलता है। अतः यह है कि सदा की भाँति राम कियेन की कथा पर रामायण का प्रभाव अधिक स्पष्ट है। रावण की बहन का नाम सम्भनकला है, जिसका पति जिह्व तथा पुत्र कुम्भकश है। कुम्भकश ने गोदावरी के तट पर एक विषय खग की प्रार्थना के लिए साधना की थी जिसपर ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उस खग को कुम्भकश के सामने गिराया था। ब्रह्मा ने प्रकट होकर कुम्भकश को यह खग हाथ में नहीं दिया इस कारण कुम्भकश ने उसे नहीं ग्रहण किया। बाद में लक्ष्मण वहाँ आकर उसे उठाते हैं। यह देखकर कुम्भकश लक्ष्मण से युद्ध करने लगता है और मारा जाता है। इस घटना के पश्चात् ही रावण किमी दिन संयोग से जिह्व का वध कर डालता है। जिह्ववध का वृत्तान्त सेरीराम के अनुसार है (दे० अनु० ४६३)। ब्रह्मण्यक में लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की दो पुत्रियों के वध का वर्णन किया गया है (दे० अनु० ४६५)।

### घ । राम का अश्वमेध

६३३. वाल्मीकीय वृद्धकाण्ड के अन्तिम सर्ग के अनुसार राम ने दस बार अश्वमेध-यज्ञ का आयोजन किया था (दे० अनु० ६१०)। उत्तरकाण्ड (सर्ग ८३-९९) में राम के प्रथम अश्वमेध का विस्तृत वर्णन मिलता है। राम ने पहले राजसूय सम्पन्न करना चाहा किन्तु भरत ने इसका विरोध किया। अश्वमेध-यज्ञ के द्वारा इन्द्र के ब्रह्महत्यादोष-निवारण तथा इल-इला की वर-प्राप्ति के वर्णन के बाद गोमती के तट पर नैमिष वन में रामाश्वमेध के लिये यज्ञभूमि को तैयार किया गया तथा सुधीव त्रिभोषण, शत्रुघ्न आदि को निमंत्रण दिया गया। इस यज्ञ के अवसर पर कुष और लव ने रामायण का गान किया (दे० अनु० ७३७) तथा सीता ने अपने सतीत्व की शपथ खाकर भूमि में प्रवेश किया (दे० अनु० ७५३)। बाद में राम ने और बहुत से यज्ञ किये थे जिनके लिये एक काचनी सीता का निर्माण हुआ, क्योंकि राम ने सीता के भूमि-प्रवेश के पश्चात् अन्य विवाह नहीं किया :

न सीतायाः परां भार्यां वध्रे स रघुनन्दनः ॥

यज्ञे यज्ञे च पत्न्यर्थं जानकीं काचनीं भवत् ॥७॥

(सर्ग ९९)

रघुवंश (सर्ग १४, ८७) से लेकर परवर्ती राम-कथाओं में प्रायः इस स्वर्णमयी सीता का उल्लेख है। अग्निपुराण में लिखा है कि राम ने अश्वमेध द्वारा अपनी ही आराधना की—**आप्तुदेवं स्वप्नात्मानमश्वमेधैरथायजत्** (१०, ३३)। आनन्द-रामायण के यागकांड के अनुसार राम ने सीता के रहते भी अश्वमेध का आयोजन किया था। इस रचना के जन्मकांड (सर्ग ४) में इसका भी उल्लेख मिलता है कि राम ने सीता-त्याग के पश्चात् एक ही अश्वमेध करने का संकल्प किया था। इसके अतिरिक्त अध्यात्म रामायण (७, ४, २७) तथा आनन्द रामायण (१, १३, २००) के अनुसार राम ने कोटि-कोटि शिवलिंग स्थापित किए थे—**कोटिशः स्थापयामास शिवलिंगानि सर्वशः**।

६३४. वाल्मीकि रामायण में कहीं भी राम के ब्रह्महत्या-दोष का निर्देश नहीं मिलता, किन्तु पौराणिक साहित्य में इसका उल्लेख किया गया है कि रावण-वध के कारण राम को ब्रह्महत्या का दोष लगा था और उसी दोष के प्रायश्चित्त-स्वरूप उन्होंने अश्वमेध किया था।

स्कन्द पुराण में सभवतः पहले पहल राम की ब्रह्महत्या का उल्लेख किया गया है। सेतुमाहात्म्य के अनुसार ब्रह्महत्या से विमोक्ष प्राप्त करने के लिये कोटितीर्थ में (अध्याय २७) तथा गधमादन में (अध्याय ४४) राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी। ब्राह्मखण्ड में राम वसिष्ठ में कहते हैं कि मेरे द्वारा बहुत से ब्रह्मराक्षसों की हत्या हुई है, इस पाप की क्षुद्धि के लिये कौन तीर्थ श्रेष्ठ माना जाता है :

**मया तु सीताहरणे निहता ब्रह्मराक्षसाः ।**

**तत्पापस्य विशुद्धयर्थं ध्व तीर्थोत्तमोत्तमम् ॥२॥**

इसपर वसिष्ठ धर्मारण्य का निर्देश करते हैं और राम वहाँ जाकर उस तीर्थ का जीर्णोद्धार करते हैं (दे० धर्मारण्यखण्ड, अध्याय ३१)।

जैमिनीय अश्वमेध (अ० २९) में इसका प्रथम उल्लेख किया गया है कि राम ने ब्रह्महत्या के प्रायश्चित्त-स्वरूप अश्वमेध करने का संकल्प किया था।

पद्मपुराण के पातालखण्ड के अनुसार राम ने अपने को ब्रह्महत्या का दोषी मानकर वसिष्ठ से निवेदन किया कि वह उस पाप के प्रायश्चित्त का उपाय बता दें और वसिष्ठ ने अश्वमेध के आयोजन का परामर्श दिया।<sup>१</sup> इस अश्वमेध के विस्तृत

१. दे० अध्याय ८। शिवप्रतिष्ठा (अनु० ५८०) के प्रसंग में भी राम के ब्रह्महत्या दोष का उल्लेख है। स्कन्द पुराण (अवलीखण्ड, रेवा खण्ड अध्याय ८३) में हनुमान् भी राक्षसों के वध के कारण ब्रह्महत्या-दोषी माने गए हैं। इस दोष के निवारणार्थ उन्होंने नर्मदा तीर्थ पर बहुत वर्षों तक शिव की उपासना की।

वर्णन के अतर्गत हनुमान् द्वारा शिव की तथा बाद में इश्रादि देवताओं की पराजय का उल्लेख किया गया है। (दे० अध्याय ४४)। रामचन्द्रिका (प्रकाश ३५) के अनुसार राम ने सीतात्याग के पाप के प्रायश्चित्तके लिये अश्वमेध किया था।

## ड। नवीन सामग्री

### राम की यात्राएँ

६३५ अर्वाचीन राम-कथा-साहित्य में राम के अभिषेक के पश्चात् उनकी अनेक यात्राओं का उल्लेख मिलता है। उनमें से लका की यात्रा सब से अधिक प्रसिद्ध है। नृसिंहपुराण (अध्याय २७) के अनुसार राम ने उस अवसर पर लका में पुष्पारण्य की स्थापना की थी। स्कन्दपुराण के नागखण्ड (अध्याय १०१) में माना गया है कि राम ने लक्ष्मण की मृत्यु के पश्चात् सुग्रीव को साथ लेकर लका की यात्रा की थी तथा विभीषण को देव-पूजा का उपदेश देकर सेतुप्रात में तन रामेश्वर स्थापित किए तथा विभीषण के अनुरोध पर सेतु नाट किया था। पद्य-पुराण के मृष्टिखण्ड (अध्याय ३५) में इस यात्रा का विस्तृत वर्णन किया गया है। सीता के भूमि-प्रवेश के बाद राम ने लक्ष्मण को अयोध्या का राज्यभार सौंप दिया और वह भरत के साथ पुष्पक पर चढ़कर पश्चिम में भरत के पुत्रों से तथा अनंतर पूर्व में लक्ष्मण के पुत्रों से मिले। बाद में दोनों दक्षिण की ओर चले गये तथा सुग्रीव को साथ लेकर लका में पहुँच गए। विभीषण ने राम को वामन की वैष्णवी मूर्ति प्रदान की तथा सेतु भंग के लिये राम से निवेदन किया। राम ने उस निवेदन को स्वीकार किया तथा शत्रुघ्न से मिलकर कान्यकुब्ज में वामन की स्थापना की।

कुछ ऐसे वृत्तान्त भी मिलते हैं जिनमें राम विभीषण को सहायता देने के उद्देश्य में लका की यात्रा करते हैं। नारद पुराण (पूर्व खण्ड ७९-२९) में इसका उल्लेखमात्र किया गया है कि राम ने द्रविड देश में विभीषण को मुक्त किया था किन्तु पद्यपुराण के पातालखण्ड (अध्याय १००) में तत्सम्बन्धी कथा इस प्रकार है। शकर किमी दिन शम्भु नामक ब्राह्मण के रूप में अयोध्या आ गए थे कि राम को यह समाचार मिला कि द्रविडों ने विभीषण को कैदी बना लिया है। इसपर राम शम्भु के साथ दक्षिण जाकर श्रीरंग के कारावास में विभीषण से मिले। वहाँ पता चला कि विभीषण ने अनजान में एक विप्र को नैरो से कुचलकर मार डाला था, इसके बाद विभीषण एक पग भी आगे नहीं बढ़ सका था किन्तु ब्राह्मणों से मारे जाने पर वह नहीं मर सका था। अब ब्राह्मण लोग राम से निवेदन करने लगे कि वह विभीषण का बंध करे।



राम ने विभीषण को अपना भक्त कहकर उसे छोड़ाया तथा विभीषण 'अज्ञान' ब्रह्महत्या' का उचित प्रायश्चित्त करके अपनी राजधानी लौटा। आनन्द रामायण के अनुसार राम तथा सीता ने शतस्कंध रावण तथा मूलकासुर द्वारा पराजित विभीषण की सहायता के लिये लंका की यात्रा की थी।<sup>१</sup>

६३६. वाल्मीकि रामायण में भरत द्वारा गधर्व-देश की विजय-यात्रा का वर्णन मिलता है (सर्ग १००-१०१)। इसके बाद लक्ष्मण के पुत्रों के लिये काश्यप तथा मल्ल देश को भी वश में कर लिया गया (सर्ग १०२); इस विजययात्रा का उल्लेख मात्र किया गया है। तिलक नामक टीका में माना गया है कि लक्ष्मण ही के द्वारा राम ने उन देशों को अपने अधिकार में किया था। आनन्द रामायण में भी इन विजययात्राओं का वर्णन है—भरत गधर्वों को तथा लक्ष्मण मल्लों को परास्त करने हैं (राज्यकाण्ड, सर्ग ६)। इसके बाद राम स्वयं पृथ्वी के समस्त राजाओं पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य में विमान पर चढ़कर भारत, जम्बूद्वीप, प्लक्षद्वीप, आदि सात द्वीपों की विजय-यात्रा करते हैं (दे० राज्यकाण्ड, सर्ग ७-९)।

आनन्द रामायण के 'देहद्वयकरण' नामक सर्ग (राज्यकाण्ड, सर्ग २१) में निम्न-लिखित कथा मिलती है। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि वाल्मीकि और विश्वामित्र दोनों ने एक ही समय दूत भेजकर राम को अपने यज्ञ के लिए निमंत्रण दिया। राम ने दोनों का निमंत्रण स्वीकार किया तथा पुरवासियों को विभिन्न सवारियों पर बैठाकर अयोध्या से निकले। जहाँ विश्वामित्र और वाल्मीकि के मार्ग अलग थे, वहाँ से राम ने मर्दों के दो रूप बनाये और इस प्रकार वह एक ही समय दोनों मुनियों के यज्ञ में उपस्थित हुए।

आनन्द रामायण (राज्यकाण्ड, सर्ग २४) के एक अन्य स्थल पर राम की यमपुरयात्रा के विषय में लिखा है कि सुमंत्र अपनी आयु के ९ दिन रहते मर गया था। राम ने यमपुर के लिये प्रस्थान किया; मार्ग में सुमंत्र को ले जाने वाले यमदूतों से भेट हुई। राम ने उनको परास्त कर दिया तथा सुमंत्र को मुक्त कर अयोध्या लौटे।

१. दे० अनु० ६४०-६४१। रामकियेन (अध्याय ३९) में भी विभीषण दो बार सहायता मांगता है। प्रथम बार रावणसखा महापाल देवासुर ने लंका का अवरोध किया था और हनुमान् ने राम के आदेशानुसार वहाँ जाकर उसका वध किया। दूसरी बार रावण का पुत्र बैनासुरिवंश विभीषण को कारावास में रखकर स्वयं लंका का राजा बन गया। राम ने भरत तथा शत्रुघ्न के नेतृत्व में अपनी सेना भेज दी; बैनासुरिवंश तथा उसके सहायक मारे गए और विभीषण ने पुनः लंका का राज्य प्राप्त किया।

आनन्द रामायण के पूर्णकाण्ड (सर्ग १-४) में खोपबन्धी रावणों के आक्रमण का भी वर्णन किया गया है। राम अपनी सेना के साथ उनका सामना करने गए; हस्तिनापुर में छः महीनों तक भीषण युद्ध जारी रहा। अन्त में सीता के अनुरोध पर संधि कर ली गई।

६३७. बालकाण्ड तथा अयोध्याकाण्ड के कथानक के अन्तर्गत राम की तीर्थयात्राओं का उल्लेख हो चुका है (दे० अनु० ३८५ और ४३५)। अभिषेक के पश्चात् भी राम की अनेक तीर्थयात्राओं का वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण के ब्राह्मणखण्ड (धर्मारण्य खण्ड, अध्याय ३३) के अनुसार राम ने धर्मारण्य की तीर्थयात्रा के अवसर पर वहाँ के निवासियों की रक्षा के लिए हनुमान् को नियुक्त किया था। आनन्द रामायण के यात्राकाण्ड में राम द्वारा गंगा-सरयू-सगम (सर्ग ३-५) के बाद क्रमशः पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर (सर्ग ६-९) के तीर्थों की यात्रा का वर्णन किया गया है। इस रचना के विलासकाण्ड (सर्ग ९) के अनुसार राम ने सूर्यग्रहण के उपलक्ष्य में कुरुक्षेत्र की यात्रा की थी।

#### राम का विहार

६३८. वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाण्ड (सर्ग ४२) में रामाभिषेक के पश्चात् तथा सीतात्याग के पूर्व अयोध्या की अशोकवाटिका में राम और सीता के विहार का वर्णन किया गया है। इसमें अप्सराओं के नृत्य के अनिर्गुण मंदिरा तथा मास के सेवन का भी उल्लेख मिलता है :

सीताम्मादाय हस्तेन मधुमंदरेयकं शृचि ॥१८॥

पाययामास काकुत्स्थः शचीमिव पुरन्दरः ।

मांसानि च सुमृष्टानि फलानि विविधानि च ॥१९॥

बाद में राम-सीता के इस विहार की अवधि १०००० वर्ष तक बढ़ा दी गई।<sup>१</sup> फिर भी १५वीं शताब्दी तक इस विहार के विषय में नवीन सामग्री का अभाव है।<sup>२</sup> आनन्द रामायण के विलासकाण्ड (सर्ग ५) में राम-सीता की जलक्रीडा तथा जन्म-काण्ड (सर्ग २) में दोनों के वनविहार का वर्णन मिलता है। इस सामग्री पर कृष्ण-कथा का प्रभाव अत्यन्त स्पष्ट है; राम बहुत-सी स्त्रियों को आश्वसन देते हैं कि वे कृष्णावतार में उनकी पत्नियाँ बन सकेंगी (दे० अनु० ७८७)।

१. सभी पाठों में तस्सम्बन्धी अर्द्धश्लोक प्रक्षिप्त माना गया है; दे० ७.४२ २६।

२. विवाह के पूर्व (अनु० ३८७), विवाह के अनन्तर (अनु० ३५३, ६) तथा चित्रकूट (अनु० ४४० और ५०७) में राम के विहार का उल्लेख हो चुका है।

अन्यत्र भी राम की इन विलास-विषयों का वर्णन किया गया है; उदाहरणार्थ—रामकल्याण (सर्ग १३), तुलसीदासकृत मीतावली के उत्तरकाण्ड में राम-हिबोला, होलकोस्तब; केशवदास की रामचन्द्रिका में वाटिका-विहार (प्रकाश ३१) तथा जल-विहार (प्रकाश ३२)।

आनन्द रामायण (राज्यकाण्ड सर्ग ११-१२; मनोहर काण्ड सर्ग १२) में राम की मृगया तथा रामचन्द्रिका (प्रकाश २९) में राम के चीगान का भी उल्लेख मिलता है।

सीता द्वारा रावण-वध

६२९. बहुत सी अर्वाचीन राम-कथाओं में सीता द्वारा सहस्रस्कन्ध रावण के वध का वर्णन मिलता है; 'अद्भुत रामायण (दे० सर्ग १७-२७) की तत्सम्बन्धी विस्तृत कथा इस प्रकार है। सहस्रस्कन्ध रावण विश्रवा तथा कैकयी का पुत्र है जो पुष्कर में राज्य करता है। किमी दिन विश्रवामित्र आदि मुनि अयोध्या आकर रावण-वध के कारण रामकी प्रशंसा करते हैं। इसपर मीता मुस्कराकर सहस्रस्कन्ध रावण की कथा सुनाती है, जिनने इन्द्र आदि देवताओं को पुष्कर में कारागार में रख दिया है। यह सुनकर राम-सीता मेना के साथ पुष्कर जाते हैं। रावण वायव्य शर में समस्त सेना अयोध्या तक उडाता है तथा द्वन्द्व युद्धमें राम का वध करता है। तब सीता देवी का महाविकट रूप धारण कर सहस्र-स्कन्ध रावण तथा उसके योद्धाओं का भी सिंग काटकर नाचने लगती हैं, जिसमें समस्त मृष्टि संकट में पड जाती है (नवत आनकी बेबी घोरकाली महाबला २३, ६३)। ब्रह्मा आदि देव आकर नृत्य समाप्त करने का मीता में अनुरोध करने है। मीता उनके अनुरोध को अस्वीकार करती है क्योंकि राम मारे गये हैं। इसपर ब्रह्मा राम को पुनर्जीवित करते हैं और राम परमशक्ति के रूप में सीता को स्तुति करके उनमें अनुरोध करते हैं कि वह अपना विकट रूप त्याग दे। तब सीता अपना साधारण रूप धारण कर लेती है और राम के माथ पुष्पक पर चढ़कर अयोध्या लौटती है।

बंगाली राम-कथा साहित्य में सहस्रस्कन्ध रावण के वध का वर्णन अद्भुत रामायण पर आधारित है (दे० अनु० २८६-२८७)।

उड़िया रामसाहित्य में प्रस्तुत प्रसंग के दो अन्य रूप मिलते हैं। बिल्का रामायण के पूर्व-खण्ड के अनुसार जब सहस्रस्कन्ध रावण ने राम, लक्ष्मण तथा हनुमान् को

१. जैमिनी भारत के आश्रमपर्व में इसके विषय में जो कथा मिलती है, वह सहस्रमुखरावण-चरित्र के नाम से प्रचलित है। दे० मद्रास कैंटालॉग नं० डी० २०९८।

परास्त किया था, तब सीता ने मंगला देवी से पुष्प-धनुष तथा पाँच शर प्राप्त कर रणभूमि में प्रवेश किया। उन्होंने मनोहर रूप धारण कर पुष्प-धनुष के पाँच शर रावण पर चलाये और राम ने कामानुर रावण के समस्त सिर काट दिये। बिलंका-खण्ड की कथा इस प्रकार है। दमस्कंध रावण के वध तथा त्रिभीषण के अभिषेक के बाद, पहले अंगद को तथा बाद में हनुमान् को सहस्रस्कन्ध रावण के पास सधि करने के उद्देश्य से बिलंका भेजा गया। सहस्रस्कन्ध रावण सधि का प्रस्ताव ठुकराकर युद्ध करने आया। उसने राम तथा लक्ष्मण को शक्ति-प्रहार द्वारा मूर्च्छित करके सीता का हरण करना चाहा किन्तु सीता के शरीर से एक गधर्व-सेना निकली जिसने रावण का वध किया।

आज्ञारिया नामक आदिवासी जाति में (दे० अनु० २७७) सहस्र-स्कन्ध रावण के द्विषय में निम्नलिखित कथा प्रचलित है। रावण-वध के बाद सीता ने राम से कहा कि पाताल में एक महस्र-स्कंध रावण निवास करता है। इस पर राम ने वाण माँकर उस रावण को आहत तो किया किन्तु उसने रामवाण को अपने पैर से निकालकर कहा—जिसने तुमको भेजा है उमी के पास जाकर उसे मार डालो। वाण के आघात से राम मूर्च्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। तब सीता ने राजा लोगुन्दी के पास जाकर उससे कोयले का एक पात्र माँग लिया और यह निवेदन किया कि आज्ञामुर तथा लोहामुर भेरे साथ भेज दिये जायें। राजा की स्वीकृति प्राप्त होने पर सीता एक हाथ में कोयले का पात्र तथा दूसरे में तलवार लिये उन दोनों के साथ चल पड़ी। कोयले के धुँएँ के कारण सीता का रंग काला पड़ गया। उन्होंने रावण के पास पहुँचकर उसके सिर काट डाले और आज्ञामुर-लोहामुर ने रावण का रक्त पी लिया।'

६४०. आनन्द रामायण के राज्य काण्ड (सर्ग ४, ८०-८५) के अनुसार शतशीर्ष रावण श्रौण नदी के तट पर मायापुरी में निवास करता था। कुम्भकर्ण का पोता निकुम्भ-पुत्र पौंड्रक उसमें सहायता माँगने गया, दोनों ने मिलकर त्रिभीषण को परास्त कर दिया और लका में राज्य करने लगे। त्रिभीषण सहायता के लिये राम के पास आया। राम सीता तथा त्रिभीषण के साथ लका चले गये। राम युद्ध में परास्त हुए किन्तु सीता ने शतशीर्ष रावण तथा पौंड्रक दोनों का वध किया। अशोकवन में रावण से संवाद करते समय सीता ने इन घटना के विषय में भविष्यवाणी की थी (दे० १, ९, ९३)। तत्संबन्ध रावण (७, १-२) में निम्नलिखित कथा मिलती है।

१. ब्रजलोक साहित्य में प्रचलित एक कथा के अनुसार सीता ने पलंका-निवासी सहस्रस्कन्ध रावण का वध किया और इसके बाद कलकत्ते में काली माई हो गईं। दे० भारतीय साहित्य वर्ष २, अंक ३, पृ० ९४। जायसी की पदमावत में भी (२०६, २) में भी पलंका का उल्लेख है।

मुनि किसी दिन अयोध्या आकर राम से कहने लगे कि एक शतानन रावण रक्तविन्दु नामक आसुर के साथ सप्त समुद्र के उस पार निवास करता है। सीता ने उस रावण का वध करने की इच्छा प्रकट की; राम ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया और सीता तथा हनुमान् को एक विशाल सेना के साथ पुष्पक पर भेज दिया। सीता ने युद्ध में १८ भुजाओं वाला त्रिकट रूप धारण कर शतानन रावण का वध किया। शतस्कंध रावण के वध की कथा अन्यत्र भी पाई जाती है; उदाहरणार्थ—सीताविजय (मद्रास कैंटालॉग. न० आर० १४८ और ९९४); शतमुखगवणचरित (वही न० आर० ६४७); अमृतराव और कृत मराठी शतमुखरावणवध, राममोहन दन्धोपाध्याय कृत बंगाली रामायण।

उडिया बिलंका रामायण के उत्तरखंड का अर्थ-विषय है काली का रूप धारण करने वाली सीता द्वारा लक्ष्मीर्ष रावण का वध।

६४१. आनन्द रामायण (७, सर्ग ४-६) के अनुसार शतशीर्ष-रावण के वध के कुछ समय बाद विभीषण फिर राम की सहायता माँगने के लिये अयोध्या आया। अबकी बार कुम्भकर्ण के मूलकासुर नामक पुत्र ने पाताल-निवासी राक्षसों की सहायता से छ महीने के घमामान युद्ध के बाद विभीषण को लंका से निकाल दिया था। राम ने अपनी तथा सुग्रीव की सेना के साथ विमान पर चढ़कर लंका के लिए प्रस्थान किया। लंका में सात दिन तक मूलकासुर के साथ युद्ध हुआ जिसमें हनुमान् ने पहले की भाँति द्रोणाचल ले आकर मृत वानरों को जिलाया। इसके बाद ब्रह्मा ने आकर राम से कहा कि एक तो मैंने मूलकासुर को यह वर दिया है कि वह किसी वीर के हाथ से नहीं मरेगा; दूसरे, किसी ऋषि ने उसको सीता के हाथ से मरने का शाप दिया। यह सुनकर राम ने गरुड को आदेश दिया कि वह सीता को ले आएँ। सीता ने लंका पहुँचकर अपनी तामसी छाया को युद्ध के लिए प्रेरित किया। इतने में वानर मूलकासुर का यज्ञ-विध्वंस करके लौटे। अब सीता की तामसी छाया ने चंडी का रूप धारण कर लिया तथा सात दिन तक युद्ध करने के पश्चात् मूलकासुर का वध किया। आनन्द रामायण (१, ९, ९४) में सीता-रावण-संवाद के अन्तर्गत भी इस घटना का उल्लेख मिलता है। आर्षार्थ रामायण (७, अध्याय ७०-७२) के अनुसार कंकेयी ने मूलकासुर की माता को परामर्श दिया कि वह अपने पुत्र को तपस्या तथा प्रतिकार के लिए प्रेरित करे। वर-प्राप्ति के बाद मूलकासुर ने विभीषण को लंका से निकाल दिया तथा सीता ने पुंरुष का रूप धारण कर उसको मार डाला। शर्वलिणामृत (सर्ग १५) में भी सीता द्वारा कुम्भकर्ण के पुत्र कुंभगर्भ के वध का उल्लेख किया गया है।

### ३. रावण-चरित

६४२. उत्तरकाण्ड के प्रारंभ में जो विस्तृत रावण-चरित पाया जाता है उसे प्रक्षिप्त उत्तरकाण्ड का एक नया प्रक्षेप मानना चाहिए (दे० अनु० ६१८)। प्रस्तुत निबन्ध के सततर्षे अध्याय में यह भी दिखलाया गया है कि रामचरित से अलग रावण के विषय में प्राचीन स्वतंत्र काव्य का कहीं भी निर्देश नहीं मिलता (दे० अनु० १०२)। वैदिक साहित्य में रावण, कुबेर, विश्रवा, वैश्रवण आदि का सकेत नहीं किया गया है। पाली जातकट्टवण्णना में वेस्सवण (यक्खो के राजा) का बहुत से स्थलों पर उल्लेख किया गया है, रावण का कहीं भी नहीं। महाभारत में रावण का उल्लेख केवल राम-कथा के प्रसंग में आया है, किन्तु धनेश, कुबेर, वैश्रवण आदि का उल्लेख स्वतंत्र रूप से असह्य स्थलों पर किया गया है। इससे यह अनुमान दृढ़ हो जाता है कि वैश्रवण अथवा कुबेर रावण-कथा से पूर्व ही प्रसिद्ध हो चुके थे। बाद में ही रावण के साथ उनका मबंध स्थापित किया गया है।

संस्कृत हस्तलिपियों की सूचियों में रावण के नाम बहुत सी अर्वाचीन रचनाओं का उल्लेख मिलता है उदाहरणार्थ—अकंप्रकाश (वैद्य), कुमार-तत्र (वैद्य), इन्द्रजाल (उड्डीण) प्राकृतकामधेनु प्राकृतलकेश्वर, ऋग्वेद-भाष्य, रावणभेट (यजुर्वेद) आदि। बलरामदास रामायण में माना गया है कि रावण न वैदिक मंत्रों का सम्पादन करके वेदों की एक नई शाखा चलाई।

६४३. रावणचरित भिन्न-भिन्न राम-कथाओं में विभिन्न स्थलों पर रखा गया है। बाल्मीकि रामायण के अनुसार राक्षसों के वध के कारण राम की प्रशंसा करने के लिये तपस्वी रामाभिवेक के पश्चात् अयोध्या आय और उसी अवसर पर अगस्त्य ने राक्षस-वध का इतिहास सुनाया था। तदनुसार बहुत-सी राम-कथाओं में रावण की कथा उत्तरकाण्ड के अन्तर्गत मिलती है। महाभारत में रावणचरित का सक्षिप्त वर्णन रामोपाख्यान के प्रारम्भ में रखा गया है। जैन षडमचरितं राक्षस तथा वानर-वध के इतिहास से प्रारंभ होता है तथा निम्नलिखित राम कथाओं में भी रावण-चरित का कुछ वर्णन भूमिका में ही किया गया है—तिड्वती तथा श्रोतानी रामायण हिन्देक्षिया के सेरीराम तथा सेरत काण्ड, श्याम के रामकियेन तथा रामजातक।

काव्यीयों रामायण में प्रस्तुत सामग्री सुन्दरकाण्ड के अन्तर्गत रखी गई है। संका में सीता की खोज करती हुए हनुमान् नारद से मिलते हैं और नारद हनुमान् को संका की सृष्टि तथा रावणवंश की कथा सुनाते हैं।

दक्षिण भारत के एक वृत्तान्त के अनुसार अगस्त्य ने सीताहरण के पूर्व वनवासी राम से रावणचरित का वर्णन किया था (दे० पादशात्य वृत्तान्त न० १)।

### क। वशावली

६४४ वाल्मीकि के प्रामाणिक काण्ड राक्षसवंश के इतिहास के विषय में मौन है। शूणखा रावण की बहन और कुभकर्ण तथा विभीषण उसके दो भाइयों के अतिरिक्त एक तीसरे भाई खर का भी उल्लेख है जिसका सेनापति दूषण था। दाक्षिणात्य पाठ में रावण की माता का नाम कैकयी है अन्य पाठों के अनुसार निष्पा उसका नाम था (गौ० रा० ५ ७६ प० रा० ५ ७५), भागवत पुराण (७ १ ४३) में केचिनी तथा उडिया राम-साहित्य में नउकेणी का उल्लेख है।

युद्धकाण्ड में रावण को क्षत्रिय की उपाधि दी गई है (दे० ६ १०९ १९) किन्तु राम-कथा के विकास के साथ-साथ रावण का भी महत्त्व बढ़न लगा था जिसमें उत्तरकाण्ड के रचना-काल के समय तक रावण को ब्रह्मा का वंशज माना गया है। उत्तरकाण्ड में राक्षसवंश की उत्पत्ति तथा रावण की वशावली की कथा इस प्रकार है।

प्रजापति न जल की सृष्टि करने के पश्चात् कुछ प्राणियों की सृष्टि की (सर्वान-सृजन्तु; ४ ९) तथा उनको जल की रक्षा करने का आदेश दिया। इनमें से कुछ ने उत्तर दिया—रक्षाम, दूसरों ने कहा—वषाम (४ १२)। अतः ब्रह्मा ने पहले वर्ग को राक्षस तथा दूसरे वर्ग को वष का नाम दिया। राक्षसों के दो नेता थे—हेति और प्रहेति। हेति के पुत्र विद्युत्केश से सुकेश उत्पन्न हुआ (सर्ग ४)। सुकेश के तीन पुत्र उत्पन्न हुए—माल्यवान्, सुमाली और माली। तीनों ने तपस्या करके ब्रह्मा से अमरत्व का वरदान प्राप्त कर लिया तथा विश्वकर्मा ने उनके लिये त्रिकूट

१ शूर्पणखा-रावण का खर-दूषण के साथ जो संबंध था इस पर ऊपर (अनु० ४६३) विचार हो चुका है।

पर लका का निर्माण किया।' तब तीनों भाई देवताओं तथा तपस्वियों को सताने लगे, विष्णु ने मांकी का वचन करके राक्षसों को परास्त कर दिया और वे सुमाली के नेतृत्व में लका छोड़कर रसातल चले गये (सर्ग ५-८)। कुछ समय बाद सुमाली किनी दिन अपनी पुत्री कंकरी के साथ पृथ्वी पर अभ्रमण करने निकला। सुमाली ने विश्रवा के पुत्र वैश्रवण को (दे० अ० ६४९) पुष्पक पर विराजमान देखकर अपनी पुत्री को विश्रवा के पास भेज देन का निश्चय किया। अपने पिता के आदेशानुसार कंकरी विश्रवा के यहाँ चली गई। विश्रवा उस समय अग्निहोत्र कर रहे थे, उन्होंने कंकरी को पत्नी के रूप में स्वीकार करके कहा कि तुम इस दारुण वेला में (ब रगाया तु वेलायाम् ० २२) आई हो इसलिए तुम्हारे पुत्र कूकर्म राजस होग। कंकरी के अनुनय करने पर विश्रवा ने उन आशवासन दिया कि उनका अन्तिम पुत्र क्षमामा होता (दे० अ० ५६९)। उन कंकरी ने क्रमशः दसप्रीव, कुभकर्ण शूर्पणखा तथा विभोषण का जन्म दिया। दशप्रीव तथा कुभकर्ण शाघ्र ही लोगों को

- १ लका के वन में 'स्वर्गं प्राकारमवीता' तथा 'हेमतोरणसवृता' के विशयणों का प्रयोग हुआ है (दे० ७ ५ २५)। इसके आधार पर स्वर्णलका विषयक कथाओं की उत्पत्ति हुई होगी। **अनन्द रामायण** (१ ९ २३३ २०६) की तत्सम्बन्धी कथा इस प्रकार है। विष्णु की कृपा से किमी दिन एक गज और एक भ्रूत अपने अपने शरीर छोड़कर मुक्त हुए। विष्णु ने गहड़ की उनके शरीर स्थान की अनुमति दी। गहड़ ने एक गृध्र का भी वध किया तथा गज-ग्राह गृध्र के शव उठाकर क्षीरसागर के एक स्वर्ण वृक्ष की शाखा पर बँट गया। शाखा टूट गई और गहड़ उसे उठाकर लका ले गया। वहाँ पहुँचकर उसने तीनों का शव खा लिया। गज-ग्राह-गृध्र की हड्डियों से वहाँ तीन शिखर बन गए जिसमें त्रिकूट नाम चल पडा। गहड़ उन शिखरों पर स्वर्ण शाखा रखकर चले गए। यह शाखा पाषाण के समान बन गई, राक्षस उसे न पहचान सके थे किन्तु लकादहन के समय वह द्रवित होकर गिर गई और इसमें लका की भूमि स्थगमयी बन गई। वाल्मीकि रामायण (३ ३५ २७ ३२) कथासरित्सागर (द्वितीय लवक की चतुर्थ तरंग १४१-१४४) तथा काश्मिरी रामायण (सुन्दर काण्ड न० २९) के तत्सम्बन्धी वृत्तान्त इसमें अधिक भिन्न नहीं हैं। महाभारतीय कथा (आदि पर्व २५-२६) में लका की ओर निर्देश नहीं मिलता। रंगनाथ रामायण (६, १८) में माना गया है कि वायु ने किमी समय हेमाद्रि के शिखर को उड़ा दिया था और वह समुद्र में गिरकर त्रिकूट के नाम से विख्यात हुआ। सांग्लादाम के महाभारत (वनपर्व) में हेमाद्रि के स्थान पर में लका उल्लेख है। भागवत पुराण (८ २) में गज मीक्ष की कथा के अनन्त क्षीरसागर में स्थित त्रिकूट नामक पर्वत का उल्लेख तो किया गया है किन्तु इसमें लका का निर्देश नहीं मिलता।
- २ ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त्य ने तृणविन्दु की पुत्री से विश्रवा को उत्पन्न किया था (दे० सर्ग २)।



सताने लगे (लोकोद्देशकर्त्री) किन्तु धर्मात्मा विभीषण वेदों के अध्ययन में अपना समय लगाकर नियताहार तथा जितेन्द्रिय था (सर्ग ९) ।

६४५. महाभारत के रामोपाख्यान (अध्याय २५९) में पुलस्त्य वैश्रवण के पिता बन जाने के बाद स्वयं विश्रवा का रूप धारण कर लेता है तथा विभिन्न पत्नियों से रावणादि को उत्पन्न करता है—पुण्डोत्कटा से रावण तथा कुम्भकर्ण को, मालिनी से विभीषण को तथा राका से खर तथा शूर्पणखा को ।<sup>१</sup> कूर्म पुराण (पूर्व विभाग, अ० १९) के अनुसार विश्रवा ने देववर्णिनी से वैश्रवण को; कैंकसी से रावण, कुम्भकर्ण, शूर्पणखा तथा विभीषण को, पुण्डोत्कटा से महोदर, प्रहस्त, महापाश्र्वं, खर तथा कुंभीनसी<sup>२</sup> को; वाका से त्रिशिरा, द्रुषण तथा विद्युज्जिह्व को उत्पन्न किया था । सौरपुराण (अ० ३०) की वशावली कूर्म पुराण के अनुसार है; अन्तर यह है कि इसमें पुण्डोत्कटा के पुत्र खर का उल्लेख नहीं मिलता । क्षेमेन्द्र कृत बशावतारचरित में रावणादि को विश्रवा तथा पुण्डोत्कटा की सन्तान माना गया है । आनन्द रामायण (१, १३, २४) में विश्रवा तथा कैंकसी के तीन पुत्रों और तीन पुत्रियों का उल्लेख है—रावण, कुम्भकर्ण, क्रीची, शूर्पणखा, कुंभनसी तथा विभीषण । काश्मीरी रामायण (सुन्दर काण्ड, न० ३०) में रावण, खर, शूर्पणखा, कुम्भकर्ण, विभीषण तथा वैश्रवण में सब सहोदर भाई-बहन माने जाते हैं । अब्भुत रामायण (दे० अनु० ६३९) के अनुसार सहस्रस्कन्ध रावण भी विश्रवा तथा कैंकसी का पुत्र था ।

१. तुलसीदास ने भी विभीषण को रावण की विमाता की सन्तान माना है— भयउ विमात्र बहु लघु तासू । नाम विभीषण (रामचरितमानस १, १७६, ४) ।
२. वाल्मीकि रामायण के एक प्रक्षिप्त अंग में (युद्धकांड, सर्ग ६९-७०) महापाश्र्वं और महोदर दोनों रावण के भाई माने गए हैं । उत्तरकांड (सर्ग ५) के अनुसार महापाश्र्वं कैंकसी का भाई तथा रावण का मामा था ; अन्यत्र वह रावण का मन्त्री मात्र माना जाता है (सुन्दरकांड सर्ग ४९; युद्धकांड, सर्ग १३ और ९८) । युद्धकांड के अनेक स्थलों पर सहोदर की चर्चा है किंतु रावण के साथ किसी रिश्ते का निर्देश नहीं मिलता (दे० सर्ग ६४, ६५ और ९७) । उत्तरकांड में महोदर को पहले सुमाली का सचिव (सर्ग ११) तथा बाद में रावण का सचिव (सर्ग १४ और २३) कहा गया है । वाल्मीकि रामायण में दो कुंभीनसी नामक राक्षसियों का उल्लेख है । पहली कुंभीनसी सुमाली-केतमती की पुत्री तथा कैंकसी की बहन है (७, ५, ४०); दूसरी माल्यवान् की नतिनी तथा विश्रवसी—अनला की पुत्री है (७, २५, २३) । मधु ने अनला की पुत्री कुंभीनसी का हरण करके उससे लवण को उत्पन्न किया (७, ६१, १७) ।

इतनी विभिन्नता से स्पष्ट है कि प्राचीन काल से ही कोई एक आनाधिक राजस व गावली प्रचलित नहीं है।

६४६. जैन तथा विदेशी राम-कथाओं में रावण की वंशावली और अधिक भिन्न है। पञ्चमखरिब के अनुसार सुकेश के तीन पुत्र हैं—माली, सुमाली और माल्यवान्। सुमाली का पुत्र रत्नलवा अपनी पत्नी केकसी से क्रमशः दशमुख, भानुकर्ण, चन्द्रणखा तथा विभीषण को उत्पन्न करता है। वैश्रवण को यक्षपुर के राजा विश्वसेन तथा केकसी की बहन कौशिकी का पुत्र माना जाता है।

गुणभद्र के उत्तरपुराण में रावण के पूर्वजों की नामावली इस प्रकार है—सहस्र-घ्रात्र, शतघ्रीव, पचासद्वीव, पुलस्त्य और रावण। सधदास की बसुदेवहिण्डि में क्रम इस प्रकार है—त्रलि, महच्छघ्रीव, पचशतघ्रीव, शतघ्रीव, पचासद्वीव, वि-शतिघ्रीव। त्रिशतिघ्रीव की चार पत्नियाँ हैं—देववाणिनी, वक्रा, कंकेयी तथा पुष्पकूट। कंकेयी (यह कंकसी ही होगी) में रावण कुभकर्ण, विभीषण त्रिजटा तथा शूपणखा जन्म लेते हैं।

सेरीराम के अनुसार ब्रह्मराज नामक इन्द्रपुर का राजा ब्रह्मा का वंशज था, उसके एक पुत्र का नाम चित्रबहा (विश्रवा) था। चित्रबहा न दतिआ कूञ्च नामक राजस को परास्त कर उसको पुत्री रक्षपन्दी से विवाह किया, रक्षपन्दी से दशमन्ध रावण का जन्म हुआ। रावण दुर्गाचार के कारण निर्वासित होकर लका पहुँच गया, इसके बाद ही कुभकर्ण विनुमनम (विभीषण) और सूर पदाकि (शूर्पणखा) उत्पन्न हुए।<sup>१</sup> सेरत काण्ड में चित्रबहा एक पत्नी इन्द्रतनी से रावण को उत्पन्न करता है तथा दूसरी पत्नी मुकेशी से अम्बकर्ण (कुभकर्ण) सर्पणखा (शूर्पणखा) तथा विभीषण को। इस वृत्तान्त में कुभकर्ण तथा सर्पणखा यमल हैं। ग्याम के रामकियेन में (अध्याय ३) चतुर्बक्त्र का पुत्र लस्तियेन (पुलस्त्य) की पाँच पत्नियों का उल्लेख किया गया है—(१) श्री मुनन्दा, कुबर की माता, (२) चित्रमाली, देवनासुर की माता, (३) सुवणमाला, अशघाता की माता, (४) वरप्रभा, भारण की माता, (५) रजता जो दशकठ कुभकर्ण, विभेक (विभीषण) शूपण, सर और सम्मखा (शूर्पणखा) की माता है।

१ राफल्स की हस्तलिपि के अनुसार उनकी जन्मकथा इस प्रकार है। लका में पहुँचने के बाद रावण ने अपने साधियों के हाथ से अपने माता-पिता के पास तीन बमल भेजकर उनको यह सन्देश दिया कि इन कूलों को खाने से दो पुत्र तथा एक पुत्री उत्पन्न होंगे। जन्म के बाद ही उनको लका भेजना चाहिए नहीं तो उनके माता-पिता मर जाएँगे। चित्रबहा तथा उसकी पत्नी ने अपनी सन्तान को लका नहीं पहुँचा दिया जिससे दोनों मर गए।

६४७. रावणवधक में वशरथ तथा वैश्वानर का एकिकरण किया गया है तथा रावण को वशरथ का भतीजा माना गया है (दे० अनु० ३३६)। वाल्मीक्यात्मक के अनुसार ब्रह्मा ही वशरथ की देवराणी के गर्भ में प्रवेश करते हैं और हाथ में धनुष तथा तलवार लिये जन्म लेकर रावण कहलाते हैं। ब्रह्मचक्र में रावण की जन्मकथा इस प्रकार है। लंका के महाराज की पुत्री विवाह करना अस्वीकार करती है और किसी ऋषि के यहाँ वन में साधना करने जाती है। किसी दिन ब्रह्मा उसके पास आकर कहते हैं कि तुम तीन पुत्रों की माँ बननेवाली हो तथा उसकी नाभि तीन बार हाथ से छूकर चले जाते हैं। बाद में वह ब्रह्मचक्र (रावण), कुम्भकर्ण तथा विभीषण को जन्म देती है, तीनों ब्रह्मा की सन्तान माने जाते हैं। बाद में ब्रह्मा से वर पाकर रावण पृथ्वी पर का सबसे बड़ा थोड़ा बनना चाहता है, कुम्भकर्ण नींद चुनता है और विभीषण प्रजा तथा धार्मिकता माँग लेता है। ब्रह्मा ने रावण को आश्वासन दिया कि तुम बुद्ध तथा वानरो को छोड़कर सबों पर विजय प्राप्त कर सकोगे।

६४८. वाल्मीकि रामायण अथवा महाभारत में रावण-कुम्भकर्ण के पूर्वजन्म अथवा शाप के कारण उनकी राक्षस-योनि-प्राप्ति का कही भी उल्लेख नहीं मिलता। अर्वाचीन राम-कथाओं में इसके विषय में सबसे व्यापक वृत्तान्त यह है कि विष्णु के द्वाग्पाल जय-विजय शापव्रत तीन बार क्रमशः हिरण्यकशिपु-हिरण्याक्ष, रावण-कुम्भकर्ण तथा शिशुपाल-दत्तवक्र के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए।

(१) हिरण्यकशिपु-विषयक प्राचीनतम कथाएँ जय-विजय के संबन्ध में मौन है। महाभारत के आदिपर्व (६१, ५) में दिति-पुत्र हिरण्यकशिपु का उल्लेख है, जो शिशुपाल के रूप में जन्म लेता है। वह नृसिंह द्वारा नहीं मारा जाता है, इसका पुत्र प्रह्लाद विष्णु-भक्त नहीं होता तथा इसके भाई हिरण्याक्ष का निर्देश मात्र भी नहीं मिलता। शांतिपर्व (३२६, ७३) में नृसिंह द्वारा हिरण्यकशिपु का वध तथा वाराह द्वारा हिरण्याक्ष का वध उल्लिखित है किन्तु दोनों में किसी संबन्ध का उल्लेख नहीं है। हरिबंश के प्रथम पर्व (अध्याय ४१) में दैत्यराज हिरण्यकशिपु की कथा इस प्रकार है। वह ११५०० वर्ष तक तपस्या करके ब्रह्मा से देव-असुर-नांघर्वादि द्वारा अवध्यता का वर प्राप्त कर लेने के पश्चात् अत्याचार करने लगा जिससे विष्णु ने नृसिंह का रूप धारण कर उसका वध किया। द्वितीय पर्व के अनेक स्थलों पर (अर्थात् अध्याय २२, ४८ और ७१ में) नृसिंह द्वारा हिरण्यकशिपु के वध तथा वाराह द्वारा हिरण्याक्ष के वध का उल्लेख है। अंतिम पर्व (अ० ३६, ३२) में हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष दोनों दिति के पुत्र माने गए हैं। हिरण्यकशिपु की वरप्राप्ति तथा अत्याचार की कथा दुहराई गई है तथा प्रह्लाद के विषय में कहा गया है कि उसने नृसिंह का दिव्य रूप

देखकर अपने पिता को सावधान किया था (अध्याय ४३)। हरिबंश में कहीं भी हिरण्यकशिपु तथा रावण के किसी संबंध का उल्लेख नहीं होता। विष्णु पुराण (१, अध्याय १७-२०) में पहले-पहल हिरण्यकशिपु तथा उसके विष्णुभक्त पुत्र ब्रह्माद के संघर्ष की कथा मिलती है। इसके अतिरिक्त यह भी माना जाता है कि हिरण्यकशिपु ने पहले रावण के रूप में तथा इसके बाद शिशुपाल के रूप में जन्म लिया था।<sup>१</sup>

(२) भागवत पुराण प्राचीनतम रचना है जिसमें विष्णु के द्वारपालों तथा हिरण्यकशिपु-हिरण्याक्ष का सबंध उल्लिखित है। कथा इस प्रकार है (दे० ३, अध्याय १५-१९)। ब्रह्मा के चार पुत्र मनकादि किसी दिन वैकुण्ठ में विष्णु से मिलने आए किन्तु जय-विजय द्वारपालों ने उनको प्रवेश करने से रोका। इसपर मनकादि ने जय-विजय को अमुर-योनि प्राप्त होने का शाप दिया। विष्णु ने इस शाप को स्वीकार करते हुए जय-विजय में कहा कि एक बार जब मैं योगनिद्रा में मग्न था तुम दोनों ने लक्ष्मी को अन्दर जाने में रोक दिया जिससे उन्होंने तुमको शाप दिया था। अब दैत्य-योनि में जन्म लेकर क्रोध-भाव से मेरा ध्यान करो। इससे तुम विप्र-तिरस्कार-जनित पाप से मुक्त होकर फिर मेरे पास लौटोगे। फलस्वरूप जय-विजय दिति के पुत्र हिरण्यकशिपु-हिरण्याक्ष बन गए। भागवत पुराण के एक अन्य स्थल पर (दे० ७, १, ३५-४६) मनकादि के शाप के कारण जय-विजय के तीन बार अर्थात् हिरण्यकशिपु-हिरण्याक्ष, रावण-कुम्भकर्ण तथा शिशुपाल-दंतवक्र के रूप में जन्म लेने का उल्लेख किया गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण (कृष्णजन्मखण्ड ५६, ४६-४९), पद्मपुराण (उत्तरखण्ड २६९, ४), तत्त्वप्रबह रामायण (१, १०-११) में भी इस कथा का निर्देश मिलता है।

(३) भागवत पुराण के उपर्युक्त वृत्तान्त में लक्ष्मी के शाप का उल्लेख है। बलरामबास (युद्धकाण्ड) की तत्त्वबन्धी कथा इस प्रकार है। किसी अवसर पर चण्ड और प्रचण्ड नामक नारायण के द्वारपालों ने लक्ष्मी को नारायण की सभा में प्रवेश करने से रोका जिसपर लक्ष्मी ने क्रुद्ध होकर दोनों को राक्षस बन जाने का शाप दिया। नारायण ने उनकी सान्त्वना देते हुए कहा कि तुम दोनों राक्षस बनकर पृथ्वी को जीत लोगे जिससे जय-विजय के नाम से तुम प्रसिद्ध हो जाओगे। लक्ष्मी ने शाप देकर तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है इसके कारण वह सीता के रूप में जन्म लेंगी।

१. दे० ४, अध्याय १५। सेरीराम के राफल्स हस्तलिपि के अनुसार रावण अपने पूर्वजन्म में सीरंचक कहलाता था। सीरंचक हिरण्यकशिपु का विकृत रूप है।

अनेक रचनाओं के अनुसार ब्रुष्वा (दे० अनु० ३७२) ने जय-विजय को राक्षस बन जाने का शाप दिया था। आनन्द रामायण (७, १४, १-२७) में यह शाप अश्विनीकुमारों द्वारा दिया जाता है। इस रचना के अनुसार विष्णु ने जय-विजय से कहा था कि यदि तुम लोग मेरी भक्ति का विरोध करोगे तो शीघ्र ही तुम्हारी भक्ति हो पाएगी। यदि भक्ति-भाव अपनाओगे तो सात बार जन्म लेना पड़ेगा। रामलिङ्गामृत (सर्ग १) में जय-विजय के प्रति भृगु के शाप का उल्लेख है जिसके फलस्वरूप वे रावण-कुम्भकर्ण बन गए। बलरामदास (युद्धकाण्ड) दुर्वासा के शाप की कथा का वर्णन करते हैं। दुर्वासा नारायण से उस समय भेंट करने आए थे जब वह एकान्त में लक्ष्मी के साथ थे। द्वारपालो ने उनको भीतर जाने से रोका तथा अन्त में हठ करने वाले दुर्वासा को गले से पकड़कर निकाल दिया। दुर्वासा ने उनको १०० बार तक जन्म लेने का शाप दिया; बाद में नारायण ने इस शाप को तीन बार तक सीमित कर दिया।

(४) जय-विजय के अतिरिक्त रावण-कुम्भकर्ण अनेक अन्य प्राणियों के अवतार माने गए हैं। शिवमहापुराण के अनुसार दो शिवगण नारद के शाप से रावण-कुम्भकर्ण बन गए (दे० अनु० ३७३)। वल्लिपुराण (पृ० १७१) में यह माना गया है कि मधु-कैटभ शापवश पहले हिरण्यकशिपु-हिरण्याक्ष तथा बाद में रावण-कुम्भकर्ण के रूप में प्रकट हुए। रामचरितमानस में रावण के पूर्वजन्म के विषय में दो अन्य वृत्तान्त भी मिलते हैं; एक के अनुसार जलंधर ने रावण के रूप में जन्म लिया (दे० अनु० ३७२) तथा दूसरे वृत्तान्त के अनुसार रावण-कुम्भकर्ण-विभीषण क्रमशः प्रताप-भानु-अरिमर्दन-धर्मशक्ति के अवतार हैं (दे० अनु० ६२५)। रामकियेन (अध्याय ४) के अनुसार नन्दक ने रावण के रूप में जन्म लिया था। नंदक कैलास-पर्वत-निवासी ईश्वर के गणों में से एक था; उसने ईश्वर से यह वरदान प्राप्त किया था कि जिसकी ओर में इशारा कर्हें वह मर जाय। इस वर से अनुचित लाभ उठाकर नन्दक ने बहुत से देवताओं का वध किया। अन्त में नारायण अप्सरा का रूप धारण कर नन्दक को नृत्य सिखलाने लगे, जिसमें नन्दक उँगली से अपने शरीर की ओर इशारा करके मर गया और दशग्रीव के रूप में प्रकट हुआ। रामजातक (पृ० ९) की कथा इससे अधिक भिन्न नहीं है।

१. महाभारत (३, १९४, ३०) तथा हरिवंश (१, ४१, २५; ३, १३, २८) में विष्णु द्वारा मधु-कैटभ के वध की कथा मिलती है किन्तु उन रचनाओं में इनका रावण-कुम्भकर्ण के साथ कोई संबंध निर्दिष्ट नहीं है।

(५) पञ्चमचरित्र की वेदवती विषयक कथा के अनुसार रावण अपने पूर्वजन्म में एक श्रीकाम्त नामक सेठ था जो अनेक जन्मों में लक्ष्मण द्वारा मारा जाता है (वे० अनु० ४१०)। मृगभद्र के उत्तरपुराण (६८, ७२८) के अनुसार रावण पूर्वजन्म में सारसमूष्य देश में नरवेष नामक राजा था। बौद्ध साहित्य में उसे देवदत्त से अभिन्न माना गया है (दे० अनु० ३२७)।

(६) जावा के सेरत काण्डों में माना गया है कि रावण वास्तव में वातु गुनुग का अवतार है। दशमुख, कस आदि के रूप में वातु गुनुग विष्णु के अवतार का प्रतिद्वन्दी बन जाता है। वातु गुनुग की कथा संभवतः हिरण्यकशिपु के वृत्तान्त पर आधारित है क्योंकि हिरण्यकशिपु भी तीन भिन्न जन्मों में विष्णु के अवतार द्वारा मारा जाता है।

### ख। तपश्चर्या और वरप्राप्ति

६४९. वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्रवा ने कंकसी को अपना ने के पूर्व भरद्वाज की पुत्री देवर्वाणिनी से वैश्रवण को उत्पन्न किया था। वैश्रवण ने तपस्या करके ब्रह्मा से चतुर्थ लोकपाल (घनेश) का पद तथा पुष्पक भी प्राप्त किया था। विश्रवा ने उसे लंका में निवास करने का परामर्श दिया क्योंकि राक्षस विष्णु के डर से लंका छोड़कर रसातल चले गये थे (सर्ग ३)। वैश्रवण किसी दिन पुष्पक पर चढ़कर अपने पिता विश्रवा से मिलने आये; कंकसी ने दशग्रीव का ध्यान उसकी ओर आकर्षित करके कहा कि तुम भी अपने भाई के समान बन जाओ। अतः दशग्रीव अपनी माता की प्रेरणा से अपने भाइयों के साथ गोकर्ण में तपस्या करने लगा (सर्ग ९)। तीनों भाई १०००० वर्ष तक घोर तप करते रहे। दशग्रीव प्रति सहस्र वर्ष के अन्त में अपना एक सिर अग्नि में समर्पित करता था; वह अपना दसवाँ सिर भी काटने वाला ही था कि ब्रह्मा सन्तुष्ट होकर वर देने के उद्देश्य से प्रकट हुए। रावण ने पहले अपने लिये अमरत्व माँगा किंतु ब्रह्मा के अस्वीकार करने पर उसने यह वर माँग लिया कि मैं सुपर्ण-नाग-यक्ष-दैत्य-दानव-राक्षस तथा देवताओं द्वारा अवध्य' हो जाऊँ। इसके अतिरिक्त ब्रह्मा ने उसके नव शीर्ष लौटाये तथा उसे कामरूपी होने का वर प्रदान किया। विभीषण ने धार्मिकता का वर माँग लिया और ब्रह्मा ने उसे अमरत्व भी दे दिया। कुम्भकर्ण ने सरस्वती की प्रेरणा से निद्रा ही माँग ली—स्वप्नुं वर्षाभ्यनेकानि वेद्य वेद्य ममेप्सितम् (१०, ४५)। वर प्राप्त करने के पश्चात् दशग्रीव ने सुमाली के अनुरोध पर प्रहस्त को वैश्रवण के पास भेजकर राक्षसवंश के लिए लंका की माँग की। अपने पिता का परामर्श स्वीकार कर वैश्रवण कौलास' पर निवास करने चले गये और

१. युद्धकाण्ड (१९, ९) तथा बालकाण्ड (१५, १३) में भी ब्रह्मा के इस वरदान का उल्लेख है।
२. शिव तथा वैश्रवण के सख्य का वर्णन उत्तर काण्ड के १३वें सर्ग में मिलता है।

दशग्रीव ने राक्षसों के साथ लंका को अपने अधिकार में ले लिया (सर्ग ११)। इसके बाद कुम्भकर्ण रावण से एक भवन बनवा कर उसमें सहस्रों वर्षों तक बिना जागे सोता रहा—बहुयम्ब-सहस्राणि ज्ञयानो न च बुद्धयते (१३, ७)। कुम्भकर्ण की नींद के विषय में वाल्मीकीय युद्धकाण्ड (सर्ग ६१) में माना गया है कि ब्रह्मा ने कुम्भकर्ण के अत्याचार के कारण उसे यह शाप दिया कि वह छः महीनों तक सोकर एक ही दिन जग सकेगा और उस दिन भूखा होकर पृथ्वी पर विचरते हुए बहुत से लोगों को खा जायेगा। महाभारत (३, २५९, २८) के अनुसार कुम्भकर्ण की नींद वरदान का परिणाम तो है किन्तु कुम्भकर्ण ने सरस्वती की प्रेरणा से नहीं बरत् अपनी ही तामसी बुद्धि के कारण ही यह वर माँग लिया—स बधे महतीं निद्रां तमसा प्रस्तचेतनः। आनन्द रामायण (१, १३, ५५) में वाल्मीकीय युद्धकाण्ड और उत्तरकाण्ड की कथाओं का समन्वय किया गया है—सरस्वती से मोहित होकर कुम्भकर्ण ने छः महीनों तक सोकर भोजन के लिए एक दिन जागने का वर माँग लिया। कृत्तिवास रामायण (७, ११) के अनुसार ब्रह्मा ने रावण से यह कहकर वरदान दिया था कि वानर और नर को छोड़कर कोई भी तुम्हारा वध नहीं कर पायेगा; सिर कट जाने पर भी तुम नहीं मरोगे और तुम्हारे कटे हुये सिर फिर जुड़ जाएँगे। कुम्भकर्ण ने सरस्वती की प्रेरणा से निरन्तर सोते रहने का वर माँग लिया किन्तु रावण ने ब्रह्मा के पास जाकर आपत्ति की थी। तब ब्रह्मा ने कुम्भकर्ण को छः महीनों की निद्रा तथा एक दिन का जागरण प्रदान कर कहा कि उस दिन कुम्भकर्ण का बल और भक्षण दोनों अद्भुत होंगे किन्तु यदि उसे कन्ची नींद से जगाया जायेगा तो वह निश्चय ही मर जायगा।

प्राचीनकाल से ही रावण को शिवभक्त माना गया है (दे० अनु० ६५३); इस कारण से अनेक रत्नानों में वरप्राप्ति के वृत्तान्त में शिव ही ब्रह्मा का स्थान लेते हैं। रघुवंश (सर्ग १०) तथा ब्रह्मावतारचरित के अनुसार रावण ने शिव को अपने नी सिर समर्पित किये थे किन्तु ब्रह्मा ने वर प्रदान किया था। स्कंदपुराण के महेश्वरखण्ड (अ० ८), पद्मपुराण के उत्तरखण्ड (अ० २६९), पाश्चात्य वृत्तान्त नं० ३ आदि में शिव ही रावण और उसके भाइयों को वरदान देते हैं। पद्मपुराण में केवल रावण-कुम्भकर्ण की तपस्या की चर्चा है (दे० उत्तरखण्ड २६९, २०-२४)।

पाश्चात्य वृत्तान्त नं० ४ के अनुसार भी रावण ने महादेव से राज्य वैभव प्राप्त कर लिया था। रावण नित्य प्रति महादेव की पूजा करते हुए उन्हें १०० फूल अर्पित किया करता था। किसी दिन ईश्वर ने एक फूल चुराकर रावण से पूछा—मुझे आज

१. सेरीराम में यह माना गया है कि कुम्भकर्ण स्वभाव से ही निद्राव्यसनी और पेट था।

श्यों केवल ९९ फूल मिल रहे हैं। रावण अपनी आँसु निकाल कर उसे महादेव को अर्पित करने ही वाला था कि महादेव ने रोक कर वरदान दिया। इस प्रकार रावण को समस्त पृथ्वी पर अधिकार प्राप्त हुआ। इसके बाद ही रावण लंका में राज्य करने लगा।

पञ्चमचरित्र्यं (पर्व ७) के अनुसार रावणादि अपने मौसरे भाई का विभव देखकर विद्याएँ सिद्ध करने के लिए साधना करने लगे थे। रावण ने पचपन, भानुकर्ण ने पाँच और विभीषण ने चार विद्याओं को सिद्ध कर लिया। तीनों ने आकाशगामिनी प्राप्त कर ली थी। इस वृत्तान्त में किसी वरदान का उल्लेख नहीं है।

सेरीराम ने रावण की ही तपस्या का वर्णन किया गया है। अपने निर्वासन के बाद सिंहलद्वीप में पहुँचकर रावण ने बारह वर्ष तक तपस्या की थी। अन्त में अल्लाह ने नबी आदम का निवेदन स्वीकार कर रावण को चार लोको में अर्थात् स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल तथा महासागर में राज्य स्थापित करने का अधिकार दिया बशर्ते कि रावण निष्पाप होकर न्यायपूर्वक शासन करे। रामकियेन (अ० ९) में रावण की अवध्यता की कथा इस प्रकार है। रावण ने अपने गुरु के परामर्श से एक ऐसा यज्ञ सम्पन्न किया था जिसके फलस्वरूप वह जीवित रहते हुए अपना जीव अपने शरीर से अलग करने में समर्थ हुआ। अतः रावण अपना जीव गुरु की रक्षा में छोड़कर अत्याचार करने लगा।

### ग। विवाह और संतति

६५०. (१) वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाण्ड (सर्ग १२) में रावण-मन्दोदरी के विवाह का वृत्तान्त इस प्रकार है। रावण ने किसी दिन मृगया के समय विति के पुत्र मय को देखा जो अपनी पुत्री मन्दोदरी के साथ वन में टहल रहा था। रावण द्वारा परिचय पूछे जाने पर मय ने अपनी कथा सुनाई (दे० अनु० ५२६) तथा रावण का परिचय प्राप्त करने के पश्चात् उसके सामने मन्दोदरी के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा। रावण ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया; मय ने उस अवसर पर रावण को अभोध शक्ति भी दे दी जिससे वह बाद में लक्ष्मण को आहत करने वाला था।

(२) आनन्द रामायण (१, ९, ३३-५७) में रावण-मन्दोदरी के विवाह के विषय में एक मर्वथा भिन्न कथा मिलती है। इसके अनुसार रावण ने अपने गायन द्वारा शिष्य को प्रसन्न करके उनसे दो वर माँग लिए अर्थात् अपनी माता कैकसी के लिए आत्मलिंग तथा अपने लिए पार्वती को। शिव ने रावण को सावधान किया कि इस लिंग को मार्ग में कहीं भी पृथ्वी पर रख देने से वह वही अटल हो जायगा। इसके बाद रावण लिंग तथा पार्वती को लेकर चला गया। पार्वती ने अपनी विपत्ति में विष्णु



का स्मरण किया। विष्णु ने अपने अंग के शब्दन से सुन्दरी मन्दोदरी की सृष्टि करके उसे मय के घर में रख दिया; तब वह ब्राह्मण का रूप धारण कर मार्ग में रावण से मिले तथा उन्होंने रावण से कहा कि शिव ने घोखा देकर वास्तविक पार्वती को पाताल में मय के यहाँ छिपाया है। यह सुनकर रावण ने शिव के पास जाकर वास्तविक पार्वती को लीटाया और पाताल जाने की उद्यत हुआ। रास्ते में लघुशंका करने की इच्छा से उसने आत्मलिंग उस ब्राह्मण (विष्णु) के हाथ में दे दिया। देर हो जाने पर विष्णु आत्मलिंग गोकर्ण में भूमि पर रख कर अर्तद्वान हो गये। रावण आकर आत्मलिंग उठाने में असमर्थ हुआ; तब उसने मय के घर जाकर विष्णु द्वारा निमित्त मन्दोदरी को प्राप्त किया।<sup>१</sup> भाष्यार्थ रामायण (५, ६) का वृत्तान्त उपर्युक्त कथा पर आधारित है। आनन्द रामायण के एक अन्य स्थल (१, १३, २६-४४) के अनुसार रावण ने अपने शरीर से वीणा बनाकर शिव के आदर में गायन किया था। शिव ने आत्मलिंग तथा पार्वती के अतिरिक्त रावण को उस अवसर पर दम सिर भी प्रदान किए थे।

दक्षिण भारत के एक वृत्तान्त में प्रस्तुत कथा का एक अन्य रूप मिलता है। विष्णु के स्थान पर नारद रावण के पास जाकर कहते हैं कि वास्तविक पार्वती एक तालाब में छिपी हुई है। इस पर रावण मन्दोदरी को तालाब से निकालकर उसे लंका ले जाता है। उस वृत्तान्त के अनुसार मन्दोदरी वास्तव में एक मण्डूक है, जिमने नारी का रूप धारण किया था।<sup>२</sup>

सेरीराम के पातानी पाठ के अनुसार महासिकु की दत्तक पुत्री मन्दुदकी मडूक से उत्पन्न हुई थी। श्री अचप अपनी चाची मुतुगिरि पर आसक्त था; महासिकु ने श्री अचप को घोखा देकर मुतुगिरि के स्थान पर मन्दुदकी को दे दिया तथा श्री अचप को सुलतान महाराज वन की उपाधि भी प्रदान की।

रामकियेन (अध्याय ५) में मंडोदरी की कथा का एक अन्य रूप मिलता है। किसी मंडूक ने चार ऋषियों का जीवन बचाया था और पुरस्कार-स्वरूप ऋषियों ने

१. काश्मीरी रामायण (युद्धकाण्ड, नं० ४७) में भी रावण के शिवलिंग खो बैठने की कथा मिलती है। गोकर्ण के स्थान पर अन्य तीर्थों का भी उल्लेख मिलता है। बिहार में प्रस्तुत कथा का घटनास्थल वेद्यनाथ मंदिर (देवघर) माना जाता है।
२. दे० पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १, अध्याय ४। पार्वती के स्थान पर मन्दोदरी को प्राप्त करने की उपर्युक्त कथा अन्यत्र भी पाई जाती है। दे० पाश्चात्य वृत्तान्त १६, पृ० २९१ तथा पी० थोमस, एपिक्स एंड लेजेन्डस ऑव इण्डिया पृ० ५२।

उसे मंडो नामक एक अत्यन्त सुन्दर युवती में बदलकर उसे ईश्वर को समर्पित किया। ईश्वर ने उसे उमा को दिया। बाद में ईश्वर के दिए हुए वर के बल पर रावण ने उमा को प्राप्त किया (दे० अनु० ६५३)। तब नारायण ने माली का रूप धारणकर रावण के सामने एक वृक्ष उलटे ढंग से रोपने का प्रयत्न किया। रावण उसकी मूर्खता की टिप्पणी करने लगा, जिस पर नारायण ने कहा कि जिसने मंडो को छोड़कर उमा को चुन लिया वह मुझसे अधिक मूर्ख है। यह सुनकर रावण ईश्वर के पास गया और उसने उमा को लीटाकर मण्डो को ले लिया।

हिन्देशिया की राम-कथाओं में रावण दशरथ के पास जाकर वास्तविक मन्दोदरी के स्थान पर जादू द्वारा निर्मित एक अन्य मन्दोदरी को ले जाता है (दे० ऊपर अनु० ४२८)। यह कथा उपर्युक्त वृत्तान्त का विकृत रूप मात्र प्रतीत होती है।

(३) मन्दोदरी के अतिरिक्त वाल्मीकि रामायण में रावण की केवल एक और पत्नी अर्थात् धान्यमालिनी का नाम दिया गया है; सुन्दरकाण्ड (सर्ग २२) और युद्धकाण्ड (सर्ग ७१) में धान्यमालिनी (अतिकाम्य की माता) का उल्लेख है। रगनाथ ने उसका संबन्ध कालनेमि वृत्तान्त की ग्राही से स्थापित किया है (दे० अनु० ५८७)। वाल्मीकि रामायण के अनेक स्थलों पर रावण की बहुसंख्यक पत्नियों की चर्चा की गई है जिनमें देव-गधर्व-नागादि कन्याएँ भी सम्मिलित थीं (दे० सुन्दर-काण्ड, सर्ग १०-११, १८ और २२, युद्धकाण्ड, सर्ग ११०; उत्तरकाण्ड, सर्ग २२)। कृत्तिवास (६, ५९) के अनुसार देवकन्याओं की संख्या १४,००० थी।

**पउमचरियं** (पर्व १०) में वालि-सुग्रीव की बहन श्रीप्रभा के साथ रावण के विवाह का वर्णन मिलता है। इस रचना में उसकी ६००० विद्याधरवशीय पत्नियों का उल्लेख है (पर्व ८)। बलरामदास रावण की साठे तीन करोड़ स्त्रियों की चर्चा करते हैं। सेरीराम के अनुसार रावण ने चार लोकों में राज्य का अधिकार प्राप्त कर स्वर्गलोक में नील उताम (तिलोत्तमा) से, पाताल में परतीवि (पृथ्वी) देवी से, तथा महासागर में गंगा महादेवी से विवाह किया। बाद में उसने लंका का निर्माण किया और दशरथ की पटरानी मन्दोदरी को भी प्राप्त किया (दे० अनु० ४२८)। राम-कियेन (अ० ५) में दशकठ की पाताल-निवासिनी पत्नी का नाम कला अम्भी है।

(४) रावण के पुत्रों में से इन्द्रजित् सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाण्ड (सर्ग १२) के अनुसार मन्दोदरी के पहलौठे पुत्र ने जन्म लेने के पश्चात् ही मेघगंभीर नाद किया था जिससे उसके पिता ने उसका नाम मेघनाद ही रखा था। इन्द्र के परास्त करने के बाद ब्रह्मा ने उसे इन्द्रजित् की उपाधि प्रदान (सर्ग ३०)। सेरीराम के अनुसार रावण ने स्वर्गलोक की नील उताम से इन्द्रजित् को उत्पन्न किया था; इस रचना में इन्द्रजित् के तीन शीर्ष होते हैं। जात्रा के सेरतकाण्ड के अनुसार

विभीषण ने मेघनाद की सृष्टि की थी (दे० अनु० ४१५)। इन्द्रजित-विषयक शेष सामग्री का विश्लेषण युद्धकाण्ड के अन्तर्गत ही चुका है (दे० अनु० ५९०-५९४)।

(५) बाल्मीकि रामायण में रावण के अन्य पुत्रों का भी उल्लेख मिलता है। अक्ष (सुन्दरकाण्ड, सर्ग ४७) तथा अतिकाय (युद्धकाण्ड, सर्ग ७१) के अतिरिक्त युद्धकांड के एक प्रक्षिप्त अक्ष (सर्ग ६९-७०) में रावण के चार पुत्रों अर्थात् अतिकाय, त्रिशिरा, नरांतक तथा बेबातक के वध का वर्णन किया गया है।<sup>१</sup>

परवर्ती भारतीय साहित्य में रावण की संतति के रूप में सीता (अनु० ४१२-४१७), सिहनाब (बालरामायण, अनु० ५७९), बीरबाहु (कृत्तिवास रामायण ६, ५४) तथा महीरावण (कृत्तिवास ६, ७९) का उल्लेख मिलता है। पउमचरित्रं (पर्व ६५) इन्द्रजित् तथा मेघवाहन नामक रावण के दो पुत्रों का उल्लेख करता है।

सेरीराम में इन्द्रजित् के अतिरिक्त बीलाबीस (दे० अनु० ६१३), पातालमहा-रायन (परतीवि देवी के पुत्र) तथा गंगामहासूरा (गंगा महादेवी के पुत्र) को भी रावण की सन्तान माना गया है। पाताल महानारायन भारतीय साहित्य का महि-रावण है (दे० अनु० ६१४); गंगामहासूरा अपने पिता के आदेशानुसार सेतु को नष्ट करने का प्रयत्न करता है (दे० अनु० ५७८)। सेरीराम के शोलाबेर पाठ में तूरीकाय (अतिकाय), तूरीसिरह (त्रिशिरा), नारनन्ताक (नरांतक) तथा देवा-नताक (देवांतक) की भी चर्चा की गई है। रामकियेन में रावण की पाताल-वासिनी पत्नी के पुत्र का नाम प्रलयकल्प है (दे० अनु० ६०५)। इसके अतिरिक्त मदोदरी ने रावण-वध के बाद रावण के एक और पुत्र को जन्म दिया; इसका नाम बेनासूरिवंश रखा गया और इसने विभीषण के विरुद्ध विद्रोह किया (दे० अनु० ६३५, पाद-टिप्पणी)।

रामकियेन में रावण की नाग-कन्या सुवर्णमच्छा (दे० अनु० ५७८) के अतिरिक्त उसके दो और पुत्रों की कथा मिलती है; इसके अनुसार रावण ने हाथी का रूप धारण कर एक हथिनी से किरिधर तथा किरिजन नामक दो पुत्रों को उत्पन्न किया था, जिनका मुख हाथी के समान था। बलरामदास (युद्ध काण्ड, पृ० ६२) रावण के ७२ पुत्रों तथा १३०० पौत्रों का उल्लेख करते हैं; महानाद ही बच गया और उसने अपने पिता की अंत्येष्टि सम्पन्न की। हिन्दी पाठक इस पंक्ति से परिचित होंगे—एक लख पूत सवा लख नाती, ता रावन घर दिया न बाती।

१. एक त्रिशिरा नामक राक्षस के वध का उल्लेख आरण्यकाण्ड (सर्ग २७) में भी मिलता है। नरांतक को अन्यत्र (युद्धकाण्ड, सर्ग ५७-५८) प्रहस्त का सचिव माना गया है।

### घ । विवाहोत्तर चरित

६५१. वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाण्ड (सर्ग ९) के अनुसार रावण नर-प्राप्ति के पहले से ही लोगों को सताया करता था; बाद में भी उसके अत्याचार का बारंबार उल्लेख किया गया है। लंका पर अधिकार प्राप्त करने के पश्चात् वह देव-ऋषि-यक्ष-गंधर्वों का वध करके उनके उद्यानों को नष्ट करने लगा। यह सुनकर वैश्रवण ने दूत भेजकर रावण को समुपदेश दिया तथा उसे सावधान किया कि देवता उसके विषय समुद्योग कर रहे हैं। रावण ने अपनी तलवार से उस दूत का वध किया तथा वैश्रवण पर आक्रमण करने के उद्देश्य से अपने मंत्रियों के साथ कैलास की यात्रा की। वहाँ पहुँचकर उसने पहले यक्ष-सेना को तितर-बितर कर दिया, बाद में उसने वैश्रवण को द्वन्द्वयुद्ध में परास्त किया तथा उससे पुष्पक प्राप्त कर लंका लौटा।<sup>१</sup>

बाद में रावण ने वेदवती (दे० अनु० ४१०) तथा रभा (दे० अनु० ६५४) के साथ भी अत्याचार किया। इसके अतिरिक्त उसने बहुत सी अविवाहित अथवा विवाहित मुन्दर स्त्रियों का हरण किया जिससे उसके अन्त-पुर में सैकड़ों राज-ऋषि-देव-नाग-दानव-राक्षस-दैत्य-असुर-यक्ष-गंधर्व कन्यायें निवास करती थी (सर्ग २४)।

६५२. रावण की विजय-यात्राओं के वर्णन का परवर्ती साहित्य में कोई विशेष विकास नहीं हुआ है। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाण्ड के अनुसार रावण ने अपनी एक विजय-यात्रा में (सर्ग १८-२३) निम्नलिखित राजाओं को पराजय स्वीकार करने के लिये बाध्य किया—मरुत, दुष्यन्त, मुरथ, गाधि, मय, पुरूरवा और अनरण्य। इसके बाद रावण ने नारद के परामर्श से यमलोक पर आक्रमण किया। अपनी सेना रावण द्वारा पराजित देखकर यम ने रावण का वध करना चाहा किन्तु वह ब्रह्मा का अनुरोध स्वीकार कर अन्तर्धान हो गए और रावण अपने को विजयी मानकर यमलोक से निकल गया। अनन्तर रावण ने बधनालय में नागों के राजा वामुकि को परास्त किया, दैत्यों के साथ संधि कर ली, अक्षनगर में अपने बहनोई विश्वजिह्व का वध किया तथा वरुण की सेना हराकर लंका लौटा।

रावण की एक अन्य विजय-यात्रा (सर्ग २५-३०) का वर्णन इस प्रकार है। रावण की अनुपस्थिति में मधु ने कुभीनसी का अपहरण किया था। यह सुनकर रावण ने एक

१. हिन्देशिया की राम-कथाओं के अनुसार रावण को अत्याचार के कारण निर्वासित किया गया, दे० अनु० ६४६।

२. दे० सर्ग १३-१५। पुष्पक के विषय में अनु० ६४९ और ५६६ देख लें। सेरत काण्ड के अनुसार विल्मनरंज नामक वैश्रवण का पुत्र रावण का बाह्य बान जाता है (दे० अनु० ३२२)।

विशाल सेना के साथ मधुपुर के लिये प्रस्थान किया। कुम्भीनसी ने मधुपुर में रावण का स्वागत करके अपने पति के लिये अभयदान की याचना की। रावण कुम्भीनसी की प्रार्थना अस्वीकार न कर सका अतः वह मधु के यहाँ एक रात बिताकर अगले दिन कैलास की ओर अग्रसर हुआ। वहाँ पहुँचकर वह रंभा के साथ व्यभिचार करने के कारण नलकूबर का शाप-भाजन बन गया। इसके बाद रावण ने कैलास पार कर इन्द्रलोक में प्रवेश किया। वहाँ राक्षसों तथा देवताओं का घोर युद्ध हुआ, जिसमें सुमाली मारा गया। तब मेघनाद ने जयत को परास्त कर दिया तथा इन्द्र को कैद कर उन्हें लंका ले आया। अन्त में ब्रह्मा ने मेघनाद को वरदान तथा इन्द्रजित् की उपाधि देकर इन्द्र को छुड़ाया (दे० अनु० ५९०)।

उपर्युक्त सामग्री के अतिरिक्त उत्तरकाण्ड के सर्ग २३ के पश्चात् के प्रक्षिप्त सर्गों में रावण की सूर्यलोक तथा चन्द्रलोक की विजययात्रा का भी वर्णन किया गया (सर्ग २-४)। सूर्य-लोक की यात्रा का गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठ में उल्लेख नहीं है।

पञ्चमचरियं में भी रावण द्वारा सहस्रकिरण, नलकूबर, इन्द्र, वरुण आदि की पगजय वर्णित है किन्तु इस रचना में यम, इन्द्र, वरुण आदि देवता न होकर साधारण राजा माने गये हैं। इन्द्र की पराजय का वर्णन अहल्या-चरित के अन्तर्गत ही चुका है (दे० अनु० ३४४)।

६५३. अनेक रचनाओं के अनुसार रावण ने ब्रह्मा के स्थान पर शिव से ही वरदान प्राप्त किया था (दे० अनु० ६४९); वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाण्ड में शिव-रावण-संबंध के विषय में निम्नलिखित सामग्री पाई जाती है। वैश्रवण को पराजित करने के बाद जब रावण पुष्पक पर चढ़कर कैलास के ऊपर जा रहा था तो पुष्पक अचानक रुक गया। रावण पुष्पक से पृथ्वी पर उतरा तथा नन्दि का उपहास करके उसने कैलास पर्वत को ऊपर उठाया।<sup>१</sup> पर्वत हिलने लगा किन्तु महादेव ने अपने पादांगुष्ठ से पर्वत को दबाया जिससे रावण की भुजायें कैलास के नीचे जकड़ गईं और वह क्रोध तथा पीड़ा से चिल्ला उठा। तब अपने मंत्रियों का परामर्श स्वीकार कर रावण विविध स्तोत्रों द्वारा महादेव का गुणगान करने लगा और एक सप्ताह वर्ष तक विलाप करता रहा। अन्त में महादेव प्रसन्न हुए; उन्होंने वक्षप्रीव की भुजायें मुक्त कर उसका नाम रावण ही रखा क्योंकि उसने पर्वत से आक्रान्त होकर भीषण चीत्कार (रावः सुबाहणः) किया था। दक्षिणात्य पाठ मात्र के अनुसार शिव ने उस अवसर पर रावण को चन्द्रहास नामक खंग प्रदान किया था (सर्ग १६)। उत्तरकाण्ड में

१. ब्रह्मपुराण (अ० १४३) के अनुसार रावण कैलास को लंका ले जाना चाहता था।

अन्यत्र रावण द्वारा शिवलिंग की पूजा का वर्णन मिलता है तथा इसका भी उल्लेख मिलता है कि रावण सदा ही एक सुवर्ण लिंग अपने साथ रखा करता था (सर्ग ३१) ।

पद्मचरित्र में जो कथा मिलती है उसमें वालि शिव का स्थान लेता है (अनु० ६५५) । चन्द्रहास के विषय में लिखा है कि रावण ने उस खंग से अपनी भुजा काटकर और उसकी शिराओं से बीणा का तार बनाकर जिन की स्तुति की थी । यह देखकर घरणेन्द्र मनि ने रावण को अमोघ-त्रिजया क्षक्ति का वरदान दिया (पर्व ९) । अन्य रचनाओं के अनुसार रावण ने अपने गायन द्वारा शिव को प्रसन्न कर उनसे पार्वती को प्राप्त किया था (दे० अनु० ६५०) । पारश्चात्य वृत्तान्तों नं० ६ और १० के अनुसार शिव ने रावण को अपनी उंगलियों से दबा लिया था, इसपर रावण ने एक सिर तथा एक भुजा को मुक्त कर दिया तथा उस शिर से बीणा बनाकर शिव को अपने गायन से प्रसन्न कर दिया । इस प्रकार रावण को त्रिलोक पर अधिकार मिल गया था । रामकियेन के अनुसार एक देवता ने किसी दिन कैलास पर एक छिपकली पर इतना प्रबल प्रहार किया था कि पर्वत एक ओर झुक गया । देवता कैलास को सीधा करने में असमर्थ निकले; तब ईश्वर ने रावण को बुलाया जिसने कैलास उठाकर उसे पूर्ववत् मीघा कर दिया । वर पाकर रावण ने उमा को माँग लिया (दे० अनु० ६५०) ।

परवर्ती रचनाओं में रावण की शिव-भक्ति विषयक बहुत ही सामग्री मिलती है । ब्रह्मपुराण (अध्याय १४३) के अनुसार ब्रह्मा ने रावण को एक अष्टोत्तरशतशिव-नाम मंत्र प्रदान किया था । रावण द्वारा रचित बहुत से शिव-स्तोत्रों का भी उल्लेख मिलता है । शिव-पार्वती-कलह के प्रसंग में रावण की शिवभक्ति पर विशेष बल दिया गया है (दे० अनु० ५८४) । लंकादेवी की कथा का ऐसा रूप भी मिलता है जिसमें देवी लंकेश्वरी मानी जाती है (दे० अनु० ५३७) ।

६५४. वाल्मीकि रामायण के प्रामाणिक सर्गों में कहीं भी रावण के प्रति किसी शाप का उल्लेख नहीं होता । युद्धकाण्ड (सर्ग ९४, ३५) के अनुसार महादेव ने देवताओं को आववासन दिया था कि एक स्त्री के कारण रावण का नाश होगा—उप्तस्त्यसि हितार्थं वो नारी रक्षःअयाब्रह्म । परवर्ती साहित्य में रावण को प्रदत्त शापों के विषय में पर्याप्त सामग्री मिलती है ।

(१) महाभारत के रामोपाख्यान में दो बार नलकूबर के शाप का उल्लेख किया गया है । सुन्दरकाण्ड के कथानक के अन्तर्गत त्रिजटा सीता से कहती है कि रंभा के कारण अमिषप्त रावण किसी अनिच्छुक नारी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता (३, २६४, ५९) । रावण-वध के बाद जब राम को सीता के विषय में सन्देह हो रहा

है और देवता प्रकट हो जाते हैं तब ब्रह्मा कहते हैं कि मैंने नलकूबर के शाप के द्वारा सीता की रक्षा का प्रबन्ध कर लिया था। नलकूबर का शाप यह था कि उसे न चाहने-वाली पराई स्त्री का सेवन करने पर रावण के शरीर<sup>१</sup> के सँकड़ों टुकड़े हो जायेंगे—यदि ह्यकामामासेवेत् स्त्रियमन्यामपि भ्रूषं शतषास्य फलेहंहः (३, २७५; ३३)। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाण्ड (सर्ग २६) में नलकूबर के इस शाप की कथा का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इन्द्रलोक की यात्रा के समय रावण ने कैलास-पर्वत पर रात बिताई। उस रात्रि में वह रभा को देखकर उस पर आसक्त हुआ। रभा ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं आपकी पुत्रवधू हूँ। मैं आपके भाई वैश्रवण के पुत्र नलकूबर की पत्नी हूँ। रावण ने उत्तर दिया कि अप्सराओं के कोई पति होता ही नहीं (पतिरप्सरसां नास्ति) और उसने रभा के साथ बलात्कार किया। बाद में नलकूबर ने अपनी पत्नी के मुँह से सब सुनकर रावण को यह शाप दिया कि न चाहने-वाली स्त्री के साथ रमण करने से उसके मस्तक के सात टुकड़े हो जायेंगे—यथा ह्यकामां कामार्तो धर्बयिष्यति योषितम् ॥५५॥ मूर्धा तु सप्तधा तस्य शकलीभविता तथा।

पउमचरियं (पर्व १२) में प्रस्तुत वृत्तान्त को एक सर्वथा नवीन रूप दिया गया है। इसके अनुसार रावण ने नलकूबर की पत्नी उपरमा का प्रेम-प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था और बाद में उसने अनन्तवीर्य का धर्मोपदेश सुनकर विरक्त परनारी के साथ रमण न करने का व्रत लिया था।<sup>१</sup>

(२) वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाण्ड (सर्ग १६) में नन्दि-शाप की कथा इस प्रकार है। पुण्यक के एक जाने के बाद रावण कैलास-पर्वत के सामने पृथ्वी पर उतरा और नंदि का वानर-मुख देखकर उसका उपहास करने लगा। तब नंदि ने उसे यह शाप दिया कि तुम्हारे कुल के नाश के लिए मेरे समान रूप और बल से सम्पन्न वानर उत्पन्न होंगे—तस्मान्मदीर्यसंयुक्ता मद्रूपसमतेजसः। उत्पत्स्यन्ति यद्यार्थं हि कुलस्य तव वानराः (१६, १७)। दक्षिणात्य पाठ के लंकादहन के वर्णन के अन्तर्गत नंदि-शाप का जो उल्लेख मिलता है वह अन्य पाठों के समानान्तर स्थल पर विद्यमान नहीं है।

सेरी राम में नन्दिशाप का एक परिवर्तित रूप मिलता है। जटायु के पिता, कीसूत्रीसू (कश्यप) नामक मुनि ने किसी अवसर पर रावण का सत्कार नहीं किया था। रावण ने क्रोध में आकर उनसे पूछा कि तुम मनुष्य हो अथवा बन्दर हो। तब मुनि ने उसे यह शाप दिया—तुम मनुष्यों और वानरों द्वारा मार डाले जाओगे।

१. अनेक हस्तलिपियों में देह के स्थान पर मूर्धा पाठ मिलता है।

२. इसका कारण यह है कि पउमचरियं में रावण को धर्मभीरु जैनी के रूप में चिचित किया गया है (अनु० ६०)।

(३) वेदवती के शाप का प्राचीनतम वृत्तान्त वाल्मीकि रामायण के उत्तर-काण्ड में सुरक्षित है (दे० अनु० ४१०) ।

(४) वाल्मीकीय उत्तरकाण्ड (सर्ग १९) के अनुसार अयोध्या के राजा अनरण्य इन्द्र-युद्ध में रावण द्वारा मारा गया था । उसने प्राण छोड़ते समय रावण को यह शाप दिया कि इक्ष्वाकुल में उत्पन्न राम द्वारा तुम्हारा वध किया जायगा—उत्पत्त्यते कुले ह्यस्मिन्निक्ष्वाकूनां महात्मनाम् । रामो वायारचिर्नाम यस्तेषाणां हरिष्यति (१९, ३०) ।

(५) पूँजिकस्थला के कारण रावण के प्रति ब्रह्मा के शाप का उल्लेख वाल्मीकि रामायण के दाक्षिणात्य पाठ मात्र में मिलता है । युद्ध-काण्ड के प्रारंभ में (सर्ग १३) रावण की द्वितीय सभा के अन्तर्गत जब महापाशवं ने सीता के साथ बलप्रयोग करने का परामर्श दिया तब रावण ने स्वीकार किया कि मैंने बहुत समय पहले पूँजिकस्थला नामक अप्सरा के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध रमण किया था; ब्रह्मा ने पूँजिकस्थला से सारा हाल जानकर मुझे यह शाप दिया कि पुनः किसी नारी के साथ बलात्कार करने पर तुम्हारे मस्तक के सेंकड़ो टुकड़े हो जायेंगे—अद्यप्रभृति यामन्या बलाभ्रारी गभिष्यमि । तदा ते शतधा मूर्धा फलिष्यति न संशयः (१३, १४) ।

(६) इसके अतिरिक्त वाल्मीकि रामायण के दाक्षिणात्य<sup>१</sup> पाठ के एक प्रक्षिप्त स्थल पर (६, ६० C-१२) निम्नलिखित लोगों द्वारा रावण को शाप दिए जाने का उल्लेख किया गया है—अनरण्य, वेदवती, उमा, नंदीश्वर, रंभा, वरुणकन्यका (पूँजिकस्थला) । उमा को छोड़कर सबों का उल्लेख ऊपर हो चुका है । रामायण-तिलक में माना गया है कि जब रावण ने कैलास को ऊपर उठाया (कैलासशिखर-चालनबेलायाम्) तब उमा ने यह शाप दिया था कि स्त्री के कारण रावण की मृत्यु होगी—रावणस्य स्त्रीनिमित्तं भरणम् । उत्तरकाण्ड के वृत्तान्त में शाप का उल्लेख नहीं है; इतना ही कहा गया है कि उस समय उमा ने काँपते हुए महेश्वर का आर्तिगन किया था—बच्चाल पार्वती चापि तदारिलुष्टा महेश्वरम् (७, १६, २६) ।

६५५. वाल्मीकीय उत्तरकाण्ड के रावणचरित में उसकी अनेक पराजयों का भी वर्णन किया गया है । उनमें से वालि द्वारा रावण की पराजय का अपेक्षाकृत अधिक विकास हुआ है ।

(१) महाभारत में परशुराम द्वारा कार्तवीर्य के वध का उल्लेख है (दे० अनु० ३४९) । हरिबंध पुराण (१, अध्याय ३३) में अर्जुन कार्तवीर्य की कथा इस प्रकार है । उसने तप द्वारा एक सहस्र भुजायें तथा अन्य वर पाकर समस्त पृथ्वी

१. समानान्तर स्थल पर गौड़ीय पाठ (६, ३७, C) नंदिशाप मात्र का उल्लेख करता है किन्तु पश्चिमोत्तरीय पाठ में किसी शाप का निर्देश नहीं मिलता ।



को जीत लिया था। नर्मदा तथा समुद्र में उसकी जलक्रीड़ा के वर्णन के बाद ही इसका उल्लेख मिलता है कि कार्तवीर्य ने सेनासहित रावण को परास्त कर उसे अपनी राजधानी महिष्मती में कैद कर लिया था किन्तु पुलस्त्य की प्रार्थना से उसे मुक्त किया था। अन्त में परशुराम द्वारा कार्तवीर्य के वध का वर्णन किया गया है।

रामायण के उत्तरकाण्ड (सर्ग ३१-३३) में कार्तवीर्य द्वारा रावण की पराजय का अपेक्षाकृत अधिक विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। रावण किसी दिन महिष्मती के पास पहुँच कर तथा अर्जुन की अनुपस्थिति के विषय में सुनकर विन्ध्य की पर्वतश्रेणी की ओर चल दिया। नर्मदा के पास पुष्पक से उतरकर रावण नदी में स्नान करने के बाद उसके तट पर शिव की पूजा करने लगा। उसी समय अर्जुन कार्तवीर्य अपने अन्त-पुर के साथ नर्मदा में जलक्रीड़ा कर रहा था; उसने अपनी सहस्र भूजाओं से नर्मदा की धारा रोक दी जिससे नदी विपरीत दिशा में बहकर रावण द्वारा चढ़ाए हुए फूल ले गई। कारण का पता लगवा कर रावण अर्जुन से लड़ने आया किन्तु वह द्वन्द्वयुद्ध में पराजित होकर अर्जुन द्वारा महिष्मती के कारावास में रखा गया। बाद में अर्जुन ने पुलस्त्य के अनुरोध पर रावण को छोड़ा कर उसके साथ "अहिंसक सख्यम्" कर लिया।

विमलमूरि ने नलकूबर-शाप की कथा की भाँति प्रस्तुत वृत्तान्त में भी आमूल परिवर्तन कर दिया है। पउमचरिय (पर्व १०) के अनुसार महेश्वर के राजा सहस्रकिरण किसी समय अपनी सहस्र पत्नियों के साथ नदी में जलक्रीड़ा करने गए और इस प्रकार उसने रावण का ध्यान भंग किया था जो स्नान के बाद जिन मूर्तियों की उपासना कर रहा था। रावण द्वारा परास्त किए जाने पर सहस्रकिरण ने सन्यास लिया।

(२) उत्तरकाण्ड (सर्ग ३४) में वालि द्वारा रावण की पराजय का वर्णन इस प्रकार है। 'कार्तवीर्य के कारावास से मुक्त होकर रावण फिर योग्य प्रतिद्वंदियों की खोज में पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा। किष्किंधा पहुँचकर उसने सुन लिया कि वालि दक्षिण समुद्र के तट पर सध्या कर रहा है। इसपर रावण पुष्पक पर चढ़कर वालि के पास आया। वालि रावण को अपनी काँख में दबा कर आकाश-मागं से क्रमशः पश्चिम, उत्तर तथा पूर्व सागर गया और इस प्रकार अपनी सध्या समाप्त कर किष्किंधा लौटा। तभी उसने रावण को मुक्त कर दिया; रावण ने वालि के पराक्रम की प्रशंसा करने के बाद इसके साथ सख्य करने की इच्छा प्रकट की। वालि ने इस

१. गौडीय पाठ मात्र में इस प्रसंग को किष्किंधाकाण्ड (सर्ग १०) के अन्तर्गत रखा गया है।

प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और रावण महीं ने भर अपने नये मित्र बालि के यहाँ रहा। परवर्ती रचनाओं में रावण की मानहानि को कही और बढ़ा दिया गया है। आनन्द रामायण (१, १३, १००) के अनुसार रावण को अंगद के पालने के नीचे बाँधकर रखा गया था जिससे वह "अंगदमूत्रस्य धाराधौतानम्" बन गया। सेरी-राम में निम्नलिखित कथा मिलती है। रावण पुष्पक पर चढ़कर मद्रूदाकी के साथ स्वर्गलोक-निवासी इन्द्रजित् से मिलने गया। बालि ने पुष्पक अपने राज्य के ऊपर जाते हुए देखकर रावण पर आक्रमण किया तथा मद्रूदाकी को छीनकर रावण को पुष्पक के साथ समुद्र में फेंक दिया। बालि ने अपनी राजधानी में पहुँचकर मद्रूदारी से विवाह कर लिया। कुछ समय के बाद उसने हनुमान् को आदेश दिया कि वह गर्भवती मद्रूदारी की सेवा के लिए २४ राजकुमारियों को ले आये। इतने में रावण ने बालि के गुरु (नील चक्रू) के पास जाकर मद्रूदारी के हरण का समाचार कह सुनाया। गुरु ने रावण को आश्वासन दिया कि उसे मद्रूदारी वापस मिल जायगी बशर्त कि वह तपस्वियों के आश्रम नष्ट न करे। तब बालि के गुरु, रावण के साथ बालि के यहाँ आये। गुरु का निवेदन सुनकर बालि ने आपत्ति की कि मद्रूदारी गर्भवती है। इस पर गुरु ने मद्रूदारी का गर्भ निकालकर उसे किसी बकरी के शरीर में रख दिया और रावण मद्रूदाकी के साथ अपने भवन चला गया। तब गुरु ने हनुमान् को इन्द्र पवानम नामक पर्वत से फूल ले आने का आदेश दिया। हनुमान् समस्त पर्वत ले आये और उसपर से गुरु के शिष्यों ने आवश्यक फूल चुन लिये। अनन्तर गुरु ने मंत्रों की सहायता से इन फूलों से एक मड़क की और इसके बाद मड़क से एक सुन्दर स्त्री की सृष्टि की। गुरु ने उसका नाम देवी बरमा कोमाल रख दिया तथा उसे बालि को पत्नी के रूप में प्रदान किया। बकरी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ; उसका नाम श्री अम्गाद रखा गया; बाद में देवी बरमा कोमाल ने अनूल नामक पुत्र को जन्म दिया। अन्त में हनुमान् तथा बालि दोनो वन में अलग-अलग स्थान पर तपस्या करने चले गए।<sup>१</sup> सेरी राम के पातानी पाठ के अनुसार मद्रुदकी के हरण के बाद महाराज वन भी बालि के भवन में कैदी के रूप में रखा जाता है। महासिकुल के अनुरोध पर बालि ने दोनों को मुक्त कर दिया। इस कथा में भी अंगद एक बकरी से जन्म लेता है। रामकियेन के अनुसार रावण ने मँडो को लेकर लंका की ओर प्रस्थान किया था और बालि ने रास्ते में रावण को पराजित करके मँडो का हरण किया। बाद में बालि ने गुरु का निवेदन स्वीकार कर मँडो को लौटाया (अध्याय ४)। जब अंगद की अवस्था १० वर्ष की थी रावण ने उसे मार डालने का निश्चय किया क्योंकि अंगद मँडो के अपमान का

१. तपस्या का उल्लेख पउमचरियं का प्रभाव माना जा सकता है।

स्मरण दिलाता है। रावण छिप कर किष्किंधा आया किन्तु सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। तब बालि ने रावण को इन्द्र युद्ध में परास्त कर दिया; उसने रावण को कैदी के रूप में अपने पास रखा। रावण सात दिन तक किष्किंधा में अपमान सहकर लंका लौटा (अध्याय ८)। इस रचना में बालि द्वारा रावण की एक अन्य पराजय भी वर्णित है (वे० अनु० ५९७)।

पठमचरियं (पर्व ८) के अनुसार दशमुख ने किसी दिन दूत भेजकर बालि को आदेश दिया कि वह आकर प्रणाम करे। बालि ने उत्तर दिया कि मेरा मस्तक जिन-वरुद्ध को छोड़कर और किसी के सामने नहीं झुकता। इसपर दशानन आक्रमण की तैयारियाँ करने लगा। बालि ने सोचा कि मैं न तो राक्षसराजा के सामने झुक सकता और न जीवों का नाश करने वाला युद्ध कर सकता हूँ, अतः उसने सुग्रीव को राजा बनाकर दीक्षा ले ली। बाद में दशानन का विमान किसी अबसर पर तपोवन बालि के प्रभाव से अष्टापद पर्वत (कैलास) के ऊपर रुक गया। रावण उतरा तथा पर्वत को उठाकर उसे ले जाने लगा। बालि ने यह देख कर कि जीवों को कष्ट हो रहा है पैर के अगुठे से शिखर को दबाया जिससे दशानन पर्वत के नीचे कुचलकर जिल्लाने लगा; उस समय से उसका नाम रावण पड़ गया। अन्त में बालि ने अपना अगुठा खींच कर रावण को छुड़ाया और रावण ने बालि को प्रणाम कर उसकी स्तुति की।

(३) वाल्मीकि रामायण के एक प्रक्षेप (उत्तरकाण्ड के सर्ग २३ के बाद प्रथम प्रक्षिप्त सर्ग) के अनुसार रावण ने यमलोक से निकलने के बाद अश्विनगर पहुँचकर एक भवन में प्रवेश किया जहाँ बलि कैदी था। बलि ने रावण को बता दिया कि भवन के द्वार पर जिस वियम पुरुष से रावण की भेंट हुई, वही विष्णु हैं। यह सुनकर रावण लड़ने के लिए उद्यत हुआ किन्तु ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए विष्णु अंतर्धान हो गए। दाक्षिणात्य पाठ मात्र में इस वृत्तान्त के अन्तर्गत रावण की पराजय का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार बलि ने अपने यहाँ पडा हुआ चक्र दिखाकर रावण से कहा कि उसे उठाकर मेरे पास आओ। रावण पहले उसे हिलाने में असमर्थ हुआ; अन्त में उसने सारी शक्ति लगाकर उसे ऊपर उठाया किन्तु वह तुरन्त मूच्छा खाकर गिर गया। तब बलि ने प्रकट किया कि वह चक्र वास्तव में मेरे किसी पूर्वज का कुण्डल है। आनन्द रामायण (१, १३, १०७-११५) में इस कथा को एक नवीन रूप दिया गया है। इसके अनुसार रावण ने घर में प्रवेश कर बलि की पत्नी के साथ चाँस खेलता देखा था। बलि के हाथ से एक पांसा गिर गया और बलि ने रावण को उसे उठा लाने को आदेश दिया। रावण अपने बीसों हाथों से प्रयत्न करने पर भी पांसा उठाने में असमर्थ रहा। तब एक दासी ने झट पांसा उठाकर राजा को दे दिया। रावण के चले जाने पर बलि के परिचरों ने उसे पकड़ लिया और उसे ढोड़ों की लीद

उठा-उठा कर बाहर फेंकने का काम दिया। कुछ समय बाद रावण ने द्वार पर स्थित विष्णु से नगर से निकलने की प्रार्थना की। विष्णु ने उसे पौर के अंगूठे से आकाश में उछाल दिया और रावण लंका की ओर चल दिया। भावार्थ रामायण (७, २७) का वृत्तान्त स्पष्टतया आनन्द रामायण पर आधारित है।

(४) कपिल तथा विष्णु द्वारा रावण की पराजय की निम्नलिखित कथा का कोई विकास नहीं हुआ है। रावण ने किसी दिन पश्चिम सागर के तट पर भीषणाकार कपिल को देखकर उसके साथ युद्ध करने की इच्छा प्रकट की। कपिल ने रावण पर प्रहार कर उसे भूमि पर गिरा दिया और पाताल में प्रवेश किया। रावण ने उसका पीछा किया किन्तु पाताल में कपिल के समान तीन कोटि पुरुषों को देखकर वह शीघ्रता से उस स्थान से निकल गया। एक अन्य स्थल पर रावण ने शयन करने वाले विष्णु को तथा उनके पास बैठने वाली लक्ष्मी को देख लिया। रावण ने लक्ष्मी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाना चाहा किन्तु विष्णु सब जानकर अचानक जोर से हँसने लगे जिससे रावण भूमि पर गिर पड़ा। तब विष्णु ने रावण को अभयदान दिया तथा परिचय पूछे जाने पर रावण को अपना विराट् रूप दिखलाया (सर्ग २३ के पश्चात् पंचम प्रक्षिप्त सर्ग)।

(५) रावण की एक अन्य पराजय की कथा दक्षिणात्य पाठ मात्र में मिलती है (दे० उत्तर खण्ड, सर्ग ३७ के बाद ५वाँ प्रक्षिप्त सर्ग)। रावण किसी दिन नारद के परामर्श के अनुसार श्वेतद्वीप चला आया। वहाँ की युवतियों ने रावण को लीला-पूर्वक एक दूसरे के पास फेंक दिया—हस्ताद्वस्तं स च क्षिप्तो भ्राम्यते भ्रमलालसः (श्लोक ३६)। अन्त में भयानुर रावण सागर के मध्य में गिर गया। आनन्द रामायण (१, १३, १३५) के अनुसार श्वेत द्वीप की एक स्त्री ने रावण को परलका तक फेंक दिया और वह अपनी बहन कौचा के शौचकूपक में जा गिरा। भविष्य पुराण हनुमान् द्वारा रावण की पराजय का वर्णन किया गया है (दे० अनु० ६६८)।

#### ४—हनुमच्चरित

६५६ उत्तरकाण्ड में रावणचरित के अनन्तर हनुमान् के जन्म तथा बालचरित का दो सर्गों में वर्णन किया गया है, अतः यहाँ पर हनुमच्चरित विषयक सामग्री का निरूपण तथा आवश्यकतानुसार उसके विकास का दिग्दर्शन करना अपेक्षित है।

हनुमान् की अत्यन्त लोकप्रियता को ध्यान में रखकर अनेक विद्वानों ने यह अनुमान किया है कि हनुमत्कथा रामायण के पूर्व ही प्रचलित थी; इस मत का विद्वेषण तथा खण्डन हो चुका है (अनु० १०१, १०३)। प्रस्तुत हनुमच्चरित के अन्त में इस लोकप्रियता के वास्तविक कारण पर प्रकाश डाला जाएगा (अनु० ७१०)।

वाल्मीकीय रामायण की आधिकारिक कथा-वस्तु में हनुमान् का स्थान अपेक्षाकृत महत्त्वपूर्ण है। वे राम-लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले जाते हैं; वर्षा-ऋतु के पश्चात् सुग्रीव को राम के प्रति उसके कर्तव्य का स्मरण दिलाते हैं; राम की अंगूठी लेकर सीता की खोज में अन्य वानरों के साथ दक्षिण की ओर प्रस्थान करते हैं; समुद्र लीं-कर लंका में सीता का पता लगाते हैं तथा उनका संदेश लेकर राम के पास लौटते हैं। वास्तव में हनुमान् ही मुन्दरकाण्ड के नायक हैं। वे युद्ध में भी एक प्रमुख भाग लेते हैं (अनु० ५८७) तथा रावण-वध के पश्चात् वे ही सीता के पास और बाद में भरत के पास राम-विजय का शुभ-संदेश ले जाते हैं। हनुमान् के दो अन्य कृत्य अत्यधिक प्रसिद्ध हैं, अर्थात् लकादहन तथा ओषधि-पर्वत का आनयन; दोनों को ममीचीन कारणों से बाद के प्रक्षेप मानना चाहिए (दे० ऊपर अनु० ५३० और ५६४)।

प्रचलित वाल्मीकि रामायण के विभिन्न पाठों के प्रक्षेपों में अथवा परवर्ती राम-कथाओं में हनुमान् के विषय में जो सामग्री रामायणीय कथा-वस्तु से सीधा संबंध रखती है, उसका निरूपण यथास्थान किया गया है।<sup>१</sup>

६५७. वाल्मीकिकृत आदि काव्य में हनुमान् की जन्मकथा का तो अभाव रहा होगा, किन्तु प्रचलित रामायण डमका साक्ष्य है कि आगे चलकर रामायण के कुशीलवों ने इस अभाव की प्रचुर मात्रा में पूर्ति की है; बाद में भी इस कथा का विकास होता रहा। अतः 'हनुमान् की जन्मकथा तथा बालचरित' नामक प्रथम परिच्छेद में यह दिखलाया जाता है कि किस प्रकार हनुमान् को क्रमशः (१) वायुपुत्र, (२) आजनेय, (३) रुद्रावतार, (४) राम का पुत्र तथा (५) विष्णु का अशावतार माना गया है।

द्वितीय परिच्छेद में हनुमान् के चरित्र-चित्रण का विकास प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। इसमें राम-कथा से सीधा सम्बन्ध रखने वाली सामग्री के अतिरिक्त हनुमद्विषयक सभी अन्य अर्वाचीन कथाओं का भी ध्यान रखा जाएगा। हनुमान् के निम्नलिखित गुणों का क्रमशः अध्ययन होगा—(१) पराक्रम; (२) बुद्धिमत्ता; (३) चिरजीवत्व; (४) ब्रह्मचर्य; (५) रामभक्ति; (६) देवत्व।

इसके पूर्व यहाँ पर जैनी राम-कथाओं के हनुमच्चरित की कुछ विशेषताओं का उल्लेख आवश्यक है। पञ्चमचरित के अनुसार हनुमान् को रावण तथा सुग्रीव दोनों का रिश्तेदार माना गया है। रावण ने अपनी बहन चन्द्रनखा की पुत्री अनंगकुमुदा का तथा सुग्रीव ने अपनी पुत्री पद्मरागा का हनुमान् के साथ विवाह सम्पन्न किया था (अनु० ६९९)। युद्ध के बाद राम ने हनुमान् को राजा बनाकर उन्हें श्रीपर्वत के

१ निम्नलिखित अनुच्छेद विशेष रूप से द्रष्टव्य हैं—३८२, ५१२, ५२५, ५३१-५३९, ५४१, ५४२, ५४८-५५५, ५७६-५८१, ५८७-५८८, ६०५, ६०८, ६१४, ६१५, ६३४, ६५५, ७४६, ७५७।

शिलर पर स्थित श्रीपुर प्रदान किया। अन्त में हनुमान् ने दीक्षा लेकर निर्वाण प्राप्त किया। गुणमद् के उत्तरपुराण (६८, ७२०) में भी हनुमान् की इस सिद्धि का उल्लेख है।

### क। जन्मकथा तथा बालचरित

६५८. हनुमच्चरित की सबसे बड़ी विशेषता उनकी जन्मकथा के विविध रूपों का बाहुल्य है। रामायणीय कथा जिसके अनुसार हनुमान् अजना के पुत्र हैं निर्विवाद रूप से सर्वाधिक प्रचलित है किन्तु इसकी प्रामाणिकता सदिग्ध है। अतः प्रस्तुत परिच्छेद में सर्वप्रथम रामायणीय जन्मकथा की प्राचीनता पर विचार किया गया है; अनन्तर हनुमान् की विभिन्न जन्मकथाओं का क्रमिक विकास प्रस्तुत किया जायेगा।

हनुमान् के अवतारत्व के विषय में अध्यात्म रामायण (४, ७, १९-२१) में माना गया है कि हनुमान् अगद आदि पूर्वकाल में तपस्या द्वारा नारायण की आराधना करके उनके पाशंद बन गए थे और अब उनकी मायाशक्ति के प्रभाव में वानर के रूप में उत्पन्न हो गए हैं। दीनकृष्णदाम कृत उडिया रसविनोद (रचनाकाल १७०० ई० के लगभग) के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और सदाशिव तीनों ने मिलकर हनुमान् का रूप धारण कर लिया था।

पउमचरियं (पर्व १७) के अनुसार हनुमान् के तीन पूर्वजन्मों का उल्लेख है; उसके अनुसार वह हनुमान् बन जाने के पूर्व क्रमशः दमयत, सिंहचंद्र तथा राजकुमार मिहवाहन के रूप में प्रकट हुए थे।

#### (अ) वायुपुत्र

६५९. प्रचलित वाल्मीकि रामायण में हनुमान् की जो जन्मकथा मिलती है उसकी प्राचीनता तथा प्रामाणिकता के विरुद्ध दो तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं। एक तो वाल्मीकि रामायण में केसरी अथवा अजना के उल्लेखों की कमी; दूसरा, हनुमान् की उपाधि 'वायुपुत्र' का निरन्तर प्रयोग।

१. दे० पर्व ८५। मेरीराम के अनुसार हनुमान् ने बीरूहशा पुर्वा का राज्य अस्वीकार करते हुए राम के पास रहने का निवेदन किया था। रामकियेन (अ० ३८) में इसका वर्णन मिलता है कि राम ने विष्णुकर्मा द्वारा नवपुरी का नगर बनवाकर उसे हनुमान् को प्रदान किया था।
२. दे० पर्व १०८। रामकियेन (अ० ३९) में भी हनुमान् के तपस्वी बन जाने का उल्लेख है। अध्यात्म रामायण (७, १६, १५) के अनुसार हनुमान् कल्पान्त में मायुज्य मुक्ति प्राप्त करेंगे। अभ्युत्तानन्दकृत उडिया हरिवंश के अनुसार हनुमान् ने कृष्णावतार के समय राधा के पति के रूप में जन्म लिया। नीचे ६९१ में श्री हनुमान् के आगामी जन्म की चर्चा है।

हनुमान् की जन्मकथा के बाहर प्रचलित बाल्मीकि रामायण में केवल एक ही स्थल है जहाँ तीनों पाठों में केसरी का हनुमान् के पिता के रूप में उल्लेख हुआ है;<sup>१</sup> और यह स्थल स्पष्टतया प्रक्षिप्त है। सीता-हनुमान्-संबन्ध में हनुमान् सीता से कहते हैं—अहं सुधीवसन्धिवो हनुमान् नाम वानरः (५, ३४, ३८)। अगले सर्ग में वह पुनः अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं केसरी की पत्नी से उत्पन्न हनुमान् हूँ :

मास्यबाध्नाम बंदेहि गिरीणामुत्तमो गिरिः ॥ ७९ ॥

ततो गच्छति गोकर्णं पर्वतं केसरी हरिः ।

× × ×

यस्याहं हरिणः क्षेत्रे जातो वातेन भंडिल ।

हनुमानिति विख्यातो लोके स्वेनैव कर्मणा ॥ ८१ ॥ (सर्ग ३५)

प्रचलित रामायण में केसरी का नाम मात्र भी बहुत कम मिलता है। हनुमान् की जन्मकथा तथा उपर्युक्त प्रक्षिप्त उद्धरण के अतिरिक्त उनका नाम किष्किन्धा अथवा सुन्दरकाण्ड में कहीं भी नहीं आया है। इस प्रभाव की अर्थपूर्णता स्पष्ट है जब इसका ध्यान रखा जाता है कि उन काडों में चार बार मुख्य वानरों की लम्बी सूचियाँ दी गई हैं (दे० किष्किन्धा के सर्ग ४, ५० और ६५ और सुन्दरकाण्ड का सर्ग ३)। प्रामाणिक काण्डों में से युद्धकाण्ड में सबसे अधिक मात्रा में प्रक्षिप्त सामग्री पाई जाती है (दे० ऊपर अनु० ५६१-५६६), उस काण्ड के एक स्थल पर केसरी को वानरमुख्य की उपाधि मिल गई है—मुख्यो वानरमुख्यानां केसरी नाम पृथपः (दे० २७, ३८)। फिर भी इस उद्धरण के अतिरिक्त समस्त युद्धकाण्ड में केसरी का नाम केवल तीन बार आया है—दो बार अन्य नामों के साथ उनके नाम का उल्लेख मात्र मिलता है (दे० ४, ३३ और ७३, ५९) और एक अन्य स्थल पर यह कहा गया है कि केसरी तथा सपाति ने घोर युद्ध किया था—युद्धं केसरिणा संख्ये घोरं सम्पातिना कृतम् (दे० ४९, २६)। यह ध्यान देने योग्य है कि किष्किन्धा तथा सुन्दरकाण्ड की भाँति युद्धकाण्ड में भी मुख्य वानरों की बहुत सी लम्बी सूचियाँ मिलती हैं, जिन में केसरी का नाम नहीं है, उदा० सर्ग ३, २६, ३०, ३१, ४२, ४३ और ४७। युद्धकाण्ड के अन्त में भरत द्वारा अयोध्या में वानरो का स्वागत

१. दाक्षिणात्य तथा गौड़ीय पाठ का एक पूरा सर्ग पश्चिमोत्तरीय पाठ में नहीं मिलता, इसमें वानर-सेना के आगमन का वर्णन किया गया है। दाक्षिणात्य पाठ के उस सर्ग में केसरी का उल्लेख इस प्रकार है—पिता हनुमतः श्रीमान्केसरी (दे० ४, ३९, १८); गौड़ीय पाठ भिन्न है—पितामहसुतः श्रीमान्केसरी (४, ३९, २६)।

वर्णित है; इस प्रसंग में हनुमान् के अतिरिक्त तेरह वानरो के नाम आए हैं किन्तु केसरी का कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ है (दे० १२७, ४२ आदि)। दक्षिणात्य पाठ के बालकाण्ड में भी वानरो की उत्पत्ति के प्रसंग में बारह नाम उल्लिखित हुए हैं (दे० सर्ग १७); बालि और तार को छोड़कर सब नाम युद्धकाण्ड के अन्त में भी आए हैं। यही प्रमुख माने जा सकते हैं किन्तु केसरी उनमें नहीं है।

उत्तरकाण्ड के निरीक्षण से भी वही निष्कर्ष निकलता है। हनुमान् की जन्मकथा (सर्ग ३५-३६) को छोड़कर उत्तरकाण्ड का केवल एक ही स्थल है जहाँ तीनों पाठ केसरी का नाम लेते हैं, दान-वितरण के प्रसंग में केसरी का अन्य वानरो के साथ उल्लेख हुआ है।<sup>१</sup> स्वर्गारोहण के वर्णन में कहीं भी केसरी का नाम नहीं आया है (दे० सर्ग १०८)। इन सब बातों को ध्यान में रखकर स्पष्ट हो जाता है कि प्रारम्भ में केसरी का मुख्य वानर के रूप में चित्रण नहीं हुआ था; अधिक संभव यही प्रतीत होता है कि आदि रामायण में इसका उल्लेख तक नहीं किया गया था। महाभारत के रामोपाख्यान में केसरी का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता; हममें भी हमारे निष्कर्ष की पुष्टि होती है।<sup>२</sup>

अंजना का नाम प्रचलित वाल्मीकि रामायण में हनुमान् की जन्मकथा के बाहर केवल एक ही बार आया है (६, ७४, १८), किन्तु जिस सर्ग में अंजना का यह उल्लेख मिलता है, वह निश्चित रूप से प्रक्षिप्त है (दे० अनु० ५६४)। महाभारत में अंजना का नाम एक बार भी नहीं पाया जाता है।

प्रस्तुत विश्लेषण के आधार पर अनुमान किया जा सकता है कि आदि रामायण में केसरी अथवा अंजना का कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ था। हनुमान् की जन्मकथा की प्रार्थना के विशुद्ध जो दूसरा तर्क है वह कहीं और महत्त्वपूर्ण है। यह तर्क प्रचलित रामायण में प्रयुक्त हनुमान् की उपाधियों पर आधारित है।

६६०. वाल्मीकि रामायण में हनुमान् को प्रायः बायुपुत्र अथवा इसके पर्याय-वाची शब्द की उपाधि दी जाती है। महाभारत में भी हनुमान् को पाँच बार माह-तात्मज, तीन बार पबनात्मज, दो बार अनिलात्मज, एक बार बायुपुत्र तथा एक बार

१. दे० ३९, २०। अगले सर्ग में वानरों की विदा का वर्णन किया गया है; इस प्रसंग में गौडीय और पश्चिमोत्तरीय पाठ तथा दक्षिण के संस्करण (दे० गोविन्द पाठ) केसरी का उल्लेख नहीं करते; अतः बम्बई संस्करण में जो उल्लेख मिलता है (दे० ४०, ७) उसे परवर्ती प्रक्षेप मानना चाहिए।
२. महाभारत के एक ही स्थल पर केसरी का नाम मिलता है; हनुमान्-मीम-संवाद के अन्तर्गत हनुमान् को केसरी की पत्नी से उत्पन्न माना जाता है (दे० ३, १४७, २४)।



वायुसन्धय कहा गया है। किन्तु केसरीपुत्र अथवा अंजनापुत्र इस प्रकार का विशेषण कही मिलता ही नहीं। अतः यह अनुमान सहज ही मन में उत्पन्न होता है कि संभवतः हनुमान पहले वायुपुत्र के नाम से विख्यात थे, बाद में ही केसरी-अंजना के पुत्र के रूप में। रामायण में हनुमान् के निम्नलिखित नाम सर्वाधिक प्रयुक्त हुए हैं—माह-तात्मज, मावति, पवनात्मज, वायुपुत्र, वायुसन्नु, वायुसुत और अनिलात्मज। इनके अतिरिक्त वातात्मज, मावत, पवनसुत, अनिलसुत, ये नाम भी कई बार आए हैं। कुछ अन्य नाम केवल एक ही बार प्रयुक्त हुए, अर्थात् वायुनन्दन (५, ५७, १०), वायुसंभव (५, ३५, ८८), पवनसंभव (५, १५, ५४), माहस्तनन्दन (५, १८, २०), वासवदूतसन्नु (६, ७४, ५८), गंधबहात्मज (एकही सर्ग में दो बार, अर्थात् ६, ७४, ६६ और ७३)।

हनुमान् की उत्पत्ति-विषयक उपाधियों का यह बाहुल्य दृष्टि में रखकर तथा इसमें केसरी अथवा अजना के उल्लेख का अभाव देखकर उपर्युक्त अनुमान सुदृढ़ धारणा में परिणत हो जाता है कि वाल्मीकि रामायण के कुशीलव बहुत समय तक हनुमान् को वायुपुत्र ही मानते थे, और उस कथा से अनभिज्ञ थे, जिनके अनुसार हनुमान् केसरी की पत्नी अंजना की सन्तान हैं। दाक्षिणात्य पाठ के बालकाण्ड में जहाँ देवताओं द्वारा अप्सराओं, गंधर्वियों और वानरियों से वानरों तथा ऋक्षों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है, वहाँ भी माहत् को ही हनुमान् का पिता माना गया है (दे० सर्ग० १७, १६)।

६६१. बाद में अंजनय (दे० महानाटक १४, ९४), अंजनीसुत आदि नाम भी प्रचलित होने लगे; उत्तरकाण्ड की जन्मकथा में अजनीसुत मिलता ही है किन्तु ध्यान देने योग्य है कि यह केवल दाक्षिणात्य पाठ में पाया जाता है; गौड़ीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठों के समानान्तर स्थलों पर इसका अभाव इस नाम को प्रक्षेप सिद्ध कर देता है।

उद्धरण इस प्रकार है:

तथा केसरिणा त्वेष वायुना सो ऽञ्जनीसुतः ॥ ३१ ॥

प्रतिबिद्धोऽपि भर्षावा लंघयत्येव वानरः । (दा० रा०, सर्ग ३६)

यदा केसरिणा ह्येव वायुना ऽञ्जनया तथा ।

प्रतिबिद्धोऽपि भर्षावा लंघयत्येव वानरः ॥ ३१ ॥

(५० रा०, सर्ग० ३९)

यदा केसरिणा त्वेष वायुना स्वधर्मः सह ।

प्रतिबिद्धोऽपि भर्षावा लंघयत्येव वानरः ॥ ७ ॥ (गी० रा०, सर्ग० ४०)

६६३. 'वायुपुत्र' नाम की उत्पत्ति के विषय में निम्नलिखित कल्पना विद्याधर नहीं कही जा सकती है। रामायण की रचना के पहले ही 'वायुपुत्र' शब्द एक निश्चित अर्थ में प्रचलित था। 'सुमंगला' जातक में एक 'वायुस्स पुत्त' अर्थात् विद्याधर की कथा मिलती है जिसमें वृत्ती हनुमान् का उल्लेख है और न किसी अन्य वानर का। यह विद्याधर ऐन्द्रजालिक है और 'वायुस्स पुत्त' का अर्थ अन्यत्र भी विद्याधर अर्थात् जादूगर है; महाभारत में भी 'वातिक' (दे० ३, २४३, ३) इससे मिलता-जुलता अर्थ रखता है। रामायण में हनुमान् समुद्र लांघते हैं, सीता का पता लगाते हैं और अन्य वानरों की अपेक्षा बुद्धिमान तथा कार्यकुशल माने जाते हैं। अद्भुत रस से परिपूर्ण उनके उस चरित्र-चित्रण का ध्यान रखकर उनको 'वायुपुत्र' (अर्थात् विद्याधर, ऐन्द्रजालिक) की उपाधि मिल गई होगी। बाद में 'वायुपुत्र' नाम के आधार पर प्रचलित जन्म-कथा विकसित हुई होगी; इसके अनुसार वायु ने किमी शाप-भ्रष्टा अप्सरा से हनुमान् को उत्पन्न किया है।

#### (आ) आजनेय

६६३. हनुमान् की जन्मकथा दाक्षिणात्य पाठ में (तथा अन्य पाठों के समानान्तर स्थलों पर) तीन बार मिलती है—प्रथम बार किष्किन्धाकाण्ड में जहाँ जाम्बवान् अन्य कपियों को समुद्र लांघने में असमर्थ समझकर हनुमान् की कथा तथा उनके सामर्थ्य का वर्णन करता है, दूसरी बार, युद्धकाण्ड के एक प्रक्षेप में, जिसमें गूत्त-चरों को दुबारा राम की मेना का निरीक्षण करने भेजा जाता है (दे० अनु० ५६२), तीसरी बार अपेक्षाकृत अर्वाचीन उत्तरकाण्ड में। गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठों में जाम्बवान् के भाषण के बाद हनुमान् स्वयं अपने पिता केररी के एक वरदान का उल्लेख करते हुए अपनी ही जन्मकथा का पुनः विवरण करते हैं। इन चार जन्मकथाओं का कालक्रम निर्धारित करना असंभव है, फिर भी किष्किन्धाकाण्ड की कथा सबसे प्राचीन प्रतीत होती है, अतः सर्वप्रथम इसका निरूपण करना उचित होगा।

६६४. प्रचलित रामायण के किष्किन्धाकाण्ड (सर्ग ६६) के अनुसार हनुमान् की जन्मकथा इस प्रकार है। पृथिव्या नामक अप्सरा को शापवश वानर-योनि

१. दे० जर्मन ऑरियेंटल जर्नल, भाग ९३, पृ० ८९। विनय-पत्रिका में तुलसीदास भी हनुमान् को 'काव्य कीतुक कलाकोटि सिधो' कहकर पुकारते हैं (दे० २८, ५)।

२. ब्रह्मपुराण में इन्द्र के शाप का उल्लेख है (दे० ८४, १४)। तेलुगु द्विपद रामायण (४, २२) के अनुसार अग्नि ने यह शाप दिया था। कृतिवासीय रामायण में विष्णुमित्र का शाप उल्लिखित है जिसके फलस्वरूप हनुमान्

प्राप्त हुई थी। वह कुंजर (पश्चिमोत्तरीय पाठ में 'विश्व') की पुत्री अंजना के रूप में प्रकट होकर केसरी की पत्नी बन गई। कामरूपिणी होने के कारण उसने किसी दिन रूपवीचनसम्पन्न मानव स्त्रीर धारण कर लिया। मातृ ने उसे इस रूप में देखा तथा उस पर आसक्त होकर उसका आलिंगन किया। अंजना के आपत्ति करने पर मातृ ने उसको एक वीर्यवान बुद्धिसम्पन्न पुत्र को उत्पन्न करने का वरदान दिया, जिसकी गति वायु के समान होगी:

मनसाऽस्मि गतो यत्त्वा परिह्वल्य यशस्विनि ।

वीर्यवान् बुद्धिसम्पन्नस्तव पुत्रो भविष्यति ॥१८॥

महासखो महातेजा महाबलपराक्रमः ।

लघने प्लवने चैव भविष्यति मया समः ॥१९॥

इस वरदान के फलस्वरूप अंजना गर्भवती हुई और उसने एक गुफा में हनुमान् को जन्म दिया। उदयमान् सूर्य को देखकर तथा उमे फल समझकर शिशु उमे पकड़ने के लिए आकाश में कूद पड़ा। इन्द्र ने उसे वज्र से मारा तथा पर्वत के शिखर पर गिरने के कारण शिशु की वाई ठोड़ी (हनु) टूट गई। इसमें उसका नाम हनुमान् पड़ा

तदा श्लाघ्यशिखरे वामो हन्रभज्यत ।

ततो ऽभिनामधेयं ते हनुमानिति कीर्तितम् ॥२४॥

अपने पुत्र की यह दशा देखकर वायु ने क्रोध में आकर अपनी गति बन्द कर दी (न बबौ च प्रभजनः), जिसमें ममस्त प्राणी अत्यन्त व्याकुल हुए और देवता आकर वायु को मनाने लगे। ब्रह्मा ने हनुमान् को 'अशस्त्र-वध्यता' का तथा इन्द्र ने इच्छानुसार मरण (स्वच्छन्दतश्च मरणम्) का वरदान दिया।<sup>१</sup>

अगले सर्ग में भी जाम्बवान् हनुमान् को फिर 'बीरकेसरिणः पुत्र' कहकर संबोधित करता है (दे० ६७, ३१)।

की नानी बानरी बन गई थी। एक लोककथा के अनुसार पुंजिकस्थला के बहुत अनुनय-विनय करने पर उसे कामरूपिणी होने का वरदान मिला था। दाक्षिणात्य पाठ के दो स्थलों पर कहा गया है कि रावण को पुंजिकस्थला के कारण शाप दिया गया था (दे० अनु० ६५४)।

१. पश्चिमोत्तरीय पाठ में यहाँ पर राहु का भी उल्लेख है। यह प्रसंग उत्तरकाण्ड से लिया गया है। (दे० आगं अनु० ६६६)।
२. पश्चिमोत्तरीय पाठ में इन्द्र के वरदान का उल्लेख नहीं है। गौडीय पाठ में कोई भी वरदान उल्लिखित नहीं होता तथा वायु के न चलने का प्रसंग भी नहीं है।

६६५. **युद्धकाण्ड** की संक्षिप्त हनुमत्कथा एक विस्तृत प्रश्नेप में आई है। उसमें हनुमान् को केसरी का अघोष्ठ पुत्र बताया गया है। इसके बाद हनुमान् के सूर्य की ओर लपकने की कथा मिलती है और कहा गया है कि वज्र से आहत होकर शिशु 'भास्करोवध' नामक पर्वत पर गिर गया था (दे० ६, २८, १०-१५)।

६६६. **उत्तरकाण्ड** (सर्ग ३५-३६) में हनुमान् की जन्मकथा तथा बालचरित का प्रसंग इस प्रकार है। राम ने अगस्त्य से रावणचरित सुनने के पश्चात् पूछा था—“हनुमान् इतने शक्तिशाली होते हुए भी बाल के विरुद्ध सुग्रीव की सहायता करने में असमर्थ थे, मेरा तो विचार यह है कि हनुमान् अपना बल जानने ही नहीं थे।” इस पर अगस्त्य ने इसका रहस्य खोलकर उताव दिया कि मुनियों के शाप के फल-स्वरूप—“न वेत्ता हि बलं सर्वबली सन्।” अनन्तर अगस्त्य ने हनुमान् की पूरी कथा सुनाई। यह कथा किष्किन्धाकाण्ड के वृत्तान्त से बहुत-कुछ मिलती-जुलती है किन्तु इसमें इसका उल्लेख नहीं किया गया है कि अजना वास्तव में एक शापग्रस्ता अप्सरा थी। केसरी मुमेरु पर्वत के राजा है, वायु उसकी पत्नी अजना में हनुमान् को उत्पन्न करते हैं। प्रसव के बाद ही अजना फल बटोरने के उद्देश्य से वन चली जाती है। माना की अनुपस्थिति में भूल से व्याकुल होकर तथा सूर्य को फल समझकर शिशु बालसूर्य पकड़ने के लिए आकाश में कूद पड़ता है। सूर्य उसे बच्चा समझकर तथा उसका भावी कार्यकलाप जानकर उसको नहीं जलाते हैं। संयोग से राहु उसी दिन सूर्य को ग्रहण करना चाहता था, जब वह सूर्य के पास पहुँचा और हनुमान् ने उसका स्पर्श किया तब राहु भयभीत होकर इन्द्र के यहाँ दौड़ा तथा शिकायत करने लगा—“आपने भूल मिटाने के लिए मुझे बद्र और सूर्य को प्रदान किया है; अब आपने किसी दूसरे को सूर्य क्यों दे दिया है। आज मैंने एक अन्य राहु को सूर्य को पकड़ते देखा।” यह सुनकर इन्द्र हाथी पर सवार होकर सूर्य की ओर चल दिए। राहु पहले ही सूर्य के समीप पहुँचा; हनुमान् उसे एक दूसरा फल समझकर उसकी ओर कूद पड़े, जिस पर राहु इन्द्र की दुहाई देने लगा, इन्द्र उसी समय आ पहुँचे कि हनुमान् एंगवत को एक बड़ा फल समझकर उस पर टूट पड़े और इन्द्र ने हनुमान् को वज्र से मार गिराया। वायु ने अपने आहत पुत्र को उठाकर किसी गुफा में प्रवेश किया तथा वहाँ तक सब प्राणियों को “निश्छ्वास” करते रहे। अन्त में देवता, असुर, मनुष्य, गधर्व सब मिलकर ब्रह्मा की शरण में आ पहुँचे; ब्रह्मा उनके उस कष्ट का रहस्य प्रकट कर सबों को साथ लिए वायु के पाम गए (सर्ग० ३५)।

ब्रह्मा ने सबसे पहले हनुमान् को स्पर्शमात्र द्वारा पुनर्जीवित किया। अनन्तर उन्होंने देवताओं से निवेदन किया कि इस शिशु के भावी महान् कार्यों को ध्यान में

रक्षक वे उसे विभिन्न वर प्रदान करे। देवताओं ने इन्द्र की प्रार्थना स्वीकार की (दे० आगे अनु० ६९४)।

सब के चले जाने के पश्चात् वायु ने अपने पुत्र को अजना को सौंप दिया। बढने पर शिव महाशिवों के आश्रमों में निर्भय होकर विचरने लगा तथा केसरी आदि की मनाही पर ध्यान न देकर अनेक प्रकार से उत्पात मचाने लगा:

अग्निमण्डान्यग्निहोत्राणि बल्कलानां च संचयान् ।

अग्निविक्षिप्रविध्वस्तान् संशान्तानां करोत्ययम् ॥ २९ ॥

अन्ततोगत्वा महाशिवो ने हनुमान् को शाप दिया कि तुमको दीर्घकाल तक अपने बल का ज्ञान नहीं होगा।<sup>१</sup> हनुमान् बचपन से ही मुग्ध के अन्तर्ग मखा थे किन्तु अपने बल का ज्ञान न रहने के कारण वे बालि के विरुद्ध मुग्ध की सहायता नहीं कर सके।

कथा के अन्त में इसका दीर्घ छन्दो में वर्णन किया गया है कि हनुमान् ने सूर्य की सहायता से व्याकरण का अध्ययन किया (दे० आगे अनु० ६८९)।

६६७ जाम्बवान् से अपनी जन्मकथा सुन लेने के पश्चात् हनुमान् विशाल रूप धारण कर तथा समुद्रलघन के लिए उद्यत होकर अपने ही बल का गुणगान करने लगते हैं। यहाँ तक रामायण के तीनों पाठ सहमत है, किन्तु पश्चिमोत्तरीय तथा गौड़ीय पाठों के अनुसार हनुमान् ने उस अवसर पर अपनी जन्मकथा का पुनः विवरण करके अपने पिता केसरी के एक वरदान का भी उल्लेख किया है। पश्चिम समुद्र के तट पर प्रभासतीर्थ में एक महागज<sup>२</sup> ऋषियो को तंग किया करता था। केसरी ने उसका बध किया तथा वरदान प्राप्त कर वायु के समान वीर्यवान्, कामरूपी<sup>३</sup> तथा अव्यय पुत्र माँगा। शेष जन्मकथा जाम्बवान की कथा के सदृश है, किन्तु इसमें पुजिक-

१. दक्षिणात्य पाठ (३६, ३४) के अनुसार शाप के अनन्तर मुनियो ने यह और जोड़ दिया—यदा ते स्मार्यते कीर्त्तिस्तदा ते वर्धते बलम्। रामकिथेन (अ० ७) के अनुसार हनुमान् एक दिन उमा के उद्यान में उत्पात मचाने लगा था और उमाने उसे यह शाप दिया कि तुम्हारा आधा बल लुप्त हो जाय। हनुमान् के विनय करने पर उमा ने कहा कि नारायणावतार राम के स्पर्श से तुम्हारा शरीर अपना पूर्व बल प्राप्त कर सकेगा।

२. वंगीय पाठ में इसका नाम धवल है; पश्चिमोत्तरीय पाठ में शंखधवल।

३. प्रचलित वाल्मीकि रामायण तथा महाभारत में सभी बानर और राक्षस कामरूपी तथा आकाशगामी माने जाते हैं। जैनी राम-कथाओं के विद्याधर भी इन गुणों से सम्पन्न हैं।

स्वर्ण का उल्लेख नहीं है तथा जिस पर्वत के निक्षेप पर अजना माँस से बेलीपाई उसका नाम मलय बताया गया है। इस कथा में हनुमान् के बालचरित का वर्णन नहीं मिलता (दे० गौ० रा० ५, ३, ७-३४; ५० रा० ४, सर्ग ५८)।

६६८. हनुमान् की उपर्युक्त जन्मकथा तथा बालचरित प्रायः सभी अवधीयों में राम-कथाओं में न्यूनाधिक परिवर्तन सहित विद्यमान है। वह कथा स्वतंत्र रूप से भी पुराणों में मिलती है, वहाँ इसका उद्देश्य प्रायः किसी तीर्थ अथवा इष्टदेव का गुणगान है।

**ब्रह्मपुराण** (अध्याय ८४) में हनुमान् की जन्मकथा पेशाचतीयं के माहात्म्य-वर्णन में आई है। कथा इस प्रकार है—अजनपर्वत के शिखर पर केमरी निवास करता था। उसकी दोनो पत्नियाँ वास्तव में अप्सराएँ थी, जो इन्द्र के शाप में पृथ्वी पर प्रकट हुईं। एक का नाम था अजना, और उसका मुख वानरों का मा था, दूसरी का नाम अद्रिका था और उसका मुख मार्जारो जैसा था। किसी दिन केमरी की अनुपस्थिति में दोनो ने अगम्य का अच्छा आनिध्य-सत्कार किया तथा यह वन्दान माँग लिया—  
“पुत्रो देहि मुनीश्वर सर्वभ्यो बलिनो श्रेष्ठो सर्वलोकोपकारको”। अगम्य के चले जाने के बाद वायु तथा निर्ऋति अजना तथा अद्रिका को देखकर उन पर आसक्त हो गए तथा उनके माथ रमण किया। फलस्वरूप अजना-वायु से हनुमान् उत्पन्न हुए और अद्रिका-निर्ऋति से अद्रि पिशाचों का राजा। बाद में अद्रि अजना की गीतमो नदी के किसी तीर्थस्थान पर ले गया और वहाँ वह स्नान करके शापमुक्त हो गई, उस तीर्थ का नाम अजनम् अथवा पेशाचम् रखा गया। हनुमान् अद्रिका को एक दूसरी जगह ले गए जहाँ वह भी शाप मुक्त हो गई, उस तीर्थ का नाम मार्जार, हनुमन्त अथवा वृषाकपि रखा गया। आनन्द रामायण (१, १३, १५८-१६१) में भी इस कथा का अत्यन्त संक्षिप्त रूप मिलता है।

**स्कन्द पुराण** शैवी का ग्रन्थ है, अतः वहाँ शिव हनुमान् के स्वास्थ्यलाभ का श्रेय शिव को दिया गया है। हनुमत्केश्वर माहात्म्य नामक अध्याय में लिखा है कि पवन ने पहले शिव की आराधना की थी तथा इसके बाद अपने पुत्र को शिवलिंग-स्पर्श द्वारा स्वस्थ बना दिया था। इस कारण से उस लिंग का नाम हनुमत्केश्वर रखा गया। अनन्तर देवताओं के आगमन तथा उनके वन्दानों का वर्णन किया गया है (दे० अवती-सण्ड, चतुरशीतिलिंगमाहात्म्य, अध्याय ७९)।

१. बलरामदास रामायण (उत्तरकाण्ड) में भी पवन तथा अजना के रमण करने का उल्लेख है।

अधिकारसूत्र (३, ४, १३) के अनुसार 'वृष' से भारी आग्नि पर भी हनुमान् ने सूर्य को हाथ से नहीं आगि दिया। सूर्य को आसँवकन सुनकर रावण वा पहुँचा तथा हनुमान् की पृष्ठ खींचने लगा। इसपर हनुमान् ने सूर्य को छोड़ दिया तथा एक वर्ष तक रावण के साथ मल्लयुद्ध करते रहे। अन्त में रावण की हार हुई और हनुमान् उस पर प्रहार करने लगे। तब विश्रवा ऋषि ने आकर रुद्रावतार हनुमान् को सन्तुष्ट किया और उन्होंने रावण को छोड़ दिया। आनन्द रामायण (१, १३, १६४-१६८) तथा भावार्थ रामायण (७, ३५) के अनुसार वायु अपने पुत्र को सूर्य की ओर बढ़ते हुए देख कर उसे प्रचण्ड ताप से बचाने के लिए दौड़े। किन्तु वह उसे रोकने में असमर्थ होकर समीर द्वारा उसे ठठा करने लगे। सूर्य के पास पहुँचकर तथा राहु को सूर्य निगलने देखकर हनुमान् ने अपनी पृष्ठ के प्रहार से राहु को अचेत कर दिया। तब केतु राहु की सहायता करने आया, किन्तु हनुमान् ने दोनों को परास्त कर दिया। अन्त में राहु और केतु ने डण्ड की शरण ली। माधव कवली के मुन्दरकाण्ड (अध्याय ३) के अनुसार हनुमान् सूर्य के तेज के कारण पर्वत-शिखर पर गिर गया, जिससे उसकी हनु टूट गई।

मेरीराम में तत्पश्चात् कथा उस प्रकार है। वन में फल खोजते समय हनुमान् उदीयमान सूर्य को लाल फल समझकर उसकी ओर कूद पड़ा जिससे वह जल कर मरा और उसकी हड्डियाँ ममूद्र में गिर गई। बाद में मछलियों ने इन हड्डियों को एकत्र कर लिया और सूर्य ने अजना के पितामह का अनुरोध स्वीकार कर हनुमान् को जिलाया और उनको युद्ध-माया के अनेक मंत्र प्रदान किए। ब्रह्मचक्र के अनुसार किमी ऋषि ने तपस्या का जीवन त्याग कर जादू में एक कन्या की सृष्टि की और उससे दो पुत्रियों को उत्पन्न किया था। एक पुत्री वानरी के रूप में प्रकट हुई; उसने पवन नामक वानर-राजा के साथ विवाह करके हनुमान् को जन्म दिया।

६६१. जैनी रामायणों की जन्मकथा रामायण पर आधारित होते हुए भी इससे बहुत भिन्न है। पउमचरियं (पर्व १५-१८) के अनुसार आदित्यपुर के राजकुमार पवनजय (अथवा वायुकुमार) ने महेन्द्रपुर की राजकुमारी अंजना कुमारी से विवाह किया था। विवाह के पूर्व ही पवनजय ने अजनाकुमारी की सब्जी के मुँह से अपनी निन्दा सुन रखी थी; इसलिए वह २२ वर्ष तक अपनी पत्नी के प्रति उदासीन रहा। तब वह रावण की ओर से वरुण के विरुद्ध युद्ध करने गया; किसी सध्या को अजना के प्रति उसका अनुराग जाग्रत हुआ जिससे वह आदित्यपुर लौटा और छिपकर अपनी पत्नी से मिला। उसने उसी रात को पुनः युद्ध के लिए प्रस्थान किया। इस गुप्त मिलन के फलस्वरूप अंजना कुमारी गर्भवती हुई; पति की अनुपस्थिति में गर्भ होने के कारण

अजना कुमारी को अपनी सखी बसन्तमाला के साथ ससुराल तथा मायके दोनों से निकाल दिया गया। इस निष्कासन का परोक्ष कारण यह माना गया है कि पूर्व-जन्म में उसने एक सपत्नी की जिन-प्रतिमा उठाकर घर के बाहर रख दी थी। उसने एक गुफा में पुत्र को जन्म दिया। बाद में अजना का मामा प्रतिसूर्यक उसे पुत्रसहित हनुहपुर ले गया। हनुहपुर की ओर जाते समय बालक अपनी माता की गोद से उछलकर पर्वत की शिला पर जा गिरा। विमान से उतरकर अजना ने देखा कि बालक के गिरने से पहाड़ चूर्ण-चूर्ण हो गया है; इससे उसका नाम श्रीशैल रखा गया। मुड़ से लौटकर पवनजय ने अपनी पत्नी के सतीत्व का साध्य दिया और अजनाकुमारी पुत्रसहित अपनी ससुराल लौटी, हनुहपुर में रहने के कारण बालक का हनुमान् नाम प्रचलित होने लगा। गुणमद्र के उत्तरपुराण (पर्व ६८, २७५-२८०) के अनुसार विद्युत्कान्त नगर के राजा प्रभजन ने अपनी पत्नी से अमिततेज नामक पुत्र उत्पन्न किया। अमिततेज ने किसी दिन विजयार्थ पर्वत पर दाहिना पैर रखकर बाएँ पैर से सूर्य पर प्रहार किया, अनन्तर त्रसरेणु जन्मा अपना छोटा-सा शरीर बना लिया जिसमें उसका अणुमान नाम चल पडा।

### (इ) द्वादशतार

६७०. अनेक ग्रंथ पुराणों में तथा बहुत सी अर्वाचीन रचनाओं में हनुमान् को शिव का अवतार माना गया है। प्रारंभ में उनके द्वादशतार अथवा द्वादश होने का उल्लेख मात्र मिलता है किन्तु परवर्ती रचनाओं में इसके विषय में विभिन्न कथाओं की कल्पना कर ली गई है। स्कंदपुराण की अधिकांश सामग्री आठवीं शताब्दी के बाद की है, उस पुराण के अवन्तीखण्ड (चतुरशीतिलिगमाहात्म्य, अ० ७९) तथा रेवाखण्ड (अ० ८४) में हनुमान् को द्वादश कहा गया है। महाभागवत पुराण (अ० ३७) के अनुसार, जिस समय विष्णु रावण के नाश के लिए अवतार लेने की प्रतिज्ञा करते हैं, उस समय शिव ने विष्णु से कहा था कि मैं बाम् का पुत्र बनकर वानर के रूप में तुम्हारी सहायता करूँगा—अहं वानररूपेण संभ्रुय पवनात्मजः साहाय्यं ते करिष्यामि। बहद्भर्म पुराण (अ० १८) की राम-कथा महाभागवत पुराण की राम-कथा से बहुत भिन्न नहीं है; इसमें भी शिव की इस प्रतिज्ञा का उल्लेख है। नारद पुराण (पूर्वखण्ड, अ० ७९) और ब्रह्मवैवर्त पुराण (कृष्णजन्मखण्ड, अध्याय ६२) में हनुमान् को शिव के अंग से उत्पन्न माना गया है। महानाटक (६, २७) में रावण यह देखकर कि द्वादशतार हनुमान् द्वारा लंका जलाई जा रही है कहता है—“मैंने अपने दस सिर चढ़ाकर

१. इन्दिमल्लकृत अजनापवनजय में प्रस्तुत कथा को एक किञ्चित् भिन्न रूप दिया गया है। दे० अनु० २३९।



दस वरों को प्रसन्न किया था; यह हनुमान् ग्यारहवें वर के अवतार हैं। कम्ब रामायण (५, १३) तथा तत्त्वसंग्रह रामायण (७, २) में रुद्रावतार के रूप में हनुमान् का उल्लेख किया गया है। कृत्तिवासीय रामायण (६, १२९) के अनुसार सीता रामाभिषेक के बाद हनुमान् को अन्न परोमती थी। हनुमान् को भोजन से तृप्त करने में अपने को असमर्थ पाकर वह आश्चर्य चकित हुई तथा ध्यान लगाकर समझ गई कि हनुमान् शिव के अवतार हैं। शिव की वन्दना करके ही वह हनुमान् को तृप्त करने में समर्थ हुई। आनन्द रामायण (१, ११); तुलसीकृत दोहावली (१४२-३); विनयपत्रिका, हनुमान् बाहुक; राममोहन बन्धोपाध्याय कृत रामायण आदि रचनाओं में भी हनुमान् के रुद्रावतार होने का उल्लेख है।

६७१. भविष्य पुराण (प्रतिसर्ग पर्व, चतुर्थखंड, १३, ३१-३६) में भी हनुमान् की जन्मकथा को एक ऐसा रूप दिया गया है कि केसरी ही हनुमान् के पिता बन जाते हैं किन्तु साथ-साथ रुद्र तथा वायु दोनों भी हनुमान् की उत्पत्ति में सहायक हैं। रावण से त्रस्त होकर देवताओं ने ग्यारह वर्ष तक शिव की पूजा करने के बाद यह वरदान प्राप्त किया था कि शिव रावण का विरोध करने के उद्देश्य से अवतार लेंगे। शिव ने इस प्रकार अवतार लिया। अजना गौतम की पुत्री थी, शिव ने रोद तेज के रूप में उसके पति केसरी के मुख में प्रवेश किया। इसके फलस्वरूप केसरी ने स्मरानुर होकर अपनी पत्नी के साथ सभोग किया। इतने में वायु ने भी केसरी के शरीर में प्रविष्ट होकर अजना के साथ रमण किया। दम्पति के बारह वर्ष तक सभोग करने के बाद अजना गर्भवती हुई तथा उसने एक 'वानरानन' पुत्र को जन्म दिया। अपने पुत्र को कुरूप देखकर अजना ने उसे पर्वत पर से नीचे फेंक दिया।

नवलकिशोर प्रेस से प्रकाशित शिवपुराण (शतरुद्र खण्ड, अध्याय ३९-४२) में जो विस्तृत हनुमन्चरित मिलता है वह भविष्य पुराण का स्मरण दिलाता है। इसके अनुसार प्रभजन ने केसरी की पत्नी अंजनी से रुद्राशावतार हनुमान् को उत्पन्न किया था। अंजनी ने अपने पुत्र का वानर मुख देखकर उसे जन्म के पश्चात् ही पर्वत के शिखर से नीचे गिरा दिया जिससे भूकम्प हुआ।

६७२. भविष्य पुराण की उपर्युक्त कथा में अजना गौतम की पुत्री मानी जाती है। वास्तव में हनुमान् की बहुत सी जन्मकथाओं के अनुसार गौतम-पुत्री अंजना शिव के वरदान से हनुमान् की माता बन गई थी। इन जन्मकथाओं के विकास की रूपरेखा इस प्रकार है। कथासरित्सागर पर आधारित अनेक कथाओं में गौतम अपनी पुत्री को गर्भवती बन जाने का शाप देते हैं क्योंकि उसने अपनी माता अहत्या का व्यभिचार प्रकट नहीं किया था (दे० अनु० ३४७)। एक गुजराती इत्थकथा के

अनुसार अंजना अपने पिता का शाप सुन कर शिव से बरदान प्राप्त करने के उद्देश्य से तपस्या करने लगी। शिव की आज्ञा से नारद ने अंजनी के कान में मंत्र कह दिया जिसके प्रभाव से उसने हनुमान् को जन्म दिया। उसका पुत्र इसलिए वानर के रूप में प्रकट हुआ कि अंजनी मंत्र ग्रहण करते समय कैशी नामक वानर की ओर देख रही थी।<sup>१</sup> श्याम के रामकियेन में अंजनी का नाम स्वाहा है। वह अपने पिता गीतम से अपनी माता का व्यभिचार प्रकट करती है, जिसपर उसकी माता उसे पुत्र रसव करने तक एक पेड़ पर खड़ा रहने का शाप देती है। शिव स्वाहा की दयनीय दशा पर तरस खाते हैं और अपनी शक्ति तथा अपने अस्त्रों की शक्ति के साथ वायु को स्वाहा के पाम भंजकर उन्हें स्वाहा के मुँह में रखने का आदेश देने है। फलस्वरूप तीन महीने के बाद हनुमान् स्वाहा के मुँह से वानर के रूप में निकलते है। **धर्मखण्ड** (अ० ९८) तथा **मारलादान के उडिया महाभारत** के आदि-पर्व (पृ० ६०) के अनुसार भी हनुमान् शिव के अवतार तथा गीतम की पुत्री अंजनी को मन्तान है।

६७३. **शिवमहापुराण** की शतरुद्रमंहिता (अ० २०) के अनुसार विष्णु को **मोहिनी** के रूप में देखकर शिव का वीर्यपतन हुआ था। सप्तपियों ने उम वीर्य को गीतम की पुत्री अंजना के कान में रख दिया था और बाद में अंजना ने हनुमान् को जन्म दिया। इन वृत्तान्त से मिलनी-जुलती कथाएँ अन्यत्र भी पाई जाती है।<sup>२</sup>

६७४. उडिया साहित्य में हनुमान् की जन्मकथा में **पार्वती** का भी उल्लेख किया गया है। मारलादान के **महाभारत** (वनपर्व) के अनुसार अहल्या ने अपनी पुत्री को यह शाप दिया था—**तुम्हारा लडका बन्दर ही होगा** (दे० अनु० ५१४)। इस कारण से अंजना ने विवाह करना अस्वीकार कर दिया और तपस्या का जीवन अपनाया। उसके शरीर के चारों ओर बल्मीक बन जाने के बाद पवन देवता गीतम के अनुरोध पर सप्ताह में एक बार अंजना को भोजन देने लगे। उधर शिव और पार्वती अपने विवाह के पश्चात् बन में विभिन्न पशुओं का रूप धारण कर क्रीड़ा करते थे, इस प्रकार उन्होंने ब्रह्मा का वाहन तथा जाम्बवान् को उत्पन्न किया। अन्त में वानर-

१. ई० एटहोवेन-फॉकलोर आव गूजरगत, इ० ए० भाग ४०, सप्लेमेंट, पृ० ५८।
२. उदाहरणार्थ—एशियाटिक रिसर्चस, भाग ११, पृ० १४१; इंडियन एटिकवरी, भाग ११, पृ० २२९; डब्लू क्लूक, ट्राइब्स एण्ड कास्ट्स, भाग १, पृ० २६९, एच०ए० रोम, ए ग्लॉसरी ऑव दी ट्राइब्स एण्ड कास्ट्स, भाग २, पृ० ३९१ बैगा-भूमिया जार्नल की एक दन्तकथा के अनुसार भगवान ने पार्वती का रूप धारण कर महादेव को मोहित कर दिया। इस कथा में सप्तपियों के स्थान पर भोमनेन का उल्लेख है जिनने महादेव का तेज करिअन्दनी के कान में रख दिया और उस करिअन्दनी से हनुमान् का जन्म हुआ (दे० अनु० २७६)।

वानरी के रूप में स्थाय्य करते समय पार्वती शिव का तेज सहन न कर सकी । तेज पृथ्वी पर गिर गया और उससे विभिन्न धातुएँ उत्पन्न हुईं । शिव ने तेज का थोड़ा सा अंश पवन को दिया, पवन ने उसे अजना को प्रदान किया और वह हनुमान् की माता बन गई । अर्जुनदासकृत रामचिन्ता ( सर्ग ४ ) में जो हनुमत्कथा मिलती है वह सारलादास के महाभारत पर आधारित है । अन्तर यह है कि यहाँ अहल्या अजना को अधी बन जाने का भी शाप देती है ; अजना प्रतिदिन पवन का स्मरण करती है और वह उसे भोजन दिया करते है । १६वीं शताब्दी के प्रारंभ में दक्षिण भारत में निम्नलिखित कथा प्रचलित थी—किसी दिन ईश्वर और परमेश्वरी ने अपने नृत्य में देवताओं को निर्भ्रित किया था । अतिथि आने लगें थे कि परमेश्वरी ने दो वानरी को क्रीडा करते हुए देखा और ईश्वर से वानर-वानरी के रूप में क्रीडा करने की प्रार्थना की । ईश्वर ने इसे स्वीकार किया और दोनों वन की ओर सिधारे । देर हो जाने पर देवताओं ने वायु को दोनों की खाँज में भेंज दिया । इतने में ईश्वर-परमेश्वरी ने फिर अपना प्राकृतिक रूप धारण कर लिया था । क्रीडा के फलस्वरूप परमेश्वरी का गर्भाधान हुआ, एक वानर को जन्म देने की आशका में उन्होंने वायु से निवेदन किया कि वह भ्रूण को निकाल कर किसी अन्य स्त्री को प्रदान करे । इसपर वायु ने वह भ्रूण अजना के गर्भ में पहुँचाया, जिसमें उसने बाद में एक वानर को प्रभव किया । ( पाश्चात्य वृत्तान्त न० १, पृ० ४२-४४ ) । पाश्चात्य वृत्तान्त न० ३ और ४ में वही कथा मिलती है ।

रामब्रह्मानन्दकृत तत्त्वसंग्रह रामायण ( ४, १२ ) में इस कथा का संक्षिप्त रूप मिलता है, किन्तु उसमें शिव और पार्वती के वानर-वानरी का रूप धारण करने का उल्लेख नहीं है ।

### ( ई ) राम के पुत्र

६७५. हिन्देशिया में जो हनुमान् की जन्मकथा प्रचलित है, वह प्रधानतया दो भारतीय वृत्तान्तों के मिश्रण से उत्पन्न हुई है, अर्थात् गौतम की पुत्री अजनी की कथा ( दे० ऊपर अनु० ६७२ ) तथा शिव-पार्वती के वानर-वानरी के रूप में हनुमान् की उत्पन्न करने की कथा ( दे० अनु० ६७४ ) । इस अंतिम वृत्तान्त में शिव-पार्वती के स्थान पर राम-सीता का उल्लेख हुआ है, जिसके फलस्वरूप वहाँ की सभी अर्वाचीन राम-कथाओं में हनुमान् को राम का पुत्र माना गया है ।

हिकायत सेरीराम के अनुसार गौतम ऋषि ने अपनी पुत्री अजनी को १०० वर्ष तक नुह बायें ए॥ सूई के नोक पर, समुद्र के बीच खड़ी रहने का शाप दिया ( दे० ऊपर अनु० ५१४ ) । अपने वनवास के समय राम, लक्ष्मण और सीता, वि.सौ दिन एक स्थल पर पहुँचे जहाँ दो सरोवर थे । एक ऋषि ने लक्ष्मण से कहा था कि स्वच्छ जल

वाले सरोवर में नहाने वाले मनुष्य पशु-रूप धारण कर लेते हैं और पंकिल जल वाले सरोवर में नहाने पर पुनः मनुष्य बन जाते हैं। लक्ष्मण का कहना न मानकर राम और सीता पहले सरोवर में प्रवेश कर उसमें से वानर-वानरी के रूप में निकले और वृक्षां पर क्रीड़ा करने लगे जिसके फलस्वरूप सीता गर्भवती बन गई। बड़ी कठिनाई से दोनों को फँसाकर लक्ष्मण ने उन्हें दूसरे सरोवर में डुबा दिया जिससे वे पुनः मनुष्य का रूप प्राप्त कर सकें। अनन्तर राम ने सीता का भ्रूण निकाल दिया और वायु ने उसे मुई की नोक पर खड़ी हुई अंजनी के मुँह में रख दिया। बाद में अंजनी ने कुण्डलों से अलङ्कृत हनुमान् को जन्म दिया (अनु० ५१२)।

इस कथा में राम-सीता दोनों मिलकर हनुमान् को उत्पन्न करते हैं। 'सेरीराम' के एक दूसरे पाठ के अनुसार सीता हनुमान् की माता नहीं है। तपस्या करती हुई अंजनी को देखकर राम अनुरक्त हो जाते हैं और वीर्य पतन होने पर अपने वीर्य को एक पत्ते में लपेट कर वायु के द्वारा अंजनी के मुँह में रखवाते हैं। श्याम के रामजातक में राम सीता की खोज करते समय एक फल खाते हैं जिससे वह तीन वर्ष तक वानर ही बन जाते हैं। फायेंगसी (अंजनी) ने भी वह फल खाया था। दोनों वानर-वानरी के रूप में हनुमान् को उत्पन्न करते हैं।

### (उ) विष्णु के अंशावतार

६७६. अनेक अर्वाचीन राम-कथाओं से ऐसी ध्वनि निकलती है कि हनुमान् विष्णु के अंशावतार हैं, यद्यपि इसका कहीं भी सुस्पष्ट उल्लेख नहीं होता।

आनन्द रामायण (१, १, १०४-१०७) में एक सुबर्चला नामक अप्सरा की कथा मिलती है। नृत्य-दोष के कारण ब्रह्माने उसे गृध्री बन जाने का शाप दिया था तथा उसे यह भी बरदान दिया था कि कँकेयी का पायस अजनिपर्वत पर फेंकने पर वह फिर अप्सरा बन जाएगी। समय आने पर गृध्री ने कँकेयी के हाथ से पायस छीन लिया तथा उसे अंजनी पर्वत पर फेंक कर तथा अपना निज स्वरूप प्राप्त कर फिर स्वर्ग चली गई। उसी रचना के अन्य स्थल के अनुसार केसरी की पत्नी अंजनी ने गृध्री के मुख से गिरा हुआ पायस तो खाया किन्तु बाद में उसने वायु के साथ भी रमण किया था (दे० ऊपर अनु० ६६८)।

६७७ मराठी भाषा में रामायण पर आनन्द रामायण की गहरी छाप है। इसमें उपर्युक्त कथा का किञ्चित् परिवर्तित एवं विकसित रूप मिलता है। सुबर्चला

१. सी० कॉलमन के ग्रंथ (पृ० ५८) में इस कथा का संकेत मिलता है—दे० दि मिथालॉजी ऑव दि हिन्दूस (लन्दन १८३२)

नामक अप्सरा शापवश गृध्री बन गयी थी। उसने कंकेयी के हाथ से पायस छीन लिया तथा उसे खाकर वानरी में बदल गई। वानरी के रूप में वह अजनी, गीतम की पुत्री तथा केसरी की पत्नी बन गयी। पायस खाने के फलस्वरूप उसने हनुमान् को जन्म दिया (दे० बालकाण्ड, अध्याय २ तथा किष्किंधा काण्ड, अध्याय १ और १०)।

६७८. गुजरात की एक दन्तकथा के अनुसार भी गृध्री ने पायस को अजनी के हाथ में गिराया था।<sup>१</sup> एक अन्य कथा में अजनी नामक ब्राह्मणी शिव से सतति का बरदान प्राप्त कर तथा उनके आदेशानुसार चील द्वारा गिराया हुआ पायस खाकर गर्भवती हुई और हनुमान् की माता बन गई। इस कथा के अनुसार मारुत नामक पवन के एक दूत ने पायस की रक्षा की तथा उसे अजनी के हाथ पर गिरने में सहायता की थी; इसलिए अजनी के पुत्र का नाम मारुती रखा गया था।<sup>२</sup>

### (ऊ) उपमंहार

६७९. प्रस्तुत परिच्छेद में स्पष्ट है कि शताब्दियों में चर्चा आती हुई हनुमान् की जन्मकथा विभिन्न रूप धारण करती रही। फिर भी इन कथाओं की उत्पत्ति और विकास की रूपरेखा अस्पष्ट नहीं है।

प्रारंभ में हनुमान् के चरित्र की विशेषताओं को दृष्टि में रखकर उन्हें वायुपुत्र (अर्थात् ऐंद्रजालिक अथवा विद्याधर) को उपाधि से विभूषित किया गया।

प्रचलित रामायण की कथा 'वायुपुत्र' नाम पर ही आधारित है, इसके अनुसार हनुमान् वास्तव में वायु देवता के पुत्र हैं और केसरी की पत्नी अजना में जन्म लेते हैं। हनुमान् की यह जन्मकथा सबसे प्राचीन है, सब से व्यापक है तथा अन्य जन्मकथाओं का मूलस्रोत भी है। जैन रामायणों में जो जन्मकथा विद्यमान है, वह स्पष्टतया रामायणीय कथा पर निर्भर है।

संभवतः आठवीं शताब्दी और निश्चित रूप से दसवीं शताब्दी से लेकर हनुमान् शिव के अवतार माने जाने लगे। हनुमान् की जन्मकथा का यह विकास स्वाभाविक प्रतीत होता है। रामायण की आधिकारिक कथावस्तु में शिव के लिए कोई स्थान नहीं था। राम-कथा की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर शिव इसकी अवहेलना न कर सके, अतः उन्होंने सुन्दरकाण्ड के नायक हनुमान् को शत्रुावतार मान लिया। इस वर्ग की जन्मकथाओं का प्रारंभिक रूप रामायणीय दृष्टान्त से सीधा संबंध रखता है, किन्तु

१. दे० ओर० ई० एण्ट होवेन, इ० ए०, भाग ४०, सप्लेमेंट, पृ० ५४।

२. दे० ई० मूर, दि हिन्दू पेंथियान, पृ० ३१६। पी० थोमस की 'लेजेंड्स ऑव इण्डिया (पृ० ८०) में इससे मिलती-जुलती कथा पाई जाती है।

आगे चलकर महावतार हनुमान् की अन्य जन्मकथाओं की कल्पना कर ली गई है। हनुमान् की जन्मकथाएँ जो दशरथ-यज्ञ के पायस से सम्बन्ध रखती हैं अर्वाचीन हैं और कम प्रचलित हैं। विदेश में ही हनुमान् को राम का पुत्र माना गया है।

इन समस्त कथाओं में हनुमान् की माता अजना (अंजना) ही है और एकाध वृत्तान्त को छोड़कर वायु भी उनकी उत्पत्ति में सहायक माने जाते हैं। अतः यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि हनुमान् की कोई ऐसी जन्मकथा नहीं मिलती जो रामायणीय कथा से अलग, स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हुई हो।

## ख। चरित्र-चित्रण का विकास

६८०. हनुमान् की जन्मकथा की तरह उनके चरित्र-चित्रण का विकास भी अत्यन्त रोचक है। वह वानर-गोत्रीय आदिवासी थे (दे० ऊपर अनु० ११०), किन्तु आगे चलकर उन्हें राम-कथा के अन्य आदिवासियों के साथ वानर भी माना गया है। प्रचलित रामायण में हनुमान् के वानरत्व-विषयक विशेषणों का बाहुल्य देखकर प्रतीत होता है कि वाल्मीकि के समय के पूर्व ही यह धारणा मान्यता प्राप्त करने लगी थी। फिर भी रामायण के वानर मनुष्यों की तरह बुद्धिसम्पन्न है, मानव भाषा बोलते हैं, कपड़े पहनते हैं, घरों में निवास करते हैं, विवाह-संस्कार को मान्यता देते हैं और राजा के शासन के अधीन रहते हैं; इससे स्पष्ट है कि कवि की दृष्टि में ये निरे वानर नहीं हैं। उनकी अपनी सस्कृति और सामाजिक व्यवस्था है—अतः ये वानर वास्तव में एक मानव जनजाति ही हैं।

६८१. वाल्मीकि ने आदि रामायण में हनुमान् को सुग्रीव' के पराक्रमी तथा बुद्धिमान मंत्री के रूप में प्रस्तुत किया था। फलस्वरूप बाद के राम-साहित्य में भी हनुमान् के पराक्रम तथा बुद्धिमत्ता को सर्वाधिक महत्त्व दिया गया है। महाभारत के आरम्भिक पर्व में भी हनुमान् का इस प्रकार परिचय देते हैं:

भ्राता मम गुणश्लाघ्यो बुद्धिसत्त्वबलान्वितः ।

रामायणेऽतिविख्यातः शूरो वानरपुंगवः ॥ ११ ॥

(अध्याय १४७)

१. उत्तरकाण्ड के अनुसार हनुमान् के गुरु सूर्य ने दक्षिणा के रूप में हनुमान् से निवेदन किया कि वह उनके पुत्र सुग्रीव की सहायता करे (दे० अनु० ६८९)।

प्रचलित रामायण में कई स्थलों पर हनुमान् की प्रशंसा की गई है तथा प्रायः उनकी बीरता तथा प्रज्ञा पर विशेष बल दिया गया है।<sup>१</sup> प्रस्तुत परिच्छेद में सर्वप्रथम हनुमान् के इन दो गुणों से संबंध रखने वाली सामग्री का विश्लेषण किया जायगा।

परवर्ती साहित्य में हनुमान् के चिरंजीवत्व, ब्रह्मचर्य तथा रामभक्ति का प्रायः उल्लेख मिलता है। अतः हनुमान् की उन विशेषताओं के क्रमिक विकास का निरूपण अपेक्षित है।

अन्त में हनुमान् के चरित्र-चित्रण के विकास की चरम सीमा, अर्थात् उनके देवत्व पर विचार किया जायगा।

### (अ) पराक्रम

६८२. प्रारंभ से ही बल तथा पराक्रम हनुमान् की प्रमुख विशेषता मानी जाती थी। इनका प्रमाण हमें प्रचलित रामायण में मिलता है जहाँ उनको प्रायः कोई पराक्रम-सूचक विशेषण दिया जाता है, सर्वाधिक प्रयुक्त विशेषण ये हैं—वीर, वीरवान्, महाबल, महातेजा, महाबाहु, महावेग, भीमविक्रम, अग्निन्दम। इनके अतिरिक्त हनुमान् के लिए निम्नलिखित विशेषणों का भी प्रयोग हुआ है—बलवान्, बली, अतिबल, अनिमहाबल, बलवीर्यसवत्, महासत्त्व, सत्त्वसम्पन्न, सत्त्ववान्, समर्थ, दुर्घर्ष, गतश्रम, जितश्रम, अपरिश्रान्त, ब्रह्मसहनन, महाभुज, सुमहाबाहु, महाकाय, भीम, महोत्कट, भीमकर्मा, दुर्निवारण; तेजस्वी, सुमहातेजाः, अमितीजसाः; वेगवान्, अतिवेग, वेगसम्पन्न, मारुततुल्यवेग, तरस्वी, मारुतवेगविक्रम, मनोजव, आशुचर; धनतुल्यनिःस्वन, मेघस्वनमहास्वन, धननादनि स्वन; महावीर, महावीर्य, महोत्साह; विक्रान्त, चण्डविक्रम, अमितविक्रम, उत्तमविक्रम, विक्रम, पितृतुल्यविक्रम, वायुविक्रम, पितृतुल्यपराक्रम, मारुतविक्रम, गरुडानिलविक्रम, धीरपराक्रम, चण्डपराक्रम, रणचण्डविक्रम, मनसतापविक्रम, परन्तप, अरिमर्दन, अरिसूदन, शत्रुकर्षण, परवीरघ्न, परवीरहन्ता, शत्रुविनाशन, शत्रुसैन्यानां निहन्ता, शत्रुपराजयोचित।

इस विस्तृत शब्दावली को ध्यान में रखकर हमें आश्चर्य नहीं होगा कि हनुमद्विषयक परवर्ती कथाओं में से अधिकांश कथाएँ उनके पराक्रम से ही सम्बन्ध रखती हैं। आनन्द

१. उदाहरणार्थ बालकाण्ड (सर्ग १७) का यह उद्धरण :

मारुतस्यौरसः भीमान् हनुमान्नाम बालरः ।

ब्रह्मसंहननोपेतो ब्रह्मतेजसमो जवे ॥ १६ ॥

सर्वबालरमुख्येषु बुद्धिमान् बलवानपि ।

सुग्रीव (५, ६३), सीता (६, ११३ और १२८) और अगस्त्य (७, ३५)

सत्री हनुमान् के पराक्रम तथा प्रज्ञा का विशेष रूप से गुणगान करते हैं।

रामायण (८, ७, १२३) में माना गया है कि सभी वीर हनुमान् के अवतार ही हैं—  
**ये ये वीरस्त्वन्न भूम्यां बामुपुषांशकपिनः ।**

६८३. रामायण की आधिकारिक कथावस्तु में हनुमान् के महत्त्वपूर्ण कार्यों का सिंहावलोकन ऊपर हो चुका है (अनु० ६५६)। यहाँ पर इनकी वीरता के वर्णन में बढ़ती हुई अतिशयोक्ति तथा अलौकिकता की ओर पाठक का ध्यान आकर्षित करना उचित होगा। उनके समुद्रलघन की कथा सभवतः किसी आश्चर्यजनक तथा असाधारण लघन के आधार पर उत्पन्न हुई है (दे० ऊपर अनु० ११२)। लका-दहन, ओषधिपर्वत का आनयन, जन्म के बाद ही सूर्य तक लौटना, ये सब वृत्तान्त प्रचलित रामायण में प्रक्षिप्त हैं। परवर्ती राम-कथाओं में भी बहुत से नये वृत्तान्त हनुमान् की वीरता पर बल देते हैं। उनमें जो वृत्तान्त राम-कथा में सीधा सम्बन्ध रखते हैं, उनका यथास्थान निरूपण हो चुका है। इनके अतिरिक्त भीम, अर्जुन तथा गरुड में हनुमान् की मुठभेड़ के वृत्तान्त विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

६८४. महाभारत में हनुमान्-भीम-संवाद का प्राचीनतम रूप सुरक्षित है। इस प्रसंग में हनुमान् की विद्वत्ता के अतिरिक्त उनके बल का विशेष ध्यान रखा गया है। हिमालय के मार्ग में सोये हुए हनुमान् को जगा कर भीम उनमें हट जाने का निवेदन करते हैं। हनुमान् उत्तर में कहते हैं—रूपया मेरी पूँछ हटाकर निकल जाइये। यह सुनकर भीम अपने बायें हाथ में पूँछ उठाने लगे। किन्तु उसे हिलाने में असमर्थ होकर उन्होंने दोनों हाथ लगाये, फिर भी पूँछ टस से मस नहीं हुई। अन्त में भीम ने अपनी हार मानकर क्षमा माँगी और हनुमान् ने अपना परिचय दिया तथा भीम का अनुरोध स्वीकार कर उनको समुद्रलघन के समय का अपना रूप भी दिखलाया। इसके बाद उन्होंने भीम को चार युगों तथा चार वर्णों का धर्म सिखलाया तथा महाभारत के भावी युद्ध में सहायता करने का आश्वासन दिया (दे० आरण्यक-पर्व, अध्याय १४७-१५०)।

६८५. हनुमान् द्वारा अर्जुन के गर्व-निवारण के विषय में अनेक कथाएँ प्रचलित हैं। आनन्द रामायण के मनोहरकाण्ड के 'हनुमता शरसेतुमग' नामक १८वें अध्याय में निम्नलिखित वृत्तान्त मिलता है। विष्णुदास ने रामदास से पूछ लिया कि अर्जुन का 'कपिध्वज' नाम क्यों रखा गया। इसपर रामदास उत्तर देते हैं कि द्वारके के अन्त में अर्जुन किसी दिन रामेश्वर के पास धनुष्कोटितीर्थ पर हनुमान् से भेंट होने पर कहने लगे—“सेतु-निर्माण में व्यर्थ परिश्रम हुआ। शरसेतु क्यों नहीं बना था ?” हनुमान् ने कहा—“मूस जैसे कपियों के भार से सेतु समुद्र में डूब जाता।” अर्जुन ने उत्तर दिया—“मैं अभी शरसेतु बना देता हूँ। यदि वह आपके भार से जलमग्न



हुआ तो मैं अग्नि में प्रवेश करूँगा ।” हनुमान् ने अपनी ओर से यह प्रतिज्ञा की—“यदि मेरे अँगूठे के भार से सेतु नहीं नष्ट हुआ, तो मैं आपकी ध्वजा पर बैठकर आपकी सहायता किया करूँगा ।” इसपर अर्जुन ने समुद्र पर ‘शतयोजनविस्तीर्ण’ शरसेतु बना दिया तथा हनुमान् ने अपने अँगूठे से उसको समुद्र में मग्न कर दिया । यह देखकर अर्जुन चिंता तैयार करने लगे कि कृष्ण बटु के रूप में वहाँ पहुँचे । सारा हाल सुनकर बटु ने कहा—“माक्षी के अभाव में आप दोनों का कार्य व्यर्थ हुआ । मेरे सामने ही अपना सामर्थ्य दिखाइये ।” अबकी बार कृष्ण ने सेतु के नीचे अपना चक्र रख दिया जिससे हनुमान् कुछ न कर सके । वे तुरन्त ही समझ गये कि बटु भगवान् ही है । इसपर बटु ने कृष्ण का रूप धारण कर हनुमान् का आलिंगन किया । तब भगवान् ने सेतु भी जल में डुबाकर अर्जुन का गर्व दूर किया । उम मय से हनुमान् अर्जुन की ध्वजा पर विराजमान है (अनु० ७१३) ।

प्रस्तुत कथा का एक दूसरा रूप तत्त्वसंग्रह रामायण (७, ४) में मिलता है । इसके अनुसार अर्जुन ने एक बार कृष्ण से कहा—“मैं तो समुद्र पर शर-सेतु बना सकता हूँ, राम ने वानरो द्वारा सेतु क्यों बनवाया था ?” कृष्ण ने उत्तर दिया कि यह महा-काय वानरों के कारण हुआ, जो उस पुल पर समुद्र पार करने वाले थे । इसपर अर्जुन ने गर्व में कहा—मेरा शरसेतु कोई भी बौद्ध सहन कर सकता है । तब कृष्ण ने अर्जुन द्वारा सेतु बनवाकर हनुमान् को बुलाया । यह सेतु हनुमान् के चढते ही टूटने लगा किन्तु भगवान् ने वाराह का रूप धारण कर उसे संभाला । इसके बाद हनुमान् ने कृष्ण का अनुरोध स्वीकार कर प्रतिज्ञा की कि मैं महाभारत के युद्ध के अवसर पर अर्जुन के झंडे पर विराजमान रहूँगा । सारलाबास के महाभारत (मध्य पर्व) में भी उपर्युक्त कथा पाई जाती है, गोस्वामी तुलसीदास ने बाहुक (छन्द ७) में इसकी ओर संकेत किया है । बलरामदासकृत उड़िया ‘कर्णबान’ काव्य की कथा ‘आनन्द रामायण’ के वृत्तान्त से मिलती-जुलती है । पशुपत में हनुमान् तथा अर्जुन की भेट हुई जाने पर दोनों अपनी-अपनी महिमा का वर्णन करने लगते हैं । हनुमान् से सेतु का उल्लेख सुनकर अर्जुन ने तीस योजना का शरसेतु बना दिया । सेतु को हनुमान् के विष्वक् रूप का भार सहन करने में असमर्थ देखकर अर्जुन ने भगवान् का स्मरण किया तथा भगवान् ने रोहू बनकर शरसेतु को नीचे से संभाल लिया ।

महाभारत के युद्ध के अवसर पर अर्जुन के गर्वनिवारण की प्राचीनतम कथा सारलाबासकृत महाभारत के कर्णपर्व में सुरक्षित है । कर्ण के साथ युद्ध करते समय अर्जुन को गर्व हुआ कि कर्ण के बाण मारने पर मेरा रथ थोड़ा सा ही हट जाता है किन्तु मेरे बाणों से कर्ण का रथ शीगुनी दूर तक पीछे हट जाता है । किन्तु कृष्ण ने यह

कहकर कर्ण की ही प्रशंसा की कि कर्ण का रथ हलका है; और यह रथ मेरु मन्दर की तरह भारी है, इसपर कभी देवता विद्यमान हैं और हनुमान् शङ्ख पर विराजमान है, फिर भी कर्ण इसे अपने बाणों से पीछे हटा देता है। परवर्ती कथाओं में हनुमान् कृष्ण का संकेत पाकर रथ से अलग हो गये जिससे कर्ण के बाण मारने पर अर्जुन का रथ दूर तक हट गया था।

६८६. गरुड़ के गर्वनिवारण की कथाये अपेक्षाकृत अर्वाचीन प्रतीत होती है। फिर भी कृत्तिवास (दे० अनु० ५८६) तथा तुलसीदास ने (दे० विनयपत्रिका २८, ३) इसकी ओर संकेत किया है। गरुड़ के साथ-साथ प्रायः मुदर्शन चक्र तथा सत्यभामा के गर्वनिवारण का भी वर्णन मिलता है। इसके विषय में सबसे प्रचलित कथा डम प्रकार है:

“कृष्णावतार के समय भगवान् ने हनुमान् को बुलाकर उनको द्वारका के पास किसी उपवन में निवास करने का निमन्त्रण दिया था। किसी दिन कृष्ण ने सत्यभामा, सुदर्शन तथा गरुड़ तीनों का गर्व दूर करना चाहा। उन्होंने गरुड़ से कहा—अमुक वन में रहनेवाले बन्दर को पकड़ लाओ। गरुड़ हनुमान् के पास पहुँचे और हनुमान् ने उन्हें ६०,००० योजन पर समुद्र में फेंक दिया। बाद में कृष्ण ने गरुड़ को पुनः भेज दिया कि वह हनुमान् को द्वारका के राजभवन में पधारने का निमन्त्रण दे दे। इतने में वह स्वयं धनुर्धारी राम बन गए तथा सत्यभामा को सीता का रूप धारण करने को कहा। सुदर्शन से उन्होंने कहा—‘सावधान रहो, कोई भी प्रवेश करने न पावे।’ हनुमान् गरुड़ के बहुत पहले द्वारका पहुँच गए तथा उन्होंने सुदर्शनचक्र को मुँह में डालकर राजभवन में प्रवेश किया। उन्होंने रामरूपी कृष्ण के सामने नत-मस्तक होकर तुरन्त पहचान लिया कि सत्यभामा सीता नहीं हैं, जिससे सत्यभामा को हार माननी पड़ी। उसी अवसर पर कृष्ण ने हनुमान् को अपना द्वारपाल नियुक्त किया।”

बंगाल में एक अन्य कथा प्रचलित है। दासारथि राय (१८०६ ई०-१८५७ ई०) की पंचाली के ‘सत्यभामा, सुदर्शनचक्र ओ गरुड़ेर वर्पचूणं’ नामक अध्याय के अनुसार कृष्ण ने किसी अवसर पर गरुड़ को हिमालय से एक नील कमल ले आने का आदेश दिया। गरुड़ हिमालय सिधारे, जहाँ उनका और हनुमान् का युद्ध हुआ। हनुमान् ने गरुड़ को काँख में दबाकर एक नील कमल के साथ द्वारका के लिए प्रस्थान किया। सुदर्शन ने हनुमान् को महल के द्वार पर रोकने का प्रयास किया किन्तु हनुमान् के शरीर का एक बाल भी काटने में असमर्थ होकर उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। इतने में कृष्ण ने यह देखकर कि हनुमान् भीतर आ रहे हैं, राम का रूप धारण कर लिया तथा सत्यभामा को सीता का रूप धारण करने को कहा। सत्यभामा सीता का रूप

बनाने में असमर्थ हुईं; रुक्मिणी को सीता का भाग लेना पड़ा और सत्यभामा की सखियाँ उसकी हँसी उड़ाने लगी। हनुमान् ने 'राम' के चरणों पर नील कमल रखकर गरुड़ को अपनी काँख से निकलने दिया। इससे मिलती-जुलती कथायें अन्यत्र भी पाई जाती हैं (दे० ई० मूर, वही, पृ० २१८)।

६८७. हनुमान् के पराक्रम के विषय में अन्य सामग्री का अभाव नहीं है। पउमचरियं (पर्व १९) के अनुसार हनुमान् ने रावण के साथ वरुण के विरुद्ध युद्ध करते हुए वरुण के मो पुत्रों को कंद कर लिया। इस रचना के अन्य स्थाल पर (पर्व ५०) इसका वर्णन किया गया है कि किम प्रकार हनुमान् ने अपने दादा महेन्द्र को सेना महित परास्त किया था। स्कंदपुराण (ब्राह्मखण्ड, धर्मार्ण्य, अध्याय ३६-३८) में हनुमान् के प्रभाव से धर्मार्ण्य के निवासियों की मुख-शांति तथा हनुमान् द्वारा कुभीपाल की पराजय से वहाँ के ब्राह्मणों की सुरक्षा का वर्णन किया गया है। आनन्द रामायण के राज्यकाण्ड (सर्ग १८) के अनुसार राम ने ब्राह्मणों को रामनाथपुर का राज्य प्रदान किया तथा हनुमान् को उनकी सहायता के लिए नियुक्त किया। बाद में हनुमान् ने देवालय की पाषाण-मूर्ति से प्रकट होकर एक दृष्ट राजा को शूली पर चढ़ाया और इस प्रकार रामनाथपुर की रक्षा की थी। मनोहर काण्ड (सर्ग १२२) में स्त्रीराज्य की कथा मिलती है। एक रामभक्त ब्राह्मण की सहायता के लिए प्रकट होकर हनुमान् ने अपने गर्जन से सब पुरुषों को मार डाला जिमसे उस देश का नाम स्त्रीराज्य रखा गया। भावार्थ रामायण (७, १) में भी राम द्वारा हनुमान् को स्त्रीराज्य भेजे जाने का वृत्तान्त मिलता है।

अपेक्षाकृत अर्वाचीन रचनाओं में वीरमाता अंजना के विषय में माना जाता है कि उसने अपने दूध की धारा से एक पर्वत-श्रेणी को बहा दिया था। जनता में प्रचलित दन्तकथा के अनुसार लका से अयोध्या जाते समय पुष्पक अजना के यहाँ उतरा था, उस अवसर पर अजना ने लक्ष्मण का सन्देश दूर करने के लिए इस कार्य के द्वारा हनुमान् के पराक्रम का प्रमाण दिया।

बंगाल में मनसा देवी की कथा अत्यन्त लोकप्रिय है; इसमें भी हनुमान् की वीरता का वर्णन किया गया है। मनसा देवी हनुमान् की सहायता से ही चाँद सौदागर का मधुकर नामक जहाज डुबाने में समर्थ हुई।<sup>१</sup>

१. दे० सी० कोलमैन, दि मिथोलॉजी ऑव दि हिन्दूस (लन्दन १८३२) पृ० ५८।

२. दे० डी० सी० सेन, हिस्टरी ऑव दि बंगाली लेंग्वेज एण्ड लिटरेचर (कलकत्ता १९११), पृ० २५२।

## (आ) बुद्धिमत्ता—

६८८. आदिकवि वाल्मीकि ने हनुमान् को पराक्रमी योद्धा के अतिरिक्त सुग्रीव के बुद्धिमान मंत्री के रूप में चित्रित किया था। फिर भी आदि रामायण में संस्कृत तथा प्राकृत की जानकारी के अतिरिक्त हनुमान् के ज्ञान के विषय में कोई विशेष विवरण नहीं किया गया था। बाद में ही वह बुद्धिमान मंत्री विद्वान् तथा शास्त्रज्ञ भी माने जाने लगे।

प्रचलित रामायण में हनुमान् के मंत्रित्व विषयक निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग मिलता है—त्रिबोतम, मंत्रिसत्तम, सुग्रीवसचिव, पिगाधिपत्री, कपिगज-हितकर, प्लवगाधिपत्रिमत्तम, पिगाधिपति का आमात्य।

प्रजा-सूचक विशेषणों में से सर्वाधिक प्रयोग मतिमान् तथा महामति का हुआ, इनके अतिरिक्त ये भी आये हैं—प्राज्ञ, महाप्राज्ञ, मुमहाप्राज्ञ, मेवाधी, बुद्धिमतां वरिष्ठ, धीमान्, तत्त्ववित्, माचुर्बुद्धि, अचित्यबुद्धि, वाक्यज्ञ, वाक्यकोविद, वाक्य-विशारद, वाक्यविदां श्रेष्ठ, त्रियवादी, काव्यविदां वर। हनुमान् के संस्कृत तथा प्राकृत दोनों भाषाओं पर अधिकार का उल्लेख सुन्दरकाण्ड में किया गया है। अशोकवन में सीता को देखकर वह इषीलिपे संस्कृत नहीं बोलने का निर्णय करने है कि सीता उनको कही रावण न समझे।

वाचं चोदाहरिष्यामि मानुषीभिह संस्कृताम् ॥ १७ ॥

यदि वाचं वदास्यामि डिजातिरिष संस्कृताम् ।

रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति ॥ १८ ॥

अवश्यमेव वक्तव्यं मानुषं वाक्यमर्थवत् ।

(सुन्दरकाण्ड, सर्ग ३०)

६८९. संस्कृत तथा प्राकृत की इस जानकारी का निर्देश आदि रामायण में मिलता था अथवा नहीं, इसका निर्णय करना असंभव है, किन्तु हनुमान् की विभिन्न शास्त्रों में पहुँच का उल्लेख मूल-रामायण में नहीं रहा होगा। हनुमान् की जन्मकथा में उनको 'सर्वशास्त्रविदां वर' की उपाधि दी गई है (दे० ४, ६६, २), परन्तु ऊपर के विवरण से यह जन्मकथा बाद का प्रक्षेप सिद्ध हुई है। एक अन्य स्थल पर भी उनको एक बार और 'सर्वशास्त्रविदारव' (दे० ४, ५४, ५) कहा गया है; इसके अतिरिक्त प्रचलित रामायण के किष्किवाकाण्ड में उनके विषय में लिखा है—निश्चितार्थो उर्ध्वरूपः कालवर्म विशेषवित् (४, २९, ६) और 'विविताः सर्वलोकास्ते (४, ४४, ४)। अधिक सम्व है कि ये उद्धरण बाद के प्रक्षेप हों।

उत्तरकाण्ड के रचनाकाल में यह माना जाने लगा था कि हनुमान् ने सूर्य की सहायता से व्याकरण का अध्ययन किया था और सूर्य ने दक्षिणास्वरूप हनुमान् से यह प्रतिज्ञा कराई कि मैं सुग्रीव की सहायता करूँगा। दक्षिणान्य पाठ मात्र में उनके द्वारा पठित व्याकरण-विषयक ग्रन्थों का उल्लेख है अर्थात् सूत्र (अष्टाध्यायी), वृत्ति (सूत्रवृत्ति), अर्थपद (वार्तिक), महार्थ (महाभाष्य)। उसी छन्द में शास्त्र, वेशारद तथा छन्दगति में हनुमान् की अद्वितीय पद्विच का उल्लेख भी केवल दक्षिणात्यपाठ में मिलता है (दे० ३६, ४५)। गोविन्ददास के पाठ में हनुमान् को नवव्याकरणवेत्ता कहा गया है।

महाभारत का आरण्यक पर्व उत्तरकाण्ड के रचनाकाल में लिखा गया होगा। इसमें भी हनुमान्-भीम-मवाद में हनुमान् को जाम्बज्ज के रूप में प्रस्तुत किया गया है; वह भीम को चार युगों (अध्याय १४८) तथा चार वर्णों (अध्याय १४९) का धर्म सिखलाने है।

दक्षिणात्य पाठ मात्र में राम-लक्ष्मण से हनुमान् की प्रथम भेंट के अवसर पर हनुमान् के विषय में तीन वेदों तथा व्याकरण का ज्ञान उल्लिखित है। अन्य पाठों में इस उल्लेख का अभाव सिद्ध करता है कि यह अशुभवाद का प्रयोग है। उद्धरण निम्नलिखित है :

नामूखेदविनीतस्य नायजुर्वेदधारिणः ।

नासामवेदविबुधः शक्यमेव विभाषितुम् ॥ २८ ॥

तुमं व्याकरणं कृत्स्नमनेन बहुधा धृतम् ।

बहुध्याहरता ज्ञेन न किञ्चिदपशब्धितम् ॥ २९ ॥

(किष्किन्धाकाण्ड, सर्ग ३)

६९०. इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीनकाल से ही रामायण के कुशीलव हनुमान् का ज्ञान-अभंगार बढ़ाते रहे हैं। परवर्ती माहित्य में हनुमान् की विद्वत्ता का बहुधा उल्लेख मिलता है। दक्षिणात्य उत्तरकाण्ड में हनुमान् को छन्द शास्त्र का विशेषज्ञ कहा गया है। संभवतः इसी कारण से उनको महानाटक (हनुमन्नटक) की रचना का श्रेय दिया गया है। उस नाटक के अन्त में लिखा है कि हनुमान् ने वाल्मीकि के अनुरोध से अपनी रचना को शिला पर लिखकर समुद्र में फेंक दिया था तथा राजा भोज ने उसे निकलवाकर दामोदर मिश्र द्वारा इनका सम्पादन कराया था (दे० महानाटक, अंक १४, ९४-६)। इसके मन्थ में कई कथाएँ प्रचलित हैं। एक वृत्तान्त के अनुसार वाल्मीकि ने राम से कहा—“हनुमान् के नाटक के रहते मेरे रामायण का आदर नहीं होगा। हनुमान् तो प्रत्यक्षदर्शी है; मुझे केवल ध्यान में ही आपकी कथा का परिचय

मिला। इसपर राम ने हनुमान् से कहकर महानाटक समुद्र में फेंकवा दिया। एक अन्य कथा में वाल्मीकि तथा हनुमान् के बाद-विवाद का वर्णन है। वाल्मीकि ने रामायण में लिखा है कि रावण के वाणी से आहत होकर राम के शरीर पर रक्त के कण दिखाई देने लगे। हनुमान् ने कहा कि मैंने तो यह कभी नहीं देखा था। दोनों राम के पास आये और राम ने वाल्मीकि का कथन ठीक ही माना था। उस पर हनुमान् ने अप्रसन्न होकर अपने नखों से शिला पर लिखी हुई अपनी रचना समुद्र में फेंक दी।

६९१. तुलसी ने बिनयपत्रिका (२३, ८) में हनुमान् को 'विद्वेदान्तविद' की उपाधि दी है। वास्तव में कई रचनाओं में हनुमान् दार्शनिक विषयों की जिज्ञासा प्रकट करते हैं तथा राम से तत्संबन्धी शिक्षा ग्रहण करते हैं। अध्यात्म रामायण (१, १. ३२-५२) के अनुसार सीता और इसके अनन्तर राम ने भी हनुमान् को रामतत्व का रहस्य प्रकट किया था। भक्ति होपनिषद् तथा तत्त्वसारायण कृत रामगीता में हनुमान् को दर्शन-विषयक शिक्षा दी जाने की कथा मिलती है। अब्धुत रामायण (सर्ग १०-१५) में राम-हनुमान् को अपना विष्णु रूप दिखाकर उनको भगवद्गीता के अनुकरण पर सांख्ययोग, भक्तियोग आदि समझाते हैं।

अपेक्षाकृत अर्वाचीन रचनाओं में हनुमान् को रामभक्ति के आचार्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। रामरहस्योपनिषद् में बहू मनकादि मूनियों को रामोपासना की पद्धति सिखलाते हैं। रसिक सम्प्रदाय में हनुमान् को माधुर्य भक्ति का प्रवर्तक अथवा आचार्य माना गया है; हनुमत्संहिता में हनुमान् राम की प्रधान सखी चारुशीला का रूप धारण कर अगस्त्य को भक्ति की शिक्षा देते हैं और शिबसंहिता हनुमान्-अगस्त्य-संवाद के रूप में लिखा गया है। हनुमान् के अन्य साम्प्रदायिक रामायणों का भी वक्ता माना गया है (दे० अनु० २०१ और २०२)।

६९२. श्री दिनेशचन्द्र सेन का कहना है (दे० दि बंगाली रामायण्स पृ० ५१) कि बंगाल में हनुमान् को अयोत्थि तथा संगीतज्ञ भी माना गया है। महाभारत के हनुमान्-भीम-संवाद के अनुसार हनुमान् गंधर्वों तथा अप्सराओं द्वारा रामायण का गान नित्य ही सुनते हैं। संभवतः उस वृत्तान्त के आधार पर संगीत में उनकी निपुणता का विश्वास उत्पन्न हुआ है। तुलसीदास ने भी बिनयपत्रिका में हनुमान् को 'गान-गुनगरवर्गधर्वजेता' (दे० २९, ४), 'सामगायक' (२८, ५), 'सामगाताग्रनी' (२७, ३) आदि कहकर पुकारा है।

१. इसके आधार पर संभवतः यह विश्वास उत्पन्न हुआ कि मध्वाचार्य हनुमान् के अवतार हैं।

## (६) चिरंजीवत्व—

६९३. अर्वाचीन राम-साहित्य में हनुमान् को बहुत से वरदान प्राप्त होने का उल्लेख है। उनमें से उनका चिरजीवत्व सबसे प्राचीन प्रनीत होता है : हनुमान् के इस चिरंजीवत्व की उत्पत्ति संभवतः उनकी कीर्ति से सम्बन्ध रखती है। रामायण में उनकी महायज्ञा, कीर्त्तिमान्, यगस्वी आदि कहा गया है तथा भीम भी अपने भाई का परिचय देते हुए कहते हैं कि हनुमान् रामायण में अतिविश्रुत हैं (दे० महाभारत ३, १४७, ११)। महाभारत का रामोपाख्यान रामायण के किसी प्राचीन रूप पर निर्भर है, उसमें राम अथवा देवताओं द्वारा हनुमान् को प्रदत्त किसी भी वरदान का उल्लेख नहीं है। युद्ध के अन्त में सीता हनुमान् से कहती है कि राम की कीर्त्ति के समान तुम भी जीवित रहोगे, अर्थात् तुम्हारी भी कीर्त्ति अमर होगी—रामकीर्त्या समं पुत्र जीवितं ते भविष्यति।<sup>१</sup> बहुत संभव है कि इस उक्ति के आधार पर हनुमान् के विषय में यह माना जाने लगा कि वह वास्तव में जीवित रहकर हिमालय पर निवास करते हैं। इस विश्वास का प्राचीनतम उल्लेख हनुमान्-भीम-संवाद में सुरक्षित है। इस संवाद में हनुमान् कहते हैं कि मैंने राम से यह वरदान माँग लिया है कि जब तक राम-कथा पृथ्वी पर प्रचलित होगी, तब तक मैं जीवित रह सकूँ

यावद्दामकथा वीर भवेत्सलोकेषु शत्रुहन् ।

तावज्जीवेयमित्येवं तथास्त्विति च सोऽब्रवीत् ॥

(महाभारत ३, १४७, ३७)

तदनन्तर हनुमान् भीम को बताते हैं कि इस स्थान पर गंधर्व तथा अप्सरार्यो रामचरित गाकर मुझे आनन्दित करते रहते हैं।

रामायण के उत्तरकाण्ड में राम द्वारा हनुमान् को वर-प्रदान का दो बार उल्लेख हुआ है। यह ध्यान देने योग्य है कि वहाँ पर भी राम-कथा का प्रचलन ही हनुमान् की अमरता का आधार माना गया है। स्वर्गारोहण के पूर्व राम यह कहकर हनुमान् को चिरंजीवत्व प्रदान करते हैं :

मत्कथाः प्रचरिष्यन्ति यावत्सलोके हरीशर ।

तावद्दामस्व सुप्रीतो भद्राख्यमनुपालयन् ॥ ३० ॥

(सर्ग १०८)

१. दे० ३, २७५, ४३। इस संबन्ध में नीति का यह वाक्य भी दृष्टव्य है—स जीवति यशो यस्य कीर्त्तियस्य स जीवति। अयशो कीर्त्तिसंयुक्तो जीवन्नपि मृतोपमः ॥

प्रस्तुत प्रसंग का सबसे विस्तृत रूप उत्तरकाण्ड के ४०वें सर्ग में मिलता है। महा-भारत में हनुमान् ने कहा था कि हिमालय के जिस स्थान पर वह रहते थे, वहाँ गंधर्वादि रामचरित गाया करते थे; अब रामचरित का यह गान वरदान का रूप धारण कर लेना है। अभिशंका के बाद अयोध्या से विदा लेते समय हनुमान् ने राम से तीन वर मांगे थे, अर्थात् अनन्य रामभक्ति, चिरजीवत्व तथा राम-कथा-श्रवण :

स्नेहो मे परमो राज्ञस्त्वयि तिष्ठतु तिर्यदा ।

भक्तिश्च नियता वीर भावो नान्यत्र गच्छतु ॥ १६ ॥

यावद्दामकथा वीर चरिध्यति महीतले ।

तावच्छरीरे वत्स्यन्तु प्राणा मम न संशयः ॥१७॥

यच्चैतच्चरितं दिव्यं कथा ते रघुनन्दन ।

तन्मयाप्सरसो राम श्रावयेयुर्नरर्षभ ॥ १८ ॥

६९४. हनुमान् की जन्मकथा में देवताओं द्वारा उनको अनेक वर दिये जाने का वर्णन किया गया है। आदि रामायण में इस जन्मकथा का अभाव था और इसीलिए वान्मीकि रामायण के प्रामाणिक काण्डों में हनुमान् के इन वरों का उल्लेख नहीं किया गया है, अपवादस्वरूप प्रसिद्ध लंकादहन (अनु० ५३०) के अन्तर्गत उन वरदानों का संकेत मिलता है (दे० ५, ४८, ४०, ४३; ५, ५०, १६)।

हनुमान् की जन्मकथा का प्राचीनतम रूप सभवतः किष्किन्धाकाण्ड में मिलता है। वगोय पाठ में इन प्रसंग में किसी भी वरदान का उल्लेख नहीं होता, पश्चिमोत्तरीय पाठ में ब्रह्मा हनुमान् को 'अशस्त्रबध्यता' प्रदान करते हैं तथा दाक्षिणात्य पाठ (४, ६६, २९) में ब्रह्मा के इन वरदान के अतिरिक्त इन्द्र का भी उल्लेख है जो हनुमान् को 'द्व्यङ्गानुसारमरण' का वर देते हैं। उत्तरकाण्ड की जन्मकथा में इन्द्र, ब्रह्मा, वरुण, यम, कुबेर, शिव तथा विश्वकर्मा सभी हनुमान् को अपने-अपने अस्त्रों द्वारा अवध्यता प्रदान करते हैं; इसके अतिरिक्त हनुमान् को सूयं से सूर्यतेज का शतांश तथा शास्त्र के अध्ययन में सहायता, यम में अरोगत्व, कुबेर से अविषाद, विश्वकर्मा से चिरजीवत्व तथा ब्रह्मा से कामरूपत्व दिया जाता है (दे० ७, ३६, १२-४०)। इस प्रकार हम देखते हैं कि हनुमान् को प्राप्त वरों की संख्या बढ़ती जाती रही। ध्यान देने योग्य है कि ये वरदान प्रायः हनुमान् के चिरजीवत्व ही से संबंध रखते हैं। गौड़ीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठ में जो अतिरिक्त जन्मकथा मिलती है उसमें भी केसरी के कामरूपी तथा अन्वय पुत्र का उल्लेख किया गया है (दे० ऊपर अनु० ६६७)।

६९५. परवर्ती राम-कथाओं में हनुमान् के उन वरों के वर्णन में कोई विशेष विकास परिलक्षित नहीं होता किन्तु प्रायः उनकी रामभक्ति पर बल दिया गया है।



उदाहणार्थं भविष्य पुराण तथा आनन्द रामायण मे ब्रह्मा ही हनुमान् को रामभक्ति का बरदान देते हैं (दे० आगे अनु० ७०४) । इसके अतिरिक्त भावी हनुमत्पूजा के विषय में भी हनुमान् को प्रदत्त वरों की कथा स्कन्द पुराण तथा आनन्द रामायण में मिलती है (दे० आगे अनु० ७०८) ।

ऊपर इसका उल्लेख हुआ है कि हनुमान् का चिरजीवत्व राम-कथा के प्रचलित रहने पर निर्भर है; संभवतः इसी कारण से यह विश्वास उत्पन्न हुआ है कि जहाँ कहीं राम-कथा का पाठ हो रहा है, वहाँ हनुमान् अदृश्य रूप से विद्यमान हैं । इस विश्वास का प्राचीनतम उल्लेख आनन्द रामायण तथा कृत्तिवामीय रामायण में मिलता है (दे० आगे अनु० ७०३) ।

### (ई) ब्रह्मचर्य

६९६. महीरावण-वध की कथा में हनुमान् के एक पुत्र का भी प्रायः उल्लेख होता है । लकादहन के बाद ममुद्र में स्नान करते हुए हनुमान् का स्वेद अथवा स्नेहमा निगलकर एक मत्स्या गर्भवती हुई और इस प्रकार हनुमान् को एक पुत्र उत्पन्न हुआ था (दे० अनु० ६१५) । महीरावणचरितम् (अ० १०) के अनुसार उम पुत्र का नाम मत्स्यराज है, वह हनुमान् को अपना परिचय देते हुए कहता है—**तिर्निगला हि मन्माता पिता च हनुमान् ।** इसपर हनुमान् यह कहकर आपत्ति करते हैं—**हनुमान् ब्रह्मचारीति विश्वात् भुवनैरपि ।**

हनुमान् के इस ब्रह्मचर्य का प्राचीनतम उल्लेख स्कन्द पुराण (अवन्ती खण्ड, रेवाखण्ड, अ० ८३) में मिलता है, हनुमतेश्वरतीर्थमाहात्म्य नामक अध्याय में कहा गया है कि वहाँ का शिवलिंग हनुमान् के ब्रह्मचर्य के प्रभाव से तथा ईश्वर के प्रमाद से कामप्रद है :

**आत्मयोगबलेनैव ब्रह्मचर्यप्रभावतः ।**

**ईश्वरस्य प्रसादेन लिंगं कामप्रदं हि तत् ॥ ३३ ॥**

पद्मपुराण (पातालखण्ड, अ० ४५) के रामाश्वमेध-वृत्तान्त में हनुमान् अपने आजीवन ब्रह्मचर्य के बलपर शत्रुघ्न को पुनर्जीवित करते हैं :

**यद्यहं ब्रह्मचर्यं च जन्मपर्यन्तमुद्यतः ।**

**पालयामि तदा बीरः शत्रुघ्नो जीवतु क्षणात् ॥ ३१ ॥**

(पातालखण्ड, अध्याय ४५)

६९७. परवर्ती साहित्य में हनुमान् के ब्रह्मचर्य का प्रायः ध्यान रखा जाता है । **संगुलोपनिषद्** (दे० अप्रकाशिता उपनिषदः, अडयार, पृ० २१३) तथा **आनन्द रामायण** (मनोहर काण्ड सर्ग १३) में हनुमान् को कुमार ब्रह्मचारी की उपाधि दी

गई है; श्री हनुमत्सहस्रनामस्तोत्रम् में भी ब्रह्मचारी, जितेन्द्रिय आदि नाम आये हैं। तुलसीदास ने हनुमान् को 'मनमयमयन ऊर्ध्वरेता' कहकर पुकारा है (दे० दिनपत्रिका २९, ३)। इस सम्बन्ध में उनके प्राकृतिक कौपीन का भी उल्लेख मिलता है। सारलादास के उड़िया महाभारत के वनपर्व में जो जन्म-कथा मिलती है (दे० अनु० ६७४) उसके अनुसार हनुमान् ने अपनी माता से कहा था कि जब तक मुझे वज्रकौपीन न मिले मैं जन्म नहीं लूँगा। पवन ने इसका समाचार शिव को कह सुनाया और शिव ने अजना को खिलाने के लिए कपड़े दिए। इसके फलस्वरूप हनुमान् ने कौपीन पहनकर जन्म लिया। अर्जुनदासकृत रामबिष्णु में इससे मिलती-जुलती कथा पाई जाती है। भाषार्थ रामायण (७, ३५ और ४, १०) के अनुसार भी हनुमान् कौपीन पहनकर उत्पन्न हुए थे। अन्य रचनाओं में प्रायः हनुमान् के कौपीन का उल्लेख है; पद्मपुराण (पाताल खण्ड ११२, १३५) में हनुमान् को 'सुवृद्धबद्धमौजिकौपीन' और श्रीमहावतिस्तवराज (वेकटस्वर प्रेम) में मलमल्लकी (कौपीनधारी) की उपाधि दी गई है। इस कौपीन के विषय में निम्नलिखित दन्त-कथा प्रचलित है। हनुमान् ने किसी ऋषि के पास कौपीनमात्र छोड़ कर उनका सर्वस्व लूट लिया था। ऋषि ने उनको यह कहकर शाप दिया—तुम्हारे पास भी कौपीन के अतिरिक्त कुछ नहीं रहेगा, तुम कभी भी दूसरे कपड़े नहीं पहन सकोगे।'

६९८. हिन्देगिया तथा श्याम की राम-कथाओं की एक सामान्य विशेषता यह है कि उनमें हनुमान् की प्रेमलीलाओं का कई अवसरों पर वर्णन किया गया है। सेतुबन्ध के समय मछलियों की रानी, रावण की नागकन्या तथा बँजकाया के माथ हनुमान् की क्रीडा का उल्लेख हो चुका है (दे० अनु० ५७८-५७९)। इसके अतिरिक्त रामकियेन में स्वयंप्रभा (अनु० ५२६), एक अप्सरा-वानरी (अनु० ६१३) तथा मन्दोदरी (अनु० ५९७) के माथ हनुमान् के रमण का वर्णन किया गया है। सेरीराम के अनुसार हनुमान् ने लव की द्वितीय पत्नी (विभीषण तथा कीकवी देवी की पुत्री) के साथ भी व्यभिचार किया था।

६९९. उन विदेशी कथाओं का मूलस्रोत भारतीय ही है। पद्मचरित्य (१९, ८२) में हनुमान् की एक सहस्र पत्नियों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से वरुण की कन्या सत्यवती, चन्द्रनखा की पुत्री अनंगकुसुमा, नलनंदिनी, हरिमालिनी तथा मुयीव की पुत्री पद्मरागा प्रधान हैं। इस रचना के एक अन्य स्थल पर हनुमान् तथा शकासुन्दरी की प्रेम-क्रीडा का वर्णन किया गया है (अनु० ५३६)। स्वयंभूदेव के पद्मचरित (२२, १२, १०) में हनुमान् की पत्नियों की संख्या ८००० तक बढ़ा दी

गई है। पाश्चात्य वृत्तान्त नं० ७ और ८ के अनुसार हनुमान् ने लकादहन के पश्चात् समुद्र में नहाकर मकरी के साथ सभोग किया था (अनु० ६१५)।

वाल्मीकि रामायण (६, १२५, ४४) में भी इसका उल्लेख मिलता है कि हनुमान् में विजयी राम के प्रत्यागमन का शुभ समाचार सुनकर भरत ने उनको दस हजार गायो तथा एक सौ गाँवों के अतिरिक्त १६ कन्याओं को भी पत्नीरवरूप प्रदान किया था—मुभाचारा भाषी: कन्यास्तु षोडश।

७००. हनुमान् की अन्य विशेषताओं की भाँति उनके ब्रह्मचर्य का मूलस्रोत वाल्मीकि रामायण को माना जा सकता है। रावण के अन्तःपुर में प्रविष्ट होकर तथा वहाँ की सुप्त अर्धनग्न ललनाओं को निहारकर उनके सुव्यवस्थित मन में कोई विकार नदी उत्पन्न हुआ था, इनका रामायण में स्पष्ट शब्दों में उल्लेख है :

कामं दृष्ट्वा मया सर्वा विश्वस्ता रावणस्त्रियः ।

न मु मे मनसा किञ्चिद्भ्रुकृत्यमुपपद्यते ॥ ४१ ॥

मनो हि.....मे सुव्यवस्थितम् ॥ ४२ ॥

(मुन्दरकाण्ड, सर्ग ११)

इसके अतिरिक्त वाल्मीकि रामायण में हनुमान् के सयम तथा धार्मिकता की ओर बहूधा संकेत किया गया है तथा उनको महात्मा, महामना, सस्कारसम्पन्न, मुवर्त्मना, कृतात्मा आदि विशिष्टों से विभूषित किया गया है। रावण के अन्तःपुर में प्रवेश करने पर उनको पापशंका होती है—जगाम महतीं शंकां धर्मसाधसशंखितः (दे० ५, ११, ३७)। सीता के साथ बातचीत करने के कारण वह भी अपने को दोषी मानते हैं—एष दोषो महान्हि स्यात्तमम सीताभिभाषणे (दे० ५, ३०, ३६)। अतः बहुत सभय है कि वाल्मीकि रामायण में जो पापशंकालु तथा सयमी हनुमान् का चित्र प्रस्तुत किया गया है, उसी के आधार पर उनके ब्रह्मचर्य की कल्पना उत्पन्न हुई।

### (उ) रामभक्ति

७०१. रामभक्ति का भाव समस्त मध्यकालीन राममाहित्य में व्याप्त है। अतः यह स्वाभाविक ही था कि आदि रामायण के उत्साही एव विश्वस्त राम-सेवक हनुमान् को उस साहित्य में आदर्श रामभक्त के रूप में प्रस्तुत किया जाय। शिव-महापुराण की शतरुद्र संहिता (अ० २०) में हनुमान् को भक्तवर के अतिरिक्त राम-भक्ति के प्रवर्तक होने का भी श्रेय दिया गया है :

स्वापयाभास भूलोके रामभक्तिं कपीश्वरः ।

स्वयं भक्तवरो भूत्वा सीतारामसुखप्रदः ॥ ३६ ॥

बहुत सी रचनाओं में हनुमान् को रामभक्ति का आचार्य माना गया है; रसिक सम्प्रदाय उनको अपना प्रवर्तक मानता है (अनु० ६९१)।

हनुमान् की रामभक्ति का प्राचीनतम उल्लेख वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाण्ड (सर्ग ४०) में मिलता है, जहाँ हनुमान् द्वारा राम से तीन बरदान प्राप्त करने का वर्णन किया गया है; किन्तु राम से वरप्राप्ति की कथा के प्रारंभिक रूप में रामभक्ति का उल्लेख नहीं है (अनु० ६९३)। इसी तरह देवताओं से हनुमान् की वरप्राप्ति का प्राचीनतम वृत्तान्त रामभक्ति के विषय में मीन है (अनु० ६९४), किन्तु परवर्ती साहित्य में उस अवसर पर प्रायः रामभक्ति की भी चर्चा है (अनु० ७०४)।

७०२. परवर्ती साहित्य में हनुमान् को प्रदत्त बरदानों में से उनकी रामभक्ति को सर्वाधिक महत्त्व दिया गया है, यहाँ तक कि उनके चिरजीवत्व का प्रयोजन रामभक्ति ही बन जाता है। तत्त्वसंग्रह रामायण (७, १५) में स्वर्गारोहण के अवसर पर राम हनुमान् को यह कहकर आशीर्वाद देने है—तुम मदा जीते रहो और रामभक्ति बनाये रखा। अध्यात्म रामायण के युद्धकाण्ड के अनुसार रामायण के पञ्चान् हनुमान् ने यह बरदान माँग लिया कि मैं राम-नाम का निरन्तर स्मरण करते हुए मगरीर जीवित रहूँ, हनुमान् का निवेदन कोमल भक्ति-भाव से ओत-प्रोत है

त्वन्नाम स्मरतो राम न तृप्यति मनो मम ॥ १२ ॥

अतस्त्वन्नाम सततं स्मरन्स्यास्यामि भूतले ।

यावत्स्यास्यति ते नाम लोके तावत्क्षेत्रवरम् ॥ १३ ॥

मम तिष्ठतु राजेन्द्र वरोऽयं मे ऽभिकांक्षितः । (सर्ग १६)

आनन्द रामायण, भावार्थ रामायण (६, ८१) आदि रचनाओं में हनुमान् के इस निवेदन का भी उल्लेख है कि जहाँ कहीं भी रामचरित का वर्णन हो रहा है मैं वहाँ उपस्थित रह सकूँ। आनन्द रामायण (१, १२, १४३) का उद्धरण इस प्रकार है:

यत्र यत्र कथा लोके प्रचरिष्यति ते शुभा ।

तत्र तत्र गतिर्मे ऽस्तु श्ववर्णार्थ सर्वेषु हि ॥ १४३ ॥

(सार काण्ड, सर्ग १२)

७०३. तत्त्वसंग्रह रामायण (५, ११) का निम्नलिखित प्रसंग आनन्द रामायण पर आधारित प्रतीत होता है; जब हनुमान् सीता को पता लगा कर राम के पास लौटे तब राम ने उनको हृदय से लगाकर यह आशीर्वाद दिया—जहाँ कहीं मेरे नाम का उच्चारण होगा वहाँ तुम भी उपस्थित रहोगे। अंततोगत्वा तुम चतुरानन ब्रह्मा बनकर संसार की मूर्च्छि करोगे और तदनन्तर मुझमें मिल जाओगे। तुम वास्तव में

शिखर हो जो काशी में आने वालों को मेरा मंत्र प्रदान करते हो । कृत्स्नबासीय रामायण (६, १२७) में राम के अभिषेक के अवसर पर सीता हनुमान् को चिरंजीवत्व का वरदान देवे के पश्चात् उनसे कहती हैं कि जहाँ कहीं राम-नाम का प्रसंग हो तुम वहीं जाकर उपस्थित रहो ।

७०४. परवर्ती साहित्य में हनुमान् की जन्मकथा के अन्तर्गत रामभक्ति का प्रायः उल्लेख होता है । आनन्द रामायण (१, १३, १७६-१७७) की जन्मकथा के अनुसार ब्रह्मा हनुमान् को यह वरदान देते हैं—तुम अमर और अबाधगति होगे, तुम हरि के भक्त बन जाओगे तथा विष्णु की सहायता करोगे । भविष्य पुराण में भी ब्रह्मा के इस वरदान का उल्लेख है । जन्म के बाद माता द्वारा परित्यक्त हनुमान् ने रावण को पराजित किया था (दे० ऊपर अनु० ६६८) और अनन्तर तपस्या करने लगे थे । इस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनसे कहा कि त्रेतायुग में राम प्रकट होंगे; तुम उनकी भक्ति प्राप्त कर पूर्णकाम बन जाओगे—तस्य भक्तिं च सम्प्राप्य कृतकृत्यो भविष्यसि (दे० प्रतिसर्गपर्व, खंड ४, १३, ४६-४७) ।

७०५. उपर्युक्त कथाओं के अतिरिक्त हनुमान की रामभक्ति के विषय में और भी बहुत सी सामग्री मिलती है । भागवत पुराण (५, १९, १-५) में इसका उल्लेख किया गया है कि हनुमान हिमालय के किपुषवर्ष में अन्य किन्नरों के साथ अविचल भक्ति-भाव से राम की उपासना करते रहते हैं । उनकी रामभक्ति की उत्पत्ति के विषय में बंगाल की राम-कथाओं में (दे० अनु० ५१२) निम्नलिखित वृत्तान्त पाया जाता है—लक्ष्मण शिव की वाटिका में फल तोड़ने गये; वहाँ के द्वारपाल हनुमान् थे; लक्ष्मण उनसे युद्ध करने लगे । बाद में शिव और राम भी आ पहुँचे और इन दोनों का भी युद्ध हुआ । अन्त में शिव अपने द्वारपाल हनुमान् को राम के हाथ सीपते हैं; उस समय से लेकर हनुमान् शिव को छोड़ कर राम-भक्त बन गए । पश्चात्कालीन वृत्तान्त नं० १३ में भी इससे मिलती-जुलती कथा मिलती है । स्कन्द पुराण के कई स्थलों पर हनुमान् द्वारा शिवलिंग की स्थापना का उल्लेख मिलता है (दे० अनु० ५८०) । हनुमान् की शिवभक्ति के विषय में पद्मपुराण (पाताल खण्ड ११०, १७०-१८१) में एक अन्य घटना का वर्णन किया गया है । इस संबंध में राम-शिव की अभिन्नता (अनु० ३६२) तथा हनुमान् का द्वावतारत्व (अनु० ६७०) भी विचारणीय है ।

७०६. बाल्मीकीय रामायण (६, १२८, ७८-७९) के अनुसार रामाभिषेक के अवसर पर सीता ने, राम से जो माला मिली थी, उसे हनुमान् को प्रदान किया । हनुमान् की रामभक्ति सिद्ध करने के उद्देश्य से इस घटना को अर्वाचीन राम-साहित्य

मे एक नवीन रूप दिया गया है। कृतिवाप्त रामायण (६, १२८) के अनुसार हनुमान् ने माला हाथ में लेकर उसे ध्यान से देखा और तदनन्तर वह उसकी बहुमूल्य मणियाँ तोड़कर खाने लगे। अपने व्यवहार का कारण पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इस माला में राम-नाम अंकित नहीं है; इसीलिये मेरी दृष्टि मे इसका कोई भी मूल्य नहीं है। इसपर लक्ष्मण ने पूछा कि तुम अपना शरीर क्यों नहीं छोड़ देते हो। यह सुनकर हनुमान् ने अपने नखों से छाती फाड़ कर दिखाया कि उनकी हृदयियों पर राम का नाम लिखा है।<sup>१</sup> भावार्थ रामायण (६, ८७) में प्रस्तुत कथा का एक अन्य रूप मिलता है। माला ग्रहण करने के बाद हनुमान् ने विचार किया कि इस माला के कारण मेरे हृदय में अहंकार उत्पन्न हो सकता है अतः उन्होंने दाँतों से माला की मणियाँ फोड़कर कहा—हम वानरो को भोजन को छोड़ कर और कुछ नहीं चाहिए। सेरीराम में हनुमान् के घमण्ड के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत वृत्तान्त का वर्णन किया गया है। विजय के बाद राम ने हनुमान् को एक बहुमूल्य रत्नों की माला प्रदान की थी किन्तु हनुमान् ने उसे चबा कर नष्ट किया था। लक्ष्मण के आपत्ति करने पर हनुमान् ने कहा कि मैं राम का ईमानदार तथा बुद्धिमान सेवक उन रत्नों से कहीं अधिक मूल्यवान् हूँ।

७०७. वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाण्ड (सर्ग ३९) में इसका उल्लेख किया गया है कि रामाभिषेक के पश्चात् वानर सैनिक एक महीने तक अयोध्या में मधु-मांसादि का सेवन करते रहे; और वह महीना रामभक्ति में लीन रहने के कारण उनको मुहूर्त्त मात्र प्रतीत हुआ :

ते पिबन्तः सुगंधीनि मधूनि मधुपिण्डलाः ।

मांसानि च सुमुष्टानि मूलानि च फलानि च ॥ २६ ॥

एवं तेषां निवसतां भासः साधो ययौ तदा ।

मुहूर्त्तमिव ते सर्वे रामभक्त्या च भेनिरे ॥ २७ ॥

परवर्ती साहित्य में उस प्रसंग के वर्णन में हनुमान् की रामभक्ति का विशेष ध्यान रखा गया है। आनन्द रामायण (१, १२, १५२-१५६) के अनुसार हनुमान् ने स्वयं राम का उच्छिष्ट खाया तथा दूसरे वानरो को भी खिलाया। रंगनाथ रामायण (६, १६८), तीरथे रामायण (६, ५५) तथा भावार्थ रामायण (६, ८८) में इससे मिलती-जुलती कथाएँ पाई जाती हैं। सेरीराम के अनुसार हनुमान् ने सीता की

१. रघुराजसिंह कृत रामरसिकावली में भी वही कथा मिलती है। एक अन्य दन्तकथा के अनुसार हनुमान् ने अपना हृदय दिखाया जहाँ सीता-लक्ष्मणादि सहित भगवान् राम विराजमान थे।

खोज करने के पूर्व राम के साथ एक ही पत्तल में भोजन किया था (दे० अनु० ५२४) । कृतिवासीय रामायण में गण्ड के आगमन की कथा में हनुमान् की अनन्य रामभक्ति का वर्णन किया गया है (अनु० ५८६) ।

### (ऊ) देवत्व

७०८. अब हनुमान् की अन्तिम विशेषता अर्थात् उनके देवत्व की उत्पत्ति और विकास का निरूपण करना है । समवत आठवीं शताब्दी से लेकर हनुमान् चंद्र के अवतार माने जाने लगे । इसके फलस्वरूप उनके प्रति भक्तिभाव जाग्रत हुआ और धीरे-धीरे विकसित होने लगा । शैव ग्रन्थों में इस विकास के लक्षणों का प्रथम दर्शन स्वाभाविक है । स्कन्द पुराण (अवन्ती खण्ड, रेवा खण्ड) में शिव हनुमान् को आशीर्वाद देकर कहते हैं कि तुम्हारे नाम कल्याणकारी होते हैं—उपकाराय लोकानां नामानि तव मासते (८३, २९) । उस स्थल पर हनुमान् के बारह नाम उद्धृत हैं; इससे पता चलता है कि रेवाखण्ड के रचनाकाल में हनुमान् के नामों का जप प्रचलित होने लगा था ।

परवर्ती साहित्य के अनुशीलन से प्रतीत होता है कि १०वीं तथा १५वीं शताब्दी के बीच में हनुमद्भक्ति का पूर्ण विकास हुआ है । १५वीं शताब्दी के बाद के साहित्य में उनकी मूर्ति की पूजा का स्पष्ट उल्लेख है तथा उनके कवच, मंत्र, स्तोत्र आदि भी मिलते हैं । आनन्द रामायण (१, १२) के अनुसार सीता ने हनुमान् को आशीर्वाद देते हुए कहा था कि गाँव-गाँव में विघ्नघाति के उद्देश्य से तुम्हारी मूर्ति की पूजा की जायगी ।

प्रामारामपत्तनेषु व्रजखेटकसप्तसु ।

वनदुर्गपर्वतेषु सर्वदेवालयेषु च ॥ १४७ ॥

नदीषु क्षेत्रतीर्थेषु जलाशयपुरेषु च ।

बाटिकोपवनास्वत्थषट्बन्वावनादिषु ॥ १४८ ॥

स्वन्मूर्तिं पूजयिष्यन्ति मानवा विघ्नघातये ।

भूतप्रेतविशाखाद्या नश्यन्ति स्मरणात्सव ॥ १४९ ॥

१. हनुमत्पूजा ठीक किस शताब्दी में प्रारंभ हुई में नहीं कह सकता । १६वीं शताब्दी के पूर्व ही उनकी मूर्तियाँ तथा मंदिरों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं (दे० तुलसीकृत बाहुक २१, २९, ३४) किन्तु विष्णु घर्मोत्तर पुराण तथा बृहत्संहिता के 'प्रतिमालक्षण' नामक खण्ड में हनुमान् का निर्देश नहीं मिलता ।

इस उद्धरण में विष्णुशांति तथा भूत-प्रेतों का नाश हनुमत्पूजा का उद्देश्य कहा गया है। हनुमत्पूजा-संबंधी साहित्य में इसी उद्देश्य का प्रायः उल्लेख मिलता है। वास्तव में पन्द्रहवीं शताब्दी से लेकर हनुमान् का संकटमोचन रूप सब से लोकप्रिय है। आनन्द रामायण के मनोहर काण्ड (सर्ग १३) में राम द्वारा विभीषण को प्रदत्त एक हनुमत्कवच उद्धृत है जिसमें भूतो तथा ज्वरों की ही चर्चा है। उसी काण्ड के एक अन्य स्थल पर (सर्ग १६) गरुड़ राम को कपिपूजन का विधान समझाते हैं तथा यह भी कहते हैं कि यह पूजा महामारी के अवसर पर करनी चाहिए—जनमारे समुत्पन्ने प्राप्ते। आनन्द रामायण के राज्यकाण्ड (५, ५) में सीता की हनुमत्पूजा का भी वर्णन किया गया है—गोमेयांजनैयं सा कुड्यां कृत्वाप्यं जानकी। अकरोत्प्रत्यहं पुच्छन्वृद्धिं स्वांगुलिमात्रतः।

लांगूलोपनिषद् हनुमान् के मंत्रों का संग्रह है जिसमें एकादशरुद्रावतार, श्री-रामसेवक, कुमारब्रह्मचारी हनुमान् को भूत प्रेत पिशाचों का उच्चाटक, समस्त ज्वरों का विनाशक तथा सर्व शूलों का उन्मूलक माना गया है। उन शूलों में से एक बाँझपन है, जिसे दूर करने के लिए हनुमान् की पूजा होती है; अतः श्रीहनुमत्सहस्रनामस्तोत्र में उनको गर्भेदीघ्न तथा पुत्रपौत्रद का नाम भी दिया गया है। तुलसीदास ने अपनी विनयपत्रिका (३०, २) में हनुमान् के संकटमोचन रूप को बहुत महत्त्व दिया है—“संकटसोचविमोचनी मूर्ती”।

७०९. अर्वाचीन साहित्य में हनुमान् की महिमा और बढ़ गई है और उनको पाप-मोचक, मुक्तिदायक भगवान् की उपाधि मिल गई है। श्रीमाधतिस्तव मे हनुमान को पापतापसुप्तमापनतापरः (दे० ९) कहा गया है तथा श्रीहनुमत्सहस्रनामस्तोत्र (बेंकटेश्वर प्रेस) में उनको परम्परागत विशेषणों (अर्थात् १. महावीर २. सर्वविद्या-विशारद, वेदवेदांगपारंग ३. चिरंजीव ४. जितेंद्रिय, ब्रह्मचारी ५. रामसेवक, राम-भक्तिविधायक ६. रुद्र, महेश्वर) तथा संकटमोचन-सूचक नामों (आरोग्यकर्ता, पिशाचब्रह्मघातक, अपस्मारहर) के अतिरिक्त ये भी नाम दिए जाते हैं—संसार-त्रयनाशक, शरणागत-वत्सल, भगवान्, जगन्नाथ, जगदीश, अनादि, परब्रह्म। फिर भी इस शब्दावली को अधिक महत्त्व नहीं दिया जाना चाहिए; पूजा की दृष्टि से हनुमान् का संकटमोचन रूप प्रधान ही है; भूतों, बीमारियों तथा बाँझपन से छुटकारा पाने के लिए उनकी अधिकतर शरण ली जाती है। इसके अतिरिक्त हनुमान् मन्दिरों के द्वारपाल तथा गाँवों के संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। गुजरात में उनका वृक्षों में निवास माना जाता है।<sup>१</sup>

१. दे० एण्टहोवन, इ० ए० भाग ४०, सप्लेमेंट, पृ० ८५। हिन्दी साहित्य की हनुमद्भक्ति विषयक सामग्री पाठक अनु० ३०० में देख लें।



७१०. अन्त में हनुमत्पूजा के कारणों पर विचार करना है। हनुमान् के द्वावतार माने जाने के फलस्वरूप उनके प्रति श्रद्धा का जाग्रत होना स्वाभाविक ही था; किन्तु दसवीं तथा पन्द्रहवीं शताब्दी के बीच में हनुमद्भक्ति का पूर्ण विकास आश्चर्यजनक ही है और उनकी संकटमोचन के रूप में जो आजकल तक व्यापक रूप से पूजा प्रचलित है इसका मुख्य आधार रामायण में चित्रित (राक्षसों का वध, औषधि पर्वत का आनयन आदि) उनका चरित्र नहीं हो सकता है। इसका वास्तविक कारण यह है कि हनुमान् का संबन्ध यक्षपूजा से स्थापित किया गया है। अत्यन्त प्राचीन-काल से गाँव-गाँव में यक्षों की पूजा चली आ रही है—वे रक्षक देवता (जातक ५४५), द्वारपाल, संतान देनेवाले तथा वृक्षों में निवास करने वाले (जातक ३०७ और ५०९) माने जाते थे।<sup>१</sup> यक्ष तथा वीर पर्यायवाची ही हैं। उधर महावीर हनुमान् की ख्याति रामायण की लोकप्रियता के द्वारा शताब्दियों से चली आ रही थी। अतः अन्य यक्षों अर्थात् वीरों के साथ महावीर हनुमान् की पूजा भी होने लगी।<sup>२</sup> इस अत्यन्त प्राचीन पूजापद्धति से संबंध हो जाने पर हनुमान् की लोकप्रियता बहुत ही बढ़ गई और उस समय तक जिस उद्देश्य से और जिस रूप में यक्षों की पूजा होती रही अब उसी उद्देश्य और उसी रूप में महावीर हनुमान् की भी पूजा होने लगी। हनुमान् के संकटमोचन तथा द्वारपाल वाला रूप वीरपूजा से संबंध रखता है। प्राचीन वीर-पूजा तथा हनुमत्पूजा के उद्देश्यों में जो सादृश्य है वह उपर्युक्त विकास की वास्तविकता को प्रमाणित करता है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने इसका एक और प्रमाण उपस्थित किया है। उन्होंने दिखा लाया है कि आजकल तक हनुमान् की पूजा के दो रूप प्रचलित हैं—एक वीरपूजा जिसमें कोई मूर्ति नहीं होती और जो यक्षपूजा से सम्बन्ध

१. दे० आनन्द कुमार स्वामी, यक्षस् (वाशिगटन १९२८-१९३१)।
२. वीरपूजा के साथ सम्बन्ध हो जाने के पूर्व ही हनुमान् की पूजा होने लगी थी। स्कन्द पुराण में हनुमान् के १२ नामों की सूची इस प्रकार है—हनुमान्, अंजनीसुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुनगोत्र, पिंगाक्ष, अमितविक्रम, उदधिक्रमणश्रेष्ठ, दशग्रीवस्य सर्पहा, लक्ष्मणप्राणदाता, सीताशोकनिवर्तन (दे० अवंती खण्ड, रेवाखण्ड, अ० ८३)। इनमें से एक भी नाम यक्षपूजा से संबंध नहीं रखता। ये १२ नाम आनन्द रामायण (भनोहर काण्ड १३, ८-९) में दुहराये गये हैं। स्कन्द पुराण के एक अन्य स्थल पर (ब्राह्मखण्ड, धर्मरूप्य, अध्याय ३७) हनुमान् की स्तुति में १९ विशेषण मिलते हैं; उनमें से एक ही अर्थात् सर्वव्याधिहर हनुमान् के संकट-मोचन रूप से सम्बन्ध रखता है।

रखती है तथा एक दूसरा रूप जिसमें वानर की मूर्ति है और जो राम-कथा पर निर्भर है।'

### (श्र) उपसंहार

७११. ऊपर के निरूपण से स्पष्ट है कि किस प्रकार राम-कथा की लोकप्रियता के साथ-साथ हनुमान् का भी महत्त्व शताब्दियों तक बढ़ता रहा और फलस्वरूप उनके चरित्रचित्रण में अतिशयोक्ति तथा अलौकिकता की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही। फिर भी यह विकास अत्यन्त स्वाभाविक और आनुक्रमिक ही प्रतीत होता है।

रामायण में हनुमान् अपने सखाओं की अपेक्षा पराक्रमी तथा बुद्धिमान अवश्य हैं, किन्तु वह निश्चित रूप से अन्य वानरों में से एक है। अतः यह मानना तर्कसंगत है कि हनुमान् राम-कथा के अन्य वानरों के समान वानर-गोत्रीय आदिवासी ही थे। आदिवासी गोत्रों के रहस्य के अज्ञान के कारण, नाम के आधार पर ही सबों को वास्तविक वानर समझ लेना अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता है।

हनुमान् के चरित्र की विशेषताओं को ध्यान में रखकर उनको वाल्मीकि के समय के पूर्व ही 'वायुपुत्र' (विद्याधर) की उपाधि मिली होगी (दे० ऊपर अनु० ६६२)। वाल्मीकि के बाद ही अवतारवाद की भावना को रामायण में स्थान मिल सका; उसके फलस्वरूप हनुमान् को अन्य वानरों के साथ देवताओं की सन्तान माना गया है। उनका वायुपुत्र नाम पहले ही से विख्यात था, अतः उनको वास्तव में वायु का आत्मज माना गया है और तत्संबन्धी विभिन्न जन्मकथाएँ प्रचलित होने लगी (दे० ऊपर अनु० ६६३-६६९)।

ऊपर यह दिखलाया गया है कि हनुमान् की वीरता, बुद्धिमत्ता, चिरजीवत्व, ब्रह्मचर्य तथा रामभक्ति, इन सब विशेषताओं का सूत्रपात प्रचलित रामायण में विद्यमान तत्त्वों से माना जा सकता है। आठवीं शताब्दी से लेकर वह बहुधा श्रावणतार माने जाने लगे। उनकी जन्मकथा के इस विकास के कारणों तथा उसकी स्वाभाविकता

१. दे० वीर बरहृ, जनपद, खंड १, अंक ३, पृ० ६४-३।

२. उनके नाम एक द्राविड शब्द 'आणु-मंति' (नर-कपि) का संस्कृत रूपान्तर प्रतीत होता है (दे० अनु० १०३)। उस नाम पर अनेक कथाएँ आधारित हैं। सबसे प्रचलित कथा के अनुसार इन्द्र ने इसीलिए उनका नाम हनुमान् रखा था कि पर्वत के शिखर पर गिरने पर उनकी ठोड़ी (हनु) टूट गई थी। पञ्चमचरिय के अनुसार अंजनाकुमारी ने पुत्रसहित हनुशहपुर नामक नगर में शरण पाई थी जिससे उनका पुत्र हनुमान् के नाम से विख्यात है (दे० ऊपर अनु० ६६९)। गृणभद्र के उत्तरपुराण के अनुसार प्रमंजन का पुत्र अपना शरीर 'अणु' सा छोटा बना सकता था और इसीलिए उसका नाम 'अणुमान' ही रखा गया था (दे० पर्व ६८, २८०)।

पर ऊपर विचार हो चुका है (दे० अनु० ६७९)। बाद में महावीर हनुमान् का संबंध अत्यन्त प्राचीन यक्षपूजा (वीरपूजा) के साथ जोड़ा गया और इस कारण उनकी लोकप्रियता तथा उनकी पूजा की व्यापकता और बढ़ गई।

डॉ० याकोबी का कहना है कि हनुमान् की असाधारण लोकप्रियता का आधार रामायण में अंकित उनका चरित्र-चित्रण मात्र नहीं हो सकता है। वास्तव में उनकी यह आश्चर्यजनक लोकप्रियता शताब्दियों तक बढ़ते हुए विकास का परिणाम है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान् ने प्रथम बार राम-लक्ष्मण से मिलकर दोनों को अपने कंधे पर चढ़ाकर मलय पर्वत के शिखर पर सुग्रीव के पास पहुँचा दिया था (दे० ४, ४, ३४)। राम-कथा-साहित्य का अनुशीलन करने पर डॉ० याकोबी के मत के विपरीत मन में यह विचार अनायास उत्पन्न होता है कि राम-कथा ने ही हनुमान् को अमरत्व के शिखर पर पहुँचा दिया है और आजकल राम की अपेक्षा राम-सेवक हनुमान् की पूजा कहीं अधिक व्यापक रूप से हो रही है।

७१२. हनुमच्चरित के विकास के अध्ययन से दो निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। हनुमान् के विषय में जो विस्तृत सामग्री परवर्ती राम-कथाओं में मिलती है, वह वाल्मीकि रामायण में निहित तत्त्वों का स्वाभाविक विकास प्रतीत होती है। अतः वाल्मीकि के पूर्व राम-कथा से स्वतंत्र हनुमद्विषयक गाथाओं की कल्पना (दे० ऊपर अनु० १०३) निराधार ही नहीं अनावश्यक भी है। दूसरे; उस सामग्री के विश्लेषण से स्पष्ट है कि हनुमान् का महत्त्व बढ़ता ही जा रहा था। अतः हनुमान् वास्तव में किसी प्राचीन देवता<sup>१</sup> से अभिन्न हैं, यह कल्पना उपलब्ध सामग्री के प्रतिकूल ही है। हनुमान् के चरित्र-चित्रण में शताब्दियों तक अतिशयोक्ति का प्रयोग होता रहा, किन्तु आठवीं शताब्दी में ही उनको पहले पहल देवत्व की उपाधि से विभूषित किया गया है।

७१३. अर्जुन के गर्वनिवारण (अनु० ६८५) की कथाओं के निरूपण में इसका उल्लेख हुआ है कि हनुमान् उनकी ध्वजा पर विराजमान है। महाभारत से पता चलता है कि प्रायः सब योद्धाओं के झण्डों पर पशुओं के चित्र अंकित थे; उदाहरणार्थ दुर्योधन की ध्वजा पर नाग (६, १७, २५), भीमसेन की ध्वजा पर केसरी (६, ९१, ७०), षटोत्कच के झंडे पर गृध्र (७, १५०, १५), बृषसेन के झण्डे पर मयूर (७, ८०, १६)। इसी तरह जयद्रथ को बराहध्वज (७, १२१, ११), अघवत्यामा को सिंहलांगूलकेतन (६, १७, २१), कृष्ण को गरुड़ध्वज (७, ५७, २), प्रद्युम्न को मकरध्वज (७, ८६,

१. वर्षा के कोई अधिष्ठाता देवता अथवा इंद्र (दे० अनु० ९५) अथवा एक प्राचीन अनायें देवता वृषाकपि (दे० अनु० १०३)।

२५) या मकरकेतु (३, १९, ११) कहा गया है। डब्लू हॉर्किंस<sup>१</sup> की धारणा है कि इन चित्रों का प्रयोजन पूजा न होकर प्रोत्साहन तथा अलंकरण मात्र ही था।

महाभारत के प्रामाणिक संस्करण के अध्ययन से ज्ञात होता है कि यद्यपि अर्जुन की ध्वजा पर अन्य पशु भी अंकित थे (दे० २, २२, २३) किन्तु उनमें से कपि ही प्रमुख था। अतः अर्जुन को प्रायः कपिराजकेतु (दे० ६, ५६, २६), वानरध्वज (६, ११२, ११४), वानरप्रवरध्वज (७, १७, २१), कपिप्रवरकेतन (७, २६, १५) कपिकेतन (८, ६३, ७८) आदि कहा गया है। द्रोणपर्व (अध्याय ६४) के अनुसार अर्जुन ने रणभूमि में प्रवेश करते समय शंख बजाया, उसी समय अर्जुन की ध्वजा पर विराजमान भूतगणों के साथ कपि ने मुँह बाकर शत्रुओं को भयभीत करते हुए बड़े जोर से गर्जना की :

ततः कपिर्महानाबं सह भूतैर्ध्वजालयैः ।

अकरोत् व्याधितास्यश्च भीषयंस्तथ सैनिकान् ॥ २५ ॥

उद्योग पर्व (अ० ५५) में अर्जुन की ध्वजा के विषय में कहा गया है कि विरव-कर्मा, ब्रह्मा और इन्द्र ने मिलकर इसमें छोटी-बड़ी अनेक प्रकार की बहुमूल्य एवं दिव्य मूर्तियों का निर्माण किया है :

ध्वजे हि तस्मिन्प्राणि षड्रुस्ते देवमायया ।

महायनानि बिभ्रयानि महान्ति च लघूनि च ॥ ८ ॥

प्रामाणिक संस्करण में इस स्थल पर हनुमान् का उल्लेख नहीं है; प्रचलित पाठ में यहाँ पर एक प्रशिप्त श्लोक मिलता है जिसमें लिखा है कि भीम के अनुरोध पर हनुमान् भी इस ध्वजा पर युद्ध के समय विराजमान होंगे ।<sup>१</sup>

हनुमान् की कीर्ति तथा लोकप्रियता के कारण यह अनिवार्य ही था कि अर्जुन की ध्वजा के कपि के साथ उनका सम्बन्ध स्थापित किया जाय। इस अभिन्नता की ओर हनुमान्-भीम-संवाद में प्रथम बार निर्देश किया गया है। यद्यपि जिस श्लोक में यह संकेत मिलता है वह महाभारत की सब हस्तलिपियों में बिद्यमान नहीं है (दे० ३, १५०, १५ पाद टिप्पणी के पाठान्तर)। परवर्ती साहित्य में यह अभिन्नता सर्वमान्य ही है।

१. दे० एपिक मिथोलॉजी, पृ० ७३ ।

२. दे० पूना संस्करण, पादटिप्पणी। सारलादासकृत उड़िया महाभारत (उद्योग-पर्व) के अनुसार कृष्ण ने भीम को हनुमान के पास भेज दिया था। हनुमान् ने उत्तर दिया कि मैं राम को छोड़कर किसी को नहीं जानता; मेरे कौपीन का तागा कृष्ण के पास ले जाओ। भीम उसे छूकर मुन्डित हो गए। बाद में भीम यह तागा कृष्ण के पास ले गए; कृष्ण ने उसे देखकर हनुमान् का ध्यान किया और हनुमान् आकर अर्जुन के रथ पर बैठ गए।

## ५—सीता-त्याग

७१४. प्रस्तुत परिच्छेद में सीतात्याग के विकास की रूपरेखा अंकित करने का प्रयत्न किया जायगा। प्रथम उन रचनाओं का उल्लेख होगा जिनमें सीतात्याग का अभाव है। तत्पश्चात् साहित्य में उनके आगमन के कालक्रमानुसार सीतात्याग के भिन्न-भिन्न कारणों का निरूपण किया जायगा। अंत में इस वृत्तान्त की चरम सीमा का वर्णन होगा, जिसके अनुसार रामचरित्र का आदर्श सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सीतात्याग अवास्तविक माना गया है।

निम्नलिखित तालिका से प्रस्तुत वृत्तान्त के विकास के भिन्न-भिन्न सोपान स्पष्ट होंगे :

### क. सीतात्याग का अभाव

- (१) आदिरामायण; महाभारत; प्राचीन पुराण—हरिवंश, वायु पुराण, विष्णु पुराण और नृसिंह पुराण।
- (२) अनामक जातक; गुणभद्रकृत उत्तरपुराण।

### ख. सीतात्याग के भिन्न-भिन्न कारण

#### (अ) लोकापवाद

- (१) वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड, रघुवंश, उत्तररामचरित, कुन्दमाला, दशावतारचरित इत्यादि।
- (२) पउमचरिय, पद्मचरित।

#### (आ) बीबी की कथा

- (१) कथासरित्सागर, भागवत पुराण।
- (२) जैमिनीय अश्वमेध, पद्मपुराण आदि।
- (३) तिन्बती रामायण।

#### (इ) रावण का चित्र

- (१) उपदेशपद, कहावली, हेमचंद्रकृत जैन रामायण
- (२) कृत्तिवास और चंद्रावती के बंगाली रामायण, सेरीराम, काश्मीरी रामायण, लोकगीत, रामायण मसीही, गुजराती रामायणसार, सेरत काण्ड, हिकायत महाराज रावण, आनन्द रामायण।
- (३) सिंहलद्वीप की राम-कथा, काम्बोदिया की रामकेर्ति, श्याम का रामकियेन, रामजातक, ब्रह्मचक्र।

## (ई) परोक्ष कारण

- (१) भृगु का शाप—वाल्मीकि रामायण
- (२) तारा का शाप—वाल्मीकि रामायण
- (३) शुक्र का शाप—पद्मपुराण
- (४) लक्ष्मण का अपमान; लोमलज का शाप; सुदर्शन मुनि की निन्दा
- (५) वाल्मीकि को प्रदत्त वरदान

## ग. अवास्तविक सीतात्याग

- (१) गीतावली (२) अध्यात्म रामायण (३) मधुराचार्य (४) आनन्द रामायण ।

## क. सीतात्याग का अभाव

७१५. विशेषज्ञों की सर्वसम्मति के अनुसार प्रचलित वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड संक्षिप्त माना जाता है, अतः वाल्मीकिकृत आदिरामायण में राम-कथा राम के अभिषेक तथा उनके सुखद राज्य के संक्षिप्त वर्णन पर समाप्त होती थी और इसमें सीतात्याग का उल्लेख नहीं था (दे० ऊपर अनु० ११५)। इस निर्णय की पुष्टि महाभारत से प्राप्त होती है जिसमें सीतात्याग की ओर कहीं भी निर्देश नहीं किया गया है, विस्तृत रामोपाख्यान में भी नहीं जो रामायण के किसी प्राचीन रूप पर निर्भर है। प्राचीन पुराणों में, जहाँ राम-कथा मिलती है, सीतात्याग का संकेत मात्र भी नहीं किया गया है, उदाहरणार्थ—हरिबंश (१, अध्याय ४१) वायुपुराण (अध्याय ८८), विष्णुपुराण (४, ४) तथा नृसिंह पुराण (अध्याय ४७-५२)।

७१६. बौद्ध अनामकं जातकम् का अनुवाद २५१ ई० में चीनी भाषा में हुआ था। इसमें तो सीता-त्याग का वर्णन नहीं किया गया है, फिर भी अयोध्या लौटने के बाद सीता के विशय में लोकापवाद का उल्लेख मिलता है। सम्भव है लोकापवाद के कारण सीतात्याग के वृत्तान्त का पूर्व रूप अनामकं जातकम् की निम्नलिखित कथा में सुरक्षित हो।

‘राजा ने रानी से कहा—पति से अलग दूसरे के घर में निवास करने के कारण स्त्री के चरित्र पर सदेह किया जाता है। तुम्हें स्वीकार करने में परम्परा के अनुसार कहीं तक औचित्य है।’

रानी ने उत्तर दिया—मैं एक नीच की गुफा में थी, किन्तु फिर भी मैं उसमें पंज की तरह रही थी। यदि मुझ में सतीत्व हो तो पृथ्वी फट जाय।

पृथ्वी फट गई और रानी ने कहा—मेरा सतीत्व प्रमाणित हुआ। इसके बाद राजा और रानी सुखपूर्वक राज्य करने लगे और सब वर्ण अपने-अपने धर्म का पालन करते रहे।

गुणभद्रकृत उत्तरपुराण में लका से अयोध्या लौटने के बाद सीता के आठ पुत्र उत्पन्न होते हैं और सीतात्याग की ओर कहीं भी निर्देश नहीं किया गया है।

### ख. सीतात्याग के भिन्न-भिन्न कारण

७१७ राम-कथा के अधिकांश लेखकों ने प्रचलित वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अनुकरण पर सीतात्याग का वर्णन किया है। परित्याग के विभिन्न कारणों के अनुसार ये वृत्तान्त तीन वर्गों में विभक्त किये जा सकते हैं।

#### (अ) लोकापवाद

उत्तरकांड (सर्ग ४२-५२) की कथा इस प्रकार है। गर्भवती सीता किसी दिन राम के सामने तपोवन देखने की इच्छा प्रकट करती हैं। उनको अगले दिन भोज देने की प्रतिज्ञा करके राम अपने मित्रों के साथ बैठकर परिहास की कहानियाँ सुनते हैं—कथा बहुविधा: परिहाससमन्विता: (४३, ३)। सयोगवश राम भद्र से पूछते हैं—‘मेरे, सीता तथा भरत आदि के विषय में लोग क्या कहते हैं।’ तब भद्र सीता के कारण हो रहे लोकापवाद और जनता के आचरण पर पड़ने वाले उसके कुप्रभाव का उल्लेख करता है। लोग कहते हैं—‘हमको भी अपनी स्त्रियों का ऐसा आचरण सहना होगा’

अस्माकमपि वारेषु सहनीयं भविष्यति ।

यथा हि कुर्वते राज ५ आस्तमनुवर्तते ॥१९॥ (सर्ग ४३)

यह सुनकर राम लक्ष्मण को बुलाते हैं और सीता को गंगा के उस पार छोड़ आने का आदेश देते हैं। तपोवन दिखलाने के बहाने लक्ष्मण सीता को रथ पर ले जाते हैं और वाल्मीकि के आश्रम के समीप छोड़ देते हैं। इस आश्रम में सीता की परीक्षा की एक कथा का ऊपर उल्लेख किया गया है (दे० अनु० ६०१)।

वाल्मीकीय कथा कालिदास के रघुवंश (सर्ग १४) में भी मिलती है; अन्तर यह है कि इसमें भद्र मित्र न होकर गुप्तचर बताया गया है। उत्तररामचरित, कुम्बमाला, बलाबतारचरित आदि प्राचीन रचनाओं में इस प्रकार का वर्णन किया गया है। उत्तररामचरित (अंक १) में गुप्तचर का नाम दुर्मुख है। अध्यात्म रामायण (७, ४, ४७) तथा आनन्द रामायण (५, ३, २१) में इसका नाम विजय माना गया है।

१. सेरीराम के अनुसार राम के बहुत समय तक कोई संतति नहीं थी। अन्त में उन्होंने महरीसी कली के पास दूर्तों को भोज कर सहायता माँगी; ऋषि ने दो ‘बा-अहर’ नामक पत्थर (दे० अनु० ३५४) भोज दिए—एक राम के लिए और एक सीता के लिए। इसके फलस्वरूप सीता गर्भवती हुई।

छलित राम के अनुसार दो छयवेशी राक्षस राम को सीता के विरुद्ध उकसाते हैं (दे० अनु० २३६) तथा असमीया लबकुशर युद्ध में राम के एक स्वप्न की चर्चा है (दे० अनु० २८४)।

७१८. विमलसूरिकृत पञ्चमचरियं (पर्व ९२-९४) में सीतात्याग का विस्तृत तथा किञ्चित् परिवर्द्धित वर्णन किया गया है।

राम स्वयं गर्भवती सीता को वन में विभिन्न जैन चंत्यालय दिखला रहे थे कि राजधानी के नागरिक उनके पास आये और अभयदान पाकर उन्होंने अपने आने का कारण बताया। पहले वे साम्भारण जनता के दुष्ट स्वभाव का वर्णन करते हैं, जिसके निम्नलिखित अवगुण होते हैं—पावमोहित्यमई (पापमोहितमति), परदोसगग्रहणरउ (परदोषग्रहणरत), सहाववको (स्वभाव-कुटिल), सठसीलो (शठशील)। और ऐसी जनता में सीता के अपवाद<sup>१</sup> को छोड़ कर किसी और बात की चर्चा नहीं होती। नागरिकों का यह भाषण सुनकर राम ने लक्ष्मण के साथ परामर्श किया किन्तु लक्ष्मण ने सीतात्याग का विरोध किया। राम को सीता पर सन्देह हुआ, अतः उन्होंने अपने सेनापति कृतान्तबदन को बुलाकर आदेश दिया कि जिन-मन्दिर दिखलाने के बहाने सीता को गंगा के पार भयानक (निमानुष) वन में छोड़ दो। सेनापति ने ऐसा ही किया। सयोग से पुडरीकपुर के राजा वज्रजच ने उस वन में सीता का विलाप सुन लिया। वह सीता को अपने भवन ले आया और उसके यहाँ सीता के दो पुत्रों का जन्म हुआ।

रविषेण के षड्मचरित (पर्व ९६) में सीता को ग्रहण करने के दुष्परिणाम के वर्णन में परिवर्द्धन किया गया है। समस्त प्रजा मर्यादा-रहित बताई जाती है। रिश्रयों का हरण हुआ करता है और वाद में वे पुनः अपने-अपने घर लौट कर स्वीकृत की जाती हैं :

प्रजायुनाखिला जाता मर्यादारहितात्मिका ॥४०॥

स्वभावादेव लोकीज्यं महाकुटिलमानसः।

प्रकटं प्राप्य दुष्टांतं न किञ्चित्तस्य दुष्करम् ॥४२॥

हेमचंद्रकृत योगशास्त्र में सीतात्याग के पश्चात् की एक घटना का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार राम अपनी पत्नी की खोज में वन गए थे किन्तु सीता का कहीं भी पता नहीं चला सका। राम ने सोचा कि सीता किसी हिंस पशु द्वारा मारी गई है; अतः उन्होंने घर लौटकर सीता के श्राद्ध का आयोजन किया।

१. पञ्चमचरियं (८०, १९) में लंका से लौट आने के समय भी जनता के अपवाद की चर्चा की गई है।



(आ) धोबी का वृत्तान्त

७१९. सीतात्याग की कथाओं का एक दूसरा वर्ग मिलता है जिसमें लोकापवाद का एक विशेष उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। एक पुरुष (बाद में यह धोबी कहा जाता है) अपनी पत्नी को, जो घर से निकली थी, वापस लेने से इन्कार करते हुए, कहता है—'मैं राम की तरह नहीं हूँ जिन्होंने दीर्घकाल तक दूसरे के घर में रहने के पश्चात् सीता को ग्रहण किया।

इस वृत्तान्त का सर्वप्रथम वर्णन सम्भवतः आजकल अप्राप्य गुणाद्यकृत बृहत्कथा में विद्यमान था और अब सोमदेवकृत कथासरित्सागर (९, १, ६६) में सुरक्षित है। कथा इस प्रकार है—'एक दिन अपने नगर में गुप्तवेश में घूमते हुए राजा ने देखा कि एक पुरुष अपनी स्त्री को हाथ से पकड़ कर अपने घर से निकाल रहा है और यह दोष दे रहा है कि तू दूसरे के घर गई थी। इसपर वह स्त्री कहती है—'राम ने सीता को राक्षस के घर रहने पर भी नहीं छोड़ा; यह मेरा पति राम से बढ़कर है, क्योंकि यह मुझे बंधु के गृह जाने पर भी अपने घर से निकाल रहा है। यह सुनकर राम को बहुत दुःख हुआ और उन्होंने लोकापवाद के भय से गर्भवती सीता को वन में छोड़ दिया'।

भागवत पुराण (९, ११) में जो वृत्तान्त मिलता है वह कथासरित्सागर की उपर्युक्त कथा से बहुत कुछ मिलता-जुलता है।

७२०. जैमिनीय अश्वमेध (अध्याय २६) तथा पद्मपुराण (४, ५५) की सीतात्याग विषयक कथाओं का मूलस्रोत एक ही प्रतीत होता है, क्योंकि दोनों में शाब्दिक समानता के अतिरिक्त एक नया तत्त्व मिलता है—जिस पुरुष ने अपनी पत्नी को निकाला वह धोबी' कहा जाता है।

आगे चलकर धोबी की यह कथा व्यापक हो गई है। तमिल रामायण का उत्तरकांड (७, ७), आनन्द रामायण (५, ३, २८-३०), नर्मदकृत गुजराती रामायणसार, रामचरितमानस के प्रक्षिप्त लवकुशकांड आदि से इसका वर्णन किया गया है।<sup>१</sup>

१. एक आदिवासी कथा के अनुसार वह कुम्हार था। दे० बी० एलविन, बोर्डों हाइलैंडर (१९५० ई०) पृ० ६३।

२. पाश्चात्य वृत्तान्त न० ६, ७, ८ तथा १३ और लोकगीतों में भी धोबी की कथा का निर्देश मिलता है। दे० दुर्गाप्रसाद सिंह द्वारा संग्रहीत भोजपुरी लोकगीत पृ० ११०। पाश्चात्य वृत्तान्त न० १८ के अनुसार राम धोबी के शब्द सुनने के बाद सीता को महल ही में त्यागकर साधू बन जाते हैं और दुनियाँ भर घूमते-फिरते हैं (भाग ३ पृ० १४)। धोबी के पूर्वजन्म (अनु० ७२७) के अतिरिक्त उसके अगले जन्म का भी ध्यान रखा गया है। आनन्द रामायण (९, ५, ३४) के अनुसार इस धोबी को अन्य अयोध्या-वासियों के साथ स्वर्गारोहण करने को अनुमति नहीं

७२१. तिब्बती रामायण का वृत्तान्त कयासरित्सागर तथा भागवत पुराण को कथा से विकसित प्रतीत होता है। उसमें जनश्रुति का प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई पड़ता है। राम किसी पुरुष<sup>१</sup> को अपनी व्यभिचारिणी पत्नी से झगडा करते सुनते हैं। पति कहता है—‘तुम अन्य स्त्रियों की तरह नहीं हो’। इसपर पत्नी उत्तर देती है—‘तुम स्त्रियों के विषय में क्या जानते हो। सीता को देख लो, एक लाख वर्षों तक वह दशग्रीव के साथ रही, फिर भी राम ने उसे ग्रहण कर लिया’।

यह सुनकर राम को सीता के विषय में संदेह उत्पन्न होता है और वह छिपकर उस स्त्री से मिलते है। स्त्रियों का स्वभाव समझते हुए वह राम से यों कहती है—‘ज्वर-पीडित मनुष्य जिस प्रकार शीतल सरिता का निरन्तर स्मरण करता है, ऐसे ही काम-पीडिता स्त्री रूपवान् पुरुष का निरन्तर स्मरण करती रहती है। जब तक उसे कोई देखता अथवा सुनता हो वह निवनीय आचरण नहीं करती, लेकिन एकान्त में, बदन से मुक्त होकर वह परपुरुष के साथ भी अपनी काम-पीडा शान्त कर लेती है।’

यह सुनकर राम के मन में शका सुदृढ़ हो जाती है। वह घर जाकर सीता को कहीं भी चले जाने की आज्ञा देते हैं और सीता अपने दो पुत्रों के साथ किसी आश्रम के लिए प्रस्थान करती हैं।

### (इ) रावण का चित्र

७२२. पञ्चमचरिय के अनुसार राम को सीता के चरित्र पर संदेह हुआ (अनु० ७१८)। परवर्ती साहित्य में राम के इस संदेह को अधिक युक्तिसंगत बना देने के लिए एक सर्वथा नवीन तत्त्व की कल्पना कर ली गई है, अर्थात् सीता के पास रावण का चित्र। रावण-चित्र की कथा जनसाधारण के मनोविज्ञान के अनुकूल होने के कारण अत्यन्त लोकप्रिय बनी। गुजरात से बंगाल तक, और करमोर से सिंहलद्वीप तक समस्त भारतवर्ष में फैलकर वह हिन्देशिया, कम्बोडिया और स्याम में पाई जाती है।

मिली। वह पुनः जन्म लेकर कस का घोड़ी बन गया तथा कृष्ण के द्वारा मारा गया। पाश्चात्य वृत्तान्त न० १४ के अनुसार राम लक्ष्मण को बुलाकर सीता को ले जाने तथा मार डालने का आदेश देते हैं। लक्ष्मण अपने वाण पर किसी वृक्ष का लाल रंग चढ़ाकर राम को विश्वास दिलाते हैं कि सीता का बंध हुआ है। इस कथा में सीता वसिष्ठ के यहाँ ठहरती हैं। (दे० पृ० ६१९)।

१. डॉ० ए० डब्लू० थोमस का अनुमान है कि यह सम्भवतः एक लिच्छवी राजक है।

रावण-चित्र का प्राचीनतम उल्लेख जैन-साहित्य में मिलता है। हरिभद्र सूरि (८ वीं श० ई०) के उपदेशपद की एक संग्रह गाथा (नं० १४) में सीता द्वारा रावण के चरणों का चित्र बनाने का संकेत मात्र किया गया है। उपदेशपद के टीकाकार मुनिचंद्र सूरि (१२वीं श० ई०) लिखते हैं कि सीता ने अपनी ईर्ष्यालु सपत्नी की प्रेरणा से रावण के चरणों का चित्र बना लिया था; सपत्नी ने राम को यह चित्र दिखाया और राम ने सीता को त्याग दिया। भद्रेश्वर की कथाबली<sup>१</sup> में रावण-चित्र के विषय में निम्नलिखित कथा मिलती है। सीता के गर्भवती बन जाने के पश्चात् उनकी सपत्नियों की ईर्ष्या बहुत ही बढ़ गई। उनके अनुरोध पर सीता ने रावण के चरणों का चित्र बनाया; इसपर सपत्नियों ने राम के पास जाकर सीता पर यह अभियोग लगाया कि वह रावण का स्मरण किया करती है और उन्होंने प्रमाण के रूप में रावण का वह चित्र दिखाया। राम ने उनके इस अभियोग पर अधिक ध्यान नहीं दिया जिसमें सपत्नियों ने रावण-चित्र की कथा दासियों द्वारा जनता में फैला दी। वसन्त के आगमन पर सीता ने देवपूजा करने की दोहद प्रकट की। बाद में राम गुप्त वेश धारण कर नगर के उद्यान में टहलने गए और वहाँ उन्होंने लका-निवास के पश्चात् सीता को ग्रहण करने के कारण अपनी निन्दा सुन ली। राम किकर्तव्यब्रिमूढ होकर घर लौटे। तब उन्होंने लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण, हनुमान् आदि को बुलाकर गुप्त-चरो को आज्ञा दी कि तुम लोगों ने जो कुछ सुना है उसका निस्सकोच विवरण दो। गुप्तचरों ने लोकापवाद की चर्चा की। यह सुनकर लक्ष्मण को अत्यन्त क्रोध हुआ किन्तु राम ने गुप्तचरों का समर्थन करते हुए अपने अनुभव का भी वर्णन किया। लक्ष्मण ने सीता का पक्ष लिया किन्तु राम ने कृतान्तवदन को आदेश दिया कि वह तीर्थयात्रा के बहाने सीता को ले जाकर वन में छोड़ दे। सीता को छोड़कर कृतान्तवदन के लौटने के बाद राम ने लक्ष्मण और अन्य विद्याधरो के साथ विमान पर चढ़कर वन में सीता की खोज की और उन्हें कहीं न देखकर समझ लिया कि वह किसी हिल्ल पशु की शिकार बन गई है।

हेमचन्द्र के जैनरामायण में वही कथा किंचित परिवर्तित रूप में पाई जाती है— सीता के गर्भवती हो जाने के बाद उनकी तीन सपत्नियाँ उनसे पहले से अधिक ईर्ष्या करने लगी। इन तीनों के अनुरोध से विवश होकर सीता ने यह कह कर कि मैंने रावण की ओर कभी दृष्टिपात नहीं किया, रावण के चरणों का चित्र बना दिया। तदुपरान्त सपत्नियों ने राम को वह चित्र दिखाया और उसका समाचार दासियों

१. दे० ज० अँ० ई० (बरीडा), भाग २, पृ० ३३६।

द्वारा जनता में फैला दिया।<sup>१</sup> इसके थोड़े समय बाद नागरिकों ने राम के पास आकर सीता के विषय में लोकापवाद की चर्चा की। उसी रात को राम गुप्त वेश धारण कर नगर में घूमने गए और उन्होंने सीता के कारण अपनी निन्दा सुन ली। फल-स्वरूप उन्होंने अगले दिन सीता को वन में छोड़ देने का आदेश दिया।

७२३. **कृत्तिवास रामायण** (७, ४४-४५) में सीतात्याग के तीनों कारणों का सम्मिलित वृत्तान्त इस प्रकार है। भद्र से लोकापवाद की चर्चा सुनकर राम सरोवर में नहाने चले गए। रास्ते में उन्होंने किसी घोड़ी के मुँह से अपनी निन्दा सुन ली तथा घर पहुँच कर सीता द्वारा अंकित रावण का चित्र देख लिया। सीता की सखियों ने जिज्ञासा से प्रेरित होकर सीता से रावण का चित्र खींचने का अनुरोध किया था। सीता ने फर्श पर रावण का चित्र बना दिया था और बाद में थकित होकर वह उस चित्र के पास सो गई थी। राम के आगमन पर सखियाँ चली गईं; रावण का चित्र देखकर राम का सन्देह और दृढ़ हो गया और वह सीता को त्याग देने का सकल्प करके चले गए। चन्द्रावली कृत रामायणगाथा में सीता कंकैयी की पुत्री कुकुआ के बहकावे में आकर रावण का चित्र खींचती है। सेरीराम के अनुसार कीकवी देवी भरत-शत्रुघ्न की सहोदरी है। सीता ने किसी दिन कीकवी देवी का अनुरोध स्वीकार कर एक पक्षे पर रावण का चित्र खींच दिया। बाद में कीकवी देवी ने उस चित्र को सोती हुई सीता की छाती पर रख दिया तथा सीता पर यह अभियोग लगाया कि सो जाने के पूर्व उन्होंने उस चित्र का चूमन भी कर लिया था। राम ने कीकवी देवी पर विश्वास कर सीता को अपने घर से निकाल दिया और सीता पत्त्वियों के साथ महरीसी कली के यहाँ चली गईं। प्रस्थान करने के पूर्व सीता ने परमात्मा से प्रार्थना की कि मेरे सतीत्व के प्रमाण स्वरूप कीकवी देवी गुँगी बन जाए तथा सभी पक्षी मौन रहें। परमात्मा ने इस प्रार्थना को सुन लिया जिससे कीकवी देवी १२ वर्ष तक गुँगी ही बनी रही।

**काश्मीरी रामायण** में राम की एक सहोदरी बहन का उल्लेख किया गया है। लोकगीतो में भी सीता की ननद उनसे रावण का चित्र खिचवाती है।<sup>२</sup> **रामायण मसीही**

१. देवविजयगणि (१५९६ ई०) के जैनरामायण में स्त्रियाँ राम से कहती हैं कि सीता रावण के चरणों की पूजा करती हैं—स्वामिन् एषा सीता रावणे मोहिता रावणांही भूमी लिखित्वा पुष्पादिभिः पूजयति।

२. दे० भारतीय साहित्य (आगरा), वर्ष २, अंक ३, पृ० ७९। दुर्गाशंकर प्रसाद सिंह: भोजपुरी लोकगीत, पृ० २७। कृष्णदेव उपाध्याय: भोजपुरी ग्रामगीत, पृ० ५९। रामनरेश त्रिपाठी, लोकगीतों में राम-कथा; मैथिली धारण गुप्त अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० ६६१।

के अनुसार राम की बहन ने सीता से दशमुख का चित्र खिचवाकर राम से कहा था कि सीता दिन-रात इस चित्र की पूजा करती हैं। इस कारण राम को सीता पर सन्नेह हुआ और उन्होंने जनता के मत का पता लगाने के लिए लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को भेज दिया। उन्होंने लौटकर राम को धोबी का प्रसंग सुनाया। इसपर राम ने सीता को त्याग दिया। नर्मदकृत गुजराती रामायणसार के अनुसार राम सीता को रावण का चित्र खींचते हुए और अपनी दासी से रावण का वर्णन करते हुए सुनते हैं।

जावा के सेरतकाण्ड में कँकेयी स्वयं सीता के पक्षे पर रावण का चित्र खींचती है और सोनी हुई सीता के पलंग पर रख देती है। आनन्द रामायण (जन्मकाण्ड, सर्ग ३) में भी कँकेयी सीता से रावण का चित्र खींचने की प्रार्थना करती है। 'मैंने केवल उसके दाहिने पैर का अगूठा देखा है' यह कहकर सीता दीवाल पर अँगूठे ही का चित्र अंकित करती है। बाद में कँकेयी उम पर रावण का पूरा चित्र बनाती हैं और राम को बुलाकर स्त्री-चरित्र की आलोचना करते हुए कहती है :

यत्र यत्र मनोलग्नं स्मर्यते हृदि तत्सदा ।

स्त्रियाश्चरित्रं को वेत्ति शिवाद्या भोहिताः स्त्रिया ॥४६॥

यह सुनकर राम कँकेयी को विश्वास दिलाते हैं कि लक्ष्मण कल सीता को वन में छोड़ देंगे और उसकी दाहिनी बाहु को काटकर अयोध्या ले आयेगे क्योंकि उसी से सीता ने रावण का चित्र बनाया होगा।

लक्ष्मण ने सीता को बान्सीक आश्रम के निकट जगल में छोड़ दिया तथा उनकी भुजा काटने के विषय में राम के आदेश का उल्लंघन करने के कारण आत्महत्या का विचार किया। इसपर विद्वकर्म ने प्रकट होकर तथा लक्ष्मण से सारा वृत्तान्त सुनकर सीता का हाथ बनाकर उन्हें दे दिया।

हिन्देशिया के सेरीराम तथा सेरत काण्ड का उल्लेख ऊपर हो चुका है। वहाँ के हिकायत महाराज रावण में रावण के चित्र के वृत्तान्त का एक किञ्चित् परिवर्तित रूप मिलता है। रावणवध के बाद राम को लका में रहते हुए सात महीने हो गए हैं। रावण की एक पुत्री के पास उसके प्रिय पिता का एक चित्र है जिसे वह सोती हुई सीता की छाती पर रख देती है। सीता नींद में इस चित्र का चूमन कर रही है; उसी समय राम उनके पास आते हैं और उस दृश्य को देखकर क्रोध में सीता को कोड़ों से

रामदास गीड कृत हिन्दुत्व में (पृ० १४१) कहा गया है कि सुवर्चस में रावण के चित्र के कारण शान्ता की चुगली, शान्ता के प्रति सीता का शाप, उसकी पक्षीयों की प्राप्ति आदि विषय पाये जाते हैं।

रा० ४५.

मारते हैं, उनके बाल काटते हैं और लक्ष्मण को बुलाकर सीता को मार डालने और प्रमाण स्वरूप उसका हृदय ले आने का आदेश देते हैं। लक्ष्मण सीता के साथ चले जाते हैं। वह सीता को नेहर भेज देते हैं और एक बकरी मारकर राम को विश्वास दिलाते हैं कि सीता को मारा गया है। स्पष्ट है कि प्रस्तुत वृत्तान्त का इतना उग्र रूप केवल वहाँ संभव है जहाँ रामचरित्र का आदर्श क्षीण हो गया है।<sup>१</sup>

७२४ रावण-चित्र मम्बन्धी कवाजी का एक अन्तिम रूप मिलता है, जिसमें अलीकृतता आ गई है। सिंहलद्वीप की राम-कथा में उमा सीता के यहाँ आकर उनसे केले के पत्ते पर रावण का चित्र खिचवाती है। राम के अचानक दोनों के पास आने पर सीता इस चित्र को पलंग के नीचे फेंक देती है। राम उग्र पलंग पर बैठ जाता है और पलंग कांपने लगता है। कारण का पता लगाकर राम अत्यन्त क्रुद्ध हो जाते हैं और अपने भाई को सीता की हत्या करने की आज्ञा देते हैं। वन में अपना खग किमी पशु के रक्त से रगकर लक्ष्मण वापस आते हैं और राम को विद्वयान दिलाते हैं कि सीता मर गई है।

**रामकेलि** (सर्ग ७५) में अतुल्य नामक राक्षसी, रावण की कुटुम्बिनी, सीता की एक सर्वा का रूप धारण कर उनसे रावण का चित्र खिचवाती है और इस चित्र में प्रवेश कर जाती है, फरफरकर सीता प्रयत्न करने पर भी इस चित्र को नहीं मिटा पाती और निराश होकर इसे पलंग के नीचे छिपा देती है। बाद में राम के इस पर लेट जाने पर उनको तीव्र ज्वर उत्पन्न होता है। जब चित्र का पता लगता है, राम लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि वह वन में सीता को मार डाले और प्रमाणस्वरूप उसका कलेजा ले आवे। जब लक्ष्मण वन में सीता पर खग चलाने है, तब वह खग सीता के गले में पुष्पो की माला के रूप में परिणत हो जाता है। सीता लक्ष्मण को यह माला देती है और वह फिर खग बन जाती है। तब इन्द्र मृग का रूप धारण कर लक्ष्मण के सामने मर जाते हैं। लक्ष्मण उसका कलेजा निकाल कर राम को लाकर देते हैं। लक्ष्मण के चले जाने के बाद इन्द्र भैंस का रूप धारण कर सीता को वाल्मीकि के आश्रम ले जाते हैं। रामजातक तथा रामकियेन में रामकेलि की उपर्युक्त कथा में मिलता-जुलता वृत्तान्त पाया जाता है। **रामकियेन** (अ० ४०) के अनुसार अदुल नामक शूर्पणखा की पुत्री सीता से रावण का चित्र खिचवाती है और बाद में इसी चित्र में प्रवेश करती है, जिससे सीता उसे मिटा

१. गोविन्द रामायण तथा पाश्चात्य वृत्तान्त न० १३ में राम-कथा के निर्वहण के प्रसंग में रावण के चित्र का उल्लेख किया गया है; दे० अनु० ७५३।

देने में असमर्थ हो जाती हैं। ब्रह्मबक की कथा में शूर्पणखा स्वयं छापवेश में सीता के पास आती है।'

### (ई) परोक्ष कारण

७२५. रामायण के उत्तरकांड (सर्ग ५१) में सीतात्याग का परोक्ष कारण भी उल्लिखित है। सीतात्याग के पश्चात् लक्ष्मण को सात्वता देते हुए सुमत्र दुर्वासा-दशरथ-मवाद उद्धृत करता है। दुर्वासि ने दशरथ से कहा था कि विष्णु ने भृगु-पत्नी को हत्या की थी फलस्वरूप भृगु ने विष्णु को शाप दिया था कि तुमको भी मनुष्य बनकर पत्नी-वियोग का दुःख भोगना पड़ेगा।

तस्मात्त्वं भानुषे लोके जनिष्यसि जनार्दन ॥१४॥

तत्र पत्नीवियोगं त्वं प्राप्स्यसे बहुवाचिकम् ।

सीतात्याग के इस परोक्ष कारण का उल्लेख रामायण के गौड़ीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठों में नहीं मिलता। भृगुशाप अथवा भृगु-पत्नी-वध का उल्लेख न तो वैदिक साहित्य में पाया जाता है और न महाभारत में। वाल्मीकि रामायण के बालकाण्ड में ताडकावध के अवसर पर भृगु-पत्नी की ओर निर्देश किया गया है, किन्तु वहाँ किसी शाप का मकेन नहीं है। रोगाणिक साहित्य में भृगु-शाप विष्णु के अन्तार धारण कर लेने का कारण बताया गया है (दे० ऊपर अनु० ३७०)।

७२६. वाल्मीकि रामायण के उदीच्य पाठों (गी० रा० ४, २०; प० रा० ४, १६) में तारा का शाप सीता-त्याग का परोक्ष कारण माना गया है। बालि-वध के बाद तारा ने राम से कहा था कि मेरे शाप के कारण तुमको सीता की सगति कम समय तक प्राप्त हो सकेगी।

अचिरेण तु कालेन त्वया घाणहपाजिता ।

न सीता मम शापेन चिरं त्वयि भविष्यति ॥१५॥

आत्मनः शौचमाधार्य पतिव्रतगुणा सती ।

याच्यमाना त्वया सीता पुनर्यास्यति भूतलम् ॥१६॥ (गी० रा०)

१. पश्चात्य वृत्तान्त न० ३ के अनुसार सीता ने एक तस्ते पर रावण की छाया का चित्र खींच लिया था। प० वृ० नं० ५ में यह भी कहा गया है कि जब राम उस तस्ते पर बैठ गए, वह तस्ते काँपने लगा था। राजस्थान के एक प्रसिद्ध लोगगीत में कौशल्या-सीता (मास-वध) का झगडा बनवाम का कारण बताया गया है। दे० मैथिली धारण गुप्त अभिनन्दन ग्रन्थ, प० ८२७ :

तारा-शाप का उल्लेख निम्नलिखित रचनावी में भी मिलता है—माधव कदली कृत असमीया रामायण (४, १६), कृत्तिसास रामायण (४, १३), बलरामदास रामायण, भावार्थ रामायण (४, ७), त्रिलका रामायण ।

७२७. **पद्म पुराण** (पाताल खण्ड, अ० ५७) में सीतात्याग के एक अन्य परोक्ष कारण का वर्णन मिलता है । किसी दिन अविवाहित सीता उद्यान में शुक के एक जोड़े से राम-कथा सुनती है । इस कथा को विस्तार से सुनने की इच्छा से प्रेरित होकर वह दोनों पक्षियों को फँसाती है । वे दोनों वाल्मीकि आश्रम में रहकर सीखे हुए रामायण का गान करते हैं । कथा समाप्त होने पर सीता अपना परिचय देकर उनसे कहती है कि जब तक राम मुझे ले जाने नहीं आते, मैं तुम दोनों को यहाँ बन्द कर रख लूंगी । पक्षी विनयपूर्वक मुक्त होने की प्रार्थना करते हैं, विशेषकर इसलिये कि शुक की गर्भवती है । सीता केवल नरपक्षी को मुक्त कर देती हैं । बाद में शुक की यह शाप देकर पिजड़े में मर जाती है :

यथा त्वं पतिना सार्धं वियोजयसि मामितः ।

तथा त्वमपि रामेण विमुक्ता भव गर्भिणी ॥५९॥

अपनी मादा के मृत्यु के विषय में जानकर शुक ने सकल्प किया कि मैं राम के नगर में जन्म लेकर सीता के वियोग का कारण बन जाऊँगा—**मद्वाक्यादियमुद्विग्ना वियोगेन सुदुःखिता** । तब वह गया में डूब मरा और रजक के रूप में अयोध्या में प्रकट हुआ और उस रजक की निन्दा के कारण राम ने सीता का त्याग किया ।<sup>१</sup>

७२८. **पद्मचरियं** (पर्व १०३) के अनुसार सीता ने अपने पूर्वजन्म में मूनि सुदर्शन की निन्दा की थी और इसके फलस्वरूप वह स्वयं लोकापवाद की शिकार बनी (दे० अनु० ४१०) । **भावार्थ रामायण** (७, ४८) में सीता अपने निर्वासन के विषय में कहती हैं कि मैंने वन में लक्ष्मण पर आक्षेप किया था । बगल में निम्नलिखित कथा प्रचलित है—सीता के बचपन के समय लोमश ऋषि जनक के राजभवन में आये थे । ऋषि ने सीता को स्नेह से अपनी गोद में रख दिया किन्तु लोमश के रूखे वालों के कारण सुकुमार सीता की त्वचा से रक्त बहने लगा । ऋषि को बहुत क्रोध हुआ और उन्होंने सीता को वन में कष्ट भोगने का शाप दिया ।

७२९. **तत्त्वसंग्रह रामायण** (७, ६) में सीतात्याग के कारण के विषय में वाल्मीकि को प्रदत्त वरदान की कथा मिलती है । वाल्मीकि किसी समय क्षीरसागर

१. 'हिन्दुत्व' (पृ० १४१) में कहा गया है कि सौर्य्य रामायण में निम्नलिखित विषयों का वर्णन किया गया है—शुक-चरित, शुक के रजक होने के कारण, उसके द्वारा जानकी निस्सारण ।



के तट पर तपस्या करने गये थे। क्षीरसागर की लहरों के कारण वाल्मीकि को कूट हुआ। उन्होंने कहा—लक्ष्मी के जन्मदाता होने के कारण क्षीरसागर अभिमानी है, मैं भी तपस्या द्वारा लक्ष्मी के पिता बनने का वरदान प्राप्त करूँगा। सब वाल्मीकि सगा के तीर पर तपश्चर्या करने लगे। लक्ष्मी प्रकट हुई और वाल्मीकि का निवेदन सुनकर उन्होंने कहा: त्रेतायुग में विष्णु दशरथ के यहाँ जन्म लेंगे; उस समय मैं पृथ्वी से प्रकट होकर जनक की पुत्री बन जाऊँगी। अन्त में लोकापवाद से लाभ उठाकर मैं पुत्री की तरह तुम्हारे आश्रम में शरण लेने आऊँगी।

### ग. अवास्तविक सीता-त्याग

७३०. रामचरित्र का आदर्श सुरक्षित रखने के उद्देश्य से अनेक अर्वाचीन राम-कथाओं में सीतात्याग के वृत्तान्त को एक अन्य रूप देकर उसे अवास्तविक बनाने का प्रयास किया गया है।

तुलसीकृत गीतावली में राम की आज्ञानुसार लक्ष्मण सीता को वन में न छोड़कर उनको वाल्मीकि के हाथों में सौंप देते हैं। इस वृत्तान्त में त्याग का कारण इस प्रकार है—दशरथ अपनी आयु के पूर्ण होने के पहले स्वर्गवासी हो गये थे और राम को उनकी शेष आयु मिली थी। परन्तु सीता के साथ पिता की आयु भोगना अनुचित समझकर राम ने अपनी आयु के समाप्त होने पर सीता का निर्वासन किया (दे० ७, २५ आदि)।

७३१. अध्यात्म रामायण (७, २) में भी सीतात्याग वास्तविक नहीं कहा जा सकता है। इसके अनुसार देवताओं ने सीता के पास आकर कहा—‘यदि तुम पहले बैकुंठ चली जाओ तो श्री रघुनाथ भी वहाँ आकर हमें सनाथ करेंगे।’ सीता से देवताओं की प्रार्थना सुनकर राम ने कहा—‘मैं यह सब जानता हूँ। मैं लोकापवाद के बहाने तुम्हें त्याग दूँगा। वाल्मीकि के आश्रम में तुम्हारे दो पुत्र होंगे। बाद में तुम मेरे पास आकर लोगों को विश्वास दिलाने के लिए शपथ करोगी और पृथ्वी में प्रवेश करके बैकुंठ चलोगी’।

७३२. रसिक सम्प्रदाय के मधुराचार्य ने सीताहरण की भाँति सीतात्याग को भी अवास्तविक माना है (दे० अनु० १५०)।

७३३. आनन्द रामायण (५, सर्ग २-३) के सीतात्याग का वृत्तान्त मिश्रित है। इसमें अन्य पूर्वोक्त तीन प्रसिद्ध कारणों के साथ साथ एक नवीन कारण का भी उल्लेख हुआ है, अर्थात् गर्भवती सीता के प्रति राम की कामपीडा। किन्तु इस वृत्तान्त की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें वास्तविक सीता का त्याग नहीं होता। कथा इस प्रकार है :

‘गर्भवती सीता के सीमन्तोन्नयन के लिए जनक और उनकी पत्नी सुमेधा दोनों अयोध्या आकर वहाँ कुछ काल तक रह जाते हैं। किसी दिन दोनों को बुलाकर राम अपनी कामपीड़ा समझाते हुए कहते हैं—सीता को अपने समीप न देखकर मैं बिरह के कारण विह्वल हो जाता हूँ और इस समय काम-पीडित होकर उनके पास रहना अनुचित है :

आत्मानं विह्वलं दृष्ट्वा सीतासन्निध्यमाश्रये ॥३५॥

अधुना जानकीं दृष्ट्वा कामो भेऽतीव बाधते ।

पंचमासीर्घृतः संगं गर्हयन्ति मुनीश्वराः ॥३६॥

यदि मैं सीता को मिथिला भेज दूँ तो मैं भी अवश्य मिथिला आ जाऊँगा। अतः एकमात्र उपाय यह है कि मैं लोकापवाद और धोबी के कथन के कारण सीता को बाल्मीकि के आश्रम में त्याग दूँ। आप भी सीता के साथ बाल्मीकि के यहाँ निवास कीजिए ।’

तदनन्तर जनक मिथिला में एक मन्त्री को नियुक्त करके अपनी पत्नी और एकाध परिजनों के साथ बाल्मीकि के आश्रम में जाते हैं। बाद में राम परिस्थिति को समझाकर सीता से कहते हैं—‘तुम पाँच वर्ष तक बाल्मीकि के यहाँ रहोगी, तुम्हारे दो पुत्र उत्पन्न होंगे और अंत में तुम यहाँ आकर जनना को विश्वास दिलाने के लिए शपथ करोगी और पृथ्वी देवी से सतीत्व का प्रमाण पाओगी। हरण के समय की भाँति तुम सत्त्वगुण से भरे साथ रहोगी और अन्य दो गुणों से ममन्वित होकर चली जाओगी ।’

इसपर सीता रजस्तमोमयी स्वकीय छाया बनाकर अपने सत्त्वगुण से अदृश्य रूप से राम के बामांग में निवास करने लगती है ।

रजस्तमोमयीं स्वीयां छायां निर्माय सादरम् ॥१७॥

श्रीराघवस्य बामांगे सत्स्वरूपा लयं ययौ । (सर्ग ३)

तत्पश्चात् राम विजय नामक मित्र से लोकापवाद और धोबी की कथा सुनते हैं। इतने में सीता कँकेयी के अनुरोध से रावण के अगुठे का चित्र खींच लेती हैं, जैसे ऊपर इसका वर्णन हुआ है। अगले दिन सीता लक्ष्मण के साथ बाल्मीकि-आश्रम की ओर प्रस्थान करती हैं।

## उपसंहार

७३४. सीतात्याग की उपर्युक्त कथाओं में बहुत अन्तर पाया जाता है। फिर भी इस वृत्तान्त के विकास की रूपरेखा स्पष्ट है। इस त्याग के तीन बहुत व्यापक कारण माने गए हैं और उन तीनों कारणों में क्रमिक विकास देखा जा सकता है।

सामान्य लोकापवाद के बाद इसका एक विशेष उदाहरण (धौबी की कथा) प्रस्तुत किया गया है। अनेक रचनाओं में सीता-चरित्र पर राम के संदेह का उल्लेख है। इस शका को युक्तिसंगत बना देने के लिए रावण के चित्र की कथा की कल्पना कर ली गई है। चित्र की कथा का उद्गम तो भागवतवर्ष में हुआ, लेकिन इसका उग्र रूप विदेश में मिलता है। कालक्रम के अनुसार भी उपर्युक्त विकास की पुष्टि होती है।

जिम प्रकार अर्वाचीन राम-कथा-साहित्य में माना गया है कि सीता की एक छाया-मात्र का हृण हुआ था, उन्हीं प्रकार सीतात्याग के विकास की परिणति यह है कि सीता की रजस्नमोमर्वा छाया मात्र का परित्याग हुआ था।

## ६—कुश-लव-चरित

### क. कुश-लव-चरित का विकास

७३५. प्राचीनतम राम-कथाओं में कुश-लव सम्बन्धी सामग्री का नितान्त अभाव था। वाल्मीकीय युद्धकांड के अंत में राम के १०,००० वर्ष के राज्यकाल का और उनके पुत्रों तथा भाइयों के साथ बहुत से यज्ञ करने का उल्लेख किया गया है<sup>१</sup> किन्तु कुश-लव का मकेत मात्र भी नहीं पाया जाता है। वाल्मीकि रामायण के प्रामाणिक कांडों में (२-६) कहीं भी कुश-लव का निर्देश नहीं किया गया है।

महाभारत की चारों राम-कथाओं में तथा हरिवंश, ब्रह्मपुराण और नृसिंह पुराण में भी कुश-लव का उल्लेख नहीं हुआ है, रामोपाख्यान को छोड़कर इन रचनाओं में राम की मृत्यु स्पष्ट शब्दों में उल्लिखित है।

७३६. बालकांड के चौथे सर्ग में कुशीलवी श्वेतरो राजपुत्रों की कथा का प्रथम रूप मिलता है। राम के अयोध्या लौटने के पश्चात् वाल्मीकि ने समस्त रामचरित के विषय में काव्यरचना की थी और उसे दो कुशीलव राजपुत्रों को सिखाया था। बाद में ये दोनों जाकर समाजों में रामायण का गान करने लगे (श्वेतोणां च विवजातीनां साधूनां च समागमे)। किसी दिन राम ने दोनों को अयोध्या के राजमार्ग में देखा और महल ले जाकर भरत आदि भाइयों के साथ रामायण का गान सुना।

इस सर्ग में कहीं भी कुश तथा लव का अलग उल्लेख नहीं है; केवल दो भाइयों का वर्णन है जो राजपुत्र तथा कुशीलव अर्थात् गायक हैं। रामायण के तीनों पाठों में

१. ईजे बहुविधैर्यज्ञैः समुतबान्धवः (१२८, ९७)। गोविंदराज के पाठ तथा दक्षिण के संस्करणों में राम के पुत्रों का उल्लेख नहीं मिलता; उद्धरण इस प्रकार है—समुहज्जातिबांधवः।

तो ये दोनों राम के पुत्र माने गए हैं, लेकिन जिस श्लोक में इसका उल्लेख किया गया है, वह तीनों पाठों में भिन्न है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि यह तथ्य बाद में स्वतन्त्र रूप से तीनों पाठों में जोड़ दिया गया है। उपर्युक्त वृत्तान्त के उत्तरार्द्ध में, जहाँ राम दोनों का गान सुनते हैं वही भी इसका निर्देश नहीं किया गया है कि ये उनके पुत्र हैं। इससे यह अनुमान दृढ़ हो जाता है कि पहले इन दोनों 'कुशीलवों' तथा राम के पिता-पुत्र-संबंध का उल्लेख नहीं किया गया था।'

७३७. उत्तरकाण्ड में सीता के वाल्मीकि के आश्रम में दो पुत्रों को जन्म देने का वर्णन मिलता है, जिनका नाम वाल्मीकि ने कुश और लव रखा था (दे० सर्ग ६६)। बाद में दोनों वाल्मीकि के शिष्य बन जाते हैं और राम के अवशेष के अवसर पर रामायण का गान करते हैं। तत्पश्चात् राम दोनों का परिचय प्राप्त कर सीता को बुला भोजते हैं। सीता के भूमि-प्रवेश के बाद कुश-लव रामायण का उत्तरकाण्ड भी सुनाते हैं (दे० सर्ग ९३—९९)। रामायण के अन्त में ऐसा उल्लेख है कि कुश को कोशल देश तथा राजधानी कुशवती दी जाती है और लव को उत्तर कोशल तथा थावस्ती प्राप्त होती है (दे० सर्ग १०७-१०८)।

७३८. रघुवंश (१६, ३८) के अनुसार कुश ने अयोध्या का जीर्णोद्धार किया था यद्यपि रामायण (सर्ग १११) में इसका श्रेय ऋषभ को दिया गया है।

बाद की राम-कथाओं में कुश तथा लव के विवाहों का भी वर्णन मिलता है। रघुवंश (सर्ग १६) तथा सध्याकरनदि कृत रामचरित (सर्ग ४) में कुश तथा कुमुद्वती के विवाह का उल्लेख मिलता है। आनन्द रामायण के विवाहकाण्ड में दोनों के कई विवाहों का वर्णन किया गया है, इस काण्ड के अन्त में राम के २००० पौत्रों तथा २४ पौत्रियों का उल्लेख है (दे० ९, १८)। सेरीराम के अनुसार लव ने इन्द्रजित् की पुत्री तथा इसके बाद विभीषण की पुत्री से विवाह किया; कुश ने रावण के पुत्र गम्गमहासूर की पुत्री से विवाह करके लका का राज्य स्वीकार किया। कुश-लव के विषय में जो नवीन सामग्री व्यापक रूप से प्रचलित है वह उनकी जन्म-कथा तथा उनके युद्ध से संबंध रखती है। इसका निरूपण अगले दो परिच्छेदों में किया जायगा।

१. डॉ० ए० वेबर का मत है कि गायको ने अपने नाम "कुशीलव" की व्युत्पत्ति (कु-शील) को छिपाने के उद्देश्य से उपर्युक्त कथा की कल्पना की है। दे० आन दि रामायण, पृ० ९६।

## ख. कुश-लव की जन्म-कथा

### (अ) यमल कुश-लव

७३९. कुश-लव की जन्म-कथा का प्राचीनतम रूप वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाण्ड में प्रस्तुत है। राम द्वारा परित्यक्त किए जाने के पश्चात् सीता वाल्मीकि के आश्रम में शरण पाकर वहाँ दो यमल पुत्रों को जन्म देती है (सर्ग ६६)।

वाल्मीकि ने कुश से अग्रज के निर्माण करने की आज्ञा दी थी तथा अनुज को लव से, जिससे उनका नाम क्रमशः कुश और लव रखा गया था :

यस्तयोः पूर्वजो जातः स कुशमन्त्रसत्कृतः ।

निर्माजनीयस्तु तवा कुश इत्यस्य नाम तत् ॥७॥

यदचावरो भवेत्ताभ्यां लवेन सुसमाहितः ।

निर्माजनीयो वृद्धाभिलषेति च स नामतः ॥८॥

७४० उत्तरकाण्ड की उपर्युक्त कथा सबसे प्रामाणिक मानी गई है। इसका वर्णन अधिकांश राम-कथाओं में मिलता है। जैन पञ्चमखरियं के अनुसार राजा वज्रजघ परित्यक्त सीता को बन में देखकर उनको अपने महल ले आया, जहाँ सीता ने लवण तथा अकुश का जन्म दिया। हेमचन्द्र के जैन रामायण में दोनों का नाम अनगलवण तथा मदनाकुश माना गया है।

७४१. भवभूति के उत्तररामखरित में कुश-लव के जन्म का किञ्चित् परिवर्तित रूप मिलता है। लक्ष्मण के चले जाने के बाद परित्यक्त सीता बन में प्रसवपीड़ा का अनुभव करने लगी। उस पीड़ा से निराश होकर वह आत्महत्या के विचार से गंगा में कूद पड़ी। जल ही में उन्होंने दो पुत्रों को जन्म दिया। तदुपरान्त पृथिवी तथा गंगा देवियाँ सीता को पुत्रों के साथ रसातल ले गईं। बाद में कुछ बड़े होने पर गंगा ने दोनों पुत्रों को शिक्षा के लिए वाल्मीकि के हाथों सौंप दिया। इस वर्णन के अनुसार कुश तथा लव अपने माता-पिता के विषय में कुछ नहीं जानते हैं। अंतिम अंक में वाल्मीकि की आज्ञा से सीता प्रकट होकर राम के साथ अयोध्या लौटती है।

१. टीकाकारों के अनुसार काटे हुए कुश का अग्रभाग कुश है तथा उसका अग्रभाग लव। रघुवंश (सर्ग १५) में लिखा है :

स ती कुशलवोन्मूढगर्भक्लेदी तदारूयया ।

कविः कुशलवावेव चकार किल नामत ॥ ३२ ॥

रघुवंश के टीकाकारों ने लव का अर्थ गोपुच्छलोम बताया है। बलरामदास ने माना है कि राम ने सीतात्याग के पूर्व ही अपने भावी पुत्र का नाम इसी-लिए 'कुश' रखा कि वह कुशलपूर्वक जन्म लेने वाला था।

७४२. गुणमद्रकृत उत्तरपुराण में सीता के विजयराम आदि आठ पुत्रों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से कनिष्ठ अजिनजय यवराज पद पर नियुक्त किया जाता है। इस कथा में सीतात्याग का निर्देश नहीं है।<sup>१</sup>

(आ) वाल्मीकि द्वारा कुश की सृष्टि।

७४३. तिब्बती रामायण प्राचीनतम रचना है जिसमें वाल्मीकि द्वारा कुश की सृष्टि का वृत्तान्त सुरक्षित है। कथासरित्सागर का तत्सम्बन्धी वृत्तान्त इस प्रकार है। सीता ने वाल्मीकि के आश्रम में एक पुत्र को जन्म दिया था, जिसका नाम वाल्मीकि ने लव रखा। एक दिन सीता लव को लेकर नदी में स्नान करने गई। कुछ देर बाद वाल्मीकि कुटी में लौटे। यह जानकर कि सीता स्नान करते समय लव को झोपड़ी में छोड़ दिया करती हैं, वाल्मीकि को भय हुआ कि कोई लिम्प पञ्च बालक को उठा न ले गया हो। इसपर उन्होंने तपोबल द्वारा "कुश" घाम में एक बालक की सृष्टि की। लौटने पर सीता ने उस बालक को पुत्रवत् ग्रहण किया। इस प्रकार सीता के लव तथा कुश दो पुत्र हो गए। (दे० ९, १, ८३-९३)।

कुश के जन्म का यह वृत्तान्त काश्मीरी रामायण (न० ६०), रामायण ममीही, गोविन्द रामायण (पृ० २०६) और पाश्चात्य वृत्तान्तों (न० ८ और १७) में भी मिलता है। काश्मीरी रामायण में लव का जन्म भी अपने ढंग का है। दशरथ राम को स्वप्न में दर्शन देकर सतान न होने के कारण उनकी भर्त्सना करते हैं। इसपर राम वसिष्ठ से परामर्श करने के बाद अवमंथ यज्ञ करते हैं, जिसके अंत में सीता को प्रसाद दिया जाता है। फलस्वरूप सीता गर्भवती हुई और बाद में उन्होंने वाल्मीकि के आश्रम में लव को जन्म दिया।

तिब्बती रामायण में लव-कुश के जन्म का वर्णन सीतात्याग के पूर्व किया गया है। राम किसी विद्रोही सामन्त से युद्ध करने गए थे। बहुत समय बीत जाने पर सीता ने उनकी खोज में निकलकर मार्ग में अपने पुत्र लव को ऋषियों की रक्षा में छोड़ दिया किन्तु लव छिपकर अपनी माता के पीछे चला गया। तब ऋषियों ने कुश से एक नये बालक की सृष्टि की; लौटने के बाद सीता ने उसे भी ग्रहण कर लिया।

७४४. उपर्युक्त कथा का एक ऐसा रूप भी मिलता है, जिसमें सीता अपने पुत्र को वाल्मीकि की रक्षा में छोड़कर जाती हैं किन्तु मार्ग में वानरियों का उपदेश

१. जावा के मेरत कांड तथा पाश्चात्य वृत्तान्त न० १३ में सीता के केवल एक पुत्र का उल्लेख किया गया है। ये वृत्तान्त कुश-लव की जन्मकथा के द्वितीय वर्ग से संबंध रखते हैं, जिसमें सीता केवल एक पुत्र को जन्म देती है।

मुनकर लौट आती हैं और वाल्मीकि से बिना कुछ कहे अपने पुत्र को अपने साथ ले जाती हैं। आनन्द रामायण (५, ४, ६२-६८) में सीता ने मार्ग में एक वानरी को पाँच बालक ढोते हुए देखकर अपने पुत्र का स्मरण किया। इसपर वह लौटी और वाल्मीकि से कुछ कहे बिना अपने पुत्र को साथ लेकर स्नान करने गई। रामकेर्त्ति (सर्ग ७५) तथा रामकियेन में भी वानरियों से सीता के मिलने का वृत्तान्त दिया गया है। राम-कियेन (अध्याय ४१) में सीता वानरियों को अपने बच्चों के साथ-साथ एक वृक्ष में दूसरे वृक्ष पर कूदते हुए देखती है और बच्चों की सम्मूर्त्ति रक्षा न करने के कारण उनकी भर्त्सना करती है। इसपर वानरियों ने उत्तर दिया कि तुम अपने पुत्र को ध्यानमग्न ऋषि के पास छोड़कर हमसे कहीं अधिक अभावधान हो। यह मुनकर सीता अपने पुत्र को ले आने के लिए लौट पड़ती है। एक अन्य वृत्तान्त के अनुसार मुग्धोव की मेला के वानर वन में सीता की सेवा करते थे तथा उनके पुत्र को टहलाने के लिए ले जाया करते थे। किसी दिन सीता अपने पुत्र के साथ नदी तट पर गई, इनमें से एक वानरी उनके पुत्र को टहलाने के लिए ले गई। बाद में सीता के दुःख में द्रवित होकर वाल्मीकि ने एक बालक की सृष्टि की (दे० पाश्चात्य वृत्तान्त नं० ७)। इन सब कथाओं में तथा राम जातक और ब्रह्मचक्र में भी वाल्मीकि एक दूसरे बालक की सृष्टि करते हैं। रामकेर्त्ति (सर्ग ७६) तथा रामकियेन (अ० ४१) के अनुसार वाल्मीकि ने सीता के बालक का चित्र बना लिया था तथा उसमें जीवन लाने के लिए धर्मक्रिया कर रहे थे कि सीता अपने बालक के साथ लौटी। वाल्मीकि धर्मक्रिया को अपूर्ण छोड़ देना चाहते थे किन्तु सीता ने अपने बालक के एक मखा के लिए उनसे अनुरोध किया; तब वाल्मीकि ने सीता के इस निवेदन को पूर्ण कर दिया।

७४५. हिन्देशिया के सेरीराम तथा हिकायत महाराज रावण में महरीसी कली बालक के साथ नहाने जाते हैं। बालक छिपकर अपनी माता के पास लौट जाता है और महरीसी कली उसे मृत समझकर एक दूसरे बालक की सृष्टि करते हैं। सिंहली राम-कथा के अनुसार वाल्मीकि ने सीता के पुत्र को न देखकर तालाब के एक कमल से एक दूसरे बालक को बनाया। बाद में सीता को विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने वाल्मीकि से एक तीसरे बालक की सृष्टि करने का अनुरोध किया। वाल्मीकि ने पहले इनकार किया। अन्त में सीता ने जब यह प्रतिज्ञा की कि मैं अपनी उँगली से तीसरे बालक को दूध पिलाऊँगी तब वाल्मीकि ने कुश से एक तीसरे बालक की सृष्टि कर दी।

### ग. कुश-लव-युद्ध

७४६. वाल्मीकि रामायण में राम के अश्वमेध की यज्ञभूमि में कुश-लव रामायण का गान करते हैं और इस तरह राम अपने पुत्रों का परिचय प्राप्त करते हैं। बहुत

सी राम-कथाओं में कुश-लव के राम की सेना तथा राम से भी युद्ध करने का वर्णन किया गया है। उस युद्ध के भिन्न-भिन्न कारण बताए जाते हैं, किन्तु सब से प्रचलित कारण यह है कि कुश-लव ने राम के अश्वमेध के घोड़े को बाँध लिया था।

विमलसूरि का पउमचरियं (पर्व ९७-१००) प्राचीनतम मुरक्षित रचना है जिसमें सीता के पुत्रों के युद्ध का वर्णन किया गया है। उसके अनुसार लवण तथा अंकुश अपनी माता के साथ पुडरीकपुर के राजा वज्रजघ के यहाँ रहते हैं और सिद्धार्थ से शिक्षा पाते हैं। उनके विवाह तथा दिग्बिजय के पश्चात् नारद उनके पास आकर उनसे उनकी माता के परित्याग की कथा सुनाते हैं। इसपर राम तथा लक्ष्मण से प्रतिकार लेने के उद्देश्य से दोनों सेना लेकर अयोध्या पर आक्रमण करते हैं। लवण राम से युद्ध करते हैं तथा अंकुश लक्ष्मण से। युद्ध के अनिश्चित होने पर सिद्धार्थ और नारद लवण तथा अंकुश के जन्म का रहस्य राम-लक्ष्मण से प्रकट करते हैं। इसपर राम अपने पुत्रों से मिलकर दोनों को अपने पास रखते हैं। बाद में सीता की अग्निपरीक्षा का वर्णन मिलता है (दे० अनु० ६०१)। रविवेणकृत पद्यचरित (पर्व १०२) में हनुमान् पुत्रों का पक्ष लेकर राम के विरुद्ध लड़ते हैं।

कुश-लव-युद्ध का यह रूप केवल जैन साहित्य में ही मिलता है। रामालगामृत (सर्ग १४) में नारद राम के पास जाकर कुश-लव के पराक्रम का वर्णन करते हैं, जिससे राम सेना लेकर दोनों के पास पहुँचते हैं। नारद का उल्लेख पउमचरिय का प्रभाव सूचित करता है।

७४७. कथासरित्सागर (९, १, ९५-११२) में उस युद्ध का वर्णन इस प्रकार है। कुश तथा लव किसी दिन बाल्मीकि द्वारा पूजित शिवालय से खेलते हैं। प्रायश्चित्त के लिए बाल्मीकि लव को कुबेर के सरोवर से स्वर्ण कमल तथा उनकी वाटिका से मदार फल ले आने और उनसे लिंगपूजा करने की आज्ञा देते हैं। लक्ष्मण उस समय राम के पुरुषमेध के लिए एक शुभलक्षणसंपन्न पुरुष की खोज कर रहे थे। उन्होंने लव को कुबेर के यहाँ से लौटते देखा और उसे कारागार में बंद कर दिया। इसपर बाल्मीकि ने कुश को अयोध्या भेज दिया। बाल्मीकि के दिव्य अस्त्रों से कुश ने लक्ष्मण को और इसके बाद राम को भी पराजित किया। इसके बाद राम ने अपने पुत्रों का परिचय प्राप्त कर दोनों को अपने साथ रखा तथा सीता को भी बाल्मीकि के आश्रम से बुला भेजा।

आनन्द रामायण (जन्म काण्ड, सर्ग ६-८) का वृत्तान्त उपर्युक्त कथा से प्रभावित प्रतीत होता है, यद्यपि इसमें भवभूति के अनुसार रामाश्वमेध के घोड़े का भी उल्लेख किया गया है। बाल्मीकि के आश्रम में अपने पुत्रों के साथ रहने वाली सीता नौ दिन



तक संयोगकरणव्रत करना चाहती है। इस व्रत के लिए अयोध्या के सरोवर के स्वर्ण कमलों की आवश्यकता है। पचवर्षीय लव उन्हें प्रतिदिन छिपकर ले आता है। आठवें दिन वह चौदह पहरेदारों को परास्त करके उनसे कहता है कि मैं वाल्मीकि की आज्ञानुसार ये कमल ले जाता हूँ। नवें दिन लव १००० रक्षकों को पराजित करता है और सीता अपना व्रत पूरा करने में समर्थ होती है। तदुपरान्त राम वाल्मीकि को अपने वीर शिष्य के साथ अश्वमेध के लिए निमंत्रण भेज देते हैं। वाल्मीकि सीता तथा कुश-लव के साथ जाकर यजभूमि के दो कोस की दूरी पर डेरा डालते हैं। इतने में यज्ञाश्व वहाँ पहुँचना है और लव उसे बाँध कर राम की समस्त सेना को हरा देता है। बाद में लक्ष्मण लव को पराजित कर उसे ले जाते हैं। लव को मुक्त करने के लिए कुश जाकर लक्ष्मण को हराता है और देर तक राम में युद्ध करता है; इस युद्ध में किसी की भी जीत नहीं होती। राम के वाल्मीकि से पूछने पर कि ये दोनों कौन हैं, वाल्मीकि उत्तर देते हैं कि कल यह रहस्य खुलेगा। दूसरे दिन कुश तथा लव आनन्द रामायण का जन्मकांड गाकर अपना परिचय देते हैं। इसपर सीता को भी बुलाया जाता है और सतीत्व का साक्ष्य देने के पश्चात् वह राम तथा कुश-लव के साथ अयोध्या में निवास करने लगती है। भाचार्य रामायण (७, ६६-६९) का वृत्तान्त आनन्द रामायण पर आधारित है।

७४८. भवभूति का उत्तररामचरित प्राचीनतम रचना है जिसमें राम के यज्ञाश्व के कारण सीता के पुत्रों के युद्ध का उल्लेख किया गया है। सम्भव है कि उपर्युक्त कथासरित्सागर की कथा अधिक प्राचीन हो और भवभूति ने उसके तथा उत्तरकांड के वृत्तान्तों का समन्वय करने का प्रयत्न किया हो।

उत्तररामचरित (अंक ५-६) में लव पहले यज्ञाश्व की रक्षा करने वाली राम-सेना से तथा बाद में लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु से युद्ध करता है। राम पहुँचकर लव-चंद्रकेतु का युद्ध रोकते हैं और लव तथा कुश से मिलकर उनका परिचय प्राप्त करते हैं, अन्त में वह सीता को पुनः ग्रहण करते हैं।

७४९. परवर्ती रचनाओं में कुश-लव-युद्ध का विस्तृत तथा परिष्कृत वर्णन किया गया है। जैमिनीय अश्वमेध (अ० २९-३६) में इस प्रकार का प्राचीनतम वृत्तान्त मिलता है। लव राम के यज्ञाश्व को बाँधकर तथा बहुत से सैनिकों का बंध करके शत्रुघ्न द्वारा पराजित किया जाता है। इसपर कुश शत्रुघ्न को पराजित करता है। बाद में कुश-लव लक्ष्मण, हनुमान् तथा भरत पर विजय प्राप्त करते हैं तथा अन्त में राम को भी आहूत करते हैं। तदनन्तर वाल्मीकि राम की समस्त सेना को अमृत जल से पुनर्जीवित करते हैं। पद्यपुराण (पाताल खण्ड अ० ६०-६४) का

वृत्तान्त इमसे मिलता-जुलता है किन्तु राम-लक्ष्मण-भरत युद्ध के लिए नहीं आते हैं और सीता अपने सतीत्व की शपथ खाकर राम-सेना को पुनर्जीवित करती है।

निम्नलिखित रचनाओं में राम के यज्ञाश्व को लेकर कुश-लव-युद्ध का गौण-परिवर्तनो के साथ वर्णन किया गया है—(छलित राम दे० अनु० २३६) कृत्तिवास रामायण (७, ५७-६५), राम-चंद्रिका (प्रकाश ३५-३९), गोविन्द रामायण, रामायण मगधी, नर्मद कृत गुजराती रामायण सार, काश्मीरी रामायण (७१-७७), पाश्चात्य वृत्तान्त न० ७, ८ तथा १४।

७५०. रामकेति (मगं ७६-७९) तथा रामकियेन (अध्याय ४२) में लव-कुश-युद्ध की कथा इस प्रकार है। दस वर्ष की अवस्था में सीता के पुत्रों ने वाल्मीकि से धनुर्विद्या की शिक्षा पाई, किसी दिन उन्होंने अपने बाणों से एक विशाल वृक्ष नष्ट किया जिससे अयोध्या में भूकम्प हुआ। ज्योतिषियों ने कहा कि यह भूकम्प एक महान् राजा की धनुर्विद्या का परिणाम है। उस राजा का पता लगाने के उद्देश्य से एक अश्व छोड़ दिया गया (इसका शरीर श्वेत था, चेहरा काला तथा मुँह लाल) और हनुमान् भरत तथा शत्रुघ्न ने उसका अनुसरण किया। सीता के पुत्रों ने अश्व को अपने अधिकार में किया तथा हनुमान् को हराकर उसके हाथ बाँध लिए तथा उसके चेहरे पर गोदना गोदकर लिख दिया कि उस जानवर का स्वामी ही उसके हाथ खोलने में समर्थ होगा। भरत और शत्रुघ्न ने गौंठ खोलने का अमफल प्रयत्न किया जिससे हनुमान् को अयोध्या जाकर राम की शरण लेनी पड़ी। बाद में हनुमान लौटे और सीता के पुत्र को कँटी बनाकर अयोध्या ले गये किन्तु जपलक्ष्मण अपनी माता से एक मायामय अगूठी पाकर अपने भाई को छुड़ाने चला गया। अयोध्या में पहुँचकर जपलक्ष्मण ने छद्मवेशी रंभा की सहायता में उस अगूठी को रामलक्ष्मण के पास पहुँचा दिया। अगूठी के प्रभाव से उसके बन्धन छूट गए। बाद में राम ने वन में उन बालकों का सामना किया किन्तु युद्ध अनिश्चित रहा। अन्त में रामलक्ष्मण के बाण ने पुष्पनाला बनकर अपने को राम के प्रति समर्पित किया। तब राम ने यह कह कर ब्रह्मास्त्र चलाया—यदि ये बालक पराएँ हैं तो ब्रह्मास्त्र उनको नष्ट करे; यदि ये सम्बन्धी हैं तो ब्रह्मास्त्र बालकों के लिए मिष्टान्न में बदल जाय और वह मिष्टान्न बन गया। इस प्रकार उनको अपने सम्बन्धी जानकर तथा लक्ष्मण से सीतात्याग की वास्तविक कथा सुनकर राम सीता के पास चले गये और उन्होंने सीता से क्षमा-

१. रामकेति में सीता के पुत्र रामलक्ष्मण जपलक्ष्मण कहलाते हैं; रामकियेन में मकुत और लव नाम दिये गये हैं। श्याम के रामजातक तथा ब्रह्मचक्र में भी कुश-ल-युद्ध का वर्णन किया गया है।

याचना की। सीता ने राम की भर्त्सना करते हुए अयोध्या लौटना अस्वीकार किया किन्तु उन्होंने दोनों बालकों को राम के साथ जाने दिया।

७५१. अनेक विदेशी राम-कथाओं में कुश-लव-युद्ध के प्रसंग में राम के यज्ञाश्व का उल्लेख नहीं मिलता। एक पाश्चात्य वृत्तान्त (न० ६) के अनुसार राम के पुत्रों ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया किन्तु राम ने दोनों को परास्त कर दिया; एक पुत्र रणभूमि में मर गया तथा दूसरा राम का उत्तराधिकारी बना। सिंहली-राम-कथा के अनुसार राम ने किसी दिन सीता के पुत्रों से भेट की थी। बालकों ने उनको प्रणाम नहीं किया जिसमें राम ने उनपर वाण चलाया। अपना वाण बालकों को आहत करने में असमर्थ पाकर राम को जिज्ञासा हुई और इस प्रकार उनके जन्म का रहस्य प्रकट हुआ। सेरीराम की तत्सवधी कथा इस प्रकार है। सीता के पुत्रों ने किसी दिन मृगया खेलते समय एक हरिण का वध किया जिसे राम ने पहले ही वाण से आहत किया था। लक्ष्मण उम आहत हरिण का पीछा करते हुए बालकों के पास पहुँचें, हरिण को लेकर झगडा हुआ और बालक लक्ष्मण को बाँधकर महुरीसी कर्ला के यहाँ ले गए। बाद में राम ने लक्ष्मण की खोज में महुरीसी कली के पास पहुँचकर अपने पुत्रों का परिचय प्राप्त किया। जावा के सेरत काण्ड के अनुसार सीता के पुत्र वृत्तलव ने विभीषण की सेवा करने वाले दो राक्षसों के साथ झगडा किया; उन्होंने विभीषण के पास जाकर शिकायत की जिसमें युद्ध छिड गया और उसमें वृत्तलव ने विभीषण और लक्ष्मण को कर्दी कर लिया।

## ७--राम-कथा का निर्वहण

### क. प्राचीन सुखांत राम-कथा

७५२. प्रस्तुत निबन्ध के कई स्थलों पर इसका उल्लेख किया गया है कि वाल्मीकिरुत आदि-रामायण राम के अभिषेक तथा उनके ऐश्वर्यशाली राज्य के सक्षिप्त वर्णन पर समाप्त होता था। सीतात्याग के विकास के निरूपण में उन प्राचीन रचनाओं की नामावली दी गई है, जिनमें न तो सीता-त्याग और न सीता के भूमिप्रवेश की ओर संकेत किया गया है। अतः राम द्वारा रावण की पराजय तथा सीता की पुनःप्राप्ति उन समस्त राम-कथाओं का अंतिम वर्ण्य विषय है (दे० अनु० ७१५)।

गुणभद्ररुत उत्तरपुराण की राम-कथा में भी सीतात्याग का उल्लेख नहीं है, लेकिन कथा का निर्वहण जैन परम्परा के अनुकूल है जिसमें नारायण के मर जाने पर बलदेव जैन दीक्षा लेते हैं। अतः लक्ष्मण की मृत्यु के पश्चात् राम विरक्त होकर

वीक्षा लेते हैं तथा मोक्ष प्राप्त करते हैं। सीता भी राम की अन्य पत्नियों के साथ आर्यका बनकर अच्युत स्वर्ग प्राप्त कर लेती हैं।

### ख. दुःखान्त राम-कथा

७५३. वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड की राम-कथा दुःखान्त है। लोकापवाद के कारण अपनी निर्दोष पत्नी को त्याग देने के पश्चात् राम अश्वमेध के अवसर पर अपने पुत्रों को देखकर सीता को भी बुला भेजते हैं। वाल्मीकि सीता के साथ सभा में पहुँच कर सीता के सतीत्व का साक्ष्य देते हैं। तदनन्तर राम जनता को विश्वास दिलाने के उद्देश्य से सीता से अनुरोध करते हैं कि वह अपने सतीत्व का प्रमाण दे। इसपर सीता शपथ खाती है

यथाह राघवावन्धं मनसापि न चिन्तये ।

तथा मे माषवी देवी विवरं दातुमर्हति ॥ १४ ॥

मनसा कर्मणा वाचा यथा रामं समर्चये ।

तथा मे माषवी देवी विवरं दातुमर्हति ॥ १५ ॥

यथंतत्सत्यमुक्तं मे वेधि रामात्परं न च ।

तथा मे माषवी देवी विवरं दातुमर्हति ॥ १६ ॥ (सर्ग ९७)

पृथ्वी देवी एक दिव्य सिंहासन पर बैठी हुई भूमि से प्रकट हो जाती है और सीता को अपनी शरण में लेकर पुनः भूमि में प्रवेश करती है। राम विलाप करते हैं तथा पृथ्वी देवी से सीता को लौटा देने का अनुरोध करते हुए समस्त पृथ्वी को प्लावित करने की भी धमकी देते हैं। अंत में ब्रह्मा स्वर्ग में पुनर्मिलन का आश्वासन देकर राम को सान्त्वना प्रदान करते हैं।

सीता का भूमिप्रवेश उत्तरकाण्ड के निर्ग्रहण का प्रथम सोपान कहा जा सकता है। द्वितीय सोपान राम द्वारा लक्ष्मण-त्याग पर समाप्त हो जाता है। सीता के अंतर्धान हो जाने के बहुत काल बाद क्रमशः कौशल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी का देहान्त हुआ (सर्ग ९९)। अनन्तर भरत तथा लक्ष्मण के पुत्रों को राज्य दिलाने के उद्देश्य से अनेक विजय-यात्राओं का उल्लेख मिलता है (सर्ग १००-१०२)। तब लक्ष्मण के त्याग का इस प्रकार वर्णन किया गया है—काल तपस्वी के रूप में राम के पास आकर एकान्त में ही उनके साथ बातचीत करना चाहते हैं और राम से यह प्रतिज्ञा कराते हैं कि जो कोई हम दोनों को देखे अथवा सुने वह राम द्वारा वध किया जाए—  
यः श्रुनोति निरीशेढा स ऋष्यो ऋषिता तव (१०३, १२)। राम लक्ष्मण को समझाकर द्वार पर खड़ा रहने का अदेश देते हैं। एकान्त पाकर काल राम को ब्रह्मा का यह सन्देश देते हैं कि रामावतार का समय समाप्त हो रहा है। इतने में

दुर्वासि लक्ष्मण के पास आ पहुँचते हैं और राम-लक्ष्मण-भरत-शत्रुघ्न और उनकी सन्तति को शाप देने की धमकी देकर तुरन्त ही राम से मिलने के लिए अनुरोध करते हैं। लक्ष्मण वंश के नाश की अपेक्षा अपना ही मरण श्रेष्ठ समझकर राम के पास अन्दर जाते हैं:—एकस्य मरणं मेऽस्तु मा भूत्सर्वविनाशनम् (१०५,९)। बाद में राम अपनी प्रतिज्ञा के वशीभूत होकर लक्ष्मण का परित्याग करते हैं:

विसर्जये त्वां सौमित्रे मा भूद् धर्मविपर्ययः ।

त्यागो धर्मो वा विहितः साधूनां ह्युभयं समम् ॥१३॥ (सर्ग १०७)

इसपर लक्ष्मण सरयू के तट पर जाते हैं और कृताञ्जलि होकर अपना श्वास रोक लेते हैं। इन्द्र लक्ष्मण को सशरीर स्वर्ग ले जाते हैं; देवता विष्णु का चतुर्थांश पाकर प्रसन्न हैं और लक्ष्मण की पूजा करते हैं (सर्ग १०३-१०६)।

निर्वहण का अतिन्म सोपान राम का स्वर्गारोहण है। लक्ष्मण के वियोग के कारण दुःखी होकर राम ने भरत को राज्य सौंपने और स्वयं वन जाने की इच्छा प्रकट की किन्तु भरत तथा अयोध्या की प्रजा ने राम के साथ जाने की अनुमति माँग ली। तब राम ने अपने पुत्रों को कुशावती तथा श्रावस्ती में राज-सिंहासन पर बिठाकर शत्रुघ्न को बुला भेजा। अयोध्या के द्वारों से यह जानकर कि राम और भरत प्रजा के साथ स्वर्गगमन की तैयारियाँ कर रहे हैं शत्रुघ्न ने अपने पुत्रों को राज्य सौंपकर अयोध्या के लिये प्रस्थान किया। राम ने शत्रुघ्न को अपने साथ जाने की अनुमति प्रदान की। इतने में सुग्रीव और विभीषण के नेतृत्व में वानर, ऋक्ष और राक्षस भी पहुँचे।

राम ने सबों को अपने साथ जाने को कहा किन्तु विभीषण, हनुमान्, जाम्बवान्, भैंस, द्विविद को कलियुग के अन्त तक जीवित रहने का आदेश दिया। दूसरे दिन प्रातः राम सबों के साथ सरयू के तीर पर पहुँचे; ब्रह्मा ने प्रकट होकर राम से निवेदन किया कि वह अपने भाइयों के साथ अपने विष्णुरूप में प्रवेश करे। राम ने ऐसा ही किया तथा ब्रह्मा ने विष्णु के अनुरोध को स्वीकार कर राम की प्रजा को 'संतानक' लोकों में स्थान दिलाया। सबों ने सरयू में अपना शरीर त्याग कर स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान किया (सर्ग १०७-११०)।

राम-कथा का उपर्युक्त निर्वहण रघुवंश, अध्यात्म रामायण आदि अधिकांश रामकथाओं में पाया जाता है। यहाँ पर केवल उन रचनावर्णों का उल्लेख होगा जिन में सीता के भूमि-प्रवेश की कथा में कोई विशेष परिवर्तन किया गया है।

(१) अनेक रचनावर्णों के अनुसार सीता बाल्मीकि-आजम्ब के निकट ही भूमि में विलीन हो गई थीं। भागवत पुराण (९, ११, १५-१६) की संक्षिप्त राम-कथा में

लिखा है कि पति द्वारा निर्वासित सीता ने अपने पुत्रों को वाल्मीकि के हाथों में सौंपकर राम के चरणों का ध्यान करती हुई भूमि में प्रवेश किया; राम यह समाचार सुनकर अत्यन्त दुःखी हुए। रामायण मसीही के अनुसार वाल्मीकि ने लव-कुश-युद्ध के पश्चात् राम को सचेत कर दिया। इसके बाद राम ने सीता की झोपड़ी के पास जाकर नम्रतापूर्वक क्षमायाचना की। वाल्मीकि का अनुरोध स्वीकार कर सीता झोपड़ी में से निकली। किन्तु यह सुनकर कि राम पुनः परीक्षा चाहते हैं, सीता वही शपथ खाकर भूमि में विलीन हो गई।<sup>१</sup>

(२) अन्य रचनायें सीता के भूमि-प्रवेश के प्रसंग में रावण के चित्र का उल्लेख करती हैं। गोविन्द रामायण (पृ० २३६) के अनुसार सीता ने किसी दिन स्त्रियों का अनुरोध मानकर एक दीवार पर रावण का चित्र बना दिया। राम को सीता पर संदेह हुआ जिससे सीता विरक्त हुई और अपने सतीत्व की शपथ खाकर पृथ्वी में लीन हो गई। उत्तर भारत की एक राम-कथा (पाश्चात्य वृत्तान्त नं० १३) के अनुसार राम ने सीता को निर्वासित करने के बाद उनको अपने गुणसपन्न एकमात्र पुत्र के कारण पुनः ग्रहण किया था। किन्तु सीता ने वाद में महल की स्त्रियों के कहने से रावण के १० सिरों और २० बाहुओं की चर्चा करते हुए दीवार पर उसका चित्र भी बनाया। राम ने चित्र देखकर सीता के सतीत्व पर संदेह किया और क्रुद्ध सीता ने शपथ खाकर भूमि में प्रवेश किया।

(३) भार्वात रामायण (७, ७३) में सीता के भूमि-प्रवेश की कथा इस प्रकार है। कुश-लव-युद्ध के बाद सीता अपने पुत्रों के साथ अयोध्या लौट कर राजमहल में रहने लगी थी। कैकेयी ने किसी दिन समस्त राजसभा के सामने सीता के सतीत्व पर संदेह प्रकट किया। इसपर सीता ने पृथ्वी देवी से प्रार्थना की और वह प्रकट होकर सीता को अपने साथ ले गई।

(४) भुईंआ माधवदास के बिचित्र रामायण में प्रस्तुत प्रसंग को एक अन्य रूप दिया गया है। सीता ने कुश और लव को भील मांगने भेज दिया। रास्ते में झगडा हुआ और दोनों अलग हो गए। लव ने अयोध्या जाकर राम के सामने रामायण का गान किया और वह चावल लेकर सीता के पास लौटा। बाद में दोनों ने जाकर राम के सामने सीता-त्याग तथा अपने जन्म की कथा सुनाई। इसपर राम ने सीता

१. लोकसाहित्य में भी इस प्रकार का वर्णन मिलता है। दे० रामनरेश त्रिपाठी, लोकगीतो में राम-कथा (मंथली शरणमुप्त, अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० ६६१); डा० सत्येन्द्र, ब्रजलोक साहित्य में राम-कथा (भारतीय साहित्य, आगरा, वर्ष २, अंक ३, पृ० ९४)।

को बुलाया; सीता तो चली आई किन्तु अपने सतीत्व की शपथ खाकर पाताल में प्रवेश कर गई।

(५) पउमचरियं के निर्वहण मे उत्तरकाण्ड के तीन सोपानों को एक नया रूप दिया गया है। सीता ने कुश-लव-युद्ध के पश्चात् अयोध्या लौटकर अग्नि-परीक्षा द्वारा अपने सतीत्व का प्रमाण दिया (अनु० ६०१)। तब राम ने अनुरोध किया कि वह उनके साथ अयोध्या मे निवास करें किन्तु सीता ने हाथ से अपने सिर के बाल काटकर जैन दीक्षा लेने का सकल्प प्रकट किया। इसपर राम मूर्च्छित होकर भूमि पर गिर पडे और सीता ने सर्वगुप्त नामक मुनि के पास जाकर दीक्षा ग्रहण कर ली। बाद मे राम चेतना पाकर सीता की खोज मे निकले किन्तु सकल-भूषण मुनि से यह आश्वासन सुनकर कि तुम किष्ठी दिन केवलज्ञान प्राप्त कर लोगे राम अयोध्या लौटे (पर्व १०२)। लक्ष्मण की मृत्यु की कथा इस प्रकार है। रत्नचूल और मणिचूल नामक देवताओं ने राम-लक्ष्मण के प्रेम की परीक्षा लेने के उद्देश्य से लक्ष्मण को राम की मृत्यु का मिथ्या समाचार सुना दिया जिससे तत्काल लक्ष्मण का देहान्त हुआ। राम के पुत्र लवण और अंकुश लक्ष्मण की मृत्यु के कारण विरक्त होकर तपस्या करने चले गए। लक्ष्मण की अर्धशतक के पश्चात् राम लवण के पुत्र अंगरुह को राज्य सौंपकर तपस्वी के रूप में भ्रमण करने लगे। राम किसी दिन कोटिशिला के स्थान पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने सीता द्वारा उत्पन्न प्रलोभनी को ठुकराया जिससे उनको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ। उन्होंने १७००० वर्ष तक जीवित रह कर अन्त में निर्वाण प्राप्त किया।'

ब्रह्म पुराण (अ० १५४) के अनुसार अगद और हनुमान् राम के अश्वमेध के अवसर पर अयोध्या पहुँचकर तथा सीता-त्याग का वृत्तान्त सुनकर गोदावरी की ओर प्रस्थान करते है। इसपर राम भी सीता का स्मरण करते हुए अयोध्यावासियों के साथ गोदावरी के तट पर तपस्या करने जाते हैं। राम की तपस्या का उल्लेख पउमचरियं का प्रभाव प्रतीत होता है।

### ग. अर्वाचीन सुखांत राम-कथा।

७५४. अधिकांश राम-कथाओं में सीतात्याग के साथ सीता के भूमिप्रवेश की कथा का भी वर्णन किया गया है, जिससे राम-कथा प्रायः दुःखांत रह गई है।

१. दे० पर्व ११०-११८। अन्तिम पर्व में इसका भी उल्लेख हुआ कि सीता आगे चलकर चक्रवर्ती राजा के रूप में उत्पन्न होंगी और अनेक जन्मों के बाद निर्वाण प्राप्त कर सकेंगी। लक्ष्मण तथा रावण भी कई बार जन्म लेकर निर्वाण प्राप्त करेंगे।

फिर भी बहुत सी राम-कथाओं को सीतात्याग के रहते हुए भी सुखांत बना दिया गया है।

भवभूति ने उत्तररामचरित के अंतिम सम्मेलन नामक अंक में राम-सीता के सम्मिलन का विस्तृत वर्णन किया है। इसके अनुसार वाल्मीकि ने राम तथा अयोध्यावासियों को अपने एक नाटक का अभिनय देखने का निमन्त्रण दिया था। उस नाटक का बर्णन-विषय त्याग के पश्चात् सीता का चरित तथा उनके दो पुत्रों का जन्म है। उस कथनात्मक कथा का अभिनय देखकर समस्त सभा सीता के सतीत्व पर विश्वास करती है और राम अपने पुत्रों तथा सीता के साथ अयोध्या लौट जाते हैं। क्षेमेद्रकृत बृहत्कथामंजरी में भी एक अत्यन्त सक्षिप्त रामचरित पाया जाता है जिसका निर्वहण सुखान्त है :

पुत्री कुशलवाभिल्यो उक्तौ बाल्मीकिनास्वर्ग्यं ।

तौ प्राप्य रामो दयितां विशुद्धाभानिनाय ताम् ॥

७५५. कुण्डमाला के अन्तिम अंक में सीता अपनी निर्दोषता की शपथ खाकर पृथ्वी से प्रार्थना करती है कि वह प्रकट होकर साक्ष्य देने की कृपा करे। इसपर पृथ्वी देवी प्रकट होती है और सीता के सतीत्व का साक्ष्य देकर लुप्त हो जाती हैं। तदुपरान्त सीता और पुत्रों के साथ राम अयोध्या लौटते हैं।

आनन्द रामायण के जन्म काण्ड (८, ६१-७३) में वाल्मीकीय उत्तरकांड के वृत्तान्त को किंचित बदलकर उसे सुखान्त बना दिया गया है। जब पृथ्वी देवी सीता के साथ भूमि में प्रवेश कर रही थी, राम ने असफल विनय करने के पश्चात् धनुष पर बाण रखकर समस्त सृष्टि का सहार करना प्रारम्भ किया। यह देखकर भयभीत पृथ्वी देवी ने सीता को लौटा दिया। पूर्णकाण्ड (सर्ग ४-६) में कथा का निर्वहण इस प्रकार है। सोमवशी राजाओं के आक्रमण तथा उनके साथ संधि के वर्णन के पश्चात् ब्रह्मा ने हस्तिनापुर में ही राम के पास आकर बैकुण्ठ पधारने का निवेदन किया और राम ने उत्तर दिया कि मैं कल ही सीता तथा अपने भाइयों के साथ बैकुण्ठ जाऊँगा। राम ने कुश को एक विशाल सेना के साथ राजधानी भोज दिया; मंधरा और धोवी को स्वर्ग जाने की अनुमति नहीं मिली, अतः उन दोनों को भी कुश के साथ लौट जाना पड़ा।<sup>१</sup> विभीषण, जाम्बवान् तथा हनुमान् को पृथ्वी पर रहने का आदेश मिला। दूसरे दिन राम विष्णु भगवान् के रूप

१. उन दोनों के विषय में इसका भी उल्लेख है कि वे कृष्णावतार के समय कंस के रजक और पूतना के रूप में प्रकट होंगे।



में परिणत हुए, सीता लक्ष्मी में, लक्ष्मण शेष भगवान् में, भरत और शत्रुघ्न शंख और चक्र में। वानर देवताओं के शरीर में प्रविष्ट हुए और अयोध्यावासी अपना शरीर त्याग कर दिव्य देहधारियों के रूप में स्वर्गगामी विमानों पर सुशोभित होने लगे।

७५६. कचात्तरित्सागर (९, १, ११२) जैमिनीय अक्षमेघ (अध्याय ३६), पद्यपुराण (पातालखण्ड, अध्याय ६७), रामचन्द्रिका (प्रकाश ३९), रामलिंगामृत (सर्ग १४), रामजातक, बह्यचक्र, सिंहली राम-कथा तथा एक पाश्चात्य वृत्तान्त (नं १७) में कुशलव के युद्ध के अवसर पर सीता राम से मिलकर उनके साथ अयोध्या लौट जाती हैं। इन राम-कथाओं में सीता के पुनः सतीत्व का प्रमाण देने का प्रायः उल्लेख नहीं किया गया है।

तिष्णती रामायण के अनुसार हनुमान् अन्य वानरों के साथ अयोध्या आने का निमन्त्रण पाकर राम से मिलते हैं। सीता-त्याग का वृत्तान्त सुनकर वह वर्णन करते हैं कि किस परिस्थिति में उन्होंने सीता को लंका में देखा था। हनुमान् का प्रणाम स्वीकार करके राम सीता को बुला भेजते हैं, जिसपर सीता अपने पुत्रों के साथ लौटती हैं।

सेरीराज में राम-सीता-सम्मिलन का इस प्रकार वर्णन किया गया है। सीता की सत्यक्रिया के फलस्वरूप किकबी देवी तथा सब जानवरों को बारह वर्ष तक गुँगा देखकर राम को बिस्वास हुआ कि सीता निर्दोष हैं (दे० अनु० ७२३)। अतः वह सीता को अयोध्या ले आने के लिए महरिसी कली के यहाँ चले आए। महरिसी कली ने राम का अभिप्राय जानकर राम-सीता के १४ दिवसीय विवाहोत्सव का आयोजन किया जिसके अन्त में सीता अपने पुत्रों के साथ राम की राजधानी लौटीं। वहाँ किकबी देवी ने क्षमा-याचना की जिससे उसका तथा सब जानवरों का गुँगापन समाप्त हो गया। अपने पुत्रों के विवाह के बाद राम ने किसी तपस्वी के पास 'अयोध्या पूरी नगर' नामक एक छोटी-सी नगरी बनवाकर अपनी राजधानी 'दूर्या पूरी नगर' लव को सौंप दिया और वह लक्ष्मण, सीता तथा हनुमान् के साथ अयोध्या में तपस्वी का जीवन बिताने लगे। वहाँ ४० वर्ष तक तपश्चर्या करने के पश्चात् राम सीता के साथ परलोक सिधारे। सेरतकाण्ड में भी सीता-त्याग के बाद राम-सीता-सम्मिलन का वर्णन किया गया है। अपने पुत्र बुतलव को उत्तराधिकारी बनाकर राम ने सीता, लक्ष्मण और विभीषण के साथ तपोमय जीवन अपनाया। अन्त में अनल नामक वानर ने अपने को अग्नि में बदल दिया; राम, सीता, लक्ष्मण, विभीषण, सुग्रीव, अंगद आदि उसमें प्रवेश कर जल गए। इस प्रकार राम और सीता पुनः स्वर्गवासी विष्णु और श्री बन गए।

७५७. तीन राम-कथाओं में सीता के भूमिप्रवेश के पश्चात् भी सीताचरित का चित्रण किया गया है। रघुनाथ महंत के अब्धुत रामायण में तत्संबंधी कथा

इस प्रकार है। पाताल-प्रवेश के बाद सीता को अपने पुत्रों को देखने की इच्छा हुई और उन्होंने वासुकि को उन्हें ले आने के लिए भेज दिया। वासुकि ब्राह्मण का बेश धारण कर तथा बालकों को अस्त्र-विद्या सिखलाने का बहाना देकर उनको सीता के पास ले गए। बाद में राम ने उन्हें वापस ले आने के लिए हनुमान् को भेज दिया। हनुमान् ने स्त्री का रूप धारण कर पाताल में प्रवेश किया और अपने को रत्नमञ्ज-रिणी नामक सीता की सखी कह कर सीता के पास आने का प्रयास किया। सीता ने नामों की आदेश दिया कि वह उस स्त्री को पकड़ ले जाएँ। तब हनुमान् ने वानर का रूप धारण कर नागो को परास्त कर दिया और सीता से मिलकर लव-कुश को राम के पास भेजने का निवेदन किया। सीता सहमत हुई; वह स्वयं सिंहासन पर विराजमान पृथ्वी में से राम के सामने प्रकट हुई और उन्होंने राम के हाथों लव-कुश को समर्पित कर दिया। सीता यह प्रतिज्ञा करती हुई अतर्हान हो गई कि मैं प्रतिदिन नित्यक्रिया के पश्चात् आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊँगी।

रामकेर्ति (सर्ग ७९-८०) तथा रामकियेन (अ० ४३-४५) का निर्वहण इस प्रकार है। कुश-लव-युद्ध के बाद सीता ने दोनों को राम के हाथ सौंपकर स्वयं अयोध्या लौटना अस्वीकार कर दिया। बाद में राम ने अपने पुत्रों को सीता के पास भेजकर उनसे लौटने का अनुरोध किया किन्तु सीता ने यह सन्देश भेज दिया कि मैं राम की अन्त्येष्टि के लिए ही अयोध्या जाऊँगी। तब राम ने हनुमान् द्वारा अपनी मृत्यु का मिथ्या समाचार सीता के पास भेज दिया। सीता लौटकर राम के मृत शरीर के पास विलाप करने लगी। राम एक परदे की ओट से कुछ देर तक उनका विलाप सुनकर सीता के पास आए और उनको सान्त्वना देने लगे। राम को जीवित देखकर सीता को क्रोध हुआ और वह राम की भत्सना करने के बाद नामराज विरुण की शरण लेकर पृथ्वी में प्रवेश कर गई। बाद में हनुमान् ने पाताल जा कर सीता से लौटने का अनुरोध किया किन्तु सीता ने दृढ़तापूर्वक उनका निवेदन अस्वीकार कर दिया। तब राम विभीषण<sup>१</sup> को बुलाकर उनके परामर्श के अनुसार एक वर्ष तक बन में राक्षसों का वध करने के बाद अयोध्या लौटे। उस समय देवताओं की सभा में इन्द्र ने राम के विरह का वर्णन किया और ईश्वर ने राम तथा सीता दोनों को कैलास आने का निर्मन्त्रण दिया। वहाँ राम ने नम्रतापूर्वक सीता से क्षमायाचना की तथा ईश्वर ने सीता से राम के पास लौटने का अनुरोध किया। अन्त में सीता ईश्वर का अनुरोध मानकर अपने पति के साथ अयोध्या लौट गई।

१. रामकेर्ति की अपूर्ण हस्तलिपियों में राम के विभीषण को बुला भजने के उल्लेख के बाद और कुछ समाप्ति नहीं मिलती।

## अध्याय २१

### उपसंहार

७५८ निबब के प्रथम तथा तृतीय भागो मे क्रमश प्राचीन तथा अर्वाचीन राम-कथा साहित्य का निरूपण किया गया है। द्वितीय भाग मे राम-कथा की उत्पत्ति तथा प्राग्भिव विकास की रूपरेखा अंकित की गई है और चतुर्थ भाग मे राम-कथा के विभिन्न प्रसंगो का क्रमिक विकास दिखलाया गया है। प्रथम और विशेष कर तृतीय भाग की सामग्री मे राम कथा की अद्वितीय व्यापकता प्रमाणित होती है। इस व्यापक प्रसार के साथ-साथ कथानक मे परिवर्द्धन तथा परिवर्तन भी होते रहे हैं जिसके फलस्वरूप विभिन्न राम कथाओ की उत्पत्ति हुई जो एक दूसरी से सर्वथा भिन्न प्रतीत होती हैं। किन्तु इन विभिन्न राम कथाओ की मौलिक एकता ही हमारे अध्ययन का सभबत सबसे महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष है। अतः प्रस्तुत उपसंहार मे पहले राम-कथा की व्यापकता और तदन्तर समस्त राम-कथाओ की मौलिक एकता पर विचार किया जाएगा। विभिन्न राम कथाओ मे जो मुख्य परिवर्तन तथा परिवर्द्धन किए गए हैं उनकी सामान्य विशेषताओ का तीमने परिच्छेद मे निरूपण किया जाएगा। अक्षरवाद तथा राम-भक्ति के अतिरिक्त राम-कथा के विकास पर कुछ अन्य बहिरंग तत्वो का भी प्रभाव पडा है इनका त्रीये परिच्छेद मे वर्णन किया जाएगा। अन्तिम परिच्छेद मे राम-कथा के समस्त विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जायगा।

### १—राम-कथा की व्यापकता

७५९ आदि-कवि वाल्मीकि के पूर्व की राम-कथा-विषयक गाथाओ तथा आन्व्यान-काव्य की लोकप्रियता तथा व्यापकता निर्धारित करना असम्भव है। बौद्ध तिपिटक में जो एकात्र राम-कथा संबंधी गाथाएँ मिलती हैं और संभवतः महाभारत के द्रोण तथा शांतिपर्व मे जो संक्षिप्त राम-कथा पाई जाती है वह उन प्राचीन गाथाओ पर समाश्रित है (दे० अनु० १३०, ४४ ४५)। इस सामग्री की अल्पता का ध्यान रखकर यह अनुमान दृढ हो जाता है कि जिस दिन वाल्मीकि ने इस प्राचीन गाथा-साहित्य को एक ही कथासूत्र मे पथित कर आबिरामायण की सृष्टि की थी उसी दिन से राम-कथा की दिग्विजय प्रारम्भ हुई। प्रचलित वाल्मीकि रामायण के बालकाण्ड तथा

उत्तरकाण्ड में इसका प्रमाण मिलता है कि काम्योपजीवी कुशीलव समस्त देश में जाकर चारों ओर आदिकाव्य का प्रचार करते थे; वाल्मीकि ने अपने शिष्यों को रामायण सिखलाकर उसे राजाओं, ऋषियों तथा जनसाधारण को सुनाने का आदेश दिया था।

इस प्रकार राम-कथा की लोकप्रियता तथा व्यापकता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। महाभारत के रामोपाख्यान में, जो स्पष्टतया आदि-रामायण पर निर्भर है, इस व्यापक प्रचार का निर्देश मिलता है। हरिवंश (विष्णुपर्व, अध्याय ९३) से पता चलता है कि रामायणके कथानक को लेकर प्राचीन काल में नाटकों का अभिनय भी हुआ करता था। ये नाटक अप्राप्य हैं किंतु हरिवंश के इस उद्धरण से राम-कथा की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई लोकप्रियता स्पष्ट है। रामायण की भावना भी धीरे-धीरे दुड़ होती गई (दे० अनु० १४३) और बौद्धों तथा जैनियों ने भी राम-कथा को अपनाया प्रारम्भ कर दिया। बौद्धों ने इसवी सन् के कई शताब्दियों पहले राम को बोधिसत्त्व मानकर रामकथा को अपने जातक-साहित्य में स्थान दिया था। आगे चलकर बौद्धों में राम-कथा की लोकप्रियता घटने लगी; अर्वाचीन बौद्ध साहित्य में राम-कथा का उल्लेख नहीं मिलता (दे० अनु० ५४)।

बौद्धों की अपेक्षा जैनियों ने बाद में राम-कथा को अपनाया, लेकिन जैन साहित्य में इसकी लोकप्रियता शताब्दियों तक बनी रही जिसके फलस्वरूप जैन कथा-ग्रंथों में एक अत्यन्त विस्तृत राम-कथा-साहित्य पाया जाता है। इसमें राम, लक्ष्मण तथा रावण केवल जैन-धर्मावलंबी ही नहीं माने जाते प्रत्युत उन्हें जैनियों के त्रिषष्टि महापुरुषों में भी स्थान दिया गया है (दे० अनु० ५५)। इस प्रकार राम-कथा भारतीय संस्कृति में इतने व्यापक रूप से फैल गई कि राम को उस समय के तीन प्रचलित धर्मों में एक निश्चित स्थान प्राप्त हुआ—ब्राह्मण धर्म में विष्णु के अवतार, बौद्ध धर्म में बोधिसत्त्व तथा जैन धर्म में आठवें बलदेव के रूप में। आगे चलकर संस्कृत धार्मिक साहित्य में, संस्कृत कलित साहित्य की प्रत्येक शाखा में, अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य में और भारत के निकटवर्ती देशों के साहित्य में भी राम-कथा एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकी है। इस अत्यन्त विस्तृत राम-कथा-साहित्य से राम-कथा की व्यापकता तथा लोकप्रियता का अनुमान किया जा सकता है। वास्तव में उस समय समस्त भारतीय संस्कृति इतनी राममय बन गई थी कि इन विभिन्न राम-कथाओं की बंशावली निर्धारित करना नितान्त असम्भव हो गया है। अतः निबंध के तृतीय भाग में राम-कथा-विषयक सामग्री का भाषा तथा साहित्य के विविध रूपों के अनुसार वर्गीकरण किया गया है।

७६०. संस्कृत धार्मिक साहित्य में राम-कथा का स्थान अपेक्षाकृत कम व्यापक है। कारण यह है कि एक तो वैदिक साहित्य के निर्माणकाल में राम-कथा प्रचलित नहीं थी। दूसरे, राम-भक्ति की उत्पत्ति के पूर्व जनसाधारण के धार्मिक जीवन में राम-कथा के लिए विशेष स्थान नहीं था। वैदिक साहित्य में राम-कथा का नितान्त अभाव है (दे० अनु० २०)। हरिवंश तथा प्राचीनतम महापुराणों में विष्णु के अन्य अवतारों के साथ-साथ राम का नाम भी लिया गया है और इसमें जो संक्षिप्त राम-कथा मिलती है वह आदिरामायण पर समाश्रित प्रतीत होती है (दे० अनु० १५१-१५६)। बाद के महापुराणों तथा उपपुराणों में राम-कथा विषयक सामग्री बढ़ने लगी, विशेष कर स्कंदपुराण, पद्मपुराण तथा महाभागवत (वेणी) पुराण में (दे० अनु० १६१, १६२, १६९)। राम-भक्ति के पल्लवित होने के पश्चात् असंख्य साम्प्रदायिक रामायण तथा संहिताएँ प्रचलित होने लगी जिनमें से अध्यात्म रामायण, अद्भुत रामायण, आनन्द रामायण, तत्त्वसंग्रहरामायण और विभिन्न कालनिर्णय रामायण विशेष रूप से उल्लेखनीय है (दे० अनु० १७५-१७९)।

७६१. संस्कृत ललित साहित्य के स्वर्ण-काल में प्रायः समस्त कवियों ने राम-कथा को लेकर अमर रचनाओं की सृष्टि की है। निम्नलिखित महाकाव्य तथा नाटक उल्लेखनीय हैं—रघुवंश, रावणवध, भट्टिकाव्य, महावीरचरित, उत्तराणचरित, आनकीहरण, कुम्भमाला, अनर्घराघव, बालरामायण, महानाटक। बाद में संस्कृत साहित्य बहुत कुछ निर्जीव कृत्रिमता की शृंखलाओं में बँध गया; किन्तु राम-कथा विषयक श्लेष-काव्य, विलोमकाव्य, चित्रकाव्य, शृंगारिक खंडकाव्य आदि इस बात का प्रमाण देते हैं कि राम-कथा की लोकप्रियता अक्षुण्ण रही। पंद्रहवीं शताब्दी के पश्चात् के बहुत से राम-कथा संबंधी महाकाव्यों तथा नाटकों का उल्लेख मिलता है किन्तु यह सामग्री अधिकांश अप्रकाशित है।

७६२. आधुनिक भारतीय भाषाओं के साहित्य में राम-कथा की व्यापकता अद्वितीय है। इन सब भाषाओं का सर्वप्रथम महाकाव्य प्रायः कोई रामायण है तथा बाद की बहुत सी रचनाओं की कथा-वस्तु भी राम-कथा से संबन्ध रखती है। इसके अतिरिक्त इन भाषाओं का सबसे लोकप्रिय काव्य-ग्रंथ प्रायः कोई रामायण ही है। निबंध के बारहवें अध्याय में इस विस्तृत साहित्य का किंचित् निरूपण किया गया है। यहाँ पर केवल मुख्य रचनाओं के नाम दिए जाते हैं—कंबनकृत तमिल रामायण (१२वीं श० ई०), तेलुगु द्विपथ रामायण (१३ वीं श० ई०), मलयालम रामचरितम् (१४वीं श० ई०), कन्नड़ तोरवे रामायण (१६ वीं श० ई०), अस्तमोया भाषाबकली रामायण (१४ वीं श० ई०), बंगाली कृत्तिबास रामायण

( १५ वीं श० ई० ), हिन्दी रामचरितमानस ( १६ वीं श० ई० ), उड़िया बलरामदास रामायण ( १६ वीं श० ई० ) और मराठी भावार्थ रामायण ( १६ वीं श० ई० ) ।

७६३. भारतीय साहित्य में राम-कथा की व्यापकता की अपेक्षा विदेश में उसकी लोकप्रियता एक प्रकार से और आश्चर्यजनक है । बौद्धों ने पहले-पहल राम-कथा का प्रचार विदेश में किया था । अनामकं जातकम् तथा दशरथ कथानम् का क्रमशः तीसरी तथा पांचवीं श० ई० में चीनी भाषा में अनुवाद हुआ था । इसके बाद राम-कथा की एक अन्य धारा उत्तर की ओर फैलने लगी थी । इसका प्रमाण नवीं श० ई० तिब्बती तथा खोतानी रामायणों में मिलता है, जिनकी कथावस्तु ब्राह्मण राम-कथा पर आधारित है, यद्यपि खोतानी रामायण पर बौद्ध प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई पड़ता है । दोनों रचनाएँ एक दूसरे में बहुत कुछ मिलती जुलती हैं और इनका गुणभद्रकृत उत्तरपुराण तथा काश्मीरी रामायण से सबंध अर्गदग्ध है ( दे० अनु० ३११-३१२ ) ।

हिंदेशिया तथा हिंदचीन में वाल्मीकि रामायण प्राचीन काल से ज्ञात है । चम्पा राज्य के सातवीं श० ई० के एक शिलालेख में वाल्मीकि द्वारा श्लोकोत्पत्ति का उल्लेख मिलता है ( दे० अनु० ३२३ ) तथा जावा के नवीं शताब्दी के एक शिव-मंदिर में रामायण की समस्त घटनाओं का वर्णन पाषाण-चित्र-लिपि में किया गया है ( दे० अनु० ३१७ ) । उस प्राचीन काल का कोई साहित्य सुरक्षित न रह सका किन्तु बाद में जावा तथा मलय में एक विस्तृत राम-कथा-साहित्य की रचना हुई है । इसमें रामकथा के दो भिन्न रूप मिलते हैं—( १ ) जावा के १०वीं श० ई० के रामायण ककविन का रूप जिसका प्रधान आधार भट्टिकाव्य है ( दे० अनु० ३१४ ) ; ( २ ) अर्वाचीन सेरी राम का रूप जो वाल्मीकीय कथा से बहुत भिन्न है ( दे० अनु० ३२० ) । फिर भी मेरीगम की आधिकारिक कथा-वस्तु में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन नहीं मिलता जो भाग्य की राम-कथाओं में विद्यमान न हो । राम-कथा का यह अर्वाचीन रूप हिंदेशिया में अधिक लोकप्रिय है और इसके आधार पर आधुनिकतम समय तक राम-कथा विषयक नाटकों का अभिनय होता रहा । सेरी राम हिंदचीन, श्याम तथा ब्रह्मदेश में प्रचलित राम-कथाओं का मुख्य आधार है । फिर भी काबोदिया के रामकेर्त तथा श्याम के रामकियेन की एक विशेषता यह है कि इन दोनों में वाल्मीकि रामायण तथा सेरीराम का अनेक स्थलों पर समन्वय करने का प्रयत्न किया गया है ( दे० अनु० ३२४-३२५ ) । १८ वीं शताब्दी ई० में ब्रह्मदेश के एक राजा ने श्याम की राजधानी अयुतिया को नष्ट कर बहुत से कैदियों को अपने साथ ले लिया था जो ब्रह्मदेश में श्याम के राम-नाटक

का अभिनय करने लगे। इस तरह श्याम की राम-कथा ब्रह्मदेश में फैल गई जिसके फलस्वरूप राम-नाटक बड़ी आज तक बहुत लोकप्रिय है (दे० अनु० ३२९)।

७६४. प्रस्तुत सिंहावलोकन की सामग्री से स्पष्ट है कि राम-कथा न केवल भारतीय वरन् एशियाई संस्कृति का भी एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व बन गई है। राम-कथा की इस व्यापकता तथा लोकप्रियता का श्रेय वाल्मीकिकृत रामायण को है। यह अगले परिच्छेद में और स्पष्ट होगा। अतः यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि विश्व-साहित्य के इतिहास में शायद ही किसी ऐसे कवि का प्रादुर्भाव हुआ हो जिनने भारत के आदि-कवि के समान इतने व्यापक रूप से परवर्ती साहित्य को प्रभावित किया हो।

## २—विभिन्न राम-कथाओं की मौलिक एकता

७६५ निबन्ध के द्वितीय भाग में राम-कथा के मूलस्रोत के विषय में विविध मतों का विश्लेषण किया गया है। राम-कथा का मूलरूप बौद्ध दशरथ-जातक के गद्य में मुरक्षित है, इस जातक में सीता-हरण तथा युद्ध-वर्णन का अभाव है अतः इन दोनों का आधार संभवतः होमर के काव्य में ढंढना चाहिए यह डॉ० वेबर का विचार है। श्री दिनेशचन्द्र सेन की धारणा है कि वाल्मीकि ने पहले पहले (दशरथ, रावण तथा हनुमान्-संबन्धी) तीन नितान्त स्वतंत्र वृत्तान्त मिलाकर राम-कथा की सृष्टि की है। डॉ० याकोबी के अनुसार रामायण की कथावस्तु के स्पष्टतया दो स्वतंत्र भाग हैं— प्रथम भाग अयोध्या से सम्बन्ध रखता है और ऐतिहासिक घटनाओं पर निर्भर है, द्वितीय भाग की आधिकारिक कथावस्तु (सीताहरण तथा रावणवध) का मूलरूप वैदिक साहित्य में विद्यमान है। सीता, राम तथा रावण का व्यक्तित्व क्रमशः वैदिक सीता (कृषि की अधिष्ठात्री देवी), इंद्र तथा वृत्रासुर से विकसित हुआ है। सीता-हरण का मूलस्रोत पणियों द्वारा गायो का अपहरण है तथा रावणवध वृत्रासुर-वध का विकसित रूप मात्र है।

उपर्युक्त मतों की सामान्य विशेषता यह है कि राम कथा का मूलस्रोत निर्धारित करने के लिए दो अथवा तीन स्वतंत्र वृत्तान्तों की कल्पना की जाती है। दशरथ-जातक के विषय में डॉ० वेबर का मत ही इस प्रवृत्ति का मूल कारण प्रतीत होता है। दशरथ-जातक की राम-कथा वाल्मीकि के शताब्दियों बाद सिंहलद्वीप में मौखिक परम्परा के आधार पर लिखी गई है (दे० ऊपर अनु० ६६)। इस बौद्ध वृत्तान्त के विश्लेषण से स्पष्ट है कि यह ब्राह्मण राम-कथा का विकृत रूप है (दे० अनु० ८०-८१)। राम-कथा के पूर्व रावण अथवा हनुमान् के विषय में स्वतंत्र आख्यान-काव्य

प्रचलित था, श्री विनेशचन्द्र सेन के इस मत के लिए कोई भी आधार नहीं मिलता (दे० अनु० १०२-१०३)। अंतरंग समीक्षा के आधार पर रामायण के (एक ऐतिहासिक तथा एक अलौकिक) दो स्वतंत्र भाग मानना आवश्यक है क्योंकि दूसरे भाग की घटनाओं का मूलरूप वैदिक साहित्य में सुरक्षित है इसके लिए कोई प्रमाण नहीं दिया जाता है (दे० अनु० ९६) और इस भाग की प्रधान कथावस्तु (स्त्रीहरण तथा इसके कारण युद्ध) असाधारण तथा अलौकिक नहीं कही जा सकती है (दे० अनु० १०४)। राम के निर्वासन की भाँति सीताहरण तथा रावणवध अर्थात् राम-कथा की समस्त आधिकारिक कथा-वस्तु का ऐतिहासिक आधार मानना अधिक स्वाभाविक प्रतीत होता है (दे० अनु० १०५)। अतः राम-कथा के दो अथवा तीन स्वतंत्र भागों की कल्पना का कही भी समीचीन आधार नहीं मिलता। इस तरह राम-कथा-विषयक आख्यान काव्य का एक ही मूल-स्रोत रह जाता है अर्थात् एक ऐतिहासिक घटना। इस प्राचीन आख्यान-काव्य के आधार पर वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है (दे० अनु० १३०)।

७६६. बौद्ध लिपिद्वक की एकाध याथाएँ और संभवतः महाभारत के द्रोण तथा शांतिपर्व की अत्यन्त सक्षिप्त राम-कथाएँ वाल्मीकि के पूर्व के राम-कथा-संबंधी आख्यान-काव्य पर निर्भर हैं। बौद्ध राम-कथाओं के केवल पाली अथवा चीनी भाषाओं में सुरक्षित रहने के कारण इनका राम-कथा के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सका। इनका मूलस्रोत ब्राह्मण राम-कथा ही है; किंतु एक तो वे अत्यन्त सक्षिप्त हैं, दूसरे ये गद्य में लिखी हैं, इससे इनपर वाल्मीकि रामायण की छाप स्पष्ट नहीं है। इनका आधार प्राचीन आख्यान-काव्य हो सकता है। शेष प्राचीन राम-कथा साहित्य रामायण पर समाश्रित है। महाभारत का रामोपाख्यान वाल्मीकि-कृत आदिरामायण पर निर्भर है (दे० अनु० ४८)। जैन राम-कथा में न केवल मिथ्या ब्राह्मण राम-कथा का उल्लेख है (दे० अनु० ५७) वरन् इनके कथानक के निरीक्षण से स्पष्ट है कि जैन कवि वाल्मीकि रामायण से भलीभाँति परिचित थे तथा उन्होंने इसकी कथावस्तु के कई प्रसंगों को जान बूझकर बदलकर एक नया रूप दिया है। उदाहरणार्थ—वज्रमुख की कन्या लंका-देवी का वृत्तान्त (दे० अनु० ५३६); नल द्वारा समुद्र, सेतु तथा सुबेल नामक राजाओं की पराजय (दे० अनु० ५७३); द्रोणमेष की कन्या विशल्या के लक्ष्मण की चिकित्सा करने का प्रसंग (दे० अनु० ५९६)। संस्कृत तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं के साहित्य पर वाल्मीकि के प्रभाव के विषय में किसी संदेह का अवकाश नहीं रह जाता। विदेशी राम-कथा-साहित्य का मूल-स्रोत भी वाल्मीकीय राम-कथा ही है किंतु इस पर



वाल्मीकि के बाद भारत में विकसित राम-कथा का सीधा प्रभाव पड़ा है अतः इन विदेशी राम-कथाओं में वाल्मीकि से पर्याप्त विभिन्नता पाई जाती है। इन रचनाओं के विश्लेषण से स्पष्ट हो गया है कि उनमें कोई ऐसा महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया है, जिसका सूत्रपात भारतीय साहित्य में विद्यमान न हो।

७६७. अत्यन्त विस्तृत भारतीय तथा विदेशी राम-कथा साहित्य में कही कही परस्पर विरोधी बातें मिलती हैं। इस विरोध का साम्प्रदायिक साहित्य में इस प्रकार समन्वय किया गया है कि विभिन्न कल्पों में कोटि-कोटि रामावतार प्रकट हुए हैं और इन असंख्य अवतारों के कारण राम-चरित में विभिन्नता आ गई है।

पुनः पुनः कल्पभेदाज्जाताः श्रीरामवस्य च ।

अवताराः कोटिशोऽत्र तेषु भेदः क्वचित्क्वचित् ॥ २९ ॥

(आनन्द रामायण, पूर्ण काण्ड, सर्ग ७)

इसके अतिरिक्त वाल्मीकि को इन विभिन्न रामकथाओं का रचयिता कहा गया है। मत्स्यपुराण (५३, १०), अबुधुत रामायण (सर्ग १), आनन्द रामायण (यात्रा काण्ड, सर्ग २; राज्य काण्ड, सर्ग १), पद्मपुराण (४, १, २४) आदि में एक वाल्मीकिकृत शतकोटिश्लोक रामायण का उल्लेख मिलता है, जिसके विभाजन से विभिन्न रामायणों की उत्पत्ति मानी गई है। इस प्रकार साम्प्रदायिक साहित्य में राम-कथाओं का मूलस्रोत एक ही शतकोटिश्लोक रामायण माना गया है<sup>१</sup> किंतु विभिन्न अवतारों के कारण राम-कथाओं में मौलिक भेद स्वीकार किया गया है। कई आधुनिक समालोचकों की भी यह धारणा है कि प्राचीन काल से अनेक सर्वथा स्वतंत्र राम-कथाएँ प्रचलित थीं। किंतु एक ओर इस प्रकार की राम-कथाओं के अस्तित्व के बहिरंग प्रमाण नहीं दिए जा सकते हैं; दूसरी ओर अंतरंग प्रमाण भी नहीं मिलते क्योंकि प्रस्तुत निबन्ध में जो अत्यन्त विस्तृत राम-कथा साहित्य की समस्त विभिन्नताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है उससे स्पष्ट है कि वाल्मीकिकृत रामायण के तत्त्वों को लेकर ही इनका धीरे-धीरे क्रमिक विकास हुआ है। अतः वाल्मीकिकृत रामायण ही समस्त प्रचलित राम-कथा-साहित्य का मूलस्रोत प्रमाणित होता है।

१. विष्णुपुराण ( ३, ४, १ ) में वैदिक मंत्रों की संख्या 'शतसहस्र' मानी गई है तथा मत्स्यपुराण ( ५३, १० ) में 'शतकोटिप्रविस्तर' पौराणिक साहित्य की चर्चा है।

७६८. रामायण के प्राचीन कालों ( अर्थात् अयोध्याकाण्ड से लेकर युद्धकाण्ड तक ) के कथानक पर आदिकवि की छाप इतनी स्पष्ट है तथा इनमें आधिकारिक कथावस्तु की गति इस प्रकार अबाध रूप से आगे बढ़ रही है कि बाद की राम-कथाओं में इन काण्डों के कथानक का अपेक्षाकृत कम विकास हुआ है। अर्वाचीन राम-कथा-साहित्य में वास्तविक सीता के स्थान पर एक माया-सीता का हरण वर्णित है, किन्तु इस महत्त्वपूर्ण परिवर्तन का कारण स्पष्टतया आदर्शवाद तथा भक्ति-भावना है। इसके अतिरिक्त माया-सीता के इस वृत्तान्त का क्रमिक विकास देखकर किसी स्वतन्त्र राम-कथा की कल्पना नितान्त निर्मूल सिद्ध हो जाती है ( दे० अनु० ५०१-५०८ )।

रामायण के प्रक्षिप्त काण्डों ( अर्थात् बालकाण्ड तथा उत्तरकाण्ड ) की कथावस्तु की अर्वाचीन राम-कथाओं में अवश्य बहुत कुछ विभिन्नता पाई जाती है, विशेषकर सीताजन्म, हनुमान् की जन्मकथा, सीतात्याग, कुशलव-चरित तथा राम-कथा के निर्वहण में। किन्तु इन प्रसंगों से सबब रखने वाली सामग्री के अध्ययन से यह धारणा दृढ़ हो जाती है कि बाल्मीकीय कथा से ही उनका क्रमिक विकास हुआ है।

७६९. सीताजन्म-विषयक अनेक प्रकार की संबंधी विभिन्न कथाएँ प्रचलित हो गई हैं। जनक, रावण और दशरथ, तीनों सीता के पिता माने गए हैं। विभिन्न राम-कथाओं की प्राचीनता का ध्यान न रखने के कारण अनेक विद्वानों ने इस समस्या को सुलझाने के लिए बहुत चिंत्य मत प्रस्तुत किए हैं। इनके अनुसार सीता पहले दशरथ की पुत्री, इसके बाद रावण की पुत्री मानी गई हैं, और अंत में अयोनिजासीता की कल्पना की गई है।

दशरथ-जातक के अनुसार सीता दशरथ के औरस पुत्री तथा राम-लक्ष्मण की सहोदरी बहन हैं। इस जातक की समस्या का पूरा विश्लेषण प्रस्तुत निबंध के छोटे अध्याय में किया गया है। इससे स्पष्ट हुआ है कि दशरथ-जातक की राम-कथा न केवल ब्राह्मण रामकथा का विकृत रूप है, बरन् उसका रचनाकाल बाल्मीकि के बहुत शताब्दियों बाद ही माना जाना चाहिए। सीता की जन्म-कथाओं का एक अन्य वर्ग मिलता है जिसमें सीता या तो रावणात्मजा मानी गई है या जनक को प्राप्त होने के पूर्व इनका किसी न किसी तरह लंका से संबंध स्थापित किया गया है। इन जन्म-कथाओं पर रामायण के उत्तरकाण्ड में वर्णित वेदवती के वृत्तान्त की गहरी छाप प्रायः स्पष्ट दिखलाई पड़ती है। इसके अतिरिक्त ये सभी जन्मकथाएँ रामायण में वर्णित भूमिजा सीता के अलौकिक जन्म-वृत्तान्त की स्वीकार करती हैं अतः यह सिद्ध होता है कि बाल्मीकि रामायण

की सामग्री से ही सीता की विभिन्न जन्म-कथाओं का क्रमिक विकास हुआ है ( दे० अनु० ४०५-४२८ ) ।

७७०. हनुमान् के जन्म के विषय में भी अनेक कथाएँ प्रचलित हैं जो सर्वथा भिन्न प्रणीत होती हैं, किन्तु इनका क्रमिक विकास अस्पष्ट नहीं है। हनुमान् की जन्म-कथा का प्राचीनतम तथा सबसे व्यापक रूप वाल्मीकि रामायण में सुरक्षित है; इसके अनुसार वह वायु तथा अजना के पुत्र है। सभ्यतः आठवीं शताब्दी और निश्चित रूप में दसवीं शताब्दी से लेकर हनुमान् शिव के अवतार माने जाने लगे। इस कथा की उत्पत्ति अत्यन्त स्वाभाविक प्रतीत होती है। रामायण की आधिकारिक कथा-वस्तु में शिव के लिए कोई स्थान नहीं था। राम-कथा की लोकप्रियता को देखकर शंभु इसकी अवहेलना न कर सके, अतः उन्होंने हनुमान् को शिव का अवतार मान लिया। हनुमान् की इस जन्मकथा का प्रारंभिक रूप रामायण के वृत्तान्त से सीधा सबंध रखता है, लेकिन आगे चलकर शिव से हनुमान् के उत्पन्न होने की अन्य कथाओं की भी कल्पना कर ली गई है।

इन समस्त जन्म-कथाओं में हनुमान् की माता अजना (अजनी) हैं और एकाग्र कथाओं को छोड़कर वायु उनकी उत्पत्ति में सहायक माने जाते हैं (दे० अनु० ६६३-६७९)। अतः हम निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि हनुमान् की कोई ऐसी जन्मकथा नहीं मिलती जो वाल्मीकि रामायण की कथा से अलग, स्वतंत्र रूप से विकसित हुई हो।

७७१. सीतात्याग की कथाओं में पर्याप्त विभिन्नता पाई जाती है, किन्तु इनके विकास की रूपरेखा इतनी स्पष्ट है कि इनके लिए स्वतंत्र राम-कथाओं का आश्रय लेना नितान्त अनावश्यक है। इस त्याग के तीन व्यापक कारण माने गए हैं। सामान्य लोकापवाद के बाद इसका एक विशेष उदाहरण (घाबी की कथा) प्रस्तुत किया गया है। बाब की अनेक राम-कथाओं में जनसाधारण के मनोविज्ञान के अनुकूल एक नई कथा की कल्पना कर ली गई है, अर्थात् सीता के पास रावण का चित्र। सीताहरण के अंतिम रूप में केवल एक माया-सीता का हरण होता है; इसी तरह सीता-त्याग की कथा की परिणति भी यह है कि सात्विकी सीता अदृश्य रूप से राम के व्रामांग में निवास करती है और केवल इनकी रजस्तमोमयी छाया का परित्याग होता है (दे० अनु० ७१४-७३४)।

७७२. कुश-लव-चरित तथा राम-कथा के निर्वहण में जो विभिन्नता पाई जाती है वह भी स्वाभाविक विकास का परिणाम मानी जा सकती है। 'कुश' शब्द के

कारण ही वाल्मीकि द्वारा कुशावास से कुश की सृष्टि की कथा उत्पन्न हुई होगी (दे० अनु० ७४३-७४५)। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाण्ड के अनुसार कुशा-लव वाल्मीकि के साथ राम के अश्वमेध की यज्ञभूमि में पहुँचकर रामायण का गान करते हैं। इनके वहाँ पहुँचने का कोई विशेष कारण नहीं बताया जा सकता है। बाद की राम-कथाओं में कुशा-लव की वीरता दिखलाने के उद्देश्य से रामाश्वमेध के पूर्व राम-सेना से इनके युद्ध का वर्णन किया गया है (दे० अनु० ७४६-७५१)।

वाल्मीकिकृत आदि रामायण राम के अभिषेक तथा उनके ऐश्वर्यशाली राज्य के वर्णन पर समाप्त होता था। इस सुखात कथावस्तु में आगे चल कर उत्तरकाण्ड जोड़ दिया गया जिससे प्रचलित वाल्मीकि रामायण दुःखात ही गया। इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि बाद की कई राम-कथाओं को पुनः सुखात बना देने का प्रयत्न किया गया है (दे० अनु० ७५२-७५७)।

अतः अत्यन्त विस्तृत राम-कथा-साहित्य में जो वैभिन्य आ गया है वह वाल्मीकिकृत रामायण के विकास तथा उसके कथानक पर विभिन्न प्रभावों का परिणाम माना जा सकता है। वाल्मीकि रामायण से स्वतंत्र, प्रचीन काल से जन-साधारण में प्रचलित, सर्वथा भिन्न कथाओं का अस्तित्व मानने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है।

### ३—प्रक्षिप्त सामग्री की सामान्य विशेषताएं

७७३. निबन्ध के द्वितीय भाग में प्रचलित वाल्मीकि रामायण के मुख्य प्रक्षेपों का उल्लेख तथा उनकी सामान्य विशेषताओं का वर्गीकरण किया गया है (दे० अनु० १३८)।

निम्नलिखित प्रक्षेप विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं—समस्त बालकाण्ड और उत्तरकाण्ड; रामावतार विषयक सामग्री; कनकमृग का वृत्तान्त, वानरों के प्रेषण के पूर्व का दिग्दर्शन; लंका-दहन; हनुमान् की हिमालय-यात्रा; सीता की अग्निपरीक्षा, पुष्पक में अयोध्या की वापसी यात्रा। प्रामाणिक काण्डों के मुख्य प्रक्षेपों का यथास्थान निरूपण किया गया है (अनु० ४३१, ४५७, ५११, ५३० और ५६१-५६६)। प्रत्येक काण्ड के विश्लेषण में वाल्मीकि रामायण के तीन पाठों की विभिन्नता का भी ध्यान रखा गया है क्योंकि इससे भी प्रक्षेपों का पता चलता है (अनु० ३३२, ४३०, ४५६, ५१०, ५२९ और ५५७-५६०)।

७७४. प्रबन्ध के चतुर्थ भाग में राम-कथा के विभिन्न प्रसंगों तथा उपकथाओं के विकास का निरूपण किया गया है। प्रचलित वाल्मीकि रामायण के दृष्टिकोण से

मुख्य परिवर्तन तथा परिवर्द्धन निम्नलिखित हैं। बालकाण्ड के कथानक में—  
 अहल्योद्धार का विकास (अनु० ३४४-३४८); अवतारवाद का विकास (अनु० ३५९-  
 ३६५); राम का बालचरित तथा उस पर कृष्ण की बाललीला का प्रभाव (अनु०-  
 ३७५-३८९); सीता-स्वयंवर का नवीन रूप जिसके अनुसार राम अन्य राजाओं की  
 और बाद में रावण की उपस्थिति में धनुष चढ़ाते हैं (अनु० ३९४-३९९); राम-  
 सीता के पूर्वानुराग का वर्णन (अनु० ४०३); सीता-जन्म विषयक कथाओं का बाहुल्य  
 (अनु० ४०५-४२८)। अयोध्याकाण्ड से युद्धकाण्ड तक के कथानक में—माया-  
 सीता का हरण (अनु० ५०१-५०८), ब्रालि-मुग्रीव की जन्म-कथा (अनु० ५१३-  
 ५१४), महीरावण का वृत्तान्त (अनु० ६१४)। उत्तरकाण्ड के कथानक में—  
 सीतास की कथा (अनु० ६२१-६२६), शम्बूक-वध (अनु० ६२८-६३२); सीता  
 द्वारा सहस्रस्कन्ध रावण का वध (अनु० ६३९); रावण-चरित (अनु० ६४२-६५५);  
 हनुमान् की जन्म-कथा तथा उनके चरित्र-चित्रण का विकास (अनु० ६५६-७१३);  
 सीतात्याग की कथा का क्रमिक विकास (अनु० ७१४-७३४), कुश-लव-चरित  
 (अनु० ७३५-७५१), राम-कथा के निर्वहण के विभिन्न रूप (अनु० ७५२-७५७)।

७७५. प्रचलित वाल्मीकि रामायण के प्रामाणिक काण्डों में जो प्रक्षेप किये  
 गये हैं, वे (कनकमृग की कथा, लंकादहन तथा अग्नि-परीक्षा को छोड़ कर) अधि-  
 काश पुनश्चित मात्र हैं। बाद की राम-कथाओं में भी माया-सीता-हरण को छोड़-  
 कर इस सामग्री में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं मिलता। इसका कारण यह है  
 कि प्रामाणिक काण्डों की सुव्यवस्थित कथावस्तु पर वाल्मीकि की प्रतिभा की  
 गहरी छाप थी। बालकाण्ड तथा उत्तरकाण्ड के कथानक का अत्यधिक विकास हुआ  
 है क्योंकि इन प्रसिद्ध काण्डों की प्रारंभ से ही कोई विशेष एकता नहीं थी।

७७६. अतिशयोक्ति का अभाव, संतुलन तथा स्वाभाविकता वाल्मीकिकृत  
 आचिरामायण के विशेष गुण है किन्तु नवीन सामग्री में कृत्रिमता, अद्भुत रस  
 की प्रधानता तथा अलौकिक घटनाओं का बाहुल्य पाया जाता है। उदाहरणार्थ  
 (१) प्रसिद्ध बालकाण्ड में दशरथ-यज्ञ; पौराणिक कथाएँ; भूमिजा सीता की  
 जन्म-कथा तथा परशुराम-सेजोत्पत्ति; (२) प्रामाणिक काण्डों में ये प्रक्षेप—काक

१. पात्रों की आयु-विषयक अतिशयोक्तियाँ प्रायः बालकाण्ड तथा उत्तरकाण्ड  
 में ही मिलती हैं। अयोध्याकाण्ड के दाक्षिणात्य पाठ में दशरथ को 'अनेक-  
 वर्षसाहस्र' (सर्ग २, २१) कहा गया है किन्तु अन्य पाठों के समानान्तर  
 स्थलों पर 'अनेकवर्षशतिक' (गौ० रा० २, १, २५) अथवा 'गतद्वय  
 सुमहान् कालो वृद्धश्चासि' (प० रा० २, ३, ४२) पाठ मिलता है।

जयन्त तथा कनक-मृग के वृत्तान्त; लंकादेवी से हनुमान् का युद्ध; लंकादहन; हनुमान् की हिमालय-यात्राएँ; राम के माया-शीर्ष का वृत्तान्त; सीता की अग्नि-परीक्षा; पुष्पक में अयोध्या की वापसी-यात्रा; (३) प्रक्षिप्त उत्तरकाण्ड में रावण की विजय-यात्राएँ; हनुमान् तथा वालि-सुग्रीव की जन्म-कथाएँ; शम्बूकवध; सीता का भूमि-प्रवेश। यहाँ तक कि उत्तरकाण्ड को अलौकिक कथाओं का सग्रह कहा जा सकता है।

परवर्ती राम-कथाओं में भी वही प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। उदाहरणार्थ—राम-जन्म के अवसर पर अलौकिक घटनाएँ (अनु० ३७५); राम का अपना दिव्य रूप प्रकट करना (अनु० ३७५, ३७६, ६९१, ३५१, ५१२, ५९८, ३८१), पच, रवत, अग्नि, फल अथवा वृक्ष से सीता की उत्पत्ति (अनु० ४१८-८२५), वालि-सुग्रीव (अनु० ५१३-५१४) तथा हनुमान् की विविध जन्म-कथाएँ (अनु० ६६८, ६७०, ६७४, ६७८); राक्षसों का राम-कथा के अन्य पात्रों का रूप धारण करना (४५२, ४९४, ४९६, ६०९); शूर्पणखा (अनु० ४९३) अथवा रावण (अनु० ४९७) का कनकमृग बन जाना; सरस्वती का हस्तक्षेप (अनु० ४५२, ४५४, ५९, ४८०, ६४९); मायासीता का हरण (अनु० ५०४-५०७) तथा अत्रास्तविक सीता-त्याग (अनु० ७३०-७३३); वाल्मीकि द्वारा कुश की सृष्टि (अनु० ७४३-७४५), सीता द्वारा सहस्रस्कंध रावण आदि का वध (अनु० ६३९-६४१); लक्ष्मण का १४ वर्ष तक उपवास और जागरण (अनु० ४६१); भानुरोज, भस्मलोचन आदि का युद्ध (अनु० ६१२-६१३), महीरावण का वृत्तान्त (अनु० ६१४), हनुमान् की वीरता विषयक कथाएँ (अनु० ६८४-६८७); हनुमान् के जन्मजात आभूषणों का वृत्तान्त (अनु० ५१२); जटायु (अनु० ४७०), रावण (अनु० ५९८) और इन्द्रजित् (अनु० ५९३) के मर्मस्थानों की कल्पना।<sup>१</sup>

७७७. अवतारवाद एव भक्ति के विकास के कारण राम-कथाओं में अलौकिकता की मात्रा बहुत ही बढ़ गई है। राम को मुक्तिदाता के रूप में चित्रित करने के उद्देश्य से विभिन्न पात्रों के उद्धार का अथवा उनके शाप की अवधि के अन्त का सम्बन्ध राम से (अथवा राम-दूतों से) स्थापित किया गया है। इस प्रकार निम्नलिखित पात्रों की मुक्ति का उल्लेख किया गया है—अहल्या (३४८), ब्रह्मराक्षस वात्या (३८०), मृगया में मारे पशु (३८३), गृह (३८४), ताटका (३८९), जटायु (४७१), निराध (४५८), कबध (४७३), मारीच (४९९), धाबरी (४७८), वालि (५२०)

१. यह सूची सुगमता से बढ़ाई जा सकती है। निम्नलिखित अनुच्छेदों की सामग्री में अलौकिकता अधिक स्पष्ट है—३३७, ३८१, ४४७, ४७५, ४७९, ५००, ५०२, ५७३-५७९, ५९४, ५९९, ६५०, ७२४।

स्वयंप्रभा (५२६), सम्पाति (५२७), शुक और गीतम (६२५), लंकादेवी (५३५), ग्राही (५८७), कुम्भकर्ण (५८९), इन्द्रजित और मुलोचना (५९४), रावण (५९९), रावण का पुत्र वीरवाहु तथा विभीषण का पुत्र तरणीसेन (अनु० २८५, ३), हनुमान् (६६६ टि०), शम्बूक (६२९, ६३०) ।

७७८. नवीन सामग्री की एक अन्य विशेषता यह है कि इसमें कथा-वस्तु की मुख्य घटनाओं का कारण-निर्देश करने का प्रयत्न किया गया है । रामावतार (अनु० ३६६-३७३), राम-वनवास (अनु० ४३३), सीताहरण (अनु० ४८९), रावण-त्रय (अनु० ४१०-४२५) और सीतात्याग (अनु० ७२५-७२९) के परोक्ष कारणों के विषय में विभिन्न शापो और वरों की कल्पना कर ली गई है । प्रायः सभी मुख्य पात्रों को वर अथवा शाप दिए जाने की कथाएँ मिलती ही हैं; उदाहरणार्थ विष्णु (३७०-३७३), राम (५२३, ७२६), लक्ष्मी (३७३), सीता (७२७-७२८, ४८९), दशरथ (४३३), कैकेयी (४४७-४४९, ४५१), रावण (६४९, ६५४), हनुमान् (६६६, ६९३-६९५), अहल्या (३४६), नल (५७५), सौदास (६२४) । पात्रों के पूर्वजन्म की कथाएँ भी कारण-निर्देश विषयक सामग्री के अन्तर्गत रखी जा सकती हैं; जैसे निम्नलिखित पात्रों के पूर्वजन्म से संबंध रखने वाले वृत्तान्तः राम-लक्ष्मण (अनु० ३६३), सीता (४१०), रावण-कुम्भकर्ण (६४८), दशरथ-कौशल्या (३६७-३६९), काक भृगुशर्डी (३८१), गृह (३८४), मन्थरा (४५४), शुक (६२५), अधमुनि (४३३), जटायु (४७२) तथा शबरी (४८१) ।

७७९. त्रिदश भर के कथा-साहित्य में पात्रों के नामों पर आधारित विविध वृत्तान्त मिलते हैं जिनमें नाम का कारण-निर्देश किया जाता है (एटिमोलोजिकल-लेजेंड्स) । नाम पहले ही प्रसिद्ध हो जाता है, कथा की कल्पना बाद में की जाती है । अतः वास्तव में कथा नाम का कारण नहीं होती, प्रत्युत नाम ही कथा का कारण होता है । सीता की विभिन्न जन्म-कथाओं में इस प्रवृत्ति के अनेक उदाहरण मिलते हैं । 'सीता' शब्द का अर्थ है लागल-पद्धति; भूमिजा सीता के अलौकिक जन्म की कथा इस अर्थ पर आधारित प्रतीत होती है (दे० अनु० ४०८) । 'सीता-फल' के आधार पर एक कथा की कल्पना की गई है जिसके अनुसार सीता एक फल से उत्पन्न हुई थी (दे० अनु० ४२३) । अवतारवाद के विकास में लक्ष्मी सीता के रूप में अवतरित मानी गई है, अतः पद्मा (लक्ष्मी का एक नाम) के कारण पद्मजा सीता की कथा उत्पन्न हुई है (दे० अनु० ४१९) । जैन साहित्य के अनुसार जनक की पुत्री में गुणरूपी धाम्य (गुणसस्य) का बाहुल्य था; अतः भूमि की समानता होने के कारण उसका नाम सीता रखा गया—भूमिसाम्येन सीता (पद्म-

चरित २६, १६६)। प्रचलित वाल्मीकि रामायण के प्रलेखों में निम्नलिखित नामों का कारण-निर्देश मिलता है—हनुमान् (अनु० ६६४), रावण (अनु० ६५३), राक्षस और यज्ञ (अनु० ६४४), मेघनाद और इन्द्रजित् (अनु० ६५०), कुश-लव (अनु० ७३९), बालि-सुग्रीव (अनु० ५१३), कल्माषपाद (अनु० ६२४), दण्ड (अनु० ४७२), सरमा (अनु० ५४६), अहल्या (७, ३०, २२), क्षुप (गोविन्द पाठ ७, ७६, ४२), निमि (७, ५७, १४), मिथि (६, ५७, १९), विश्रवा (७, २, ३१), वेदवती (७, १७, ९), सगर (१, ७०, ३७), सुर और असुर (१, ४५, ३६-३७)।

परवर्ती राम-कथा साहित्य में भी नामों की व्युत्पत्ति पर आधारित अनेक कथाएँ मिलती हैं; उदाहरणार्थ हनुमान् (अनु० ६६९ और ७११), वाल्मीकि (अनु० ३२), वेदवती (अनु० ४१०), कुश (अनु० ७४३) तथा पउमचरिय मे रावण (७, ९३), विराधित (९, २२) और भामंडल (२६, ८७) के नामों का कारण-निर्देश।

७८०. तीर्थों का माहात्म्य दिखलाने के उद्देश्य से उनका संबन्ध राम-कथा के प्रधान पात्रों के साथ स्थापित किया गया है। राम की तीर्थयात्राओं के अतिरिक्त (अनु० १७८, ३८५, ४३५, ६३७) राम-कथा-साहित्य में गोकर्ण, श्रीरंगम् (अनु० ६३५) आदि तीर्थों के विषय में अनेक वृत्तान्त मिलते हैं।

रावण ने अपने भाइयों के साथ गोकर्ण में तपस्या की थी (अनु० ६४९) तथा महादेव से आत्मलिंग प्राप्त कर उसे गोकर्ण में पृथ्वी पर रखकर खो दिया था (अनु० ६५०)।

वाल्मीकि रामायण के दक्षिणात्य पाठ के अनुसार राम ने विभीषण को उपदेश देकर कहा कि इक्ष्वाकुकुल के देवता जगन्नाथ की आराधना करो—आराध्य जगन्नाथमिक्ष्वाकुकुलर्षवतम् (७, १०८, २७)। परवर्ती साहित्य में माना गया है कि राम ने विभीषण को रंगनाथ की मूर्ति प्रदान की थी और विभीषण ने उसे श्रीरंगम में छोड़ दिया था<sup>१</sup>।

बाराहपुराण (अनु० १५७) तथा आनन्द रामायण (७, ६, ४२-४५) के अनुसार रावण ने इंद्र को पराजित कर उनके यहाँ से बाराहमूर्ति को ले जाकर उसे लंका में स्थापित किया था। विभीषण ने उसे राम को प्रदान किया तथा राम ने उसे मथुरा में स्थापित करने के लिए शत्रुघ्न को दे दिया। ब्रह्मपुराण (अनु० १५९) के अनुसार रावण ने अमरावती से वासुदेवप्रतिमा की चोरी की थी;

१. दे० पद्मपुराण (६, २७१, ६४), तत्त्वसंग्रह रामायण (७, १४), पाश्चात्य वृत्तान्त नं० २, रामलिंगामृत सर्ग १६।



राम ने अयोध्या ले जाकर अपने स्वर्गारोहण के पूर्व समुद्र को अर्पित किया था। कृष्णावतार के समय सागर ने उसे निकाल कर पुरुषोत्तमक्षेत्र में स्थापित किया था।

पद्मपुराण में बामन की मूर्ति के विषय में लिखा है कि राम ने उसे विभीषण से प्राप्त कर कान्यकुब्ज में स्थापित किया था (अनु० ६३५)।

७८१. आदि रामायण के ब्रह्मा वाल्मीकि ही हैं किन्तु प्रचलित बालकांड के प्रथम सर्ग के अनुसार नारद ने वाल्मीकि को राम-कथा का संक्षिप्त वर्णन सुनाया था और इसके आधार पर वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। बाद की राम-कथाएँ प्रायः संवाद के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। महात्मा बुद्ध जातकों के वक्ता हैं (अनु० ५१), रामोपाख्यान मार्कण्डेय द्वारा युधिष्ठिर को सुनाया गया था (अनु० ४७) और जैन पञ्चमचरिय भी सेणिय-गोयम-संवाद के रूप में दिया गया है (अनु० ६०)। इसी तरह साम्प्रदायिक संस्कृत रामायण तथा अन्य भारतीय भाषाओं के राम-काव्य प्रायः संवाद तथा उपसंवाद के रूप में मिलते हैं। उदाहरणार्थ—योगवासिष्ठ, अध्यात्म रामायण, अद्भुत रामायण, आनन्द रामायण, सत्योपाख्यान, 'हिन्दुत्व' में उल्लिखित रामायण (अनु० १९२-२१०), काश्मीरी रामायण, रामचरितमानस, रंगनाथ रामायण, बलरामदास रामायण।

## ४—विविध प्रभाव

### क. जैनी राम-कथाओं का प्रभाव

७८२. जैनी राम-कथाओं का आधार स्पष्टतया प्रचलित वाल्मीकि रामायण है किन्तु जैनी कवियों ने ब्राह्मण राम-कथा को अपनाकर उसमें बहुत से परिवर्तन किए हैं। इनमें से कई परिवर्तन आगे चलकर अन्य राम-कथाओं में भी आ गए हैं। पञ्चमचरिय के निम्नलिखित वृत्तान्त अर्वाचीन राम-कथाओं में व्यापक रूप से पाए जाते हैं।

- सीतास्वयंवर के अवसर पर अन्य राजाओं की उपस्थिति में राम द्वारा धनुर्भंग (अनु० ३९४)।
- कैकेयी का पश्चात्ताप (अनु० ४५२, ४५३)।
- लंका में विभीषण से हनुमान् की भेंट (अनु० ५३८)।
- लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा के पुत्र का वध (अनु० ६३१)।
- युद्ध के पूर्व राक्षस-राक्षसियों के संभोग-भृंगार का वर्णन (अनु० ६११)।
- राम-सेना से कुश-लव का युद्ध (अनु० ७४६)।

इसके अतिरिक्त **बसुदेवहिण्डि** प्राचीनतम रचना है जिसमें सीता रावण की पुत्री मानी गई हैं (अनु० ४१२) और उपदेशपद में पहले पहल सीतात्याग के वृत्तान्त में रावण के चित्र का उल्लेख किया गया है (अनु० ७२२) ।

### ख. शैव प्रभाव

७८३. वाल्मीकि रामायण के युद्धकाण्ड में राम द्वारा शिव-प्रतिष्ठा का जो निर्देश किया गया है वह केवल दक्षिणात्य पाठ में मिलता है और इसलिए प्रक्षिप्त माना जाता है। उत्तरकाण्ड में रावण के शिव-भक्त होने का उल्लेख है (अनु० ६५३) किन्तु यह उल्लेख भी प्रक्षिप्त प्रतीत होता है क्योंकि रावण तथा उसके भाइयों की तपस्या के अन्त में ब्रह्मा उनको वरदान प्रदान करते हैं (अनु० ६४९)। अतः अधिक संभव यह है कि रामायण में पहले शिव का कोई उल्लेख नहीं था; उत्तरकाण्ड के अंतिम रूप से राम-कथा के विकास पर शैव प्रभाव पड़ने लगा था। बाद में यह प्रभाव विशेष रूप से निम्नलिखित प्रसंगों में स्पष्ट दिखाई देने लगा—ब्रह्मा के स्थान पर शिव से ही रावणकी वर-प्राप्ति (अनु० ६४९); राम द्वारा सेतु पर शिव-प्रतिष्ठा (अनु० ५८०); शिव का हनुमान् के रूप में अवतरित होना (अनु० ६७०) ।

प्रायः समस्त परवर्ती राम-कथाओं में रावण की शिवभक्ति का उल्लेख किया गया है (अनु० ६५३ और ५८४)। बहुत से अन्य पात्रों का शैव होने अथवा शिवलिंग की पूजा करने का भी निर्देश किया गया है; उदाहरणार्थ—अहल्या (अनु० ३४८)। परशुराम (अनु० ३५०), दशरथ (अनु० २१५); विभीषण (रामायण ककविन, सर्ग १२) ।

७८४. सेतु पर शिवप्रतिष्ठा के अतिरिक्त राम की शिवभक्ति के विषय में पर्याप्त सामग्री मिलती है। शिवमहापुराण के अनुसार विष्णु ने शिव की आज्ञा से अवतार लिया था (अनु० १६७)। **पद्मपुराण** (पातालखंड, अ० ११३) तथा **सत्योपाख्यान** (उत्तरार्द्ध, अ० १९) में राम शिव से शिव-भक्ति का वरदान माँगते हैं। कई रचनाओं में राम की वर्षाकालीन शिवपूजा का वर्णन किया गया है (अनु० ५२३)। **पद्मपुराण** के अनुसार राम ने शिव की सहायता से समुद्र पार किया था (अनु० ५७३)। **रामलिगामृत** (सर्ग ६ और १०) में रावण का कहना है कि शिव की पूजा करने के फलस्वरूप राम विजय प्राप्त करने में समर्थ हुए। **आनन्द रामायण** तथा अनेक अन्य राम-कथाओं में राम तथा शिव की अभिन्नता का भी प्रतिपादन किया गया है (अनु० ३६२)। **रामलिगामृत** (सर्ग १०) के अनुसार राम ने युद्ध के पूर्व अपना शिवरूप प्रकट किया था तथा **सौरपुराण** (अध्याय ३०) में कहा गया है कि राम ने शंकर के प्रसाद से अपना विष्णुपद पुनः प्राप्त किया था।

## ग. शाक्त प्रभाव

७८५. शैव प्रभाव की अपेक्षा राम-कथा पर शाक्त प्रभाव कम प्राचीन और कम व्यापक है। इसके विषय में निम्नलिखित प्रसंग उल्लेखनीय हैं— (१) सीता-पार्वती की अभिन्नता (अनु० ३६५); (२) लकादेवी-वृत्तान्त का शाक्त रूप (अनु० ५३७); (३) सीता द्वारा रावण तथा अन्य राक्षसों का वध (अनु० ६३९-६४१); (४) राम की विजय के लिए देवी की पूजा।

महाभागवत पुराण (अध्याय ४४, ४६, ४७), बृहद्धर्म पुराण (अध्याय २२) तथा कालिका पुराण (अध्याय ६२) में राम की विजय के लिए ब्रह्मा द्वारा देवी की पूजा का वर्णन किया गया है। अन्यत्र राम द्वारा देवी-पूजा का उल्लेख मिलता है। देवी-भागवत पुराण में प्रलय-गिरि पर राम की वर्षाकालीन देवी-पूजा का वर्णन पाया जाता है (अनु० ५२३)। महाभागवत पुराण (अध्याय ३९, ४४, ४७ और ४८) में युद्ध के पूर्व राम द्वारा देवी की पूजा का उल्लेख है। कृत्तिवास रामायण (६, ९२-१०२) में राम की देवी-पूजा का विस्तृत वर्णन किया गया है। इस पूजा के लिए १०८ नील कमलों की आवश्यकता थी, देवी ने इनमें से एक को चुरा लिया था। इसके स्थान पर राम अपनी आँख समर्पित करने के लिए उद्यत हुए जिससे देवी ने प्रसन्न होकर राम को विजय का आश्वासन दिया।<sup>१</sup> रसिक सम्प्रदाय (अनु० १५०) के राम-साहित्य पर भी शाक्त प्रभाव पड़ा है।

## घ. कृष्ण-कथा का प्रभाव

७८६. राम-कथा के विकास में दो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तत्त्व (अवतारवाद और भक्ति) आ गए जिनके कारण कथा का समस्त वातावरण धीरे-धीरे बदलता गया। कृष्णावतार तथा कृष्ण-भक्ति के अनुकरण पर ही इन दोनों तत्त्वों का राम-कथा में प्रवेश हुआ है।

अवतारवाद का सूत्रपात वैदिक साहित्य में हुआ था, किन्तु उस साहित्य में न तो अवतारवाद में विष्णु का प्राधान्य है और न अवतारों की कोई विशेष पूजा का निर्देश है। कृष्णावतार के कारण अवतारवाद की भावना विष्णु में ही केंद्रीभूत होने लगी तथा जनता की धार्मिक चेतना में इसका महत्त्व बढ़ने लगा। बाद में राम भी कृष्ण की भाँति विष्णु के अवतार माने जाने लगे (अनु० १४३)। अवतारवाद की तरह

१. दे० निरालाकृत 'राम की शक्तिपूजा'। रावण को भी इस प्रसंग का नयक बना दिया गया है (अनु० ६४९)। मेघनादवध (सर्ग ५) में लक्ष्मण द्वारा देवी-पूजा का वर्णन है।

भक्तिमार्ग कृष्ण को लेकर विकसित तथा पल्लवित हुआ। बहुत बाद में रामभक्ति का आविर्भाव हुआ और जिन रचनाओं में इसका प्रारंभिक शास्त्रीय प्रतिपादन किया गया वे प्रायः कृष्ण-भक्ति-विषयक भक्तिशास्त्रों, संहिताओं तथा उपनिषदों के आधार पर लिखी गई हैं (अनु० १४६-१४८)। कृष्ण-भक्ति-सम्प्रदायों के अनुकरण पर ही रसिक सम्प्रदाय की उत्पत्ति हुई है (अनु० १५०)।

७८७. कृष्ण-भक्ति के इस सामान्य प्रभाव के अतिरिक्त रामायण की कथावस्तु पर कृष्णचरित का अनेक प्रकार से प्रत्यक्ष प्रभाव भी पड़ा है। राम की बाललीला के वर्णन में बहुत से कवियों ने कृष्ण की बाललीला का मुस्पष्ट अनुकरण किया है (अनु० ३७५, ३७६, ३७९, ३८०)। राम के चिह्नार के चित्रण पर भी कृष्ण-चरित का प्रभाव पड़ा है (अनु० ३५३ और ६३८)। कुछ रचनाओं में कृष्णलीला का अनुकरण और बढ़ा दिया गया है और राम की रासलीला तक का वर्णन किया गया है (अनु० १५०, ३८७ और ४४०)। उडिया नृसिंहपुराण (१८ वी श० ई०) में भी विवाह के पूर्व सरयू-तट पर राम की रासलीला का वर्णन किया गया है (दे० नृनीय रत्नाकर)। राम के मुरलीधर-रूप की कथा (अनु० ५८६) और अयोध्या में आगमन के अवसर पर राम के बहुत से रूप धारण करने का वृत्तान्त (अनु० ६१०) भी कृष्ण-कथा का प्रभाव माना जा सकता है।

राम-कथा के बहुत से पात्रों का संबंध कृष्णचरित के पात्रों से स्थापित किया गया है। राम तथा कृष्ण की अभिन्नता के अतिरिक्त सीता-सुभद्रा तथा लक्ष्मण-बलभद्र की अभिन्नता का भी प्रतिपादन किया गया है (अनु० ३६२)। सीता के विषय में माना गया है कि वह कृष्णावतार में कृष्ण की पत्नी (हस्तिमणी) बनकर दस पुत्र तथा एक पुत्री उत्पन्न करेगी (दे० आनन्द रामायण ७, १९, १३८)। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित पात्रों की अभिन्नता का उल्लेख मिलता है—मथरा और पूतना (अनु० ७५५), शूर्पणखा और कुब्जा (अनु० ४६९), वालि और भील (अनु० ५२०), अयोध्या का धोबी तथा कस का धोबी (अनु० ७५५), जाम्बवान् और जाम्बवती का पिता (सत्त्वसंग्रह रामायण ७, १५), ज्ञानर और गोष (आनन्द रामायण ९, ५, ४२)। अनेक रचनाओं में इसका उल्लेख मिलता है कि राम ने दण्डकारण्यवासी कामानुर ऋषियों को आश्वासन दिया था कि वे कृष्णावतार के समय गोपियाँ बनेंगे; उदाहरणार्थ पद्मपुराण का उत्तरखंड (२७२, १६६-१६७), बलरामदास रामायण, गर्गसंहिता (गोलोक खंड, अध्याय ४ और माधुर्य खंड, अध्याय २), कृष्णोपनिषद् (रामचद्रस्य कृष्णावतार प्रतिज्ञा), श्रीहरिभक्तिरसामृतसिंधु (पूर्वभाग २, ८४)। गर्ग संहिता (गोलोक खंड, अध्याय ४ तथा माधुर्य खंड, अध्याय

३-७) के अनुसार राम ने मिथिला, कोसल देश तथा अयोध्या की स्त्रियों को गोपियाँ अथवा कृष्ण की पत्नियाँ बन जाने का आश्वासन दिया था। सत्योपाख्यान (पूर्वाह्न अध्याय ३०) में रत्नालका तथा उसके पति को अगले जन्म में यशोदा और नन्द के रूप में जन्म लेने का वरदान मिलता है। उड़ीसा की राम-कथाओं में नन्द के त्रिषय में माना जाता है कि वह अपने पूर्वजन्म में दशरथ (सारलादास कृत महाभारत, वनपर्व) अथवा एक गोपाल था जिसने सीता की खोज करने वाले भूखे राम-लक्ष्मण को दूध देने से यह वरदान प्राप्त किया था कि राम-लक्ष्मण उसके अगले जन्म में उसके पुत्र बन जाएँगे। आनन्द रामायण के अनुसार राम ने नागकन्या, गुणवती विधवा, पिगला वेश्या तथा सुगुणा दासी को आश्वासन दिया कि वे क्रमशः जाम्बवती (अनु० ६१४), सत्यभामा (४, ८, ४३), कुब्जा (४, ८, ५७), तथा राधा (७, २१, ३८) के रूप में प्रकट होंगी। इसके अतिरिक्त राम ने बहुत सी अन्य स्त्रियों को भी गोपी अथवा कृष्णपत्नी बन जाने का वरदान दिया था; उदाहरणार्थ—देवकन्याएँ (९, ७, ४८), १०० कामपीडित स्त्रियाँ (७, ४, ४५-४७), चार ब्राह्मण कन्याएँ (राज्यकाण्ड, सर्ग ११), १६००० सत्रिय और वैश्य कन्याएँ (राज्यकाण्ड, सर्ग १२), यमुना (७, १२, ११७)। आनन्द रामायण (४, ७, २१) में यह भी माना गया है कि एकपत्नीव्रत का पालन करने के कारण कृष्णावतार में राम की बहुत सी पत्नियाँ होंगी तथा इसका भी उल्लेख किया गया है कि ब्राह्मणों को सोलह (४, ७, २६) अथवा एक सौ (५, ४, ५१) सुवर्ण मूर्तियाँ प्रदान करने के पुरस्कार-स्वरूप राम को कृष्णावतार में १६००० पत्नियाँ मिलेंगी। गर्ग संहिता (माघुर्यखण्ड, अध्याय ८) के अनुसार रामाश्वमेध की स्वर्ण सीताएँ भी गोपियों के रूप में प्रकट हुईं।

## ५—विकास का सिंहावलोकन

७८८. इक्ष्वाकु-वंश के सूतो द्वारा जिस राम-कथा-संबन्धी आख्यान-काव्य की सृष्टि प्रारम्भ हुई थी, वह चौथी शताब्दी ई० पू० के अत तक पर्याप्त मात्रा में प्रचलित हो चुका था (दे० अनु० १३१)। तब वाल्मीकि ने उस स्फुट आख्यान-काव्य के आधार पर राम-कथा त्रिषयक एक विस्तृत प्रबन्ध-काव्य की रचना की। इस वाल्मीकिकृत आखिरामायण में अयोध्याकाण्ड से लेकर युद्धकाण्ड तक की कथावस्तु

१. दे० बलरामदास का आरण्यकाण्ड। सारलादास के महाभारत (सभापर्व और वनपर्व) में इस कथा का पूर्वरूप सुरक्षित है—एक नेत्रहीन गोपाल ने बनवासी राम को दूध पिलाया और पुरस्कार-स्वरूप राम ने उसे बंगा कर दिया। सारलादास ने दोनों कथाओं के अन्य पात्रों को भी अभिन्न माना है (दे० अनु० २९२)।

का वर्णन था (दे० अनु० ११५-११६); बौद्ध अभिषर्ममहाविभाषा के अनुसार इसका विस्तार केवल १२००० श्लोक था (दे० अनु० ७९)। आजकल बाल्मीकि रामायण के तीन पाठ प्रचलित हैं—शाक्षिणात्य, गौडीय तथा पश्चिमोत्तरीय। यद्यपि इन तीनों पाठों में कथानक के दृष्टिकोण से बहुत अंतर नहीं है, किन्तु जो श्लोक तीनों पाठों में पाए जाते हैं वे एक तिहाई से भी कम हैं; इसके अतिरिक्त इनका पाठ भी पूर्णतया एक नहीं है (दे० अनु० २२-२६)। इसका कारण यह है कि प्रारंभ में बाल्मीकिकृत आदिरामायण का कोई प्रामाणिक लिखित रूप नहीं मिलता था। वह कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से ही प्रचलित था जिससे उमका पाठ स्थिर न रह सका। काव्योपजीवी कुशीलव अपने श्रोताओं की रुचि का ध्यान रखकर लोकप्रिय अंश बढ़ाते रहे। इस प्रकार आदिरामायण का कलेवर बीच के प्रक्षेपों के कारण बढ़ने लगा। इसके अतिरिक्त, राम कौन थे? सीता कौन थी? इनका जन्म तथा विवाह कब और किस प्रकार हुआ? रावण कौन था? रावण-वध के बाद राम-सीता का जीवन कैसे बीता? उन्हें कितनी सतान उत्पन्न हुई? आदि, ये अत्यन्त स्वाभाविक प्रश्न थे। बालकांड तथा उत्तरकांड के प्रारंभिक रूपों की रचना जनता की उपर्युक्त जिज्ञासा को सन्तुष्ट करने के लिए ही हुई। अतः विकास का प्रथम सीपान यह है कि राम-कथा की कथावस्तु रामायण (राम + अयन अर्थात् राम का पर्यटन) न रहकर पूर्ण राम-चरित के रूप में विकसित हुई। उस समय तक रामायण नर-काव्य ही रहा और राम आदर्श अत्रिय के रूप में भारतीय जन-साधारण के सामने प्रस्तुत किए गए थे। इसका आभास भगवद्गीता के उस स्थल से मिलता है जहाँ कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि दास्य धारण करने वालों में मैं राम हूँ—रामः दास्यभूतामहम् (दे० १०, ३१)।

७८९. भागवतो के इष्टदेव वासुदेव कृष्ण संभवतः तीसरी शताब्दी ई० पू० से विष्णु के अवतार माने जाने लगे थे, जिससे अवतारवाद की भावना को बहुत प्रोत्साहन मिला था (दे० अनु० १४२)। दूसरी ओर रामायण की लोकप्रियता के साथ-साथ राम का महत्त्व भी बढ़ने लगा था; उनकी वीरता के वर्णन में अलीकिकता भी आ गई थी। इस प्रवृत्ति की स्वाभाविक परिणति यह हुई कि कृष्ण की भक्ति राम भी संभवतः पहली शताब्दी ई० पू० से विष्णु के अवतार के रूप में स्वीकृत होने लगे (दे० अनु० १४३)। फलस्वरूप प्रचलित बाल्मीकि रामायण के कई स्थलों पर रामावतार विषयक प्रक्षिप्त सामग्री का समावेश हो गया है। इसके अतिरिक्त बालकांड तथा उत्तरकांड में बहुत सी पौराणिक कथाएँ भी जोड़ दी गई हैं जिनमें ब्राह्मणों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है, विशेषकर ऋष्यभृंग तथा विश्वामित्र के

वृत्तान्तों और शम्भूक-वध, रामाश्वमेध आदि प्रसंगों में (दे० अनु० १३४) । किंतु उस समय का सबसे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ कि राम विष्णु के अवतार माने जाने लगे । अतः राम-कथा के विकास का द्वितीय सोपान है—राम-कथा का आदर्श क्षत्रिय राम का चरित्र मात्र न रहकर विष्णु की अवतार-लीला के रूप में परिणत हो जाना । बौद्ध तथा जैन साहित्य को छोड़कर राम-कथा का यह स्वरूप सर्वत्र स्वीकृत हुआ ।

फिर भी ध्यान देने योग्य बात यह है कि राम-कथा के विकास के इस द्वितीय सोपान में जनसाधारण की धार्मिक चेतना में न तो राम के लिए कोई विशेष स्थान था और न राम के प्रति भक्ति का आविर्भाव हुआ था । राम की भाँति उनके भाई भी विष्णु के अशावतार माने जाते थे, यद्यपि प्रधान नायक होने के कारण राम को अधिक महत्त्व दिया जाता था । अतः एक ओर उस समय के धार्मिक साहित्य में राम-कथा का स्थान अपेक्षाकृत गौण है, दूसरी ओर तत्कालीन ललित साहित्य में इसकी व्यापकता तथा लोकप्रियता अद्वितीय है (दे० अनु० ७६०-७६१) ।

अवतारवाद के कारण कथावस्तु में अलौकिकता की मात्रा अवश्य धीरे-धीरे बढ़ने लगी, फिर भी राम-कथा का मुख्य दृष्टिकोण धार्मिक न बनकर शताब्दियों तक साहित्यिक ही रहा । यह संस्कृत ललित साहित्य के स्वर्ण-काल के महाकाव्यों तथा नाटकों से स्पष्ट है । राम-भक्ति के आविर्भाव के पूर्व राम-कथा का यह साहित्यिक रूप विदेश में फैल गया और उस पर बाद में रामभक्ति का प्रभाव नहीं पड़ा, इसीलिए समस्त विदेशी राम-कथा-साहित्य में रामभक्ति का प्रायः अभाव है ।

प्रचलित वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में राम-सीता के विहार का उल्लेख किया गया है । आगे चलकर इस प्रकार के शृंगारिक वर्णनों को अधिक स्थान दिया गया है (दे० अनु० ६३८) । वास्तव में शृंगार-रस की बढ़ती हुई व्यापकता विकास के द्वितीय सोपान के राम-कथा-साहित्य की विशेषता है । तत्संबंधी निम्न-लिखित प्रसंग अपेक्षाकृत अधिक व्यापक है—युद्ध के पूर्व राक्षसों की केलि (अनु० ६११); राम-सीता का पूर्वानुराग (अनु० ४०३) तथा सभोगवर्णन (अनु० ३५३) । जानकीहरण, कंदन-रामायण तथा ऋक कवि कृत जानकीपरिणय में दशरथ की क्रीडाओं का भी विस्तृत वर्णन किया गया है और बालरामायण की कथावस्तु का मुख्य दृष्टिकोण रावण का विरह है । इसके अतिरिक्त गीतगोविन्द तथा मेषदूत के अनुकरण पर भी राम-कथा-विषयक शृंगारिक खंडकाव्य की रचना की गई है (दे० अनु० २४९-२५०) ।

७९०. भारतीय भक्तिमार्ग का बीजारोपण वैदिक साहित्य में ही हो चुका था किन्तु अष्टशताब्दियों के पश्चात् ही भागवत धर्म में पल्लवित हो सका । भागवतों के इष्टदेव वासुदेव कृष्ण विष्णु के अवतार माने जाने लगे जिसके फलस्वरूप भवित-भावना इन्हीं विष्णु-वासुदेव-कृष्ण में केंद्रीभूत होकर उत्तरोत्तर विकसित होने लगी ।

बाद में राम भी विष्णु के अवतार माने गए, किंतु अवतार के रूप में राम के स्वीकृत हो जाने के शताब्दियों बाद रामभक्ति का आविर्भाव हुआ। प्रौढ़ रामभक्ति के प्राचीनतम उद्गारों के दर्शन तमिल आलवारों की रचनाओं में मिलते हैं। इस के बाद १२ वीं शताब्दी में रामानुज-सम्प्रदाय के अतर्गत राम-भक्ति तथा रामोपासना-विषयक सहिताओं तथा उपनिषदों की रचना प्रारंभ हुई। आगे चलकर रामानन्द तथा रामानन्द सम्प्रदाय द्वारा राम-भक्ति जनसाधारण की धार्मिक चेतना का केंद्र बन गई। उस समय बहुत से साम्प्रदायिक रामायणों की रचना हुई, जिनमें अध्यात्म रामायण निर्विवाद रूप से सबसे महत्त्वपूर्ण है (दे० अनु० १४६-१४९)। १४ वीं शताब्दी से समस्त भारतीय राम-कथा-साहित्य भक्ति-भाव से ओत-प्रोत होता गया और इसका समस्त वातावरण बदलता गया। राम विष्णु के अंशावतार न रह कर परब्रह्म के पूर्णावतार माने जाने लगे, रामायण की आधिकारिक कथा-वस्तु अर्थात् सीताहरण तथा रावण-वध को एक नया रूप दिया गया और कथानक के अन्य गौण प्रसंगों का दृष्टिकोण भी बदलने लगा।

वाल्मीकि रामायण, हरिवंश, विष्णुपुराण, वायुपुराण आदि के अनुसार राम भरत आदि चारों भाई विष्णु के एक-एक चतुर्थींश से ममन्त्रित हैं। भक्ति-भाव के पल्लवित होने के पश्चात् राम परब्रह्म के पूर्णावतार माने जाने लगे और लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न क्रमशः शेष, शश्व तथा सुदर्शन के अवतार (दे० अनु० ३६१)। प्राचीन महापुराणों में सीता तथा लक्ष्मी की अभिन्नता का निर्देश नहीं मिलता है। आगे चल कर लक्ष्मी सीता के रूप में अवतरित मानी गई है, किंतु राम-भक्ति के प्रादुर्भाव के पश्चात् सीता परमशक्ति अथवा मूलप्रकृति के रूप में स्वीकृत होने लगीं (अनु० ३६४)।

भक्ति-भाव के कारण राम-कथा की आधिकारिक कथावस्तु में भी महत्त्वपूर्ण परिवर्तन होने लगे। सीता राक्षस रावण के वश हुई थी, यह विचार भक्तों को असह्य और असंभव सा प्रतीत होने लगा। अतः उपास्य देवी की मर्यादा की रक्षा के लिए भक्ति-भाव ने सीता की एक छाया मात्र का हरण स्वीकार किया (दे० अनु० ५०४-५०८)। इसी तरह सीतात्याग को भी अवास्तविक बना दिया गया है (दे० अनु०-७३०-७३३)। मूल राम-कथा में रावण ने कामवासना से प्रेरित होकर सीता का हरण किया था और दण्डस्वरूप राम द्वारा पराजित होकर मारा गया था। राम-कथा के विकास के द्वितीय सोपान में भी दुष्ट राक्षस रावण का नाश ही रामावतार का मुख्य उद्देश्य है। भक्ति के पल्लवित होने के साथ ऐसी भावना भी उत्पन्न हुई कि कृष्ण अथवा राम का स्मरण मात्र मुक्ति प्रदान करता है चाहे वह वैराभाव से ही क्यों न हो। इसके अतिरिक्त जो कोई कृष्ण अथवा राम द्वारा मारा जाता है वह परम पद प्राप्त



कर लेता है। अतः यह माना गया कि रावण ने मोक्ष पाने के उद्देश्य से सीता का अपहरण किया था तथा राम के हाथ से मर कर सामुज्य मुक्ति प्राप्त की थी (दे० अनु० ४८८)। इसी तरह बहुत से अन्य पात्रों की मुक्ति का उल्लेख किया गया है (दे० अनु० ७७७)।

ऊपर इसका उल्लेख हुआ है कि राम-कथा का मुख्य दृष्टिकोण शताब्दियों तक साहित्यिक ही रहा था। प्रस्तुत निरूपण से स्पष्ट है कि १४ वीं शताब्दी से इसका समस्त वातावरण धार्मिक हो गया है और राम-भक्ति के प्रादुर्भाव के बाद राम-कथा की संपूर्ण कथावस्तु एक नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत की गई है। यह राम-कथा के विकास का तृतीय सोपान है जहाँ पहुँचकर राम-कथा विष्णु की अवतार-लीला मात्र न रहकर भक्त-वत्सल भगवान् राम के गुण-कीर्तन में परिणत हो जाती है।

७९१. इस प्रकार राम-कथा अनेक रूप धारण करते हुए शनैः सम्पूर्ण भारतीय संस्कृति में व्याप्त हो गई है। उसकी अद्वितीय लोकप्रियता निरंतर अक्षुण्ण ही नहीं वरन् शताब्दियों तक बढ़ती रही है। कारण स्पष्ट है—मानव हृदय को आकर्षित करने की जो शक्ति राम-कथा में विद्यमान है वह अन्यत्र दुर्लभ है। इसके अतिरिक्त राम-कथा में कला तथा आदर्शों का जो समन्वय मिलता है उससे आदर्शप्रिय भारतीय जनता प्रभावित हुए बिना न रह सकी।

भारतीय साहित्य में राम-कथा के इस आदर्शवाद का बहुधा उल्लेख किया गया है। जैमिनीय अश्वमेध (३६, ४४) में रामचरित स्वच्छ मनोवृत्ति प्रदान करने वाला माना गया है—रामचरितं सन्मनोवृत्तिप्रदम् । बृहद्धर्म-पुराण (२६, १) में कहा गया है कि राम-कथा में वर्णाश्रम के अनुसार सबों के कर्त्तव्य का स्पष्टीकरण किया जाता है—सर्वे धर्माः समुद्दिष्टा वर्णाश्रमविभागतः। मम्मट ने माना है कि कवियों को यह उपदेश देना चाहिए कि राम ही अनुकरणीय हैं, रावण नहीं—रामाधि-वदन्ति त्वं न रावणादिवत् (काव्यप्रकाश १, २)। पञ्चपुराण से पातालखण्ड (अध्याय ६६) के अनुसार रामचरित में पातिव्रत्य, भ्रातृस्नेह, गुरुभक्ति, स्वामिसेवा, आदि साक्षात् आदर्श प्रस्तुत हैं

यस्मिन्धर्मविधिः साक्षात्पातिव्रत्यं तु यत्स्थितम् ।

भ्रातृस्नेहो महान्यत्र गुरुभक्तिस्तथैव च ॥ १२८ ॥

स्वामिसेवकथोर्यत्र नीतिर्भूतिमती किल ।

अधर्मकरशाः तत्रैव यत्र साक्षाद्गूढहात् ॥ १२९ ॥

लोकसंग्रह का भाव एक प्रकार से राम-कथा का सर्वस्व है, जिससे समस्त कवि प्रभावित हुए हैं। अत्यन्त विस्तृत राम-कथा-साहित्य में कथावस्तु का पर्याप्त मात्रा में

परिवर्द्धन तथा परिवर्तन हुआ है, किंतु सीता का पातिव्रत्य, राम का आशापालन, भरत तथा लक्ष्मण का भ्रातृप्रेम, दशरथ की सत्यसंघता, कौशल्या का वात्सल्य, आदि ये आदर्श समस्त रामकथाओं में विद्यमान हैं। जनसाधारण पर इन जीते जागते आदर्शों के कल्याणकारी प्रभाव की जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है<sup>१</sup>। फलस्वरूप काव्य की कथावस्तु मात्र न रहकर, राम-कथा आदर्श जीवन का दर्पण सिद्ध हुई, जिसे भारतीय प्रतिभा शताब्दियों तक परिष्कृत करती चली आ रही है। राम-कथा के विकास पर इस आदर्शवाद की भावना का गहरा प्रभाव पड़ा है। उदाहरणार्थ, ब्राह्मीक कृत रामायण में कैकेयी की कुटिलता का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया गया है। आगे चलकर कैकेयी की निर्दोष ठहराने के लिए अनेक उपायों का सहारा लिया गया है। (दे० अनु० ४५१-४५३)। बालिवध को न्यायसगत सिद्ध करने का रामायण के दो प्रक्षिप्त सर्गों में प्रयत्न किया गया है। आगे चलकर राम के दोषनिवारण के लिए महावीरचरित, अनघंराघव आदि नाटकों में बालिवध को एक नया रूप दिया गया है। इसके अनुसार बालि राम को ललकारता है तथा राम से द्वन्द्वयुद्ध में ही मारा जाता है (दे० अनु० ५२२)। राम-भक्ति के प्रादुर्भाव के पश्चात् राम-कथा का समस्त वातावरण बदल दिया गया तथा विभिन्न पात्रों की उन्नता तथा कुटिलता राम-भक्ति में लीन कर दी गई है। यहाँ तक कि आदि रामायण का दुष्ट राक्षस रावण भी पतितपावन राम के प्रभाव से पवित्र हो जाता है<sup>२</sup>। इस प्रकार भारत की समस्त आदर्श-भावनाएँ राम-कथा में, विशेष कर मर्यादापुरुषोत्तम राम तथा पतिव्रता सीता के चरित्रचित्रण में केन्द्रीभूत हो गई है। फलस्वरूप राम-कथा भारतीय सस्कृति के आदर्शवाद का उज्ज्वलतम प्रतीक बन गई है।

॥ इति ॥

१. दे० रामचरितमानस में अनुसूया का यह कहना—“सुनु सीता तव नाम सुमिरि नारि पतिव्रत करहि” (अरण्यकाण्ड, सो० ५)।
२. “कल्याण” (दे० सितंबर १९३८, पृ० ९३६) में म० म० गंगानाथ झा ने एक छंद उद्धृत किया था, जिसमें रावण कुभकर्ण से कहता है कि सीता को विचलित करने के उद्देश्य से मैंने तो राम का रूप धारण किया था, किंतु ऐसा करने पर मन में पापबुद्धि नहीं रह जाती :

अज्ञाय पतिबुध्यतां किमभवद्रामागना ह्याहता ।

भुक्ता नैव कुतो यतो न भजते रामात्परं जानकी ॥

रामः किल भवान् यतः सुहृचिर तालीदल्लक्ष्यामलं ।

रामाक भजतो ममापि कलषो भावो न सजायते ॥

इससे मिलते-जुलते एक अन्य छंद के लिए, दे० कल्याण, जुलाई १९३८, पृ० १५८३ ।

## परिशिष्ट

### क—अवशिष्ट सामग्री

७९२. अप्राप्य प्राचीन राम विषयक नाटको का परिचय प्रस्तुत ग्रथ के तृतीय भाग में दिया जा चुका है ( दे० अनु० २३६ )। डॉ० बी राघवन् ने अपनी "सप्त ओल्ड लोस्ट राम प्लेस" (अन्नामलाई १९६१ ई०) नामक रचना में उन नाटकों के समस्त उद्धरण संकलित किए हैं जो विभिन्न काव्य-शास्त्रीय ग्रंथों में पाये जाते हैं। अनु० २३६ में उल्लिखित नाटकों के अतिरिक्त इस ग्रंथ में पाँच और नाटको का किंचित् परिचय दिया गया है, अर्थात् जानकीराघव, राघवाम्युदय, अभिजातजानकी, मारीचबंशित और रामविक्रम; मन्त्रों के रचयिता अज्ञात हैं। डॉ० राघवन् की इस नवीन रचना में निम्नलिखित बातों का पता लग गया है।

(१) यशोवर्मन्कृत रामाम्युदय अयोध्या में राम के अभिषेक पर समाप्त हो जाता है।

(२) जानकीराघव एक शृंगार रस प्रधान नाटक है जिसके सात अंकों में सीतास्वयंवर से लेकर रामाभिषेक तक की समस्त राम-कथा को प्रस्तुत किया गया है। रावण को सीतास्वयंवर में उपस्थित माना गया है।

(३) राघवाम्युदय का कथानक अरण्यकाण्ड की घटनाओं से प्रारंभ होकर सीता की पुनःप्राप्ति पर समाप्त हो जाता है। युद्ध के प्रारंभ में रावण का संधिप्रस्ताव इस नाटक की विशेषता है, रावण के आदेश पर जालिनी नामक राक्षसी सीता का रूप धारण कर लेती है और रावण उसे ही राम को समर्पित करना चाहता है। यह प्रस्ताव सुनकर राम किकत्तंभ्यविभूद् हो जाते हैं क्योंकि वह विभीषण को लका का राजा बनाने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। उसी समय इद्र के रूप में एक दूसरा राक्षस रावण का प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए राम से अनुरोध करता है। अंत में लक्ष्मण रावण की माया का रहस्योद्घाटन करते हैं।

(४) मायापुष्पक के प्रारंभ में अधमुनि का शाप मनुष्य का रूप धारण कर रगमच पर आता है। प्राप्त उद्धरणों से पता नहीं चलता कि रावण किस तरह एक मायावी पुष्पक-विमान का उपयोग करता है।

(५) स्वप्नदशानन का रचयिता भीमट है। उसके पाँच नाटकों में से स्वप्नदशानन ही श्रंण्ड कहा जाता है।

(६) मारीचबंशित के पाँच अंकों में रावणवध तक की रामकथा प्रस्तुत की गई है।

(७) रामविक्रम के द्वितीय अंक में इसका वर्णन किया गया है कि जनक को किस प्रकार राम-सीता के वनवास का समाचार मिला था।

(८) उपर्युक्त नाटकों के अतिरिक्त डा० राघवन् निम्नलिखित अंकों का भी उल्लेख करते हैं :

अयोध्याभरत, केकयीभरत, दशरथांक, प्रावृडक, विभीषणनिर्मत्सनांक, शक्त्यंक, संपात्यक। अब तक इसका पता नहीं चल सका कि ये अंक किन किन नाटकों के हैं। सम्पात्यक में मायावती नामक राक्षसी अंगद-हनुमानादि वानरों को धोखे में डालने का प्रयत्न करती है। रामायण ककविन, भट्टिकाव्य तथा तिब्बती रामायण में स्वयंप्रभा वानरों को भुलाने का प्रयत्न करती है (दे० अनु० ५२६); सम्पात्यक की मायावती संभवतः स्वयंप्रभा से अभिन्न है।

७९३. महाभारत में चिरकारी की कथा मिलती है। इसका अत्यंत सक्षिप्त परिचय ऊपर दिया जा चुका है (दे० अनु० ३४५)। उस कथा में चिरकारी अपनी माता को निर्दोष मानता है क्योंकि इंद्र गौतम के वेश में उसके पास आये थे। गौतम के विचार से भी वह निर्दोष है—“इंद्र ब्राह्मण के वेश में मेरे आश्रम में आये; उसने (मेरी पत्नी ने) उनका आतिथ्य-सत्कार किया। बाद में जो दुःखद घटना हुई, उसमें स्त्री का कोई दोष नहीं था—अन्न चाकुशले जाते स्त्रियो नास्ति व्यतिक्रमः।

स्कंदपुराण (माहेश्वरखंड, कौमारखंड, अध्याय ६, ८०-१६१) में भी चिरकारी की कथा पाई जाती है। इसमें बहुत से श्लोक महाभारत के ही हैं; फिर भी इस कथा में दो महत्वपूर्ण अंतर हैं। गौतम-पत्नी का अपराध यह है कि वह अपने स्त्री-स्वभाव के अनुसार कौशिकी के तट पर बलि नामक राजा की ओर देखती रही।<sup>१</sup> अपनी पत्नी के वध का आदेश देने के कारण गौतम दुखी थे; इतने में इंद्र ब्राह्मण के वेश में उनके पास आए और उन्होंने गौतम को स्त्री की स्वाभाविक दुर्बलता के विषय में एक गाथा सुनायी :

अनुता हि स्त्रियः सर्वाः सूत्रकारो यदब्रवीत् ॥ ११० ॥

अतस्ताम्यः कलं प्राह्यं न रयाहोषेक्षणः सुधीः।

यह सुनकर गौतम अपने चिरकारी पुत्र के पास गये और अपनी पत्नी को जीवित देखकर अत्यन्त प्रमत्त हुए। वह अपने पुत्र तथा भार्या के साथ चिरकाल तक अपने आश्रम में रहकर अंत में स्वर्ग सिंघारे :

१. चिरकारी की कथा के अन्तर्गत अहल्या का नाम न तो महाभारत में और न स्कंदपुराण में मिलता है।
२. दे० श्लोक १०८। यह रेणुका के अपराध का स्मरण दिलाता है; पत्नी सहित अलकीडा करते हुए चित्ररथ को देखकर रेणुका उसकी ओर आकर्षित हुई थी (दे० महाभारत, आरण्यकपर्व ११६, ६-७)।

एषमुक्त्वा पुत्रभार्यासहितः प्राप्य स्वधमम् ॥ १३० ॥

ततश्चरमुपास्याथ विभं यातश्चरं मुनिः ॥ १३१ ॥

७९४. धनुर्भंग के वर्णन के अंतर्गत शिवधनुष की उत्पत्ति के विषय में सेरी राम तथा रामकेति की कथाओं का उल्लेख हो चुका है (दे० अनु० ३९२, पृ० ३५२)। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्वकर्मा ने इसका निर्माण किया था (दे० अनु० ३५०)। महाभारत के शांतिपर्व (अध्याय २७८) में माना गया है कि शिव ने अपने शूल को ही झुकाकर पिनाक में परिणत कर दिया था :

आनतेनाथ शूलेन पाणिनामिततेजसा ।

पिनाकमिति ज्योवाच शूलमुप्रायुधः प्रभुः ॥ १८ ॥

अनुशासनपर्व के दाशितात्य पाठ (गीताप्रेस गोरखपुर संस्करण, पृ० ५९१५) के अनुसार ब्रह्मा ने एक ही बांस से पहले दो धनुष बनाये; एक शिव के लिए और दूसरा विष्णु के लिए। बाद में उन्होंने उसी बांस के अवशेष से गाण्डीव बना कर उसे सोम को प्रदान किया। अर्जुनदास ने भी मान लिया है कि ब्रह्मा ने एक ही बांस से पिनाक, वैष्णव धनुष तथा गाण्डीव तीनों का निर्माण किया था।

७९५. बाण की कादम्बरी में चक्रवाक के प्रति राम के शाप का उल्लेख है (दे० ऊपर अनु० ४७४, पृ० ४३२)। कृतिवासरामायण (३, २५) की तत्संबन्धी कथा इस प्रकार है। सीताहरण के बाद आहत जटायु से मिलने के पूर्व ही राम-लक्ष्मण की एक चक्रवाक से भेंट हुई। राम ने चक्रवाक से पूछा कि जनकनदिनी को कौन ले गया है किन्तु चक्रवाक ने परिस्थिति समझने के बाद राम का इस प्रकार उपहास किया—“तुम दो मनुष्य होते हुए भी एक स्त्री की रक्षा नहीं कर पाये ? मैं अकेला पसी हूँ, फिर भी दो मादाओं को रख लेता हूँ। तुम लोगो ने स्त्री को खो दिया और अब इधर-उधर भटक कर उसके विषय में पूछते हो; क्षत्रिय समाज तुमको क्या समझेगा!”

राम ने क्रोध में आकर उसको यह शाप दिया कि आज से तुम रति-सुख से वंचित रहोगे; रात में आहार खोजते खोजते तुमको मादा से अलग रहना पड़ेगा। इसपर चक्रवाक पतित-यावन भक्तवत्सल नारायण के रूप में राम की स्तुति करते हुए अनुनय विनय करने लगा। अंत में राम ने तरस खाकर कहा कि द्वापर में व्याध तुम्हें जाल में फँसाएगा; तब तुम मेरे शाप से मुक्त हो जाओगे।

७९६. उड़िया रामसाहित्य के परिचय के अन्तर्गत त्रिपुरारिदास के रामकृष्णकेलिकल्लोल का उल्लेख किया गया है (दे० अनु० २९१, पृ० २४५)।

ऐसा प्रतीत होता है कि इसका कथानक राम दशरथ से संबंध नहीं रखता; इसमें बलराम तथा कृष्ण की लीला का वर्णन किया गया है। १७ वीं शताब्दी की रचनाओं के साथ-साथ महेश्वरदासकृत टीकारामायण का भी उल्लेख होना चाहिए था। यह रचना एक प्रकार से बलरामदास रामायण की टीका ही है। इसमें राम-सुग्रीव-भेंट के विषय में एक कथा मिलती है जो सेरीराम तथा रामकेति के वृत्तान्तों से साम्य रखती है (दे० अनु० ५१२, पृ० ४६८)। टीका रामायण में भी राम की प्यास का उल्लेख है किंतु सुग्रीव के आँसुओं के स्थान पर उसके लार की चर्चा है।

७९७. त्रिजटा-चरित के अंतर्गत इसका उल्लेख हो चुका है कि बालरामायण, आनन्द रामायण तथा रामायण ककविन के अनुसार त्रिजटा ने सीता के साथ पुष्पक पर अयोध्या की यात्रा की थी (दे० अनु० ५४७)। स्वयंभूदेवकृत पउमचरित (५, ८३, ४) में कुश-लव-युद्ध के बाद अयोध्या में त्रिजटा तथा लंकासुन्दरी के आगमन का वर्णन किया गया है। दोनों ने सीता के सतीत्व के पक्ष में साक्ष्य देकर अंत में राम से कहा कि यदि आपको विश्वास न हो तो दिव्य द्वारा सीता की परीक्षा लीजिए। इसके बाद पउमचरित के अनुसार ही (दे० अनु० ६०१) पउमचरित में भी सीता की अग्निपरीक्षा का वर्णन किया गया है।

## ख—राम-कथा-साहित्य की तालिका

(मोटे टाइप में छपी रचनाओं का समस्त कथानक  
राम-कथा से संबंध रखता है)

काल	१. संस्कृत कालिदासाहिर्य २. संस्कृत धार्मिक साहित्य ३. आधुनिक भारतीय भाषाएँ ४. बौद्ध और जैन साहित्य ५. विदेशी साहित्य
६०० ई० पू०	राम-कथा-विषयक वास्त्यान-काव्य
४००-३०० ई० पू०	वशरथ-जातक की भाषाएँ .
३०० ई० पू०	बाल्मीकि रामायण (२-६)
१०० ई० पू० १०० ई०	प्रचलित बालकाण्ड रत्नोपाख्यान
२००-३०० ई०	प्रचलित उत्तरकाण्ड
३००-४०० ई०	प्रतिभा नाटक (?) अभिषेक नाटक (?)
४००-५०० ई०	रघुवंश हरिवंश पुराण वायुपुराण नृसिंह पुराण
	पटनशरियं वशरथकाव्यम्
	अनामकम् जातकम्
	वशरथजातक का मठ वसुदेवहिण्डि



काल १. संस्कृत ललित साहित्य २. संस्कृत धार्मिक साहित्य ३. आधुनिक ४. शीघ्र और बौद्ध ५. विवेकी साहित्य  
भारतीय भाषाएँ साहित्य

५००-७०० ई०	राघवचरित भट्टिकाव्य	मत्स्य-पुराण कूर्म-पुराण भागवत-पुराण विष्णुधर्मोत्तरपुराण	पद्मचरित (रविषेण)
७००-८०० ई०	महावीरचरित उत्तररामचरित उवातराघव		पद्मचरित (स्वयभूदेव)
८००-९०० ई०	जानकीहरण रामचरित (अभिनव) कुन्वमाला	अग्निपुराण स्कन्दपुराण वाराहपुराण	उत्तरपुराण (गुणभद्र) तिब्बती रामायण रामलक्ष्मणचरित्यं सौतानी रामायण
९००-१००० ई०	अनघरावण शालरामायण आश्चर्यबूझामणि (?)	नारदीय महापुराण गण्ड पुराण ब्रह्मपुराण लिंगपुराण	तिसट्ठी महापुरिस रामायण ककबिन गुणालकार (पुष्पदत्त) (जावा) त्रिषष्टिथालाका महापुरुष पुराण (चामुण्डराय)
१०००-११०० ई०	महानाटक रामायणमंजरी	महाभागवत पुराण देवीभागवत पुराण	पंचरामायण (कन्नड)

कहावली (भद्रेश्वर)

सौर पुराण  
कालिका पुराण

दशवतारचरित  
कथासत्संगर  
बभ्रुरामायण

त्रिषष्टिवालाकापुराण-  
चरित (हेमचंद्र)  
योगशास्त्र (हेमचंद्र)

तमिल  
कब रामायण

पद्मपुराण का पातालखंड  
बृहद्भर्म पुराण  
जैमिनीय अश्वमेध  
योगवासिष्ठ रामायण

प्रसन्नराघव  
रामचरित (संघ्याकरलदि)  
राघव-गणकवीर्य

११००-१२०० ई०

तेलुगु

रामनाथ रामायण  
निर्वचनीतर  
रामायण  
उत्तररामायण  
अंबनापवनाय्य  
जीवनसंवाधन (कन्नड)

सं रावणचरित  
अगस्त्य संहिता  
रामतापनीय उपनिषद्

उल्लास राघव  
मं पिली-कल्याण  
इतांगद  
हंसवेला

१२००-१३०० ई०

सेलुगु भास्कर

अध्यात्म रामायण  
अद्भुत रामायण  
शिवमहापुराण  
सहस्रमुखरावणचरित

उबाराघव  
उन्मत्त राघव (भास्कर भट्ट)

०५०  
०००  
०००  
०००  
०००

पुण्याश्रमकथाकोष  
पुण्याश्रमकथासार  
(कन्नड)

असमीया भाषा  
कंदली रामायण  
सबकुशर युद्ध  
गुजराती रामलीला  
ना पत्तो





## ग—सहायक ग्रंथ

### १. प्राचीन ग्रंथ

—वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदें, कल्पसूत्र, महाभारत, पुराण, उपपुराण ।

—वाल्मीकि रामायण के तीनों पाठ :

(१) दाक्षिणात्य पाठ । गुजराती प्रिंटिंग प्रेस (बंबई)

(२) गौडीय पाठ । गोरेसिया (पेरिस) तथा कलकत्ता संस्कृत सीरिज के संस्करण

(३) पश्चिमोत्तरीय पाठ । दयानंद महाविद्यालय (लाहौर)

—रामकथा-विषयक महाकाव्य, नाटक, खडकाव्य, विविध रामायण; दे० अनुक्रमणिका

### २. भारतीय भाषाओं के आधुनिक ग्रंथ और लेख

मै० गु० अ०—राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त अभिनन्दन-ग्रंथ । कलकत्ता, १९५९ ।

अगरखंड नाहुटा । राजस्थानी भाषा में राम-कथा सबधी ग्रंथ । मै० गु० अ०, पृ० ८४०-८४३ ।

उदयशंकर शास्त्री । ईश्वरदास या सूरजदास । नागरीप्रचारिणी पत्रिका । वर्ष ६१, अंक १, पृ० ७१-८० ।

उपेंद्र चंद्र लेखार । असमिया रामायण साहित्य । गौहारी (१९४८) ।

कामिल बुरुके । पुष्पाद सौदास । भारतीय साहित्य (आगरा) । वर्ष ५, अंक २, पृ० ७-२७ ।

—वाल्मीकि रामायण के तीन पाठ । नागरी प्रचारिणी पत्रिका । वर्ष ५८, अंक १-२, पृ० १-३५ ।

कृष्णदेव उपाध्याय । भोजपुरी ग्रामगीत । प्रयाग, सं २००० ।

क्षेमकरणदास द्विवेदी । अथर्ववेद भाष्य । प्रयाग, स १९८२ ।

गोपाल लाल वर्मा । संथाली लोकगीतों में श्रीराम । सारंग (दिल्ली), ७ फरवरी १९६०, पृ० ४३-४५ ।

चंद्रभान । वैदिक साहित्य में रामकथा का बीज । नागरी प्रचारिणी पत्रिका । वर्ष ५५, पृ० ३०१-३०५ ।

बाबुलि सूर्यनारायण भूति । सती सुलोचना : एक क्षेपक कथा । हिन्दी अनु-शीलन । वर्ष १२, पृष्ठ १३-१९

—ऊर्मिला की नाँद । वही; वर्ष ११, अंक २, पृ० ३७

जयदेव शर्मा । अथर्ववेदसंहिता । अजमेर, सं १९८५ ।

दुर्गाशंकर प्रसाद सिंह । भोजपुरी लोकगीत । प्रयाग, सं २००१ ।

देवीप्रसाद पट्टनायक । उडिया में राम-साहित्य । मै० गु० अ०, पृ० ७७०-७७७ ।

धीरेन्द्र वर्मा । अहल्या-उद्धार की कथा । त्रिचारधारा (इलाहाबाद, सं० २००१), पृ० २९-३४ ।

नरसिंहाचार्य आर० । कर्णाटक कवि चरिते ।

नाथूराम प्रेमी । जैन साहित्य और इतिहास । बंबई, सन् १९४१ ।

नायडू, सु० शंकर राजू । कम्बर और तुलसी । मद्रास, सन् १९५६ ।

पणिकर आर० एन० । भाषा-साहित्य-चरित्रम् ।

प्रह्लाद चंद्रशेखर बीषान जी । गुजरात में रामायण । 'कल्याण' का रामायणांक पृ० ३९८ ।

बदरीनारायण श्रीवास्तव । रामानन्द सम्प्रदाय । प्रयाग, सन् १९५७ ।

बलदेवप्रसाद मिश्र । तुलसीदर्शन । प्रयाग, सन् १९४२ ।

बालशौरि रेड्डी । तेलुगु भाषा में रामसाहित्य । मै० गु० अ०, पृ० ८०१ ।

बेनीप्रसाद । हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता । प्रयाग, सन् १९३१ ।

भगवती प्रसाद सिंह । रामभक्ति में रसिक संप्रदाय । बलरामपुर, सं० २०१४ ।

भागवत द्विवेदी । भक्त शबरी । रामवन सं० १९९२ ।

भुवनेश्वरनाथ मिश्र 'माधव' । रामभक्ति-साहित्य में मधुर उपासना । पटना सन् १९५७ ।

मनोहर शर्मा । राजस्थानी लोकगीतों में उत्तररामचरित । मै० गु० अ०, पृ० ८२७ ।

महाराष्ट्रीय । श्रीरामायण समालोचना । पूना सन् १९२७ ।

माताप्रसाद मुन्त । तुलसीदास । प्रयाग सन् १९४२ ।

राघवप्रसाद पाण्डेय । तुलसीदासकालीन राघवोत्थास काव्य । मै० गु० अ०, पृ० ७०२-७०८ ।

राम इकबाल सिंह राकेश । मैथिली लोकगीत । प्रयाग, सं० १९९९ ।

रामकुमार वर्मा । हिन्दी साहित्य का समालोचनात्मक इतिहास । प्रयाग सन् १९३८ ।

रामगोविन्द द्विवेदी । ऋग्वेद संहिता । मुलतानगंज, सं० १९९२ ।

रामचंद्र शुक्ल । हिन्दी साहित्य का इतिहास । काशी, सं० १९९९ ।

रामदास गौड़ । हिन्दुत्व । काशी सं० १९९५ ।

रामनरेश त्रिपाठी । ग्रामगीत । इलाहाबाद, सं० १९८६ ।

—लोकगीतों में राम-कथा । मै० गु० अ०, पृ० ६६१ ।

रायकृष्ण दास । राम-वनवास का भूगोल । नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग ५४ अंक १ और ३ ।

—ऋथ्यमूक-किष्कंधाकी भौगोलिक अवस्थिति, वही, भाग ५२, अंक ४ ।

रत्नमीसागर बाण्येय । ईस्ट इंडिया कंपनी-कालीन रामकाव्य । मै० गु० अ० पृ० ८२१-८२६ ।

वासुदेवशरण अप्रवाल । बीर बरह्य । जनपद (काशी), खंड १ अंक ३, पृ०-६४-७३ ।

विपिनबिहारी त्रिवेदी । पृथ्वीराजरासो में रामकथा । मै० गु० अ० पृ० ६७७ ।

बिष्णुकान्त शारत्री । अनमीया मे राम-साहित्य । मै० गु० अ०, पृ० ८३१ ।

शंभुप्रसाद बहृगुणा । शबरी-मंगल । रामवन, सन् १९५० ।

शांतनु बिहारी द्विवेदी । भक्तराज हनुमान् । गोरखपुर, सं० १९९५ ।

शांति आँकड़ियाकर । मध्यकालीन गुजराती साहित्य का तिथिक्रम । साहित्य (पटना), अंक १, पृ० ५२-५७ ।

शिवनन्दन सहाय । श्री गोस्वामी तुलसीदास । पटना सन् १९१९ ।

सत्यदेव चतुर्वेदी । अमितवेग । जौनपुर १९५८ ।

सत्यदेव डा० । ब्रजलोक-साहित्य मे रामकथा । भारतीय साहित्य (आगरा), वर्ष २ (जुलाई १९५७), अंक ३, पृ० ६५-९४ ।

सातबलेकर । श्रीरामायण महाकाव्य का बालकाण्ड । सन् १९४३ ।

सुवर्शन सिंह । श्री हनुमान्-चरित । रामवन ।

हजारी प्रसाद द्विवेदी । प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद । बम्बई, सन् १९५२ ।

हरदेव बाहरी । लालवेग की उत्पत्ति । जनपद (काशी), भाग १, अंक ३, पृ० १९-२१ ।

हरिबंध कोछड़ । अपभ्रंश साहित्य । दिल्ली, सं० २०१३ ।

हिरण्य । कन्नड साहित्य में रामकथा-परंपरा । मै० गु० अ०, पृ० ७५१ ।

हृदयनारायण सिंह । क्या उत्तरकाण्ड वाल्मीकि-रचित है ? नागरी प्रचारिणी पत्रिका । भाग १७, पृ० २५९-२८९ ।

## ३. विदेशी भाषाओं के ग्रंथ और लेख

**Abbreviations**

- ABORI Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute.
- BEFEO Bulletin de l'Ecole Francaise d'Extrême Orient.
- BSOS Bulletin of the School of Oriental Studies.
- IA Indian Antiquary.
- IHQ Indian Historical Quarterly.
- JAOS Journal of the American Oriental Society.
- JRAS Journal of the Royal Asiatic Society.
- JOI Journal of the Oriental Institute (Baroda).
- JOR Journal of Oriental Research (Madras).
- ZDMG Zeitschrift der Deutschen Morgenlaendischen Gesellschaft.
- AGRAWAL, V. S. The Panchavaktra or Kirtimukha Motif. Purāna (Vārānasi). Vol. 2, pp. 97-106.
- AIYAR, B. V. KĀMĒSHVAR. Solar Signs in Indian Literature. Quarterly Journal of the Mythic Society. Vol. 12, p. 73 ff.
- ALSDORF, L. Eine neue Version der verlorenen Brhatkathā. 19th Intern. Congr. of Orientalists. pp. 344-349
- ANANDCOOMAR SWAMI. Yakṣas. 2 vol. Washington 1928-1931.
- BAILEY, H. W. The Rāmastory in Khotanese. JOAS. Vol 59, pp. 460-468.
- On Rāmāyana and Rāma in Khotanese. BSOS. Vol: 10, pp. 365ff, 559ff.
- BALDAEUS, PH. Afgoderey der Oost-Indische Heydenen. Ed. Dr. A. J. De Jong. The Hague 1917.
- BARNETT, L. D. Alphabetical Guide to Sinhalese Folklore from Ballad Sources. IA Suppl. Vol. 44 ff.
- BARTH, A. Bulletin des Religions de l'Inde. Paris 1894.
- BARUA, B. K. Assamese Literature. Bombay 1941.
- Śaṅkaradeva: his poetical works. Aspects of Early Assamese Literature. Gauhati University 1959. pp. 65-125.
- BAUMGARTNER, A. Das Rāmāyana und die Rāma-Literatur der Inder. Freiburg 1894.
- BELVALKAR, S. K. Uttararāmacarita. Harvard Oriental Series. Vol. 21. Cambridge Mass. 1915.



- BHANDARKAR, R. G. *Vaiṣṇavism, Saivism and minor religious systems*. Strassburg 1913.
- BHATT, G. K. *The Fire Ordeal of Sita—an interpolation in the Vālmiki Rāmāyaṇa*. JOI. Vol. 5, p. 292.
- BHATTACARYA, S. P. *The Emergence of an Adhyātma Śāstra or the Birth of the Yogavāsīṣṭha Ramayana*. IHQ. Vol. 24, pp. 201-212.
- BHATTACHARYA, H. *Nārāyaṇas, Pratinārāyaṇas and Balabhadras*. *The Jain Antiquary*. Vol. 8, p. 8 ff.
- BLOOMFIELD, M. *The Kaucika Sutra of the Atharva-Veda*. JAOS. Vol. 14 (1890), p. 1 ff.
- BOULAYE LE GOUZ, Fr. de La. *Reyze en Opteekeningh*. Amsterdam 1660.
- BUEHLER, G. *Alberuni's India*. IA. Vol. 19 (1890), p. 381 ff.
- BULCKE, C. *The Genesis of the Vālmiki Rāmāyaṇa Recensions*. JOI. Vol. 5, pp. 66-94.
- BURLINGAME, E. W. *Buddhist Legends* Harvard Oriental Series Vol. 28-30. Cambridge Mass. 1921.
- CALAND, W. *Twee oude Fransche Verhandelingen over het Hindocisme (Relation des Erreurs; La Gentilité du Bengale)*. Amsterdam 1923.
- *Drie oude Portugeesche Verhandelingen over het Hindoeisme*. Amsterdam 1915.
- CHAKRAVARTI, A. *Buddhistic and Jain versions of the Story of Rāma*. *The Jaina Gazette*. Vol. 22 (1926), p. 117 ff.
- CHAKRAVARTI, CHINTAHARAN. *Tradition about Vānaras and Rakṣasas*. IHQ. Vol. I (1925), p. 779 ff.
- CHARPENTIER, J. *Studien ueber die Indische Erzaehlungen-literatur*. ZDMG. Vol. 62 (1908), p. 725 ff.
- *Zur Geschichte des Cariyapitaka*. *Wiener Zeitschrift fuer die Kunde des Morgenlandes*. Vol. 24 (1910), p. 397 ff.
- CHATTERJI, S. K. *Krishna Dvaipayana Vyasa and Krishna Vasudeva*. *Journ. As. Soc. Beng.* Vol. 16 (1950), pp. 73-87.
- CHATTOPADHYAYA, K. C. *The Vṛṣākapi hymn*. Allahabad University Studies. Vol. 1 (1925), pp. 97-156.
- CHATTOPADHYAYA, S. *The Problem of Śāntā's Parentage. Our Heritage (Calcutta)*. Vol. 2 (1954), pp. 353-374.
- *Śāntā's Parentage*. IHQ. Vol. 33, pp. 146-151.

- CHAUDHURY, H. RAY.** Early History of the Vaisṇava Sect, Calcutta 1920.
- CHENCHIAH, A.** A History of Telugu Literature. Heritage of India Series. Calcutta. s. a.
- COEDES, G.** Les états hindonise's d'Indochine et d'Indonesie. Paris 1948.
- COLEMAN, C.** The Mythology of the Hindus. London 1932.
- CONNOR, J. P.** The Rāmāyaṇa in Burma. Journ. of Burma Research Society. Vol. 15 (1915), p. 80 ff.
- COWELL, E. B.** The Buddhacarita of Aśvaghosa. Oxford 1893.  
— The Jataka. Vol. I—VI. Cambridge 1895-1907.
- COYAJEE, J. C.** Cults and Legends of Ancient Iran and China. Bombay 1936.
- CROOKE, W.** Tribes and Castes of N. W. Provinces and Oudh. Calcutta 1896.  
— The Popular Religion and Folklore of Northern India. Westminster 1896.
- DALTON, E. T.** Descriptive Ethnology of Bengal. Calcutta 1872.
- DAPPER, O.** Asia. Amsterdam 1676.
- DARMESTER, J.** Etudes Iraniennes. Paris 1883.  
— Le Zend Avesta. Paris 1893.
- DAS, A. C.** R̥gvedic India. Calcutta 1927.
- DASGUPTA, S. N.** History of Indian Philosophy. Vol 2. Calcutta 1932.
- DE, S. K.** History of Sanskrit Kavya Literature. Calcutta 1948.  
— On Kundamala. ABORI. Vol 16, p. 158.  
— The Problem of the Mahānāṭaka. IHQ. Vol. 17, p. 537 ff.
- DEHON, P.** Religion and Customs of the Oraons. Memoirs of the As. Soc. of Bengal. Vol. I, p. 130 ff.
- DEUSSEN, P.** Sechzig Upanisads des Veda. Leipzig 1897.
- DEYDIER, H.** The Rāmāyaṇa in Laos. JOR. Vol. 22, p. 64 ff.  
— Les Origines et la Naissance de Rāvaṇa dans le Rāmāyaṇa Laotien. BEFEO. Vol. 44, p. 141 ff.
- DHANI, PRINCE.** The Rāma Jātaka. A Lao version of the Story of Rāma. The Journal of the Siam Society. Vol. 36, p. 1 ff.
- DIVANJI, P. C.** Influence of the Rāmāyaṇa on the Gujarati literature. JOI. Vol. 4 (1954), pp. 46-57.

- DUBOIS, J. A. *Hindu Manners, Customs and Ceremonies*. Oxford 1906.
- DUSSAUD, R. *Les decouvertes de Ras Shamra*. Paris 1941.
- DUSSAUD, R. *Les Religions de Babylone et d'Assyrie*. Paris 1945.
- DUTT, R. C. *A History of Civilisation in ancient India*. Calcutta 1899.
- ELWIN, V. *The Bondo Highlander*. 1950.
- *Myths of the N. E. Frontier of India*. Shillong 1958.
- ENTHOVEN, R. E. *Folklore of Gujarāt*. IA. Vol. 40 Suppl.
- ESTELLER, A. *Die Aelteste Version des Mahānāṭaka*. Leipzig 1936.
- FARIA Y SOUZA, M. de. *Asia Portuguesa*. 3 Vol. Lisbon 1666-1675.
- FAUSBOLL, V. *The Jātaka*. I—VII. London 1877-1897.
- FENICIO, J. S. *Livro da Scita*. Ed. J. Charpentier Upsala 1933.
- FOUCHER, A. *The influence of Indian Art on Cambodia and Java*. Sir Asutosh Mookerjee Silver Jubilee Vol. III Or. Pt. I, p. 1 ff.
- FUCHS, S. *The Gond and Bhumia of Eastern Mandla*. Bombay 1960.
- FUEHRER-HAIMENDORF, C. von. *The Reddis of the Bison Hills*. London 1945.
- GHOSH, MANMOHAN. *On the Source of the old Javanese Rāmāyaṇa-Kakavin*. *Journ. of Greater India Society*. Vol. 3, p. 113 ff.
- GLASENAPP, H. von. *Der Jainismus*. Berlin 1925.
- *Zwei Philosophische Rāmāyaṇas*. Wiesbaden 1951.
- GODAKUMBURA, C. E. *The Rāmāyaṇa. A version of Rāma's story from Ceylon*. *JRAS* 1946, p. 14 ff.
- GONCALVES, D. *Historia do Malavar*. Ed. J. WICKI, S. J. Munster 1955.
- GORE, N. A. *A Bibliography of the Rāmāyaṇa*. Poona 1943.
- GRASSMANN, H. *Rigveda*. Leipzig 1876.
- GRIERSON, G. A. *The Kāshmiri Rāmāyaṇa*. *Bibl. Ind.* Calcutta 1930.
- *Gleanings from the Bhakta-Mala*. *JRAS*. 1910, pp. 269-306.
- *Sita's Parentage*. *ib* 1921, p. 422 ff.
- *The Bengali Rāmāyaṇas (D. C. Sen)*. *A Review*. *ib* 1922, p. 135 ff.

- GRIERSON, G. A. Indian Epic Poetry. IA. Vol. 23, p. 52 ff.  
 — On the Adbhuta Rāmāyaṇa. BSOS. Vol. 4, pp. 11 ff.  
 — *Sitā Forlorn. A specimen of the Kāshmirī Rāmāyaṇa.* ib. Vol. 5, p. 285 ff.  
 — Bhaktimārga. Encycl. of Religion and Ethics.
- GRIFFITHS, W. G. The Kol Tribe of Central India. Calcutta 1946.
- GURNER. C. W. *Aśvaghōṣa and the Rāmāyaṇa.* Journ. and Proceedings of the As. Soc. of Bengal. Vol. 23. pp. 347-367.
- HAZRA, R. C. Puranic Records on Hindu Rites and Customs. Dacca 1940.
- Studies in the UpaPurāṇas. Vol I Calcutta 1958.  
 — Some minor Purāṇas. ABORI. Vol. 19, p. 69 ff.  
 — The Upa-Purāṇas. ib. Vol. 21, p. 38 ff.  
 — The Varāha-Purāṇa. ib. Vol. 18, pp 321-337.  
 — The Apocryphal Brahma Purāṇa. Indian Culture. Vol. 2, p. 237 ff.  
 — The Brhannāradya and the Nāradya Purāṇa. ib. Vol: 3, p. 477 ff.  
 — The Padma Purana. ib. Vol. 4, p. 73 ff.  
 — Discovery of the genuine Agneya Purāṇa. JOI. Vol. 5, pp. 411-416.  
 — The Problem relating to the Sivapurāṇa. Our Heritage (Calcutta). Vol. 1, p. 65 ff.  
 — The Bhāgavata Purāṇa. New Indian Antiquary. Vol. 1, p. 522 ff.  
 — The Saura Purāṇa. ib. Vol. 6, p. 103 ff.  
 — The Smṛti Chapters in the Purāṇas. IHQ. Vol. 11, p. 120.  
 — Our present Agni-Purāṇa. ib. Vol. 12, p. 683 ff.  
 — The Mahābhāgavata Purāṇa. ib. Vol. 28 (1952), pp. 17-28.  
 — The Brhaddharma-Purāṇa. The Journ. of the Univ. of Gauhati. Vol. 6, p. 245 ff.  
 — The Devi-Bhāgavata. JOR. Vol. 21, pp. 49-79.  
 — Was the Kālikā-Purāṇa composed during the reign of King Dharmapāla of Kāśmarūpa. Bhāratīya Vidyā. Vol: 16 (1956), pp. 35-40.

- HERTEL J Kleine Mitteilungen ZDMG Vol 60 (1906),  
p 399 ff
- HIRALAL Dr The Situation of Lañkā Ganganatha Jha Comm  
Volume pp 151 163 Poona 1937
- HIVALE SHAMRAO The Pardhans of the Upper Narbada  
Valley Bombay 1947
- HOFFMANN J Encyclopaedia Mundarica Vol VIII  
Patna 1933
- HOOYKAAS C The Old Javanese Ramāyana Amsterdam 1958
- HOPKINS E W The Great Epic of India New York 1902
- Epic Mythology St assburg 1915
- The Original Ramayana JAOS Vol 46 (1926) pp  
202 219
- Pragathukanı ib Vol 17 pp 23 92
- Allusions to the Ramastory in the Mahabharata ib  
Vol 50 (1930) pp 85 103
- HUBER E La Legende du Ramāyana en Annam BLFLO Vol  
5 p 168 ff
- Etudes de Litterature bouddhique ib 1904 p 698 ff
- IBBETSON D A Story of Valmiki IA Vol 24 p 240
- IYER K B Yama Pwe or the Ramayana Play in Burma Trivent  
(Bangalore) Vol 14 pp 239 245
- IYER L K Ananthakrishna The Cocl in Tribes and Castes 2  
Vol Madras 1909 1912
- JACOBI H Das Ramāyana Bonn 1893
- War das Epos und die profane Literatur Indiens urspr  
uenglich in Prakrit abgefasst ZDMG Vol 48 (1894) pp  
407 417
- Ein Beitrag zur Ramayana Kritik ib Vol 51 (1897),  
p 605 ff
- Brahmanism Encycl of Religion and Ethics Vol II
- Incarnation ib Vol VII
- JOHNSTON, E H Buddhacarita Calcutta 1935.
- JUYNBOLL Dutch translation of Rāmāyana Kakawin, Cantos  
7 26 Dutch Oriental Journal Vol 78 94

- KANE, P. V. *History of the Dharmaśāstra*. Vol. I—II. Poona 1930-1941.
- KANGA, E. M. F. *The Age of Yasts. A Volume of Eastern and Indian Studies* (Bombay 1939), pp. 134-140.
- KARPELES, S. *The Influence of Indian Civilisation in Further India*. *Indian Art and Letters*. Vol. I, pp. 30-39.
- KARPELES, S. *Un episode du Rāmāyaṇa Siamois. Etudes Asiatiques*. Paris 1925. p. 315 ff.
- KEITH, A. B. *The Age of the Ramayana*, *JRAS*. 1915, pp. 218-228
- *Indian Epic Poetry*, *IA*. Vol. 23, p. 52 ff.
- *Sanskrit Literature*. Oxford 1928
- *Sanskrit Drama*. Oxford 1924.
- KERN, H. *Manual of Buddhism*. Strassburg 1896.
- *Dutch Translation of Rāmāyaṇa Kakawin*. *Cantos I—VI*. *Dutch Oriental Journ.* Vol. 73.
- KIBE, M. V. *Rāvaṇa's Laṅkā located in Central India* *IHQ*. Vol. 4 (1928), pp. 693-702
- KIRFEL, W. *Rāmāyaṇa Bālakāṇḍa und Purāṇa*. *Die Welt des Orients* 1947. pp. 113-128.
- KRISHNADAS, RAI. *Ikshvāku Genealogy in the Purāṇas*. *Purāṇa (Vārāṇas)*. Vol 2, pp. 128-150.
- KULKARNI, V. M. *The Rāmāyaṇa Version of Saṅghadāsa as found in the Vasudevahiṇḍī*. *JOI*. Vol. 2, pp. 128-138.
- *The Rāmāyaṇa of Bhadrēśvara as found in his Kahāvālī*. *ib.* pp. 332-338.
- LA FONT, P. B. *P'a Lak P'a Lam*. *Ecole Franc. d'Extreme Orient*. 1957.
- *P'ommachak*. *Ecole Franc. d'Extr. Orient*. 1957.
- LALOU, M. L. *Histoire de Rāma en Tibetain*. *Journ. Asiatique*. 1936, p. 560 ff.
- LASSEN, C. *Indische Altherthumskunde*. 2nd Ed. Vol. II. Leipzig 1874.
- *On Weber's Dissertation on the Ramayana*. *IA*. Vol. 3, pp. 102-103.
- LEKHARU, U. C. *Assamese Versions of the Rāmāyaṇa. Aspects of Early Assamese Literature*. Gauhati University 1959, pp. 219-229.
- LESNY, V. *Ueber das Purāṇa-artige Gepraege des Bālakāṇḍa*. *ZDMG*. Vol. 67, pp. 497-500.

- LETTRES EDIFIANTES. Vol. 13. Paris 1718.
- LEVI, S. *Le Theatre Indien*. Paris 1890.
- *Sanskrit Texts from Bali*. Baroda 1933.
- *Pour l'histoire du Rāmāyaṇa*. *Journ. Asiatique*. 1918, pp. 1-160.
- LEVI, S. *La legende de Rāma dans un avadan chinois*. *Album Kern*, p. 279 ff.
- LUDWIG, A. *Der Rigveda I—VI*. Prag 1876-1888.
- *Ueber das Ramayana*. Prag 1894.
- LUEDERS, H. *Die Jātakas und die Epik*. *ZDMG*. Vol. 58 (1904), p. 687 ff.
- *Die Vidyādhara in der Buddhistischen Literatur und Kunst*. *ib.* Vol. 93 (1939), p. 89 ff.
- *Die Sage von Rṣyaśṛṅga*. *Nachrichten v. d. koenigl. Gesellschaft der Wissensch. zu Goettingen. Phil. Hist. Klasse*. 1897, pp. 87—135.
- MACAULIFFE, M. A. *The Sikh Religion*. Oxford 1909.
- MACDONELL A. A. *Sanskrit Literature*. London 1928.
- MACDONELL-KEITH. *Vedic Index*. London 1912.
- MAHALINGAM, T. V. *A Rāmāyaṇa Panel at Conjeevaram*. *JOR*. Vol. 28, pp. 68 ff.
- MAJUMDAR, R. C. *The Classical Age*. Bombay 1954.
- MANUCCI, N. *Storia do Mogor*. *Engl. Transl.* London 1907-1908.
- MAXWELL, W. E. *Sri Rama*. *JRAS. Straits Branch*. Vol. 17 1886, p. 85 ff. and Vol. 55, pp. 1-24.
- MENON, C. A. *Ezuttacchan and his age*. *University of Madras* 1940.
- MITRA, S. C. *The Munda Legend about Sita and Sitali*. *Journ. of the Department of Letters. Calcutta*. Vol. 4, pp. 303-304.
- MOJUMDAR, A. K. *The Rāmāyaṇa. A Criticism*. *IA*. Vol. 31, pp. 351-353.
- MONIER-WILLIAMS, M. *Indian Epic Poetry*. London 1863.
- *Indian Wisdom*. London 1893.
- *Brahmanism and Hinduism*. London 1891.
- MOOR, E. *The Hindu Pantheon*. London 1910.
- MORET, A. *Histoire de l'Orient*. Paris 1936.

- MUIR, J. *Original Sanskrit Texts. Vol. 4 (2nd Ed.)* London 1873.
- NAIK, T. B. *Ramkatha among the Primitive Tribes of India. Bulletin of the Tribal Research Institute. Chhindwara (Madhya Pradesh). Vol. I. Nos. 2 and 3.*
- NARASIMHACAR, D. L. *The Jaina Rāmāyaṇas. IHQ. Vol. 15 (1939), pp. 574-594.*
- NEGELEIN, J. von. *Eine epische Idee im Veda. Wiener Zeitschrift fuer die Kunde des Morgenlandes. Vol. 16, p. 226 ff*
- NEOG, M. *Assamese Literature before Śaṅkaradeva. Aspects of Early Assamese Literature (Gauhati 1959), pp. 17-64.*
- NIEBUHR, C. *Voyage en Arabie et en d'autres pays circonvoisins. 2 Vol. Amsterdam 1776-1780.*
- NORMAN, H. C. *Commentary on Dhammapada. 5 vol. Pali Text Society. London 1906-1915.*
- OLDENBERG, H. *Die Religion des Veda. Berlin 1894.*  
 — *Jātakastudien. Nachrichten v.d. Koenigl. Gesellschaft der Wissensch. zu Goettingen. Phil.-Hist. Klasse. 1918, p. 456 ff.*  
 — *Das Mahābhārata. Goettingen 1922.*
- OVERBECK, H. *Hikāyat Mahārāja Rāvaṇa. JRAS, Malayan Branch. Vol. 11 (1933), part two.*
- PARGIETER, F. E. *Vṛṣakapi and Hanumant. JRAS. 1911, p. 803 ff; 1913, p. 397 ff.*
- PICKFORD, J. *Mahavira Carita. London 1871.*
- PILLAI, M. S. *Purnalingam. Tamil Literature. Tinnevely 1929.*
- PILLAI, S. VAIYAPURI. *History of Tamil Language and Literature. Madras 1956.*
- POLIER, M. E. de. *Mythologie des Hindous. 2 Vol. Paris 1809.*
- PRINTZ, W. *Rāma und Śambūka. Zeitschrift fuer Indologie und Iranistik. Vol. 5, p. 241 ff.*  
 — *Helen und Sita. Beitrage zur Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte Indiens. Festsgabe Jacobi. Bonn 1926, pp. 103-123.*
- PRZYLUSKI, J. *Epic Studies. IHQ. Vol. 15, pp. 289-299.*
- PURI, SWAMI SATYANANDA. *Rama-Kirti (Ramakien). Birla Oriental Series. Bangkok 1940.*
- PUSALKER, A. D. *Twenty-five years of Epic and Puranic Studies. Progress of Indic Studies (Poona 1942), pp. 101-151.*



- RAGHAVAN, V. The Tattvasaṅgraharāmāyaṇa of Rāmabrahmānanda. *Annals of Oriental Research (Madras)*. 1953, pp. 1-55.
- Some old lost Rama Plays. *Annamalai* 1961.
  - Date of Yogavasiṣṭha. *JOR*. Vol 13, pp. 100-128.
  - Music in the Adbhuta Rāmāyaṇa *Journ. Music Academy* Vol. 16, p. 66 ff.
- RAGHUVIR, Dr. The Rāmāyaṇa in China. *Lahore* 1938.
- RAMADAS, G. Aboriginal Names in the Rāmāyaṇa. *Journ. of the Bihar and Orissa Research Institute* Vol. 11 (1925). pp. 41-53.
- The Aboriginal Tribes in the Rāmāyaṇa *Man in India (Ranchi)* Vol. 5, pp. 28-55.
- RAMASWAMI SASTRI, K. S. *Studies in Rāmāyaṇa*. Baroda 1944.
- RAO, N. VENKATA. Sri Ramayanamu by Kattavaradaraju. Critically edited with Introduction and Notes. *Madras* 1950.
- RAO, T. A GOPINATH *History of the Sri Vaishnavas*. *Madras* 1914.
- RAVENSHAW, E. C. The Avatars of Vishnoo An abstract translation from the Padma Pooran. *Journ. of the As Soc of Bengal*. 1842, pp 1112-1130.
- REAMKER. Text and French Summary Introduction by S. Karpeles. Fasc. 1-10 and 75-80 *Phnom-Penh* 1937.
- RHYS DAVIDS, W. *Buddhist India* *London* 1903.
- RICE, E. P. *Kanarese Literature*. *Calcutta* 1921.
- ROGERIUS, A. De open Deure tot het verborgen Heydendom. Ed. W. Caland. *The Hague* 1915
- ROORDA VAN EYSINGA, P.P. *Geschiedenis van Sri Rama*. *Amsterdam* 1843.
- ROSE, H. A. A Glossary of the Tribes and Castes of the Punjab and the North-West Frontier Province. 3 Vol. *Lahore* 1919.
- ROY, S. C. *The Birhors*. *Ranchi* 1925.
- *The Oraons of Chotanagpur*. *Ranchi* 1925.
- ROY, SUNIL CHANDRA. The Author of the Rāmābhudaya. *IHQ*. Vol. 30, pp. 379-381.

- RUBEN, W. Studien zur Text-Geschichte des Rāmāyaṇa Stuttgart 1936.
- Eisenschmiede und Daemonen in Indien Leiden 1939.
- Ueber die Religion der vorarische Staemme Indiens. Berlin 1952.
- RUSSELL, R V The Tribes and Castes of the Central Provinces of India. London 1916.
- SAHOO, K.C Rāmāthā in Śārladās Mahābhārata. Journ. of Historical Research (Ranchi) Vol I, No. 2, p. 56 ff.
- SANDESARA, B. J The Ullāgharāghava. Proceedings All-India Oriental Conference 16th Session, Lucknow 1955. Vol 2, pp. 105-112.
- SARKAR, H. B. Indian Influences on the Literature of Java and Bali Calcutta 1934.
- SASTRI, K. A. NĪLAKĀNTHA The Rāmāyaṇa in Greater India JOR Vol 6 (1932), p 117 ff
- SASTRI, K S RAMASWAMI. Studies in Rāmāyaṇa. Baroda 1944.
- SASTRI, T R VENKATARAMA. The Rāmāyaṇa. JOR. Vol. 18, pp 157-169
- SCHLEGEL, W Date of the Rāmāyaṇa. ZDMG Vol 3, p. 379.
- SCHRADER, F. O. Introduction to the Pāñcaśātra and the Ahirbudhnya Samhita. Madras 1916.
- SCHWEISGUTH, P Etude sur la Litterature Siamoise. Paris 1951
- SEN, D. C. The Bengali Rāmāyaṇas Calcutta 1920.
- History of Bengali Language and Literature. Calcutta 1921
- SEN, NILMADHAV. The Fire Ordeal of Sitā—a later interpolation in the Rāmāyaṇa. JOI. Vol. 8, pp. 201-206.
- SHAH, U P. Vṛṣākapi in Ṛgveda. JOI. Vol. 8, pp. 41-70.
- SHARMA, RAM. A little known Persian version of the Rāmāyaṇa. Islamic culture, Vol 8. pp. 673-678.
- SHASTRI, M. Narayana. On the Indian Epics. IA. Vol. 29, pp. 8-27.
- SHASTRI, Raghavar Mitthulal. The authorship of the Adhyātma Rāmāyaṇa Journ. G. N. Jha Research Institute. Vol. I, pp. 215-39.
- SHELLABEAR. Hikayat Sri Rama JRAS. Straits Branch. Nos. 70 and 71.

- SMITH, H. *Sutta—Nipata Commentary*. Pali Text Society. London 1916.
- SONNERAT, M. *Voyage aux Indes Orientales et a la Chine*. I—II. Paris 1872.
- SORENSEN, S. *Index to the names of the Mahābhārata*. London 1904.
- SRIKANTHIA, P. M. *Tragic Rāvaṇa*. Mysore University Magazine. Vol. VII.
- STUTTERHEIM, W. *Rama—Legenden und Rama-Reliefs in Indonesian*. Muenchen 1924.
- SUKTHANKAR, B. M. *The Rāma-Episode (Rāmopakhyāna) and the Rāmāyaṇa*. Kane Comm. Volume. Poona 1941, pp. 422-88.
- *The Nala-Episode and the Rāmāyaṇa*. A Volume of Eastern and Indian Studies Bombay 1939, pp. 294-303.
- *The Bhṛṅgu and the Mahābhārata*. ABORI. Vol 18, pp. 1-76.
- SUZUKI, D. T. *Studies in the Laṅkāvatāra Sūtra*. London 1930.
- TAVERNIER, J. B. *Travels in India*. Oxford Un. Press 1925.
- TELANG, K. T. *Was Rāmāyaṇa copied from Homer*. Bombay 1873.
- TEMPLE, R. C. *A Popular Legend about Vālmīki*. IA. Vol. 27, p. 112.
- *A Punjab Legend*. IA. Vol. 11, pp. 281-91.
- *The Legends of the Punjab*. Bombay 1884.
- THOMAS, F. W. *A Rāmāyaṇa Story in Tibetan from Chinese Turkestan*. Indian Studies (Lanman Comm. Vol.) 1929. pp. 193-212.
- THOMAS, P. *Epics, Myths and Legends of India*. Bombay s.a.
- UNGNAD, A. *A Babylonian-Assyrian Dictionary*.
- UTGIKAR, N. B. *The Story of the Daśaratha Jātaka and of the Rāmāyaṇa*. JRAS. Cent. Suppl. 1914, pp. 203-221.
- VAIDYA C. V. *The Riddle of the Rāmāyaṇa*. Bombay 1906.
- VANDIER, J. *La Religion égyptienne*. Paris 1944.
- VARADĀCĀRI, K. C. *Sri Kulaśekhara's Philosophy of Devotion*. Journ. Sri Venkateśvara Oriental Institute. Vol. 3, pp. 1-22.

- VENKATARATNAM, M.** Rāma, the greatest Pharaoh of Egypt. Rajamahendri 1934.
- VENKATARĀMA SĀSTRĪ, T. R.** The Rāmāyaṇa. JOR. Vol. 18, pp. 157-169.
- VIGNĀNĀNANDA.** The Srimaddevi Bhāgavatam Sacred Books of the Hindus. Vol. 26.
- VIGOUROUX, F.** Dictionaire de la Bible. Paris 1895.
- VINCENZO MARIA DI CATERINA DA SIENA, P F.** Viaggio all Indie Orientali, Roma 1672.
- VYAS, S. N.** The Civilisation of the Rākṣasas in the Rāmāyaṇa JOI. Vol. 4, p. 1 ff
- WARD, W.** A View of the History, Literature and Religion of the Hindoos. 3 vol. London 1877.
- WATANABE, K.** The oldest Record of the Rāmāyana in a Chinese Buddhist Writing. JRAS. 1907, pp. 99 ff.
- WEBER, A** Ueber das Rāmāyana Abhandlungen der koenigl. Akademie der Wissensch zu Berlin. 1870, pp. 1-80. English Transl by D. C. Boyd. Bombay 1873.
- Zwei Vedische Texte ueber Omina und Portenta. ib. 1858, p. 368 ff.
- Die Rāma-Tāpantiya Upaniṣad. ib. 1864, p. 279 ff.
- History of Indian Literature. London 1890.
- Episches in Vedischen Ritual. Sitzungsberichte der Berliner Akademie 1861.
- Rāmāyaṇa und Vedica. ib. 1891, p. 818 ff.
- Die Pali-Legende von der Entstehung des Sakya-und Koliya-geschlechtes. Indische Studien. Vol. 5 (Berlin 1862), p. 412 ff.
- WHEELER, J. T.** History of India. Vol. II. London 1869.
- WHITNEY, W. D.** Atharvaveda Samhitā. Harvard Oriental Series Vol. 7-8. Cambridge Mass. 1905.
- WILSON, H.H.** Rigveda Samhita. London 1854.
- WINSTEDT, R. O.** A Patani Version of the Rāmāyaṇa. Royal Batavian Society Feestbundel. Batavia 1929.
- An undescribed Malay Version of the Rāmāyaṇa. JRAS. 1944, pp. 62-73.
- The Malay Version of the Rāmāyaṇa. B. C. Law Vol. Pt. II, p. 1 ff.

- WINTERNITZ, M. A History of Indian Literature. 2 vol. Calcutta 1927.
- Jātaka Gāthās and Jātaka Commentary. IHQ. Vol. 4, p 1 ff.
- WOOLNER, A. C. Introduction to Prakrit. 1939
- The Date of the Kundamālā. ABORI. Vol. 15, p. 236 ff.
- ZIEGENBALG, B. Genealogy of South-Indian Gods. English Transl. Madras 1869.
- ZIESENISS, A. Die Rāma-Sage bei den Malaien. Hamburg 1928.

## घ-अनुक्रमणिका

(ग्रंथ, लेखक, विषय)

- सूचना** (१) अंक अनुच्छेदों के खोलक है ।  
 (२) रचनाओं के नाम मोटे टाइप में छपे हैं ।  
 (३) वाल्मीकि, वाल्मीकिकृत रामायण तथा पाश्चात्य भाषाओं के ग्रंथों को छोड़कर अन्य लेखकों तथा रचनाओं के सभी उल्लेख निर्दिष्ट हैं किंतु अनुक्रमणिका में उल्लिखित अनुच्छेदों में यदि किसी रचना के परिचय के अंतर्गत अन्य अनुच्छेदों का निर्देश किया गया है तो उन्हें अनुक्रमणिका में नहीं दुहराया गया है ।  
 (४) नितान्त गौण पात्रों को छोड़कर अन्य पात्रों से सबंध रखने वाली सामग्री उनके नामों के साथ निर्दिष्ट है । कथा-वस्तु के कुछ प्रसंगों का अलग उल्लेख किया गया है, अर्थात् अधमुनिपुत्रवध, काकवृत्तांत, कनकमूग, दिग्दर्शन, अभिज्ञान, लकादहन, मधुवन-ध्वंस, वानर-सेना का अभियान, सेतुनिर्माण, गिलहरी, सेतुभंग, शिवप्रतिष्ठा, गुप्तचर, मायाशीर्ष, सुवेल, नागपाश, सवि-प्रस्ताव, अग्निपरीक्षा ।  
 (५) अन्य दृष्टव्य विषय—राम-कथा, रामायण, आख्यान-काव्य, अवतार-वाद, भक्ति; दोषनिवारण, कामरूपत्व, कामगामिता, मायावी पात्र, पूर्व जन्म, आगामी जन्म, वरप्राप्ति, शापभाजन, स्वप्न, आकाशवाणी, सत्यक्रिया, भविष्यद्वाणी, यज्ञ, तपस्या, वैराग्य, आत्महत्याविचार, ब्रह्महत्यादोष, गर्वनिवारण; अप्सराएँ, वानर, राक्षस, यक्ष, अंगराग, वनूष, पुष्पक, मर्मस्थान, समुद्रमथन, नरमासभक्षण; लका, दण्ड-कारण्य, द्रुमकुल्य, पचाप्सर-सरोवर, कर्मनासा, तीर्थ ।  
 (६) सकेत-चिह्न रा० = रामायण; पा० वृ० = पाश्चात्य वृत्तान्त; उप० = उपनिषद् ।

अंगकौरवाट ३२३

अंगवपट्टि २९१

अंगद ५२१, ५२४-५२७, ५८५; २४०,

अंगदपैज २९८

५१८, ५१९, ५७३, ५७९, ५८२,

अंगदराजदार २८८, २८९, ५८५

५९२, ५९७, ६३९, ६५८, ७५३

अंगराग ८-१०, ४३१, ५०१, ६०० टि०

अंजना ६६४, ६६६-६६९, ६७१-६७९;  
२३९, २९२, ३४७, ३५७, ५१२-  
५१४, ६५८-६६०, ६८७

अंजनापवनंजय २३९; ५८, ६६९

अंधमुनिपुत्र-वध ८४, ४३१, ४३३, ७९२

अकपन ४५६, ५६३, ५८७ टि०

अकवर ३०८

अक्ष ५५१, ६५०(५)

अगरचन्द नाहटा ३००

अगस्त्य ४६०, ५२३, ५९५, ५९८,

६२७, ६४३; १ टि०, ३९, १७४,

१९०, १९५, २४१, २९२, ४५७,

४६१, ५१३, ६२५, ६२८, ६६६, ६६८

अगस्त्य-रा० १९५, ६२५ टि०

अगस्त्य-संहिता १४८

अगारिया राम-कथा २७७, ६३९

अग्नि ११, १७, ३५५, ५०२-५०८,

६००, ६६४ टि०

अग्निपरीक्षा ५६५, ६००-६०३

अग्निपुराण १५७; १४७, ३३६, ३८१,

४५४, ५१६ टि०, ५२३, ५२६,

५९३ टि०, ६३३

अग्निवेश रा० १७९; ५८३, ५८४;

पृ० ८२०

अग्रदास २९९

अच्युतानन्द ४२४, ६५७ टि०

अजातशत्रु ६

अतिकाय २६९, ५८२, ५८७, ५९३ टि०,

५९८, ६५० (५)

अत्रि १९७, ४३१, ४३९

अथर्ववेद २, १३, १११, ११२, १२९;

टि० में—४, ७, १७, १८

अथर्ववेद-भाष्यम् १३ टि०

अदिति ३६७

अद्भुतवर्षण २४४; २२५

अद्भुत बाह्याण १८

अद्भुत रा० (संस्कृत) १७६; १४९,

१८७, २८६, २८७, ३५१, ३६१,

३६५, ४०६, ४२०, ४२१, ५०३,

५१२, ५७४, ६२७ टि०, ६४४,

६९१, ७६०, ७६७, ७८१

—(असमीया) २८४

—(बंगाली) १५०, २८६, २८७

अद्भुताचार्य २८५, २८६, ३४३

अद्भुताश्चर्य रा० २८६

अद्रि-अद्रिका ६६८

अद्वैत (कवि) २२२, २२३

अध्यात्म रा० (संस्कृत) १७५; ९, ३१,

३५, १४८-१५०, १७७, १८८,

२२४, २५७, २७९, २८६, २९१,

२९५, २९८, ३००, ३०४, ३०६,

३४६, ३४८, ३५०-३५२, ३५६,

३५८, ३६१, ३६२, ३६४, ३६५,

३६७, ३७४, ३७५, ३७७-३७९,

३८३, ३८९, ३९२, ३९५, ४०१,

४३२, ४३३, ४३९, ४४१, ४४३,

४४७, ४५२-४५४, ४५८-४६१, ४६६,

४७१, ४७३, ४७६, ४७८, ४८८,

४८९, ४९९, ५०२, ५०४, ५०५,

५१२, ५१३, ५१५, ५२०, ५२६,

५२७, ५३१, ५३४, ५३५, ५३८,

५४१, ५४३, ५४४, ५४८, ५५२,

५८०, ५८२, ५८४, ५८६, ५८७,

५८९, ५९७-५९९, ६०६, ६१०,

- ६२५, ६२९, ६३३, ६५८, ६९१,  
७०२, ७१४, ७१७, ७३१, ७५३,  
७६०, ७८१, ७९०; टि० में—  
३४४, ३५९, ४६२, ५१६, ६३०  
—(उड़िया) २९१  
—(गुजराती) ३०६  
—(बंगाली) २८६, २८८  
—(मलयालम) २६७, ४६४, ५८७  
—(हिन्दी) ३००
- अध्यात्म रा० पांचाली २८६, २८८  
अनगररत्न २९१  
अनमहर्ष मायुराज २३०  
अनंत कदली २८४  
अनंतकृष्ण अम्बर ४६९ टि०  
अनंत भट्ट २५६
- अनघराघव २३२; ११५, २२५, २३७,  
२३८, ३५०, ३५१, ३९१, ४५२,  
४८५, ५१७, ५२२. ७६१, ७९१  
अनला ५४६, ६४५ टि०  
अनसूया ९, ४०९, ४३१, ५०१  
अनाम (हिन्दचीन) ३२३, ४४२, ४९०  
अनामक जातकम् ५२; ७७, ७८ टि०,  
३११, ३६२ टि०, ३९०, ४४३,  
४४६, ४९०, ५२२, ६०१, ७१४,  
७१६, ७६३
- अनारण्य ६५२, ६५४(४)  
अनुराघपुर ६६
- अप्सरार्ण ३९, ९८, १९१, ३४४,  
३४६ टि०, ३५५, ४०९, ४५८,  
४५९ टि०, ४८१, ५१३, ५१५, ५२६,  
५४४, ५८७(३), ५८९(४), ६१३,  
६३८, ६५० (३), ६५२, ६५४  
(१और४), ६६४, ६६८, ६७६, ६७७  
अब्ब रा० १७९, ५२३  
अब्दुल काविर ३०८  
अभिजातज्ञानकी ७९२  
अभिज्ञान ५२५, ५५०  
अभिधर्ममहाविभाषा १९, [७७, ७९,  
१३३, ७८८  
अभिनन्द २१७ दे० रामचरित  
अभिनवराघव २३६  
अभिषेक नाटक २२७; ११५, २२६,  
३१४, ३६४, ५७३, ५८३, ६१०  
अमरदास ५९  
अमरावती ८४, १५९, ७८०  
अमरेस्वर ठाकुर ३४३  
अमितगति ५९  
अमितवेग ३८२ टि०  
अमृतराव ओक ३०५, ६४०  
अयुतिया (श्याम) ३२९, ७६३  
अयोध्यासिंह उपाध्याय ३०१  
अयोमुखी ४५६, ४७३  
अय्यि पिल्लै २६४  
अरिमर्दन १९५, १९६, ६२५  
अर्कप्रकाश ६४२  
अर्जुन २९२, ३७६, ६८५, ७१३  
अर्जुन कार्तवीर्य ३४९, ३५१, ५१७,  
६५५  
अर्जुनदास २९१, ६७४, ६९७, ७९४  
अर्जुनविबाहू ३१५  
अलबदायुनी ३०८  
अलबस्नी ६०७  
अवंती ५८०



अवतारवाद (१) उत्पत्ति और विकास  
१४०-१४४, ७८९; (२) कृष्णा-  
वतार १४२, १४४, १४६-१४८,  
७८६; (३) रामावतार ४६, ११५,  
११७-१२८, १३९, १४३, १४४,  
१४७, १४८, ३२२, ३३३, ३५४-  
३७६, ७८९

अवतारचरित २९९

अवदान-शातक ५४

अवध-बिलास (लालदाम) २९९

—(बाघेली कुँवरि) ३०१

अविध्य ४९, ५४६, ५९३ टि०, ६०१

अवधोष ३२, ७७, ७८, १४७

अवधपति ५, २०

अश्विनीकुमार ३४६, ६१४, ६४८

अष्टयाम २९९

असमीया राम-कथा २८२-२८४

असाइत ३०६

असुर जाति की राम-कथा २७४

अहल्या ३४४-३४८, ५१३, ६७४, ७९३

अहिमहिरावणवध ३०५

अहिरावण २९६, ३०४, ६१४

आकाशवाणी ३६, ३५६, ३७५, ३९२

टि०, ४०९, ४३४, ५१०, ५२१,

५२७, ५५२ (१०), ५८३, ५८८,

६२५

आख्यान-काव्य (राम-कथा विषयक) २१,

६७-७२, ८२, ९१, १२९-१३२,

१४५, ७५९, ७६५, ७६६, ७८८

आगामी जन्म : कौशल्या २२४; दशरथ

२२४, ७८७; मंथरा ४५४, ७५५

टि०; राम ५१-५३; रावण ६४८,

६०; लक्ष्मण ६०; बालि ५२०,

५२१; विभीषण ५७१; शूर्पणखा

४६९; सीता ७५३ टि०, ७८७;

मुलोचना ५९४, हनुमान् ६५७ टि०;

अन्य १८८, ६१४, ७२० टि०, ७२७,

७५५ टि०, ७८७

आगरिया जाति की राम-कथा २७७

आग्निवेश्य गृह्यसूत्र १६

आत्मबोध १०८

—(जगतगम राय) १५०

आत्महत्या-विचार : अर्जुन ६८५;

कौशल्या-मुमित्रा ६०९; गुह ६०९;

दशरथ ४७१; भग्न २४४, ६०९;

गम ३८८, लक्ष्मण ७२३; वसिष्ठ

६२३, विभीषण ५७१; शत्रुघ्न २४४,

६०९; सीता ७४१, ५८६ टि०; सुग्रीव

५५४, दे० प्रायोपवेशन

आदम ३२२, ३३६, ६४९

आदिष्णुपट्टान जातक ८८

आदिव्य मित्र २७१ टि०

आविपुराण १७३; ३६७, ४९२ टि०

—(जैन) ५५, ६२

आवि रा० १८०

—(पजाबी) २९९

आदिवासी ११०, १३३, ६७०

आदिवासी राम-कथाएँ २७०-२७८, ३२४,

४८०

आनन्दकुमार स्वामी ७१० टि०

आनन्दतनय ३०५, ४७८

आनन्द रा० १७७; ३१, ३७, १०८,

१४९, १५०, १७५, १८०, २२५,

२६९, २९५, ३०४, ३२०, ३३७,

३४०, ३४३, ३४४, ३४६, ३४८,  
 ३५०-३५२, ३५७, ३६१, ३६२,  
 ३६५, ३६९, ३७२, ३७४, ३७५,  
 ३७९, ३८५, ३९२, ३९७, ४०१-  
 ४०४, ४०६, ४२२, ४३२-४३५,  
 ४३९, ४४१, ४४३, ४४७, ४५२-  
 ४५४, ४५८, ४६१, ४६४, ४६६,  
 ४७३, ४७५, ४७८, ४८४, ४८५,  
 ४८८, ४९८, ५००, ५०६, ५१३,  
 ५१५, ५१७, ५२०, ५२२, ५२५,  
 ५२६, ५३१, ५३४, ५३५, ५३८,  
 ५३९, ५४१, ५४३, ५४४, ५४७,  
 ५४८, ५५२, ५५४, ५६९, ५७०,  
 ५७१, ५७५, ५७६, ५८०, ५८२-  
 ५८५, ५८७-५८९, ५९१, ५९३,  
 ५९४, ५९७-५९९, ६०२, ६०६,  
 ६०७, ६०९, ६१०, ६१४, ६१५,  
 ६२५, ६३०, ६३२, ६३३, ६३५-  
 ६३८, ६४०, ६४१, ६४५, ६४८-  
 ६५०, ६५५, ६६८, ६७०, ६७६,  
 ६८२, ६८५, ६८७, ६९५, ६९७,  
 ७०२-७०४, ७०७, ७०८, ७१४,  
 ७१७, ७२०, ७३८, ७४४, ७४७,  
 ७५५, ७६०, ७६७, ७८०, ७८१,  
 ७८३, ७८४, ७८७; टि० मे—३५६,  
 ४५९, ४७२, ४७७, ५१६, ५२७,  
 ५४६, ५६६, ५६७, ५८६, ६२७,  
 ६४४, ७१०, ७९७

आनन्दवर्द्धन २२५ टि०

आयर, के० वी० ३२९ टि०

आर्यसूर ५४

आर्या रा० २५१

आत्मार १४७, ७९०

आशाएत ३०६

आशाधर ६३ टि०

आवर्षव्यञ्जनामणि २३५; २२५, २२६  
 टि०, ४६८, ४९४, ५४३, ५४८

आश्वर्य रा० २८६

आश्वलायन गृह्यसूत्र १७ टि०

इन्द्र ५२, ९४, ९६, ९७, १२८, ३४३-  
 ३४८, ३६१, ३६२, ४५९, ४६०,  
 ४७३, ५००, ५१३, ५१४, ५१७,  
 ६५२, ६६४, ६६६, ७९३; ११-१३,  
 १७, ३६, ८५, ८६, १४० टि०,  
 २०७, २०८, ४४७, ५२६, ५९०,  
 ६३२, ६३९, ६६८, ६९४, ७५३,  
 ७५७, ७९३

इंद्रजाल (उडडीश) ६४२

इन्द्रजित् ५९०-५९४, ३१४, ३९७,  
 ५५१, ५८६, ५८७, ६५० (४),  
 ६५२

इन्द्राणी ४१७

इक्ष्वाकु २, २०, ४७२

इन्द्रामचरित २६४

इन्दल ६२७

इश्वरदास (उडिया) २९१

—(हिन्दी) २९८

उगनद ए० १०० टि०

उडिया रामकथा २९१-२९३, ७९६

उत्तिगकर एन० वी० ६७ टि०

उत्तंक ६२२

उत्तरकाण्ड (असमीया) २८३, २८४

—(जात्रा) ३१५

उत्तरकाण्डचम्पू २५५

- उत्तरपुराण ६४; ५५, ६२, ६३, २५३, ३११, ३१४, ३३७, ३४१, ३६३, ३७३ टि०, ३७५ टि०, ३९०, ४००, ४०४, ४०६, ४१२, ४१६, ४४२, ४६५, ४६८, ४८६, ४९४, ५००, ५०२, ५१२, ५१३, ५१५, ५१७, ५२२, ५२४, ५२५, ५३३, ५३८, ५४२, ५४३, ५४७, ५५२, ५६७, ५७१, ५७३, ५८५, ५९१, ५९७, ६०१, ६०६, ६१०, ६४६, ६४८, ६५७, ६६९, ७११ टि०, ७१४, ७१६, ७४२, ७५२, ७६३
- उत्तररामचरित २२९; १०, १०६, १५०, २२५, २२८, २३१, ३१७, ३४३, ७१४, ७१७, ७६१
- उत्तररा० २५९
- उत्तररा० बम्पू २५५
- उद्धारराघव २३०; २२५, २३८, ४७१, ५२२, ५५४, ६०९
- उद्धारराघव २१९; ३३६, ३६१, ३८६, ४३३, ४४३, ४७०
- उद्भव (कवि) ३०६
- उन्मत्तराघव (भास्कर भट्ट) २४१; २२५, ४७३ टि०
- (विरूपाक्ष) २४२; ४७३ टि०, ५९५
- उपवेशपव ६१, ३४२, ७१४, ७२२
- उपेन्द्रमंज २९१; पृ० ८२०
- उमा; दे० पार्वती
- उरौव रामकथा ५५२ (६)
- उल्लाहराघव २३८, ६०९
- ऊर्मिला १०६, ११६, २२८, ३०१, ३९० टि०, ३९१, ४००, ४०३, ४३१
- ऊर्मिला ३०१
- ऊक्षरजा ५१३
- ऊश्वेव १ टि०, २-४, ७, ८, ११, १२, १७ टि०, १९, २०, ३२, ११०, १२९, १४१, १८२, ३४४ टि०, ६२१
- ऊश्वेवभाष्य ६४२
- ऊष्यश्रुग ३४३, ३५५, ३५८, ३८३
- एटहोवन, टि० मे—६७२, ६७८, ७०७
- एकनाथ १७५, १७७, ३०४; दे० भावायै रा०
- एजुत्तच्छन २६७
- एल्विन बी, टि० मे—२७८, ७२०
- एस्टलेन ए० २३४ टि०
- ऐतरेय ब्राह्मण ४, १४१
- ऐरावण दे० अहिरावण
- एल्सदार्फ २५२ टि०
- ओट्टुकूतन २५७
- ओपटं ४६९ टि०
- ओल्डनबेर्ग; टि० में ४८, ८४, ९६
- ककटि पापराजु २५९
- कंबर और तुलसी ४०३ टि०
- कंब रा० २५७; ११५, २१४, २२१, ३२०, ३५१, ३५३, ३९५, ३९८, ४१२, ४३४, ४६४, ५०२, ५१२, ५१५, ५१९, ५२०, ५२२, ५३१, ५८३, ५९२, ५९५, ६११, ६७०, ७२०, ७३२, ७८९; टि० में—४१३, ४३३, ४६०, ५१६, ५२५, ५७०
- कंबोविया ३२३

- कस ६४८(६)।  
 ककवित्त दे० रामायण ककवित्त  
 कट्टवट्टराजु २६२।  
 कण्णवशा रा० २६५  
 कतक ३१  
 कयाकोश ५९  
 कषा रा० २८४  
 कयासरित्सागर २५४; ५६, १३५,  
 २२५, २५२, ३११, ३२०, ३४५  
 टि० ३४६, ३४७, ६४४ टि०,  
 ६७२ ७१४, ७२१, ७४८  
 कनकमृग ४९०, ४९२-४९९ पृ० ८२०  
 कन्नड रा० २६९,  
 कन्याकुमारी ५७४(८), ६१४, ७८०  
 कपिहूत २४९  
 कपिष्ठल संहिता ७ टि०, १४ टि०  
 कवच ४७३, ४७७, ४७८ टि०, ५०० टि०  
 कर्ण २९२, ६८५  
 कर्णबान ६८५  
 कर्णाटक कवि चरिते २६९ टि०  
 कर्मनासा ५९७ टि०  
 कलिराघवसंहिता १४८, १६०  
 कलिसंतरण उप० १४८  
 कल्कि १४४  
 कल्किपुराण १७३, ४०३, ५४६ टि०  
 कल्पतरुदास २९१  
 कल्पद्रुम अष्वदान ५४  
 कल्पनामंडलिका ७९  
 कल्पाषपाद ६२३, ६२४; दे० सौबास  
 कविचंद्र २५८, २८८  
 कवि जानकी ३१५  
 रा० ५०
- कविताकौमुदी ३५४, ३९२ टि०, ४४७  
 टि०  
 कविताबली २९४, ३७९, ३९७, ४३२  
 कविमल्ल २१९  
 कदयप ३६७, ५१७, ६५४(२)  
 कहावली ५९, ६१, ७१४, ७२२  
 काग-सेग-दुई ५२  
 कापा ई० एम० ९९ टि०  
 कांतकोइलि २९१  
 काक-वृत्तान्त ४३९, ५५०  
 काचविभुदु २५९  
 काठक गृह्य सूत्र १३, १६, १७  
 काठक संहिता ८, १२९, १४०, टि०  
 मे—४, ७, १४  
 काणे पी० वी० १४० टि०, १४४ टि०  
 कात्यायन श्रौतसूत्र १४ टि०  
 कावम्बरी २५२, ४७४, ७९५  
 काँनर जी० पी० ३२९ टि०  
 कान्हुदास २९१  
 कामयामिता ५६, ६४९  
 कामरूपत्व ५६, ६४९, ६६४, ६६७  
 कार्तवीर्य ३४९, ३५१, ५१७, ६५५  
 कालनिर्णय रा० १७९, ४०१, ७६०  
 कालनेमि २३, ५५८, ५८७  
 कालनेमिर रायबार २८९  
 कालिका पुराण १७२; ४०७, ७८५  
 कालिदास २७, १३२, २१३, २२६; दे०  
 रघुवश  
 कालेंड ३३०  
 काबेल ३२ टि०, ७८ टि०  
 काशीराम २८९, ६१४

कावामीरी रा० २८१; २७९, ३१२,  
३४८, ३५८, ३६१, ३६७, ३९२,  
४०६, ४१३, ४३३, ४३५, ४३९,  
४४३, ४५४, ४७०, ५००, ५०५,  
५३८, ५४३, ५४४, ५५०, ५७५,  
५८८, ५९७, ६४३, ६४४ टि०,  
६४५, ६५०, ७१४, ७२३, ७४३,  
७४९, ७६३, ७८१

किर्कल २७ टि०

कीकवी देवी ३४३, ५७२, ६०५, ६९८,  
७२३

कीय ए० बी० २७, टि० मे—१७, ५८,  
७८, ७९, ९२, १०६, १३५, २११,  
३४४

कीबे एम० बी० ११३ टि०

कुन्ती २९२

कुन्वमाला २३१; २२५, ७१४, ७१७,  
७५५, ७६१

कुमकर्ण ५८९, ६४४-६४९

कुमीनसी ६४५, ६५२

कुकुआ दे० शाता

कुणाल आतक ७४, ८१

कुप्युस्वामी शास्त्री २२६ टि०

कुबेर ४५८, ६४२, ६९४; दे० वैश्रवण

कुब्जा ४५४, ४६९, ७८७

कुमारतंत्र ६४२

कुमारदास २१६, दे० जानकीहरण

कुमारलाल ७९

कुमारसंभव ३२ टि०

कुमुदेदु ५९

कुदक्षेत्र ६३७

कुलकर्णी बी० एम० २५३ टि०

कुलशेखर १४७

कुस ७३५-७५१, ७७२

कुसलवज ६, ४००, ४१०

कुसीलव ४०, १३७, ७३६, ७५९,

७८८

कूचिभट्टारक ६२

कूर्मपुराण १५६; १४०, १५२, ३४१,

४९०, ५०४, ५८०, ६४५

कूर्मवितार १४०

कृतिवास रा० २८५; ३२, २८२, २८३,

२८८, २९२, २९३, ३३६, ३३८-

३४०, ३४५, ३४८-३५१, ३५३,

३५८, ३६७, ३७७, ३७८, ३८३,

३८९, ३९२, ४१०, ४३४, ४६७,

४८९, ५००, ५२६, ५२७, ५३१,

५४४, ५४६, ५४७, ५५२, ५७०,

५७७, ५८६, ५८५, ५९७, ६१३,

६२४, ६४९, ६५०, ६८६, ६९५,

७०३, ७१४, ७३२, ७९५, टि०

मे—३४४, ३५९, ५४५, ५९३,

६६४

कृत्यारावण २३६; २२५, ४६८, ५८३,

५९७

कृपानिवास १५०

कृष्ण २४५, २४७, ३६४, ३७६, ६८५,

६८६, दे० अवतारवाद, भक्ति

कृष्ण-काथा ७८६, ७८७, ४०४, ५९१

टि०

कृष्णकांत न्यायभूषण २८७

कृष्णचंद्र तर्कालकार २४९

कृष्णचरण पट्टनायक २९१

कृष्णचरण साहू २९२ टि०, ४३५ टि०,

कृष्णदास कवि ६३  
 कृष्णदास मुद्गल ३०५  
 कृष्णदेव उपाध्याय ६०३, ७२३ टि०  
 कृष्णमोहन २४८  
 कृष्णेश २५१  
 कृष्णोप० १४८, ७८७  
 केदास्नाय मिश्र ३०१  
 केरल बर्मा रा० २६८  
 केर्न एच० १९ टि०, ७९ टि०  
 केवट २०२, २२२, २९५, २९८, ४३२  
 केशव कवि ३००  
 केगव त्रिपाठी २९१  
 केशवदास ३००, दे० रामचन्द्रिका  
 केशव पट्टनायक (हरिचन्दन) २९१  
 केशव रा० २९१  
 केसरी २३, ५१०, ६५९, ६६०, ६६४-  
 ६६८, ६७१, ७७८  
 कंकसी ५६९ (३), ६४४, ६४६, ६४९,  
 ६५०, दे० निकाय  
 कंवेयी ३३८, ४४७-४५३, ७५३, २७,  
 ३०१, ३७५ टि०, ३७८, ४००,  
 ४०४, ४३०, ४३४, ६४१, ७२३  
 कंवेयी (काव्य) ३०१  
 कोकिलसंवेश २४९  
 कोनबुद्ध, दे० गोनबुद्ध  
 कोयाजी, जे० सी १४० टि०  
 कोलमैन, टि० मे—४९३, ६७६, ६८७  
 कोशलकिशोर ३०१  
 कोशल्या ३३७, ६०९, ७५३; २७, ५१,  
 २२९, ३७५, ३७८  
 कौमिक सूत्र ४ टि०, १७, ३८

कौषीतकी उप० ६  
 कौषीतकी गृह्यसूत्र १७ टि०  
 क्रूक डब्लू ३८, ५७७, ५९७ टि०, ६७३  
 टि०  
 क्रौञ्च ६४५, ६५५ (५)  
 क्षीरस्वामी २३६  
 क्षेत्रेश चट्टीपाध्याय १०३ टि०  
 क्षेमकरणदास द्विवेदी १३ टि०  
 क्षेमेश २१८, २५२; दे० दशावतारचरित,  
 रा० मजरी  
 खबिर गृह्यसूत्र १६ टि०  
 खर ४६३, ४६६, ६४४, ६४५  
 खरदूषण ६०, ४६५, ४९०, ६३१  
 खुद्दक निकाय ६६  
 खुमान ३००  
 खोतानी रा० ३१२; ५४, ३१०, ३३६,  
 ३४०, ३४२, ३५१, ३५४, ३६२ टि०,  
 ३८० टि०, ३९०, ४००, ४०४,  
 ४०६, ४१४, ४६२, ४७०, ४७४,  
 ४९८, ५१९, ५७५, ५८१, ५८६,  
 ५९७, ५९८, ६०१, ६०७, ६४३,  
 ७६३  
 खमेर रा० दे० रामकैलि  
 गगाधर महाडकर २४५  
 गगानाथ झा ७९१ टि०  
 गगा रामदास २८४  
 गणकचरित २८४, ५३३, ५३४,  
 गणेश (कवि) ३००  
 गणेश पुराण ३४६  
 गया १७८, ४३५  
 गरुड १९८, ५६३, ५८६, ६४१, ६४४  
 टि०, ६८६

- गरुड़ पुराण १६०, ३६८ टि०, ४३५,  
 ४६४  
 गर्ग संहिता ७८७  
 गर्नर ७८ टि०  
 गर्वनिवारण; अंगद ५२१; अर्जुन ६८५;  
 गरुड़ (सत्यभामा, सुदर्शन) ६८६;  
 नल ५७६; परशुराम ३५१ टि०;  
 हनुमान् ४६१, ५३१, ५५४, ५८०,  
 ६०८  
 गवब ३०४  
 गायत्री रा० १८२  
 गिरधरदास (गुजराती) ३०६  
 गिरधरदास ३०८  
 गिलहरी २७२, २७३, ४७४, ५७७  
 गीतगोविन्द २५०, ७८९  
 गीतराघव २५०  
 गीतावली २९४, ३४६, ३७९, ४०३,  
 ५६८ टि०, ५८८, ६३८, ७१४, ७३०  
 गीति रा० २८४; १५०, ४७४, ४९८,  
 ५०० टि०  
 गुजराती लामकथा ३०६  
 गुणभद्र ५७, ६२; दे० उत्तरपुराण  
 गुणभद्र (अनुवादक) १०२  
 गुणाद्वय २५२, ३११, ७१९, ७४३  
 गुप्तचर ५६१, ५८२  
 गुह ३८४, ४३२, ६०९  
 गोसाल्वेस ३३०; दे० पा० वृ० नं० २०  
 गोकर्ण ६२४, ६४९, ६५०, ७८०  
 गोनबुद्धराजु २५८, २५९  
 गोपाल ३०८  
 गोपाल कृष्णाचारियर २५७ टि०  
 गोपाल लाल बर्मा २७१ टि०  
 गोपालोत्तरतापनीय उच० १४८  
 गोपीनाथ कविभूषण २९१  
 गोपीनाथ रा० २६३  
 गोपीनाथ राव १४७ टि०  
 गोभिल गृह्यसूत्र १७ टि०  
 गोरेसियो २२, २७  
 गोविन्ददास ४७७ टि०  
 गोवर्द्धन ५८१  
 गोविंदराज ३१, १८२, ३४३, ४०६,  
 ४१९, ५२२  
 गोविंद रा० ३०३, ५४७, ७२३ टि०  
 गोविंद सिंह ३०३  
 गोसावीनन्दन ३०५  
 गौतम ३४४-३४८, ५१३, ५१४, ६२४,  
 ६२५, ६७२, ६७४, ६७५, ७९३  
 ग्रासमैन १२ टि०  
 ग्रिफित्स ४८० टि०  
 ग्रियरसन; टि० मे—६५, १७६, २८१  
 ४८१  
 घट रा० १०८  
 खंडी पुराण २९१  
 चंदा झा ३०१  
 चंद्रकीर्ति ५९  
 चंद्रबुल २४९  
 चंद्रभान ९३ टि०  
 चंद्रभान बेदिल ३०८  
 चंद्रमा ४००, ४८९  
 चंद्रसागर वर्णी ५९  
 चंद्रावती २८६; दे० रा० गाथा  
 चम्पा राज्य ३२३, ७६३  
 चम्पू रा० २५५, २९१  
 चतुषत्रमाहापुरिसचरियं ५९

चक्र कवि २२१  
 चक्रवर्ती ए ५६ टि०  
 चक्रवर्ती सी० ११२ टि०  
 चक्रवाक ४७४, ७९५  
 चरित रा० ३१५  
 चरियपिटक ८४, ८५ टि०  
 चांद्र रा० २०२, ४३२  
 चामुण्ड राय ६२, ६३  
 चावलि सूर्यनारायण मूर्ति ४६१ टि०  
 चितामण विनायक वैद्य २७, ११०, ११२  
 ४९०; टि० मे—६५, ८०, १४२  
 चिताहरण चक्रवर्ती ११२ टि०  
 चित्रकूट माहात्म्य १८०  
 चित्रबंधरा० २४८  
 चिदंबर २४५  
 चिरकारी ३४५, ७९३  
 चिलुस्की ६५ टि०, ४२७ टि०  
 चीगनबाला ३३०; दे० पा० वृ० न० १७  
 चीसनिस ३१९ टि०  
 चैंचिया २५९  
 च्यवन ३२, ३८, १३२, ६२०  
 छस्त्रि राम २३६, २२५, ७१७, ७४९  
 छांदोग्य उप० ५, १२९  
 जगत राम राय १५०, २८७, ५९४  
 जगत्मोहन राम २९०  
 जगन्नाथ खुषतर ३०७  
 जगन्मोहन रा०; दे० बलरामदास रा०  
 जटायु ४७०-४७२; ५२७  
 जनक ६, ८९ टि०, ४०७-४०९, ४३४,  
 ७३३; २०, १०६, २०८, २०९,  
 २२९, ३३८, ७९२  
 जनी जनार्दन ३०५

जयंत २०७, ४३९, ६५२  
 जय-विजय ३६६ टि०, ३७२, ६४८  
 जयदेव (गीतगोविंद) २५०  
 —(प्रसन्नराव) २३७  
 —जी० शर्मा १३ टि०  
 जयहिषा जातक ८३  
 जयरामसुत ३०४  
 जयराम स्वामी बडगाँवकर ३०५  
 जलधर ३४८, ३७२  
 जलक्रिया ६८, ८९; दे० पिंडदान  
 जहाँगीर ३०८, ३०९  
 जाववती ६१४, ७८७  
 जाबवान् ५२४, ५२७, ५४७ (७),  
 ५५५, ५८४, ५८७ (२), ६६३,  
 ६६४, ६७४, ७५५, ७८७  
 जांस्टन ३२ टि०, ७८ टि०  
 जातक-साहित्य ५०-५३  
 जातकदृढ-कथा ६६ टि०  
 जातकदृढवर्णना ५१, ६५, ६६, ६८, ७३,  
 ७५ टि०, ७७, ८१, ८३, ८४, ८५  
 टि०, ६४२  
 जातकमाला ५४, ६२२  
 जानकीगीता २५०  
 जानकीपरिणय (चक्रकवि) २२१,  
 ३४८, ७८९  
 —(रामभद्र) २४४, ५२२, ६०९  
 जानकीमंगल २९४, ३९७  
 जानकीराघव ७९२  
 जानकीहरण २१६; ११५, १५०, २१२,  
 २१४, २२१, २५७, ३५३, ३५६,  
 ४०३, ४५२, ६११, ७६१, ७८९  
 जाबालि ९०, ४३१, ४७६



जायसी ६३९ टि०  
 जावा ३१३-३२२  
 जिनदास ५९  
 जिनरामायण ५९  
 जिनसेन ५५, ६२, ६३ टि०  
 जीवक ३१२, ५८६  
 जीवस्तुति रा० २८४  
 जैव अवेस्ता ९९, १४० टि०  
 जैन राम-कथा ५५-६४; ३५४, ५९५,  
 ७५९, ७६६, ७८२  
 जैन रा० (हेमचंद्र) ५९, ६१, ४७२ टि०,  
 ५७३, ७१४, ७२२, ७४०  
 जैन साहित्य और इतिहास ५८, ६२ टि०  
 जैमिनी गृह्यसूत्र १६ टि०  
 जैमिनी पुराण ३००  
 जैमिनी ब्राह्मण ६, ३४४  
 जैमिनी भारत १८५-१८७; २६९, ६१५,  
 ६३९ टि०  
 —(कन्नड़) २६९  
 जैमिनी रा० ३५ टि०  
 जैमिनीय अथर्ववेद १८५; २२५, ३०२,  
 ६३४, ६३९, ७१४, ७२०, ७४९,  
 ७५३, ७९१  
 जैमिनीय उप० ब्राह्मण ४  
 जोन्स ३३०  
 टावर्निये ३३०; दे० पा० वृ० नं० ११  
 टीका रा० ७९६  
 टेम्पल आर० सी० ३९ टि०  
 टोटम ११०  
 थारमेस्टेर ९९ टि०  
 डॉल्डन ११० टि०  
 हुक्का जे० ए० ३३०; दे० पा० वृ० नं० १४

डुसो आर० १०० टि०  
 डे नोबिले ३३०  
 डे पोलिये ३३०; दे० पा० वृ० नं० १३  
 डे फरिया ३३०; दे० पा० वृ० नं० ५  
 डेहो पी० ११० टि०  
 डैप्पर ओ० ३३०; दे० पा० वृ० नं० ४  
 तंत्रवातिक ५१४ टि०  
 तत्त्वसंग्रह रा० १७८; ३६, १८२, १८९,  
 ३४५, ३४६, ३६१, ३६२, ३६८,  
 ३७२, ३७५, ३९८, ४००, ४४३,  
 ४५२, ४६०, ४७८, ४९८, ५०० टि०,  
 ५०२, ५०५, ५१७, ५२२, ५३९,  
 ५४१, ५५२, ५७४, ५९७, ५९८,  
 ६०७, ६१४ टि०, ६४०, ६४८,  
 ६७०, ६७४, ६८५, ७०२, ७०३,  
 ७२९, ७६०, ७८० टि०, ७८७  
 तत्त्वसारायण १४८, ६९१, ७२६  
 तपस्या; अंजना ६७२, ६७४; अहल्या  
 ३४६, ३४८; गौतम ३४५, ५१४;  
 जनक ३६५; दशरथ ३५४; परशुराम  
 ३५१, राम ३८५, ४३८, ४४६,  
 ५२३, ७५३ (५), ७५६; रावणादि  
 ६४९; लक्ष्मण ३८५, ४६१, वानर  
 ५२७; बालि ६५५; बाल्मीकि ३४-  
 ३८; वैदेवती ४१०, ४२३; वैश्रवण  
 ६४९; धम्मूक ६२८-६३२; क्षुर्य-  
 गच्छा ४६९; सीता ७५३ (५),  
 ७५६; हनुमान् ५१२, ५८०, ६५५  
 (२), ६५७, ७०४, ७५३; अन्य  
 ५६, ३६७, ३६८, ४२२, ४७२,  
 ६२७, ६४१, ६४४, ६४८

**तमिल राम-कथा** २५७; दे० कंब रा०  
 तरणीसेन २८५, २८८  
**तर्जुमा-इ-रा०** ३०८  
**ताटका** ३८९  
**तारसार उप०** १४८  
**तारा** २०६, ५१५, ५१७ टि०, ५१८,  
 ५२०, ६०६, ७२६  
**ताराबाद दास** ४०९ टि०  
**तिक्कन याग्वी** २५९  
**तिपिटक** ६६, ८२-८९, ९०, १०३,  
 १३०, १३१, ७५९, ७६६  
**तिष्वाती रा०** ३११; ३१०, ३१२, ३४०,  
 ३४२, ३४५, ३६१, ३९०, ४००,  
 ४०६, ४१४, ४४३, ४४५, ४९४ टि०,  
 ५१९, ५२०, ५२५, ५२६, ५२७ टि०,  
 ५७६, ५९८, ६०१, ६४३, ७१४,  
 ७४३, ७५६, ७६३, ७९२  
**तिलोयपण्णति** ५५  
**तिसट्ठी-महापुरिस-गुणालंकार** ६३  
**तीर्थ** १७८, ६३७, ७८०, दे० अमरावती,  
 अबती, कुरुक्षेत्र, गया, गोकर्ण, गोवर्द्धन,  
 देवघर, धर्मारण्य, पुष्कर, मथुरा,  
 रामगिरि, श्रीरगम्  
**तुंबुरु** ४५८  
**तुआलाफी** ३२८  
**तुर्किस्तान** ३१२  
**तुलसीवर्षान** १४६ टि०  
**तुलसीदास (माताप्रसाद)** २९५ टि०  
**तुलसीदास** २९४; २२२, २९७-२९९,  
 ३०२, ३०८; दे० रामचरितमानस,  
 मीताकली, कवितामाली, विनयपत्रिका,  
 हनुमानबाहुक

**तुलसी साहब** १०८  
**तेलांग के० टी०** ९२ टि०  
**तेलुगु राम-कथा** २५८-२६३  
**तेलंगा गोपाल** २९१  
**तैत्तिरीय आरण्यक** ४, १५, १६, १४०,  
 १४१, १४२ टि०  
 —उप० ३६८ टि०  
 —प्रातिशाख्य २९  
 —ब्राह्मण ४ टि०, ६-१०, २० टि०,  
 १४०, १४१, ४०८  
 —संहिता ४ टि०, ७ टि०, ८, १४ टि०,  
 १४०, १४१  
**तोरवे रा०** २६९; ३२०, ३७४, ४१८,  
 ४३९, ४८४, ५३८ टि०, ५८३,  
 ५८६ टि०, ५९८, ७३२  
**त्रिजटा** ५४५-५४७, ३१४, ६५४ (१),  
 ७९७  
**त्रिपादविभूति महानारायण उप०** १४८  
**त्रिपुरारिदास** ७९६  
**त्रिषष्टिलक्षण महापुराण** ५५, ६२  
 —शलाका पुरुषचरित ५५, ५९  
 —शलाका पुषवपुराण ६३  
 —स्मृतिशास्त्र ६३ टि०  
**त्रिशिरा** ४६६, ५६३, ५८७ टि०, ६४५,  
 ६५० (५)  
**त्सा-पौ-त्संग-किंग** ५३  
**थोनबुरी** ३२५  
**थोमस, एफ० डब्लू** ३११ टि०, ७२१ टि०  
**थोमस, पी०;** टि० मे—१४८, ३५६,  
 ३५७  
**दण्डकारण्य** ४७२, ६१०  
**दशकुमारचरित** २५२

वशाख ३३३, ३३६-३४३, ३५४-३५८,  
४४५-४४९; ३, २०, ५१, २२१,  
३२७, ३२८, ३५३, ३५४, ४३३,  
४३५, ४७१, ४७२, ५७४ (२),  
७४३, ७७६ टि०, ७८३, ७८७

वशाख-कपालम् ५३; ७७, ३११, ३४०,  
३६२ टि०, ३९०, ४४३, ४४५, ४४८,  
४८२, ७३२

वशाख-जातक ५१, ६५-८१; ५०, ८२,  
८३, ९०, ९२, १०१, १०४, १३०,  
३४०-३४३, ३६२ टि०, ३९०,  
४०५, ४०६, ४२७, ४२८, ४३६,  
४४३, ४४५, ४४८, ४८२, ७६५,  
७६९

वशाखतार-चरित २१८, ४०६, ६४५,  
६४९, ७१४, ७१७

वाङ्मि रा०; दे० बलरामदास रा०

वानपर्व ६१४

वामोदर मिश्र २३४

वाशरथि राय ६८६

दास, ए० सी० २९

दासगुप्त, एस० एन० १७४

दिनाग २३१

दिवर्णन ४११

दिनेशचन्द्र सेन ६५, ७६, ७७, ८९, ९०,  
१०१-१०३, १०८, २७९, ६९२,  
७६५; टि० मे—३, ८४, २८५,  
३४५, ४०९, ५१२, ६८७

दिलीप ३३६, ३५४ टि०

दिवाकर प्रकाश भट्ट २८१

दिव्यावदान ५४

वीनकृष्णदास ६५८

वीपवंशा १०२, ११३

दुँडुमि ५१५-५१७, ५२६

दुँडुमी ४५४

दुरंत रा० २०९

दुर्गाचरण वद्योपाध्याय २८७

दुर्गावर २८४

दुर्गासकर प्रसाद सिंह ७२० टि०, ७२३  
टि०

दुर्वासा २४१, ४५८, ४७३, ६४८,  
७५३

दूतांगद २४०, २२५

दूषण ४६३, ४६६, ६४४, ६४५

देदिए एच० ३२८, ३२७ टि०

देवकी २२४, ३६८, ३७५

देवघर ६५० टि०

देवचन्द्र ५९

देवचम्प जातक ७३ टि०

देवपाल १७ टि०

देवप्य ५९

देव रा० २०७, ४३९

देववर्णिनी ६४५, ६४९

देवविजयगणि ५९, ६१, ७२२ टि०

देवी (चंडिका) ७८५, ५३७, ३४६,  
५२३, ५९७; दे० पार्वती

देवीप्रसाद भट्टाचार्य १५० टि०

देवीप्रसन्न पट्टनायक २९१ टि०

देवीभागवत पुराण १६८; ३२, १६३,  
३६१, ३६४, ३६८, ३७०, ३९१,  
४१०, ४६४, ४८९, ४९९, ५००,  
५०३, ५०४, ५२३, ७८५

दोषनिवारणः कैंकयी ४५०-४५३; मंथरा  
४५४; राम ५११, ५१८, ५२२,  
७३०-७३४; रावण ४८८, ५४१;  
सीता ४९६

दोहावली ६७०

दौलतराम ५८, ३००

दुमकुल्य ५७४ (०)

द्रौपदी २९२, ४२४, ५०४ टि०

द्वारकानाथ कुंडू २८७

द्विविशति अवदान ५४

द्विज तुलसी २८९

—भवानीदाम २८६

—राम २८९

—श्रीलक्ष्मण २८६

द्विपव रा०; दे० रगनाथ रा०

—(कट्टवरदराजु) २६२

धनजय (राघवपांडवीय) २४५

—(गणकचरित) २८४, ५३४

—भज २९१; पृ० ८२०

धनराज शास्त्री १८४

धनुष (१) शिव—३५०, ३९१, ३९२,

५२३, ५७३, ७९४; (२) विष्णु—

३५०, ४६०, ७९४

धम्मपद ७३, ७५

धर्मकीर्ति ५९, १०१

धर्मखंड १८९; ३६२, ३९७, ३९८,

४३२, ४५२, ४९८, ५०५, ५४१,

५४३, ५९८, ६७२

धर्मपरीक्षा ५९

धर्मरिष्य ६३४, ६३७

धान्यमालिनी ५४०, ५८७, ६५०

धीरनाग २३१

धीरेंद्र नर्मा ३४४ टि०, ३४८ टि०

धर्मास्थानम् ५९

धोबी ७१९-७२१, ७२३, ७२७, ७५५

ध्यानमंजरी २९९

ध्वन्यालोक २२५ टि०

नद १८८, ३६७, ७८७

नदि ६५३, ६५४ (२)

नदिमुनीश्वर ६२

नरमासभक्षण ६२१-६२७

नरसिंहाचार डी० ए० ६५ टि०

नरसिंहाचार्य आर० २६९

नरहरि २६९

नरहरिकविचंद्र २९१

नरहरिदास २९९

नरांतक ५६३, ५८२, ५८५ टि०, ६५०

(५)

नर्मकथाकोष ६१४, ६१५

नर्मदा ३०६ दे० रा० नो मार

नल ५७३-५७६, ६१४

नलकूबर ६५२, ६५४

नलिनीकांत भट्टशाली २८५

नलोपाल्यान ४१, ४२, २४५

नाकर ३०६

नागचंद्र ५९

नागपाषा ५८६

नागराज ६३

नागेश ३०५

नाथूराम प्रेमी ५८, ६२

नानक ३८

नामादास २९९

नायक टी० बी० २७७

नामूहू मु० शंकर राज् ४०३ टि०  
 नारद ३७४; ४४, १९३, २०४, २१०,  
 ३७३, ३८३, ६४३, ६७२  
 नारदीय पुराण १५८, ३६० ५८० ६३५,  
 ६७०

—भक्तिसूत्र १४६

नारायण शास्त्री १०५ टि०  
 नामंन, एच० मी० ७३ टि०  
 नालायिर प्रबंध १४७  
 निबार्क १४६  
 निकषा ५५८, ५६०, ५६८ (४बीर ६),  
 ६१४, ६४४; दे० कंकली

निद्रा देवी ४६१, ५००

निमि आतक ८९ टि०

निराला ७८५ टि०

निबंधनोत्तर रा० २५९

निशाकर ५११, ५२७

नीबुहर मी० ४१३ टि०

नील ५७३, ५७५, ५८५ टि०

मीलकठ १८२

नीलमाधव सेन ५६५ टि०

नृत्यराघबमिलन ४०४ टि०

नृत्यरा० २९१

नृसिंह पुराण १६५; १७०, ३४६, ३५०,  
 ३५२, ३५६, ३६१, ३९५, ४०२,  
 ४३९, ४६४, ४९२ टि०, ४९४,  
 ५०२, ५१६ टि०, ५१७, ५१९,  
 ५२६, ५८०, ५८५, ६०१, ६३५,  
 ६७४, ७१५, ७३५

—(उद्दिष्ट) ७८७

नृसिंहावतार १४१, १४४, २५७, ५७०  
 टि०, ६४८

पंचतांत्र (लोको) ३२७, ४३३

पंचाप्सर-सरोवर ४५९ टि०

पंथरा० ५९

पठमचरित ५९, ३९४ टि०, ४४३, ४७२  
 टि०, ५४५ टि०, ५४७, ५७२, ६९९  
 ७९७

पठमचरियं ६०; ५५, ५६, ५८, ५९,  
 २१४, २३९, ३०४, ३३६-३४१,  
 ३४४, ३४९, ३६३, ३७३ टि०,  
 ३७४, ३७५, ३८३, ३९२, ३९४,  
 ४००, ४०४, ४०६, ४०७, ४१०,  
 ४१२ टि०, ४३२, ४४६, ४४८,  
 ४५२ ४५३, ४५८, ४६३, ४६५,  
 ४६६, ४७१, ४८४, ४९०, ५००,  
 ५१३, ५१५, ५१७, ५२२, ५३६,  
 ५३८, ५४१, ५४४, ५४६ टि०,  
 ५४७, ५५०, ५५२ (१३), ५६७,  
 ५७०, ५७१ ५७३, ५८६, ५८७ टि०,  
 ५८९, ५९३, ५९६, ५९७, ६१०  
 ६११, ६२२, ६२८, ६३१, ६३२,  
 ६४३, ६४६, ६४८-६५०, ६५३,  
 ६५४, ६५७, ६५८, ६८७, ७११ टि०,  
 ७१४, ७२२, ७२८, ७४०, ७८१,  
 ७८२,\* ७९७

पणिक्कर आर० एन० २६४ टि०

पतञ्जलि ८८, १३२

पद्मभास्त्र ६३९ टि०

पद्मवल्ली २९९

पद्मचरित ५८, ५९, ३९४ टि०, ४००  
 टि०, ४६३, ४७२, ५४१ टि०, ५४७,  
 ७१४, ७१८, ७४६

पद्मदेवविजयमणि ५९, ७२२ टि०

पद्यनाम ५९

पद्यपुराण (जैन) ५९

—(रङ्गू) ५९

—(हिन्दी) ३००

—(संस्कृत) १६२; ६, १०, ३२, १७९, १८५, २२५, २८५; ३०२, ३३६, ३४०, ३४३, ३४६, ३४८, ३५२-३५४, ३५६, ३५८, ३६१, ३६२, ३६४, ३६८, ३६९, ३७२, ३७४-३७७, ३७९, ३८०, ३८९, ३९२, ३९५, ३९७, ३९८, ४००-४०२, ४०८, ४३३, ४३५, ४३९, ४४७, ४४८, ४५४, ४६२, ४६४, ४७२, ४७८, ४८८, ५१२, ५१५, ५१९, ५२०, ५३२, ५७१, ५७३, ५७४, ५८०, ५८२, ५८९, ५९७, ५९८, ६०७, ६१०, ६२८, ६३४, ६३५, ६४८, ६४९, ६५९, ६९७, ७०५, ७१४, ७२०, ७२७, ७४९, ७५६, ७६०, ७८०, ७८४, ७८७, ७९१; टि० मे—१९, १९४, ३४५, ५१६, ६२५, ६२७

परधान राम-कथा २७५

परमत्वबोत्तिका ७३ टि०

परमेश्वर कवि ६२

परशुराम ३४९-३५२; ४, १०, ११८, १४१, १४४

पवनजय ६६९; वे० हनुमान्

पांचजन्य ३६१

पांचरात्र १४६, १४७, १५९, ३३७, ३६०

पाणिनि २७, ४१

पातानी राम-कथा ३२१; ३१९, ३४१, ३९७, ३९९, ४०६, ४१५, ४१९, ४९८, ५०२, ५१२, ५३१, ५३९, ५७१, ५७६, ५७८, ५९६, ५९८, ६१५, ६५०, ६५५

पातालखंड राम २८४

पारस्करगृह्य सूत्र १७

पार्श्वटि १०३ टि०

पार्वती ३६५, ४७५, ५०३ टि०, ५८४, ५९७, ६५०, ६५३, ६५४ (६), ६६६ टि०, ६७३ टि०, ६७४; वे० देवी

पालक पालाम ३२७; ३३६ टि०, ३४२, ३४३, ३६५, ४०६, ४१७, ५१४ ५७२

पारचात्य वृत्तान्त ३३०

(१) लिखो डा सैदा ३४४, ३५७, ३५८, ३६१, ४०६, ४२४, ४४३, ४४६, ४६१, ४६४, ४७०, ४९४, ५००, ५०२, ५०३, ५१२, ५१३, ५१७, ५१९, ५२०, ५३२, ५३३, ५३९, ५५२, ५७१-५७४, ५७७ टि०, ५८३, ५९८, ५९९, ६१४, ६४३, ६५०, ६७४

(२) वि ओपन होरे ४४३, ६०६, ६०७, ७८० टि०

(३) आफगोबरय ३९७, ३९९, ४४३, ४४७ टि०, ४६४, ४७०, ४९७, ४९८, ५२२,

- ५३२, ५३३, ५५२ (११),  
 ५७१, ५७२, ५७५, ५८५,  
 ५९७, ५९८, ६०३, ६०६,  
 ६०७, ६४९, ६७४, ७२४ टि०
- (४) अस्त्रिया ३९७, ४९७, ४९८,  
 ५९८, ६०६, ६०७, ६४९,  
 ६७४
- (५) अस्त्रिया पोर्तुगेसा ४६१, ७२४  
 टि०
- (६) रलासियो ४४३, ४९०, ५५५,  
 ५९८, ६५३, ७२० टि०,  
 ७५१
- (७) ला जानटिलिटे ३९७, ४४३,  
 ४८५, ५९९, ६१४, ६१५,  
 ७२० टि०, ७४४, ७४९
- (८) पुर्तुगाली बु० (क) ३९७,  
 ४८५, ५३१, ५५२, ५९४  
 ५९८, ६१५, ७२० टि०,  
 ७४३, ७४९
- (९) पुर्तुगाली बु० (ख) ४२२ टि०,  
 ४४३, ४९०, ६०७
- (१०) पुर्तुगाली बु० (ग) ३४६,  
 ५५५, ५९८, ६५३
- (११) ड्राबल्स ३४०, ४९०
- (१२) बोयाख ४४६, ४८७
- (१३) निबोलोजी ३८, ३३७, ३४०,  
 ३५१, ३५२, ३६१, ३६८,  
 ३९२, ३९७, ४२१, ४४३  
 ४४७, ४६१, ४९८, ५१२,  
 ५१७, ५२०, ५३१-५३३,
- ५३८, ५५२, ५७२, ५७३,  
 ५७५, ५८६, ५९६, ६०३,  
 ६१४, ७०५, ७५३; टि०में—  
 ३५६, ५१९, ५४८, ७२०,  
 ७२३, ७४२
- (१४) हिम्बू सैनर्स ४४६, ५३१,  
 ५७४, ७२० टि०, ७४९
- (१५) राइजे ४९०, ५५५
- (१६) इल बियाजियो ४०६, ४१३,  
 ६५० टि०
- (१७) जेनेआलोजी ४१२, ७४३,  
 ७५६
- (१८) स्टोरिया ३४१, ७२० टि०
- (१९) लेट्टस ४०६, ४२३ टि०, ६३२
- (२०) हिस्तोरिआ ४६४, ५१२
- पिडदान ४३५ दे० जलक्रिया  
 पिक्फर्ड १०६ टि०  
 पिटसन २५६  
 पिल्ल २५७ टि०  
 पीतांबर राजेंद्र २९१  
 पुँजिकस्थला ६५४ (५), ६६४  
 पुष्यचंद्रोदय पुराण ६३  
 पुष्याश्व कथाकोष ५९  
 पुष्याश्वकथासार ६३  
 पुनम् नंपूतिरि २६६  
 पुलस्त्य ६४५, ६४६, ६५५  
 पुष्कर ६३९  
 पुष्पक ५६६; ५३०, ५८६, ६४९, ७९२  
 पुष्पदंत ६३  
 पूतना ४५४  
 पूर्वाचंद्र दे २८५ टि०, ४०९ टि०

पूर्णचंद्रशील ४०९ टि०  
 पूर्ण रा० २९१  
 पूर्णलिंग पिल्ले २५७ टि०  
 पूर्वजन्म; अगद ६५८; अणना ६६९;  
 अंधमुनि ४३३; कल्माषपाद ६२२  
 काक भुगुण्डी ३८१; केवट २०२;  
 कैकेयी ३६९, कौशल्या ३३७; गृह  
 ३८४, जटायु ४७२, दशरथ ३३६;  
 घोबी; ७२७, नंद १७६; मयरा  
 ४५४; राम ३६३; रावण-कुंभकर्ण-  
 विभीषण ६४८, लक्ष्मण ३६३; वालि  
 ५१५; वाल्मीकि ३७; शबरी  
 ४८१; शुक ६२५; श्रवण ४३३;  
 सीता ३७३, ४१०, ४१२; हनुमान्  
 ६५८  
 पृथ्वी देवी ३५८ टि०, ४८९, ५०५,  
 ६०१, ६५० (३), ७४१, ७५३-  
 ७५५  
 पृथ्वीराजरासो २९८  
 पौष्पचक्रा ३२८ दे० ब्रह्मचक्र  
 पौराणिक साहित्य १५१-१७३  
 प्रकाशधर्म ३२३  
 प्रजापति १४०, ६४४  
 प्रतापभानु ६२५, ६४८  
 प्रतिमानाटक २२६; २२५, २२७, ३३६,  
 ३४१, ४३५, ४४३, ५६७ टि०,  
 ६१०  
 प्रभाकर २५०  
 प्रभावती (महाराणी) १४७  
 प्रवरसेन २१४  
 प्रह्लोपनिषद् ३६८ टि०

प्रसन्नराघव २३७; २११, २२५, ३०१,  
 ३५०, ३५१, ३९७, ४०३, ४७३,  
 ५०२, ५४१, ५४७ ५४८  
 प्रहस्त ५६८ (५), ५७१, ६४५, ६४९,  
 ६५० (५)  
 प्रहेति ६४४  
 प्रह्लाद ६४८  
 प्रह्लादशेखर दीवानी ३०६ टि०  
 प्राकृतकामधेनु ६४२  
 प्राकृतलंकेद्वार ६४२  
 प्रायोपवेशन; भरत ४३१; राम ५७४;  
 वानर ५२७  
 प्रिज डब्लू; टि० मे—५०८, ५६५,  
 ६३०  
 प्रियादास ४७९  
 प्रेमानन्द ३०६, ४८८  
 फकिर राम २८९  
 फॉसबाल ५१ टि०, ६७ टि०  
 फुक्स २७६ टि०  
 फुत्तायोल्फा ३२५  
 फुत्तालेउत्ला ३२५  
 फुफो ३२३ टि०  
 फेनिचियो ३३०; दे० पा० वू० नं० १  
 बंगाली राम-कथा २८५-२९०, ५१२,  
 ७२३  
 बंधुवर्मा ६३  
 बड़ु नित्यानन्द २८६  
 बदरीनारायण श्रीवास्तव १५० टि०  
 बालिनगेम ७३ टि०  
 बलडेमुस ३३०; दे० पा० वू० नं० ३  
 बलदेव ५५, १४५



बलदेवप्रसाद मिश्र १४६ टि०, ३०१

बलभद्र २९३, ३६२

बलभद्र पुराण ५९

बलराम ४, १०, ९४, १०६, १०७

बलरामदास २९१; १०८, ६८५

बलरामदास रा० २९३; २८२, २९१,

३४६, ३५८, ३६१, ३८४, ३९८,

४०३, ४०९, ४११, ४३२, ४३५,

४३६, ४५२, ४६१, ४७४, ४७८,

४८८, ५१२, ५१३, ५२४-५२७,

५३१, ५३४, ५४३, ५४७, ५५२

(१२), ५७१, ५७२, ५७६, ५७७,

५८३-५८५, ५८७, ५८८, ५९१,

५९८, ६०८, ६१०, ६४२, ६४८

६५०, ६६८, ७२६, ७६२, ७८१,

७९६; टि० मे—३४५, ४६४,

५६८, ५९३, ६६८, ७३९

बलि ६५५

बहराम यस्त १४० टि०

बाँकेबिहारी लाल ३०७

बाघेली कुँवरि ३०१

बाण ४७४, ७९५

बाणासुर ३९७

बारमासी फोइली २९१

बायं दू० १३५ टि०

बालकाण्ड (असमीया) २८३; २८४,

३३८-३४०, ३४३, ३४५, ३५०,

३५४, ३७८, ३८४, ३८९, ४०२,

४०३, ४३३, ४४७, ४७२

बालकृष्ण शर्मा ३०१.

बालरामायण २३३; ११५, २२५, ३१७,

३५०, ३५१, ३७४, ३९२, ३९७,

४५२, ४६४, ४७१, ४८५, ५०३,

५४७, ५७८, ५८२, ५८४, ६०६,

७३१, ७८९, ७९७

बालश्रीरी रेड्डी ५९४ टि०

बिहोर राम-कथा २७२; ३४०, ३५४,

३९२, ४२१ टि०, ४६१, ४७४,

५१२, ५३१, ५३३, ५४२, ५८९,

५९५, ५९८, ६१४,

बृद्ध ४३१; ५०, ५१, ५४, ५५, ७४,

७८, ८१, ९०, १०१, १०२, १४४,

३१२, ३२७, ६४७, ७८१

बुधघोष ७३, ७५ टि०, ९२

बुद्धचरित ७८, ३२, १३२

बुद्धस्वामी २५२

बुल्के सी २२ टि०, ६२१ टि०

बृहत्कथा २५२; ५६, २९६, ७१९,

७४३, ७५४

—मंजरी २५२, ७५४

—बलोकसंग्रह २५२

बृहत्कौशलखंड १९१; १५०, ३७४,

३८३, ३८७, ३९२, ४०३, ४०४

बृहत्संहिता ११३, १४७, ७०८ टि०

बृहदारण्यक उप० ६

बृहद्देवता ६२१, ६२३

बृहद्दर्मपुराण १७०; २११, ३५८,

४९४, ५००, ५३२, ५३७, ५८०,

६७०, ७८५, ७९१

बृहद्वाच्य संहिता १४८

बेणीप्रसाद ११ टि०

सेल्मलकर ९३ टि०, १०५ टि०, १०६  
 शैमा राम-कथा २७६  
 मोडो राम-कथा ७२० टि०  
 शोषायन गृह्यसूत्र १६  
 शोले लेगोळ ३३०; वे० पा० वृ० न० १५  
 शौद्ध राम-कथा ५०-५४, ६५-९०; ३५४,  
 ७६६  
 श्रवणधु सामंत राय २९१  
 श्रद्धाचक्र ३२८; ५४, ३४२, ३९७, ४०६,  
 ४६५, ४६८, ५९८, ६०६, ६३२,  
 ७१४, ७४४, ७५०  
 श्रद्धादत्त ७३, ६२२, ६२५  
 श्रद्धादेश ३२९, ४६८, ४९८  
 श्रद्धोन्मिदत्त ५९  
 श्रद्धापुुराण १५९; १०३ टि०, ३३६,  
 ३४३-३४६, ३४८, ३५६, ३६४,  
 ४३३, ४३५, ४४७, ४४९, ६५३,  
 ६६४ टि०, ६६८, ७३५, ७५३,  
 ७८०  
 श्रद्धारा० १८०, १९१  
 श्रद्धावैशर्त पुराण १६३; ३४५, ३४६,  
 ३४८, ३६७, ४१०, ४६६, ४६९,  
 ४८९, ५०४, ६४८, ६७०  
 श्रद्धाहत्यादोष; इंद्र ६३३; राम ५८०,  
 ६३४; रावण ५९९; विभीषण  
 ६३५; सीदास ६२४; हनुमान् ६३४  
 टि०  
 श्रद्धांड पुराण १५२; ६, १४३, ३६४,  
 ३६७, ३७०, ४०७, ६२३ टि०  
 श्रद्धांड भूगोल १०८, २९१  
 श्रद्धा ३८, ३९, ३३७, ३४४, ३५५,  
 ३५८, ४५४, ५००, ५५४, ५८०,

५८३, ५९१, ५९६, ५९७, ६३९,  
 ६४७, ६५४, ६६६, ७५३, ७५५,  
 ७८५; वरदाता—१७२, ५१२,  
 ५२६, ५५२ (२), ५७५, ५८४,  
 ५९०, ५९८, ६३२, ६४१, ६४४,  
 ६४८, ६४९, ६५२, ६६४, ६९४,  
 ७०४, गौण उल्लेख—२०४, ३६१,  
 ३६२, ४००, ५६५, ६०१, ६४८,  
 ६५८, ७१३, ७९४

श्रुमफील्ड १८ टि०

भडारकर ५९, १४७

भक्तमाल ३९, १४९, ४७९

भक्तराज हनुमान् ३८२ टि०

भक्तशाबरी ४८१ टि०

भक्ति : कृष्ण—१४६, १५०, ७८६;  
 राम—१४६-१५०, ७०१-७०७,  
 ७९०, २८५, १७८; शिव—७८३,  
 ७८४; देवी—७८५, हनुमद् ७०८-  
 ७१०

भक्तिसूत्र १४६

भगवंत राय खोची ३००

भगवती प्रसाद सिंह १५०, १८०, टि०  
 में—३८०, ४०३, ४०४

भगवद्गीता ७०, १४८, २९५, ३६६  
 ७८८

भट्ट जी० एच० ५६५ टि०

भट्टिकाव्य २१५; ११५, २१२, २१४,  
 ३१४, ३१५, ३५६, ३५८, ३८९,  
 ३९२, ४००, ४६६, ४७०, ४७३  
 टि०, ४७७, ४८९, ५१७, ५२६,

५७४, ५८८, ६११, ७६१, ७६३,  
७९२  
भद्र ७१७, ७२३-  
भद्रकल्याणबाल ६२२  
भद्रेश्वर ५९; दे० कहावली  
भरत ३५९-३६१, ३९०-३९१, ४००,  
४३४-४३७, ४५२, ५६७, ५८८,  
६०४, ६०५, ६०९, ६१०, ६३५,  
६३६, ७५३; ५१, १६४, २०९,  
२९२, ३०१, ३५१, ३४२, ३५१,  
३७७, ३८८, ४०४, ४४६, ६९९,  
भरतज्येष्ठधर्मिण्य ३४१  
भरतमिलाप २९८  
भरद्वाज १ टि०, ३८३, ४५१, ५६६,  
६०४, ६०८  
भवदेव विप्र २८४  
भवभूति ११३, २२९, २३३; दे० उत्तर-  
रामचरित, महावीर-चरित  
भविष्यद्वाणी ३३, ३९, ३३७, ३५७,  
४१३, ४१८, ५१७, ५३५, ५५२  
(४), ५६९ (३), ५८२, ५९८,  
६१४, ६२५, ६४०, ६४१, ६४४,  
६९३  
भविष्यपुराण ३३६, ६६८, ६७१, ६९५,  
७०४  
भस्मलोचन ६१३,  
भागवत द्विवेदी ४८१ टि०  
भागवत कर्म १४२, १४६  
भागवत पुराण १५५; ३२, १५२, १८५,  
२४५, २९५, ३४४, ३५२, ३५४,  
३५८ टि०, ३६४, ३६७, ३६८,

३७५, ३७६, ३७८, ३९५, ४६४,  
५७४, ६०१, ६२३, ६२४, ६४४,  
६४८, ७०५, ७१४, ७१९, ७२१,  
७५३  
भानुप्रताप १९५, १९६, ६२५, ६४८  
भानुभट्ट २७९  
भामंडल ६०, ३९४, ४०७, ४१२  
टि०, ५६७, ५८६,  
भारद्वाज गृह्यसूत्र १६ टि०  
भालाण ३०६  
भावाय रा० ३०४; १७५, २६९, ३०५,  
३४९, ३५७, ४०६, ४३३, ४६७,  
४७०, ४८४, ४८८, ५१२, ५४३,  
५४७, ५७५, ५८७, ५८९, ५९७,  
६०९, ६२४, ६५५, ६६८, ७०६,  
७०७, ७६२; टि० से—३५१, ३५६,  
५१५, ५१७, ५२२, ५६८, ५८६  
भाबी रा० ३८  
भावा योगवासिष्ठ ३००  
भावासाहित्यचरित्रम् २६४ टि०  
भास २२६; दे० अभिषेकनाटक, प्रतिभा-  
नाटक  
भास्कर भट्ट २४१  
भास्कर रा० २६०  
भिलोबी रा० २७७  
भीम कवि २१७  
भीम (गुजराती) ३०६  
भीमट ७९२  
भीमसेन ६८१, ६८४, ६८९, ६९३ टि०,  
७१३  
भुईजा माधवदास २९१; दे० विचित्र  
रा०

भुवनतुंग सूरि ५९  
 भुवनेश्वर कविचंद्र २९१  
 भुशुण्डी ३८१; १८०, १९८, १३७५  
 भुशुण्डी रा० १८०; १५०, १८१, ३७५,  
 ३८०, ४०३, ४०४, ४४०  
 भृगु ३७०, ४८९, ६१७, ६४८, ७२५  
 भोज (देव) २३१, २५५, २९१  
 भोजपुरी ग्रामगीत ६०३, ७२३ टि०  
 भोजपुरी लोकगीत ७२१ टि०, ७२३ टि०  
 भ्रमरझूल २४९  
 मंजुल रा० १९६, ४७८, ६२५ टि०  
 मंत्र रा० १८२  
 मन्त्रीकर्मण ३०६  
 मथरा ४५४; २०८, ४३४, ४४६, ७५५  
 मदाकिनी ४३४  
 मदोदरी ५४१-५४४, ५९६, ६०२, ६५५  
 मक्कावेव जातक ८९ टि०  
 मतंग ४७९, ५१६, ५२२ टि०  
 मत्स्य पुराण ३२, १४०, १४३, १५२,  
 ३४३, ३४४, ३६७, ३७०, ७६७  
 मत्स्यावतार १४०  
 मथुरा ६२०, ७८०  
 मधु ६१३ टि, ६२०, ६४४ टि०, ६४८,  
 ६५२  
 मधुराचार्य १५०  
 मधुवन ५३०, ५५३  
 मधुसूदन २३४  
 मध्वाचार्य १४६, ६९१ टि०  
 मनमोहन घोष ३१४ टि०  
 मनसा देवी ६८७  
 मनियार सिंह ३००  
 मनु ३६८  
 रा० ५१

मनुस्मृति ८७, ४७७ टि०, ५११, ६२९  
 टि०  
 मम्मट ७९१  
 मय ४१२, ५२६, ५८३, ५९६, ६५०  
 मराठी राम-कथा ३०४-३०५  
 मर्मस्थान, इद्रजित् ५९३; जटायु ४७०;  
 रावण ४७०, ५९८  
 मलय की राम-कथा ३१३-३२०  
 मलयालम राम-कथा २६४-२६८  
 मल्लयाचार्य (मल्लाचार्य) २१९  
 मल्लिषेण ६३ टि०  
 महाकाय ५८२, ५९८  
 महाकुणाल जातक ७४  
 महाजनक जातक ८९ टि०  
 महादेव (कवि) २४४  
 महानाटक २३४; १५०, २२२, २२४,  
 २२५, २२७, ३०२, ३१२, ३१४,  
 ३१७, ३४६, ३४८, ३५०, ३५१,  
 ३५३, ३९६, ४००, ४०३, ४३२,  
 ४४३, ४८४, ४९२, ४९८, ५१५,  
 ५१७, ५२०-५२२, ५३३, ५६६ टि०,  
 ५७२, ५७४, ५८३, ५८५-५८९,  
 ५९३, ५९६-५९८, ६०६, ६७०,  
 ६९०, ७३१  
 महापापर्व ६४५, ५६३, ५६८ (३);  
 ५८५ टि०, ५९५, ६५४ (५)  
 महापुराण (जैन) ६३ टि०  
 महाभागवत पुराण १६९; १७०, ३६५,  
 ३७३, ४०६, ४१२, ५०३ टि०,  
 ५०४, ५१६ टि०, ५३७, ५७०,  
 ६७०, ७६०, ७८५

महाभारत ४१-४९; ४, ६, १०, १९,  
२१, २७, २९, ३२, ३३, ४०, ५६,  
१३१, १४०, १४१, १४३-१४५,  
१४७, १६०, १७०, २४५, ३०६,  
३२३, ३३३, ३४३-३४६, ३४८,  
३४९, ३५१, ३५२, ३५९, ३६७,  
३७३, ४०६, ४०७, ४२४, ४८२,  
५११, ५२०, ५४७, ५९६, ६२१-  
६२३, ६२६, ६२९, ६४२, ६४८,  
६५५, ६५९, ६६०, ६६२, ६८१,  
६८४, ६८५, ६८९, ६९२, ६९३,  
७१३-७१५, ७२५, ७३५, ७५९,  
७६६, ७९३, ७९४; दे० रामो-  
पाख्यान

—(जडिया) २९२; २९१, २९३,  
३४५, ३५४, ३५८, ३६१, ३६८ टि०,  
४३२, ४६३, ४६६, ४७४, ४८४,  
५८५, ५९३, ५९७, ६४४, ६७४,  
७१३ टि०, ७८७ टि०

महाभाष्य ८८, १३२

महारा० १८१; १५०, १९२

महाराष्ट्रीय; टि० में—११७, १६२,  
१७७, ५६५

महारासोल्लस १९०

महावंश ९२, १०२, ३२०

महावस्तु ८४

महावीरचरित २२८; १०, २२५, २३२,  
२३४, ३४४, ३५०, ३५१, ३९१,  
४०३, ४३४, ४५२, ४८५, ५१७,  
५२२, ५२७ टि०, ५५२, ५७१,  
७६१, ७९१

महासुतसोम ज्ञातक ८७, ८९, ६२१-  
६२३, ६२६

महीरावण ६१४, ६५०

महीरावण-वध २८४

महेस्वरदास ७९६

महोदर ५६३, ५६८ (५), ५८४ [टि०,  
५९५, ६४५

माडण बंधावी ३०६

माडवी ३०१, ३९१, ४००

माइकल मधुसूदन २९०, ५९४

मागुणी पट्टनायक २९१

मातलि ५९५

माताप्रसाद गुप्त २९५ टि०

माधवकंबली रा० २८३; २८२, २८४,  
५३४, ५९३ टि०, ६६८, ७३२

माधवदेव २८३, २८४, दे० बालकाण्ड  
(असमीया)

माधव भट्ट २५४

माधव स्वामी ३०५

मानव गृहघसूत्र १७

मानसाहि कायस्थ २२३

मानुच्ची एन० ३३०; दे० पा० वृ० नं०  
१८

मायापुण्यक २३६, ७९२

मायावी (असुर) ५१५, ५२६

मायावी पात्र

—मायाजनित; मदोदरी ४२८; राम  
५४२, ५८३, ५९८; रावण ५८५;  
लक्ष्मण ५४२, ५९८; सीता ५०१-  
५०८, ५७९, ५९१, ६०१, ७३३,  
७३८

- अन्य पात्रों के वेश में ; रावण (राम के वेश में) ४९४, ५८३; शूर्पणखा (सीता) २४४, ४९४, ४९६; सती (सीता) ४७५; रावण (इंद्र) ४१७; इंद्र (गीतम) ३४५; जालिनी (सीता) ७९२; सुकाति (सीता) ५९१; हनुमान् (रावण) ५९९, सीता (राम) १९१; साहसगति (सुग्रीव) ५१५; राक्षस (रामपक्ष) २४४, ४५२, ४९४, ४९६, ५५४, ५७९, ५८३, ५९१, ६०९, ६१४, ७१७, ७२४, ७९२; नागायण-लक्ष्मी-शेष (राम-सीता-लक्ष्मण) १५०, अगद ६१३
- छद्मवेश में; राम ५५४, ७१९, ७२२; रावण ४९२, ५८२, ५९७; हनुमान् ५३२-५३४, ५१२; विभीषण ५७१, ५९१, ५९२, ६१४; शूर्पणखा ७२४; कालनेमि ५८७ (३); राक्षस ६०९, ६२४, ६२५; गुप्तचर ५८२; इंद्र ८५, ५७४ (७), ६३२, ७२४, ७९३; नारद ५९७, ६३२; कृष्ण ६८५; शिव ६३५; रंभा ७५०
- मायाशीर्ष ५८३, ५६२  
 मायुराज २३०]  
 मारटिनी एक ३२४ टि०  
 मारीच ३८३, ३८८, ३८९, ४१२, ४९२, ४९४, ४९५, ४९९  
 मारीचबन्धित ७९२  
 मास्त; दे० वायु  
 मार्कण्डेय ४१, ४७, १८८, ७८१
- मार्कण्डेय पुराण १५२  
 माली ६४४, ६४६  
 माल्यवान् ६१४, ६४४, ६४५ टि०, ६४६  
 मितभिन्न ३  
 मित्र, एम० सी० २७३ टि०  
 भिल्लिब पाण्डू ८५ टि०  
 मित्र १०९  
 मुंडा राम-कथा २७३, ४७४  
 मुक्तिफोप० १४८, ६९१  
 मुक्तेश्वर ३०५  
 मुचुकुद ६१३  
 मुद्गल भट्ट २५१  
 मुनिचन्द्र सूरि ३४२, ७२२  
 मुरारि ११३, २३२, २३३, दे० अनर्घ-  
 राघव  
 मुरारि (अद्वैत) २२३  
 मुल्ला मसीह ३०८, ३०९  
 मूर, ई० १०८, ६८६; टि० में—३५६,  
 ३५७, ५७६, ६७८  
 मूलकामुर ५८९ (३), ६४१  
 मूल रा० १८०  
 मैक्सिको ११२  
 मेघदूत २४९, ७८९  
 मेघनाद; दे० इंद्रजित्  
 मेघनादबध २९०, ५९४, ७८५ टि०  
 मेघविजयगणि ५९  
 मेनका ३४४, ४०९, ५८९ (४)  
 मेंव रा० २०३, ४०३  
 मैकडॉनल ए० ए० २७; टि० में ९२,  
 १०७, ३४४; पृ० ८१९  
 मैकॉलिफ एम० ए० ३४७, ६९७ टि०  
 मैकोपी १८०

मंसबेल ३१९  
 मंत्रायणि संहिता ७ टि०, ८, १४ टि०  
 मंत्रिली-कल्याण २३९; ५८, २२५, ३९५  
 ४०३  
 मंत्रिली लोकगीत ३९२ टि०  
 मंत्रिलीशरण गुप्त ३०१; दे० साकेत  
 मेरावण, दे० महीरावण  
 मेरावणकालग २६९, ६१४  
 मेरावणचरित १८६, ३२०, ६१४, ६९६  
 मोनिये विलियम्स २७; टि० मे—१०,  
 ६५, ९२, १०५, १४०, १४२, २५०  
 मोरे, ए० १०९ टि०  
 मोरोपत ३०५  
 मोल्ल रा० २६१, २५८  
 मोहनस्वामी २२४  
 म्यूर, जे० ११७ टि०  
 यक्ष ६४४, ७१०  
 यजुर्वेद १३, १४  
 यज्ञ; राम ४९२, ५२३, ६१०, ६३३,  
 ७४३, ७४८, ७४९, ७५३; दशरथ  
 ३३३, ३५४-३५८; जनक ३९१,  
 ४०८-४०९, ४१६, ४२१ टि०, ४२४;  
 विश्वामित्र ३८८; भरत ५८८;  
 विश्ववा ६४४; रावण ५९७, ६४९;  
 कुमकर्ण ५८९(९); मंदोदरी ५९७;  
 इंद्रजित् ५९०, ५९२; गौतम ५१४;  
 सौदास ६२४  
 यम ६५२, ६९४  
 यशोदा १८८, ३७६  
 यशोवर्मा २३६  
 यस दि पुरा ३१५  
 याकोबी, एब० ९३-९७; २७, २९, ४८,  
 ५८, ६५, ७१, ९९, १०१, १०५,

११६, १२३, १३५, १३६, ४३१,  
 ४५७, ५११, ५३०, ५६२, ७६५;  
 टि० में—१०, २२, ५६, ७०, ८०,  
 ९०, ९२, १०७, ११३, ११५, ११७,  
 १३७, १४०, ३३३, ५६४, ६१८

याज्ञवल्क्य ६

यादवराघवीय २४७

याम प्णे ३२९

यास्क १२, १३ टि०

युद्धकाण्ड (मराठी) ३०५

युधिष्ठिर ४४, ४५, १८५, ७८१

यू तो (कवि) ३२९

येदातारे सुन्व राव १०८

योगवासिष्ठ १७४, ३००, ३०२, ३०४,

३०६, ३४६, ३७०-३७२, ३८१,

३८५, ३८६

योगशास्त्र ५९, ५४७, ७१८

योगीश्वर ३१४

रंगनाथ रा० २५८; ११५, २५७, २५९,

२६९, ३२०, ३४६, ३५०, ३९५,

४१२, ४३३, ४४७, ४५८, ४८४,

५०३, ५१६, ५२६, ५४३, ५५०,

५७१, ५७८, ५८३, ५८६-५८९,

५९१, ५९७, ६०९, ७६२; टि० में—

४५९, ५५२, ५६८, ५७४, ६४४,

६६४

रमा ४५८, ५८९(४), ६५२, ६५४

(१)

रङ्गू ५९

रघुनन्दन गोस्वामी २९०

रघुनाथ उपाध्याय २२०, २७९

रघुनाथचरित २२०

रघुनाथदास ३०१  
 रघुनाथ महंत २८४, ७५७  
 रघुनाथबिलास २९१  
 रघुराज सिंह ३९, ३०१, ४७९; ४८१,  
 ७०६ टि०  
 रघुवंश २१३; ८४, १६२, २५५, २६९,  
 २८३, ३३६, ३४१, ३४६, ३५३,  
 ३५६, ३६३, ३७५, ३९१, ४३३,  
 ४३९, ५४७, ५८३, ६२९, ६३३,  
 ६४९, ७१४, ७१७, ७३७, ७५३,  
 ७६१, टि० मे—२८५, ३५४,  
 ३५९, ७३९  
 रघुवश, डॉ० २१४ टि०  
 रघुबिलास २३६  
 रघुवीरचरित २२०  
 रणयज्ञ ३०६, ३९७, ४८८  
 रत्नाकर (वाल्मीकि) ३८  
 रत्नावदानमाला ५४  
 रमेशचन्द्र दत्त ९३ टि०, १०६ टि०  
 रम्भन, रम्भानु १००  
 रविषेण ५८, ५९, ३४०; दे० पद्यचरित  
 रसबिनोब ६५८  
 रसिक विहारी ३०१, ५९४  
 रसिक सम्प्रदाय १५०, ४०४, ५०७,  
 ७३२  
 रसेल ११०, ५५२ टि०  
 राक्षस ५६, ११०, १११, ६११, ६४४  
 राघवन्, वी० १७४, १७६ टि०, १७८  
 २३० टि०, २३६, ७९२  
 राघवर्नवधाय २४५  
 राघवर्पांडवयावधाय २४५

राघवर्पांडवीय २४५  
 राघवप्रसाद पाण्डेय २२३ टि०, ४०३  
 टि०  
 राघवयावधाय २४६  
 राघवबिलास २५१  
 राघवानन्द (आचार्य) १४९  
 राघवानम्ब (नाटक) २३६  
 राघवाभ्युदय ५९७, ७९२  
 —(रामचंद्र) २३६  
 राघवीय संहिता १४८  
 राघवोल्लास २२३; ३४६, ३४८, ३५१,  
 ३७५  
 राजशेखर ११३, २३३; दे० बाल-  
 रामायण  
 राजशेखर वसु २९०  
 राजेंद्रलाल मित्र ५९, १४८, १७९, १९०,  
 १९१  
 राजेंद्र हाजरा १५२, १५७, १६९; टि०  
 मे—१४४, १५१, १५८-१६७, १७०  
 १७१, १७३  
 राधा १४७, १५०, ७८७  
 राफल्स ३१९, ३२० टि०, ३४२, ६४८  
 टि०  
 राम (दाशरथि)  
 (१) अन्य पात्रो से अभिन्नता ? इंद्र  
 ९४, ९६, ९७, ९९; सोम १०;  
 पृथु ९८; बलदेव ५५, १४५;  
 बलराम १०६, १०७; बृद्ध  
 १४५, ३२८, ३६२; रंमसेस  
 १०९; शिव १८९, ३६२  
 (२) अन्नतारत्व ४३, ११५, ११७-  
 १२८, १३९, १४३, १४४,



१४७, १४८, ३२२, ३३३, ३५४-३७६, ७८९। मुक्तिदाता ७७७, ३८३; दिव्यरूप-प्रदर्शन: कौशल्या ३७५, ३७६; परशु-राम ३५१; भृशुण्डी ३८१; हनुमान् ५१२; सुधीव ५१७; वालि ५६९; रावण ५९८; अतिथि ६१०। रामभक्ति १४३-१५०, ७०१-७०७, ७९०, २८५, १७८

- (३) चरित . वशावली ३३६; बाल-चरित ३७५-३८७; विवाह ३९१-४०२; निर्वासन ४३२, ४४२-४५४; चित्रकूट ४३७-४४१; दण्डकारण्य, ४५८-४६०; खरदूषण-वध ४६६; मारीच-वध ४९२; सीता की खोज ४७१-४८०; सुधीव से भेट ५१२, ७९६; बलपरीक्षा ५१७, वालिवध ५१८-५२२; वर्षाकालीन साधना ५२३; लंका युद्ध ५८४-५८६, कुम्भकर्ण-वध ५८९; शक्तिपूजा ७८५; रावण-वध ५९५; वापसी यात्रा ६०५-६०९; अभिषेक ६१०; सीता-त्याग ७१४-७३४; अश्वमेध ६३३-६३४, ७४३-७५०; संतति ७४२; पुत्रो से युद्ध ७४६; विजय-यात्राएँ ६३५-६३६; पराजय ६३९-६४०; तीर्थयात्राएँ ६३७, १७८; स्वर्ग-रोहण ७५३; निर्वाण ७५२, ७५३(५)

- (४) चरित्रचित्रण : पूर्वानुराग ४०३, एकपत्नीव्रत ४०४; विरह ५६५, ५६७; विलाप ५६७, ५८६, ५९१, ५९६; आत्म-हत्या-विचार ३४८; विहार ३५३ (६), ६३८, २१९, ३००, ३८७, ४४०, ५०७; रासलीला १५०, ७८७, २९९; वैराग्य और तपस्या ३८५, ३८६, ४३८, ४४६, ५२३, ६१०, ७५२, ७५३ (५), ७५६, शिवभक्ति ७८३, ७८४, ६३३, ६३४, १७१

- (५) गौण सामग्री : नाम १०, ३७७; पूर्वजन्म ३६३, ब्रह्महत्यादोष ५८०, ६३४, हनुमत्पिता ६७५; अगद-पिता ३२७; शिव से युद्ध ७०५; शापभाजन ४४६, ४६९, ५२०, ७२६

राम (ऋग्वेदीय राजा) ४, १०

राम (कोलिय राजा) ७४

राम (कवि) २४६

राम (मलयालम कवि) २६४

राम इकबाल सिंह ३९२ टि०

राम औपतस्विनी ४, २०

राम क्रातुजातेय ४, २०

राम मार्गवेय ४, २०

राम हुवास्त्र ९९

रामकथप्पाट्टु २६४

राम-कथा

- (१) मूलस्रोत ९१-१०४; २१, ६५-८१, १३०, १३१, ७६५-७६८

- (२) मौलिक एकता ७६९-७७२  
 (३) ऐतिहासिकता १०५-१०९;  
 भगोल ११३  
 (४) आदर्शवाद ७९१, १४३, २२५,  
 ४०४, ४६१; दे० दोषनिवारण  
 (५) विकास १२९-१३१; ७८८-  
 ७९१, ७५९, ७७३-७८०  
 (६) निर्वहण ७५२-७५७, ७७२  
 (७) व्यापकता १४५, ७५९-७६४  
 (८) वक्ता ७८१  
 (९) विविध प्रभाव: जैन ७८२; शैव  
 ७८३-७८४, ५९४, ५९७  
 ५९९, ६६८; शाक्त ७८५,  
 ५९७, ६१४, बौद्ध ३१२, ९०;  
 कृष्ण-कथा ७८६-७८७, ४०४,  
 ५९१ टि०; रामभक्ति ७९०,  
 १५०, २६९, २८५ (३),  
 ५२७, ५३५, ५३८, ५४१,  
 ५४७ (५) ५७०, ५७६, ५७८,  
 ५८७ (३), ५८८, ६२५, ६२६,  
 ७६८, ७०२-७०७  
 राम-कथा (वासुदेव) २५६, ४५४  
 राम-कथावतार ५९  
 रामकल्पद्रुम २५६  
 रामकियेन ३२५-३२६; ३२४,  
 ३२७-३३०, ३४६, ३५१, ३५६,  
 ३५७, ३६१, ३६४, ३८८, ३९२,  
 ४००, ४०३, ४०६, ४१६, ४१९,  
 ४३९, ४४७, ४४८, ४५४, ४६०,  
 ४६४, ४७०, ४८१, ४८४, ५१२,  
 ५१४, ५१५, ५१७, ५१९, ५२०,

- ५२४-५२६, ५३१, ५३३, ५३९,  
 ५४४, ५४७, ५४८, ५७०, ५७२,  
 ५७३, ५७६, ५७८, ५७९, ५८२,  
 ५८४-५८७, ५८९, ५९१, ५९६-  
 ५९८, ६०५, ६०६, ६०९, ६१२-  
 ६१५, ६३२, ६४३, ६४६, ६४८-  
 ६५०, ६५३, ६५५, ६७२, ६९८,  
 ७१४, ७२४, ७४४, ७५०, ७५७,  
 ७६३; टि० में—३४४, ३९४, ५१६,  
 ६३५, ६५७, ६६६  
 रामकीर्ति; दे० रामकीर्ति, रामकियेन  
 रामकुमार वर्मा २९७ टि०  
 रामकृष्ण केलिकल्लोल ७९६  
 रामकृष्ण विलोम काव्य २४७  
 रामकीर्ति ३२४; ३२६, ३३०, ३५०,  
 ३५१, ३६२ टि०, ३८८, ३८९, ३९२,  
 ३९५, ३९८, ४००, ४०६, ४१६,  
 ४३९, ४४४, ४६१, ४७०, ५१२,  
 ५१५, ५१९, ५२०, ५२४, ५३९,  
 ५५२, ५७८, ५८५, ५८९, ५९१,  
 ५९७, ७१४, ७२४, ७४४, ७५०,  
 ७५७, ७६३, ७९४, ७९६  
 रामकीर्तिका ३१९, ४०६, ४२८  
 रामगिरि ६०, १४७, ७८०  
 रामगीतागीर्वाण २५०, ३५०, ३९८,  
 ४३९, ४७६  
 रामगीता १४८, ६९१  
 रामगीताबली ४७८  
 रामगोपाल भंडारकर ५९, १४७  
 रामगोविंद द्विवेदी १२ टि०  
 रामचंद्र (कवि) २३६  
 रामचंद्र (बंगाली) २८९

रामचन्द्रचरितपुराण ५९

रामचन्द्र मुमुक्षु ५९

रामचंद्रबिहार २९१

रामचंद्र शुक्ल २५९

रामचंद्रिका ३०२; २९९, ३५१, ३५२,

३८६, ३९७, ४३४, ४६१, ४७३,

४७८, ४९८, ५०५, ५२१, ५३५,

५७२, ५८५, ५९३, ५९६, ५९७,

६१०, ६३४, ६३८, ७५६

रामचरित (अभिनन्द) २१७; ११५,

२१४, ५२५, ५२६, ५६८ टि०,

५९३ टि०, ६११

—(पद्मदेवजिज्ञयगणि) ५९, ६१,

७२२ टि०

—(मोहनस्वामी) २२४

—(सध्याकरनदि) २४५, ४३९, ७३८

—(सदलमिश्र) ३००

—(सोमसेन) ५९, ४१२ टि०

—(मलयालम) २६४, ७६२

रामचरित उपाध्याय ३०१

रामचरितचिंतामरित ३०१

रामचरितमानस २९५; ९, ३१, ३५,

१४९, १७५, २५०, २९४, ०९६,

३०६, ३०७, ३३७, ३४६, ३४८,

३५०, ३५१, ३५६, ३६१, ३६७,

३७४-३७६, ३८२, ३८९, ३९७,

३९८, ४००, ४३२, ४३४, ४३९,

४४१, ४५२-४५४, ४७३, ४७५,

४७८, ४८८, ४९८, ५२०, ५२६,

५३१, ५३३, ५३८, ५४३, ५४४,

५४७, ५४८, ५७०, ५७२, ५७५,

५७८, ५८०, ५८२, ५८४-५८९,

५९७, ५९८, ६२५, ६४८, ७२०,

७३२, ७८१; टि० मे—१९४, ३५९,

३७७, ४६२, ५१९, ५६८, ६४५,

७९१

रामचरित्र ५९

रामजन्म २९८

रामजातक ३२७; ५४, ३२८, ३३६,

३४२, ३४३, ३६५, ३९७, ४०४,

४०६, ४१७, ४७०, ५१४, ५३१,

५३९, ५७१, ५७२, ५७८, ५७९,

६०१, ६१४, ६४३, ६४७, ६४८,

६७५, ७१४, ७२४, ७४४, ७५६;

टि० मे—३६२, ५२१, ७५०

रामजातकम् १७९

रामतापनीय उप० १४८, ३६२, ३६४,

४८८, ५५५

रामदास (उडिया) २९१

रामदास (मराठी) ३०५

रामदास गौड १८४, ७२३ टि०

रामदास सी० ११० टि०

रामदेव पुराण ५९

रामनरेश त्रिपाठी ७२३ टि०, ७५३ टि०

रामनाथ ज्योतिषी ३०१

रामनारायण २८९

रामपाल (राजा) २४५

रामपूजापद्धति १४८

रामपूर्वतापनीय उप० १४८

रामप्रेसाद निरंजनी ३००

रामबालचरित ३०६

रामब्रह्मानन्द १७८, दे० तत्त्वसंग्रह रा०

रामभक्ति ; दे० भक्ति

रामभक्ति में रसिक सम्प्रदाय १८०; टि  
में—१५०, ३८०, ४०३, ४०४, ५०७  
रामभक्तिसाहित्य में मधुर उपासना १९४  
टि०

रामभक्ति रसामृत २८७

रामभद्र दीक्षित २४४

राम मङ्गला ३०१

राममोहन बन्धोपाध्याय ६४०, ६७०

रामदास ३२९

रामरसामृत २९१

रामरसामृतसिध् २९१

रामरसायन (रघुनन्द) २९०

— (रसिक विहारी) ३०१, ५९४

रामरसिकावली ३९, ४७९, ४८१, ७०६

रामरहस्य २२४, ३५८, ३६१, ३६८,

३७५, ३७९, ३९६, ४३२, ४४३,

५८३

रामरहस्योप० १४८, ६९१

रामलक्षणचरियम् ५९

रामरिगामृत २२२; २२३, ३४८, ३६२,

३७५, ३७६, ३८७, ३९७, ३९८, ४००,

४३२, ४५२, ४५३, ४८६,

५२५, ५७०, ५९४, ६११, ६१४,

६३८, ६४१, ६४६, ६४८, ६५६,

७८० टि०, ७८४

रामलीला (जडिया) २९१

— (बंगाली) २८७

रामलीला ना पदो ३०६

रामलीलामृत (कृष्णमोहन) २४८

— (उपेन्द्र भज) २९१

— (ब्रजबंधु) २९१

रामत्रल्लभाधारण १९१

रामविक्रम ७९२

रामविजय (असमीया) २८४, ३५१,

३९२ टि०

— (मराठी) ३०५, ५३१, ५५४,

५७८

रामविजयचरित ५९

रामविजयमहाकाव्य २२०

रामविभा २९१, ५१४, ६७४, ६९७,

७९४

रामविलास २५०

रामविवाह ३०६

रामशतक २५१

रामसिता ५७३ टि०

रामस्वयंबर ३०१

रामस्वामी शास्त्री १८२ टि०

रामहृदय १७९

रामान्नाप्रश्न २९४

रामानन्द (आचार्य) १४९, १७५, २९८,

७९०

रामानन्द (घोष, यति) २८७

रामानन्द (नाटक) २२५, २३६

रामानन्द सम्प्रदाय १५० टि०

रामानुज १४६, १४८, १४९, १७५,

७९०

रामान्युदय (यशोवर्मा) २३६, ७९२

— (व्यासमिश्र) २४३

रामायण (वाल्मीकि)

(१) रचनाकाल २७

(२) उत्पत्ति ३०, १३३-१३६,

१७०, १७७, २११

(३) विकास १३७-१३९, ३१६,

६१८

- (४) विस्तार ७९, ११५ टि०, १३३  
 (५) कथावस्तु ३३१, ४२९, ४५५,  
 ५०९, ५२८, ५५६, ६१३,  
 (६) तीन पाठ २२-२६, ३३२,  
 ४३०, ४५६, ५१०, ५२९,  
 ५५७-५६०, ६१७, ७७३  
 (७) प्रक्षेप ११४-१२८, १३३,  
 १३४, १३७-१३९, ३३३,  
 ४३१, ४५७, ५११, ५३०,  
 ५६१-५६६, ६१८, ७७३,  
 ७७५, ७७६  
 (८) अवतारवाद ११७-१२८, १३९,  
 ३३३, ३५४, ३५५, ३५९,  
 ३६६, ७८९,  
 (९) अनुक्रमणिकाएँ २३, ११५,  
 ११६, ३३२  
 (१०) पौराणिक कथाएँ २६, ११५,  
 ११६, १३९, ३३२-३३४,  
 ३८९, ६१८, ६१९, ७७६,  
 ७८९  
 (११) निर्वहण ६१०, ७५२, ७५३  
 (१२) फलश्रुति ११५, १२३, १३७  
 (१३) भाषा १३५  
 (१४) प्रभाव-ब्राह्मण १३४, १३९;  
 बौद्ध ९०  
 (१५) प्रतीकात्मकता ९०, १०६-  
 १०८; वेदमूलत्व १८२;  
 गायत्रीस्वरूप १७८, १८२;  
 काव्यश्लोक २११; आदर्शवाद:  
 दे० राम-कथा
- रा० अमर प्रकाश ३०८  
 रा० ककचिन ३१४; ११५, २१४, २२७,  
 ३१६-३२०, ३५६, ३५८, ४००,  
 ४३२, ४६६, ४७०, ४७३ टि०  
 ४८१, ४८९, ५१७, ५२६, ५४५,  
 ५५०, ५७०, ५७१, ५७४, ५८३,  
 ५८६ टि०, ५९४, ६०६, ६११,  
 ६२७, ७६३, ७९२, ७९७  
 रामायणकथानकम् ५९  
 रा० सुवतर ३०७  
 रा० गाथा २८६, ३४३, ७१४,  
 रा० चम्पू (संस्कृत) २१०  
 —(मलयालम) २६६  
 रा० तत्त्ववर्षण १७८  
 रा० तात्पर्यवीथिका १७९  
 रा० नाटक २३८  
 रा० नो सार ३०६; १७९, ५२६, ५३२,  
 ५३७, ५३८, ५९७, ५९८, ७१४,  
 ७२०, ७२३, ७४९  
 रा० पुराण ५९  
 रा० फंजी ३०८  
 रा० बहार ३०७  
 रा० मंजरी २१८, ३४१, ४०९, ४५४  
 रा० मंजूम ३०७  
 रा० मणिरत्न २००  
 रा० मसीही ३०९, ३०८, ५४४, ७१४  
 रा० महामाला १९८  
 रा० मेह्ल ३०७  
 रा० रहस्य (अग्निवेश) १७९  
 —(विद्यारथ्य) १८२  
 रा० संग्रह १७९  
 रा० सार १७९

रा० सुन्दरकाण्ड २७९  
 रामार्चनपद्धति १४८  
 रामार्चनसोपान १४८  
 रामार्याशितक २५१  
 रामावत सम्प्रदाय १४९, १७५, ७९०  
 रामावतारकथा ३०३  
 रामावतारकालनिर्णयसूचिका १७९  
 रामावतारचरित २८१  
 रामायणमेष ३००  
 रामेश्वर दत्त २८६  
 रामोत्तरस्तापनीय उप० १४८  
 रामोपाख्यान ४७-४९; ४१-४३, ४६, ११५, २५६, ३४९, ३५४, ३९०, ४०७, ४३२, ४४१, ४४८, ४५४, ४७०-४७३, ४७७, ४९१, ५११, ५१७, ५१९, ५२५, ५२६, ५३०, ५४५ टि०, ५४६ टि०, ५४७, ५५०, ५६४, ५६५, ५६९, ५७४, ५८३, ५८६, ५८९, ५९१, ५९३ टि०, ५९८, ६०१, ६४३, ६४५, ६४९, ६५४, ६५९, ६९३, ७१५, ७३५, ७५९, ७६६, ७८१; दे० महाभारत  
 रायकृष्णदास ११३ टि०, ३३६  
 रावण  
 (१) कौन ? आदिवासी ११०; क्षत्रिय ६४४, ब्राह्मण ६४४; प्रतिज्ञासुदेव ५५; ब्रह्मावतार ६४७; प्रतापमानु ६२५; जलधर ३७२, शिवगण ३७३; हिरण्यकशिपु, जय, मधु, नंदक नरदेव, श्रीकांत, वातुगुनुग ६४८; वृत्र ९४, ९६; देवदत्त ३२७

(२) चरित: वश और जन्म ६४४-६४७, तपस्या ६४९; अत्याचार ३३७, ४२०, ६५१; शाप ६५४; त्रिवाह और सतति ६५०, विजययात्राएँ ६५१ ६५०, पराजय ६५५, ६६८; मीतास्वयंवर ३९६, ३९७, ३९९, ७९२; सीताहरण ४९०-५००, पृ०८२०; जटायु ४७०; सीतारावण-सन्नाह ५४०-५४३; सभा ५५८, ५६८ (१, ३); युद्ध ५९५-५९६; होम, सधिप्रस्ताव ५९७; वध ५९८, मुक्ति ५९९  
 (३) चरित्रचिन्तण दोषनिवारण ४८८, ५४१, ६२६, विद्वान् ६४२; शिवभक्त ६४९, ६५०, ६५३, ७८३, उदारता, पश्चात्ताप ५९७; विलाप ५९३; व्रत ५००; धमभीरु जैन ६०  
 (४) गीण सामग्री: नाम ६० ११०, ११२, ६५३; आख्यान-काव्य १०१, १०२, १०४, १३३; रावण-चरित ६४२, ६४३, ६१४; मर्मस्थान ४७०, ५९८; दाही ५५२ (८); छत्रवेश ४९२, ४९४, ५८२, ५८३, ५९७; हनुमान्-रावण-द्वन्द्व ६६८; सहस्रस्कंध ६३९, ६४०, ६४५, ६४६, २९२; आगामी जन्म ६०, ६४८

रावणभेंट ६४२

रावणमंढोवरीसंवाह ३०६

रावणवध दे० भट्टिकाव्य

रावणवह (सेतुबंध) २१४; ११५,  
२१२, २१६, २५७, ३१७, ५४७,  
५७८, ५८३, ५८६, ६११, ७३१

राहु ६६६, ६६८

रिसडेविज्ञ ६६ टि०

रुक्मिणी ६८६

रुद्र—दे० शिव

रुद्र वाचस्पति २४९

रुमा ५१५

रुबेन डब्लू ११० टि०, १३४, २७४

रैमसेस १०८

रैस ई० पी० २६९ टि०

रोजेस्युस ३३०; दे० पा० वू० न० २

रोमपाद ३४३

रोरडा वान ऐसिगा ३१९

रोस एच० ए० ६७३ टि०

रुका ११३, ६४४, ६४९; परलका  
५३५, ६५५ (५); परलका ६३९  
टि०; पाताललंका ६१४; बिलंका  
६३९; हनुमल्लका ५७१

लंकादहन १३८, ५३०, ५५१

लंकादेवी ५३५-५३७, ५२९

लंकाणोय ३२८

लंकावतारसूत्र ५४, १०१, १०२, १०४,  
६२२

लक्ष्मण

(१) अवतारत्व ३५९-३६२; अन्य  
पात्रों से अभिज्ञता मित्र ९५,  
अर्जुन २९२; शिव २९२; बल-  
भद्र २९३; वासुदेव ५५;

आनन्द ३२७, ३२८; पूर्वजन्म  
३६३; नाम ३७७

(२) चरितः जन्म ३७५, ३४१-३४२,  
बाललीला ३८३, ३७८; विवाह  
११६, ३९०, ३९१, ४००,  
४०३, ४३१; शम्भूक-वध ६३१,  
शूर्पणखा-विरूपण ४६४; युद्ध  
५९३, ५९६, ५८६, ५८९,  
५९१, ५९२, ५९५, अभिषेक  
६१०; विजययात्रा ६०६,  
६३६, मृत्यु ७५३; नरकवास,  
आगामी जन्म, निर्वाण ६०,  
६४; अन्य उल्लेख ४३२, ४३४,  
४६६, ४८९, ४९३, ४९८,  
५१२, ५७४ (६), ७०३, ७१७-  
७१८, ७२२-७२४, ७४६, ७४७  
७४९, ७५१

(३) चरित्रचित्रण समय ४६१-४६२,  
४०३; बहुपत्नीक ६०, ६४;  
आशका ४९२ टि०, काव्यनायक  
३०१

लक्ष्मणभट्ट २५५

लक्ष्मणाद्यथ २९९

लक्ष्मी १२३, १२४, १४९, १९१, ३२२,  
३६४, ३६५, ३७३, ६४८, ६५५  
(४), ७२९

लक्ष्मीधरदास २९१

लक्ष्मीश २६९

लक्ष्मीसागर वाणर्ष्य ३००

लघु रामायण ३०५

लघुत्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित ५९

लव ७३५-७५१, ७७२

लवकुशर युद्ध २८४, ७१७  
 लवकुशास्थान ३०६  
 लवण ६२०  
 लार्गुलोप० ६९९, ७०८  
 लाओ राम-कथा ३२७, ३२८  
 लाफो पी० वी० ३२७ टि०, ३२८ टि०  
 लालदास २९९  
 लाला अमरगिह ३०८  
 लाला अमानत गाय ३०८  
 लालू एम० ३११ टि०  
 लिंग पुराण १५७; ३३६, ३४६, ३६१,  
 ३७०, ३७३ टि०, ६२३ टि०  
 लियेऊ त्तु-स्ती-किंग ५२  
 लुडमं ग०, टि० मे—५६, ६७, ७०,  
 ७१  
 लुडिवग. ए० ४ टि०, १२ टि०, ४८  
 लेवि. एम० २३, टि० मे—५३, ७९,  
 २२५  
 लेस्नी, वी० ११६ टि०  
 लेस्सन, सी० ६५ टि०, १३३ टि०  
 लोमश १७९, १९४, ३८१, ७२८  
 लोमश रा० १९४, ३७२  
 लोमश संहिता १९४  
 वंशीघर शुक्ल ३०१  
 वनमालीदास २५१  
 वरप्राप्ति: राम ५२३, ५६६, ६०१,  
 ६२८, ७८४; रावण-कुम्भकर्ण-विभी-  
 षण ६४९, ६४७; रावण ५९९,  
 ६५०, ६५३, ; अंजना ६६८, ६७२,  
 ६७८; इन्द्रजित् ५९०, ६५२;  
 कश्यप-अदिति ३६७; केसरी ६६७;

कैंकेयी ५१, ५३, ४४७-४४९;  
 कौशल्या-कैंकेयी ३३९; दशरथ ३५४,  
 ४७२, ५७४ (३); नल ५७४ (७),  
 ५७५; परशुराम ३४९; मनु-  
 शतरूपा ३६८; वाल्मीकि ३४,  
 ७२९; वैश्ववण ६४९; शम्बूक ६३०,  
 शूर्पणखा ४६९; सुलोचना ५९४;  
 हनुमान् ६६६, ६९३-६९५, ७०४;  
 हिरण्यकशिपु ६४८, अन्य—७३,  
 ७४, ३६७, ३६९, ६२०, ६३३,  
 ६४१, ६४४, ६६८, ६७६

वराहमिहिर ११३, १४७,  
 वरुण ३९२, ४१०, ६५२, ६८७, ६९४  
 वल्लभाचार्य १४६

वसिष्ठ १ टि०, ३९, १७४, २००,  
 २०९, ३८४, ६१०, ६२१, ६२३,  
 ६२४, ६३४, ७२० टि०

वसुदेव २२४, ३६८, ३७५  
 वसुदेवाहिण्डि २५३; ५८, ६२, २५२,  
 ३४१, ४०६, ४४३, ४५२, ५४७,  
 ६४६, ७८२

वसुवधु ७९  
 बह्मिपुराण १६६, ३४६, ३७०, ४००,  
 ४८९, ५३३, ६४८,

बांडिये जे० १०९ टि०  
 बाजसनेयि संहिता १४  
 बातानबे के० ७९ टि०  
 वातापि ६२७

वातुगुर्नुंग ६४८  
 वान ग्लासनैप ५५ टि०  
 वान नेगेलेन ७६ टि०, ९८



वान फूरर हाइमेनडार्क ११० टि०  
 वानर ५६, ११०, ६८०, ७८७  
 वानर-सेना का अभियान ५६७  
 वामदेव ३८४  
 वामन (कवि) ३०५  
 वामन पुराण १५७, ३६७  
 वामन भट्ट बाण २२०  
 वामनावतार १४१, १४४, ३६७, ६३५,  
 ७८०  
 वायु ६४४ टि०, ६६४, ६६६, ६६८,  
 ६७१, ६७२, ६७४, ६७५, ६७८,  
 ६७९  
 वायुपुत्र १०३, ६५९-६६२  
 वायुपुराण १५४, ६, १४३, १५२,  
 ३४३, ३५४, ३५९, ३६४, ३७०,  
 ४०७, ६०१, ६२३ टि०, ७१४,  
 ७१५, ७९०  
 वारानधिवास २९१  
 वाराह गृह्यसूत्र १६ टि०  
 वाराह पुराण १५७; १४०, १६९,  
 ३५४, ७८०  
 वाराहावतार १४०, १४४, ६४८, ६८५  
 वार्ड डब्लू ३९२ टि०  
 वालि ५१३-५२२, ६५५ (२); २९२,  
 ३२१, ३२७, ५५५, ५९७, ६५३,  
 ६५९, ७७९  
 वाल्मीकि २८-४०; १३२, ३२३, ४३२,  
 ४३४, ६३६, ६०१, ६३६, ६९०,  
 ७२९, ७३७, ७३९, ७४३-७४५,  
 ७४७, ७५३, ७५४, ७६४  
 वासववत्सा २५२

वासिष्ठोत्तर रा० १८७  
 वासुकि ३२२, ६५२, ७५७  
 वासुदेव २५६  
 वासुदेवशरण अप्रवाल ११२ टि०, ७१०  
 विजेनजो मरिया ३३०, दे० पा० वृ०  
 नं० १६  
 विटरनिल्स, एम० २७, ५९, ७०, १७४;  
 टि० मे—४१, ४८, ५५, ६५, ६६,  
 ७८, ७९, ८४, ८५, ८९, ९०, ९४,  
 ९८, १०२, १२९, १८५, २११  
 विस्टेड ३१९ टि०  
 विक्रमनरेद्र २९१  
 विक्रमोर्वशीय २४१, ४७३ टि०  
 विगुरु एफ० १०० टि०  
 विचित्र रा० (माधवदाम) २९१, ३५७,  
 ३५८  
 —(धुंटीआ) २९१  
 विजय (विष्णु के द्वारपाल) ३६६ टि०,  
 ३७२, ६४८  
 —(राजा) २८०, ३२०  
 —(गुप्तचर) ७१७, ७३३  
 विट्टल ३०५  
 विट्टलराजू २५९  
 विठा रेणुकानन्दन ३०५  
 विद्याधर ५६, ६६२  
 विद्यारण्य १८२  
 विद्युजिह्व ५८३, ६३२, ६४५, ६५२,  
 ४६२ टि०  
 विनयपत्रिका ३९, ५५२, ६६२ टि०,  
 ६७०, ६८६, ६९१, ६९२, ६९७,  
 ७०८

विनयपिटक ६६  
 विप्रनारायण ५७७  
 विभीषण ५६८-५७२, ४८३, ४८६,  
 ६००, ६०५, ६३५, ७५५, ७५७  
 विभीषणेर रायबार २८९  
 विमलसूरि ५७, ५८, ६०, ६२, २३९;  
 दे० पउमचरिय  
 विराघ ४५७, ४५८, ४६६ ]  
 विरूपाक्ष ५६८(५), ५९५, ५८४ टि०,  
 विरूपाक्षदेव २४२  
 विलंकाखंड २९१, ६३९  
 विलंका रा० २९१, ५८५, ७२६  
 विल्सन, एच० एच० १२ टि०  
 विशाल्या ५९६  
 विश्रवा ६४४-६४६, ६४९, ६६८  
 विश्रामसागर ३०१, ३४५ टि०, ५९४  
 विश्वकर्मा १९१, २२२, ५२६, ५५२  
 (१२), ५७४, ५७५, ६४४, ६९४,  
 ७१३, ७२३, ७९४  
 विश्वनाथ (साहित्यदर्पण) २५१  
 विश्वनाथ खूँटिआ २९१  
 विश्वनाथ सिंह (सगीत रघुनन्दन) २५०  
 विश्वनाथ सिंह ।(हिन्दी) ३००  
 विश्वामित्र १ टि०, ३४६ टि०, ३५८,  
 ३८८, ३८९, ३९१, ४०३, ६१८,  
 ६२१, ६२३, ६३६, ६३९, ६६४ टि०  
 विष्णु १२६, १४०-१४४, १४६, ३२२,  
 ३५०, ३५५, ३५८, ३७०-३७३,  
 ६४४, ६४८, ६५०, ६५५, ६५८,  
 ६७३, ६७६  
 विष्णुदास ३०६

विष्णुधर्मोत्तर पुराण १६४; ३९, १४७,  
 ३६०, ७०८ टि०  
 विष्णुपुराण १५३; ६, ३२, १४०, १४१,  
 १४३, १४४, १५२, १५३, ३३३,  
 ३४३, ३४४, ३५२, ३५४, ३५८ टि०  
 ३५९, ३६४, ३६८, ४०७, ४०८,  
 ६०१, ६१३, ६२४, ६४८, ७१४,  
 ७१५, ७३७ टि०, ७९०  
 विष्णुपुरी रा० २८८  
 वीरकेरल वर्मा २६८  
 वीरनाग २३१  
 वीरबाहु २८५, ६५०(५)  
 वूलनर ए० सी० ५८ टि०  
 वृन्दा ३७२, ४८९, ६४८  
 वृषाकपि १०३  
 वृहत्; दे० वृहत्  
 वृहस्पति ३६, ५९७  
 वेकटदेशिक (वेकटनाथ, वेकटाचार्य)  
 २४९  
 वेकटघ्वारिन् २४७  
 वेकटरत्नम् एम्० १०९  
 वेकटेश २४८  
 वेणाबाई ३०५  
 वेदवती ४१०; ११५, १५७, ७३९,  
 ७७९  
 वेदान्त रा० १८३, ३४९  
 वेदान्ताचार्य २४९  
 वेबर, ए० ४, १०, २७, २९, ४८, ६५,  
 ७३, ७५, ७७, ९०, ९२, ९३, १०१,  
 १०४, १०६, १०७, १४८, ४२७,  
 ७६५; टि० मे—१३, १८, १४८,  
 ५६५, ७३६

वेस्तान्तर जातक ८३, ८५, ८८  
 बैखानस गृह्यसूत्र १६ टि०  
 बैतान सूत्र १४ टि०  
 बैवेही वनवास ३०१  
 बैवेहीस विलास २९१  
 वैद्य; दे० चिंतामण विनायक  
 वैपुरी पिल्लै २५७ टि०  
 वैराग्य राम ३८६, ६१०, ७५२, ७५३  
 (५); सीता ६०१, ७५२, ७५३  
 (५), भग्न ४५२, ६१०; बशरष ६०;  
 वालि ६०, ६५५ (२); विभीषण  
 ५७१, हनुमान् ६५७; वाल्मीकि  
 ३४, ३८; सहस्रकिरण ६५५;  
 स्वार्थभू ३६८  
 वैश्य सदाशिव २९१  
 वैश्रवण ५६८ (६), ५६९ (२), ६४२,  
 ६४४-६४७, ६४९, ६५१  
 वैजय उष० १४८ टि०  
 वैष्णवमताम्नभास्कर १४९  
 व्यास ४४, १७९  
 व्यास, एस० एन० ११२ टि०  
 व्यासमिश्रदेव २४३  
 शंकर (आचार्य) १०८  
 शंकर चक्रवर्ती २८८  
 शंकरदयाल फर्हंन ३०७  
 शंकरदास २९१  
 शंकरदेव १८३, २८४, ३५१, ३९२ टि०  
 शबूक ६१८, ६२८-६३२  
 शंभुप्रसाद बहुगुना ४७७ टि०  
 शक्तिभद्र २३५  
 शतकोटिश्लोक रा० १७७, ७३७

शतपथ ब्राह्मण ४, ५, ६, १४, १४०,  
 १४१, ३४४, ३६८; टि० में-७,  
 १५, ३२, १२९  
 शतमुखरावणचरित १८७, ६४०  
 शतमुखरावणवध ३०५, ६४०  
 शतरूपा ३६८  
 शतानन्द ३४४, ३८९  
 शत्रुंजयमाहात्म्य ५९  
 शत्रुघ्न ६२०; २९२, ३४१, ३५१,  
 ३५९-३६१, ३७७, ३९१, ४००,  
 ४३४, ४४३, ६०५, ६०९, ७५३  
 शबरी ४७७-४८१  
 शबरी (गोविंददास) ४७७ टि०  
 शबरीमंगल ४७७ टि०  
 शबर्याख्यान ४७८  
 शरच्चन्द्र राय ११० टि०, २७२  
 शरभग १२८, १९९, ४३६, ४५७, ४५९  
 शशाक खट्टोपाध्याय ३४३ टि०  
 शांख्यायन आरभ्यक ६  
 —गृह्यसूत्र; टि० में-१७, ४१, १२९  
 शांडिल्य भक्तिसूत्र १४६  
 शातनुविहारी द्विवेदी ३८२ टि०  
 शांता ३४३; ३१७, ३५८, ३८३, ५७२,  
 ६०५, ७२३; दे० कीकवी  
 शांति आंकडियाकर ३०६ टि०  
 शांतिसूरि ५९  
 शांबव्य १७ टि०  
 शापभाजन: राम ४४६, ४६९, ५२०,  
 ७२६; सीता २४१, ४८९, ५४४,  
 ६०२, ७२७, ७२८; रावण ६५४,

५९७; विष्णु ३७०-३७३, ७२५;  
लक्ष्मी ३७३, ४८९, ६४८; अजना  
३४७, ६७२, ६७४, ६७५; अप्सराएँ  
५८७ (३), ६१३, ६६४, ६६८,  
६७६, ६७७, अहल्या-इंद्र ३४६-  
३४७; कबच ४७३; कुभकर्ण ६४९,  
कैकेयी ५४१; चक्रवाक ४७४, ७९५,  
जय-विजय ३७२, ६४८; वशरथ  
३४३, ३५४, ४३३; नल ५७५;  
नारद ३७३; वालि-सुग्रीव ५१३;  
वालि ५१६, ५१७, ५२२ टि०;  
शम्भूक ६३२, शाता २०६, ७२३ टि०;  
शिवगण ३७३; शुक ६२५, शिवरी  
४८१, स्वयम्भवा ५२६ टि०; हनुमान्  
६६६, ६९७; अन्य ३७३, ३८१,  
३८३, ३८४, ४५८, ४७२, ५१६ टि०,  
५१७, ५३७, ६१४, ६२१, ६२३-  
६२५, ६४१, ६४८

शामराव हिवाले २७५ टि०

शारदातनय २३६

शार्दूल ५८२, ५८३

शार्पेटिये जे० ६६ टि०, ८४ टि०

शास्त्र ५९१ टि०

शाहजहाँ ३०८

शिव ७८३-७८४, ६७०-६७४, १८९,  
३५०, ३७५, ३८२, ३९२, ४३२(५),  
५६८(६), ५९७, ६३५, ६५०(२),  
६६८, ७०५; ३८, २९२, ३८१,  
३८८, ३९८, ४००, ४८९ टि०,  
५२६, ५९४, ५९९, ६२०, ६३३,  
६३४, ६५४, ६५८, ६७८, ६९४,  
७९४

रा० ५२

शिवगण ६४८(४), ३७३

शिवनन्दन सहाय ११० टि०, ३९२ टि०

शिवगीता ५२३

शिवपुराण १६७, ४८८, ५२३, ६७१

शिवप्रतिष्ठा ५८०

शिवप्रसाद भट्टाचार्य १७४ टि०

शिवमहापुराण १६७, ३७२, ३७३,  
४३५, ४७५, ५२३, ६४८, ६७३,  
७०१, ७८४

शिवरत्न शुक्ल ३०१

शिवसंहिता ६९१

शिशुपाल ६४८

शीलाचार्य ५९

शुक (राक्षस) ३७५, ५८२, ६२५

शुक (पत्नी) २०१, ७२७

शुक्राचार्य ५८२, ५९७, ५९८

शूर्पणखा ४६३-४६९, ४८३-४८६,

४८९; २७, ६०९, ६४४-६४६

शृंगारप्रकाश २३१

शोलाबेर ३१९

शेष ३६१, ५९४

शौनक १२

श्याम की राम-कथा ३२५-३२८, ४९८

श्यामक जातक ८४

श्रवण ४३३, ३५६

श्रवण रा० २०८, ४३३, ४३४

श्राडर १४७, १४८ टि०

श्रीगोस्वामी तुलसीदास ११० टि०,  
३९२ टि०

श्रीचंद्र ५९

श्रीचंद्र भारती २८४

श्रीधर ३०५

श्रीनिवास राघव १७९  
 श्रीभाष्य १४८  
 श्रीमती (अबरीश-पुत्री) २८७, ३७३  
 श्रीमहेश्वरीभागवत; दे० देवीभागवत  
 श्रीमाधतिस्तवराज ६९७, ७०९  
 श्रीरंगम् १७८, ६३५, ७८०  
 श्रीराम ३१९  
 श्रीरामकीर्तन २८८  
 श्रीरामगीता १४८  
 श्रीरामचंद्र अश्वमेध २८८  
 श्रीरामचंद्रोदय ३०१  
 श्रीरामपांचाली २८५, दे० कृत्तियाम  
 —(द्विज भवानीदाम) २८६  
 —(रामानन्द) २८७  
 श्रीरामबिलास २९१  
 श्रीरामायणसमालोचना टि० मे-११७,  
 १६२, १७७, ५६५  
 श्रीरामार्चनपद्धति १४९  
 श्रीरामायणसंज्ञा ३०१  
 श्रीवेदांतवैशिक २४९  
 श्रीहनुमत्सहस्रनामस्तोत्र ६९७, ७०८,  
 ७०९  
 श्रीहनुमान् चरित ३८२ टि०  
 श्रीहरिभक्तिरसामृतसिधु ७८७  
 श्रीहृदयार्च्य २५०  
 श्रुतकीर्ति ३९१, ४००  
 श्लेगल २७  
 श्वाहसगुट, पी० ३२५ टि०  
 श्वेत (राजा) ६२७  
 श्वेतद्वीप ६५५  
 शक्तिवंश ब्राह्मण ३४४

संकल्पसूर्योदय १०८  
 संकष्टनाशनस्तोत्र २४५  
 संक्षेप रा० ३०५  
 संगीतरधुन्यन १५०, २५०  
 सप्तदास ५८, ६२, २५३; दे० वसुदेहिहिडि  
 सताली राम-कथा २७१, ३४१, ५८०,  
 ६०६  
 संधिप्रस्ताव ५८५, ५९७  
 सध्याकरणदि २४५, ४३९, ७३८  
 सपाति (वानर) ६५९  
 —(गीघ) ४७२, ४९१, ५१०,  
 ५११, ५२७  
 संबुला जातक ८६, ८८  
 सबूरान ५२४  
 संबुल रा० १९३, ३६९  
 सती; दे० पावती  
 सत्यक्रिया; सीता ६००, ६०१, ७१६,  
 ७२३, ७४९, ७५३, ७५५, ७५६,  
 मवोदरी [५४२; सुलोचना ५९४;  
 हनुमान् ६९६; अन्य ८४, ८६  
 सत्यदेव चतुर्वेदी ३८२ टि०  
 सत्यभामा ६८६, ७८७  
 सत्येंद्र ७५३ टि०  
 सत्योपाख्यान १८८; १५०, १९४ टि०,  
 ३३८, ३४३, ३५३, ३६१, ३७९,  
 ३८१, ३८३-३८५, ३८८, ३९१,  
 ३९२, ४५४, ७८१, ७८४, ७८७  
 सदल मिश्र ३००  
 सद्धर्मलंकावतारसूत्र १०२  
 सद्धर्मस्तूपुपाख्यान ७९  
 सनकादि ६४८

सनत्कुमार १७४, ३७१  
 सजीति रा० २४६  
 सम्यग्निष्क्यण रा० १७९  
 समयसुन्दर २९९  
 समयार्त्त रा० १७९  
 समर्थ रामदास ३०५  
 समुद्रमयन १४०, ३८९, ५१५, ५२२  
 सरमा ५४६, ५६९, ५८३, ५९७  
 सरस्वती १९१, २११, २९५, ४५२,  
 ४५४, ५९४ टि०, ६४९  
 सरस्वतीकंठाभरण ५७२  
 सर्बसिद्धान्त १४८  
 सहस्रमुखरावणचरित्रम् १८७, ३३९ टि०  
 माँची ८८  
 साडेमरा, बी० जे० २३८ टि०  
 साकन्यमन्त्र २१९  
 साकेत ३०१, ४०३ टि०, ५६७ टि०,  
 ५८८  
 साकेत संत ३०१  
 सागर ५७४, ५७८  
 सातवलेकर ३४६ टि०  
 साष्टवत संहिता १०८  
 सादुल्लाह कौगनबी ३०९ टि०  
 साम जातक ८४, ८८, ४३३  
 सामवेद १६ टि०, १७ टि०  
 सायण ८, १२, ९४, ३४४ टि०  
 सारण ३७५, ५८२  
 सारलादास ३९, २९१, २९२; वे०  
 महाभारत (उद्धिया)  
 साहसगति ५१५, ५२२  
 सिंहनाद ५७९, ५९१  
 सिंहलद्वीप ९०, १०२, ११३, १३३

सिंहली राम-कथा २८०; २७९, ४०६, ४२१,  
 ४२६ टि०, ४४३, ४४६, ४९०,  
 ५१५, ५३१, ५५५, ७१४, ७५६  
 सिंहसौदासनांसभक्षणनिष्पत्ति ६२२  
 सिद्धान्त तत्त्वबीपिका ४०४ टि०  
 सिद्धेश्वर दास २९१  
 सिद्धेश्वर परिडा २९१  
 सीता (कृषि की अधिष्ठात्री) ७, १०-  
 २०, ९३, ९७, १०६, २७६, ४०८,  
 ४२६  
 सीता सावित्री ८-११, ४०८  
 सीता (वैदेही)  
 (१) अन्य पात्रों से अभिप्रेता? अक्सरा  
 ९८; द्रौपदी २९२; सुभद्रा  
 २९३, ३६२; यशोधरा ५१;  
 उष्पलवण्णा ३२७; कृषि की  
 अधिष्ठात्री ९३, ९७; रुमिगणी  
 ७८७, वेदवती ४१०; श्रीमती  
 ३७३  
 (२) अवतारत्व १४८, १५५, ३६२,  
 ३६४, ३६५, ४१७  
 (३) चरित जन्मकथा ४०५-४२८,  
 ६३९, स्वयंवर ३९४-४०१;  
 वनवास ४४३, ४३२, ४३५;  
 हरण ४८२-५०८; रावण से  
 सवाद ५४०-५४४; हनुमान् से  
 सवाद ५४९-५५०; अग्निपरीक्षा  
 ६००-६०३, ५६५; त्याग ७१४-  
 ७३४, ७७१; भूमिप्रवेश ७५३  
 (४) चरित्रचित्रण: पातिव्रत्य ४४३,  
 ५००, ५४२, ५८३; पूर्वानुराग  
 ४०३; आत्महत्याविचार ५८६,  
 ७४१;

- वैराग्य और तपस्या ६०१, ७५२,  
७५३ (५), ७५६; शक्तिरूपा  
६३९-६४१
- (५) माया-सीता ५०१-५०८, ५७९,  
५९१, ६०१, ७३३, ७३८,  
४७५, २४४, ४९४, ४९६,  
७९२, १५०; स्वर्णमयी २३६  
(३), ६३३
- (६) गौण सामग्री: नाम ७७९, ३११;  
पूर्वजन्म ३७३, ४१०, ४१२;  
आगामी जन्म ७५३ टि०,  
७८७; हनुमान् की माता ६७५;  
शापभाजन २४१, ४८९, ५४४,  
६०२, ७२७, ७२८
- सीताकथानकम् ५९  
सीताचरित्र ५९  
सीतार पातालप्रवेश नाटक २८४  
सीतारामचौपाई २९९  
सीतारावणकथानकम् ५९, ६१  
सीतावनवास २८४  
सीताविजय १८७, ६४०  
सीताविरह ३०६  
सीतास्वयंवर ३०५  
सीता-हनुमान्-संवाद ३०६  
सीताहरण ३०६  
सीतेन्द्रविलास २९१  
सीतोपनिषद् १४८  
सीयाचरित्रं ५९  
सीरध्वज ६  
सुन्दरकाण्ड (मराठी) ३०५  
सुकठणकर, बी० एस० ४२ ४टि०  
सुकुमार सेन २८५ टि०
- सुकेश ६४४, ६४५  
सुधीव ५१२-५१९, ५८४; २०६, २९२,  
३२१, ५२४, ५५४, ५८५ टि०,  
७७९, ७९६  
सुचित्र रा० २९१  
सुजुकि डी० टी० १०२  
सुतसौम जातक ८७, ८९, ६२१-६२३,  
६२६  
सुतीक्ष्ण १७४, १९६, ४५७  
सुत्तनिपात-टीका ७३, ७५  
सुत्तपिटक ६६  
सुदर्शन (चक्र) ६८६, ३६१; (मुनि)  
७२८  
सुदर्शन सिंह ३८२, टि०  
सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या १०५  
सुपाखर्व ४९१, ५०० टि०, ५१०, ५२७  
५९३  
सुबाहु ३८८, ३८९  
सुबोधचंद्र मजूमदार ४०९ टि०  
सुभट्ट २४०  
सुभद्रा २९३, ३६२  
सुमत्र ३३७, ३४३, ३५५, ४३२, ६३६,  
७२५  
सुमग्न जातक १०३, ६६२  
सुमनसांतक ककबिन ३१५  
सुमाली ६४४, ६४५ टि०, ६४६, ६४९,  
६५२  
सुमित्रा ३३९, ३७५, ३७८, ६०९,  
७५३  
सुलोचना ५६४; २०६, ३९७, ५९३  
सुवर्णसामचरियम ८४

सुवर्चस रा० २०६, ३४३, ७२३ टि०

सुवेल ५८४, ५६२

सुशील कुमार दे २१४, टि० मे—२११,  
२२०, २३४, २३५

सुषेण ३१२, ५१५, ५८६, ५८७ (३),  
५९३, ५९६, ५९७

सूजनाारायण ३०७

सूग्दाम २९८

सूरसागर २९८, ३८६, ३७९, ३९५,  
४३२, ४७८, ४९८, ५८८

सूर्य २०१, ३६२, ५१३, ५१४, ५२७  
टि०, ५८३, ६६६, ६८०, ६९४

सूर्यदेव (कवि) २४७

सूर्यमणि व्याज पट्टनायक २९१

मेनु-निर्माण ५७३-५८१

सेतुबंध दे० रावणवहू

सेतुबंध, ५८१, ६०७, ६३५

सेरत काण्ड ३२२, ३१९, ३४०-३४२,  
३५४, ३६१, ३९२, ३९७, ३९९,  
४०६, ४१५, ४२८, ४३९, ५१२,  
५१४, ५१७ टि०, ५४७, ५७०,  
६३२, ६४३, ६४६, ६५०, ६५१ टि०,  
७१४, ७२३, ७४२ टि०, ७५१ टि०,  
७५६

सेरत राम ३१६

सेरीराम ३२०; २२७, ३१७, ३१९,  
३२१, ३२२, ३२४, ३२६, ३२७,  
३३०, ३३६, ३४०-३४३, ३५०,  
३५१, ३५४, ३५६, ३५७, ३८५,  
३८८, ३८९, ३९२, ३९७, ३९९,  
४००, ४०२, ४०६, ४२८, ४३२-

४३४, ४३८, ४३९, ४४६, ४४७,  
४५४, ४५८, ४६१, ४६३, ४६४,  
४६६, ४७०-४७४, ४९२, ४९८,  
५००, ५१२, ५१४, ५१५, ५१७,  
५१९, ५२०, ५२४, ५३१, ५३३,  
५४७, ५५०, ५५२, ५५४, ५७०-  
५७२, ५७६, ५७८, ५८१, ५८३-  
५८७, ५८९, ५९१-५९३, ५९६-  
५९९, ६०२, ६०५, ६१३-६१५,  
६३२, ६४३, ६४६, ६४९, ६५०,  
६५४, ६५५, ६६८, ६७५, ६९८,  
७०६, ७०७, ७१४, ७२३, ७३८,  
७४५, ७५१, ७५६, ७६३, ७९४,  
७९६; टि० मे—३६१, ५१६, ५२७,  
५३३, ६४८, ६५७, ७१७, ९०८२०

सोढी मेहरबान २९९

सोनेरा ३३०; दे० पा० वृ० न० १२

सोमदेव २५४; दे० कथासरित्सागर

सोमप्रभ ५९

सोमसेन ५९, ४१२ टि०

सोमेश्वर २३८, २५१

सौवरनग्व ७८

सौदास ६२१-६२६

सौपद्य रा० १९७, ४०३

सौर पुराण १७१, ३६५, ५८०, ६४९,  
७८४

सौर्व्य रा० २०१, ७२७ टि०

सौहार्द रा० १९९

स्वां पुराण १६१; ३२-३४, १४८,  
१६७, १८९, २८५ टि०, ३४३,  
३४६, ३४८, ३५४, ३६५, ३६९,



३७२, ४०१, ४३५, ४६२, ४७२ टि०,  
५७४, ५८०, ५८९, ५९९, ६०६,  
६२४, ६३४, ६३५, ६३७, ६४९,  
६५५, ६६८, ६६९, ६८७, ६९५,  
६९६, ७०५, ७०८, ७१० टि०,  
७६०, ७९३

स्टुटरहाइम ६५ टि०, ३१५, ४२७ टि०  
स्मिय एच० ७३ टि०

स्याम दे० श्याम

स्वप्न राम ३८९, ४३५, ५७४ (६),  
७१७, ७४३; सीता ४०३; जनक  
३९२; कौशल्यादि ३७५; त्रिजटा  
५४५, रात्रण ५४१; भरत-सुमित्रा  
५८८; नद १७३

स्वप्नवशानन २३६, ७९०

स्वयम्भूदेव ५९, ६९९

स्वयंप्रभा ५२६

स्वयम्भू मनु ३६८

स्वायम्भू रा० २०४, २३७, ८१३ टि०

हंसमूल, हंससंवेश २८९

हजारीप्रसाद द्विवेदी ४४० टि०

हवीस-इ-राम-उ-सीता ३०९ टि०

हनुमत्संहिता १५०, १९०, ६९१

हनुमद्विजय १५६

हनुमत्पाठक; दे० महानाटक

हनुमान्

- (१) कौन ? आदिवासी ११०, ६८०,  
७११; वैदिक देवता ९५,  
९६, ७११; वृषाकपि १०३;  
ताम्रपुत्र ६५९-६६२; ख्याततार  
६७०-६७४, ६७९, रामपुत्र

६७५; विष्णु-अवतार ६७६-  
६७८; नारायण-पार्षद ६५८;  
विमूर्ति के अवतार ६५८

- (२) चरित : सिंहावलोकन ६५६-  
६५७; जन्मकथा और बाल-  
चरित ६५८-६७९; बालक राम  
से मैत्री ३८२, लक्ष्मण से युद्ध  
५१२; सीता की खोज ५२४-  
५२७; समुद्रलघन ५३१,  
११२, लका में ५३५-५३९,  
५८९, ५९६, सीता-रावण-  
संवाद में हस्तक्षेप ५४१-५४२,  
सीता से संवाद ५४९-५५०,  
लकादहन ५३०, ५५१, ५५२;  
नल से सघर्ष ५७६, पर्वत-आन-  
यन ५८७, ५८८, ६४१, ५८१,  
६५५, पाताल-प्रवेश ६१४,  
७५७, राज्याभिषेक और  
निर्वाण ६५७, सायुज्य मुक्ति  
७०३; गौण हस्तक्षेप ५०३ टि०,  
५७३, ५७४ (७), ५७८, ५८०,  
५८५, ५९१, ५९२, ५९४ टि०,  
५९६, ५९७, ६००, ६१२,  
६१३, ६३५ टि०, ७४६, ७५०;  
पृ० ८२०

- (३) चरित्रचित्रण ६८०-७१३;  
बैराग्य और तपस्या ५१२,  
६५५ (२), ६५७, ७०४  
७५३; गर्बनिवारण ४६१, ५३१,  
५५४, ५८०, ६०८
- (४) गौण सामग्री: नाम १०३, ६६०,  
६६१, ६६४, ६६९, ६७८

- ७११, पूर्वजन्म ६५८; आगामी जन्म ६५७ टि०; संतति ६१५, ६९६, ब्रह्महत्यादोष ६३४ टि०; आभूषण ५१२; छपवेश ५१२, ५३२-५३४, शापभाजन ६६६, ६९७; रावण से सबध ६५७, ६६९, अर्जुन की ध्वजा पर ६८५, ७१३; आख्यानकान्य १०१, १०३, १०४, १३३, ७१२
- हनुमान वाहुक** ५५०, ६७०, ६८५, ७०८ टि०
- हरदत्तसूरि २४५  
हरदेव बाहरी ३९  
हरप्रसाद शास्त्री २४८-२५०  
हरिदत्त २३८  
हरिदास ३०६  
हरिनाथ २५०  
हरिभद्र ५९, ६१, ३४२  
हरिभद्र सूरि ७२२  
हरिमोहन गुप्त २८७
- हरिवंश** १५१; १९, ४१, ७१, १३०, १४०, १४१, १४३-१४५, १४७, १५३, १६०, २२५, ३२३, ३३३, ३३६, ३४३, ३४४, ३५२, ३५४, ३५९, ३६४, ३६७, ४०६, ४०७, ६०१, ६१३, ६२३, ६४८, ६५५, ७१४, ७१५, ७३५, ७५७, ७६०, ७९०
- हरिवंश (उड़िया)** ४२४, ६५०, ६५७ टि०
- हरिवंश कोछट ५९  
हरिहंकर २५०  
हरिद्वन्द्व २८५  
हरिश्चय ककबिन ३१५  
हरिषेण ५९  
हरिमत्य भट्टाचार्य ५५ टि०  
हरिहर मिश्र २८४  
हरिचरित २५२  
हलधरदाम २९१  
हलिआ रा० २९१  
हस्तिमन्ल ५८, २३९  
हाजरा दे० राजेद्र  
हाफ्किम ई० डल्लू० ४८, ५७, ७१३; टि० मे—४१, ४०, १०७, ११७, ५११  
हाँयकास ३१४ टि०  
हारादाम २८९  
हिदचीन की गम-कथा ३२३-३२४  
हिन्दी राम-कथा २९४-३०३  
हिन्दी साहित्य का इतिहास २९५ टि०  
हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास २९७ टि०  
हिन्दुत्व १४८, १९२-२१०, ७२३ टि०  
हिन्दुस्तान की पुरानी सम्मता ११ टि०  
हिन्देशिया की राम-कथा ३१३-३२२, ५४७, ६७५  
हिकायत सेरी राम; दे० सेरी राम  
हिकायत महाराज रावण ३१९, ३४०, ३४१, ३९९, ४०६, ४२८, ४४८ टि०, ४९८, ५१२, ५२१, ५३४, ५७८, ५९९, ६१५, ७१४, ७२३, ७४५

हिट्टेट १०९	हेमचंद्र ५९, १०१, २३६, ३४०, ४५८,
हिमांशुभूषण सरकार ३१४, ५१४ टि०	५४७, ७१८; वे० जैन रामायण
हिरण्यकशिपु ६४८	हेमचंद्र राम चौधुरी १४० टि०, १४२,
हिरण्यकेशिन् गुह्यसूत्र १६ टि०	१४३ टि०
हिरण्यकेश ६४८	हेमा ५२६
हीरालाल ११३ टि०	हेटेल, जे० ६६ टि०
हीरालाल चौपड़ा ३०९ टि०	होमर ७५, ९२, ५०८, ७६५
हृदयनारायण सिंह ११५ टि०	ह्विटनी, डब्लू० १३ टि०
हेति ६४४	ह्वीलर, जे० टी० २७, ९०, १०८

## इ—शुद्धिपत्र

(सारक-चिह्नित पंक्तियों को नीचे से गिनना चाहिए)

पृष्ठ	पंक्ति	
६	८*	इदं धनुर्वरं ब्रह्मञ् जनकैरभिपूजितम्
२२	९	उसका इस अद्भुताध्याय में वर्णन है
३२	९*	प्रचलित वाल्मीकि रामायण का वर्तमान रूप
३३	१९	ए० ए० मैकडॉनलने अपने संस्कृत साहित्य के इतिहास में याकोबी के तर्क स्वीकार कर रामायण को बुद्ध के पूर्व का माना था। बाद में उन्होंने छन्दशास्त्र की दृष्टि से पाली गाथाओं तथा रामायण के श्लोकों की तुलना के आधार पर माना है कि वाल्मीकि रामायण की रचना चौथी शताब्दी ई० पू० के मध्य में हुई थी। उनके अनुसार रामायण दूसरी श० ई० के अंत तक अपना वर्तमान रूप धारण कर चुका था (दे० इन० रि० ए०, भाग १०, पृ० ५७५)।
४२	१०*	तत्त्वसंग्रह रामायण में जो दस्यु वाल्मीकि
४३	३*	तत्त्वसंग्रह रामायण के उत्तरकाण्ड में
७५	८	अपने राज्य का एक अंश तथा ३००० कन्याओं को
१०२	९*	टिपिटक की गाथाओं में राम-कथा से
१०२	२*	ज० रा० ए० सौ०, बबई ब्रँच
१०४	२*	दि हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भाग २, पृ० ७४ (भूमिका) और पृ० २२७
१५३	११*	सब से महत्त्वपूर्ण है (दे० ऊपर अनु० १४३)
१६८	१*	दे० इ० हि० क्रा०, भाग २८
१६९	४*	न्यू इंडियन एंटीक्वेरी, भाग ६
२०५	६	सा भवन्तमनुप्राप्ता
२२४	१८	रंगनाथ कवि गीनबुद्ध राजु के आश्रित थे
२२८	१४	लक्ष्मीश नामक कवि
२३६	८	उड़िया में बलरामदास का रामायण
२४१	१०*	कृष्णावतार में राम का बध करेंगे (दे० अनु० ५२०)
२४१	७*	भस्मलोचन (अनु० ६१३) तथा महीरावण की कथा
२४१	४*	कुच-लव का युद्ध (अनु० ७४९)
२४५	१०	वानर-सेनापतियों का जन्म (अनु० ३५७)
२५०	२	अपेक्षाकृत महत्त्वपूर्ण है (दे० आगे अनु० ४४३ और ४७६)
२५४	१०*	अयोध्या के लिए प्रस्थान करना (दे० अनु० ७४९)
२५७	१३*	शतमुख-रावणबध की रचना की है
२७३	४	फलस्वरूप पूर्व हिन्दचीन में चम्पा राज्य की स्थापना

- २७३ १७ प्रथम श० ई० में भारतीयों ने दक्षिण कम्बोदिया में श्वेर जाति के बीच में फूनान राज्य स्थापित किया था। छठी श० ई० में एक अधीनस्थ राजाने फूनान के विरुद्ध विद्रोह कर उत्तर में कम्बूज नामक राज्य स्थापित किया, जो १४ वीं श० ई० तक फलता-फूलता रहा। चीनी इतिहास में उस राज्य का नाम चेन-ला रखा गया है। वहाँ सैकड़ों मंदिरों के खण्डहर भस्मलोचन की कथा से मिलते जुलते वृत्तान्त (अनु० ६१३)
- २७७ ९\* रामलियामृत (सर्ग १८)
- ३२७ ८ तीर्थयात्राओं का वर्णन मिलता है (दे० अनु० ६३७)
- ३४७ ५ दे० आगे अनु० ५१७
- ३५७ १\* समस्त वृत्तान्त प्रक्षिप्त है (दे० अनु० ५६५)
- ३६३ ६\* विनता के दो पुत्र थे, गहड़ तथा अरुण। बाकिष्वात्य (१४, ३३) तथा पवित्रमोक्षरीय (१९, ५५) पाठों के अनुसार सम्पाति तथा अटाय् दोनों अरुण के पुत्र थे; गौड़ीय पाठ (२०, ३४) उनको गहड़ की सन्तान मानता है।
- ४४८ १\* रावण स्वयं कनकमृग बन गया था। सेरीराम का एक ऐसा रूप भी मिलता है जिसके अनुसार रावण स्वयं कनकमृग बन कर राम को उनके राजमहल से दूर ले जाता है और तब सीता के पास लौटकर उनको अपने साथ भाग निकलने के लिए राजी करता है। बाद में उसको पता चलता है कि सीता मेरी पुत्री है और वह उनको अपने महल में सुरक्षित रखता है। अंत में हनुमान् सीता को फिर राम के पास पहुँचाने हैं। दे० ज० रा० ए० सो० स्ट्रैट्स बीच, भाग ५५, पृ० १-२४।
- ४७८ ११\* सेरी राम, रामकेर्ति। अग्निवेश रामायण (छन्द २९) में भी इसका उल्लेख है कि सात बुकों के नीचे एक अभिषाप्त सर्प था।
- ४८३ १३ माला चुराने का आदेश दिया था (दे० अनु० ५१७)।
- ४८४ ११\* महानाटक (अंक ५), जानकी परिणय (अंक ६) और पाश्चात्य उनको लंका दिसलाई। उड़िया के कवियों (धनंदाय तथा उपेंद्रबंज) ने भी इसका उल्लेख किया है।
- ४९२ १८ दे० अनु० २७८; पाश्चात्य वृत्तान्त नं ६, १० और १५; सेरी राम को एक बंशकथा (ज० रा० ए० सो०। स्ट्रैट्स बीच, भाग ५५)।
- ५२५ १२ भारं न बौद्धमहमूर्सहे
- ५९६ ९ भिनः सेत्तिव करन्
- ५९६ १० शुभाचारा भार्याः कन्यास्तु षोडश।
- ६८१ ६ Les etats hindouises
- ७६१ ५



## धोर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

काल न० २२०.३ ३

लेखक १ अम्ब १  
अलम सादरनाथ

शीर्षक राम अम्बा

खण्ड ४०५८ क्रम सख्या